



स्वामी हनुमानदास जी षट्शास्त्री

## भूमिका

वेदान्त का सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप वेदान्तसूत्रों में उपलब्ध होता है, यद्यपि इस क्रमबद्धता तथा एकरूपता के विषय में सन्देह किया जाता है। इन ब्रह्मसूत्रों में कतिपय वेदान्त के आचार्यों के नाम मिलते हैं, जिनमें जैमिनि, आश्वरथ्य, काशकृत्स्न और औडुलोमि के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि प्राचीन समय में कई ब्रह्मसूत्रों या वेदान्तसूत्रों की रचना हुई थी (उदाहरणार्थ—B. N. Krishnamurti Sharma : ABORI, XXIII, P. 398 ; Swami Vreshwaranand : The Brahmasutra's Introd., P 6 , Radhakrishnan · Indian Philosophy, Vol. II, P. 432 ; Vidhushekhar Bhattacharya . आगमशास्त्रम्, अवतरणिका, पृ० २१९, रामकृष्ण आचार्य : ब्रह्मसूत्र के वैष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० ३ ), जिनमें अधिकांश लुप्त हो गये। लुप्त होने का कारण यही बतलाया जा सकता है कि प्रचलित ब्रह्मसूत्र अधिक क्रमबद्ध और प्रामाणिक सिद्ध हुआ। इस कारण इसकी तुलना में अन्य सूत्रग्रन्थों की प्रामाणिकता कम हो गई और वे कालान्तर में लुप्त हो गये।

प्रो० श्रीपादकृष्ण बेलवलकर का कथन है कि उपनिषद् ग्रन्थों के आलोचन से यह ज्ञात होता है कि पहले वेदशाखाओं के अनुसार तत्तद् वाक्यों की क्रमबद्धता के प्रदर्शन तथा तात्पर्य-निर्णय के लिये सूत्रग्रन्थों की रचना हुई थी ( द्रष्टव्य—Belvalkar's Lectures on Vedanta Philosophy, P. 140-41 )। उनके मत में जैमिनि ने सामवेद के अनुसार एक अन्य शारीरक-सूत्र की रचना की थी, जिनके आदिम दो सूत्र प्रचलित ब्रह्मसूत्रों से मिलते थे। इसके प्रमाण में वे सुरेश्वराचार्य की 'नैष्कर्म्यसिद्धि' (हिरियत्रा संस्करण) का निर्देश करते हैं (द्रष्टव्य—आगमशास्त्र, अवतरणिका पृ० ७०)। परन्तु ब्रह्मसूत्रों में उद्धृत जैमिनि के मतों की समीक्षा से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जैमिनि ने किसी अन्य शारीरक-सूत्र की रचना नहीं की थी, अपितु ये सिद्धान्त पूर्वमीमांसा सूत्र में प्रतिपादित सिद्धान्तों से भिन्न नहीं। ( इस सम्बन्ध में विशेष द्रष्टव्य—मेरे निर्देशन में लिखा गया शोध-प्रबन्ध—“शङ्कर और नागार्जुन का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० २७२-७३ )। डा० बेलवलकर के मत में जैमिनि सूत्र को 'छान्दोग्य' ब्रह्मसूत्र का नाम दिया जा सकता है ( द्रष्टव्य—वही, पृ० १४१ ; Belvalkar's article in the “Garbe Festgabe”, 1927, P. 168 ; Belvalkar, “The Multiple Authorship of

the Vedanta-Sutras" in the Indian Philosophical Review, Vol. II, 1918-19, P. 141-154)। उनके मतानुसार एक बृहदारण्य ब्रह्मसूत्र भी विद्यमान था। बाद में इन प्रतिशास्त्रीय ब्रह्मसूत्रों के प्रमुख मूल अशों को सर्व-शास्त्रीय ब्रह्मसूत्रों के रूप में परिणत कर दिया गया। प्रचलित ब्रह्मसूत्र उस सर्व-शास्त्रीय ब्रह्मसूत्र का परिमार्जित रूप कहा जा सकता है ( द्रष्टव्य—वही, पृ० १४२-४६ )।

## ब्रह्मसूत्र का कर्तृत्व और इसकी प्राचीनता

प्राचीन पद्धति के पण्डितसमाज में यह प्रचलित तथा प्रसिद्ध धारणा है कि बादरायण व्यास का नामान्तर है। परन्तु आजकल पाश्चात्य तथा अनेक भारतीय अन्वेषक विद्वान् इस विचार से सहमत नहीं हैं। कुछ तो कहते हैं कि बादरायण को व्यास मान लेने पर भी उनके कृष्णद्वैपायन व्यास होने में कोई प्रमाण नहीं। प्रारम्भ में इसी प्रश्न पर विचार करना आवश्यक होगा। सर्वप्रथम प्रमाण जो उपर्युक्त विचार के समर्थन में उपन्यस्त किया जाता है वह है महर्षि पाणिनि के सूत्र "पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः" ( ४-३-११० ), तथा "कर्मन्दकृशाश्वादिनिः" ( ४-३-१११ )। प्रथम सूत्र में भिक्षुसूत्रकार पाराशर्य का स्पष्ट उल्लेख है और पाराशर्य का अर्थ पराशर-पुत्र है, जो वेदव्यास बादरायण थे। 'भिक्षु' पद सन्यासी का वाचक है। इसलिये इस सूत्र में उपात्त भिक्षुसूत्र सन्यासियों के लिये उपनिषदों के आधार पर लिखा हुआ कोई ग्रन्थ होगा, जो पाणिनि को ज्ञात रहा होगा। आजकल प्रचलित जो ब्रह्मसूत्र है वह भी बादरायण व्यास के नाम से ही प्रसिद्ध है। अतः उपर्युक्त पाणिनि-सूत्राभिप्रेत भिक्षुसूत्र वेदव्यास अर्थात् बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र ही है। इस विचार के प्रसङ्ग में एक उल्लेखनीय मत Rhys Davis का है। उन्होंने अपने ग्रन्थ, "Buddhist India" में लिखा है—“अतिप्राचीन बुद्धकाल के भारत में विभिन्न सम्प्रदायों के कुछ अनुयायिगण आरण्यक जीवन व्यतीत करते थे और अपने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के अनुसार ध्यान, यज्ञानुष्ठान या तपस्या आदि में निरत रहते थे। इनके अतिरिक्त कुछ वैश्वे भी थे जो धूमते रहते थे। वे 'परिव्राजक' कहे जाते थे और उनका भी देश में बड़ा सम्मान था। इनके सामुदायिक नाम भी होने थे और समुदाय 'सघ' कहा जाता था। इन सघों के नाम 'अनुत्तर' में सकलित है। इसी प्रकार ब्राह्मणों के सघ थे और उनके भी सूत्र होते थे। तीसरी शताब्दी में "वैखानस सूत्र" प्रचलित था, जिसमें वैखानस सघ के नियम समुद्घीत थे। पाणिनि के उपर्युक्त सूत्रों से इसी प्रकार के दो ब्राह्मण-सघों की सूचना मिलती है। तदनुसार 'पाराशर्य' और 'कर्मन्द' के कहे हुये भिक्षुसूत्रों को पढ़नेवाले 'पाराशरों' और 'कर्मन्दी' शब्दों से व्यपदिष्ट होने थे ( द्रष्टव्य पृ० ८७-८८ )। नागेश ने अपनी 'शेखर' टीका में 'भिक्षुसूत्र' की व्याख्या करते हुये लिखा है "भिक्षुसूत्रम् = भिक्षुत्वसम्पादकं सूत्रम्। यथा नटसूत्रम्। नटसूत्रज्ञाने हि नटत्वसम्पत्तिः, एवं तज्ज्ञाने ब्रह्मरूपत्वेन सर्वज्ञानात्कर्मस्वनादरेण भिक्षुत्वसम्पत्तेः"। उपर्युक्त उद्धरणों के परिशीलन से यहाँ सिद्ध होता है कि 'भिक्षु-सूत्र' से तात्पर्य पाणिनि-पूर्ववर्ती ब्राह्मणसघों में प्रचलित, पाराशर्य से प्रोक्त, भिक्षुत्वसम्पादक तथा सम्प्रदायविशेष के सिद्धान्तों एवं नियमों के सम्राहक सूत्र से है।

यह भिक्षु-सूत्र वर्तमान वेदान्त-सूत्र ही है तथा वेदव्यास, वेदान्तसूत्र के रचयिता एवं बादरायण से अभिन्न हैं—इन प्रश्नों के सम्बन्ध में परस्परविरोधी रहे प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जिनका संकलन नीचे किया जाता है।

साधक प्रमाण तथा युक्तियाँ :—

( १ ) 'ब्रह्मसूत्र' पद को चर्चा गीता के "ऋषिभिर्बहुधा गीतं, छन्दोभिर्विविधैः पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितम्" ( अ० १३, श्लो० ४ ) । इसके भाष्य में शङ्कराचार्य ने 'ब्रह्मसूत्र' की व्याख्या इन शब्दों में की है—“ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि, तैः पद्यते ज्ञायते ब्रह्म इति पदानि इत्येवमादिभिः ब्रह्मसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते ।” इससे ब्रह्मसूत्र की अतिप्राचीनता सिद्ध होती है ।

( २ ) व्यूषण के अनुसार ब्रह्मसूत्र को पहले किसी सग्रहकार ने एकत्र संग्रहित किया था । ब्रह्मसूत्र पर उपवर्ष ने 'कृतकोटि' नाम की वृत्ति<sup>१</sup> लिखी । बोधायन की वृत्ति का भी यत्र-तत्र उल्लेख प्राप्त होता है । इन दोनों का समय ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व माना जाता है । कुछ लोगों का मत है कि 'उपवर्ष' तथा 'बोधायन' एक ही व्यक्ति के दो नाम थे । अन्य लोग उन्हें भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते हैं । यह भी कहा जाता है कि उपवर्ष ने अद्वैतमत के अनुसार वृत्ति लिखी थी और बोधायन ने विशिष्टाद्वैतमत के अनुसार । जो भी हो, इसमें मतभेद नहीं कि उपवर्ष पाणिनि के समकालिक और गुरु<sup>२</sup> थे । उनकी लिखी हुई 'वृत्ति' से 'ब्रह्मसूत्र' अवश्यमेव प्राचीनतर रहा होगा ।

( ३ ) "उत्तरं भगवान् बादरायण आचार्यः पठति—“अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्” ( ४-४-२२ ) सूत्र की इस अवतरणिका से सिद्ध होता है कि बादरायण 'ब्रह्मसूत्र' के रचयिता थे । ( द्रष्टव्य—बेलवेलकर : The Brahmasutras of Badarayan ( Poona ed. 1928 ) Notes, P. 27, II 1. 12

( ३ ) वाचस्पतिमिश्रकृत भामती का मङ्गलाचरण श्लोक ५ —

“ब्रह्मसूत्रकृते तस्मै वेदव्यासाय धीमते । ज्ञानशक्त्यवताराय नमो भगवते हरेः ॥”

( व्यास = बादरायण )

( ४ ) सर्वज्ञात्ममुनिकृत सक्षेपशारीरक का श्लोक ६ —

वाग्विस्तरा यस्य बृहत्तरङ्गा, वेलातटं वस्तुनि तत्त्वबोधः ।

१. महर्षि शबरस्वामी ने वाचकत्व प्रत्येक वर्ण में है वा वर्णों के समुदाय में या स्फोट में है ? इत्यादि सश्यों को उपस्थित करते हुए “गौरित्यत्र कः शब्दः ? गकारौकारविसर्जनीया इति हि भगवानुपवर्षः” इत्यादि शब्दों से उपवर्ष के सिद्धान्त का उपन्यास किया है । ब्रह्मसूत्र “एक आत्मनः शरीर भावात्” ( ३-३-५३ ) के शङ्कर भाष्य में “इत एव चाकृष्याऽऽचार्येण शबर-स्वामिना प्रमाणांलक्षणे वर्णितम् । अत एव च भगवता उपवर्षेण प्रथमे तन्त्रे आत्मास्ति-त्वाभिधानप्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम इत्युद्धारः कृतः ।”

२. शङ्करस्वामिनामाऽभूद् ब्राह्मणो वेदपारगः ।

वर्षोपवर्षौ तस्येमी तनयावतनुत्विषः ॥

सम्प्राप्य विद्यामनुलां विश्रुतो लोकपूजितः ।

कनीयानुपवर्षोऽस्य मम भर्तुर्महाधनः ॥

पाणिनिर्नाम वर्षस्य शिष्यः पूर्वं जडाशयः ।

तपसा शङ्करं प्राप्य नवं व्याकरणं वशी ॥

( द्रष्टव्य—सोमदत्त : कथासरित्सागर , क्षेमेन्द्र : बृहत्कथामंजरी )

हसकी टीका 'सारसग्रह' मे मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं :—

“रत्नाकररूपेण भगवन्तं व्यासं विष्णवचतारं सूत्रकारं प्रथमगुरुं स्तौति”

( ५ ) आनन्दगिरि टीका श्लोक ५ —

श्रीमद्व्यासमुनिः पयोनिधिरसौ सत्सुक्तिपङ्क्तिस्फुरन्-  
मुक्तानामनवद्यहद्यविपुलप्रद्योतिविद्यामणिः ।  
ज्ञानितः शान्तिधृती दयेतिसरितामेकान्तविश्रान्तिभू-  
भूर्यान्नः सततं मुनीन्द्रमकरश्रेणीश्रयः श्रेयसे ॥

( ६ ) रत्नप्रभाटीका श्लोक ५ —

श्रीशङ्करं भाष्यकृतं प्रणम्य, व्यासं हरि सूत्रकृतं च वच्मि ।  
श्रीभाष्यतीर्थे परहंसतुष्ट्यै वाग्जालबन्धच्छिद्यदमभ्युपायम् ॥

( ७ ) श्रीभाष्य श्लोक २ —

पाराशर्यवच' सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्येदृशताम् ।  
संसारान्निविदीपनव्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीम् -॥

( ८ ) तत्त्वटीका ( कलकत्ता मस्करण ) पृ० ७३ : उद्धृत श्लोक —

“द्वीपे बदरिकाश्रमे, वादरायणमच्युतम् । ... .. ।  
अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात् । ... .. ॥  
... .. । चकार ब्रह्मसूत्राणि, येषांसूत्रत्वमञ्जसा ।

बाधक प्रमाण तथा युक्तिया :—

( १ ) प्रथम प्रमाण के अनुसार ब्रह्मसूत्र गीता से पूर्ववर्ती हो जाता है। किन्तु 'स्मृतेश्च' ( १-२-६ ) इस सूत्र में परामृष्ट 'स्मृति' के सम्बन्ध में शाङ्करभाष्य में लिखा गया है “स्मृतिश्च...” “ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ( गी० १८-६१ ) इत्याद्या” । इस कथन तथा अन्य कतिपय उद्धरणों से प्रतीत होता है कि वर्तमान 'ब्रह्मसूत्र' गीता-परवर्ती है ।

( २ ) “वेदव्यासश्चैवमेव स्मरति” ( १-३-२९ वे० सू० शा० भा० ), “भावं तु वादरा-  
यणोऽस्तिहि” ( १-३-३३ ); इसी पर शा० भा० “वादरायणस्त्वाचार्यो भावमधिकारस्य  
देवादीनामपि मन्यते; “मनु-व्यासप्रभृतिभिः” ( २-१-१२ वे० सू० शा० भा० );  
“स्मरन्ति च व्यासाद्यो यथा” ( २-३-४७ वे० सू० शा० भा० )—इन पङ्क्तियों से स्पष्ट हो  
जाता है कि व्यास अथवा वेदव्यास तथा वादरायण वेदान्तसूत्र रचयिता से भिन्न हैं; क्योंकि इनके  
नाम पृथक् निर्दिष्ट हैं । यदि सूत्रकार से अभिन्न होने लो शाङ्कराचार्य अपने भाष्य में उनका मत पृथक्  
उपन्यस्त नहीं करते । साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि व्यास और वादरायण के  
पृथकतया उद्धृत होने के कारण शाङ्कर के अनुसार वेदव्यास ( महाभारत के रचयिता ) और  
वादरायण सूत्रकार से भिन्न व्यक्ति हैं । उपर्युक्त सूत्र ( १-३-३३ ) में ही वादरायण का उपन्यास  
स्पष्ट रूप से वादरायण की सूत्रकार से पृथक्ता सिद्ध करता है ।

“तथाहि—अपान्तरतमा नाम वेदाचार्यः पुराणर्षिर्विष्णुनियोगात्कलिङ्गापरयोः सन्धौ  
कृष्णद्वैपायनः संबभूवेति स्मरन्ति” ( ३-३-३२ वे० सू० शा० भा० ) । इससे ज्ञात होता है

कि वेदव्यास अर्थात् कृष्णद्वैपायन अपान्तरतमस् के अवतार थे। “यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्”—इस सूत्र में उपन्यस्त आधिकारिकों के उदाहरण के रूप कृष्णद्वैपायन अर्थात् वेदव्यास की चर्चा आयी है। इससे भी सूत्रकार की ‘आधिकारिक’ पद-वाच्य वेदव्यास से भिन्नता प्रतीत होती है।

अन्त में उन प्रमाणों को उपस्थित किया जाता है, जिनमें स्पष्ट रूप से वेदव्यास बादरायण के ब्रह्मसूत्र रचयिता होने का निर्देश है। ब्रह्मसूत्र के अन्तिम सूत्र ( ४-४-२२ ) की अवतरणिका का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। सर्वज्ञात्ममुनि ने ‘संक्षेपशारीरक’ के कई स्थानों पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वेदव्यास बादरायण ‘ब्रह्मसूत्र’ के रचयिता हैं। इसके लिये निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य है —

“भेदादिवर्जितमखण्डमुशन्ति यस्माच्छ्रीबादरायणमतानुगता महान्तः” ॥ १११४६

इसकी टीका ‘सारसङ्ग्रह’ में मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं “भगवद्बादरायणः खलु ‘तत्तु समन्वयात्’ इति सूत्रेणाखण्डैकरसे ब्रह्मणि वेदान्तप्रामाण्यं न्यरूपयत् । अतस्तन्मतानुसारिणः शङ्करभगवत्पादास्तच्छिष्याश्च तथैवोशन्ति” ।

“यद्बादरायणमतं परिगृह्य पूर्व, श्रेयस्करेऽनधिगते खलु चोदनायाः ।  
प्रामाण्यमुक्तमिदमस्य समन्वयस्य, वस्तुस्वरूपकथनेऽप्यविशिष्टमस्ति ॥”

इसकी टीका में मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं—“जैमिनिना “अनुपलब्धेऽर्थे तत्प्रमाणं बादरायणस्याऽनपेक्षत्वात्” इति सूत्रांशेनाऽनपेक्षत्वेनैव वेदप्रामाण्यं बादरायणसम्मतम्” ।

“सूत्रं तत्तु समन्वयादिति विधिव्यापारनिष्ठं वचो,  
मोक्षायैति निवेदनाय कृतवान् वेदान्तवेदी मुनिः । १२६१

इसकी टीका में मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं—“वेदान्तवेदी वेदान्तानां सम्यगर्थवेदन-शीलः मुनिर्बादरायणः “तत्तु समन्वयात्” इति सूत्रं कृतवानिति सम्बन्धः ।”

“वाक्यार्थान्वयितरूपदार्थकथने नेतीति वाक्यं पुनः ।  
साक्षात्सूत्रयति स्म सूत्रकृदतस्तत्परं निश्चितम् ।” १२६२

मधुसूदन सरस्वती टीका—“सूत्रकारो ह्युदाहृतसूत्रेण “अथात् आदेशो नेति नेति” इति वचनं मूर्त्तादिकं कारणब्रह्मस्वरूपमेव प्रतिषेधति नतु रूपि ब्रह्मेति प्रतिपादयंस्तत्पदार्थमेव शोधयामासेति न तत्प्रधानम् ।”

“भूताय भव्यमिति भूतपरं हि सर्वं वेदावसानमिति सूत्रकृदाचक्षे ॥” १३१२  
“यद्यज्जडं भवति संसृतिकारणं तन्नेति स्फुटं वदति सूत्रकृदत्र यस्मात् ॥” १३२४  
“स्वप्न-शुभाशुभफलागमसूचक-स्याद् मिथ्यापि सन्निति च सूत्रकृदाह यत्नात् ।” १३३८  
“तद् बादरायणमतानयनात् प्रतीमः”—२।१४९

मधुसूदन सरस्वती टीका—“तत्र सूत्रे ( ‘अर्थेऽनुपलब्धे’ इत्यादि जैमिनिसूत्रे ) बादरायणमतस्थानयनादाकर्षणादिति सम्बन्धः” ।

न त्तौमि तं व्यासमशेषमर्थं सम्यङ् न सूत्रैरपि यो बबन्ध । विनाऽपि तैः संप्रथिता-खिलार्थं तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरं च ॥ मधुसूदन, सिद्धान्तविन्दु, ग्रन्थान्तश्लोक २ ।

शाङ्कर अद्वैतवाद के सर्वज्ञात्ममुनि तथा मधुसूदन सरस्वती दो प्रमुख आचार्य थे। इनके वाक्यों से यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि वेदव्यास बादरायण ब्रह्मसूत्रकार थे।

इमके अतिरिक्त शाङ्करभगवत्पाद के साक्षात् शिष्य पञ्चपाद ने भी अपने ग्रन्थ 'पञ्चपादिका' में यही लिखा है.—

“नमः श्रुतिशिरःपद्मषण्डमार्त्तण्डमूर्तये।

बादरायणसंज्ञाय मुनये शमवेश्मने ॥ पञ्चपादिका, श्लो० २

‘पञ्चपादिकाविवरणकार प्रकाशात्मा ने मङ्गलश्लोक में इसी बात का समर्थन किया है —

श्यामोऽपि श्रुतिकमलावबोधरागः,  
शान्तः सन्नयति तमोविनाशमन्तः।  
नीरूपं प्रथयति योऽपि गोसहस्रैः,  
तं व्यासं नमत जगत्यपूर्वभानुम् ॥ श्लो० ४।

शाङ्कराचार्य के साक्षात् शिष्य सुरेश्वर ने भी इस बात की पुष्टि की है—“कृष्णद्वैपायनो वेदात्मा ध्वान्तहानिकृत्। प्राह बहुशः प्राणिनां हितकाम्यया। वृ० उ० भा० वात्तिक ३-७-३९।

बालकृष्णानन्द सरस्वती स्वर्चित ‘अद्वैतपञ्चरत्नम्’ की किरणावली टीका के मङ्गलश्लोक में लिखते हैं :—

यदीय सूत्रविलसच्छास्त्रनावा भवाम्बुधिम्।  
सन्तस्तरन्ति तं बन्दे पाराशर्यमहर्निशम् ॥

स्मरण रहे कि यहीं ‘पाराशर्य’ पद पाणिनि के उद्धृत सूत्र ‘पाराशर्यशिलालिभ्यां भिञ्चुन-टसूत्रयोः’ में भी प्रयुक्त हुआ है।

इन सब वचनों से यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि पाराशर्य अर्थात् वेदव्यास बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। उपन्यस्त विविध प्रमाणों के बलाबल के परिशीलन से भी यही निर्णय तर्कसङ्गत जंचता है।

जैकोबी के अनुसार ब्रह्मसूत्र की रचना बहुत बाद अर्थात् २५० से ४५० शताब्दी के भीतर हुई। इस मत के समर्थन में यहाँ युक्ति बतलाई जाती है कि इसमें अन्य दर्शन-सिद्धान्तों का खण्डन है ( द्रष्टव्य—J. O. A. S., 1911, PP. 1-29 )।

कीथ के अनुसार इसका समय अधिक से अधिक २०० शताब्दी हो सकता है। फ्रेजर (Fraser) इसका समय ४०० ईसा पूर्व मानते हैं (द्रष्टव्य—“Literary History of India”, P. 196)।

मैक्समूलर ने इसका समय ३०० ईसा पूर्व स्वीकार किया है (द्रष्टव्य—“Six systems of Indian Philosophy”, P. 113)।

अभयकुमार गुहा इसका समय ६०० ईसा पूर्व मानते हैं (द्रष्टव्य—Jivātman in the Brahmasūtras”; Radhakrishnan : Indian Phil., Vol., II, P. 435; J. D. L., 1921, PP. 281-82)।

दासगुप्ता के अनुसार ब्रह्मसूत्र का समय २०० ईसा पूर्व है ( द्रष्टव्य—History of Indian Philosophy, Vol. I, P. 418 )

बेलवलकर का मत है कि ख्रीष्टाब्द के प्रारम्भ मे ब्रह्मसूत्र का निर्माण हुआ ( द्रष्टव्य—Lectures on Vedanta, P 146 )। उपर्युक्त मतों के सग्रह के पर्यालोचन से इतना स्पष्ट हो जाता है कि प्रचलित ब्रह्मसूत्र की रचना कई शताब्दी ईसा पूर्व में हुई होगी। जैकोबी की यह कल्पना कि वेदान्तसूत्र अन्य दर्शनसूत्रों तथा ईश्वरकृष्णकृत साङ्ख्यकारिका आदि दर्शनग्रन्थों के बाद में निर्मित हुआ, क्योंकि वेदान्तदर्शन मे खण्डनार्थ उपस्थापित अन्य दार्शनिक सिद्धान्त अपेक्षाकृत अर्वाचीन है, मान्य नहीं। इसकी प्रबल युक्ति यह है कि ब्रह्मसूत्र में प्राचीन ऋषियों तथा आचार्यों के अतिरिक्त किसी अर्वाचीन सम्प्रदाय-प्रवर्तक या दार्शनिक सिद्धान्त स्थापक का निर्देश नहीं है। साङ्ख्यमत का खण्डन प्रधानमल्लनिर्वहण-न्याय में विस्तृत रूप में किया गया है, किन्तु “स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नाऽन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्” यह सूत्र स्पष्ट बतलाता है कि स्मृतिकार कपिल महर्षि ही साङ्ख्यमत-प्रवर्तक के रूप मे परामृष्ट हैं। न्याय-वैशेषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिक, पाञ्चरात्र तथा पाण्डुपत मतों के लिये भी यही बात लागू है ( द्रष्टव्य—Shri Veshweshwaranand, Introduction to Vedanta, P 9, १० गोपीनाथ कविराज अच्युत, पृ० २-३ ; विष्णुपुराण, ३।१७।४१-४४ तथा ३।१८।७ )।

## शङ्कराचार्य का समय

शङ्कराचार्य के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। उनका सकलन नीचे किया जाता है.—

( १ ) टी० आर० चिन्तामणि—शङ्कराचार्य का जीवन-काल ६५५ से ६८८ शताब्दी तक ३३ वर्षों का मानते हैं ( द्रष्टव्य—J. O. R. M, 1929, PP. 39-55 )।

( २ ) ए० बी० कीथ—के अनुसार इनका समय ९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में है ( द्रष्टव्य—“Indian Logic and Atomism” P. 39 )।

( ३ ) म० म० स्व० पं० रामावतार शर्मा—शक ७०१ से ७६५ तक इनका समय स्वीकार करते हैं।

( ४ ) स्व० बा० ग० तिलक—ने शङ्कराचार्य का जन्म ६८८ शताब्दी में माना है।

( ५ ) कोलब्रूक तथा विद्वसन—के मत मे शङ्कराचार्य ८वीं से ९वीं शताब्दी के मध्य में हुये।

( ६ ) कृष्णस्वामी—ने शङ्कराचार्य का काल ७८८ शताब्दी में निर्धारित किया है।

( ७ ) टेलर—के अनुसार शङ्कराचार्य ९वीं शताब्दी में हुये।

( ८ ) हौजसन ( Hodgson )—ने शङ्कराचार्य का समय ८वीं शताब्दी में निश्चित किया है।

( ९ ) मैकेन्जी—शङ्कराचार्य को ५वीं शताब्दी मे स्वीकार करते है।



( १० ) वेङ्कटेश्वर—ने शङ्कराचार्य का काल ८०५ से ८९७ शताब्दी के मध्य में निर्दिष्ट किया है ।

( ११ ) के० बी० पाठक, मैक्समूलर, मैकडोनल और टीले—ने शङ्कराचार्य का समय ७८८ से ८२० शताब्दी के अन्तर्गत स्थापित किया है ( द्रष्टव्य—Teile : “Outlines of the History of Ancient Religions,” P 141 , Pathak : “The Date of Śaṅkaracārya,” Indian Antiquary, 1822, PP 173-175, cf “निधिनागोभव-हृद्यब्दे विभवे शङ्करोदयः । कल्प्यब्दे चन्द्रनेत्राऽङ्कवहन्यब्दे ( ३९३१ ) गुहाप्रवेशः ॥ वैशाखे पूर्णिमायान्तु शङ्करः शिवतामियात् ॥”

( १२ ) बर्नेल ( Burnell )—के अनुसार शङ्कराचार्य का काल ७वीं शताब्दी है ( द्रष्टव्य—“South Indian Paleography” ) ।

( १३ ) वेवर ( Hist of Indian literature, P 51 )—नथा ह्युईस रार्डस ( PA-IOC, III, P. 225 ) ने शङ्कर-समय ७४० से ७६७ शताब्दी तक स्वीकृत किया है ।

( १४ ) राजेन्द्रनाथ घोष ( प्रो० बलदेव उपाध्याय द्वारा उद्धृत )—के अनुसार शङ्कराचार्य का समय ६८८ से ७२० शताब्दी तक होना चाहिये (द्रष्टव्य—“Śaṅker and Rāmānuja”, PP 787-807 ) ।

शङ्कराचार्य ने २।२।१०८ के भाष्य में धर्मकोति के एक श्लोक को अज्ञात “सहोपलम्भानियमा-दभेदो नीलतद्विद्योः” तथा उपदेश-साहस्री १८।१४२ में उनके श्लोक “अभिज्ञोऽपि हि बुद्ध्यात्मा” आदि को उद्धृत किया है । २।२।१०८ के भाष्य में दिङ्नाग का कारिका के अज्ञ को “यदन्तरीयरूपं तद् बहिर्वदवभासते” उद्धृत किया है ।

२।२।२२ तथा २।२।२४ सूत्रों के भाष्य में शङ्कराचार्य ने जिन दो बौद्ध आचार्यों के वचनों को उद्धृत किया है, उनमें से प्रथम गुणमतिकृत ( ६३०-६४० ) अभिधर्मकोशव्याख्या में मिलता है ।

आचार्य ने जैनमतखण्डन में जिस मत को उद्धृत किया है वह अकलक के गुरु ममन्तभद्र का प्रतीत होता है । २।२।२३ शा० भा० की टोका भामती में उनका “आप्तमीमासा” का एक वचन “स्याद्वादः सर्वथैकान्त्यस्यागात्” भी उद्धृत है ।

अकलक ७५३ शताब्दी के आस-पास के माने जाते हैं । अतः इनके गुरु ममन्तभद्र का समय ८वीं शताब्दी का प्रारम्भ माना जाना चाहिये ( द्रष्टव्य—म० म० प० गोपीनाथ कविराज जी : “वेदान्तभूमिका, पृ० २७-२८ ) । वाचस्पति ने ८४१ शताब्दी में “न्यायसूची-निबन्ध” की रचना की ( द्रष्टव्य—Randle : Indian Logic In Early Schools,” P. 39 ), प्रो० बलदेव उपाध्याय शङ्कराचार्य, पृ० २९ ; उदयन - लक्षणावली ) । उदयन ने वाचस्पतिकृत “न्यायनात्पर्य-टोका” पर “परिशुद्धिः” लिखी । वाचस्पति ने १।२।३६ के शा० भा० की टोका में पञ्चपादाचार्य-कृत “पञ्चवादिका” के मत का खण्डन किया है । पञ्चपादाचार्य श्रीशङ्कराचार्य के साक्षात् शिष्य थे । भास्कर ने शङ्कर-न्याख्यान में दोष उद्घातित किये हैं । वाचस्पति ने इनका भी खण्डन किया है ( द्रष्टव्य—भामती और कल्पतरु, पृ० १७८-२८४ ) । अतः यह निर्विवाद है कि वाचस्पति पञ्चपादाचार्य तथा भास्कर के उपरान्त हुये । भास्कर ने शङ्कराचार्य का खण्डन किया था इससे यह भी सिद्ध है कि इनके समय तक शङ्करभाष्य की प्रसिद्धि हो चुकी थी । इस प्रसिद्धि के लिये

शङ्कराचार्य और वाचस्पति, जिनके बीच में भास्कर दुष्ट, केवल २०-२१ वर्ष होते हैं, जो पर्याप्त समय नहीं है। उपर्युक्त उद्धरणों से यह निश्चित है कि शङ्कराचार्य का काल प्रचलित मत के अनुसार ७८८-८२० शताब्दी के बीच में इतना पीछे नहीं स्वीकृत किया जा सकता है।

दूसरी ओर जैनपरम्परा पर दृष्टिपात करने पर भी यह सगत नहीं प्रतीत होता। जिनसेन (७८३ शताब्दी के) ने “अष्टसाहस्री के रचयिता नित्यानन्द का उल्लेख किया है। नित्यानन्द ने सुरेश्वराचार्य के वार्षिकों को उद्धृत किया है। अतः सुरेश्वराचार्य ८वीं शताब्दी के मध्य के माने जा सकते हैं। यदि ऐसा है तो सुरेश्वर के गुरु शङ्कराचार्य कैसे ८वीं शताब्दी के अन्त में और ९वीं के प्रारम्भ में माने जा सकते हैं। अतः इन्हें ७वीं शताब्दी के अन्त में और ८वीं शताब्दी के आरम्भ में माना जा सकता है।

शङ्कराचार्य भाष्य की रचना के उपरान्त कुमारिल से मिले जब वे भागीरथी के तट पर तुषानल में अपना शरीर जला रहे थे। आचार्य शङ्कर को कुमारिल ने अपने शिष्य मण्डन के पास भेजा। कुमारिल का समय—भर्तृहरि के स्फोटवाद का खण्डन कुमारिल करते हैं (३० खो० वा० १३७; तन्त्रवार्त्तिक १।३।३० में वा० प०, २।२।११ उद्धृत है), भर्तृहरि की ऐहिकलीला ६५२-५१ में समाप्त हो गई (३० JORM, 1929, PP. 46-47 : H Suing ( Records ) Translated by J Takakuru.), अतः कुमारिल भर्तृहरि के बाद हुये, अर्थात् ६२८-६८० शताब्दी (३० T. R. Chintamani, JORM, 1929, P 46)। शङ्कराचार्य शङ्करभाष्य की रचना के बाद कुमारिल से उनके अन्तिम दिनों में मिले और “बोडशे कृतवान् भाष्यम्” इस वचन के अनुसार उस समय शङ्कराचार्य की आयु सोलह वर्ष की थी। अतः शङ्कराचार्य की जन्मतिथि ६८०-१६=६६४ शताब्दी होनी चाहिये। प्रोफेसर चिन्नामणि का यह मत कि शङ्कराचार्य का जीवनकाल ६५५-६८८ शताब्दी मानना चाहिये तर्कसगत प्रतीत होता है।

## ब्रह्मसूत्र शङ्करभाष्य का सैद्धान्तिक भाग

वेदान्तदर्शन का प्रयोजन उपनिषद्वाक्यार्थनिर्णयपूर्वक ब्रह्मजीवैक्यरूप अखण्डार्थ बोध कराना है। अतएव इसका दूसरा नाम उत्तर-मीमांसा है। ‘मीमांसा’ पद का भारतीय दर्शन में पारिभाषिक अर्थ है और वह है जिज्ञासा विषय विषयक सश्याऽसम्भावनाविपरीतभावनादिनिवर्त्तक विचार। वेदार्थ प्रधानतया दो हैं (१) धर्म, जो कर्मकाण्ड से सम्बन्धित और पूर्वमीमांसा का विषय है, (२) ब्रह्म, जो ज्ञानकाण्डान्तर्गत उपनिषद् से सम्बन्धित और उत्तरमीमांसा का विषय है। फलतः पूर्वमीमांसा (अर्थात् मीमांसा) का जिज्ञास्य धर्म और उत्तरमीमांसा (अर्थात् वेदान्त) का जिज्ञास्य ब्रह्म है। तदनुसार ही दोनों के प्रथम सूत्र क्रमशः ‘अथाऽतो धर्मजिज्ञासा’ और ‘अथाऽतो ब्रह्मजिज्ञासा’ हैं।

“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति”; “ज्ञानादेव तु कैवल्यम्”; “तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथं ज्ञानं मोक्षस्य साधनम्”—इत्यादि अनेकों श्रुति-स्मृतिवचनों के अनुसार तत्त्वज्ञान अर्थात् ब्रह्मसाक्षात्कार मोक्ष का साधन है और मोक्ष ही मानव जीवन का परमपुरषार्थ है। मोक्ष और धर्म में उपायोपेयभाव सम्बन्ध है। “विविदिषन्ति यज्ञेन” इत्यादि, “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः”; “अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते”—इत्यादि वचनों का निष्कर्ष यही निकलता है कि मोक्ष का साधन ब्रह्मसाक्षात्कार है, ब्रह्मज्ञान का साधन विविदिषा है, विविदिषा का साधन

मनोमलक्ष्य है और मनोमलक्ष्य का साधन धर्म है। इस प्रकार धर्म परम्परया मोक्ष का साधन सिद्ध होता है और धर्मज्ञान ब्रह्मज्ञान का अङ्ग माना जाता है।

उपनिषत्तात्पर्यावधारण सबके लिये समान होते हुए भी वेदान्तसूत्रों की व्याख्या भाष्यकारों ने स्वाभिमतवाद के अनुसार विभिन्न रूप से की है। शङ्कराचार्य का अभिमत सिद्धान्त ब्रह्माद्वैतवाद है। अतः इस भूमिका में इसीका सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है।

अद्वैतवाद की स्थापना में शङ्कराचार्य ने माया अथवा अविद्या का अभ्युपगम किया है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है कि माया के अभ्युपगम की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान अतिसुलभ और स्पष्ट है कि जगत् का नानात्व और अद्वैत इन दोनों का सामञ्जस्य माया की जगत्कारणत्व में द्वायता के बिना नहीं सम्भव है। उपनिषदों में दो तरह के परस्पर-विरोधी वाक्य-कदम्ब उपलब्ध होते हैं। एक ओर, “पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्” ; “ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् दक्षिणतश्चोत्तरेण” ; “एकमेवाद्वितीयम्” ; “नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि, जिनसे अद्वैत साधित होता है। दूसरी ओर, “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रेत्याऽभिसंविशन्ति” ; “सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते” ; “ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिच्चाज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः” —इत्यादि, जिनसे नानात्व स्थापित होता है। अद्वैत और नानात्व में स्पष्ट विरोध है। इसी विरोध के परिहारार्थ माया का अभ्युपगम आवश्यक हो जाता है। माया के अभ्युपगम से इन परस्पर-विरोधी वचनों में सामञ्जस्य सुलभ है। माया या अविद्या को शङ्कराचार्य अनिर्वचनीय<sup>१</sup> तथा मिथ्या मानते हैं। माया-कल्पित या अविद्या-प्रत्युपस्थापित<sup>२</sup> सारा जगत् भी अनिर्वचनीय<sup>३</sup> एव मिथ्या है। मिथ्या माया से प्रोद्भासित या विक्षिप्त जगत् के नानात्व से पारमार्थिक अद्वैत की हानि नहीं होती है। पारमार्थिक तत्त्व एक ही है और वह है ब्रह्म। इसके अतिरिक्त समस्त पदार्थ-सार्थ रज्जुसर्पादिवत् प्रातिभासिक या व्यावहारिक है। अगणित प्रातिभासिकी या व्यावहारिकी सत्ताओं से युक्त विविध वस्तुओं की प्रतीति से एक पारमार्थिकी सत्ता या अद्वैत ( Absolute Reality ) का कोई विरोध नहीं। दूसरे शब्दों में पारमार्थिक तत्त्व ब्रह्म एक ही है और परिदृश्यमान नानात्व उत्पादविनाशशाली एव प्रतीतिमात्रजीवित है। इस प्रकार माया के अभ्युपगम से नानात्व का अद्वैत से विरोध परिहृत हो जाता है।

उपर्युक्त परिहार से शङ्कर अद्वैतवाद का मूल-सिद्धान्त यही निष्पन्न होता है—“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नाऽपरः”। किन्तु माया को जगद्विक्षेपकारण मानने पर “भक्षिते-

१. “अव्यक्ता हि माया तत्त्वाऽन्यत्वनिरूपणस्याऽशक्यत्वात् ( ब्र० सू० शा० भा० १-४-३ )।
२. अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेनाऽसकृत्प्रत्युक्तत्वात् ( २-२-२ ) ;  
अविद्याप्रत्युपस्थापितस्वभावत्वाच्च सत्त्वस्य सुतरा न सम्भवति ( १-२-१३ ) ;  
अविद्याकृतनामरूपादि विशेषप्रतिषेधादस्थूलादिशब्दैर्ब्रह्मोपदिश्यते ( ४-३-१४ ) ;  
उपाधीना चाऽविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात् ( ३-२-१५ ) ; नन्वेवमद्वितीयश्रुतिरुपरुध्येत न  
अविद्याकृतनामरूपोपाधिकतया परिहृतत्वात् ( ४-३-२४ ) ।

३. सर्वज्ञत्वैश्वरस्यात्मभूत इवाऽविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वाऽन्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये ससार-  
प्रपञ्चबीजभूते ।

‘सपि लघुने न व्याधिशान्तिः’—इस नय के अनुसार एकमात्र पारमार्थिक तत्व ब्रह्म के साथ माया तथा तत्प्रत्युपस्थापित जगत् को किस प्रकार सम्बन्धित किया जाय यह जटिल समस्या बनी ही रह जाती है। इसी के समाधानस्वरूप शङ्करानुयायियों ने तीन प्रस्थान प्रतिष्ठापित किये : ( १ ) अविच्छेदवाद, ( २ ) प्रतिबिम्बवाद और ( ३ ) आभासवाद, जिनके अनुसार जगत् क्रमशः अपरिच्छिन्न ब्रह्म का परिच्छिन्न नामरूपात्मक प्रतिभास, चित्प्रतिबिम्ब या चिदाभासमात्र है। वेदान्तसूत्रशाङ्करभाष्य में इन तीनों के सङ्केत और तत्परक व्याख्यान समधिगत होते हैं, किन्तु यह मानना पडेगा कि शङ्कराचार्य ने इनमें से किसी एक को एकान्तरूप से नहीं अपनाया। जहाँ जो उपयुक्त जन्म या आवश्यक हुआ वहाँ उसे उपन्यस्त किया। अतः उनके भाष्य में तीनों की पृष्ठभूमि समान रूप से उपलब्ध होती है। उनके शिष्य तथा परवर्ती अनुयायी आचार्यों ने प्रत्येक को विशिष्ट तथा उपबृंहित कर एक प्रस्थान या वाद का रूप दिया।

शाङ्करभाष्य के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि माया के पर्यायवाचक शब्दों के रूप में मिथ्याज्ञान,<sup>१</sup> मिथ्याप्रत्यय, मिथ्याबुद्धि, अव्यक्त,<sup>२</sup> महासुषुप्ति,<sup>३</sup> आकाश,<sup>४</sup> अक्षर,<sup>५</sup> अध्यास<sup>६</sup> और अविद्या<sup>७</sup> का प्रयोग किया है। ‘माया’<sup>८</sup> पद का भी स्पष्ट उल्लेख है।

१ मिथ्याज्ञाननिमित्त नैसर्गिकोऽय लोकव्यवहार ( ब्र० सू० शा० भा० १-१-१ उपोद्घात ); “तदवगत्या मिथ्याज्ञानस्य ससारहेतोर्निवृत्तिः ” ( १-१-४ ); “सशरीरत्वस्य मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात्” ( 1b1d ) “नह्यात्मनः शरीरत्वाभिमानलक्षण मिथ्याज्ञान मुक्त्वाऽन्यतः सशरीरत्व शक्य कल्पयितुम्” ( 1b1d ) “मिथ्याज्ञानकल्पित उपभोगः सम्यग्ज्ञानदृष्टमेकत्वम् । न हि मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन सम्यग्ज्ञानदृष्ट वस्तु सस्पृश्यते” ( १-२-८ ), “मिथ्याज्ञानविजृम्भित नानात्वम्” ( २-१-१४ ), मिथ्याज्ञानपुरस्सरोऽयमात्मनो बुद्ध्युपाधिसम्बन्धः । न च मिथ्याज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानादन्यत्र निवृत्तिरस्ति” ( २-३-३१ ), “मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानेन दग्धमित्यतः साध्वेतदारब्धक्षये विदुषः कैवल्यम्” ( ४-१-१९ ) ।

२ “अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्वैश्या ” ( १-४-३ ) ।

३. “परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुप्ति, यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते ससारिणो जीवाः” ( १-४-३ ) ।

४-५ “तदेतदव्यक्त क्वचिदाकाशशब्दनिर्दिष्टम्—एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गान्ध्याकाश ओतश्च प्रोतश्च ( ब्र० उ०, ३-८-११ ),” ( १-४-३ ) ।

६ तमेतमेवलक्षणमध्यास पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते ( १-१-१ उपोद्घात. ) ।

७. “न चैव परमार्थविषया सृष्टिश्चिः, अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वात्” ( २-१-३३ ); “तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमवेश्वरस्येश्वरत्व सर्वशत्व सर्वशक्तिव च न परमार्थतो विद्ययाऽपास्तसर्वोपाधिस्वरूप आत्मनोऽशितृत्वसर्वशत्वादिब्यवहार उपपद्यते” ( २-१-१४ ), “तस्मादविद्याप्रत्युपस्थापितमपारमार्थिकं जैव रूपमिति ” ( १-३-२० ); “एवमविद्यादिदोषवता धर्माधर्मतारतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपूर्वकं सुखदुःखतारतम्यमनित्य ससाररूपं श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धम्” ( १-१-४ ) ।

८, “मायामात्र ह्येतत्परमात्मनोऽवस्थानयात्मनाऽवभासनं रज्ज्वा इव सर्पादिभावेनेति” ( २-१-९ ); “एक एव परमेश्वर कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुरविद्यया मायया मायाविवदनेकधा विभाव्यते” ( १-३-१९ ) ।

अविद्या के अभ्युपगम के फलस्वरूप ब्रह्म के दो रूप माने गये हैं—“द्विरूपं हि ब्रह्माऽ-  
वगम्यते, नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं, तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवर्जितम्” ( ब्र० सू०  
शा० भा० १-१-१२ ) । पहला व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक, पहला अपर या सोपाधिक  
और दूसरा पर या निरुपाधिक ब्रह्म कहा जाता है । ब्रह्म के सोपाधिक तथा निरुपाधिक दो रूपों  
में वर्णन करने का अभिप्राय यह नहीं कि ब्रह्म के दो भेद हैं, क्योंकि अद्वैत-सिद्धान्त में भेद का  
स्थान ही कहा । एक पारमार्थिक और दूसरा कल्पित—ये दो रूप दो तरह के परस्पर-विरोधी  
वाक्यों में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिये माने जाते हैं । उपनिषदों में—“यत्र हि द्वैतमिव  
भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाऽभूत्तत्केन कं पश्येत् ( बृ० उ०,  
४-५-१५ ), “यत्र नान्यत्पश्यति स भूमाऽथ यत्राऽन्यत्पश्यति तदद्वयं, यो वै भूमा  
तदमृतमथ यदद्वयं तन्मर्त्यम् ” ( छा० उ० ७-२४-१ ), “निष्कलं निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं  
निरञ्जनम् । अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् ” ॥ ( इवे० ६-१९ ), “नेति नेति”  
( बृ० २-३-६ ), “अस्थूलमनणु” ( बृ० ३-८-८ ), “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन  
जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति ( तै० ३।१ ) आदि  
निरुपाधिक ब्रह्म की द्विरूपता को निरूपित करते हैं । तात्पर्य यह है कि पूर्ण निरन्तर और निरुपाधिक  
परब्रह्म ही अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपविशेषों में प्रविष्ट हो परिच्छिन्न, प्रतिबिम्ब या आभास के रूप  
में व्यवहारापन्न-सा हो सोपाधिक-सा प्रतीत होता है । अविद्या की परिधि में तथा उसकी अपेक्षा  
से सोपाधिक रूप में प्रतीत होता हुआ भी ब्रह्म अपने पारमार्थिक स्वरूप में निरन्तर बना ही  
रहता है—“पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाऽवशिष्यते” । अविद्यावशात् ईश्वर तथा जीव सा  
अशाशिभाव से प्रतीत होता है । जगत्कारणत्व तथा शरीरत्व अशाशिभाव के दो पहलू हैं ।

शङ्कराचार्य माया तथा अविद्या में भेद नहीं मानते । माया या अविद्या ईश्वर की उपाधि तथा  
महाशक्ति है । नामरूपादिविधिविशेषात्मक अगणित वैचित्र्यमय समस्त जगत् इसीका  
विक्षेप तथा त्रिजृम्भण है । फलतः सोपाधिक ब्रह्म या अविद्यामवलित परमात्मा ही ईश्वर कहा जाता  
है, जो जगत् के जन्म, स्थिति और प्रलय का कारण है । “सापेक्षो हीश्वरो विषमां सृष्टिं  
निर्मिमीते । किमपेक्षते इति चेत्—धर्माधर्मावपेक्षेत इति वदाम्” ( २-१-३४ ) ईश्वर  
अन्तर्यामी और नियन्ता आदि भी कहा जाता है—“तस्माच्छारीरादन्य ईश्वरोऽन्तर्यामीति सिद्धम्”  
( १-२-२० ) । ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वकर्ता और सर्वशक्तिमान् है । शङ्कराचार्य एक स्थल पर अविद्या  
का स्वरूप बतलाते हुए लिखते हैं—“देहादिष्वनात्मस्वहमस्मीत्यात्मबुद्धिरविद्या, ततस्त-  
स्पृजनादौ रागस्तपरिभवादौ द्वेषस्तदुच्छेददर्शनाद्भयं मोहश्चेत्येवमयमनन्तभेदोऽनर्थव्रातः  
संततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः” ( १-३-२ ) । अन्य दर्शनों में भी अविद्या का स्वरूप यही वर्णित है ।  
परमार्थतः अशरीर भी परमात्मा अविद्या-नत्कार्यबुद्धयाद्युपाधिवशात् शरीर तथा संसारी जीव के  
रूप में प्रतिभासित होना है । जीव संसारी, नामरूपविशेषापन्न, शरीरत्रयावच्छिन्न, रागद्वेषादिदोष-  
कान्दुषित धर्माधर्मादिफलस्वरूप—ममारसमस्तानर्थव्रातसमाकुल-सा प्रतीत होता है ; किन्तु यह  
अपारमार्थिक जैव रूप है, पारमार्थिक स्वरूप तो इसका ब्रह्म ही है, जो ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्त  
अविद्यावृत्त रहता है—“तस्मादविद्याप्रत्युपस्थापितमपारमार्थिकं जैवं रूपं कर्तृभोक्तृरागद्वेषादि-  
दोषकलुषितमनेकानर्थयोगि” ( १-३-२० ) । परमार्थतः ब्रह्म से भिन्न न होता हुआ भी  
ईश्वर तथा दोनों से भिन्न न होता हुआ भी जीव उपाधियों के कारण भिन्न-सा प्रतीत होता है—  
“परमार्थावस्थायामीश्रीश्रीश्रितव्यादिव्यवहाराभावः प्रदृश्यते । व्यवहारावस्थायां तूक्तः  
श्रुतावपीश्वरादिव्यवहारः” ( २-१-१४ ) ; “स्त्यमीश्वरादन्यः संसारी” ( १-१-५ ) ; “नेश्व-

रादन्यः संसारी, तथापि देहादिसंघातोपाधिसम्बन्ध इष्यते एव, घटकरकगिरिगुहाद्युपाधि-  
सम्बन्ध इव व्योमनः ( १-१-५ ) ; “पर एवात्मा देहेन्द्रियमनोबुद्ध्युपाधिभिः परिच्छिद्य-  
मानो बालैः शारीर इत्युपचर्यते” ( १-२-६ ), “पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिकं  
स्वरूपम्, उपाधिकृतं तु शारीरत्वम्” ( ब्र० सू० शा० भा०, ३-४८ ) ।

जीव पारमार्थिक रूप से एक किन्तु औपाधिक रूप से नाना है । विचार करने पर व्यवहारदशा  
में भी जैसे हिरण्यगर्भ समष्टिबुद्ध्युपाध्युपहितत्वेन एक है किन्तु व्यष्टिबुद्ध्युपाध्युपहितत्वेन अनेक  
हैं वैसे जीव समष्टिबुद्ध्युपाध्युपहितत्वेन एक है किन्तु व्यष्टिबुद्ध्युपाध्युपहितत्वेन नाना प्रतीत होता  
है । जीव मे भी एकत्व और नानात्व परस्परविरोधी होते हुए भी असङ्गत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि  
भिन्न दृष्टि से दोनों उपपन्न हैं—“कथं भेदाऽभेदौ विरुद्धौ सम्भवेयाताम् नैव दोषः । आकाश-  
घटाकाशन्यायेनोभयसम्भवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापित्वात् ( ब्र० सू० शा० भा०, २-१-२२ ) ;  
“वास्तवमेकत्वमौपाधिकं नानात्वमित्युभयनिर्देशोपपत्तिरिति परिहरति—नैव दोष इति  
( आ० गि० न्या० नि० ) ; “एवमेकत्वं नानात्वं च हिरण्यगर्भस्य । तथा सर्वजीवानाम्”  
( ब्र० उ० भा०, १-४-६, पृ० ९७-वाणीविलास ग्रन्थमाला ) । ‘सिद्धान्तबिन्दु’ में मधुसूदन  
सरस्वती ने ‘एकजीववाद’ तथा ‘दृष्टिसृष्टिवाद’ को वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त माना है—“अज्ञानो-  
पहितं विम्बचैतन्यमीश्वरः, अज्ञानप्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीव इति वा, अज्ञानानुपहितं  
शुद्धचैतन्यमीश्वरः अज्ञानोपहितं जीव इति वा मुख्यो वेदान्तसिद्धान्त एकजीववादाख्यः ।  
इममेव च दृष्टिसृष्टिवादमाचक्षते” ( पृ० २९, गै० ओ० सी० ) इसी को अर्थात् एकजीववाद को  
चन्द्रशेखर दीवान ने शङ्कराचार्य का स्वाऽभिमतपक्ष कहा है—“मुख्यो वेदान्तसिद्धान्त एकजीव  
वादाख्यः—The three theories set forth are propounded by the followers  
of Śaṅkarācārya who differed from him in some minor particulars.  
His own theory is known as the एकजीववाद (One-Soul-theory) or दृष्टिसृष्टि-  
वाद ( Theory of Idealism ) ( Siddhanta-Bindu notes p. 94 )

Dinesh Chandra Bhattacharya in his article entitled “Māṇḍana,  
Suresvara and Bhavabhūti”—Śāṅkara and his host of followers  
generally favour एकजीववाद ( Ind, Historical Quarterly ) for 1931,  
vol. vii, p. 302 ।

यही दृष्टिकोण शङ्कराचार्य ने जीव के परिमाण के सम्बन्ध में भी अपनाया है । प्रश्न उपस्थित  
होता है कि क्या जीव विभु है या मध्यम परिमाण है या अणुपरिमाण है । “तद्गुणसारत्वात्  
तद्व्यपदेशः”—इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार शङ्कराचार्य ने निर्णय किया कि उपाधि-बुद्धि  
के गुणों की प्रधानता से बुद्धि-परिमाण अणुत्व का जीव में भी व्यपदेश होता है । सारांश यह कि  
जीव परमार्थतः विभु है किन्तु स्वोपाधिबुद्धिवशात् अणु-सा प्रतीत है अर्थात् आनन्त्य पारमार्थिक  
और अणुत्व औपचारिक है । इसी प्रकार जीव शङ्कराद्वैतवेदान्त के अनुसार अणु माना जाता है—  
“यदि च चैतन्यं जीवस्य समस्तशरीरं व्याप्नुयान्नाऽणुर्जीवः स्यात् । चैतन्यमेव ह्यस्य  
स्वरूपमग्रेरिवौष्यप्रकाशौ नात्र गुणगुणिविभागो विद्यत इति । शरीरपरिमाणत्वं च प्रत्या-  
ख्यातम् । परिशेषाद् विभुर्जीवः । कथं तर्ह्यणुत्वादिव्यपदेश इत्यत आह ‘तद्गुणसारत्वात्  
तद्व्यपदेशः’ । तस्मात्तद्गुणसारत्वाद् बुद्धिपरिमाणेनास्य परिमाणव्यपदेशः । तत्रैवमेव

समञ्जसं स्याद् यद्यौपचारिकमणुवं जीवस्य भवेत्पारमार्थिकं चानन्त्यम्” ( ब्र० सू० शा०  
भा० २-३-२९ ) ।

अविद्या-दशा में जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म माया या अविद्या से आवृत-सा रहता है और उपाधिकल्पित जैव रूप ही प्रगट रहता है । दृष्टि, श्रुति, मति और विज्ञाति जीव का स्वरूप है । यह स्वरूप इस दशा में भी अनावृत रहता है, अन्यथा व्यवहार नहीं बनता, किन्तु अन्तर यह है कि संसारित्व की अवस्था में विवेकविज्ञान अर्थात् ब्रह्मजीवैक्यज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व उपर्युक्त दृष्ट्यादि-ज्योतिःस्वरूप शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदना उपाधियों से अविद्विक्त सा रहता है उसी प्रकार जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक की स्वच्छता और शुद्धता-रूप स्फटिकस्वरूप विवेकग्रहण के पहले रक्त, नील आदि उपाधियों से अविद्विक्त-सा रहता है । जीव का यह ज्योति स्वरूप अवि-वेकावस्था में कूटस्थनित्यदृक्स्वरूप नहीं आविर्भूत होता किन्तु शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धि-सघातरूप उपाधियों के प्रभावों से उपप्लुत, अनवरत-परिवर्त्तनशील, अनित्य अर्थात् उत्पादविनाशशाली, परिच्छिन्न तथा मलिन-सा प्रतीत होता है । इतना ही नहीं, जीव शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धि-चित्त-अहङ्कार-व्यापार-रूप कर्म के फलस्वरूप भोग के कारण त्रिविधताप पीडित-सा बना रहता है । यही है जीव का संसारित्व अथवा बन्ध । इस बन्ध की निवृत्ति ब्रह्मजीवैक्यरूपविवेकज्ञान से अविद्यानिवृत्ति के द्वारा होती है । जिस प्रकार नेत्ररूप प्रमाण से स्फटिकस्वरूपसाक्षात्कार के हो जाने पर अपने स्वरूप अर्थात् स्वच्छता और शुद्धता में, जो पहले भी निरन्तर उममे थे ही, अभिनिष्पन्न या आविर्भूता-वस्थित हो जाता है, उसी प्रकार जीव श्रुतिवाक्य से ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्कार हो जाने पर अपने पार-मार्थिक स्वरूप अर्थात् शुद्ध-कूटस्थ-नित्य चैतन्य स्वरूप में अभिनिष्पन्न अर्थात् आविर्भूताऽवस्थित हो जाता है । विवेकविज्ञान के अभाव में अपने पारमार्थिक स्वरूप के आवृत अर्थात् अनाविर्भूत रहने पर जैव रूप में संसारी तथा बद्ध-सा बना रहता है । किन्तु विवेकविज्ञान के स्वरूप के आविर्भूत हो जाने पर मुक्तरूप से साक्षात्कृत हो जाता है । जो पहले भी परमार्थतः वह था ही । ‘तत्त्वमसि’ इत्यादि श्रुतिवाक्यों से समुत्पन्न विवेकविज्ञान ही जीव का शरीर से समुत्थान अथवा अशरीरत्व है और अविवेक से उसका सशरीरत्व अथवा बन्ध है—“अत्रोच्यते—प्राग्विवेकविज्ञानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य दृष्ट्यादिज्योतिःस्वरूपं भवति । यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छद्यं शौक्ल्यं च स्वरूपं प्राग्विवेकग्रहणाद्रक्तनीलाद्युपाधिभिरविविक्तमिव भवति । प्रमाणजनितविवेकग्रहणात्तु पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छयेन शौक्ल्येन च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इत्युच्यते प्रागपि तथैव सन् । तथा देहाद्युपाध्य-विविक्तस्यैव सतो जीवस्य श्रुतिकृतं विवेकविज्ञानं शरीरसमुत्थानम्, विवेकविज्ञानफलं स्वरूपेणाऽभिनिष्पत्तिः केवलात्मस्वरूपावगतिः । तथा विवेकाऽविवेकमायेत्रेवात्मनोऽ-शरीरत्वं सशरीरत्वं च । तस्माद् विवेकविज्ञानाभावादानाविर्भूतस्वरूपः सन्विवेकविज्ञाना-दाविर्भूतस्वरूप इत्युच्यते” ( ब्र० सू० शा० भा० १-३-२९ ) ; “यदि संसार्येवात्मा शरीरः कर्त्ता भोक्ता च शरीरमात्रव्यतिरेकेण वेदान्तेषूपदिष्टः स्यात्तर्हि फलश्रुतेरर्थवादत्वं स्यात् । अधिकस्तावच्छारीरादात्मनोऽसंसारीश्वरः कर्त्तृत्वादिसंसर्गरहितोऽपहतपाप्मत्वादि-विशेषणः परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिश्यते वेदान्तेषु ( ब्र० सू० शा० भा०, ३-४-८ ) । जीव में कर्त्तृत्व, भोक्तृत्व, जन्ममरणपरम्परापन्नत्व, अविद्याऽस्मितारगद्वेषाऽभिनिवेशरूपपद्मच्छेदभाजनत्व रागद्वेषादिदोषकलुषितत्व तथा तज्जन्यसमस्तानर्थजालग्रथितत्व आदि जो भी संसारित्वपरिणाम-कलाप से प्रतीत होते हैं वे सब विवेकविज्ञानाऽभावनिबन्धन और परिकल्पित हैं—“नित्यशुद्धशुद्ध-

मुक्तस्वभावे कूटस्थनित्ये एकस्मिन्नसङ्गे परमात्मनि तद्विपरीतं जैवं रूपं व्योम्नीव तलमलादि परिकल्पितम्” ( वे० सू० शा० भा० १-३-२० ) ।

उपर्युक्त विवेचन से यही निर्गलित होता है कि जीव परमार्थतः शुद्धचैतन्यस्वरूप आत्मा होता हुआ भी अविद्यावेशवशात् देहात्मभावपन्न-सा होकर तत्कृतदुःख से अपने को दुःखी मान लेता है और इस प्रकार अविद्याकृतदुःखोपभोगाभिमानो होकर ससार के नानाविध छेशो तथा त्रिविध तापों का भाजन बन जाता है । यही ससारित्व, शारीरत्व तथा अविद्याकृतविविधदुःखोपभोगाभिमानित्व जीव का बन्ध है । किन्तु यह दुःखभिमान जीव का अविद्याकृतनामरूपोपनत देहेन्द्रियाद्युपाध्यविवेक निमित्तक अर्थात् मिथ्याभिमानभ्रमनिमित्तक ही है पारमार्थिक नहीं—“जीवो ह्यविद्यावेशव-शाद्देहात्मभावमिव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन दुःख्यहमित्यविद्यया कृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते । जीवस्यापि अविद्याकृतनामरूपनिर्वृत्तदेहेन्द्रियाद्युपाध्यविवेकनिमित्त एव दुःखाभिमानो न तु पारमार्थिकः । ततश्च निश्चितमेतदवगम्यते मिथ्याभिमानभ्रमनिमित्त एव दुःखातुभव इति ( ब्र० सू० शा० भा०, २-३-४६ ) । जिस प्रकार आकाश स्वोपाधि घटादि के चलते रहने पर घटावच्छिन्न आकाश के रूप में चलता हुआ-सा दिखाई देता है फिर भी मूलभूत आकाश नहीं चलता उसी प्रकार अविद्याप्रत्युपस्थापित-बुद्धयाद्युपहित जीव रूपी अश के दुःखी-सा होने पर भी अशी ईश्वर दुःखी नहीं होता—“यथा आकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाष्यमानोऽपि न परमार्थतो गच्छति एवमविद्याप्रत्युपस्थापिते बुद्धयाद्युपहिते जीवाख्येऽशे दुःखायमानेऽपि न तद्वानीश्वरो दुःखायते” ( ब्र० सू० शा० भा० २-३-४६ ) ।

आपातत' उपर्युक्त बन्ध से छुटकारा मोक्ष कहा जा सकता है, किन्तु पूर्ण विवेचन करने पर अपने पारिभाषिक अर्थ में उससे अधिक हो जाता है । तदनुसार यह कहना होगा कि अविद्यानिमित्तकजीवभावव्युदास से ब्रह्मभाव ही मोक्ष है—“तथा चाऽविद्यानिमित्तजीवभावव्युदासेन ब्रह्मभावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः—‘तत्त्वमसि’ इत्येवमादयः ( ब्र० सू० शा० भा० २-३-४६ ) । उपाधियोग से वस्तुस्वरूप परिवर्तन नहीं होता । स्वच्छ स्फटिक अलक्तक आदि उपाधि के योग से अस्वच्छ नहीं होता या जपाकुसुमप्रतिबिम्ब योग से रक्त नहीं हो जाता । चपल तरङ्गों में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा प्रतिबिम्ब द्वारा तरङ्गों के योग से वस्तुतः तरङ्गानुसार दोलायमान नहीं हो जाता । उसी तरह नित्यशुद्धबुद्धसुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म उपाधियोग से न तो वस्तुतः ईश्वर तथा जीव और न ससारकारण एव ससारी, शारीर, कर्ता, भोक्ता और बद्ध हों जाता हैं । इसलिये उपर्युक्त अविद्याप्रत्युपस्थापित बन्ध का निरास अविद्यानिवृत्ति से स्वतः हो जाता है और जीव की पारमार्थिक मुक्तस्वरूपता जो सतत है ही किन्तु अविद्यावशात् आवृत या अनाविर्भूत-सी बनी रहती है, स्वतः आविर्भूत हो जाती है । सारांश यह कि मोक्ष न केवल अविद्या-तत्कार्यनिवृत्ति है अपितु ब्रह्मभाव है—“नह्युपाधियोगादप्यनादृशस्य वस्तुनोऽन्यादृशः स्वभावः सम्भवति । नहि स्वच्छः सन्स्फटिकोऽलक्तकाद्युपाधियोगादस्वच्छो भवति; भ्रममात्रत्वादस्वच्छता-भिनिवेशस्य; उपाधीनां चाविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्” ( ब्र० सू० शा० भा०, ३-२-११ ), “बुद्धयाद्युपाधिकृतं तु विशेषमाश्रित्य ब्रह्मैव सज्जीवः कर्ता भोक्ता चेत्युच्यते । तस्योपाधिकृतविशेषपरित्यागेन स्वरूपं ब्रह्म” ( ब्र० सू० शा० भा०, १-१-३१ ) ; “अतोऽविद्याकल्पितसंसारित्वनिवर्तनेन नित्यमुक्तात्मस्वरूपसमर्पणाच्च मोक्षस्याऽनित्यत्वदोषः । नित्यशुद्धब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य, ब्रह्मभावश्च मोक्षः” ( ब्र० सू० शा० भा०, १-१-४ ) । निष्कर्ष यह कि अविद्यावृतस्वरूप का विद्याकृतानावरण मोक्ष की निष्पत्ति है । दूसरे शब्दों में, नित्याऽ-



धिगत मोक्ष, जो अविद्या के कारण अनाविर्भूत या अनधिगत सा प्रतिभासित हो रहा था, अविद्या-निवृत्ति के कारण आविर्भूत या अधिगत हो जाता है—“तद्धयसाध्यं नित्यसिद्धस्वभावमेव विद्ययाधिगम्यत इत्यसकृदेवादिष्म ( ब्र० सू० शा० भा०, ४-१-५२ ) ।

नामरूपप्रपञ्चप्रविलानन से ब्रह्मतत्त्वावबोध होता है । प्रश्न यह उपस्थित होता है कि प्रपञ्चप्रविलानन क्या है ? क्या यह अग्नि के प्रकृष्टताप के सपर्क से घृतकाठिन्य के प्रविलय के समान है या एक चन्द्र तिमिरकृत अनेक चन्द्र प्रपञ्च के समान अविद्याकृत नामरूपप्रपञ्च का विद्या से प्रविलयन है ? दूसरी बात यह है कि आदि मुक्त ने जब एकवार पृथिव्यादिप्रविलय कर दिया तब पृथिव्यादिसूय अन्य बद्ध जीवों का जगत् हो जायगा । सभी प्रश्नों का समाधान है कि अविद्याध्यस्तप्रपञ्च के प्रत्याख्यान से ब्रह्म ही आवेदनीय है और ‘एकमेवाऽद्वितीयं ब्रह्म’ ‘नत्सत्यं स आत्मा तस्वमसि’ इन वाक्यों से ब्रह्म का आवेदन हो जाने पर विद्या स्वय उत्पन्न हो जाती है और अविद्या बाधित हो जाती है और तब सकल नामरूपप्रपञ्च स्वप्नप्रपञ्च के समान प्रविलीन हो जाता है—“ततो ब्रह्मैवाऽविद्याध्यस्तप्रपञ्चप्रत्याख्यानेनावेदयितव्यम् , तस्मिन्नावेदिते विद्या स्वयमेवोत्पद्यते’ तथा चाऽविद्या बाध्यते, ततश्चाऽविद्याध्यस्तः सकलोऽयं नामरूपप्रपञ्च स्वप्नप्रपञ्चवत्प्रविलीयते” ( ब्र० सू० शा० भा०, ३-२-२१ ) । ब्रह्म में नामरूपप्रपञ्च का अवभास अध्यास है—“अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धिरित्यवोचाम” ।

शङ्कराचार्य जीवन्मुक्ति का सिद्धान्त मानते हैं । विद्या अर्थात् ब्रह्मसाक्षात्कार से अविद्यानिवृत्ति हो जाने पर समस्तनामरूप प्रपञ्च का सद्यः उपशम हो जाता है । ज्ञान से अर्क्षाणाऽप्रशिष्ट प्रारब्धकर्म को छोड़कर समस्त कर्मपुञ्ज दग्ध हो जाता है । इसका क्षय भोग से ही होता है और तदर्थ भोगावसानपर्यन्त शरीर बना रहना है । इस प्रकार सशरीर होता हुआ भी मुक्त ‘जावन्मुक्त’ कहा जाता है—“प्रवृत्तफलस्य तु कर्माशयस्य मुक्तेषोरिव वेगक्षयात्प्रवृत्तिः, तस्य तावदेव चिरम् इति शरीरपातावधिज्ञेयकरणात्” ( ब्र० सू० शा० भा०, ३-३-३२ ) ।

अन्त में यह लिख देना आवश्यक होगा कि शङ्करानुयायियों के द्वारा बाद में उपबृंहित समस्त सिद्धान्त बीजरूप में शङ्करकृतियों में उपलब्ध होने हैं । विस्तरभय से उनका पूर्ण विवेचन इस भूमिका में नहीं किया जाता है । संक्षेपतः शाङ्करसिद्धान्त के सामान्यज्ञान के लिये यह भूमिका पर्याप्त होगी ।

**उदाहरणार्थ—**शङ्कराचार्य के अनुयायियों में तीन वाद प्रचलित थे :—( १ ) अवच्छेदवाद, ( २ ) प्रतिबिम्बवाद तथा ( ३ ) आभासवाद—

“वाचस्पतेरवच्छेद आभासो वार्त्तिकस्य च ।  
संज्ञेयशारीरकृतां प्रतिबिम्बमिहेष्यते ॥”

शङ्कराचार्य ने इन तीन वादों में से किसी का न प्रतिषेध किया और न किसी के प्रति पक्षपात दिखलाया, प्रत्युत यथास्थान इन तीनों का अपने भाष्यों में उपयोग किया । अतएव इन तीनों के बीजभूत समर्थक वाक्यकदम्ब यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं ।

अवच्छेदवाद के समर्थक सङ्केतस्थल :—

जीव के प्रसङ्ग में यह ऊपर कहा जा चुका है कि अनवच्छिन्न परमात्मा ही अविद्याकृतनाम-

रूपादि उपाधियों से अवच्छिन्न-सा हो जीवभावापन्न प्रतीत होता है। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ उसी अनवच्छिन्न के अवच्छेदात्मक अवभास हैं। इस वाद के प्रतिपादक निम्न-लिखित स्थल हैं.—

“घटकरकगिरिगुहाद्युपाधिसम्बन्ध इव व्योम्नः” (१-१-५), “पर एवात्मा देहेन्द्रियमनो-बुद्ध्युपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बालैः शारीर इत्युपचर्यते, यथा घटकरकाद्युपाधिवशादपरि-च्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभासते, तद्वत्” (१-२-६), “एकस्यैव तु भेदव्यवहार उपाधिकृतः, यथा घटाकाशो महाकाश इति” (१-२-२०), “यस्तु सर्वशरीरैषुपाधिभिर्विनोपलक्ष्यते परमात्मैव स भवति। यथा घटादिच्छिद्राणि घटादिभिरुपाधिभिर्विनो-पलक्ष्यमाणानि महाकाशा एव भवन्ति” (१-३-७), “उपाधिनिमित्तो विभाग आकाश-स्येव घटाद्युपाधिनिमित्तः” (२-१-१३), “घटाकाशन्यायेनोभयसंभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठा-पितत्वात्” (२-१-२२), “घटाद्युपाधिनिमित्त त्वस्य प्रविभागप्रतिभानमाकाशस्येव घटादिसम्बन्धनिमित्तम्” (२-३-१७), यथा चाकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानोऽपि न परमार्थतो गच्छति” (२-३-४६), “अवच्छिन्न इवाज्ञानात्” —इत्यादि ( आत्मबोध )।

प्रतिबिम्बवाद के समर्थक सङ्केतस्थल :—

सत्, चित्, आनन्दरूप परमात्मा यद्यपि एक, अनन्त, अप्रमेय, अद्वितीय है तथापि नाम-रूपात्मक अनेकों उपाधियों से प्रतिबिम्बित होने के कारण बिम्बभूत परब्रह्म उसी प्रकार अनेकधा अवभासित होता है जैसे एक ही सूर्य वस्तुतः एक होते हुए भी घटशरावादिगत उदक से अनेकसा प्रतीत होता है। इस प्रकार जगत् के सभी पदार्थ एक बिम्बभूत ब्रह्म के नानाविध प्रतिबिम्ब हैं।

इस वाद के प्रतिपादक निम्नलिखित स्थल हैं.—

“ज्ञानस्यैकत्वोपपत्तेः। सर्वदेशकालपुरुषाद्यवस्थमेकमेव ज्ञानं नामरूपाद्यनेकोपाधि-भेदात्सवित्रादि जलादिप्रतिबिम्बवदनेकधाऽवभासते इति” (क० उ० शा० भा०, ६-२);

“प्रतिफलति भानुरेकोऽनेकशरावोदकेषु यथा।

तद्वदसौ परमात्मा ह्येकोऽनेकेषु देहेषु ॥ (प्रबोधसुधाकर, अद्वैत प्रकरण)

रूपं रूपं प्रतीदं प्रतिफलनवशात्प्रातिरूप्यं प्रपेदे। (शतश्लोकी);

इन्द्रो मायाभिरास्ते श्रुतिरिति वदति व्यापकं ब्रह्म तस्मात्।

जीवत्वं यात्यकस्मादतिविमलतरे बिम्बितं बुद्ध्युपाधौ ॥ (शतश्लोकी)

“स एष प्रज्ञानरूप आत्मा ब्रह्मापरं सर्वशरीरस्य प्राणः प्रज्ञात्माऽन्तःकरणोपाधिष्वनु-प्रविष्टो जलभेदगतप्रतिबिम्बवद्विरण्यगर्भः प्राणप्रज्ञात्मा। एष एवेन्द्रो गुणाद्देवराजो वा। (ऐ० उ० भा० ३।१), “तस्य प्रतिबिम्बाख्यपुरुषस्य निष्पत्तिरस्तेः प्राणात्” (बु० उ० शा० भा०, पृ० ४५८ वा० वि० प्र० मा०);

“सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते।

बुद्ध्येवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत् ॥” (आत्मबोध),

“बुद्ध्याद्युपाधिस्वभावानुविधायी हि स चन्द्रादिप्रतिबिम्ब इव” (वृ० उ० भा० २।१०);

“तदुच्यते वृद्धिहासभाक्स्वमिति । जलगतं हि सूर्यप्रतिबिम्बं जलवृद्धौ बर्धते, जलहासे हसति जलचलने चलति, जलभेदे भिद्यते इत्येवं जलधर्मानुयायी भवति, नतु सूर्यस्थ तथात्वमस्ति” ( ब्र० सू० शा० भा०, ३-२-३० ) । अर्थात्—जैसे जलगत सूर्य-प्रतिबिम्ब जलवृद्धि के साथ बढ़ता-सा, जलहास के साथ हसित-सा, जलचलन के साथ कम्पित-सा तथा जलभेद से भिन्न-सा होता हुआ जलधर्म का अनुयायी-सा हो जाता है, उसी प्रकार परमार्थन- अविद्यत एक रूप सदब्रह्म देहाद्युपाधि से वृद्धिहासादिक धर्मों का अनुगमन-सा करता है, “यथा चोदशरावादिकम्पनात्तद्गते सूर्यप्रतिबिम्बे कम्पमानेऽपि न तद्धान्सूर्यः कम्पते ( ब्र० सू० शा० भा०, २-३-४६ ); तत्तत्र यस्मादद्वैतमिव तस्मादेवेतरोऽसौ परमात्मनः खित्यभूत आत्माऽपरमार्थश्चन्द्रादिरिवोदकचन्द्रादिप्रतिबिम्ब इतरो घ्राणेतरौ घ्राणेनेतरं प्रातव्यं जिघ्रति” ( वृ० उ० शा० भा० );

“चलत्युपाधौ प्रतिबिम्बलौह्यमौपाधिकं मूढधियो नयन्ति ।

स्वबिम्बभूतं रविवद्विनिष्क्रियं कर्त्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति ( विवेकचूडामणि — )

आभासवाद के समर्थक सङ्केतस्थल —

प्रतिबिम्बवाद और आभासवाद में सूक्ष्म अन्तर है । प्रतिबिम्बवादी पद्मपादाचार्य और प्रकाशात्मयति प्रभृति बिम्ब चित्त से प्रतिबिम्ब को अभिन्न<sup>१</sup> मानते हैं, उसी प्रकार जैसे दपर्णस्थ मुख ग्रीवास्थ मुख से वस्तुतः अभिन्न है किन्तु आभासवादी सुरेश्वराचार्य और आनन्दगिरि आदि आभास को चित्त से न अभिन्न, न अभिन्न और न उभय अतएव अनिर्गन्धीय मानते हैं, और अत एव इसकी उत्पत्ति स्वीकार करते हैं । इम मत<sup>२</sup> के अनुसार ईश्वरादि स्थावरान्त समस्त जगत् चिदाभासरूप है । अविद्यान्तर्गत चिदाभास साक्षात् चिदुद्भूत होने के कारण चित्कारणक और अनादि<sup>३</sup> कहा जाता है और उस स्वान्तर्गत चिदाभास से सतत अनुप्राणित, उद्भासित तथा सत्तान्वित होने के कारण अविद्या चिदाभास मानी जाती है । यह चिदाभास कारण-चिदाभास<sup>४</sup> कहा जाता है । अविद्याकार्य-बुद्ध्याद्यन्तर्गत चिदाभास अविद्याद्वारक ( अर्थात् स्वकारणाऽविद्यान्तर्गतचिदाभासप्रसूत ) होने के कारण अविद्यामूलक कहे जाते हैं । बुद्ध्यादि समस्त पदार्थसार्थ या अविद्याकार्यजात प्रातिस्विक रूप से स्वान्तर्गत चिदाभास से अनवरत अनुप्राणित, उद्भासित तथा सत्तायुक्त रहने के कारण चिदाभास माने जाते हैं । ये कार्य-चिदाभास<sup>५</sup> कहे जाते हैं । दोनों प्रस्थानों में कुछ अवान्तर

१ “उपाधिस्थितवैशिष्ट्येन प्रतिबिम्बस्य (आभासस्य) असत्त्वम् । आभासश्च न बिम्बधर्मो नाप्युपाधिधर्मो नापि स्वतन्त्र इत्यत्र प्रतिपादितम्” — वाक्यसुधाटीका, श्लो० ३६ ।

२. “ईशादिविषयान्त यत्तदविद्याविजृम्भितम्” ( वृ० भा० वा० ), “तदन्यद् यत् तदाभासम्” ( वृ० भा० वा० ); “कूटस्थदृष्टि-तन्मोहौ दृष्ट्याभासश्च तत्रयम् । कारणं जगत । ( वृ० भा० वा० ३-४-८६ ) ।

३. “चिदाभासं तमो ज्ञेयम्” ( वृ० भा० वा० १-४-३४१ ), प्रत्यग्भवान्तं चिदाभासम्” ।

४. “कूटस्थालैकहेतूत्थश्चिद्बिम्बो मोहगस्तु य., स्वोपादानानुरोधित्वात् ” ( वृ० भा० वा० ४-३-४१५ ) ।

५. “आत्माभासोऽपि योऽज्ञाने तत्कार्ये चाऽवभासते । कार्यकारणतारूपः ” ( वृ० भा० वा०, ४-३-१३२० ) ।

मतभेद भी है, जिनका विवेचन ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य बहिर्भूत होने के कारण इस भूमिका में नहीं किया जाता है ।

आभास-समर्थक वाक्य ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य में २-३ ही है, किन्तु अन्य कृतियों में पर्याप्त हैं, जिनके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं —

“आभास एव चैव जीवः परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवत्प्रतिपत्तव्यः । न स एव साक्षात् । नापि वस्वन्तरम् । . . . आभासस्य चाऽविद्याकृतत्वात्तदाश्रयस्य संसारस्याऽविद्याकृतत्वोपपत्तिरिति, तद्व्युदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्मभावस्योपदेशोपपत्तिः । ( ब्र० सू० शा० भा० २-३-५० ) ।

“कल्पयत्यात्मनात्मानम्” इत्यादि ( गौडपाद कारिका १२ ) ;

“जीवो हि नाम देवताया आभासमात्रः” ( छा० उ० भा०, ६-३-२ ) ,

“गभ्यते शास्त्रयुक्तिभ्यामाभासत्वमेव च” ( उपदेशसाहस्री, २-१८-४३ ) ,

“आभासस्याप्यवस्तुतः” ( उपदेशसाहस्री, २-१८-४३ ) ;

“आभासे परिणामश्चेन्न रज्ज्वादिनिभत्ववत् ।

सर्पादेस्तथाऽवोचमादर्शे च मुखत्ववत् ॥ ( उ० सा०, २-१८-११४ ) ;

“मुखाभासो यथादर्शे आभासश्चोदितो मृषा” ( उ० सा०, २-१८-८७ ) ;

इनके अतिरिक्त कुछ पङ्क्तियों ऐसी उपलब्ध होती हैं, जिनमें ‘आभाम’ शब्द प्रयुक्त नहीं हैं किन्तु वे अर्थतः आभास-परक हैं । उनके उद्धरण नीचे दिये जाते हैं —

“नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावे कूटस्थनित्ये एकस्मिन्नसङ्गे परमात्मनि तद्विपरीत जैव रूपव्योम्नोव तलमलादि परिकल्पितम्” ( १-३-१९ ) ।

“प्राग्विवेकविज्ञानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य दृष्ट्यादिज्योतिःस्वरूपं भवति । यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छद्यं शैवस्य च स्वरूपं प्राग्विवेकग्रहणाद्रक्तनीलाद्युपाधिभिरविविक्तमिव भवति” ( १-२-१९ ) , “जीव ईश्वरस्यांशो भवितुमर्हति, यथाऽग्नेर्विस्फुलिङ्गः । अश इवाश, नहि निरवयवस्य मुख्यांशः सम्भवति” ( २-३-४३ ) ; “सूर्यप्रतिबिम्बे कम्पमानेऽपि न तद्वान् सूर्यः कम्पते, एवमविद्याप्रत्युपस्थापिते बुद्ध्याद्युपहिते जीवाख्येऽंशे दुःखायमानेऽपि न तद्वानीश्वरो दुःखायते” ( २-३-४६ ) । उभयलिङ्गाधिकरणे जीवो जलचन्द्र-जल-सूर्याभ्यामुपमितः । इन पङ्क्तियों का तात्पर्य आभास में ही पर्यवसित होता है ।

दूसरा उदाहरण मुक्ति-भेद का दिया जा सकता है । शङ्करानुयायियों ने मुक्ति का त्रिविध भेद किया है—( १ ) क्रममुक्ति, ( २ ) जीवन्मुक्ति और ( ३ ) विदेहमुक्ति । इन तीनों का सक्षिप्त उल्लेख ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य में किया गया है—“तत्र कानिचिद्ब्रह्मण उपासनान्यभ्युदयार्थानि, कानिचित्कर्मसमुक्त्यर्थानि, कानिचित्कर्मसमृद्धयर्थानि” ( १-१-१२ ), इति च सम्यग्दर्शन-

१. उपास्तीना मुक्त्यर्थत्वाद् विद्यावद् वस्तुगामितेत्याशङ्क्य साक्षात् मोक्षार्थतेत्याह-तत्र कानिचित्-इत्यादि । अभ्युदयार्थानि प्रतीकोपासनानि, क्रममुक्त्यर्थानि दहराद्युपासनानि कर्मसमृद्धयर्थानि उद्गीथाधिध्यानानि” ( न्यायनिर्णयाख्य-आनन्दगिरिटीका ) । ‘नाम ब्रह्म’-इत्याद्युपास्तीनां काम-

कालमेव तत्फलं सर्वात्मत्वं<sup>१</sup> दर्शयति” (ब्र० सू० शा० भा०, ३-३-३२), “नहि विदुषः संपरे-  
तस्य विद्यया ब्रह्म संप्रेप्सतोऽन्तराले सुकृतदुष्कृताभ्यां किञ्चिदप्राप्तव्यमस्ति, यदर्थं कतिचित्  
क्षणानक्षीणे<sup>२</sup> ते कल्पयेयाताम्” ( ३-३-२७ ), “प्रवृत्तफलस्य तु कर्माशयस्य मुक्तेषोरिव  
वेगक्षयान्निवृत्तिः, ‘तस्य तावदेव चिरम्’ इति शरीतपातावधिज्ञेपकरणात् ।<sup>३</sup>

इस प्रकार अन्य भी उदाहरण सगृहीत किये जा सकते हैं, किन्तु भूमिका मे समस्त सिद्धान्तों  
का उपन्यास सम्भव नहीं ।

## —वीरमणि प्रसाद उपाध्याय

---

चारादिरभ्युदयः फलम्, दहराद्युपास्तीना क्रममुक्तिः फलम्, उद्धीयादिध्यानस्य कर्मसमृद्धिः  
फलम्” ( रत्नप्रभाटीका ) ।

१.-२. ये दोनों पङ्क्तियां जीवन्मुक्ति का समर्थन करती हैं ।

३. इस पङ्क्ति से शरीरपात के अनन्तर विदेहमुक्ति सूचित होती है ।

॥ श्रीः ॥

# ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्

‘ब्रह्मतत्त्वविमर्शिनी’ हिन्दीभाष्योपेतम्



## प्रथमोऽध्यायः

यो वेदेः प्रविविच्यते हि विरजा जानन्ति यं साधवः,  
येनेदं रचितं घृतं च निखिलं यस्मै जगद्रोचते ।  
यस्मादेव विभाति विश्वविभवो यस्यैव लीलाऽखिलम्,  
यस्मिन्नित्यसुखं सदा समरसं तस्मै नमः स्वात्मने ॥

### उपोद्घात

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ।

श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्बृणीते ॥ ( कठ० १।२।२ )

सद्गुरु सत्यशास्त्र के उपदेशों के अनुसार धार्मिक मर्यादा नियम में रहने वाले मनुष्य को मोक्ष और उसके साधनरूप पुराय, ज्ञान, सन्तोषादि रूप सब श्रेय तथा प्रेय ( प्रियत्तर ) स्वर्ग सुखादि और उनके साधन स्त्रीपुत्रविषयादि प्राप्त होते हैं । मनुष्यता से रहित को तो श्रेय या प्रेय कुछ भी प्राप्त नहीं होते । उन दोनों के प्राप्त होने पर भी जो मनुष्य प्रेय की उपेक्षा ( अनादर-त्याग ) करके श्रेय का ग्रहण करता है, उसको साधु ( शुभ ) प्राप्त होता है, और जो विवेकादि के बिना श्रेय की उपेक्षा करके प्रेय का ग्रहण करता है, वह श्रेय से वियुक्त ( रहित ) होता है ( तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाच्च उ प्रेयो वृणीते ) । इससे धीर ( बुद्धिमान् ) विवेकी मनुष्य उन प्राप्त श्रेय और प्रेय को सम्यक् विचार कर विविक्त ( पृथक् ) करता है, और प्रेय से विविक्त ( भिन्न ) तथा श्रेष्ठ श्रेय का ग्रहण करता है, और मन्द ( अल्पज्ञ-अविवेकी ) पुत्र शरीरादि के योग-क्षेम ( प्राप्तिवृद्धि रक्षादि ) के लिये प्रेय का ही ग्रहण करता है; जिससे कि वह सत्य पुरुषार्थ रूप प्रयोजन से रहित ( च्युत ) होता है और फिर प्रेय से भी रहित होकर कष्टमय पशु आदि योनि में प्राप्त होता है । वहाँ श्रेय, प्रेय आदि के विवेकादि से रहित सासारिक सुखेच्छुक मनुष्यों के लिए प्रायः कर्मकाण्ड रूप वेद और उपवेदादि प्रवृत्त हुए हैं, जिनमें शत्रु-भारणादि स्वर्गादि के लिये अधिकतर कर्मों का विधान है । अविद्यादि क्लेशयुक्त मनुष्य भी बहुत प्रकार के इच्छायुक्त होते हैं, इससे कर्मकाण्ड रूप वेद और उपवेदादि का भी बहुत विस्तार है, उपासन-काण्ड, ज्ञान-काण्ड

रूप उपनिषदात्मक वेद कर्मकाण्डादि की अपेक्षा बहुत अल्प है, क्योंकि इनके अधिकारी भी अल्प है। इसी प्रकार कर्मकाण्ड की मीमासा ( विचार ) रूप एक दर्शनशास्त्र भी अन्य पाँच दर्शन के बराबर ( तुल्य ) है। सब वेद और वैदिक दर्शनों का लक्ष्य आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष ही है, जो ( सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पद सप्रहेरा ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ कठ. १।२। १५ ॥ इत्यादि ) शास्त्रो से सिद्ध होता है।

जिस ब्रह्मात्मा पद ( प्राप्तव्य वस्तु ) को सब वेद कहते हैं तथा तपस्विजन जिसे तपो द्वारा प्राप्त करते हैं, जिस के ज्ञान और प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य करते हैं ( सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । मुण्डक. ३।१।५ ), जो ब्रह्मात्मा नित्य ( निरन्तर ) सत्यभाषण, नित्य तप ( मन-इन्द्रिय का निग्रह ) और नित्य ब्रह्मचर्य तथा सम्यक् विवेक विज्ञानादि रूप ज्ञान से प्राप्त होता है, उस ब्रह्मात्मा रूप वस्तु को सग्रह ( सक्षेप ) से मैं तेरे प्रति कहता हूँ कि वह 'ओम्' इस शब्द का वाच्य और लक्ष्य स्वरूप है, 'वेद्यन्ते बोध्यन्ते धर्मादिपुरुषार्था यैस्ते वेदा' इस निर्वचन के अनुसार धर्मादि के बोधक वचनो को वेद कहते हैं। यद्यपि 'वेद कृत्वा वेदि करोति' इत्यादि वचनो मे वेद शब्द दर्भमुष्टि का वाचक है, तथापि वह कुश-मुष्टि अर्थ मे रूढ अन्तोदात्त शब्द है, और धर्मादि के बोधक ऋग्वेदादि का वाचक वेदशब्द अन्य है। यौगिक, रूढ, योगरूढ और यौगिकरूढ भेद से शक्ति ( अर्थबोध मे सामर्थ्य ) युक्त पद चार प्रकार के होते हैं, यहाँ प्रकृति प्रत्ययादि रूप अवयवो के ही अर्थों को कहने वाले यौगिक होते हैं, अवयवो की शक्ति के बिना समुदाय शक्ति से अर्थों के बोधक शब्द रूढ और अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति दोनो से एक अर्थ के बोधक शब्द योगरूढ कहाते हैं। अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति से भिन्न भिन्न अर्थों को कहने वाले शब्द यौगिकरूढ कहाते हैं। पक्ता, गन्ता इत्यादि यौगिक के उदाहरण हैं, गो, घटादि रूढ के उदाहरण हैं, पङ्कजादिपद योगरूढ के उदाहरण हैं, उद्भिद् शब्द यौगिकरूढ का उदाहरण है। क्योंकि पक्ता आदि मे पच धातु से पाक का और प्रत्यय से कर्ता का बोध होता है। गौ, घट शब्द मे गच्छतीति गौ, चले सो गौ है और घटते-चेष्टते, इति घट, चेष्टा करे सो घट है, ऐसा अवयवार्थ प्रतीत होता है, परन्तु वह वस्तुतः गो-घट शब्द का अर्थ नहीं है, एवं पंक से उत्पन्न होने वाले कुमुदादि का पङ्कज शब्द से बोध नहीं होता, किन्तु कमल का ही बोध होता है। उद्भिद् शब्द यौगिक रूप ( अवयव शक्ति ) से वृक्षादि का बोधक होता है और समुदाय शक्ति से 'उद्भिदा यजेत' इस वाक्य मे यागविशेष का बोधक होता है। प्रकृत मे वेद शब्द ऋग्वेदादि अर्थ मे पंकज पद के समान योगरूढ है, जो ऋग्वेदादि ईश्वरानुगृहीत सर्गादि कालिक परम पवित्र देव, ऋषि जन से ज्ञात स्मृत और प्रचारित हैं, इससे पवित्र हैं, इसी से ( वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाराणा च सयम. । अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकर परम् ॥ सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञान पर स्मृतम् । तद्व्यग्र्य सर्वविद्याना

प्राप्यते ह्यमृत तत ॥ मनु १२।८३-८५ ) अर्थयुक्त वेद का अभ्यास, तप, इन्द्रियो का संयम, अहिंसा, गुरु की सेवा और इनसे साध्य आत्मज्ञान परम नि श्रेयस ( कल्याण ) कारक है। इन सब वेदाभ्यासादिको मे भी वेदान्तजन्य आत्मज्ञान ही उत्तम कहा गया है, क्योंकि वह सब विद्याओ मे प्रधान है और इसीसे अमृतत्व ( मोक्ष ) प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। श्रुति कहती है कि—तमेव विदित्वाऽतितमृत्युमेति नान्य. पन्था विद्यतेऽप्यनाय । श्वेता० ३।८ । अज्ञानादिनाम से पर महान् सर्वात्मा उस पुरुष को जान कर ही मृत्युमेति, अज्ञानादि से रहित होता है. मोक्षप्राप्ति के लिये अन्य मार्ग नहीं है। ईश्वरानुगृहीत ऋषियो से स्मृत भी वेद शत्रुमारणादि का तथा रागद्वेषादिमय कर्मों का विधान क्यों करते है, इस शका का समाधान है कि वेद प्राय. मनुष्यमात्र का हित के लिये है, वहाँ अत्यन्त कामी क्रोधी तथा अत्यन्त अज्ञ ( मूढ ) के लिये कुछ मार्ग नहीं बतायेगे, तो वे लोग अत्यन्त उच्छृङ्खल होकर सर्वथा नष्ट हो जायेंगे। इसलिये अपरिमित राग, द्वेष, हिंसादि को छुड़ा कर परिमित मे लाते हैं, कि जिससे श्रद्धालु सदाचारी अग्नि, वरुणादि नाम वाले, औपाधिकस्वरूप वाले ब्रह्मात्मा के पूजक भी धीरे धीरे निजात्मतत्त्व का ज्ञानी और मुक्त हो तथा नहीं मुक्त होने पर भी पूर्वोक्त प्रेय को प्राप्त करके सुखी रहे।

इस प्रकार सोपानारोह न्याय से सब वेद की प्रवृत्ति हुई है और सभी वैदिक दर्शन और वैदिक सन्तो को वारणी भी प्रेय से उपरत के प्रति सोपानारोह न्याय से ही प्रवृत्त हुई है। यहाँ सकाम शुभ कर्मों के बोधक वेद वा दर्शनादि प्रथम सोपान रूप हैं, निष्कामतायुक्त कर्मादिको के बोधक द्वितीय सोपान रूप है। इससे कामादि को नहीं त्याग सकने पर परोपकारमय इष्ट पूतादि कर्मों को करना अभ्युदय के लिये शुभ सौधादि आरोह का प्रथम सोपान और निष्काम कर्मों का अनुष्ठान द्वितीय सोपान ( सीढी ) है, इसके बाद न्यायवैशेषिक के अनुसार न्याय की रीति को और पदार्थों को समझना तृतीय सोपान है तथा दर्शनो की दृष्टि से प्रथम सोपान ही है। भाव यह है कि—प्रत्यक्ष चानुमान च शास्त्र च विविधागमम् । त्रय मुविदित कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ ( मनु १२।१५ ) इत्यादि शास्त्र के अनुसार धर्म की शुद्धि ( विवेकादि पूर्वक तत्त्वज्ञानादि ) की इच्छा वालो को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और अनेक प्रकार के वेदादि आगम रूप शास्त्रो को विदित ( ज्ञात ) करना चाहिये अर्थात् लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि ( ज्ञान ) होता है, वहाँ सजातीय विजातीय से वस्तु के स्वरूप को व्यावर्तक ( भेदक ) धर्म को लक्षण और ज्ञातव्य वस्तु के यथार्थ ज्ञान के हेतु को प्रमाण कहते है। उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, समव, ऐतिह्यादि, प्रत्यक्षादि तीन के अन्तर्गत हैं या पृथक् होते भी धर्म-शुद्धि मे उनकी जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्रादि रूप शब्दप्रमाण से ही धर्मतत्त्व का ज्ञान और उनकी प्राप्ति मुक्ति हो सकता है। जिन धर्मों की शुद्धि होती है, वे धर्म धर्मशास्त्र मे यो गिने गये है—वृत्ति क्षमा दमोऽस्तेय



शौचमिन्द्रियनिग्रह । धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मनक्षराम् ॥ (मनु० ६। ९२)। योगयुक्त मन-प्राण-इन्द्रिय की क्रिया को कुमार्ग से रोकने वाले सन्तोपादि रूप धैर्य, क्षमा, मन का दमन रूप दम, निषिद्ध द्रव्य का त्याग रूप अस्तेय, इन्द्रिय तन, मन धनादि की शुचिता, विरुद्ध विषयो से इन्द्रियो का निरोध, शास्त्रादि का ज्ञान रूप धी ( विवेक ) । आत्मविद्या, सत्यभाषण, काम-क्रोध-लोभ का त्याग, ये दश धर्म के स्वरूप है । वहाँ भी—  
 इज्याऽऽचारदमार्ऽहिंसा दान स्वाध्यायकर्म च । अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥  
 ( याज्ञ० स्मृ० १।८ ) । यज्ञ, सदाचार, दम, अहिंसा, दान, वेदाध्ययनादि साधन रूप अपर धर्म है । निष्काम कर्म, भक्ति, ध्यानादि रूप योग से आत्मज्ञान की प्राप्ति परम धर्म है । इस परम धर्म का प्रथम सोपान रूप न्यायवैशेषिक है, क्योंकि योग से द्रष्टव्य जिस आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये—आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवविदितम् । ( बृ० २।४।५ ) । इस श्रुति से श्रवण-मनन-निदिध्यासन ( ध्यान ) का विधान किया गया है । वह आत्मा ब्रह्म ( विभु त्रिविध भेद रहित ) है, सब जीव जगत् ईश्वर का एक पारमाथिक स्वरूप है, इसी से उस एक के दर्शनादि से इस सब ससार के दर्शनादि हो जाते हैं, और जिस के दर्शनादि से सब के दर्शनादि होते हैं वह—सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । ( तैत्ति० २।१ ) । क ब्रह्म ख ब्रह्म । ( छा० ४।१०।५ ) । सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् । ( छा० ६।२।१ ) । स आत्मा तत्त्वमसि । ( ६।८।७ ) । भूमैव मुखम् । ( ६।२३।१ ) । आत्मानन्द-स स्वराद्भवति । ( छा० ६।२।५।२ ) । सत्य, ज्ञान और अनन्त ( देश काल वस्तुकृत भेदरहित ) ब्रह्म है । सुखस्वरूप विभु ब्रह्म है । हे सोम्य ! यह ससार मृष्टि से प्रथम सद्ब्रह्ममात्र था, दसमे एक और सब द्वैत ( भेद ) रहित था, वही सर्वात्मा है, इससे तुम वास्तव मे वही स्वरूप हो, वह ब्रह्म ही सुखस्वरूप है, उस ब्रह्मात्मा को जानने वाला स्वात्मानन्द स्वरूप और स्वयं प्रकाश स्वरूप मुक्त हो जाता है । इन वचनो से सत्, चिद्, आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा के सिद्ध होते भी जो दर्शन आत्मा को केवल सत्यस्वरूप विभु वा एकदेशी कहता है, उसे प्रथम सोपान रूप समझना चाहिये । उसके भी अधिकारी बहुत मनुष्य हैं, सत्यात्मा और ईश्वरादि को भिन्न समझकर सत्कर्म भक्ति उपासनादि करते-करते वे लोग कभी द्वितीय सोपान का अधिकारी होंगे ही । एक वच्चा भी समझ सकता है, और समझता है कि मिट्टी के ढेले को तोड़ने लगेगे तो अत्यन्त सूक्ष्म हो जाने पर उसके अन्तिम अवयव को नहीं तोड़ सकेंगे इससे वह नित्य है, परम अणु सूक्ष्म है । इसी प्रकार जल, तेज आदि मे भी वह समझ सकता है, और सर्वत्र भासते हुए दिशा, कालादि को भिन्न-भिन्न नित्यादि भी समझ सकता है, तथा पूर्व वर्णित प्रत्यक्ष, अनुमान और वेदादि शास्त्र रूप प्रमाणो मे प्रत्यक्ष तथा अनुमान की प्रधानता को एक वच्चा भी समझ सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के बिना शारीरिक और लौकिक व्यवहार कभी नहीं चल सकता, और प्रथम श्रेणी के लोग प्रायः शरीर व्यवहार परायण होते हैं, यद्यपि पूर्वोक्त प्रेय से कुछ उपरत ही लोग सभी वैदिक

दर्शनो के अधिकारी होते, तथापि ऐहलौकिक प्रेय से उपरत होते भी पारलौकिक प्रेय से उपरत सब नहीं होते है, और सर्वत्र उपयोगी विचार मे सहायक अनुमान मे विशेष उपयोगी, प्रमाण, प्रमेय सशयादि षोडश पदार्थों का वर्णन जो न्यायदर्शन मे और द्रव्य, गुण, कर्म सामान्यादि का वर्णन जो वैशेषिक मे है, उन्ही का सक्षेप रूप मे वर्णन है, सो भी प्रथमावस्था मे उपयोगी है। समास-व्यास ( सक्षित-विस्तृत ) के विचार से बुद्धि विशद और बृहत् होती है, फिर 'एक ही पुरुष एक है नारी, ताकर करहु विचारा' इत्यादि उपदेश और 'प्रकृति पुरुष चैव विद्वचनादी उभावपि' ( भ गी १३।१९ ) 'भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य.' ( छा ६।२३।१ ) इत्यादि शास्त्रो के अनुसार जगत् की प्रकृति ( उपादान कारण ) अनिर्वचनीय एक माया और जीवात्मा तथा सत्य ब्रह्मात्मा रूप एक पुरुष ही विचारादि से समझने के योग्य है कि जिस ब्रह्मात्मा के अपरोक्ष अनुभव से ( ब्रह्मासस्थोऽमृतत्वमेति छा २।२३।१ ) ब्रह्मनिष्ठ अमृतत्व ( मोक्ष ) पाता है। भाव है कि ( अन्नेन शुद्धेनापो मूलमन्विच्छाद्भिः सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूला. सोम्य सर्वा प्रजा. सदायतना सत्प्रतिष्ठाः । छा ६।१।४ ) देह का कारण रूप भी अन्न सत्य अन्तिम मूल कारण नहीं है, इससे अन्न रूप शुग ( कार्य ) से उस का मूल ( कारण ) रूप जलको समझो, जल रूप कार्य से उसके कारण रूप तेज को समझो, तेज से सर्वाधिष्ठान सत्य ब्रह्मात्मा रूप माया-शक्ति सहित मूल कारण को समझो, क्योंकि सन्मूलक, सदाश्रित, सत मे समाति विलय वाली सब प्रजा हैं, अर्थात् जैसे मिट्टी के आश्रित मिट्टी से अभिन्न सत्ता वाला घट है, तन्तु रूप ही पट है, मिट्टी और तन्तु के बिना घट और पट मिथ्या वाचारम्भण ( वाचयाऽऽरभ्यतेऽम्युद्यत इति वाचारम्भणम् ) मात्र ही है। श्रुति कहती है कि ( 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्' छा. ६।१।४ )। मिट्टी के विकार मिट्टी रूप से सत्य है और अपने स्वरूप से असत्य मिथ्या है, इससे मिट्टी के ज्ञान से ही उनका ज्ञान होता है, उनका सत्य स्वरूप मिट्टी के समझ लेने से ही समझा जाता है, अन्यथा नहीं। वैसे ही भूत-भौतिक सब समार और मनोमायामय जीवेश्वर का व्यावहारिक स्वरूप मिथ्या है। ब्रह्मात्मा रूप एक पारमार्थिक स्वरूप ही सत्य है, उसके ज्ञान से सब का स्वरूप ज्ञात अनुभूत होता है, जिससे कि अनादि अविद्या की निवृत्ति से जीवन्मुक्तिपूर्वक विदेह मुक्ति होती है। परन्तु यह तत्त्व प्रथम श्रेणी वालो को समझ मे नहीं आ सकता है। इससे कार्यकारित्व मात्र को सत्य का लक्षण मानकर मृत्पिण्ड से घट में जलाहरणादि रूप पृथक् कार्यकारित्व होने से मृत्पिण्ड से पृथक् सत्ता वाला घट को नैयायिकादि मानते है। क्योंकि प्रथमावस्था मे यह बात समझ मे नहीं आसकती कि यदि मिट्टी से घट भी भिन्न और सत्य वस्तु है, तो एक सेर मिट्टी का जहाँ एक घट बना हो, वहाँ मिट्टी कही गई नहीं है, और घट भी एक नया पाथिव द्रव्य रूप पदार्थ उसमे उत्पन्न हुआ है, तो, उस का परिणाम गुरुत्व कुछ भी तो बढ़ना चाहिये और

रस्सी में सर्प के भ्रम होने पर मिथ्या ही उस सर्प से भय रूप कार्य होता है तथा स्वप्न के मिथ्या पदार्थादि से उस समय सुख-दुःखादि कार्य होते हैं और शुभाशुभादि की सूचना होती है, इससे कार्यकारित्व मात्र सत्यता नहीं है इत्यादि । एक सुपक्क आम्र के स्पर्श, रूप, रस और गन्ध त्वक्, नेत्र, जिह्वा तथा घ्राण को पृथक् २ तृप्त करते हैं, परन्तु सब एक आम्र मात्र हैं । स्पर्शादि गुण आम्र से पृथक् सत्ता स्थिति वाले नहीं हैं । इसी प्रकार पांचभौतिक पदार्थ देह, वृक्षादि पांच भूत मात्र हैं और पाच भूतो में भी पृथिवी जल मात्र है, जल तेज मात्र है, तेज वायु मात्र है, वायु आकाश मात्र है, आकाश, मायाविशिष्ट ब्रह्मात्मा ईश्वर मात्र है, वही एक पारमार्थिक सत्य एक अद्वितीय है । सो शब्द प्रमाण सद्गुरु से ज्ञेय है, वह स्वयं प्रकाश चेतन अखण्डानन्द स्वरूप है, यदि अनेक परमाणु आदि अखण्ड और सत्य होंगे, तो वह आत्मा अखण्ड और सत्य नहीं हो सकता, एक देश में दो सत्य नहीं रह सकते और एक सत्य में अनेक असत्य कल्पित भेद वाले मिथ्या पदार्थ रह सकते हैं, जैसे कि कपास में तन्तु और तन्तु में बस्त्रादि रहते हैं वैसे ही माया और सब ससार कोई साक्षात् कोई परंपरा से ब्रह्मात्मा में है, तो भी माया आदिके मिथ्या होनेसे वह ब्रह्म असग है, अच्छेद्य है, अदाह्यादि है । असत् और मिथ्या शब्द का सर्वथा अभाव अर्थ नहीं है, किन्तु कारण अधिष्ठान से भिन्न सत्ता रहित कारण अधिष्ठान रूप से सत्य को ही मिथ्या या असत्य कहा गया है । इस तत्त्व को नहीं समझने वालों के लिये, आत्मभिन्न सत्य ईश्वर को मान कर ( ईश्वर. कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् । न्यायदर्शन, अ ४।१।१९ ) । मनुष्य कर्म फल की इच्छा से कर्म करता है परन्तु कर्म फल नियम से नहीं देखा जाता । इससे जगत् जन्मादि का ईश्वर कारण है, इत्यादि उपदेश दिया गया है, योग के साधनों का तथा समाधि आदि का उपदेश दिया गया है, तथा ( न प्रवृत्ति प्रतिस्न्धानाय हीन-क्लेशस्य । न्या. ४।१।६४ ) रागादि दोषरहित की प्रवृत्ति पुन बन्धन के लिये नहीं होती, इत्यादि उपदेश भी अतिसमीचीन ही है । योगदर्शन का भी वचन है कि—सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा. ( योगद २।१३ ) । अविद्यादि रूप क्लेशों के रहने पर ही जन्म, आयु तथा भोग रूप कर्मों के फल होते हैं, अन्यथा नहीं । इससे क्लेशों को शिथिलादि करने के लिये असग सत्य चेतनात्मा के विवेकादि का विधायक साख्य और योग दोनों दर्शन, दर्शन की दृष्टि से द्वितीय सोपान है । इस सोपान में असग निर्विशेष आत्मा में भेद का स्वीकार प्रकृति आदि में स्वतन्त्र सत्ता का स्वीकार आदि ही तृतीय सोपान वेदान्त की अपेक्षा न्यूनता है । असग एक सत्य तत्त्व के ज्ञानपूर्वक अन्य सब को मिथ्या समझने ही पर क्लेशों की अत्यन्त निवृत्ति श्रुति अनुभव के अनुसार हो सकती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि सत्य प्रेय के लिये रागादि को सत्य प्रकृति अवश्य करेगी, उसका यह स्वभाव है, वृत्ति रूप ज्ञान काल में लज्जित सा होने पर भी वृत्ति की निवृत्ति काल में अवश्य पुरुष को भोग देने के लिये फिर प्रवृत्त होगी,

बन्धन का हेतु रूप अविद्यादि जब मिथ्या अनिर्वाच्य है, तब तो अविद्या के विरोधी विद्या से उसकी सर्वथा निवृत्ति होती है, इससे अविद्यादि जन्य अहकारादि रूप बीजाङ्कुर न्याय से अनादि अन्त करणादि मे, सूर्यकान्तादि मे व्यक्त सौर तेज के समान अभिव्यक्त चिदात्मा रूप व्यष्टि व्यावहारिक जीव उस अविद्या की निवृत्ति से मुक्त होता है, निर्वाण पद को पाता है, अर्थात् जैसे सूर्यकान्त के अभाव से उस से व्यक्त हुआ तेज फिर समान सौर तेज मात्र रह जाता है, वैसे ही ज्ञानादि द्वारा मिथ्या अविद्यादि के विलय से व्यावहारिक जीवभाव सदा के लिये निवृत्त हो जाता है, यही निर्वाण पद कैवल्य है, अन्य नहीं। स्वप्न कालादि मे प्रतीत होने वाला और जागने आदि से निवृत्त होने वाला जीव का प्रतिभासिक स्वरूप है, जिसका बृहदारण्यक (४।३।१३) में बहुरूप और क्रीडादि रूप युक्त का वर्णन किया गया है, और भी जो स्वप्न कालिक रथादि श्रुति वर्णित हैं और लोकप्रसिद्ध हैं, वे सब सत्यात्मा से और असत् गगन पुष्पादि से भिन्न होने से अनिर्वचनीय और प्रतिभासिक ( प्रतीति काल तक रहने वाले ) हैं। सत्यासत्यादि से भिन्न को ही अनिर्वचनीय कहते हैं। उक्त सत्यासत्य से भिन्न होने से माया सहित सब जगत् और व्यावहारिक जीव भी अनिर्वचनीय है। सत्य चिदानन्दादि रूप से निर्वचनार्ह परिणामक्रियादिरहित एक ब्रह्मात्मा ही है। स्वप्न की प्रतीति स्मृति रूप नहीं है, क्योंकि वहाँ की वस्तु सामने दीख पडती है, साक्षात् शब्दादि के श्रवणादि उस समय होते हैं। व्यावहारिक जीवों के स्वरूपों का 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ( कठ० २।५।९ )। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति ( कठ० २।५।१२ )। कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष' ( प्रश्न० ४।९। )। इत्यादि श्रुतियो से वर्णन किया गया है, कि काष्ठादि गत अग्नि आदि के समान एक सत्यात्मा ही सब देहो मे अनेक रूप से हुआ है, सो एक स्वतन्त्र सब प्राणी के सत्यात्मा ही उपाधियो में अभिव्यक्ति रूप प्रतिबिम्ब आभास द्वारा अपने मिथ्या बहुत स्वरूपों को करता है, वही व्यावहारिक जीव है ( एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥ ( ब्रह्मविन्दु० १२ )। साक्षिण पुरतो भाति लिङ्गं देहेन संयुतम् । चित्तिच्छाया. समावेशाज्जीव स्याद् व्यावहारिक ॥ ( वाक्य सुधा० १६ )। एक ही सत्यात्मा सर्वभूतो प्राणियो का आत्मा ( सत्य स्वरूप ) है, सब भूतों मे पृथक् २ विशेष भिन्न स्वरूप से भी स्थिर है और बाह्य चन्द्र तथा अनेक जल से पूर्ण घटो के अन्दर गत प्रतिबिम्ब रूप चन्द्र के समान वह आत्मा स्वरूप से एक रस और उपाधि से बहुत प्रकार का भासता है। उस एक रस रहने वाला साक्षी स्वरूप आत्मा के आगे स्थूल देह से युक्त होकर लिङ्ग सूक्ष्म देह भासता है और वही लिङ्ग देह चेतनात्मा की छाया के प्रवेश से व्यावहारिक जीव होता है। यह जीव स्थूल देह काल मे हृदय के अन्दर दीप-शिखा के समान रहता है, और सम्पूर्ण देह में दीप-प्रभा के तुल्य रहता है। देह मे रहते भी बाहर नेत्र द्वारा प्रभा तुल्य निकलता है, इससे संकोच विकाश वाला है।

सत्यात्मा एक ही है, इसी जीव की जीवता का आरोप भ्रम से सत्यात्मा भी अनेक भासता है। ( राम कबीरा एक है, चीन्है विरला कोय। अन्तर टाटी भरम की, ताते देखै दोय ॥ राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोय। दोय करि सोई जानई, सहूह मिला न होय ॥ समदिष्टी सहूह किया, भरम किया सब दूर। दूजा कोई दीखै नहीं, राम रहा भरपूर ॥ ) वास्तव स्वरूप मे राम ( ईश्वर ) और कबीरा ( जीव ) एक है, भ्रम रूप परदा से दो भासता है, भ्रम को ही अध्यास कहते है। उस अध्यास से कही एक ही वस्तु दो रूप से प्रतीत होती है। जैसे एक चन्द्र दो भासता है, दूर से अनेक वृक्ष एक भासते हैं। इसी प्रकार उपनेत्र से छोटी वस्तु बड़ी और बड़ी वस्तु छोटी भासती है, इत्यादि सभी जैसे अध्यास हैं उसी प्रकार रेत (बालु) मे जल भासता है, वह भी अध्यास है। जहाँ भ्रम से जल भासने पर भी उसे सत्य समझकर उसके लिए दौड़ने पर मृग दुखी होता है, विचारादि से उसे मिथ्या समझने वाला दुखी नहीं होता, इसी प्रकार मायिक मिथ्या भेद युक्त ईश्वरादि के भासने पर भी विवेकी को भयादि नहीं होते, अन्य को होते है। इससे विवेकादिपूर्वक सत्य एकात्मा का ज्ञान के लिये दयालु हरि के अवतार रूप भगवान् व्यास ने विचारात्मक शास्त्र को रचा है और अनन्त रुद्रो मे योगीश्वर ज्ञानी शंकर के अवतार शंकराचार्य ने उसका भाष्य करके समझाया है कि सर्वात्मा स्वरूप ईश्वर प्रलय के बाद फिर सृष्टि काल मे पूर्वसृष्टि के विखरे हुए सन्चे परमाणुओं को नही समेटने लगता है, किन्तु ( आनीदवात स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न पर किञ्चनास। ऋग्वेद० म० १०। ११। १२९। तम आसीत्तमसा गूढमग्रे। १०। ११। १२९। न तस्य कार्यं करणां च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। पराऽस्य शक्तिविधिष्वैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। श्वेता०। ६। ८। ) वह ब्रह्म सृष्टि से प्रथम माया रूप स्वधा ( शक्ति ) सहित एक ही वर्तमान था, उससे भेदयुक्त अन्य कुछ नहीं था, अविद्या माया रूप तम था, तम से छिपा हुआ सब कार्य और ब्रह्म था। उसके सत्य शरीर इन्द्रियादि न थे, न है, न उसके तुल्य वा अधिक दीखता है, किन्तु स्वाभाविक उसकी विविध प्रकार वाली परा ( उत्तमा ) शक्ति सुनी जाती है, तथा ज्ञानक्रिया और बलक्रिया मुनी जाती है। ईश्वर शक्ति रूप बलक्रिया से ही फिर अनायास से सृष्टि को स्वप्न के समान रचता है, इससे सद्गुरु से ज्ञान को पाने वाली दूसरी वस्तु को देखता है, परन्तु सत्य नहीं देखना और शरीरादिरहित त्रिविध सत्य-भेद से शून्य राम को व्यापक देखता है, इससे भय, राग, द्वेषादि से रहित जीवन्मुक्ति पूर्वक विदेह मुक्त हो जाता है। यदि ईश्वर पूर्व सृष्टि के परमाणुओं से ही फिर ससार को रचेगा तो मनुष्यों ने कितने पत्थरादिको को जलाकर चूना राख कर दिया है, हीरो को भस्म बत्ताकर मनुष्य खा गये है, उनके परमाणुओं को वह कहाँ ढूँढेगा, और वे कहाँ उसे मिलेगे, तथा उन्हें ढूँढ कर जोड़ना असम्भव है, इससे माया रूप शक्ति से ही ईश्वर से सब कार्य अनायास से साध्य हैं। सत्य सर्वात्मा राम अखण्ड एक चिदानन्द स्वरूप है, उस आत्मा का विचार यद्यपि अनादि काल से महात्मा लोग

करते आये है, इससे यह विचार मार्ग, दर्शन मार्ग अनादि है, तथापि प्रथम अध्ययन सत्सगादि द्वारा कुछ विवेकादि की प्राप्ति होने पर गुरु-शिष्य का सवाद रूप कथा से लोग जिज्ञासा ( विचारादि ) करते थे। समय के परिवर्तन से बाद कथा के लुप्त होने पर और जल्प वितण्डा के बढ़ने पर तथा अनेक नास्तिक आस्तिक दर्शनो के सिद्ध होने पर फिर प्राचीन पद्धति की पूर्ण रूप से स्थापना के लिये श्रीव्यास देव और भगवान् शंकर ने सूत्र और भाष्य की रचना की है, उत्तम सन्तो मे तो किसी न किसी रूप से सदा सवाद कथा वर्तमान ही रहती है। पूर्वोक्त व्यावहारिक भेद की दृष्टि से ही—नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानाम्। कठ० ५।१३। श्वेता० ६।१३। द्वा सुपर्णासयुजा सखाया। मुण्डक० ३।१। श्वेता० ४।६। भोक्ता भोग्य प्रेरितार च मत्वा सर्वं प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। श्वेता० १।१२। नेतरोऽनुपपत्तेः। भेदव्यपदेशान्। ब्रह्मसूत्र० १।१। १६-१७। इत्यादि श्रुति और सूत्रादि मे भेद का व्यवहार-वर्णन किया गया है और सत्य भेद का 'नेह नानास्ति किञ्चन' बृ० ४।४।१९। इत्यादि वचनो से निषेध किया गया है। कोई प्रलयादि मे जीवो का ब्रह्म से अविभाग मात्र समझकर लोक देगादि के भेद से ब्रह्म मे भेद मात्र का निषेध इस वचन से समझते है, परन्तु किञ्चन पद से सत्य सब प्रकार के भेदो का निषेध मे श्रुति का मुख्य तात्पर्य है। इसी से ( मृत्यो समृत्यु-माप्नोति य इह नानेव पश्यति। बृ० ४।४।१९। कठ० ४।१० ) सत्य भेद दर्शो की मृत्यु वशवर्तिता का श्रुति वर्णन करती है कि इस ब्रह्म मे सत्य नाना की नाई भी जो देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को पाता है। इससे समझना चाहिये कि ( यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। कठ० ४।१० ) जो ब्रह्म सत्य स्वरूप इस मानव ससार शरीरादि मे है, वही अन्य नहीं, अमुत्र ( ईश्वर-परलोक ) मे भी सत्य है। भोक्ता 'भोग्य' अन्तर्यामी सब स्वरूप से एक सत्य ब्रह्म ही कहा गया है। नेह नानास्ति किञ्चन। कठ० ४।११ अर्थात् इस ब्रह्म मे नाना कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा नहीं समझने वालो की निन्दा करती है कि ( अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्। ह० १।४।१० ) परलोकवासी ईश्वर अन्य है, मैं उससे अन्य हूँ इस प्रकार जो जानता है, वह सत्यात्मा को नहीं जानता। इससे मिथ्या भेद युक्त देवो को जानकर पशु के समान उनके वशवर्तो भयभीत दुखी रहता है। इससे भयादि की निवृत्ति के हेतु जो अद्वैतात्म दर्शन उसका प्रतिपादक उपनिषदो का विचार रूप सूत्र<sup>१</sup> भाष्यादि का आरम्भ किया गया है।

१ स्वल्पाक्षरमसन्दिग्ध सारवद्विश्वतोमुखम्। अस्तोभमनवद्य च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥  
संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् ॥  
सूत्रार्थो वर्यते यत्र पदै सूत्रानुसारिभिः। स्वपदानि च वर्यन्ते भाष्य भाष्यविदो विदुः ॥  
पदच्छेदः पदार्थोक्तिर्विग्रहो वाक्ययोजना। आक्षेपस्य समाधानं व्याख्या पञ्चविधा स्मृता ॥  
विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्। सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्ग शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् ॥

इस वेदान्त दर्शन में उपोद्घात रूप सङ्गति से अध्यास भाष्य का आरम्भ हुआ है। भाव यह है कि आरब्धव्य मीमासा के प्रथम सूत्र 'अथातो' ब्रह्मजिज्ञासा में 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य' इत्यादि श्रुति बोधित आत्मदर्शन के सफल होने से उस दर्शन के लिये ब्रह्मजिज्ञासा को कर्तव्य बताया गया है। सशय भ्रमादि की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मात्मा रूप मोक्ष की प्राप्ति रूप मीमासा का प्रयोजन को सूचित किया गया है, तथा ब्रह्म को ही शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय दर्शाया गया है और अथ शब्द से विवेकादि युक्त अधिकारी की सूचना की गयी है। अधिकारी आदि का विषयादि से प्राप्य प्रापकादि भाव रूप सम्बन्ध स्वयं लभ्य है, इस बात को भी सूत्र से दर्शाया गया है। इस से शास्त्र में प्रवृत्ति के हेतु रूप अनुबन्धो को दर्शाया गया है। शास्त्र को सफल और आरम्भ योग्य दर्शाकर 'जन्माद्यस्य यत्' इत्यादि रूप शास्त्र का आरम्भ किया गया है, परन्तु यह सब बात तब बन सकती है कि यदि ज्ञान से मुक्ति हो सकती हो और ज्ञान से मुक्ति तब हो सकती है कि यदि जन्मादि रूप बन्ध सत्यात्मा में भ्रम से हो और आत्मा का संशय या भ्रम हो, तभी (मीमासा) विचारादि जन्य ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक सशय भ्रम की निवृत्ति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मैं सदा रहने वाला हूँ, ईश्वर है, ब्रह्म है इस प्रकार के निश्चय ज्ञान साधारण लिखे पढ़े मनुष्यो को भी रहता है और उससे मुक्ति नहीं मिलती, तथा प्रत्यक्ष निश्चित रूप से ज्ञात आत्म ब्रह्म विषयक भ्रम सशय भी नहीं रह सकते, इससे शास्त्र का आरम्भ निष्फल है, ऐसी शंका होने पर मैं हूँ इत्यादि ज्ञान को भ्रम संशयादि रूप समझाने के लिये और निजात्मभिन्न रूप से ईश्वर ब्रह्म ज्ञान को भ्रम रूप समझाने के लिये तथा इन भ्रमों की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मात्मा को साक्षात् सच्चिदानन्द, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति युक्तादि रूप समझाने के लिए शास्त्राऽऽरम्भ को सफल बनाने के लिये पूज्य भाष्यकार ने अध्यास भाष्य लिखा है, तहाँ अध्यास विषयक पूर्वपक्ष से ही आरम्भ किया है—

युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोस्तमःप्रकाशवद् विरुद्धस्वभाव-  
योरितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिरि-  
त्यतोऽस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य  
तद्धर्माणां चाध्यासः, तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासो  
मिथ्येति भवितुं युक्तम् ॥ १ ॥

यद्यपि लोक में व्यावहारिक वस्तु सर्प, रजतादि के ज्ञानजन्य सस्कार, अध्यासाश्रय रज्जु, शक्ति आदि का सामान्य (इदं) रूप से ज्ञान और रज्जु, शक्ति आदि का विशेष रूप

संप्रसंग उपोद्घातो हेतुताऽवसरस्तथा । निर्वाहकैककार्यत्वे षोढा सङ्गतिरिष्यते ॥

( लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च । सर्वतः सारभूतानि सूत्रारण्याहुर्मनीषिणः ॥ )

से अज्ञान और प्रमाता ( जीवात्मा ) में भय लोभादि रूप दोष, नेत्रादि रूप प्रमाण में मन्दता आदि रूप दोष, प्रमेय ( प्रमाण के विषय ), रज्जु ( रस्सी ), सर्प और शुक्ति ( सीपी ), रजत ( रूप्य-चाँदी ) में सदृशता रूप दोष रहने से अध्यास ( मिथ्या सर्पादि और उनके मिथ्या ज्ञान ) सिद्ध होते हैं और आत्मा में अहकार, अन्तःकरण, धर्माधर्मादि शरीरादि के अध्यास में वा आत्मा के चेतनता आदि का अन्तःकरणादि शरीरादि विषयक अध्यास में उक्त सकारादि कोई कारण नहीं है, क्योंकि अन्तःकरणादि आत्मभिन्न कोई वस्तु कही सिद्धान्त में सत्य नहीं है। आत्मा असङ्ग है तथा युष्मत् प्रत्यय ( तुम ज्ञान ) का विषय अनात्मा अन्तःकरणादि और मैं, अहम् ( अस्मत् प्रत्यय ) इत्यादि ज्ञान का विषय आत्मा, जो विषय ( जड़ ) और विषयी ( प्रकाशक ) स्वरूप होने से तम ( अन्धकार ) और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव वाले है, सर्वथा अध्यास के हेतु सादृश्य दोष शून्य है। उनकी परस्पर तादात्म्य ( अभेदाध्यास ) की अनुपपत्ति ( अयुक्तता ) सिद्ध होने पर उनके धर्मों का भी परस्पर तादात्म्य रूप अभेदाध्यास की अयुक्तता ( अयोग्यता ) सुतराम् ( स्वतः अत्यन्त-अवश्य ) सिद्ध होती है, क्योंकि धर्मियों के अविवेक से धर्मों के अविवेक द्वारा धर्मों का परस्पर अध्यास होता है। जड़ चेतन के विवेकयुक्त पृथक् ज्ञान रहते परस्पराध्यास उनके धर्मों का भी नहीं हो सकता। इस पूर्वोक्त हेतु से अहम् ( मैं ) इत्यादि ज्ञान का विषय, और विषयी ( विषयो का प्रकाशक ) चेतनात्मक वस्तु में तुम आदि ज्ञान के विषय अनात्मा और उसके धर्मों का अध्यास ( भ्रम ) होना मिथ्या है, अर्थात् आत्मा में अनात्मा का अध्यास नहीं है, ऐसा मानना उचित है, इसी प्रकार इससे उलटा अन्तःकरणादि विषय ( जड़पदार्थ ) में विषयी ( चिदात्मा ) और उसके धर्मों का अध्यास मानना अयुक्त है, और अध्यास के असम्भव से ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, इससे ब्रह्मजिज्ञासा आदि की जरूरत नहीं है। मोक्ष के लिये कर्मोपासनादि कर्तव्य है, इत्यादि पूर्वपक्ष है।

यहाँ ( युष्मदस्मद् ) इस पद में 'त्यदादीना सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते' इस वार्तिक के अनुसार अस्मद् मात्र शेष रहना चाहिये था, परन्तु असंदिग्ध बोधादि के लिये एक शेष नहीं किया गया है और स्पष्ट पराक् और प्रत्यग् का भेद बोध के लिये युष्मदस्मद् के स्थान में, इदमस्मद्, कहना था, परन्तु 'इमे वयम्' इत्यादि वाक्य में इदमर्थ को अस्मदर्थ से विरोध नहीं भासता है, इससे स्पष्ट विरुद्धार्थता के लिये वैसा कहा गया है ॥ १ ॥

उत्तर है कि सादि अनादि भेद से दो प्रकार के अध्यास होते हैं, वहाँ व्यावहारिक सत्य के ज्ञानजन्य संस्कारादि प्रातिभासिक अध्यास के हेतु उक्त रीति से होते हैं सो ठीक ही कथन है, परन्तु बीजाङ्कुर न्याय से अनादि व्यावहारिक अध्यास में यह नियम नहीं है, पूर्व मृष्टि आदि के मिथ्या ज्ञान जन्य मिथ्या सकारादि से ही उत्तर २ अध्यास होते हैं और उन से फिर मिथ्या सकारादि होते हैं और अविद्या, अविवेक, अज्ञानादि नाम तथा स्वरूप वाली माया ही सब दोषों के स्थानापन्न अनादि अध्यास में रहती है।



माया मे अद्भुत शक्ति है, सृष्टि के आदि काल मे ईश्वरीय सकल्प मात्र से जैसे ब्रह्मा आदि की सृष्टि करके फिर योनिज सृष्टि रचती है, एव मत्कृणा (खटमल) आदि को प्रथम उष्मा मलादि मात्र से पैदा कर के फिर अण्डजादि रूप से उत्पन्न करती है, वैसे ही सत्यज्ञानज सस्कारादि के बिना अनादि प्रवाह रूप मिथ्या कर्म वासनादि जन्य मिथ्या अध्यासो को रच कर फिर तदधीन अनन्त अध्यासो को विशेष तत्त्व सामग्रियो से रचती है, इत्यादि आशय से भाष्य है कि—

तथाप्यन्योऽन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योऽन्यधर्माश्चाध्यस्येत्तरेतराविवेकेन,  
अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोर्मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य, अहमिदं  
ममेदमिति नैसर्गिकोऽय लोकव्यवहारः ॥ २ ॥

उक्त रीति से अध्यास की अयुक्तता होते भी अनादि अज्ञान मूलक अनादि अविवेक से, आत्माऽनात्मा का परस्पर अध्यास ( तादात्म्य ) का निश्चय करके, और उनके चैतन्य जाड्यादि रूप धर्मों का अध्यास करके, फिर अत्यन्त पृथक् धर्म चैतन्य जाड्यादि और धर्मों आत्मा अनात्मा के मिथ्याज्ञान ( अध्यास ) निमित्तक यह लोक व्यवहार प्रसिद्ध है कि मैं इस शरीरादि रूप हूँ, कर्ता भोक्ता आदि हूँ, और मेरे ये शरीर मित्रादि है इत्यादि । वे मिथ्या व्यवहार सत्यात्मा और अनृत ( मिथ्या ) अनात्मा को मिथुन ( युगल ) बनाकर नैसर्गिक ( स्वाभाविक-अनादि ) प्रवृत्त है । इससे इनके वासना अज्ञानादि रूप कारण भी अनादि है । पूर्व पूर्व के असत्य साधन से ही पर पर के असत्य अध्यास होते हैं, उनके विरोधो विचारादि जन्य ज्ञान से इनकी निवृत्ति मुक्ति होती है । इससे ज्ञान के लिये शास्त्र का आरम्भादि कर्तव्य है ॥ २ ॥

सक्षेप से शंका समाधान द्वारा अध्यास प्रयोजनादि का निरूपण करके शका का उत्थान और लक्षणादि द्वारा अध्यास का स्फुट वर्णन किया जाता है अथवा प्रकाश-मानता रूप सत्यता मानकर आक्षेप करने वालो के प्रति वादकथा से सर्व अध्यास की प्रसिद्धि द्वारा उत्तर दिया जाता है कि—

आह कोऽयमध्यासो नामेति । उच्यते स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः ॥३॥

अध्यास का क्या लक्षण है, यह अध्यास किस लक्षण वाला किस रूप से प्रसिद्ध है, इसका लक्षण नहीं हो सकता इत्यादि पूर्ववादी का भाव है । वाद रूप यथार्थ कथात्मक शास्त्र के होने से सत्योत्तर है कि लक्षण कहा जाता है, सुनो ! जो ज्ञान स्मृति के समान सस्कारजन्य होने से स्मृतिरूप ( स्मृति के समान आकार वाला ) असमीपवर्ती वस्तु विषयक हो, उस ज्ञान का विषय वहाँ सत्य नहीं हो, इसीसे जो अन्य वस्तु शक्ति आदि मे अन्य रजतादि का अवभास ( मिथ्याज्ञान ) हो उसको अध्यास कहते है, सो परत्र ( अन्य ) शक्ति मे पूर्वदृष्ट रजन का अवभास ( अध्यास ) रूप है, इसी प्रकार के सादि, अनादि सब अध्यास हैं, और होते हैं ॥ ३ ॥

उक्त मिथ्या अध्यास को सर्वसम्मत समझाने के लिये कहा जाता है कि—

तं केचिदन्यत्रान्यधर्माध्यास इति वदन्ति । केचित्तु यत्र यदध्यासस्तद्वि-

वेकाऽग्रहनिबन्धनो भ्रम इति । अन्ये तु यत्र यद्ध्यासस्तस्यैव विपरीतधर्मत्व-  
कल्पनामाचक्षते इति ॥ ४ ॥

उस अध्यास को कोई सौत्रान्तिक बुद्धमतानुयायी, अन्यत्र ( बाह्य वस्तु ) में विज्ञान रूप आत्मा के धर्म रूप रजतादि का अध्यास ( मिथ्या ज्ञान ) कहते हैं और अन्यथा ख्याति ( अन्य की अन्यथा प्रतीति ) वादी नैयायिक रजत का धर्म रजतत्व की शुक्ति में प्रतीति को या रजतावयव का धर्म रजत की शुक्ति में प्रतीति को अध्यास कहते हैं । असन्निहित की प्रतीति रूप अध्यास को असम्भव समझ कर प्रभाकारादि कहते हैं कि जिस शुक्ति में जिस रजत का अध्यास होता है, वह शुक्ति और रजत के विवेक ज्ञाना-भाव निमित्तक भ्रम कहा जाता है । अर्थात् जहाँ पूर्वदृष्ट रजत का स्मरण होता है और शुक्ति के इदमश का नेत्र से अपरोक्ष ज्ञान होता है, वहाँ प्रत्यक्ष और स्मरण रूप दोनों ज्ञान और दोनों के विषय सत्य ही रहते हैं, परन्तु उस समय विषय और ज्ञानो का विवेक पृथक्ता के ज्ञान के नहीं रहने से वह समूह ज्ञान भ्रम कहाता है । रजत की स्मृति से सन्मुख शुक्ति में रजतार्थी की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इससे कोई जिस शुक्ति में जिस रजत का अध्यास होता है, उस शुक्ति का ही विपरीत रजत रूप धर्मत्व की कल्पना कहते हैं । अर्थात् शुक्ति में मिथ्या रजतत्व सहित रजत की कल्पना आरोप से रजत में प्रवृत्ति मानते हैं ॥ ४ ॥

सर्वथापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति । तथा च लोकेऽनु-  
भवः शुक्तिका हि रजतवदवभासते, एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति । कथं पुनः  
प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम् ? सर्वो हि पुरोऽवस्थिते विषये  
विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनोऽविषयत्वं ब्रवीषि ॥५॥

इस पूर्व कथित रीति से सर्वमत साधारण रूप से और सब प्रकार से ही यह अध्यास अन्य शुक्ति आदि को अन्य धर्म रजतत्वादि रूप से मिथ्या प्रतीति रूपता को नहीं त्यागता है । शून्यवादी को भी शून्य में शून्यभिन्नता रूप मिथ्या प्रतीति मानना पड़ता है । प्रभाकार की भी प्रवृत्ति रजतत्व विशिष्ट के ज्ञान विना शुक्ति में नहीं हो सकती । लोक में सर्वसाधारण का अनुभव भ्रमस्थान में होता है कि शुक्ति का ही भ्रम काल में रजत के समान भासती है और एक ही चन्द्रमा सद्वितीय ( दूसरा चन्द्र सहित ) के समान भासता ( मिथ्या प्रतीति होता ) है । यहाँ शका होती है कि बाहर की शुक्ति आदि वस्तु में उक्त रीति में सर्वमत सिद्ध अध्यास के होने पर भी प्रत्यगात्मा ( अन्तरात्मा ) इन्द्रियादि का अविषय है, उस अविषय रूप अन्तरात्मा में अन्त करणादि रूप बाह्य विषय और उनके धर्मों का अध्यास कैसे हो सकता है, सभी लोग आगे उपस्थित विषय में ही अन्य विषय का अध्यास करते हैं, यदि आत्मा को भी अध्यास की सिद्धि के लिये किसी ज्ञान का विषय शुक्ति आदि के समान माने तो स्वसिद्धान्त का त्याग होगा, क्योंकि प्रत्यगात्मा को अविषय कहते हैं, और यदि आत्मा को विषय भी कहे, तो उसको जानने वाला अन्य ही चिदात्मा सिद्ध होगा और स्वयंप्रकाश रूप

से अत्यन्त प्रकाशित मे भी अध्यास नहीं हो सकता, इससे आत्मा मे अनात्मा का अध्यास कहना अनुचित है ॥ ५-॥

उच्यते-न तावदयमेकान्तेनाविषयः, अस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्, अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धे । न चायमस्ति नियमः पुरोऽवस्थित एव विषये विषयान्तर मध्यमित्त्यमिति । अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्तलमलिनताद्यध्यस्यन्ति ॥६॥

उक्त शका का उत्तर दिया जाता है कि प्रथम तो यह समझना चाहिये कि अहम् ( मैं ) हूँ इत्यादि ज्ञान का विषय होने से आत्मा अत्यन्त अविषय नहीं है अर्थात् स्वयं प्रकाश होने से यद्यपि अविषय है तथापि अविद्या कल्पित अहंकारादि के अध्यास मे ही उसका साक्षी रूप से आत्मा का प्रकाश होता है, और इस भास और अध्यास का अनादि प्रवाह है, इसमे अन्योन्याश्रयादि नहीं है और चेतनात्मा स्वयं प्रकाश होने से यद्यपि अविषय है, तथापि औपाधिककर्ता भोक्तादि रूप जीव भाव से विषय है, और अपरोक्षत्व ( स्वयं प्रकाशत्व ) होने से आत्मा की अप्रसिद्धि नहीं है, किन्तु प्रसिद्धि है, और अन्तरात्मा रूप से अत्यन्त प्रसिद्धि से ही स्वयं प्रकाशरूपता है, और वह स्वयं प्रकाशस्वरूपात्मा स्वशक्ति रूप अविद्या माया का विरोधी नहीं है, इसमे अविद्याजन्य अध्यासादि हान्ते है, शास्त्रगुरु के उपदेशजन्य ज्ञान ही अविद्यादि विरोधी है, इत्यादि । यह भी नियम नहीं है कि आगे स्थिर अपरोक्ष विषय मे ही अन्य अनुपस्थित विषय का अध्यास होना चाहिये, अन्यत्र नहीं, क्योंकि रूप, स्पर्शादि के अभाव मे अप्रत्यक्ष ( इन्द्रियो का अविषय ) आकाश मे भी अविबेकी लोग तल ( अधोलम्बमानता अनुध्वंता ), मलिनता आदि का जहाँ अध्यास करते हैं । वहाँ आलोकाकार नेत्रवृत्ति मे व्यक्तसाक्षिभास्य बहिरिन्द्रिय से अप्रत्यक्ष आकाश मे भी अध्यास होता है ॥ ६ ॥

एवमविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माऽध्यासः । तमेतमेवंलक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते । तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः । तत्रैवं सति यत्र यदध्यास्तत्कृतेन दोषेण गुणेन वाऽगुमात्रेणापि स न सम्बध्यते ॥ ७ ॥

इस पूर्वोक्त रीति से अन्तरात्मा चेतन मे भी अनात्मा अन्त करणादि का अध्यास अविरुद्ध है । अन्य अनेक अध्यास हैं, परन्तु वे अनर्थ के कारण नहीं हैं । आत्मा मे अनात्मा का जो उक्त लक्षणवाले ये प्रसिद्ध अध्यास हैं, उन्हें पण्डित लोग अनर्थ का हेतु अविद्या मानते हैं, क्योंकि ये अविद्याजन्य प्रवाहरूप है और विद्या से निवृत्त होते हैं, इससे भी अविद्या रूप हैं, और उस मिथ्या अध्यस्त वस्तु से विवेक करके सत्यात्म वस्तु के स्वरूप का अध्यास के अधिष्ठान का अवधारण ( निश्चयात्मक ज्ञान ) को पण्डित लोग विद्या कहते हैं । स्वरूपनिष्ठ वह विद्या अनादि अध्यास को भी नष्ट कर देती है । इस प्रकार अनर्थ रूप अविद्या के अव्यासात्मक होने से स्वरूपावधारण

होने पर उसकी निवृत्ति से जहाँ जिसका अध्यास रहता है, वह अध्यासाश्रय अध्यस्त के गुण वा दोष से फिर अणुमात्र भी नहीं सम्बद्ध होता है। अर्थात् अध्यासकाल में भी अध्यस्त के मिथ्या होने से अध्यस्त गुण दोष का अधिष्ठान में वस्तुतः सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु भासता है। विवेकपूर्वक अवधारण होने पर भासना भी निवृत्त हो जाता है, इसमें अन्त करणादि के दोष शोकादि से चिदात्मा नहीं सम्बद्ध होता और न चिदात्मा के आनन्दादि से अन्त करणादि सम्बद्ध होते हैं। इत्यादि ॥ ७ ॥

तमेतमविद्याऽऽख्यमात्मानान्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेय-  
व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः । सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्ष-  
पराणि । कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति ॥८॥

पूर्व वर्णित इस प्रत्यक्ष अविद्या नामक आत्मा और अनात्मा के परस्पर अध्यास को कारण रूप से आगे करके लौकिक और वैदिक प्रमाण प्रमेय के व्यवहार सब प्रवृत्त ( सिद्ध ) हुए हैं, अर्थात् तव-ममादि शब्द प्रयोग रूप पूर्वोक्त व्यवहार के समान दर्शन, श्रवण, ग्रहण त्यागादि रूप प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता के व्यवहार सब भी अध्यास से ही आत्मा में भासते हैं। तथा विधि-निषेध और मोक्ष परक ( बोधक ) सब शास्त्र भी अध्यासपूर्वक ही प्रवृत्त हुए हैं। यहाँ शका होती है कि अन्य व्यवहार अविद्यावद् विषयक हो सकते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण अविद्यायुक्त आत्मविषयक कैसे हो सकते हैं, यथार्थ ज्ञान के जनक को प्रमाण कहा जाता है, और यथार्थ ज्ञान रूप प्रमा से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है किसी प्रकार कल्पित व्यावहारिक प्रमाणात् होने से सत्य-प्रमाणात् रहित प्रत्यक्षादि प्रमाण में अविद्यावद्विषयकत्व होने पर भी पुरुष का हित के लिये धर्मादि के बोधक शास्त्र कैसे अविद्याश्रय आत्मविषयक है और अविद्यावाला आत्मा जिनका आश्रय विषय हैं ऐसे प्रत्यक्षादि प्रमाण कैसे कहा सकते हैं, और शास्त्र कैसे कहा सकते हैं। क्योंकि अविद्या के नाशक प्रमाण और शास्त्र कहाते हैं ॥ ८ ॥

उच्यते—देहेन्द्रियादिष्वहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वाऽनुपपत्तौ प्रमाण-  
प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । नहीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति । न  
चाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणां व्यवहारः सम्भवति । न चानध्यस्तात्मभावेन  
देहेन कश्चिद्द्व्याप्रियते । न चैतस्मिन् सर्वस्मिन्नसति, असङ्गस्थात्मनः प्रमातृ-  
त्वमुपपद्यते । न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति । तस्मादविद्यावद्विष-  
याण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च ॥ ९ ॥

उत्तर दिया जाता है कि देह और इन्द्रियादि में अध्यासजन्य अह ( मैं ), मम ( मेरा ) इस प्रकार आत्मत्व और आत्मसम्बन्धित्व का व्यवहार जाग्रत और स्वप्नकाल में होता है। अभिमान के अभाव से सुषुप्ति आदि में व्यवहार नहीं होता, क्योंकि देहादि में अह, ममादि अभिमान रहित को प्रमाता रूपता की असिद्धि होने पर प्रमाण की भी असिद्धि से प्रमाण मूलक व्यवहार नहीं सिद्ध हो सकता है और प्रमातृत्व की सिद्धि होने ही पर वह प्रमाता रूप कर्ता इन्द्रियादिरूप कारणों को आत्मसम्बन्धिरूप

मे ग्रहण करके व्यवहार मे प्रवृत्त होता है, क्योंकि इन्द्रयादि रूप प्रमाकरणो को ग्रहण किये बिना प्रत्यक्षानुमिति आदि रूप व्यवहार हो नहीं सकते है, और अविद्यान ( आत्मरूप से कल्पित देहरूप आश्रय ) तथा आत्मा के बिना इन्द्रियो के व्यापार दर्शनादि नहीं हो सकते है, क्योंकि कर्ता के बिना करणो के व्यापार नहीं बन सकते, और इन्द्रियो के आश्रय देह से भी उसमे अद्यस्त आत्मता के बिना कोई भी व्यापार मे नहीं प्रवृत्त होता है, आत्मता के अध्यास रहित अन्य के देह से स्वदेह के समान व्यवहार नहीं करता है। इससे इन सब अध्यासो के नहीं रहने पर असङ्ग सत्यात्मा को प्रमातृत्व नहीं बन सकता, और प्रमातृत्व के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रमाता की प्रेरणा से विषय मे प्रमाणो की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार आत्मानात्मा के परस्पर अध्यास जन्य होने से प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र भी अविद्या वाला प्रमाता के आश्रित हैं और सर्वाधिष्ठानात्मा मे भी अज्ञान से ही कल्पित है। आत्मा को प्रमाणो की जरूरत नहीं है, वह स्वय प्रकाश साक्षिमात्र है ॥ ९ ॥

पश्चादिभिश्चाविशेषात् ! यथा हि पश्चादयं शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति शब्दादिविज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले प्रवर्तन्ते । यथा दण्डोद्यतकरं पुरुषमभिमुखमुपलभ्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पलायितुमारभन्ते, हरितृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं प्रत्यभिमुखीभवन्ति । एव पुरुषापि व्युत्पन्नचित्ताः क्रूरदृष्टीनाक्रोशतः खड्गोद्यतकरान् बलवत उपलभ्य ततो निवर्तन्ते. तद्विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते, अतः समान पश्चादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः ॥१०॥

जिज्ञासा हुई कि किसी अज्ञ का व्यवहार अध्यासजन्य हो सकता है, परन्तु प्रमाणादि का व्यवहार तो विद्वानो को भी होता है, वह कैसे अविद्यावद्विषयक हो सकता है, तब कहा जाता है कि विद्वान् अविद्वान् सब मनुष्यो का व्यवहार पशु आदि के समान ही अध्यासजन्य होते है, इससे व्यवहार मे पशु आदि से अविवेकता ( तुल्यता ) से विद्वान् का व्यवहार भी अध्यासजन्य है, क्योंकि जैसे शब्दादि के साथ श्रोत्रादि इन्द्रियो के सम्बन्ध होने पर और शब्दादिविज्ञान के प्रतिकूल होने पर पशु आदि भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, और अनुकूलज्ञान होने पर प्रवृत्त होते हैं। जैसे कि हाथ मे दण्ड उठाये हुए पुरुष को सामने देखकर यह मुझे मारना चाहता है, ऐसा समझ कर वहाँ से पशु भागने लगते हैं। और हरी घास से पूर्ण हाथ वाला को देखकर उसके सन्मुख पास मे जाते हैं। इसी प्रकार शब्दादि के अर्थज्ञ विवेकी पुरुष भी क्रूर दृष्टि वाले विरुद्ध वक्ता खड्गधारी बली को देखकर उससे निवृत्त होते हैं और उससे विपरीतो के प्रति प्रवृत्त होते हैं। इससे पुरुषो का प्रमाणप्रमेय सम्बन्धी व्यवहार पशु आदि के तुल्य ही है ॥ १० ॥

पश्चादीनां च प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरः प्रत्यक्षादिव्यवहारः । तत्सामान्य-दर्शनाद् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहारस्तत्कालः समान इति

निश्चीयते । शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वात्मनः परलोक-सम्बन्धमधिक्रियते तथापि न वेदान्तवेद्यमशानायाद्यतीतमपेतब्रह्मक्षत्रादिभेदम-संसार्यतमतत्त्वमधिकारेऽपेक्ष्यते, अनुपयोगादधिकारविरोधाच्च ।

पशु आदि का प्रत्यक्षादि व्यवहार अविवेकपूर्वक ( अविवेकहेतुक ) प्रसिद्ध ही है । उसकी तुल्यता को देखने से निश्चय किया जाता है कि विवेकी पुरुषो का भी अध्यास-कालिक व्यवहार पशु आदि के तुल्य ही होता है, लौकिक व्यवहार-काल मे पशु आदि के समान ही 'मै', 'मेरी'-बुद्धिपूर्वक विद्वान् का भी व्यवहार होता है । शास्त्रीय यज्ञदानादि व्यवहारकाल मे तो बुद्धिपूर्वक कर्म करनेवाले विवेकी यद्यपि अपनी आत्मा के परलोक सम्बन्ध को समझे बिना कर्म मे अधिकृत ( प्रवृत्त ) नहीं होते हैं । क्षणभङ्गुर देह से भिन्न आत्मा का शास्त्रादि से उन्हें परोक्ष ज्ञान रहता है । इससे वह व्यवहार अध्यासमूलक नहीं होना चाहिये, तथापि वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं रहता है । इससे आत्मा को कर्ता, भोक्ता तथा देह के धर्म वर्णाश्रमादियुक्त मानकर कर्मों मे प्रवृत्त होते हैं । इसमे कारण यह है कि वेदान्त से ज्ञेय भूख-पिपासादि-रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद से शून्य अससारी ( नित्यमुक्त, असग ) सत्यात्मा कर्माधिकार मे अपेक्षित नहीं है, प्रत्युत अससारी आत्मा और उसके ज्ञान के अधिकार मे अनुपयोग ( फलाभाव ) और विरोध है । इसलिये सत्यात्मा के ज्ञान से रहित के प्रति ही कर्मकाण्डात्मक शास्त्र प्रवृत्त होता है । वेदान्त भी प्रमाता आदि भेददर्शी के प्रति ही प्रवृत्त होता है, परन्तु फिर भेदादि-रहित निजस्वरूप मे उसको स्थिर करता है, यह रहस्य है ।

प्राक् च तथाभूतात्मविज्ञानान् प्रवर्तमानं शास्त्रमविद्यावद्विषयत्वं नातिव-र्तते । तथा हि 'ब्राह्मणो यजेत' इत्यादीनि शास्त्राण्यात्मनि वर्णाश्रमवयोऽवस्था-दिविशेषाध्यासमाश्रित्य प्रवर्तन्ते । अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धिरित्यवो-चाम । तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति, तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं, कृशोऽहं, गौरोऽहं, तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्घयामि चेति । तथेन्द्रियधर्मान् मूकः, काणः, क्लीबः, बधिरः, अन्धोऽहमिति । एवमन्तःकरणधर्मान् कामसंकल्पविचिकित्साऽध्यवसा-यादीन् ।

शंका होती है कि यदि वेदान्तवेद्य आत्मा अधिकार-विरोधी है, तो वह ज्ञान होने पर शास्त्र से विरोध करेगा, जिससे परस्पर विरोध द्वारा शास्त्र अप्रमाण होगा । उत्तर रुहा जाता है कि क्षुधादिरहित पूर्ववर्णित आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान से प्रथम-प्रवर्तमान-शास्त्र अविद्यावद्विषयता को नहीं त्यागता, बल्कि प्रमाण ही रहता है, और शास्त्र भी अध्यास मे प्रमाण हो जाता है । वह इस प्रकार होता है कि 'ब्राह्मण यज्ञ करे' ( ब्राह्मणो यजेत ), 'गृहस्थ अपने सदृश स्त्री को प्राप्त करे' ( गृहस्थः सदृशी भार्या विन्देत ), 'काले केशवाला अभियों को धारण करे' ( कृष्णकेशोऽग्नीनादधीत ), 'आठ वर्ष के ब्राह्मण का उपनयन सस्कार करे' ( अष्टवर्ष

ब्राह्मणमुपनयेत् ) इत्यादि शास्त्रवचन सब वर्ण, आश्रम, आयु, अवस्था आदि रूप देहधर्मविशेष का जो आत्मा मे अध्यास है उनका आश्रयण करके ही प्रवृत्त होते है । ( वर्णादियुक्त से भिन्न आत्मा मे ) वर्णादि की बुद्धि ( ज्ञान ) अध्यास है । यह प्रथम कहा गया है । इस अध्यास के ये उदाहरण है कि पुत्र, स्त्री आदि के विकल-सकल ( दुखी-सुखी ) आदि रहने पर उन बाह्य वस्तु पुत्रादि के धर्मों को मनुष्य आत्मा मे अध्यास करता है कि मैं ही विकल ( अपूर्ण, दुखी ) और मैं ही सकल ( सर्वाङ्गपूर्ण ) हूँ । यहाँ पुत्रादि की देहो को अपनी देह के साथ अभेदाध्यास-पूर्वक परपरा से उनके देह-धर्मों का आत्मा मे अध्यास करता है । इसी प्रकार अपनी देह के स्थूलत्व, कृशत्व, गौरत्व, स्थिति, गति, लंघनादि धर्मों का आत्मा मे अध्यास करता है कि मैं स्थूल हूँ, कृश हूँ, गौर हूँ, खडा हूँ, चलता हूँ, लाँघता हूँ इत्यादि, वैसे ही इन्द्रियो के मूकत्व, काणत्व, क्लीबत्व, बधिरत्व और अन्धत्वादि धर्मों का आत्मा मे अध्यास करता है कि मैं मूक, काण, नपुसक, बधिर, अन्ध आदि हूँ । इसी प्रकार अन्त करण के धर्म-काम, संकल्प, संशय, निश्चयादि का अध्यास करता है कि मैं कामी, सकल्पवाला, संशय-युक्त और निश्चय वाला हूँ इत्यादि, क्योंकि स्थूलत्वादि और काणत्वादि तो देह और इन्द्रियो के धर्म प्रत्यक्ष ही है । कामादि भी 'काम सकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धाघृतिरवृत्तिर्हीर्षीर्भोऽरित्येतत्सर्वं मन एव' ( वृ० १।५।३ ) इत्यादि श्रुति-अनुभव के अनुसार मन के ही धर्म हैं, आत्मा के नहीं ॥ १२ ॥

एवमहं प्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति । एवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूपः कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तकः सर्वलोकप्रत्यक्षः । अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय, आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते । यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः ।

इस पूर्ववर्णित रीति से 'अहम्' ( मैं ) इस वृत्तिरूप ज्ञान के आश्रय अन्त.करण का अन्त.करण के सब प्रचार ( प्रवृत्ति-वृत्ति ) के साक्षी प्रत्यगात्मा मे अध्यास (आरोप) करके फिर उससे विपरीत रूप से उस प्रत्यगात्मा सर्वसाक्षी का अन्त.करणादि मे लोग अध्यास करते हैं । इस प्रकार यह मिथ्या ( भ्रम ) ज्ञानरूप और प्रवाह तथा कारणरूप अनादि और आत्मानुभव के बिना अन्त ( नाश ) रहित-अनन्त अतएव नैसर्गिक ( स्वाभाविक ) अविद्यारूप स्वभावजन्य यह अध्यास ( भ्रम ) है । वही कर्तृत्व-भोक्तृत्वादिरूप संसार का प्रवर्तक ( हेतु ) है, जो सब लोगो को प्रत्यक्ष है । भ्रमयुक्त संसार सबको साक्षीस्वरूप आत्मा से अनुभूत है । इसके ज्ञान के लिये अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । इस अनर्थ के हेतु अध्यास की निवृत्ति के लिये और उस निवृत्ति के हेतु आत्मा की एकता के ज्ञान की प्राप्ति (सिद्धि) के लिये ही सब वेदान्त

( उपनिषद् ) आरब्ध हुए हैं । यद्यपि वेदान्त मे उपासनाओ का भी वर्णन है, तथापि उन सब वेदान्तो का भी जिस प्रकार एकात्मज्ञानरूप ही प्रयोजन है, उसे हम इस शारीरकमीमासा मे प्रदर्शित करेगे । शरीरक ( निन्दित देहनिवासी ) जीव शारीरक है, उसकी ब्रह्मरूप से मीमासा ( पूजित विचार ) शारीरक मीमासा है ॥ १३ ॥

### जिज्ञासाधिकरण ॥ १ ॥

अविचार्यं विचार्यं वा ब्रह्माऽध्यासानिरूपणात् ।  
असन्देहाऽफलत्वाभ्यां न विचारं तदर्हति ॥ १ ॥  
अध्यासोऽहं बुद्धिसिद्धोऽसङ्गं ब्रह्म श्रुतीरितम् ।  
सन्देहान्मुक्तिभावाच्च विचार्यं ब्रह्म वेदतः ॥ २ ॥

ब्रह्म विचार के योग्य है या नहीं । अर्थात् ब्रह्मविचारात्मक शास्त्र कर्तव्य है या नहीं, ऐसी घका होने पर पूर्वपक्ष होता है कि यदि अज्ञानजन्य अध्यास का सम्भव हो तो अज्ञान की निवृत्तिपूर्वक अध्यास की निवृत्ति के लिए शास्त्र का आरम्भ हो सकता था, परन्तु मैं कहता हूँ, मैं देह नहीं, मेरी देह है इत्यादि विवेकपूर्वक ज्ञान होने से अध्यास का निरूपण नहीं हो सकता । इस कारण से ही आत्मा मे सशय का अभाव है, मैं हूँ कि नहीं हूँ ऐसा संशय किसी को नहीं है कि जिसकी निवृत्ति के लिये विचार करे और इसीलिए शास्त्रारम्भ का कोई फल नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ऐसा ज्ञान सबको है, और वह 'मैं' ज्ञान का विषय आत्मा ही तो ब्रह्म है और उस ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, इससे ब्रह्मज्ञान के लिये विचार करना योग्य नहीं है ॥ १ ॥

उत्तर है कि यद्यपि मैं देह नहीं हूँ इत्यादि परोक्ष ज्ञान किसी को होता है, परन्तु 'स्थूलोऽहं' 'कृशोऽहं' इत्यादि वर्णित रीति से अविवेक अज्ञानपूर्वक अध्यास प्रत्यक्ष-सिद्ध है । यदि कहा जाय कि देह मे ब्रह्मात्मा का सम्बन्ध है, इससे 'स्थूलोऽहं' इत्यादि गौण व्यवहार होता है, अध्यास नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्मात्मा असङ्ग है ऐसा श्रुतियो मे कहा गया है । इससे अध्यास के बिना देहेन्द्रियान्त करणादि के साथ आत्मसम्बन्ध की प्रतीति भी नहीं हो सकती और इस सम्बन्धाध्यास से ही आत्मा मे ब्रह्मभिन्नत्वाभिन्नत्व, नित्यत्वाऽनित्यत्व, एकत्वानेकत्वादि का सशय होता है और अज्ञान, अध्यास, सशयादि की ज्ञानद्वारा निवृत्ति से मुक्तिरूप फल होता है इससे वेदादि द्वारा ब्रह्मविचार कर्तव्य है और विचारात्मक शास्त्र का आरम्भ उचित है ॥ २ ॥

वेदान्तमीमांसा-शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्येदमादिमं सूत्रम्—

### अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥

जिसका व्याख्यान करना चाहते हैं, उस वेदान्तमीमासा नामक शास्त्र का यह प्रथम सूत्र है—'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' । प्रतिज्ञायुक्त इस सूत्रप्रदर्शन से भाष्यकार ने पूर्वमीमासा से इस शास्त्र की सर्वथा भिन्नता का और सफलता का तथा विषयादि का प्रदर्शन कराया है । सूत्र का सक्षितार्थ है—



‘यत तमेत ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ( बृ० ४।४।२२ ) तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन तस्मादेवविच्छ्रान्तो दान्त उपरतस्ति तिक्षु समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति ( बृ० ४।४।२३ ) इत्यादिश्रुतिप्रोक्तप्रणालिक्रिया यज्ञादिभिः शुद्धे चेतसि ब्राह्मणादीनामधिकारिपुरुषाणां ब्रह्मजिज्ञासा भवति । किञ्च तमात्मानं ज्ञातवैव पापात्मकेन बन्धनप्रदेन कर्मणा न लिप्यते । तस्मादेव विवेकादिवान् पुरुषः शमादियुक्त उपरतस्ति तिक्षु समाहितो भूत्वा निजबुद्धान्नेवात्मानं सर्वमात्मस्वरूपमेव पश्यति, अतश्चेतसः शुद्धिं विधाय शमादिकं सम्पाद्य कर्मफलानित्यत्वं ज्ञानफलस्य नित्यत्वं च निश्चित्य अथ तदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या, तथा विचारं सम्पाद्य ज्ञानं लब्ध्वा ब्रह्मात्मना स्थातव्यमित्यादि ॥

—जिससे ‘तमेतम्’ और ‘तं विदित्वा’ इत्यादि श्रुतिकथित प्रणाली (प्रवाह-परंपरा) से यज्ञादि द्वारा शुद्ध चित्त में ब्राह्मणादि अधिकारी पुरुषों को ब्रह्मज्ञान की इच्छा होती है और उस ब्रह्मात्मा को जानकर ही पापात्मक बन्धनप्रद कर्म से मनुष्य लिप्त नहीं होता है, जिससे ऐसा विवेकादि वाला पुरुष शम-दमादियुक्त, उपरत, तितिक्षु, समाहित होकर अपनी बुद्धि में आत्मा को सर्वात्मस्वरूप देखता है और चित्तशुद्धि द्वारा शमादि का सम्पादन करके कर्मफल की अनित्यता और ज्ञानफल की नित्यता का निश्चय करके विरागपूर्वक ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्य है, उससे विचार का संपादन करके मोक्ष के लिये ब्रह्मनिष्ठ होना उचित है । इसलिये ‘जन्माद्यस्य यत’ इत्यादि शास्त्र का आरम्भ किया जाता है । यह अन्य शास्त्र से साध्य नहीं है, इससे शास्त्रारम्भ सफल कर्तव्य है ।

अत्राथशब्द आनन्तर्यार्थः परिगृह्यते नाधिकारार्थः, ब्रह्मजिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात् । मङ्गलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावात् । अर्थान्तरप्रयुक्तो ह्येवाथशब्दः श्रुत्या मङ्गलप्रयोजनो भवति । पूर्वप्रकृतापेक्षयाश्च फलत आनन्तर्याऽव्यतिरेकात् ।

सूत्र के अथ, अतः, ब्रह्मजिज्ञासा, इन तीनों पदों में से प्रथम पठित अथ शब्द आनन्तर्य (अनन्तरता) अर्थ वाला परिगृहीत हुआ है और माना गया है । शका हुई कि ‘मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्येऽप्यथो अथ’ इस अमरकोश में मंगल, अनन्तर, आरम्भ, प्रश्न और पूर्णता, अर्थ में ‘अथ’ शब्द कहा गया है, और ‘अथ शब्दानुशासनम्,’ ‘अथ योगानुशासनम्’ इत्यादि स्थान में आरम्भ अर्थ में ‘अथ’ शब्द देखा जाता है, तथा यहाँ भी जिज्ञासा शब्द को विचार अर्थ में रूढादि मानकर कोई ‘अथ’ शब्द को अधिकारार्थक कहते हैं, तो इसको अधिकारार्थक क्यों नहीं माना जाता इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि यह ‘अथ’ शब्द अधिकार अर्थ वाला नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा शब्द की विचारार्थता में कोई हेतु नहीं है । ‘तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व’ इत्यादि वाक्य में भी विजिज्ञासा शब्द का विशेष ज्ञान की इच्छा ही अर्थ है और वाक्यार्थ का अन्वय हो सकने पर लक्षणा की जरूरत नहीं है, इत्यादि । सूत्रनार्थक सूत्र होता

है। इससे विचार की भी सूचना होती है, परन्तु वाक्यार्थजिज्ञासा अधिकार के योग्य नहीं है। इसी से 'अथ' शब्द मङ्गलार्थक भी नहीं है, और मगल भी यहाँ 'अथ' शब्द का वाच्य वा लक्ष्य अर्थ नहीं है, क्योंकि शब्द का वह अर्थ वस्तुतः होता है कि जिसका कर्ता-कर्म-करणादि रूप से वाक्यार्थ में अन्वय (सम्बन्ध) हो सके, और मगल के वाक्यार्थ में सम्बन्ध का अभाव है इससे अन्य अर्थ में (अन्तरार्थ में) ही उच्चारित (पठित) 'अथ' शब्द श्रवण मात्र से मगल फलवाला होता है। यदि कहा जाय कि पूर्वप्रकृत (प्रारब्ध) की अपेक्षारूप विकल्प अर्थ में भी अथ शब्द होता है, जैसे कहा जाता है कि 'प्रपञ्चो मिथ्याऽस्ति, अथ (अथवा) सत्योऽस्ति' यहाँ पूर्व की अपेक्षा दूसरा अर्थ अथ शब्द का है, तो उत्तर है कि फलरूप में प्रकृतापेक्षा आनन्तर्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि प्रकृतापेक्षा में भी मिथ्यात्व के बाद सत्यत्व की प्रतीति होती है और आनन्तर्य में विवेकादि के बाद जिज्ञासा प्रतीति होती है, परन्तु एक वस्तु में पक्षान्तर के कथन से वहाँ विकल्प भासता है, आनन्तर्यार्थ में विकल्प नहीं रहता है यह भेद है।

सति चानन्तर्यार्थत्वे यथा धर्मजिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेदाऽध्ययनं नियमेनापेक्षते, एवं ब्रह्मजिज्ञासापि यत्पूर्ववृत्तं नियमेनापेक्षते, तद्वक्तव्यम् 'स्वाध्यायानन्तर्यं तु समानम्। नन्विह कर्मावबोधानन्तर्यं विशेषः। न, धर्मजिज्ञासायाः प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः। यथा च हृदयाद्यवदानानामानन्तर्यनियमः क्रमस्य विवक्षितत्वान्न तथेह क्रमो विवक्षितः, शेषशेषित्वेऽधिकृताऽधिकारे वा प्रमाणाभावात्, धर्मब्रह्मजिज्ञासयोः फलजिज्ञास्यभेदाच्च।

पूर्ववर्णित रीति से अथ शब्द की आनन्तर्यार्थकता की सिद्धि होने पर, जैसे धर्ममीमांसा अपने पूर्वसिद्ध वेदाध्ययन की नियम से अपेक्षा करती है, क्योंकि वेदाध्ययन ही उसका विशेष पुष्कल कारण है, वैसे ही ब्रह्ममीमांसा भी जिस पूर्वसिद्ध की नियम से अपेक्षा करती है वह वक्तव्य है, इस लिये उसे कहना चाहिये। ब्रह्मजिज्ञासा से नियमपूर्वक पूर्वापेक्षित वेदाध्ययन नहीं हो सकता, वह ब्रह्ममीमांसा का समान कारण है—विशेष नहीं। धर्म के समान ब्रह्म भी वेद का अर्थ है, उसकी पूर्वमीमांसा बन ही चुकी थी। यदि इससे कुछ अधिक अर्थ नहीं कहना हो तो शास्त्र व्यर्थ होगा। शंका होती है कि ब्रह्ममीमांसा में पूर्वमीमांसाजनित कर्मज्ञान की अनन्तरता विशेष है, क्योंकि कर्मावबोध के बाद यज्ञदानादि से शुद्धान्त करण वाला ही सफल ब्रह्ममीमांसा कर सकता है। उत्तर है कि जन्मान्तरकृत यज्ञादि और भक्ति आदि से शुद्ध अन्त करण वालो हजारो न्यायादियुक्त धर्ममीमांसा से प्रथम भी वेदान्त के अध्ययन वालो को ब्रह्मजिज्ञासा की सिद्धि हो सकती है। पशुयाग में 'हृदयस्याग्नेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षस'—(तैत्ति० स०, शतपथ) इत्यादि वचनो से जैसे अवदानो (हृदयादि खण्डनो)

की अनन्तरता का नियम है, क्योंकि एक कर्मकर्ता क्रमनियम के बिना अनेक कर्म कर नहीं सकता है, इससे अवदानो में क्रम विवक्षित है उसी प्रकार यहाँ धर्म ब्रह्ममीमासा में क्रम विवक्षित नहीं है, क्योंकि दोनों के कर्ता एक काल में एक नहीं प्राप्त है न इन दोनों मीमासाओं को शेषशेषित्व ( अङ्गाङ्गित्व ) में या अधिकृताधिकार में ही कोई प्रमाण है कि जिससे क्रम हो सके ।

भाव यह है कि—दर्श और पौर्णमास नामक याग में, समिधो यजति, इडो यजति, बहिर्यजति, तनूनपात यजति, स्वाहाकार यजति, इन वचनों से पाँच प्रयाज नामक अङ्गरूप यज्ञ विहित हैं, दर्श तथा पौर्णमास प्रधान (अङ्गी) है और इनके प्रयोग (क्रिया) विधायक वचन अङ्ग और प्रधान सब कर्म में एक पुरुष से कर्तव्यता का विधान करते हैं । इससे नियत क्रम बिना एक मनुष्य इन्हे कर नहीं सकता, अतः श्रुतिपाठादि के अनुसार क्रम सिद्ध होता है । 'दर्शपौर्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत' इस वचन से दर्श पूर्णमास में अधिकृत ( अधिकारयुक्त ) को सोमयाग में अधिकार कहा गया है । क्योंकि प्रथम दर्श पौर्णमास करके सोमयाग किया जाता है, अतः दर्शपूर्णमास में अधिकृत का ही सोमयाग में अधिकार होने से नियत क्रम होता है, यह कोई बात धर्मब्रह्ममीमासा में नहीं है, धर्ममीमासा ब्रह्ममीमासा का अङ्ग नहीं है, न धर्ममीमासा का अधिकारी ही ब्रह्ममीमासा का अधिकारी हो ऐसा नियम है, क्योंकि इसमें श्रुति आदि कोई प्रमाण नहीं है । अङ्गाङ्गिभाव, अधिकृताधिकार नहीं होने पर भी फल और जिज्ञास्य ( विचार का विषय ) एक होता तो नियत क्रम हो सकता था, जैसे कि स्वर्गार्थक आग्नेयादि छ. यागो का और पूर्वमीमासा के द्वादशाध्यायो का फल स्वर्ग और जिज्ञास्य धर्म एक-एक है, इससे उनका नियत क्रम भी है । धर्मब्रह्ममीमासा के फल और जिज्ञास्य वस्तु में भेद है, इससे क्रम नहीं है ।

अभ्युदयफलं धर्मज्ञानं तच्चानुष्ठानापेक्षम् । निःश्रेयसफलं तु ब्रह्मविज्ञानं न चानुष्ठानान्तरापेक्षम् । भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति, पुरुषव्यापारतन्त्रत्वात् । इह तु भूतं ब्रह्मजिज्ञास्यं नित्यत्वान्न पुरुषव्यापारतन्त्रम् । 'चोदनाप्रवृत्तिभेदाच्च या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये नियुञ्जानैव पुरुषमवबोधयति । ब्रह्मचोदना तु पुरुषमवबोधयत्येव केवलम्, अवबोधस्य चोदनाजन्यत्वान्न पुरुषोऽवबोधे नियुज्यते । यथाऽक्षार्थसन्निकर्षेणार्थावबोधे तद्वत् ।

अभ्युदय ( स्वर्गादि ) रूप फल वाले धर्म का ज्ञान होता है, और वह फल धर्मरूप कर्म के अनुष्ठान ( आचरण ) की अपेक्षा करता है, धर्म के ज्ञानमात्र से नहीं सिद्ध होता है । उससे विलक्षण मोक्षफलवाला ब्रह्मविज्ञान है । वह अपने स्वरूप से

१. यहाँ भामती, रत्नप्रभा में चोदना शब्द का उपदेशमात्र अर्थ किया गया है । इससे 'चोदनाऽजन्यत्वात्' पाठ समझ कर विधिअजन्यत्वादि अर्थ उचित नहीं है, अन्यथा ब्रह्म चोदना शब्द का अर्थ अयुक्त होगा ।

अतिरिक्त अनुष्ठान की अपेक्षा मोक्षरूप फल के लिये नहीं करता, स्वयं मोक्ष देता है। यह फल का भेद है। जिज्ञास्य का भेद है कि धर्ममीमांसा का जिज्ञास्य भव्यक्रिया द्वारा साध्य भावी धर्मजिज्ञासाजन्य ज्ञानकाल में नहीं रहता, क्योंकि वह पुरुष के अधीन है, प्रमाण के अधीन नहीं है, न नित्य है। ब्रह्ममीमांसा में तो भूत ( नित्यसिद्ध ) स्वयंप्रकाश सत्य ब्रह्म जिज्ञास्य है, अतः नित्य होने से ब्रह्म पुरुष के व्यापार के अधीन नहीं है। इन उक्त हेतुओं से जिज्ञास्य-भेद है ही। अज्ञात तत्त्वों के बोधक वैदिक शब्द प्रमाणरूप जो चोदना उसकी प्रवृत्ति में भेद से भी जिज्ञास्य में भेद सिद्ध होता है, क्योंकि धर्म के लक्षणरूप जो वैदिक शब्द है सो अपने विषय ( बोध्य ) धर्म में पुरुष को प्रवृत्त करते हुए—प्रेरणा करते हुए ही धर्म का बोध कराते हैं। ब्रह्म के बोधक शब्द तो केवल पुरुष को ब्रह्मबोध ( ज्ञान ) ही कराते हैं, और ब्रह्म-बोध के शब्दप्रमाणजन्य होने से प्रेरणाजन्य नहीं होने से उस अवबोध ( ज्ञान ) में भी पुरुष की प्रवृत्ति नहीं कराई जाती है, अर्थात् प्रमाणजन्य ज्ञान होता है प्रेरणा-जन्य नहीं, इससे पुरुष बोध में नियुक्त, प्रवृत्त नहीं किया जाता है, जैसे कि इन्द्रिय और उसके विषयरूप पदार्थ के सम्बन्ध से जन्यज्ञान में प्रवृत्ति नहीं कराई जाती है, सम्बन्ध के बाद नेत्ररूप प्रमाण से प्रेरणा बिना ही ज्ञान होता है, वैसे ही शब्द की शक्ति ज्ञानादियुक्त पुरुष को शब्दज्ञान के बाद प्रेरणा के बिना ही ज्ञान होता है इत्यादि।

तस्मात् किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिश्यत इति । उच्यते—  
नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थभोगविरागः, शमदमादिसाधनसम्पत्, मुमु-  
क्षुत्वं च । तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्मजिज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्मजिज्ञासितुं ज्ञातुं  
च न विपर्यये । तस्मादथशब्देन यथोक्तसाधनसम्पत्स्यानन्तर्यमुपदिश्यते ।

उक्त रीति से अथ शब्द के आनन्तर्यार्थक सिद्ध होने पर और धर्मावबोधोपादि से अनन्तरता नहीं बन सकने पर कुछ ऐसा विशेष साधन कहना चाहिये कि जिसके अनन्तर रूप से ब्रह्मजिज्ञासा का उपदेश सूत्रकार ने दिया है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि नित्य आत्मवस्तु और अनित्य अनात्मवस्तु का पृथक् निश्चयरूप विवेक एक साधन है। उसके बाद अनित्य लौकिक पारलौकिक अर्थ ( विषयादि ) और भोगों में विराग दूसरा साधन है। शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा, की सम्पत्ति ( प्राप्ति ) तीसरा साधन है। उसके बाद उत्कट मोक्षेच्छा चतुर्थ साधन है। इन सब साधनों के रहने पर धर्मजिज्ञासा से प्रथम और उसके पीछे भी ब्रह्मजिज्ञासा ( विचार ) की जा सकती है, और ब्रह्म को समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं। इन साधनों के बिना जिज्ञासा सफल नहीं हो सकती है, न ज्ञान हो सकता है, जिससे अथ शब्द द्वारा पूर्वोक्त साधनप्राप्ति से अनन्तरता का उपदेश दिया जाता है। विषयों से मन के निरोध को शम, इन्द्रियनिरोध को दम, गुरु आदि में विश्वास को श्रद्धा, मन की स्थिति को समाधान, कर्मादि से उपरामता को उपरति, सहनशीलता को तितिक्षा कहते हैं।

अतः शब्दो हेत्वर्थः । यस्माद्धेद एवाग्निहोत्रादीनां श्रेय-साधनानामनित्य-फलतां दर्शयति-‘तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते’ ( छा० ८।१।६ ) इत्यादिः । तथा ब्रह्मविज्ञानादपि परं पुरुषार्थं दर्शयति-‘ब्रह्मविदाप्नोति परम्’ इत्यादिः ( तैत्ति० २।१ ) । तस्माद्यथोक्तसाधनसम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या । ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । ब्रह्म च वक्ष्यमाण-लक्षणं ‘जन्माद्यस्य यतः’ इति ।

सूत्रगत अत शब्द हेतुवाचक हे, हेतु यह है कि जिससे वेद ही नौकिक पार-लौकिक श्रेयः ( शुभ ) के साधन अग्निहोत्रादि की अनित्यफलता ( विनश्वरफल वाला) दर्शति ( समझाते ) है कि इस मनुष्यलोक में जैसे कर्मों से साधित लोक ( भोगों के साधन ) नष्ट हो जाते हैं वैसे ही परलोक में होने वाले पुण्य-साधित लोक भी नष्ट होते हैं ( अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान् । ऋग्० अष्टक ६।अ४। व० ५ मंडल ८ अनु० ६ सू० ४८ ) सोम पिया, अमृत हो गये, ज्योति ( स्वर्ग ) पाये, देवो को समझा, इत्यादि वचन स्तुतिरूप हैं । इसी प्रकार ब्रह्मविज्ञान से परपुरुषार्थ ( मोक्ष ) वेद दर्शति है कि ब्रह्मज्ञानी परब्रह्म को प्राप्त करता है, इत्यादि । इस कारण से पूर्वोक्त साधन की प्राप्ति के बाद जिज्ञासा कर्तव्य है, ब्रह्म वह है, जिसका ‘जन्मा-द्यस्य यतः’ इस सूत्र से लक्षणा करना है ।

अत एव न ब्रह्मशब्दस्य जात्याद्यर्थान्तरमाशङ्कितव्यम् । ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेषे, जिज्ञास्यापेक्षत्वाज्जिज्ञासायाः, जिज्ञास्यान्तरानिर्देशाच्च । ननु शेषषष्ठीपरिग्रहेऽपि ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं न विरुद्धयते सम्बन्धसामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात् । एवमपि प्रत्यक्षं ब्रह्मणः कर्मत्वमुत्सृज्य सामान्यद्वारेण परोक्षं कर्मत्वं कल्पयतो व्यर्थः प्रयासः स्यात् ।

यद्यपि ब्रह्मशब्द ब्रह्मा, ब्राह्मणत्व, तप, वेद, ऋत्विग्विशेषादि अर्थ में अन्यत्र पढा जाता है, परन्तु यहाँ जगत्कारणत्व के अन्य में असम्भव से ही ब्रह्म शब्द के जाति आदि अन्य अर्थ की शका नहीं करनी चाहिये । और ( ब्रह्मणो जिज्ञासा ) इस विग्रह-वाक्य में ब्रह्मणः, इस पद की षष्ठी विभक्ति ‘कर्तृकर्मणोः कृति’ इस सूत्र से कर्मार्थ में है । ‘शेषे’ इस सूत्र से शेष ( सम्बन्धसामान्य ) अर्थ में नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा-रूप क्रिया को कर्मरूपजिज्ञास्य की अपेक्षा है, वह ब्रह्म ही है, क्योंकि दूसरे जिज्ञास्य का यहाँ निर्देश ( कथन ) नहीं किया गया है । शका होती है कि शेष अर्थ में यहाँ षष्ठी मानने पर भी ब्रह्म का जिज्ञासाकर्मत्व से विरोध नहीं होता है, क्योंकि सम्बन्ध सामान्य विशेष सम्बन्ध में रहता है, तत्तत् विशेष मिलकर ही सामान्य कहलाता है । उत्तर है कि ऐसा होने पर भी प्रत्यक्ष ब्रह्म की कर्मता को त्याग कर सामान्य सम्बन्ध द्वारा परोक्षब्रह्म की कर्मता की कल्पना करने वाले का व्यर्थ प्रयास ( श्रम ), होगा । इससे कर्मषष्ठी मानना उचित है ।

न व्यर्थः, ब्रह्माश्रिताशेषविचारप्रतिज्ञानार्थत्वादिति चेन्न, प्रधानपरिग्रहे तद-पेक्षितानामर्थाक्षिप्तत्वात् । ब्रह्म हि ज्ञानेनाप्तुमिष्टतमत्वात्प्रधानम् । तस्मिन्

प्रधाने जिज्ञासाकर्मणि परिगृहीते यैर्जिज्ञासितैर्विना ब्रह्म जिज्ञासितं न भवति तान्यर्थाक्षिप्तान्येवेति न पृथक् सूत्रयितव्यानि । यथा राजाऽसौ गच्छतीत्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनमुक्तं भवति तद्वत् । श्रुत्यनुगमाच्च । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' (तैत्ति० ३।१) इत्याद्याः श्रुतयः, 'तद्विजिज्ञासस्व, तद्ब्रह्म' इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं दर्शयन्ति । तच्च कर्मणि षष्ठी-परिग्रहे सूत्रेणानुगतं भवति । तस्माद् 'ब्रह्मण' इति कर्मणि षष्ठी ।

यदि कोई कहे कि शेषषष्ठी के लिये प्रयास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध सामान्य से ब्रह्म और ब्रह्मसम्बन्धी लक्षण, प्रमाण, युक्ति, ज्ञान, साधन, फल इन सबका ज्ञान होता है, इसी से इन सबके विचारो की भी प्रतिज्ञा हो जाती है, अन्यथा नहीं होनी । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधान ब्रह्म की जिज्ञासा को कर्मरूप से ग्रहण करने पर, उस ब्रह्म और उसकी जिज्ञासा से अपेक्षितो ( आकाक्षितो ) का अर्थ ( प्रयोजन ) से आक्षेप होता है, इससे आक्षिप्त ( गृहीत ) हो जाते हैं । यहाँ ब्रह्म ही ज्ञान द्वारा प्राप्त करने के लिये इष्टतम ( अत्यन्त अभिवाञ्छित ) है, इससे प्रधान है । उस प्रधान ब्रह्म के जिज्ञासा के कर्मरूप से परिगृहीत ( स्वीकृत ) होने पर जिन लक्षण प्रमाणादि की जिज्ञासा के बिना ( जिन्हें समझे बिना ) ब्रह्म जिज्ञासित ( विचारित, ज्ञात ) नहीं हो सकता, न उसकी जिज्ञासा ही हो सकती, वे सब अर्थात् आक्षिप्त ही हो जाते हैं, प्रयोजन-वग उन सबका ग्रहण हो जाता है । इससे वे सब सूत्राक्षर द्वारा पृथक् बोधार्ह नहीं हैं जिसके लिये शेषषष्ठी मानी जाय । लोक में जैसे यह राजा जाता है, ऐसा कहने पर परिवार ( परिजन, रक्षकादि ) सहित राजा का गमन कहा जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये और कर्म षष्ठी का श्रुति के साथ अनुगम ( संगति, सम्बन्ध ) भी है, क्योंकि जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, वह ब्रह्म है, इत्यादि अर्थ को कहने वाली श्रुतियाँ कहती हैं कि ( तद्विजिज्ञासस्व ) उसे जानने की इच्छा करो, वही सत्य ब्रह्म है, इस प्रकार ये श्रुतियाँ प्रत्यक्ष ही ब्रह्म की जिज्ञासा का कर्मरूप समझाती हैं, और उस श्रुतिकथित अर्थ को सूत्र में कर्मषष्ठी मानने पर सूत्र के साथ अनुगम ( सम्बन्ध ) होता है, श्रुति और सूत्र की एकवाक्यता हो जाती है, जिससे ब्रह्मण इय पद में कर्मवाचक षष्ठी विभक्ति है ।

ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन् वाच्यायाः इच्छायाः कर्म, फलविषयत्वादिच्छायाः । ज्ञानेन हि प्रमाणोनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म । ब्रह्मावगतिर्हि पुरु-पार्थः, निःशेषसंसारबीजाविद्याद्यनर्थनिबर्हणात् । तस्माद्ब्रह्म जिज्ञासितव्यम् ।

जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, और सर्वथा अज्ञात की इच्छा नहीं होती है । इससे वेदान्त के अध्ययनादि द्वारा सामान्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान प्रथम रहता है । वह विशेष रूप से जिज्ञासा का हेतु होता है, इससे सामान्य ज्ञान जिज्ञासा का हेतु है, और अवगतिपर्यन्त ( अपरोक्षब्रह्मानुभूति-प्राप्तिपर्यन्त ) ज्ञान सन्प्रत्ययार्थ इच्छा का विषय है, क्योंकि इच्छा फलविषयक होती है, फलपर्यन्त उपाय को इच्छा विषय

करती है, केवल उपाय को नहीं, वृत्तिरूप ज्ञानात्मक प्रमाण से अवगत (आवरण-रहित अपरोक्ष प्राप्त) करने के लिये ब्रह्म अभिलषित है, क्योंकि ब्रह्म की अवगति (अनुभव, प्राप्ति) ही परमपुरुषार्थ (मोक्ष) है, जिससे ब्रह्मावगति से संपूर्ण ससार के कारण अविद्या आदि रूप अनर्थ का नाश होता है। अतः ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्य है, अर्थात् अपरोक्षानुभव के लिये ब्रह्म का विचार अवश्य करना चाहिये।

तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा स्यात्। यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितव्यम्। अथाप्रसिद्धं नैव शक्यं जिज्ञासितुमिति। उच्यते—अस्ति तावद् ब्रह्म नित्य-शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावम्, सर्वज्ञम्, सर्वशक्तिसमन्वितम्। ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते, बृहतेर्धातोर्धातुनागमात्।

शका उपस्थित होती है कि वह जिज्ञासायोग्य ब्रह्म प्रसिद्ध (ज्ञात) है, या अज्ञात है। यदि कहा जाय कि उपनिषदादि से ज्ञात है, तो अज्ञानादि अनर्थ के अभाव से जिज्ञासा की जरूरत नहीं है, यदि सर्वथा अप्रसिद्ध है तो उसकी जिज्ञासा नहीं की जा सकती है, सर्वथा अप्रसिद्ध का विचार नहीं बन सकता है। उत्तर दिया जाता है कि विचार से प्रथम भी वेदान्तादि से ब्रह्म सामान्यरूप से प्रसिद्ध है कि निर्गुण ब्रह्म, नित्य-शुद्ध-बुद्ध- (ज्ञान) और मुक्त-स्वभाव (स्वरूप) वाला है, और सगुण ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तियुक्त है, व्याकरण से व्युत्पाद्यमान (साधित) ब्रह्मशब्द में वृद्धि अर्थ वाला 'बृह्' धातु के अर्थ के सम्बन्ध से उस ब्रह्म शब्द के नित्य शुद्धनादि अर्थ प्रतीत होते हैं, इससे भी ब्रह्म शब्द का अर्थ सामान्य रूप से प्रसिद्ध होता है जो कि तत्त्वमसि वाक्य में तत् पद का अर्थ है।

सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः। सर्वो ह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति। यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्यात् सर्वो लोको नाहमस्मीति प्रनीयात्। आत्मा च ब्रह्म। यदि तर्हि लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्। न, तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः। देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः। इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे, मन इत्यन्ये। विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके। शून्यमित्यपरे। अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता, भोक्तृत्यपरे। भोक्तृत्व केवलं न कर्तेत्येके। अस्ति तद्व्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित्। आत्मा स भोक्तृत्यपरे। एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः। तत्राविचार्य यत्किञ्चित्प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात्प्रतिहन्येतानर्थं चेयात् तस्माद्ब्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तदविरोधितर्कोपकरण निःश्रेयस-प्रयोजना प्रसूयते ॥ १ ॥

ब्रह्म ही सब प्राणियों का सत्यात्मा सत्यस्वरूप है, इससे भी ब्रह्म की अस्तित्ता (सत्ता) प्रसिद्ध है। क्योंकि सभी प्राणी आत्मसत्ता को जानते हैं और सब को

अपनी सत्ता मे विश्वास है। यदि आत्मसत्ता की प्रसिद्धि ( ज्ञान ) सबको नहीं होती, तो सब लोग 'मैं नहीं हूँ' ऐसा समझते ( 'मैं नहीं हूँ' ऐसा ज्ञान सबको होता )। और जिस आत्मा को सब लोग 'मैं' इस प्रकार देहादि से अविवेकपूर्वक जानते है, वही विविक्त साक्षी स्वरूप आत्मा ब्रह्म है, यही ( अयमात्मा ब्रह्म ) इत्यादि श्रुतियाँ दर्शाती है। तात्पर्य को समझे बिना चका होती है कि यदि आत्मा ही ब्रह्म है और वह लोक मे आत्मस्वरूप से प्रसिद्ध है, श्रुति भी ( तत्त्वमसि ) वह ब्रह्म तुम हो इस प्रकार कहती है तो वेदान्तज्ञादि को आत्मारूप से ब्रह्म ज्ञात ही है, इससे फिर भी ब्रह्म मे अजिज्ञास्यता प्राप्त होती है, इससे उसकी जिज्ञासा नहीं हो सकती इत्यादि। तब समाधान है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विवेकादि के बिना सामान्य रूप से 'मैं हूँ' इत्यादि ज्ञान होने पर भी उस आत्मा के विशेष (नित्यत्व एकत्वादि) स्वरूप के ज्ञान बिना विप्रतिपत्ति ( विरुद्ध अनेक प्रकार का ज्ञान ) होती है, जिससे सशय होते हैं। अतः सशयो की निवृत्ति के लिए ब्रह्मात्मा की प्रसिद्धि रहते भी जिज्ञासा होती है और विचार कर्तव्य है इत्यादि। विप्रतिपत्तियाँ ये है कि प्राकृत ( शास्त्रज्ञानरहित ) देहाभिमानी जन, और लोकायतिक ( चार्वाक ) चार भूतो से रचित स्थूल देह ही आगन्तुक चैतन्ययुक्त आत्मा है, इस प्रकार के निश्चय वाले है। अन्य कोई देह को विनश्वर समझकर उससे भिन्न सूक्ष्म इन्द्रियो को ही चेतन और आत्मा कहते और समझते है, एक-एक देह मे अनेकानेक इन्द्रियाँ आत्मा नहीं हो सकती है, ऐसा समझ कर इन्द्रियो के स्वामी मन को कोई आत्मा कहते है, मन भी अन्त करण है, इससे उसका स्वामी क्षणिक-विज्ञानमात्र ( बुद्धि ) ही आत्मा है, इस प्रकार बुद्धमतानुयायी विशेष मानते है। सुषुप्ति मे बुद्धि का भी अभाव होता है, इससे सदा स्थायी शून्य ही आत्मा है, इस प्रकार शून्यवादी कहते है। देहादिशून्यपर्यन्त से अन्य ससारी कर्ता भोक्ता आत्मा है यह न्याय वैशेषिक का सिद्धान्त है। केवल भोक्ता ( भोग का अनुभवकर्ता ) आत्मा है, कर्ता नहीं है, क्योंकि प्रकृति बुद्धि उसके भोगो को सिद्ध करने वाली है और वह प्रकृति स्वतन्त्र है, ईश्वर भी नहीं है, यह साख्य का सिद्धान्त है। योग मत वाले कहते हैं कि प्रकृति के स्वतन्त्र होते भी प्रकृति और जीवात्मा से भिन्न सर्वज्ञ, सर्वशक्तियुक्त, असग, ईश्वर भी है। वह असग ईश्वर भोक्ता जीव का सत्यात्मा है, ईश्वर और जीव मे माया अविद्यादि उपाधिकृत भेद है, आत्मा मे नहीं, यह अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त है। इस प्रकार युक्ति और युक्त्याभास ( असद्युक्ति ) तथा वाक्य और वाक्याभासो के सम्यग् आश्रित हो कर बहुत लोग विरुद्ध सिद्धान्त समझने वाले है। विचार किये बिना उन विरुद्ध सिद्धान्तो मे से किसी असत् सिद्धान्त को ही सत्य मानने वाला मोक्षमार्ग से पतित ( नष्ट ) हो जायेगा, और अनर्थ को प्राप्त होगा। यद्यपि सूत्र मे 'विचार' पद नहीं है तथापि ब्रह्मजिज्ञासा के कथन द्वारा ही वेदान्तवाक्यो की मीमासा ( पूजित विचार ) का आरम्भ किया जाता है, जो मीमासा उससे अविरोधी तर्क रूप उपकरण ( सहकारी कारण ) वाली और मोक्षरूप प्रयोजन ( फल ) वाली है ॥ १ ॥



## जन्माद्यधिकरण ॥ २ ॥

लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति नहि विद्यते ।

जन्मादेरन्यनिष्ठत्वात् सत्यादेश्चाप्रसिद्धितः ॥ १ ॥

ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्याल्लक्ष्यं स्मग्भुजङ्गवत् ।

लौकिकानीष सत्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति हि ॥ २ ॥

अप्रसिद्धि आदि से संशय होता है कि ब्रह्म का लक्षण है कि नहीं है। पूर्वपक्ष है कि जन्मादि अन्य ( जगत् ) में है, और ब्रह्मनिष्ठ सत्यतादि प्रसिद्ध नहीं हैं, इससे जन्मादि वा सत्यत्वादि ब्रह्म के लक्षण नहीं हो सकते हैं। सिद्धान्त है कि जगत् कार्य से सिद्ध कारणत्व रूप धर्म लक्ष्य ( ब्रह्म ) स्वरूप होता हुआ ब्रह्म का लक्षण हो सकता है, क्योंकि वह ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म से भिन्न नहीं है जैसे कि माला में मिथ्या भासित सर्प माला रूप ही रहता है उसकी भिन्न सत्ता नहीं रहती है वैसे ही कारणत्व की भिन्न सत्ता नहीं है, इससे लक्ष्य रूप होता हुआ लक्षण है, इससे स्वरूप लक्षण है। और लौकिक ( प्रकृष्ट-प्रकाशश्चन्द्र ) इत्यादि लक्षणो में जैसे चन्द्रनिष्ठत्व रूप से प्रथम अप्रसिद्ध भी प्रकृष्टत्व प्रकाश त्वादि अनेक धर्म एक चन्द्रादि का बोध कराते हैं, वैसे ही कल्पित भेदयुक्त सत्यत्वादि अखण्ड एक ब्रह्म के लक्षण रूप से बोधक होते हैं। 'लक्ष्य' के स्थान में 'लक्ष्म' पाठ हो तो उसका लक्षण अर्थ है, भाव है कि जैसे माला का सर्प मिथ्या निश्चित होने पर स्वाश्रय माला का बोधक होता है, वैसे ही कारणत्व भी ब्रह्म का लक्षण होता है ॥ १-२ ॥

ब्रह्मजिज्ञासितव्यमित्युक्तम् । किं लक्षणं पुनस्तद्ब्रह्मेत्यत आह भगवान् सूत्रकारः—

## जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥

उक्त रीति से ब्रह्म के सामान्य रूप से प्रसिद्ध तथा जिज्ञास्य होते हुए भी विशेष ज्ञान के लिए लक्षण वक्तव्य होता है। वहाँ ब्रह्म किस लक्षण वाला है, अर्थात् नित्यशुद्धत्वसत्यत्वादि अप्रसिद्ध होने से ब्रह्म के लक्षण नहीं हो सकते हैं, और जगत् के जन्मादि भी जगत् के धर्म होने से ब्रह्म के लक्षण नहीं हो सकते। ऐसी अपेक्षा होने पर भगवान् सूत्रकार कहते हैं कि—अस्य सर्वानुभवसिद्धस्य प्रत्यक्षस्य सावयवत्वदृश्यत्वादित्वात् सिद्धकार्यत्वस्याद्भुतस्य जगत्. कारण विना ह्यसिद्धेर्यतः श्रुतिप्रसिद्धात्कारणात् जन्मादिक भवति तद्ब्रह्म, तन्निष्ठ जगत्कर्तृत्व तस्य लक्षण सत्यानन्दादिकं च लक्षण विद्यते तथा जगज्जन्मादि च कर्तारमनुमापयल्लक्षणत्व प्रपद्यते। इस सर्वानुभवसिद्धप्रत्यक्ष सावयवत्वादि से सिद्ध कार्यत्व वाले अद्भुत जगत् की कारण के बिना अत्यन्त अप्रसिद्धि से श्रुतिप्रसिद्ध, जिस कारण से इसके जन्मादि होते हैं, वह ब्रह्म है, उसमें जन्मादि कर्तृत्व ही उसका लक्षण है। तथा श्रुतिप्रसिद्ध सत्यत्वादिस्वरूप लक्षण हैं, और जगत् के जन्मादि भी कर्ता का अनुमान कराते हुए तटस्थ लक्षण हैं। स्वरूप होते जो धर्मादि सजातीय विजातीय से व्यावर्तक हो वे स्वरूप लक्षण कहाते हैं, लक्ष्य से अन्य होकर जो भेदक हों वे तटस्थ लक्षण होते हैं।

जन्मोत्पत्तिरादिरस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः। जन्मनश्चादित्त्वं श्रुतिनिर्देशापेक्षं वस्तुवृत्तापेक्षं च। श्रुतिनिर्देशस्तावद् 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' (तैत्ति० ३।१) इत्यस्मिन् वाक्ये जन्मस्थितिप्रलयानां क्रमदर्शनात्। वस्तुवृत्तमपि, जन्मना लब्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थितिप्रलयसम्भवात्।

जन्मादि इस सूत्र के प्रथम पद मे बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास मे, समस्यमान पदो के अर्थ से अन्य पदार्थ प्रधान रहता है, और उसमे उच्चारित पदो के अर्थ गौरव रूप से भासते है। उस बहुव्रीहि के तद्गुणसंविज्ञान और अतद्गुणसंविज्ञान दो भेद होते है। जहाँ समासार्थरूप अन्य पदार्थ मे गुणरूप से अवयवार्थ का भी सम्बन्ध हो वहाँ तद्गुणसंविज्ञान होता है, अन्यत्र अतद्गुणसंविज्ञान होता है। 'लम्बकर्णमानय' यहाँ कर्ण का भी गुणरूप से सम्बन्ध होता है, इससे लम्बे कानवाले का क्रिया मे अन्वय होता है। 'दृष्टसागरमानय' यहाँ अतद्गुणसंविज्ञान है, इससे सागर का आनयन क्रिया मे अन्वय नहीं होता है। 'लम्बौ कर्णौ यस्य, दृष्टसागरो येन' ये समास के विग्रहवाक्य हैं। इसी प्रकार 'जन्म उत्पत्तिः, आदिर्यस्य' इस विग्रहार्थ मे बहुव्रीहि समास हुआ है। यहाँ जन्म और स्थिति तथा भग ( नाश ) इन तीनों का समाहाररूप समूह अन्यपदार्थ समासार्थ है, उस समूह मे गुणरूप से एक देश रूप से, जन्म भी भासता है, इससे तद्गुणसंविज्ञान है। अर्थात् स्थिति और भग के समान ससार का जन्म भी ब्रह्म का लक्षण है। स्थिति भग की अपेक्षा जन्म के आदित्त्वं ( प्रथमत्व ) का वर्णन श्रुतिनिर्देश ( श्रुति की आज्ञा उच्चारण ) और लोकवृत्त ( लोकचरित्र ) के अनुसार किया गया है। श्रुति का निर्देश है कि जिससे भूत उत्पन्न होते हैं, उसे ब्रह्म जानो। यहाँ से ( यतो वा इमानि ) इस वाक्य मे जन्मस्थिति और प्रलय के क्रम दर्शन से तथा जन्म से प्राप्त सत्ता वाले धर्म ( पदार्थ ) की स्थिति और प्रलय सम्भव है अन्यथा नहीं, इससे जन्म मे आदिता ( प्रथमता ) का वर्णन उचित है।

अस्येति प्रत्यक्षादिसन्निधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः। षष्ठी जन्मादिधर्मसम्बन्धार्था। यत इति कारणनिर्देशः। अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्थानेककर्तृभोक्तृसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मनसाऽप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः कारणाद्भवति तद्ब्रह्मेति वाक्यशेषः। अन्येषामपि भावविकाराणां त्रिष्वेवान्तर्भाव इति जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहणम्। यास्कपरिपठितानां तु ( 'जायतेऽस्ति' इत्यादीनाम् ) ग्रहणो तेषां जगतः स्थितिकाले सम्भाव्यमानत्वान्मूलकारणादुत्पत्तिस्थितिनाशा जगतो न गृहीताः स्युरित्याशङ्क्येत, तन्मा शङ्कीति योत्पत्तिर्ब्रह्मणस्तत्रैव स्थितिः प्रलयश्च त एव गृह्यन्ते।

सूत्रस्य 'अस्य' इस पद मे 'इदम्' इस प्रातिपदिक से प्रत्यक्ष-अनुमानादि द्वारा

सन्निधापित ( सन्निधिप्राप्त-उपस्थित-बोधित ) सर्वभूत भौतिकपदार्थरूप जन्मादि धर्मों के धर्मों का निर्देश ( कथन ) किया गया है, और उस पद मे षष्ठी विभक्ति जन्मादि धर्मों का धर्मों के साथ जो सम्बन्ध है उसे कहती है। 'यत' इस पद से कारण का निर्देश ( कथन ) है, वाक्यार्थ है कि नाम रूप द्वारा विविध स्वरूप से व्यक्त अनेक कर्ता और भोक्ता से सयुक्त, तथा प्रतिनियत ( व्यवस्थित ) देश काल निमित्त हैं जिनके ऐसे क्रिया और फलो के आश्रय, या प्रतिनियत देशादि का आश्रय, देव-मनुष्यादि के मन से भी अचिन्त्य रचनास्वरूप इस जगत् के जन्म, स्थिति और भंग ( नाश ) जिस सर्वज्ञ और सर्वशक्तियुक्त कारण से होते हैं, वह ब्रह्म है। जडप्रकृति अल्पज्ञ जीव वा अन्य किसी से जगज्जन्मादि नहीं हो सकते हैं। 'तद्ब्रह्म' यह वाक्य का शेष ( सूत्रार्थ के बोध के लिये अब्याहृत अवयव ) है। जन्म स्थिति भङ्ग मे अन्य वृद्धि परिणाम और अपक्षयरूप भाव ( वस्तु ) विकारो का जन्मादि तीनों मे ही अन्तर्भाव है, इससे जन्म स्थिति और नाश का ही यहाँ ग्रहण किया गया है। वृद्धि और परिणाम का जन्म मे अन्तर्भाव है, अपक्षय का नाश मे अन्तर्भाव है। यास्क मुनि से पढे ( कहे ) गये 'जायतेऽस्ति वद्धंते विपरिणमतेऽपक्षीयते नश्यति' इन जन्मादिको का सूत्र मे ग्रहण करने पर तो उनकी जगत् के स्थितिकाल मे सम्भावना ( विचारादि ) होने से मूल कारण ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति स्थिति और नाश का ग्रहण सूत्र मे नहीं हो सकता है, ऐसी शका कोई कर सकेगा, वह शका नहीं करे इसलिये, जो ब्रह्म से उत्पत्ति होती है, और ब्रह्म ही मे जो स्थिति और लय होते हैं, उन्ही का सूत्र मे ग्रहण किया गया है।

न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथोक्तविशेषणमीश्वरं मुक्त्वाऽन्यतः प्रधाना-  
दचेतनादणुभ्योऽभावात्संसारिणो वा उत्पत्त्यादि सम्भावयितुं शक्यम्। न च  
स्वभावतः, विशिष्टदेशकालनिमित्तानामिहोपादानात्। एतदेवानुमानं संसारि-  
व्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादिसाधनं मन्यन्त ईश्वरकारणिनः। नन्विहापि तदेवोप-  
न्यस्तं जन्मादिसूत्रे। न, वेदान्तवाक्यकुसुमप्रथनार्थत्वात्सूत्राणाम्। वेदान्त-  
वाक्यानि हि सूत्रैरुदाहृत्य विचार्यन्ते। वाक्यार्थविचारणाऽध्यवसाननिर्घृत्ता हि  
ब्रह्मावगतिर्नानुमानादिप्रमाणान्तरनिर्घृत्ता।

पूर्वोक्त विशेषण वाले जगत् की उक्त विशेषणयुक्त ईश्वर के बिना, उससे अन्य अचेतन प्रधान ( प्रकृति ) से या अचेतन अणुओ से या अभाव ( शून्य ) से या संसारी हिरण्यगर्भादि से उत्पत्ति आदि की सम्भावना ( सम्यक्त्व का निश्चयरूप अनुमान ) नहीं की जा सकती है, न स्वभाव से कारण के बिना ही उत्पत्ति आदि की सम्भावना हो सकती है, क्योंकि इस ससार मे कार्यार्थी से तत्तत्कार्यों के लिये विशिष्ट ( भिन्न-भिन्न असाधारण ) कारणो का ग्रहण देखा जाता है, यदि स्वभाव से कार्य होते तो कारणों की जरूरत नहीं होती, जगत् भी कार्य है, इससे यह भी स्वभाव सिद्ध नहीं है,

किन्तु विशिष्ट कारण जन्य है, यह अनुमान होता है, और इसी अनुमान को ससार से व्यतिरिक्त ( भिन्न ) तटस्थ ईश्वर की सत्ता आदि का साधनरूप ईश्वरकारणवादी नैयायिक मानते हैं। शका होती है कि यहाँ भी जन्मादि सूत्र में वह अनुमान ही कहा गया है, उत्तर है कि यहाँ अनुमान का नहीं कथन किया गया है, क्योंकि वेदान्त वाक्यरूप पुष्पो को गूँथने के लिये सूत्र सब हैं, वेदान्त वाक्यों का विचार सूत्रों का प्रयोजन है, अनुमान नहीं, क्योंकि उदाहरणरूप से ग्रहण करके वेदान्तवाक्यों का ही सूत्रों से विचार किया जाता है, इससे वेदान्त के विचाररूप सूत्र है, अनुमान-रूप नहीं हैं। और वेदवाक्य और उसके अर्थों के विचार का जो अध्यवसान (समाप्ति-रूप तात्पर्यनिश्चय) उसी से ब्रह्मावगति ( अनुभव ) सिद्ध होती है, अनुमानादि रूप प्रमाणांतर से नहीं होती। 'नैषा तर्केण मतिरापनेया'—यह ज्ञान तर्क से पाने योग्य नहीं है ( कठ० )।

सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिषु तदर्थग्रहणदाढ्यायानुमानमपि वेदान्तवाक्याविरोधि प्रमाणं भवन्न निवार्यते, श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्याऽभ्युपेतत्वात्। तथा हि 'श्रोतव्यो मन्तव्यः' ( बृ० २।४।५ ) इति श्रुतिः, 'पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसंपद्यतैवमेवेहाचार्यवान् पुरुषो वेद' ( छा० ६।१।२ ) इति च पुरुषबुद्धिसाहाय्यमात्मनो दर्शयति। न धर्मजिज्ञासायामिव श्रुत्यादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम्। किन्तु श्रुत्यादयोऽनुभवादयश्च यथासम्भवमिह प्रमाणम्, अनुभवावसानत्वाद्भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य।

ऐसा होने पर भी जगत् के जन्मादि के कारण को कहने वाले वेदान्तवाक्यों के रहने पर, उनके अर्थज्ञान की दृढ़ता के लिये वेदान्त वाक्यों का अविरोधी अनुमान भी प्रमाण होता हो तो उसका निवारण नहीं किया जाता है। श्रुति ने ही अपने सहायकरूप से तर्क को स्वीकार किया है, जैसे कि 'श्रोतव्यो मन्तव्य' यह श्रुति श्रवण मनन की कर्तव्यता बताती है, यहाँ श्रवण के बाद तर्क द्वारा युक्ति से श्रुतार्थ की सम्भावना करना मनन है। किसी को चोर आँख बाँध कर गन्धार से दूर देश में ले जाकर वैसा ही छोड़ दे, फिर कोई दयालु उसकी आँखों को खोलकर कहे कि अमुक दिशा में गन्धार देश है, तो वह मार्गग्रहण के सामर्थ्यवाला परिणत और तर्क में कुशल मेधावी रहने पर ही गन्धार को प्राप्त करता है, इसी प्रकार परिणत और मेधावी ( बुद्धिमान् ) आचार्य वाला पुरुष इस ससार ( शरीर ) में ब्रह्मात्मा को जानता है, इस अर्थ को कहने वाली श्रुति भी पुरुषबुद्धि का सहायक अपने को बताती है, इससे बुद्धिमान् ही पुरुष श्रुति से भी ब्रह्मात्मा का अपरोक्षज्ञान करता है। क्योंकि धर्मजिज्ञासा के समान ब्रह्मजिज्ञासा में श्रुति आदि ही प्रमाण नहीं हैं, किन्तु श्रुति आदि और तर्क-अनुभवादि सभी यहाँ यथासंभव प्रमाण हैं क्योंकि अपरोक्षानुभवरूप अवसान ( चरमसीमा ) वाला, और भूत ( सिद्ध ) वस्तु-विषयक ब्रह्मज्ञान होता है, इससे श्रुति-स्मृति आदि अनुभवादि सब उसके लिये प्रमाण हैं।

कर्तव्ये हि विषये नानुभवापेक्षाऽस्तीति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यं स्यात् पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच्च कर्तव्यस्य । कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुं शक्यं लौकिकं वैदिकं च कर्म, यथाऽश्वेन गच्छति, पद्भ्यामन्यथा वा, न वा गच्छति । तथा 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति', 'नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति', 'उदिते जुहोति,' 'अनुदिते जुहोति', इति विधिप्रतिषेधाश्चात्रार्थवन्तः स्युः, विकल्पोत्सर्गापवादाश्च । न तु वस्त्वेवं नैवमस्ति नास्तीति वा विकल्प्यते । विकल्पनास्तु पुरुषबुद्ध्यपेक्षाः । न वस्तुयाथात्म्यविज्ञानं पुरुषबुद्ध्यपेक्षम् । किं तर्हि वस्तुतन्त्रमेव तत् । न हि स्थाणावेकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषोऽन्यो वेति तत्त्वज्ञानं भवति । तत्र पुरुषोऽन्यो वेति मिथ्याज्ञानम् । स्थाणुरेवेति तत्त्वज्ञानम्, वस्तुतन्त्रत्वात् ।

कर्तव्य ( साध्य ) धर्मादि विषय मे अनुष्ठान के लिये अनुभव की अपेक्षा नहीं है, इससे उसमे श्रुति आदि शास्त्र की ही प्रमाणता हो सकती है, और कर्तव्य कर्मादि की आत्मा ( स्वरूप ) की सिद्धि पुरुषाधीन है, इससे प्रथम से वह असिद्ध है, अनुभव योग्य नहीं है, और लौकिक वैदिक सब कर्म पुरुष की इच्छा के अनुसार करने, न करने, अन्यथा करने के शक्य ( योग्य ) है । जैसे कोई अश्व द्वारा गमन करता है, पैरो से चलता है, वा अन्य किसी प्रकार गमन करता है, या नहीं चलता है, इससे लौकिक गमनक्रिया पुरुषाधीन है, वैसे ही अतिरात्र नामक याग मे षोडशी नामक पात्र का ग्रहण करता है, वा अतिरात्र मे ही षोडशी का नहीं भी ग्रहण करता है, और सूर्य के उदित होने पर अग्निहोत्र करता है, अथवा अनुदित रहते ही प्रातः काल मे हवन करता है, इससे वैदिक कर्म भी पुरुषाधीन है, इच्छा के अनुसार साध्य है, और साध्य होने ही से विधि-निषेध भी इस कर्तव्य मे सार्थक होते है, तथा विकल्प उत्सर्ग ( सामान्य ) और अपवाद ( विशेषता ) भी पुरुषाधीन साध्यता से होते हैं । इस प्रकार का है, इस प्रकार का नहीं है, या है नहीं है इस प्रकार के विकल्प का विषय सिद्ध वस्तु नहीं होती है । संशयविपर्ययरूप विकल्प पुरुष के अन्तःकरणाधीन होते हैं, वस्तु के यथार्थस्वरूप का ज्ञान अन्तःकरण के अधीन नहीं होता है । तो कैसे होता है कि वस्तु के अधीन ही यथार्थ ज्ञान होता है, क्योंकि एक स्थाणु में, स्थाणु है, वा पुरुष है या अन्य कुछ है, ऐसा ज्ञान सत्यज्ञान नहीं होता है, क्योंकि स्थाणु में पुरुष वा अन्य का ज्ञान भ्रम है । स्थाणु ही है, यही तत्त्वज्ञान है, क्योंकि यही ज्ञान वस्तु के अधीन है ।

एवं भूतवस्तुविषयाणां प्रामाण्यं वस्तुतन्त्रम् । तत्रैवं सति ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव भूतवस्तुविषयत्वात् । ननु भूतवस्तुत्वे ब्रह्मणः प्रमाणान्तरविषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यविचारणाऽनर्थिकैव प्राप्ता । न, इन्द्रियाविषयत्वेन सम्बन्धाऽग्रहणात् । स्वभावतो विषयविषयाणीन्द्रियाणि न ब्रह्मविषयाणि । सति हीन्द्रियविषयत्वे ब्रह्मणः, इदं ब्रह्मणा सम्बद्धं कार्यमिति गृह्यते । कार्यमात्रमेव तु गृह्यमाणं किं ब्रह्मणा सम्बद्धं किमन्येन केनचिद्वा सम्बद्धमिति न शक्यं निश्चेतुम् । तस्माज्जन्मादिसूत्रं नानुमानोपन्यासार्थं किं तर्हि वेदान्तवाक्यप्रदर्शनार्थम् ।

इस पूर्व वर्णित रीति में भूतवस्तुविषयक ज्ञानों की प्रमाणात्ता वस्तु के अधीन है, और सिद्धवस्तु के ज्ञान में वस्तुतन्त्र प्रामाण्य होने पर भूतवस्तुविषयक होने से ब्रह्मज्ञान भी वस्तुतन्त्र ( अधीन ) है, इसलिये प्रमाण है। यहाँ चका होती है कि लोक में सिद्धवस्तु यथासंभव प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणान्तर के विषय होते हैं, वैसे ही ब्रह्म के सिद्धवस्तु होने पर वह नैयायिक से वर्णित प्रमाणान्तररूप अनुमान का विषय ही होगा, इससे अनुमान का विचार करना उचित है, वेदान्तवाक्य का विचार त अनर्थक ही सिद्ध होता है ? इसका उत्तर है कि अनुमान में साध्य और हेतु के सम्बन्ध ( व्याप्ति ) का ज्ञान रहने पर अनुमिति प्रमा होती है, यहाँ ब्रह्म के इन्द्रियों का अविषय होने से कार्य के साथ सम्बन्ध का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि इन्द्रियाँ स्वभाव से ही बाह्यविषयविषयक होती हैं, ब्रह्मविषयक नहीं होती है, ( पराञ्चि खानि ) इस प्रकार कठश्रुति भी कहती है। यदि ब्रह्म इन्द्रियों का विषय होता, तो यह जगत् रूप कार्य ब्रह्म के साथ सम्बन्धवाला है, ऐसा ज्ञान हो सकता, परन्तु कार्यमात्र ही जब गृहीत ( ज्ञात ) है, तब यह कार्य ब्रह्म के साथ सम्बन्धवाला है, या अन्य किसी के साथ सम्बन्धवाला है यह निश्चय नहीं किया जा सकता है, अतः ( जन्माद्यस्य यत्. ) यह सूत्र अनुमान के उपन्यास ( कथन-रचना ) के लिये नहीं है, तो फिर किसके लिए है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा गया है कि वेदान्तवाक्य के प्रदर्शन के लिये है अर्थात्—जिससे ब्रह्म को समझा जा सके ॥ ७ ॥

कि पुनस्तद्वेदान्तवाक्यं यत्सूत्रेणोह लिलक्षयिषितम् । 'भृगुर्वै वारुणिः, वरुणं पितरमुपससार, अधीहि भगवो ब्रह्मेति,' इत्युपक्रम्याह—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्ब्रह्मेति' ( तैत्ति० ३।१ ) । तस्य च निर्णयवाक्यम्—आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति' ( तैत्ति० ३।६ ) । अन्यान्यप्येवंजातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव-सर्वज्ञस्वरूपकारणविषयाण्युदाहर्तव्यानि ॥ २ ॥

जिज्ञासा हुई कि कौन वह वेदान्त वाक्य है कि जो सूत्र के द्वारा समझाने की इच्छा का विषय है, तब कहा जाता है कि, वरुण के पुत्र भृगु वरुण नामक पिता के पास गया, और पिता से कहा कि हे भगवान् ब्रह्म का स्मरण कराओ—उपदेश दो, इस प्रकार कथा का आरम्भ करके कहा है कि जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीते हैं, प्रलय के समय लीन होते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी जिज्ञासा विचार करो वही ब्रह्म है, फिर निर्णयरूप वाक्य है कि आनन्द स्वरूप ब्रह्म से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनन्द से ही जीते हैं, प्रलीन होते हुए आनन्द में ही प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार के अर्थवाले अन्य भी नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला सर्वज्ञस्वरूप कारणविषयक वाक्य यहाँ उदाहरण के योग्य हैं—जिनसे आनन्दादि

रूपता से स्वरूप लक्षण, और सर्वज्ञता आदि से तटस्थ लक्षण से युक्त लक्षित ब्रह्मज्ञात होता है, इत्यादि ॥ २ ॥

### शास्त्रयोनित्वाधिकरण ॥ ३ ॥

न कर्तृ ब्रह्म वेदस्य किं वा कर्तृ न कर्तृ तत् ।  
 विरूपनित्यया वाचेत्येवं नित्यत्वकीर्तनात् ॥ १ ॥  
 कर्तृनिःश्वसिताद्युक्तेर्नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः ।  
 सर्वावभासिवेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद्भवेत् ॥ २ ॥  
 अस्त्यन्यमेयताप्यस्य किं वा वेदैकमेयता ।  
 घटवन् सिद्धवस्तुत्वाद् ब्रह्मान्येनापि मीयते ॥ ३ ॥  
 रूपलिङ्गादिराहित्यान्नास्य मान्तरयोग्यता ।  
 तं त्वौपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता ॥ ४ ॥

वेद की नित्यता और सृष्टि इन दोनों को सुनने से सदेह होता है कि ब्रह्म वेद का कर्ता है कि नहीं ? पूर्वपक्ष है कि ( विरूप नित्यया वाचा ) इत्यादि श्रुति (अनादिनिधना नित्या ) इत्यादि स्मृति से नित्यता कही जाती है, इससे ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं है ॥१॥

उत्तर है कि (अस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमृग्वेद ) इत्यादि कथन से ब्रह्म वेद का कर्ता है । किन्तु ( यथापूर्वमकल्पयन् ) इत्यादि श्रुति के अनुसार पूर्वकल्प की तुल्यता से नित्यता कही गई है, ओर सर्व-श्रम-व्यवहार तथा तत्त्व का बोधक वेदो का कर्ता होने से ब्रह्म सर्वज्ञ ही हो सकता है ॥ २ ॥

घटादि के समान सिद्ध वस्तु और परमसूक्ष्म दुर्ज्ञेय होने से सशय होता है कि वेद से अन्य प्रमाणों द्वारा भी ब्रह्म समझा जा सकता है या केवल वेद ही से समझा जा सकता है ? पूर्वपक्ष है कि घटादि के समान सिद्ध वस्तु होने से अन्य प्रमाणों से भी ब्रह्म समझा जाता है ॥ ३ ॥

उत्तर है कि व्यक्त रूप-स्पर्शादि और लिङ्ग ( हेतु ) व्याप्तिज्ञानादि के अभाव से इस ब्रह्म को साक्षात् प्रमाणान्तर की योग्यता नहीं है और ( त त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि ) इत्यादि श्रुतियों से केवल वेद-ज्ञेयता कही गई है ॥ ४ ॥

जगत्कारणत्वप्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्मेत्युपक्षिप्तं तदेव द्रढयन्नाह—

### शास्त्रयोनित्वात् ॥ ३ ॥

अनन्त अद्भुत अचिन्त्य जगत् की कारणाता का प्रदर्शन से पूर्वसूत्र में ब्रह्म सर्वज्ञ है, यह अर्थ अनुमान से प्रतिज्ञात ( निश्चित ) हुआ, क्योंकि कार्य-कारण के ज्ञानरहित कर्ता नहीं होता है, इससे प्रकृति पर्यन्त का साक्षी सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्-कारण है, इस सूचित अनुमापित सर्वज्ञत्व को ही दृढ निश्चय कराते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—  
 ऋग्वेदादीनामनेकशास्त्राङ्गोपाङ्गादियुक्ताना योनित्वाच्च सत्यमूलकारणात्वाच्च सर्वज्ञ

ब्रह्मैव जगतोऽपि हेतुः । किञ्च तादृश शास्त्र योनिः ( प्रमाण ) यस्मिन् तच्छास्त्रयोनि ब्रह्म तन्निष्ठयोनित्वाच्च, किंवा शास्त्रं च तद्योनिश्च तद्विज्ञानस्य तस्य भावात्सर्वज्ञ ब्रह्म सिद्धयति 'अनेक शाखा अङ्ग-उपाङ्ग आदि का सत्य मूल कारण होने से सर्वज्ञ ब्रह्म है और वही सब जगत् का हेतु है एव उक्त शास्त्र उस ब्रह्म मे प्रमाण है, इससे उस ब्रह्म के विज्ञान का शास्त्र ही हेतु है, इससे जगत् का हेतु सर्वज्ञ ब्रह्म सिद्ध होता है । पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण को एककार्यत्वरूप संगति है ।

महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थाव-  
द्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न हीदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादिल-  
क्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । यद्यद्विस्तरार्थं शास्त्रं  
यस्मात्पुरुषविशेषात्सम्भवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर्ज्ञेयैकदेशार्थमपि,  
स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्ध लोके, किमु वक्तव्यमनेकशाखाभेद-  
भिन्नस्य देवतिर्यङ्मनुष्यवर्णाश्रमादिप्रविभागहेतोः ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकर-  
रस्याप्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुषनिःश्वासवद्यस्मान्महतो भूताद्योनेः सम्भवः,  
'अस्य महतो भूतस्य निःश्वासितमेतद्यदृग्वेदः' ( बृ० २।४।१० ) इत्यादिश्रुतेः,  
तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्त्वं चेति ।

पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता । वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च  
चतुर्दश ॥ ( याज्ञवल्क्य स्मृ० १।३ ) इस शास्त्र से पुराणादि चार और छ व्याकरणादि  
वेदाङ्ग सहित चार वेद ये चतुर्दश विद्या और धर्मों के स्थान है, महान् ऋग्वेदादिरूप  
शास्त्र अन्य दश विद्याओं के स्थानों से उपबृंहित ( उपकृत-परिर्वाद्धित ) हैं, अत एव प्रदीप  
के समान सब उपयुक्त अर्थों के प्रकाशक है, इससे सर्वज्ञकल्प ( सर्वज्ञ समान ) है, उनका  
सर्वज्ञ ही ब्रह्म कारण है, क्योंकि ऐसा महत्त्वादियुक्त सर्वज्ञ के गुण सर्वज्ञतासहित  
ऋग्वेदादिरूप शास्त्रों का सर्वज्ञेश्वर के बिना अन्य से उत्पन्न होना नहीं बन सकता है,  
क्योंकि जो-जो शास्त्र शब्दों के विस्तार ( अधिकता ) के लिये जिस पुरुष विशेष से  
होते हैं, जैसे कि ज्ञेय वस्तु का एकदेशार्थक व्याकरणादि पाणिनि आदि से हुए हैं,  
वहाँ वह पुरुष विशेष उस शास्त्र से अति अधिक विज्ञानवाला रहता है यह बात लोक  
मे प्रसिद्ध है, तो फिर अनेक शाखाओं के भेद से अनेक भेदयुक्त, देव, तिर्यक्  
( पशु आदि ), मनुष्य और उनके वर्ण ( जाति ), आश्रम ( ब्रह्मचर्यादि ) का प्रविभाग  
के हेतु, सब ज्ञान का आकर ( खान ) ऋग्वेदादि नामक शास्त्र का जिस महान्  
भूतयोनि से लीला के समान अयत्न ( अल्पयत्न-सकल्प ) मात्र से ही उत्पत्ति होती है,  
उस भूतयोनि की अधिकतर विज्ञानवत्ता मे कहना ही क्या है, वह तो अवश्य सर्वज्ञ  
है और यह अर्थ ( अस्य महतो भूतस्य ) इत्यादि श्रुति से भी सिद्ध होता है । इससे  
उस महान् स्वरूप को सर्वोपरि सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता है, उससे अधिक वा तुल्य  
ज्ञानादिवाला कोई नहीं है । ( न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेता० ६।८ ) इत्यादि  
श्रुतिसे उसके सर्वज्ञत्वादि मे कुछ भी वक्तव्य नहीं है ॥



अथवा यथोक्तमृगवेदादिशास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्स्वरूपाधिगमे । शास्त्रादेव प्रमाणाज्जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिप्रायः । शास्त्रमुदाहृतं पूर्वसूत्रे—‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादि । किमर्थं तर्हीदं सूत्रं ? यावता पूर्वसूत्रे एवैवंजातीयकं शास्त्रमुदाहरता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो दर्शितम् । उच्यते—तत्र पूर्वसूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्यानुपादानाज्जन्मादि केवलमनुमानमुपन्यस्तमित्याशङ्क्येत, तामाशङ्कां निवर्तयितुमिदं सूत्रं प्रवृत्ते—‘शास्त्रयोनित्वादि’ति ॥ ३ ॥

अथवा सूत्र का दूसरा भी अर्थ है कि पूर्वोक्त विशेषण वाले ऋग्वेदादि शास्त्र इस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप-ज्ञान में योनि ( कारण ) याने प्रमाण हैं, क्योंकि शास्त्ररूप प्रमाण से ही जगत् के जन्मादि का कारणरूप ब्रह्म समझा जाता है, यह अभिप्राय ( तात्पर्य ) है, और जो शास्त्र प्रमाण है, वह पूर्वसूत्र के भाष्य में ( यतो वा इमानि ) इत्यादि उदाहरणरूप से कहा जा चुका है । यहाँ शका होती है कि जब पूर्वसूत्र में ही इस प्रकार के शास्त्र का उदाहरण देनेवाले सूत्रकार ने ब्रह्म के शास्त्रयोनित्व ( शास्त्रप्रमाण-बोध्यत्व ) को दिखला दिया है, समझाया है, तो यह सूत्र किस प्रयोजन के लिये है, या रचा गया है ? समाधान है कि पूर्वसूत्र में शास्त्र उदाहृत है, परन्तु पूर्वसूत्र के अक्षर ( पद ) से स्पष्ट शास्त्र का ग्रहण नहीं होने से, केवल अनुमान कहा गया है, ऐसी शका हो सकती थी । उस शका के निवारण के लिये ( शास्त्रयोनित्वात् ), यह शास्त्र प्रवृत्त हुआ है ॥ ३ ॥

### समन्वयाधिकरण ॥ ४ ॥

वेदान्ताः कर्तृदेवादिपरा ब्रह्मपरा उत ।  
 अनुष्ठानोपयोगित्वात् कर्त्तादिप्रतिपादकाः ॥ १ ॥  
 भिन्नप्रकरणाङ्गिङ्गपटकाच्च ब्रह्मबोधकाः ।  
 सति प्रयोजनेऽनर्थहानेऽनुष्ठानतोऽत्र किम् ॥ २ ॥  
 प्रतिपत्तिं विधित्सन्ति ब्रह्मण्यवसिता उत ।  
 शास्त्रत्वात्ते विधातारो मननादेश्च कीर्तनात् ॥ ३ ॥  
 नाकर्तृतन्त्रेऽस्ति विधिः शास्त्रत्वं शंसनादपि ।  
 मननादेः पुरा बोधाद् ब्रह्मण्यवसितास्ततः ॥ ४ ॥

कर्मबोधक वेद की तुल्यता और प्रकरणा के भेदादि से संशय होता है कि वेदान्त कर्मपिहित देवादि के बोधक हैं या स्वतन्त्र मोक्ष फल के लिये ब्रह्म स्वरूप मात्र का बोधक है ? पूर्वपक्ष है कि कर्मानुष्ठान में उपयोगी होने से कर्ता देवादि के ही बोधक हैं ॥ १ ॥

सिद्धान्त है कि भिन्न प्रकरण होने से और ब्रह्मबोधार्थक तात्पर्य निश्चय के हेतु उपक्रमादि षड्लिङ्ग से भी वेदान्त ब्रह्म का ही बोधक है । और ब्रह्मबोध से ही

अज्ञानजन्य जन्मादि रूप अनर्थ की निवृत्तिरूप फल के होते, यहाँ कर्मानुष्ठान से क्या फल है ॥ २ ॥

वेदान्त प्रतिपत्ति ( उपासना ) का विधान करना चाहते हैं या ब्रह्म मे ही पर्यवसित ( तात्पर्य वाले ) है, यह दूसरा सशय है । पूर्वपक्ष है या शास्त्र होने से कर्मकाण्ड के समान उपासना का विधायक है, और श्रवण के बाद मननादि क्रिया का भी वेदान्त मे कथन है, इससे मननादि के विधायक हैं ॥ ३ ॥

उत्तर है कि कर्ता के अधीन क्रिया मे विधि होती है, कर्ता के अनधीन वस्तु तन्त्र ज्ञान मे विधि नहीं होती है । और उपदेशमात्र से शास्त्र कहा जाता है, विधिमात्र ही से नहीं, और ज्ञान से प्रथम मननादि का विधान है, इससे वेदान्त ब्रह्म मे ही तात्पर्य वाले है ॥ ४ ॥

कथं पुनः ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वमुच्यते ? यावता 'आम्नायस्य क्रियार्थ-त्वादानर्थक्यमतदर्शानाम्' (जै.सू. १।२।१) इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदर्शितम् । अतो वेदान्तवाक्यानामानर्थक्यम्, अक्रियार्थत्वात् । कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम्, उपासनादिक्रियान्तरविधानार्थत्वं वा नहि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं सम्भवति प्रत्यक्षादिविषयत्वात्परिनिष्ठितवस्तुनः ।

पूर्वसूत्र मे प्रतिज्ञा-मात्र से कहा गया है कि शास्त्र रूप प्रमाण से जगत् का कारण ब्रह्म सिद्ध होता है, उसी अर्थ को शास्त्र का समन्वय रूप हेतु से ढढ करना है, वहाँ पूर्वोक्त अर्थ का पूर्वपक्षी प्रथम खडन आक्षेप करता है कि सिद्ध ब्रह्म को शास्त्ररूप प्रमाण जन्मज्ञान-विषयत्व कैसे हो सकता है, क्योंकि सिद्ध वस्तु प्रमाणान्तर का विषय होती है, और प्रमाणान्तर से ज्ञेय ( अनुमेय ) ब्रह्म का यदि शास्त्र बोधक भी होगा, तो लौकिक वाक्य के समान अनुवादक होगा, तब अप्रमाण होगा । इसी हेतु से जैमिनीय सूत्र, शास्त्र, ( वेद ) को क्रियापरत्व ( क्रियाबोधकत्व ) दर्शाया है कि आम्नाय ( वेद ) को क्रियार्थक होने से क्रियार्थकता से रहित वेद वाक्य अनर्थक हैं । इससे क्रियारहित वेदान्त वाक्य भी अनर्थक है, अथवा ( स्वाध्यायोऽप्येतव्य. ) इस अध्ययन विधि से विहित सार्थक अध्ययन के विषय होने के कारण जैसे अर्थवाद वाक्य को क्रिया की स्तुति द्वारा क्रियार्थक मानकर सार्थक माना गया है, वैसे ही कर्म के कर्ता देव फलादि के प्रकाशनार्थक होने से क्रिया विधि के शेष ( अग ) रूपता वेदान्त को है, इससे सार्थक है, जीव प्रतिपादक कर्म कर्ता का, ईश्वर का प्रतिपादक कर्मांग देव का बोधक है, या अन्य फल का बोधक है, अथवा उपासनादि रूप क्रियान्तर का विधानार्थक ही है, क्योंकि यज्ञादि कर्म के प्रकरणो से वेदान्त का भिन्न प्रकरण है । सिद्ध वस्तु का सर्वथा कर्म सम्बन्ध के बिना प्रतिपादन नहीं बन सकता है, क्योंकि परिनिष्ठित ( सिद्ध ) वस्तु को अवश्य प्रत्यक्षादि विषयत्व होता है, और प्रत्यक्षादि के विषय ब्रह्म का प्रतिपादक वेद अनुवादक अप्रमाण होगा । यद्यपि रूपादि रहित-व्याप्ति-

ज्ञानशून्य ब्रह्म सिद्ध होते भी प्रमाणान्तर का विषय नहीं है, यह बात प्रथम कही गई है, तथापि उसको स्थूराखनन न्याय से दृढ करने के लिए पूर्वपक्ष है।

तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभावात् । अत एव 'सोऽरोदीत्' इत्येवमादीनामानर्थक्यं मा भूदिति 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' ( जै. सू. १।२।७ ) इति स्तावकत्वेनार्थवत्त्वमुक्तम् । मन्त्राणां च 'इषे त्वा' इत्यादीनां क्रियातत्साधनाभिधायित्वेन कर्मसमवायित्वमुक्तम् । न क्वचिदपि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेणार्थवत्ता दृष्टोपपन्ना वा । न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवति, क्रियाविषयत्वाद्धिवेः । तस्मात्कर्मापेक्षितकर्तृस्वरूपदेवतादिप्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानाम् । अथ प्रकरणान्तरभयान्नैतदभ्युपगम्यते, तथापि स्ववाक्यगतोपासनादिकर्मपरत्वम् । तस्मान्न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वमिति प्राप्ते उच्यते—

### तत्तु समन्वयात् ॥ ४ ॥

सिद्ध वस्तु भी यदि हेय ( त्यागार्ह ) कुभक्ष्य, कुपुरुष, कुदेशादि के समान रहती है, तो उसके त्याग से पुण्य सुखादि पुरुषार्थ होते हैं, और उपादेय ( ग्राह्य ) सुभक्ष्य सत्पुरुष सुदेशादि के ग्रहण से पुरुषार्थ ( फल ) होता है। हेय और उपादेय से भिन्न असंग ब्रह्म के वेदान्त से प्रतिपादन करने पर कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। क्रिया संबन्ध रहित सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन नहीं हो सकता, और ( दध्ना जुहोति ) इत्यादि में हवन क्रिया सम्बन्ध से सिद्ध दधि का भी कथन हो सकता है, इसीसे ( देवैर्निरुद्ध-सोमिरोदीत् ) इत्यादि वाक्यों की अनर्थकता न हो, इसलिए पूर्वमीमांसा में कहा गया है कि विधि वाक्य के साथ मिलकर विधि की स्तुति द्वारा उक्त वाक्य सब सार्थक होते हैं। अर्थात् ( बहिषि रजत न देयम् ) इस निषेधविधि के साथ, 'देवैः' इत्यादि वाक्य का सम्बन्ध है कि देव से निगृहीत अग्निदेव के रोदन से रजत हुआ है, इससे बहिष नामक याग में उसका दान नहीं करना, नहीं तो रोना पड़ेगा इत्यादि भाव है। इसी प्रकार ( इषे त्वा ) इत्यादि मन्त्रों को भी ( छिनच्चि ) इत्यादि क्रिया के अध्याहार द्वारा क्रियाबोधकत्व मानकर तथा क्रिया के साधन देवादि का वाचक मानकर कर्मसम्बन्धित्व कहा है, इससे कहीं भी वेदवाक्यों की विधि ( क्रिया ) सम्बन्ध के बिना सार्थकता नहीं देखी गई है, न उपपन्न ( सिद्ध ) हो सकती है। वेदान्त से यदि ब्रह्म कहा जाय, तो परिनिष्ठित ( सर्वथा सिद्ध ) वस्तु के स्वरूप में विधि हो नहीं सकती है, क्योंकि विधि को क्रियाविषयत्व का नियम है, असिद्ध ही क्रिया विधि से साध्य होता है, सिद्ध नहीं, इससे कर्मों से अपेक्षित ( कर्मों के हेतु ) कर्ता के स्वरूप को या देवतादि को प्रकाशन के ( समझाने के ) द्वारा वेदान्तों को कर्म-विधि की अङ्गता है, या वेदान्त का कर्म-विधि से भिन्न प्रकरण है ? इस भय से यदि कर्म विधि की अङ्गता वेदान्त को नहीं मानी जा सके, तो भी वेदान्त-वाक्यगत ( मनो ब्रह्मेत्यु-

पासीत) इत्यादि वाक्यविहित उपासना श्रवणादि-कर्मपरत्व ( बोधकत्व ) ही वेदान्त वाक्यो को है, इससे शास्त्रयोनित्व ( शास्त्रप्रमाणकत्व ) ब्रह्म को नहीं है, ऐसा पूर्वपक्ष के प्राप्त होने पर कहा जाता है कि ( न शास्त्रयोनित्व निषेद्धं शक्यते सर्वेषा शास्त्राणा वेदान्ताना तत्रैव कारणे ब्रह्मणि तात्पर्येण सम्बन्धात्, शास्त्रयोनित्वस्य निषेधे सर्वेषामानर्थक्यापत्तेः, अत एव ब्रह्मणि शास्त्रयोनित्व ( हेतुत्व ) मात्राद् न तत् सिद्धि, अपि तु शास्त्रसमन्वयादपि सर्वज्ञ सर्वशक्तियुक्त ब्रह्म सिद्धयतीति ) ब्रह्म मे शास्त्र प्रमाणकत्व का निषेध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सब वेदान्त शास्त्र का उस जगत् का कारण ब्रह्म मे तात्पर्य द्वारा सम्बन्ध है, शास्त्रयोनित्व के निषेध से सबको अनर्थकता की प्राप्ति होगी, इसीसे यह भी सिद्ध होता है कि ब्रह्म में शास्त्रयोनित्व ( हेतुत्व ) मात्र ही से ब्रह्म की सिद्धि नहीं होती है, किन्तु सब शास्त्र के समन्वय से भी सर्वज्ञ सर्वशक्तियुक्त ब्रह्म सिद्ध होता है ।

तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः । तद्ब्रह्म सर्वज्ञसर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणं वेदान्तशास्त्रादेवावगम्यते । कथम्, समन्वयात् । सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येणैतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि—‘सदेव सोम्येदमग्र आसीत्’ ‘एकमेवाद्वितीयम्’ ( छा. ६।२।१ ) । ‘आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्’ ( ऐतरेय २।१।११ ) । ‘तदेतद् ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्’ ‘अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः’ ( बृहदा० २।४।१६ ) ‘ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्’ ( मुण्ड० २।२।११ ) इत्यादीनि । न च तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समन्वयेऽवगम्यमानेऽर्थान्तरकल्पना युक्ता, श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रसङ्गात् । न च तेषां कर्तृस्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयते ‘तत्केन कं पश्येत्’ ( बृह० २।४।१३ ) इत्यादिक्रियाकारकफलनिराकरणश्रुतेः ।

सूत्रगत तु शब्द उक्त पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है कि पूर्वपक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिवाला और जगत् के उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण वह ब्रह्म वेदान्त से ही अवगत ( अपरोक्षानुभूत-प्राप्त ) होता है । यदि कहे कि कैसे अवगत होता है, तो सुनो,—सम्यक् अन्वय से अवगत होता है, क्योंकि सभी वेदान्तो मे तद्वत् वाक्य सब तात्पर्यपूर्वक इस ब्रह्मात्मक अर्थ के ही प्रतिपादक ( बोधक ) रूप से अनुगत ( सम्बद्ध-मिलित ) है । हे सोम्य ! प्रियदर्शन ! यह सब दृश्य जगत् सृष्टि से प्रथम सद्ब्रह्म मात्र ही था, एक ही द्वैतरहित था । यह जगत् एक आत्म-स्वरूप ही प्रथम था । जो आत्मा है, वही यह ब्रह्म है, और वह ब्रह्म अपूर्व ( कारगरहित ) उनपर ( कार्यरहित ) जात्यन्तर के व्यवधानरहित, और बाह्यपदार्थरहित है, यह सर्वात्मा ब्रह्म है, सर्वात्मारूप ? से सबका अनुभव करने वाला है । अमृत ब्रह्म ही यह

१ स सर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैक ।

त सत्यमानन्दनिधि भजेत नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः ॥

( श्रीमद्भा० स्क० २ )

आगे प्रत्यक्षदृश्यादिरूप भासता है, इत्यादि अर्थवाले वे अनुगत वाक्य है। औउनर वाक्यगत पदो के ब्रह्मस्वरूपविषयक निश्चित समन्वय ( सम्बन्ध ) के अवगम्यमान ( ज्ञात ) रहते, अर्थान्तर ( क्रियार्थकता ) की कल्पना युक्त ( उचित ) नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा करने से श्रुत ब्रह्मार्थ की हानि ( अभाव ) और अश्रुत ( श्रुति से अबोधित ) अर्थ की कल्पना हो जायगी। और उन वाक्यों के कर्मकर्ता के स्वरूप के प्रतिपादन मे तात्पर्य का निश्चय भी नहीं होता है, उन्हें कर्ता के स्वरूप का प्रतिपादन परायण नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ( तत्केन क पश्येत् ) इस श्रुति से ( उस ज्ञान काल मे कौन किससे किसको देखे ) इस प्रकार क्रिया कारक फल का निषेध सुना गया है।

न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादिविषयत्वं ब्रह्मणः । 'तत्त्वमसि' ( छा० ६।८।७ ) इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रमन्तरेणानवगम्यमानत्वात् । यत्तु हेयोपादेयरहितत्वाद्दुपदेशानर्थक्यमिति । नैप दोषः, हेयोपादेयशून्यब्रह्मात्मतावगमादेव सर्वक्लेशप्रहाणात् पुरुषार्थसिद्धेः । देवतादिप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगतोपासनार्थत्वेऽपि न कश्चिद्विरोधः । न तु तथा ब्रह्मण उपासनाविधिशेषत्वं सम्भवति, एकत्वे हेयोपादेयशून्यतया क्रियाकारकादिद्वैतविज्ञानोपमर्दोपपत्तेः । नह्येकत्वविज्ञानेनोन्मथितस्य द्वैतविज्ञानस्य पुनः सम्भवोऽस्ति । येनोपासनाविधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते । यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं न दृष्टं, तथाप्यात्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात् तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम् । न चानुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं, येनान्यत्र दृष्टं निदर्शनमपेक्षते । तस्मात्सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम् ॥

ब्रह्म के सिद्ध वस्तु स्वरूप होते उसके भी प्रत्यक्षादि की विषयता नहीं है, क्योंकि जीव रूप से कल्पित ब्रह्म अहम् ( मैं ) इस प्रत्यक्ष का कथञ्चित् विषय है, जगत के कारण रूप से कथञ्चित् अनुमेय भी हो सकता है, परन्तु ( तत्त्वमसि ) वह सत्य ब्रह्म तू है, इस प्रकार ब्रह्मात्मता ( ब्रह्मरूपता ) शास्त्र के बिना नहीं ज्ञात हो सकती है, शास्त्र के बिना वह सदा अज्ञात है। और जो यह कहा गया था कि हेय और उपादेय से रहित होने से ब्रह्म उपदेश के योग्य नहीं है, वहाँ कहा जाता है कि यह दोष भी नहीं है, क्योंकि हेयोपादेय से शून्य ( रहित ) ब्रह्म के ज्ञान से ही अविद्यादि सब क्लेशो की निवृत्ति से परमपुरुषार्थ ( मोक्ष ) की सिद्धि होती है। और जो उपासनापरक वेदान्त को कहा गया था, वहाँ प्राणादि देवता और उसके ज्येष्ठत्वादि का जो प्रतिपादन है, उसको स्ववाक्यगत ( प्राप्त ) उपासनार्थकत्व मे कोई विरोध नहीं है, परन्तु ब्रह्म को प्राणादि के समान उपासना विधि के शेषत्व ( अंगत्व ) का सम्भव नहीं है ( अर्थात् वेदान्त से अनुभूतब्रह्म उस ज्ञानी के लिये उपास्य रूप से विधेय नहीं हो सकता है क्योंकि एकत्व के निश्चय से सत्य एकत्व के होने पर हेय और उपादेय की शून्यता से

क्रियाकारकादि द्वैत के विज्ञानो का उपमर्द ( नाश ) की सिद्धि होती है, सत्य द्वैत नहीं भासता है, और एकत्व विज्ञान से विनाशित द्वैत विज्ञान का फिर सम्भव ( सिद्धि ) नहीं हो सकता, कि जिस द्वैत विज्ञान रूप कारण की सत्ता से ब्रह्मसम्बन्धी उपासना विधि की शेषता का वेदान्त से प्रतिपादन किया जाय । यद्यपि ब्रह्मबोधक वेदान्त से अन्यत्र वेदवाक्यों की विधि-सम्बन्ध के बिना प्रमाणाता नहीं देखी गई है । तथापि आत्मविज्ञान की फलपर्यन्तता ( मोक्षप्रापकता ) से आत्मज्ञानविषयक शास्त्र की प्रमाणाता विधि-सम्बन्ध के अभावादि से प्रत्याख्यान ( निषेध ) के योग्य नहीं है । शास्त्र की प्रमाणाता अनुमान से ज्ञेय नहीं है, जिससे वह अन्य कहीं दृष्ट दृष्टान्त नामक निदर्शन की अपेक्षा करे, क्योंकि नेत्रादि के समान शास्त्र अपने विषय में स्वतः ( निरपेक्ष ) प्रमाणा है, उससे समन्वित शास्त्र प्रमाण के विषयत्व ब्रह्म को सिद्ध हुआ । इस पूर्व कथन से सिद्धार्थ में भी पद की शक्ति ज्ञान को मानने वाले ब्रह्म को नहीं मानने वाले के मत का खण्डन वेदान्त की ब्रह्मपरता दिखला कर किया गया है । आगे कार्यसम्बद्ध पदार्थ में ही पदों की शक्ति माननेवालों की चर्चा होगी ।

अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते—यद्यपि शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्म तथापि प्रतिपत्तिविधि-विषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते । यथा यूपाहवनीयादीन्यलौकिकान्यपि विधि-शेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत् । कुत एतत् ? प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वाच्छास्त्रस्य ।

इस वेदान्तवेद्यत्व कथन में अन्य कोई प्रतिवादीरूप से उपस्थित होते हैं, और पूर्वपक्ष करते हैं कि यद्यपि शास्त्ररूप प्रमाणवाला ब्रह्म है, प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है, तो भी उस ब्रह्मविषयक ज्ञान उपासनारूप प्रतिपत्ति की विधि के विषय रूप से ही शास्त्र द्वारा भी ब्रह्म समर्पित ( बोधित ) होता है, जैसे कि यूप आहवनीय आदि पदार्थ लोक में अप्रसिद्ध भी हैं, तो भी विधि के अग्ररूप से शास्त्र से बोधित होते हैं, अर्थात् ( यूपे पशुं बध्नाति आहवनीये जुहोति, इन्द्रं यजेत ) इन विधियों में वे यूपान्ति कौन पदार्थ है ऐसी आकाक्षा होने पर ( यूप तक्षति, अग्नीनादधीत, वज्रहस्त पुरन्दर ) इत्यादि विधिपरक वाक्यों से जैसे पशुबधन के हेतु स्तम्भ विशेष का आहवन के स्थान अग्नि का पूज्य विशेष देव बध्धारी का बोध होता है, वैसे ही ( तद्विजिज्ञासस्व ) इत्यादि विधि के अग्र रूप से ही ( सत्यम् ) इत्यादि सिद्धार्थक वाक्य ब्रह्म का बोध कराते हैं, अन्यथा अप्रसिद्धार्थक होने से उनसे ब्रह्म का बोध भी नहीं हो सकेगा, यदि कोई कहे कि विधिशेषता से ही क्यों बोधक शास्त्र होता है, तो प्रवृत्ति वा निवृत्ति शास्त्र का प्रयोजन होता है, अर्थात् श्रेय की प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति का अनिष्ट से निवारण के लिए निवृत्ति का शास्त्र विधान करता है, इसके बिना उसमें अनर्थकता की प्राप्ति होती है ।

तथाहि शास्त्रतात्पर्यविद् आहुः—‘दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्’ इति । ‘चोदने’तिक्रियायाः प्रवर्तकं वचनम् । ‘तस्य ज्ञानमुपदेशः’ ( जै० सू०

१।१।५) 'तद्भूतानां क्रियार्थेन समान्नायः' ( जै० सू० १।१।२५ ) 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानाम्' ( जै० सू० १।२।१ ) इति च । अतः पुरुषं कर्त्तृद्विपयविशेषे प्रवर्तयत्कृतश्चिद्विपयविशेषान्निवर्तयन्वार्थवच्छास्त्रम् तच्छेषतया चान्यदुपयुक्तम् । तत्सामान्याद्वेदान्तानामपि तथैवार्थवत्त्वं स्यात् । सति च विधिपरत्वे यथा स्वर्गादिकामस्याभिहोत्रादिसाधनं विधीयत एवममृतत्वकामस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयत इति युक्तम् ।

इसीसे तो—उक्त प्रवृत्ति-निवृत्तिप्रयोजनता को शास्त्र के तात्पर्यज्ञ भी कहते हैं कि कर्म ( क्रिया-कार्य-नियोग-विधि-धर्म ) का अवबोधन ( उपदेशन ) ही शास्त्र वेद का प्रयोजन देखा गया है । तथा क्रिया के प्रवर्तक ( साधक ) वचन को चोदना शब्द से कहा जाता है । उस धर्म का ज्ञान ( ज्ञापक ) विधि वाक्य उपदेश कहाता है । 'तद्भूतानां' उस-वेदगतभूतार्थक ( सिद्धार्थक ) पदों का क्रियार्थक पद के साथ 'समान्नाय' उच्चारण कर्त्तव्य है और आम्नाय ( वेद ) क्रियार्थक हैं, इससे क्रियारहित को अनर्थकता है इत्यादि । इससे पुरुष को किसी विषय विशेष ( इष्टोपाययागादि ) में प्रवृत्त करता हुआ, वा किसी विषयविशेष ( अनिष्टसाधन हिंसादि ) से निवृत्त कराता हुआ ही शास्त्र सार्थक होता है, और उस विधि-निषेध रूप सार्थक शास्त्र के शेष ( अंग ) रूप से अन्य अर्थवादादि रूप सिद्धार्थक वचन उपयुक्त ( ( उपयोगी-सफल ) होते हैं । इस प्रकार के उस कर्म शास्त्र के साथ तुल्यशास्त्रता से वेदान्त को भी उसी के समान प्रवर्तकत्व-निवर्तकत्व-तदङ्गत्व रूप से ही सार्थकत्व होगा । इस प्रकार वेदान्त को विधि ( क्रिया ) परकत्व ( क्रियाबोधकत्व ) सिद्ध होने पर जैसे स्वर्गादि की इच्छावालों के लिये अभिहोत्रादि साधनों का शास्त्र से विधान किया जाता है, उसी प्रकार अमृतत्व ( मोक्ष ) की कामना वालों के लिये ब्रह्मज्ञान का विधान किया जाता है । ऐसा होना ही युक्त ( उचित ) है । क्रिया से प्राप्त भी अमृतत्व अमृत ( अविनाशी ) ही रहेगा यह भाव है ।

नन्विह जिज्ञास्यवैलक्षण्यमुक्तम्—कर्मकाण्डे भव्यो धर्मो जिज्ञास्यः, इह तु भूतं नित्यनिर्वृत्तं ब्रह्म जिज्ञास्यमिति । तत्र धर्मज्ञानफलादनुष्ठानापेक्षाद्विलक्षणं ब्रह्मज्ञानफलं भवितुमर्हति । नार्हत्येवं भवितुम् । कार्यविधिप्रयुक्तस्यैव ब्रह्मणः प्रतिपाद्यमानत्वात् । 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' ( बृह० २।४।५ ) इति । 'य आत्मा-ऽपहतपाप्मा-सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः' ( छा० ८।७।१ ) 'आत्मेत्येषोपासीत' ( बृ० १।४।७ ) 'आत्मानमेव लोकमुपासीत' ( बृ० १।४।१५ ) 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ( मुण्ड० ३।२।६ ) इत्यादिविधानेषु सत्सु 'कोऽसावात्मा किं तद् ब्रह्म' इत्याकाङ्क्षायां तत्स्वरूपसमर्पणेन सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः—'नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतो नित्यतृप्तो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावो विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इत्येवमादयः ।

उक्त विधिविषयक शङ्का होती है कि इस धर्म और ब्रह्म की जिज्ञासा के सूत्रकारों ने वेद में जिज्ञास्य ( विचारार्ह ) वस्तु का वैलक्षण्य ( भिन्नता ) कहा है, कि कर्मकाण्ड वेद में धर्म जिज्ञास्य है, और इस वेदान्त में तो भूत ( सिद्ध ) नित्यनिर्वृत्त ( नित्यसिद्ध )

ब्रह्म जिज्ञास्य है, यह भेद है। वहाँ कर्मानुष्ठानपूर्वक होने वाले धर्म के फलो से विलक्षण ब्रह्मज्ञान का फल होना चाहिये, अर्थात् कर्मफल अनुष्ठान साध्य है इससे अनुष्ठान के लिये विधि की आवश्यकता है। यहाँ ज्ञानमात्र से नित्यसिद्ध मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे विधि की आवश्यकता नहीं है, इस शङ्का का उत्तर है कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कार्य के विधिप्रयुक्त (निमित्तिक) ही ब्रह्म प्रतिपादित है कि अरे (मैत्रेय) आत्मा ही द्रष्टव्य है (अर्थात् आत्मज्ञान के लिये आत्मोपासना-आत्मचिन्तना करो) इसी प्रकार जो पापरहित आत्मा है वह अन्वेषणीय है, उसका अन्वेषण (ध्यानादि) करो। वह विचारणीय है, विचार करो। प्राणादि आत्मस्वरूप ही हैं इस प्रकार उपासना-चिन्तना करे। आत्मा की ही ज्ञानात्मक लोक (प्रकाश) रूप से उपासना करे। ब्रह्म को जानने वाला (उपासना करने वाला) ब्रह्म होता है। इत्यादि विधि वाक्यों के रहने पर आकाक्षा (जानने की इच्छा) होती है कि वह आत्मा कौन वस्तु है ? ब्रह्म क्या है ? तो उनके स्वरूपों के बोधन द्वारा सब वेदान्त उपयुक्त (सफल) होते हैं कि नित्य सर्वज्ञ सर्वगत (व्यापक) नित्यतृप्त नित्यशुद्ध नित्यबुद्ध नित्यमुक्त स्वभाव वाला आत्मा है, विज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म है, इत्यादि।

तदुपासनाच्च शास्त्रदृष्टो मोक्षः फलं भविष्यतीति । कर्तव्यविध्यननुप्रवेशे तु वस्तुमात्रकथने हानोपादानासम्भवात्, 'सप्तद्वीपा वसुमती, राजाऽसौ गच्छती'त्यादिवाक्यवद्वेदान्तवाक्यानामानर्थक्यमेव स्यात् । ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि 'रज्जुरियं नाय सर्प' इत्यादौ भ्रान्तिजनितभीतिनिवर्तनेनार्थवत्त्वं दृष्टम्, तथेहाप्य-संसार्यात्मवस्तुकथनेन संसारित्वभ्रान्तिनिवर्तनेनार्थवत्त्वं स्यात् । स्यादेतदेवं, यदि रज्जुस्वरूपश्रवण इव सर्पभ्रान्तिः, संसारित्वभ्रान्तिर्ब्रह्मस्वरूपश्रवणमात्रेण निवर्तेत । नतु निवर्तेत, श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं सुखदुःखादिसंसारित्वधर्मदर्शनात्, 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' ( बृ० २।४।५ ) इति च श्रवणोत्तरकालयोर्मनननिदिध्यासनयोर्विधिदर्शनात् तस्मात्प्रतिपत्तिविधिविषयतयैव शास्त्रप्रमाणक ब्रह्माभ्युपगन्तव्यमिति ।

उक्त रीति से नित्यादि स्वरूप उस ब्रह्मात्मा की उपासना से शास्त्र से ज्ञात और प्रत्यक्षादि से अज्ञात मोक्षरूप फल होगा, एव कर्तव्य (उपासना) विधि में शेष (अंग) रूप से सिद्धार्थक वेदान्त-वाक्यों का अनुप्रवेश (सम्बन्ध-नाति) नहीं होने पर और वस्तुमात्र को कहने पर तो, त्याग वा ग्रहण रूप क्रिया के असंभव से, 'सात द्वीप वाली भूमि है, यह राजा जाता है, इत्यादि निरर्थक वाक्यों के समान वेदान्त-वाक्यों को भी निरर्थकता प्राप्त होगी। यहाँ शंका होती है कि, भ्रान्त पुरुष के प्रति कहा जाता है कि यह रस्ती है, सर्प नहीं है, इत्यादि, तो वहाँ वस्तु मात्र के कहने से भी भ्रमजन्य भय की निवृत्ति द्वारा उस सिद्धार्थ कथन की सार्थकता देखी गयी है। इसी प्रकार इस वेदान्त में भी असंसारी आत्मवस्तु के कथन से संसारित्व-भ्रान्ति की निवृत्ति द्वारा



अर्थवत्त्व हो सकता है। उत्तर है कि—यह वेदान्त की सार्थकता उक्त रीति से हो सकती—यदि रस्सी के स्वरूप के श्रवण होने पर जैसे सर्प की भ्रान्ति निवृत्त होती है, वैसे ही ब्रह्म का स्वरूप मात्र के श्रवणमात्र से संसारित्व-भ्रान्ति निवृत्त हो जाती, परन्तु श्रवणमात्र से नहीं निवृत्त होती है, क्योंकि वेदान्त वाक्यों के द्वारा ब्रह्म के श्रवण-वालो को भी श्रवण से पूर्व के समान ही सुख-दुःखादि रूप संसारीधर्म देखे जाते हैं, और श्रोतव्य, इत्यादि वाक्य में श्रवण के बाद में होने वाले मनन और निदिध्यासन ( ध्यान ) की विधि के देखने से भी सिद्ध होता है कि श्रवणमात्र से संसारित्व-भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है, अन्यथा उनकी विधि व्यर्थ होगी। उससे उपासना विधि के विषय रूप से ही शास्त्रप्रमाणक ( शास्त्रप्रमाणबोध्य ) ब्रह्म मानने योग्य है। यह पूर्वपक्ष है।

अत्राभिधीयते। न। कर्मब्रह्मविद्याफलयोर्वैलक्षण्यात्। शारीरं वाचिकं मानसं च कर्म श्रुतिस्मृतिसिद्धं धर्माख्यं, यद्विषया जिज्ञासा 'अथातो धर्मजिज्ञासा' ( जै० सू० १।१।१ ) इति सूत्रिता। अधर्मोऽपि हिंसादिः प्रतिषेधचोदनालक्षण-त्वाज्जिज्ञास्यः परिहाण्य। तयोश्चोदनालक्षणयोरर्थानर्थयोर्धर्माधर्मयोः फलं प्रत्यक्षे सुखदुःखे शरीरवाङ्मनोभिरेवोपभुज्यमाने विषयेन्द्रियसंयोगजन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे।

उक्त पूर्वपक्षी भी मोक्ष को अमृत ( नित्य ) मानते हैं, अन्यथा कार्यता से अनित्यता की प्राप्ति होगी। वहाँ नित्य सिद्ध की ज्ञान से अभिव्यक्तिमात्र हो सकती है, कर्मोपासना से उत्पत्ति आदि नहीं हो सकती, इस आशय से सिद्धान्ती कर्मफल को अनित्यत्वविधि दिखाने के लिये कहते हैं कि इस उक्त विषय में इस प्रकार कहा जाता है कि विधि का विषय ब्रह्म नहीं है, क्योंकि कर्म और ब्रह्म विद्या के फलो में विलक्षणता है, कायिक-वाचिक और मानस कर्म श्रुतिस्मृति से सिद्ध धर्म नामक है, जिन कर्मों के विषय में जिज्ञासा ( अथातो धर्मजिज्ञासा ) इस सूत्र से सूत्रित ( सूचित-बोधित ) हुआ है। सूत्र का अर्थ है कि वेदाध्ययन के बाद वेद के सार्थक होने से पाठमात्र से पुण्यप्रद मात्र ही नहीं होने से वेदार्थ धर्म का विचार करना चाहिये और अधर्म भी हिंसादिक निषेध विधि से लक्षित हैं, अर्थात् वेदादि में जिन कर्मों का निषेध है, वे अधर्म कहते हैं, वे भी त्यागने के लिये विचारार्ह हैं, और विधि-प्रतिषेध रूप चोदनात्मक लक्षण वाले अर्थ ( पुण्य ) अनर्थ ( पाप ) रूप उन धर्म और अधर्मों के प्रत्यक्ष सुख-दुःख रूप जो फल शरीर, वाक्, मन से ही भोगे जाते हैं, विषय और इन्द्रियों के संयोग से जन्य वे सुखदुःख रूप फल ब्रह्म से स्थावर तक शरीरियों में प्रसिद्ध है।

मनुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मान्तेषु देहवत्सु सुखतारतम्यमनुश्रूयते। ततश्च तद्धेतो-धर्मस्य तारतम्यं गम्यते। धर्मतारतम्यादधिकारितारतम्यम्। प्रसिद्धं चार्थित्व-सामर्थ्यादिकृतमधिकारितारतम्यम्। तथा च यागाद्यनुष्ठायिनामेव विद्यासमाधि-

विशेषादुत्तरेण पथा गमनं, केवलैरिष्टापूर्तदत्तसाधनैर्धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनं तत्रापि सुखतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च शास्त्रात् । 'यावत्संपातमु-  
षित्वा', ( छा० ५।१०।५ ) इत्यस्माद् गम्यते ।

उक्त प्रसिद्धि अनुभव के अनुसार ही मनुष्यत्व से आरम्भ करके ब्रह्मापर्यन्त देह धारियो मे सुख के तारतम्य ( न्यूनाधिक भाव ) ( स एको मानुष आनन्द । तै० आ० २।२।१ ) इत्यादि श्रुतियो से सुना जाता है, उससे उन सुख के हेतु धर्मों मे भी न्यूनाधिक भाव अनुमानादि से समझा जाता है, और धर्म के न्यूनाधिक भाव से उसके अधिकारियो मे न्यूनाधिकता समझी जाती है । एव अर्थित्व ( फलेच्छा ) सामर्थ्य ( शक्ति ) आदि के भेद से सिद्ध अधिकारियो के न्यूनाधिक भाव लोक मे प्रसिद्ध भी है । इसी प्रकार यागादि कर्मों के अनुष्ठान ( आचरण ) करने वालों मे ही किसी की विद्या ( उपासना ) मे समाधि ( चित्त की स्थिरता ) विशेष से श्रुतिवर्णित अर्चि आदिरूप उत्तर मार्ग से गति है, और उस मार्ग से ब्रह्म लोक मे जाता है । तथा उपासना रहित केवल अग्निहोत्रादि रूप इष्ट ( वैदिक कर्म ) और वापी कूपोपासना का संपादन रूप पूर्त ( स्मार्तकर्म ) एव शरणागत की रक्षादि रूप दत्तकर्म रूप साधनो से धूमादि क्रम-  
वाला दक्षिण मार्ग से चन्द्रलोकादि मे गति होती है और उस चन्द्रादि लोको मे भी सुख और सुख के साधनो का न्यूनाधिक भाव ( यावत्संपातमुषित्वा ) इस श्रुति से ज्ञात होता है । ( संपत्ति, गच्छति परलोकमनेनासौ संपात. ) जिससे परलोक मे जाय उस कर्म को संपात कहते है । वह कर्म जब तक रहता है तब तक वहाँ रह कर फिर लौटता है, यह श्रुति का अर्थ है ।

तथा मनुष्यादिषु नारकस्थावरान्तेषु सुखलवश्चोदनालक्षणधर्मसाध्य एवेति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः । तथोर्ध्वगतेष्वधोगतेषु च देहवत्सु दुःखतारतम्य-  
दर्शनात्तद्धेतोरधर्मस्य प्रतिषेधचोदनालक्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते । एवमविद्यादिदोषवतां धर्माधर्मतारतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपूर्वकं सुखदुःखतारतम्यमनित्यं संसाररूपं श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धम् । तथा च श्रुतिः-  
'न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहृतिरस्ति' इति यथावर्णितं संसाररूप-  
मनुवदति । 'अशरीरं वा वसन्त न प्रियाप्रिये स्पृशतः' ( छा० ८।१२।१ ) इति

- १ अग्निहोत्र तप सत्य वेदाना चानुपालनम् ।  
आतिथ्य वैश्वदेव च इष्टमित्यभिधीयते ॥  
वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च ।  
अन्नप्रदानमाराम. पूर्तमित्यभिधीयते ॥  
शरणागतसन्त्राणं भूताना चाप्यहिसनम् ।  
बहिर्वेदि च यद्दान दत्तमित्यभिधीयते ॥

प्रियाप्रियस्पर्शप्रतिषेधाच्चोदनालक्षणधर्मकार्यत्वं मोक्षाख्यस्याशरीरत्वस्य प्रतिषि-  
ध्यत इति गम्यते । धर्मकार्यत्वे हि प्रियाप्रियस्पर्शनप्रतिषेधो नोपपद्यते ।

इसी प्रकार मनुष्यों से लेकर नारकी और स्थावर पर्यन्त में जो सुख का लेश (अंश) हैं सो न्यूनाधिकरूप में वर्तमान सुख भी विधिरूप लक्षणावाले धर्म से ही साध्य हैं, इस प्रकार समझा जाता है । इसी प्रकार ऊर्ध्व स्वर्गादिगत और अधोगत देहधारियों में दुःख की न्यूनता अधिकता के देखने (समझने) से उस दुःख के हेतु और प्रतिषेध-विधिरूप लक्षणा वाले अधर्मों की तथा उनके अनुष्ठाता (कर्ताओं) की न्यूनता-अधिकता ज्ञात होती है । इस प्रकार अविद्यादि दोष (क्लेश) वालों के धर्मा-धर्म के न्यूनाधिक्य निमित्तक शरीरों का ग्रहणपूर्वक जो सुखदुःख का न्यूनाधिक भाव है वही अनित्य ससार स्वरूप है और श्रुति-स्मृति तथा न्याय (अनुमान) से प्रसिद्ध है वैसी ही श्रुति है कि शरीर सहित सत्यात्मा जीव के सुख और दुःख की निवृत्ति (नाश) नहीं होती है, इस प्रकार पूर्ववर्णित ससार के स्वरूप का श्रुति अनुवाद करती है और शरीररहित सत्यात्मा को सुखदुःख स्पर्श भी नहीं करते है । इस प्रकार मोक्षावस्था में विषयजन्य सुखदुःख के स्पर्श का भी निषेध से मोक्ष नामक शरीररहित्य को विधिरूप धर्म-कार्यत्व का निषेध किया जाता है यह बात समझी जाती है—अनुमित होती है, क्योंकि मोक्ष को धर्म-कार्यत्व के रहते सुखदुःख का निषेध नहीं बन सकता है, पूर्ववर्णित रीति से सर्वधर्मकार्यसुखादि युक्त होते हैं ।

‘अशरीरत्वमेव धर्मकार्यमिति चेन्न । तस्य स्वाभाविकत्वात् । अशरीरं शरी-  
रेषु अनवस्थेष्ववस्थितम् । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ।’  
(कठ० १।२।२१) ‘अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः’ (मुण्ड० २।१।२) ‘असङ्गो ह्ययं पुरुषः’  
(बृ० ४।३।१५) इत्यादिश्रुतिभ्यः । अत एवानुष्ठेयकर्मफलविलक्षणं मोक्षाख्यम-  
शरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम् । तत्र किञ्चित्परिणामि नित्यं यस्मिन् विक्रिय-  
माणोऽपि तदेवेदमिति बुद्धिर्न विहन्यते । यथा पृथिव्यादि जगन्नित्यत्ववादिनाम् ।  
यथा च सांख्यानां गुणाः । इदं तु पारमार्थिकं कूटस्थं नित्यं व्योमवत्सर्वव्यापि,  
सर्वविक्रियारहितं नित्यतृप्तं निरवयवं स्वयंज्योतिःस्वभावम् । यत्र धर्माधर्मौ  
सह कार्येण कालत्रयं च नोपावर्तेते ।

शंका होती है कि शरीररहित होने पर सुखदुःख स्पर्श नहीं होता है, यह ठीक है, परन्तु वह शरीरशून्यता ही उपासनादिरूप विलक्षण धर्म का कार्य है, और उस उपासनादि विधि के शेष रूप से ब्रह्म का ज्ञान होता है । उत्तर है कि ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस मुक्त स्वरूप आत्मनिष्ठ शरीरशून्यता को स्वाभाविकता है, स्वभाव से ही सर्वात्मा शरीर-सम्बन्ध से रहित है, भ्रम से उसमें शरीर भासता है, भ्रम की निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिये, धर्म नहीं । श्रुति कहती है कि शरीर में शरीर-रहित अनवस्थिर (विनश्चर) शरीरादि में स्थिर (नित्य) महान विभु आत्मा को साक्षात् करके ज्ञानी शोक नहीं करता है, इस ज्ञान के लिए उपासनादि का निवारण

नही किया जाता है। यह आत्मा प्राण और मन के सगादि से भी रहित है। यह असग पुरुष आत्मा है, इत्यादि श्रुतियो से स्वाभाविक अशरीरी आत्मा सिद्ध होता है। इसीसे कर्तव्य कर्मफल से विलक्षण मोक्ष नामक अशरीरत्व नित्य है, यह सिद्ध होता है। उस नित्य के भी दो भेद होते हैं, कोई वस्तु परिणामी नित्य होती है, अर्थात् धर्म, लक्षण ( काल ) अवस्था के भेद से स्वरूप को अन्यथा करने वाली होती है, कि जिसके विक्रियमाण ( विकारयुक्त अन्यथा स्वरूप ) होने पर भी वही वस्तु यह है, इस बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है। जैसे कि जगत् को नित्य कहने वालों के मत में पृथिवी आदि परिणामी नित्य है और साख्यशास्त्र को मानने वालों के मत में सत्त्वादि रूप तीनों गुण परिणामी नित्य है, परन्तु यह अशरीरराहित्य रूप मोक्ष नामक नित्यत्व ही पारमार्थिक ( सत्य ) है, परिणामी नित्यत्व कल्पनामात्र है। एवं यह मोक्ष कूटस्थ ( निर्विकार ) नित्य, आकाशतुल्य सर्वव्यापि है। अतएव धर्मादिकृत सब विकारों से रहित, नित्यतृप्त निरवयव और स्वयंप्रकाश स्वभाववाला है, इससे ही धर्म से साध्य भी नहीं होने से जिसमें कार्यों के सहित धर्म और अधर्म कभी नहीं रहते हैं, न तीन काल का सम्बन्ध होता है, इससे भूत-भावित्तादि नहीं होते हैं इत्यादि।

तदेतदशरीरत्वं मोक्षाख्यम् । 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृता-  
कृतात् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च' ( कठ० २।१४ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः ।  
अतस्तद् ब्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता । तद्यदि कर्तव्यशेषत्वेनोपदिश्येत,  
तेन च कर्तव्येन साध्यश्चेन्मोक्षोऽभ्युपगम्येत अनित्य एव स्यात् । तत्रैवं  
सति यथोक्तकर्मफलेष्वेव तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु कश्चिदतिशयो मोक्ष इति  
प्रसज्येत । नित्यश्च मोक्षः सर्वैर्मोक्षवादिभिरभ्युपगम्यते, अतो न कर्तव्यशेषत्वेन  
ब्रह्मोपदेशो युक्तः ।

यह पूर्वोक्त मोक्ष नामक अशरीरत्व ( सर्वशरीरराहित्य ) धर्म से अन्य, अधर्म से अन्य, इस कार्य और कारण से अन्य, भूत, भावी, वर्तमान से अन्य है इत्यादि श्रुत्यर्थ से सिद्ध होता है। और इन श्रुतियो से तथा कूटस्थतादि से वह अशरीरत्व ही ब्रह्म है जिसकी यह जिज्ञासा प्रस्तुत ( आरब्ध ) है। वह ब्रह्म यदि कर्तव्य उपासनादि के शेष ( अग ) रूप से उपदिष्ट हो, अर्थात् कार्य के शेष रूप से यदि उसका उपदेश दिया और उस कर्तव्य उपासनादि धर्म से यदि मोक्ष साध्य ( जन्य ) माना जाय, तो वह मोक्ष अनित्य ही होगा। और सभी मोक्षवादियों से मोक्ष नित्य माना जाता है। इसलिये कर्तव्य के शेष रूप से ब्रह्म का उपदेश होना युक्त ( उचित ) नहीं है।

अपि च 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' ( मुण्ड० ३।२।६ ) 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि  
तस्मिन् दृष्टे परावरे' ( मुण्ड० २।२।८ ) 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्', न 'बिभेति

१ पर च अवर च परावरम् । अथवा परमपि यस्मादवरम् इस प्रकार विग्रह भेद से यह भी अर्थ होता है कि अन्य से पर भी हिरण्यगर्भादि, जिससे अवर है इत्यादि।

कुतश्चन' ( तैत्ति० २।६ ) 'अभयं वै जनक ! प्राप्नोऽसि' ( बृ० ४।२।४ ) 'तदात्मान-  
मेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वमभवत्' ( वाजसनेयिब्राह्मणोप० १।४।१० ),  
'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' ( ईशा० ७ ) इत्येवमाद्याः श्रुतयो  
ब्रह्मविद्यानन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तर वारयन्ति ।

और जो ब्रह्म को साक्षात्कार करता है, वह ब्रह्म ( मुक्त ) हो जाता है ।  
परावर ( कारण-कार्य स्वरूप सर्वाधिष्ठान ) उस पर ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर  
इस विद्वान् के प्रारब्ध से भिन्न सब कर्म नष्ट हो जाते हैं । ब्रह्मानन्द को जानने वाला  
किसी से भयभीत नहीं होता है । हे जनक ! तुम अभय को प्राप्त हो चुके हो । यह  
जीव प्रथम ब्रह्म ही था, और है, अज्ञान से जीवत्व को प्राप्त सा हुआ है । गुरु उपदेश  
से जब वह ब्रह्मस्वरूप अपने को समझा कि 'मैं ब्रह्म हूँ' उससे वह ब्रह्म ही हो गया ।  
एक आत्मतत्त्व को समझने वालों में उस ज्ञान काल में कौन मोह और शोक रह सकते  
हैं, मूल सहित इनका अभाव हो जाता है । इस प्रकार कहने वाली श्रुतियाँ ब्रह्मज्ञान के  
अव्यवहित उत्तरकाल में मोक्ष दिखलाती हुई ज्ञान और मोक्ष के मध्य में कार्यान्तर का  
वारण करती हैं ।

तथा 'तद्धैतत्पश्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च' ( बृ० १।४।१० )  
इति ब्रह्मदर्शनसर्वात्मभावयोर्मध्ये कर्तव्यान्तरवारणायोदाहार्यम् । यथा  
तिष्ठन् गायतीति तिष्ठतिगायत्योर्मध्ये तत्कर्तृकं कार्यान्तरं नास्तीति गम्यते ।  
'त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयति' ( प्रश्न० ६।८ ) 'श्रुतं  
ह्येव मे भगवद्दृशोभ्यस्तरति शोकमात्मविदि'ति 'सोऽहं भगवः शोचाभि तन्मा  
भगवाञ्छोकस्य परं पारं तारयतु ( छा० ७।१।३ ) 'तस्मै मृदितकषायाय तमसः  
परं पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः' ( छा० ७।२।६।२ ) इति चैवमाद्याः  
श्रुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मज्ञानस्य फलं दर्शयन्ति ।

इसी प्रकार उस ब्रह्म को इस अन्तरात्मस्वरूप से अपरोक्षानुभव करते हुए वामदेव  
ऋषि ने अपने को सर्वात्मस्वरूप से इस प्रकार अनुभव किया कि मैं ही मनु और सूर्यादि  
रूप से हुआ और हूँ । इससे ब्रह्मानुभव और सर्वात्मभावरूप मोक्ष के मध्य में  
कार्यान्तर के अभाव के लिए यह श्रुति उदाहरणयोग्य है । जैसे कि 'खडा होता हुआ  
गाता है' इस कथन से खड़े होने और गाने के बीच में उस पुरुषकृत कार्यान्तर नहीं  
है, ऐसी प्रतीति होती है । भारद्वाजादि ऋषियों ने पिप्पलाद गुरु के प्रति कहा कि आप  
ही हम सब के पिता हैं, जो आप-हम सबको अविद्यात्मक ससार-सागर से पर पार  
में पहुँचाते हैं । नारद जी ने सनत्कुमार जी से कहा कि भगवत्तुल्य ज्ञानियों से यह  
वचन मुझे श्रुत है कि आत्मज्ञ, शोकरहित हो जाता है । यह तत्त्व मुझे अनुभूत  
नहीं है । हे भगवन् इससे वह अज्ञ मैं शोकयुक्त हूँ, उस अज्ञ मुझको ज्ञान नाव द्वारा  
शोकात्मक संसार से पार कर दो । तप आदि द्वारा विनाशित दोष वाले उस नारद

को भगवान् सनत्कुमार ने अविद्या रूप तम से परतत्त्व को दर्शाया । इत्याद्यर्थकं श्रुतियाँ भी मोक्ष के प्रतिबन्धक अज्ञान की निवृत्तिमात्र को ही आत्मज्ञान का फल दर्शाती हैं ।

तथा चाचार्यप्रणीतं न्यायोपबृंहितं सूत्रम्—‘दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्या-  
ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः’ ( न्या० सू० १।१।२ ) इति ।  
मिध्याज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानाद्भवति । न चेदं ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं  
सम्पद्रूपम् । यथा ‘अनन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं  
जयति’ ( बृ० ३।१।६ ) इति । न चाध्यासरूपम् यथा ‘मनो ब्रह्मेत्युपासीत’  
( छा० ३।१।२१ ) ‘आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः’ ( छा० ३।१।६१ ) इति च मन आदित्या-  
दिषु ब्रह्मदृष्ट्यध्यासः ।

मोक्ष के लिये अज्ञान की निवृत्ति में केवल श्रुति ही नहीं प्रमाण है किन्तु गौतमा-  
चार्यप्रणीत ( रचित ) न्याययुक्त सूत्र भी इस अर्थ में प्रमाण है, सूत्र का अर्थ है  
त्रिविध या एकविंशति प्रकार के दुःख, जन्म, प्रवृत्ति ( धर्माधर्म ), दोष ( रागद्वेष-  
लोभेर्ष्यादि ) और मिथ्या ज्ञान ( अविद्या भ्रम ) इनमें पूर्व-पूर्व उत्तर-उत्तर के कारण  
है, इससे उत्तर-उत्तर की निवृत्ति से पूर्व-पूर्व के अभाव से अपवर्ग ( मोक्ष ) होता है,  
अर्थात् मिथ्याज्ञानादि की क्रम से निवृत्ति द्वारा दुःख की सर्वथा निवृत्ति ही मोक्ष है ।  
यद्यपि उक्त आचार्य के मत में भिन्नात्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति मानी गई है,  
तथापि श्रुति के अनुसार ब्रह्मात्मा के एकत्व के विज्ञान से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति  
होती है । यदि कोई कहे कि यह एकत्वज्ञान सत्यवस्तुविषयक नहीं है, जिससे अज्ञान  
की निवृत्ति द्वारा मोक्ष हो सके, किन्तु सम्पदादि रूप है, अर्थात् जैसे मन की वृत्तियाँ  
अनन्त हैं, और विश्वेदेवा भी अनन्त हैं, वहाँ इस अनन्तता रूप तुल्यता से हीन मन में  
उत्तम विश्वेदेवरूपता का संपादन ( सकल्प ) करके और उस मन को नहीं समझ कर  
उस रूप से विश्वेदेव के चिन्तन को सम्पत् कहा जाता है, ऐसा ही ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान  
है, चिद्रूपता की तुल्यता से जीव को उत्तम ब्रह्मरूप मान कर ब्रह्म का चिन्तन है,  
अथवा जैसे मन की ब्रह्मरूपसे वा सूर्य की ब्रह्म रूपसे उपासना विधि है, आदेश ( उपदेश )  
है वहाँ हीन का ही उत्तम रूप से चिन्तन होता है, ब्रह्म को न समझ कर मन को ब्रह्म  
समझा जाता है, वह अध्यात्मक प्रतीकोपासना है, ऐसे ही ब्रह्मभिन्न जीव को उत्तम  
ब्रह्मरूपसे अध्यासात्मक ज्ञान है, और उक्त सम्पदुपासना का जैसे अनन्त लोक की प्राप्ति  
फल है वैसे ही इसका भी अमृतत्व की प्राप्ति फल है इत्यादि । वहा कहा जाता है कि  
यह ब्रह्म आत्मा की एकता का विज्ञानसम्पत् रूप वा मन आदि में जैसा ब्रह्म दृष्टि का  
अध्यास किया जाता है, वैसा अध्यास रूप नहीं है । सम्पदा अध्यासरूपता के अभाव  
में आगे हेतु कहे जायेंगे ।

नापि विशिष्टक्रियायोगनिमित्तम्, ‘वायुर्वाव संवर्गः’ ‘प्राणो वाव संवर्गः’  
( छान्दो० ४।३।१ ) इतिवत् । नाप्याज्यावेक्षणादिकर्मवत्कर्माङ्गसंस्काररूपम्,  
संपदादिरूपे हि ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने ‘तत्त्वमसि’ ( छान्दो०

६।८।७) 'अहं ब्रह्मास्मि' ( बृह० १।४।१० ) 'अयमात्मा ब्रह्म' ( बृह० २।५।१६ ) इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्ववस्तुप्रतिपादनपरः पदसमन्वयः पीड्येत । 'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः' ( मुण्ड० २।२।८ ) इति चैवमादीन्य-विद्यानिवृत्तिफलश्रवणान्युपरोध्येरन् । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' ( मुण्ड० ३।२।६ ) इति चैवमादीनि तद्वावापत्तिवचनानि संपदादिपक्षे न सामञ्जस्येनोपपद्येरन् ।

इसी प्रकार यदि कोई कहे कि जैसे प्रलयकाल में वायु देव, अग्नि जलादि देव का सवरण सहरण करके उन्हें अपने में स्थिर करता है, तथा सुषुप्ति और प्रलयकाल में प्राण भी वागादि इन्द्रियो की अपने में सहरण करता है इससे श्रुति में वायु और प्राण को सवरण क्रिया ( व्यापार ) विशेष के योग से सर्वां कहा गया है, वैसे ही जीव में बृहण ( वृद्धि ) क्रिया के योग सबन्ध से जीव को ब्रह्म कहा गया है, या 'पत्यावेक्षित-माज्य भवति' इस वचन के अनुसार जैसे यज्ञ में यजमान की पत्नी से देखा गया घृत सस्कृत होता है वैसे ही 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य' इत्यादि से विहित दर्शन द्वारा आत्मा यज्ञादि के लिये सस्कृत ( शुद्ध ) होता है, इससे कर्माङ्ग ही आत्म-ज्ञान है इत्यादि । तब कहा जाता है कि सर्वां के समान विशिष्ट क्रिया सम्बन्ध निमित्तक वा आज्यावेक्षण ( घृतदर्शन ) आदि के समान भी यह ब्रह्मात्मा के एकता का दर्शन नहीं है । क्योंकि सम्पदादिरूप ब्रह्मात्मा के एकत्व ज्ञान को मानने पर, 'वह तू ही है, मैं ब्रह्म हूँ, यह आत्मा ब्रह्म है' इस प्रकार कहने वाले सब वाक्यों के ब्रह्मात्मा की एकात्मक वस्तु का प्रतिपादन विषयक जो पदों का सम्यक् अन्वय ( सम्बन्ध ) है, वह नष्ट हो जायगा । और आत्म ज्ञान से हृदय की कामादि ग्रन्थि ( बन्धन ) सब टूट जाती हैं—सब सशय नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार ज्ञान मात्र से अविद्या की निवृत्ति रूप फल श्रवण सब उपरुद्ध ( बाधित-मिथ्या ) हो जायेंगे और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, इस प्रकार के ज्ञान से ब्रह्मभाव की प्राप्ति के बोधक वचन सब सम्पदादि पक्ष में सामञ्जस्य ( न्याय ) उचित रूप से नहीं सिद्ध होंगे ।

तस्मान्न सम्पदादिरूपं ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् । अतो न पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या । किं तर्हि ? प्रत्यक्षादिप्रमाणविषयवस्तुज्ञानवद्वस्तुतन्त्रा । एवं-भूतस्य ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य च न कयाचिद्युक्त्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्प-यितुम् । न च विदिक्रियाकर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः, 'अन्यदेव तद्विदिता-दथोऽविदितादधि' ( केन० १।३ ) इति विदिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेधात्, 'येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्' ( बृह० २।४।१३ ) इति च । तथोपा-स्तिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेधोऽपि भवति—'यद्वाचानभ्युद्यते' येन वागभ्युद्यते' इत्य-विषयत्वं ब्रह्मण उपन्यस्य, 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते' ( केन० १।४ ) इति ।

'उक्त हेतुओं से ब्रह्मात्मा की एकता का ज्ञान सम्पदादि चारों में से किसी रूप नहीं

है, इसीसे पुरुष के व्यापाराधीन भी ब्रह्म विद्या नहीं है। तो क्या नित्य है? ऐसी शका होने पर कहा जाता है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय जो वस्तु उनके ज्ञानों के समान ब्रह्मविद्या भी वस्तुतन्त्र (अधीन) है। इस प्रकार के ब्रह्म और उसके ज्ञान को किसी भी युक्ति से कार्य के साथ सम्बन्ध की कल्पना नहीं हो सकती है। ज्ञानक्रिया के कर्म रूप से भी ब्रह्म का किसी कार्य के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है, ज्ञान का भी कर्म नहीं हो सकता क्योंकि श्रुति कहती है कि वह ब्रह्म विदित (ज्ञात-कार्यादि) और अविदित (कारणादि) से अधि (उपरि-अन्य) है। अर्थात् व्याकृत नाम रूप और अव्याकृत प्रकृति से अन्य स्वयं प्रकाश है। इससे ज्ञानक्रिया की कर्मता का निषेध होता है। इसी प्रकार श्रुति कहती है कि जिस आत्मप्रकाश से लोग इस सब दृश्य वस्तु को जानते हैं, उसे किस साधन से जानेगे। इससे भी ज्ञानक्रिया की कर्मता का निषेध ही किया गया है। इसी प्रकार उपास्ति (उपासना) क्रिया की कर्मताका ब्रह्म में निषेध है, जो ब्रह्म वाक् इन्द्रिय से अभ्युदित (प्रकाशित-कथित) नहीं होता और जिस ब्रह्म से वाक् प्रकाशित प्रेरित होती है। इस प्रकार ब्रह्म को इन्द्रियों की अविषयता का कथन करके कहा है कि उसी अविषय स्वरूप ब्रह्म को तुम समझो, ये जो इन्द्रियों के विषय पदार्थ प्रसिद्ध हैं, जिनकी उपासना की जाती है, उन्हें ब्रह्म नहीं समझो क्योंकि जिनकी उपासना की जाती है वे ब्रह्म नहीं हैं, इत्यादि।

अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वानुपपत्तिरिति चेत् । न । अविद्याकल्पित भेदनिवृत्तिपरत्वाच्छास्त्रस्य । न हि शास्त्रमिदन्तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति । किं तर्हि ? प्रत्यगात्मत्वेनाविषयतया प्रतिपादयद्विद्याकल्पितं वेद्य—वेदितृ-वेदनादिभेदमपनयति । तथाच शास्त्रम्—‘यस्याऽमतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्’ ( केन० २।३ ), ‘न दृष्टेर्दृष्टारं पश्येः’ ‘न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः’ ( बृह० ३।४।२ ) इति चैवमादि । अतोऽविद्याकल्पितसंसारित्वनिवर्तनेन नित्यमुक्तात्मस्वरूपसमर्पणान्न मोक्षस्यानित्यत्वदोषः ।

यहाँ शका होती है कि यदि ब्रह्म वाक् का अविषय है, उमका शब्द से ज्ञान नहीं होता है, तो पूर्ववर्णित शास्त्रप्रमाणगम्यत्व रूप शास्त्रयोनित्व की अप्रसिद्धि होती है? उत्तर है कि शास्त्रप्रमाणाकत्व की असिद्धि नहीं होती है, क्योंकि अविद्या से कल्पित (मिथ्याभासित) जो भेद उसकी निवृत्ति परक शास्त्र है, वह निवृत्ति विषयता बिना भी होती है। अर्थात् जो अधिकारी प्रथम विवेकादि से समझा है कि शरीर-मन-बुद्धि-प्राण इन्द्रियादि की अनेक अवस्था सकोच-विकाशादि होते हुए भी मैं एक रससाक्षी रूप ही रहता हूँ और शास्त्रादि द्वारा परोक्ष रूपसे ब्रह्म को सत्यादि स्वरूप समझता है—भिन्न समझता है। वहाँ भेद मात्र का निवारण तत्त्वमसि, इत्यादि वाक्य करता है, क्योंकि उक्त शास्त्र भी इद (बाह्य-अनात्म) रूप से ज्ञान के विषय स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन करना नहीं



चाहता है। भाव है कि रस गन्धादि को भी शब्द इद रूप से स्पष्ट नहीं समझा सकता तो ब्रह्म की बात तो और अति दूर है, यदि कहा जाय कि इद रूप से नहीं समझाना चाहता। तो क्या करना चाहता है ? तो उत्तर है कि अन्तरात्मा रूप से अविषय रूप से प्रतिपादन करता हुआ स्वयं प्रकाश सर्वसाक्षी आदि स्वरूप समझाता हुआ अविद्या से कल्पित वेद्य ( ज्ञेय ) वेदितृ ( ज्ञाता-प्रमाता ) वेदन ( ज्ञान ) आदि का सत्य भेद को ब्रह्म में शास्त्र निवृत्त करता है। अर्थात् जीवात्मा रूप प्रमाता प्रमाणाधीन प्रमिति ( ज्ञान ) से घटादि को समझता है। वहाँ जीव में उस घटादि से विलक्षण इन्द्रियादि के अविषय ब्रह्मरूपता को समझता हुआ शास्त्र प्रमाता में प्रमातृत्व आदि का निषेध करता है। इसे मिथ्या समझता है। इसी प्रकार शास्त्र भी कहता है कि जिसको ब्रह्म विषय रूप से अमत ( अज्ञात ) है, उसी को ज्ञात है, और जिसको विषय रूप से ज्ञात है, वह ब्रह्म को नहीं जानता है। इसीसे ज्ञानी के लिये ब्रह्म अदृश्य है। अज्ञानी के लिये विज्ञात ( दृश्य ) है। उपरत में याज्ञवल्क्या जी ने कहा कि लौकिक दृष्टि के द्रष्टा ( साक्षी ) को नुम नहीं देख सकते हो, न बुद्धिवृत्ति के विज्ञाता को जान सकते हो इत्यादि। इससे अविद्या से कल्पित सासारित्व की ज्ञान से निवृत्ति द्वारा नित्यमुक्त आत्मस्वरूप के समझाने प्राप्त कराने से मोक्ष में अनित्यता रूप दोष नहीं है।

यस्य तूपाद्यो मोक्षस्तस्य मानसं वाचिकं कायिकं वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम्। तथा विकार्यत्वे च। तयोः पक्षयोर्मोक्षस्य ध्रुवमनित्यत्वम्। न हि दध्यादि विकार्यं उत्पाद्यं वा घटादि नित्यं दृष्टे लोके। न चाप्यत्वेनापि कार्यापेक्षा, स्वात्मस्वरूपत्वे सत्यनाप्यत्वात्। स्वरूपव्यतिरिक्तत्वेऽपि ब्रह्मणो नाप्यत्वम्, सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वात्सर्वेण ब्रह्मणः आकाशास्येव। नापि संस्कार्यो मोक्षः, येन व्यापारमपेक्षेत। संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्याद्दोषापनयनेन वा। न तावद्गुणाधानेन सम्भवति, अनाधेयातिशय-ब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य। नापि दोषापनयनेन, नित्यशुद्धब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य।

क्षणिक विज्ञानवादी आदि के मत में मोक्ष उत्पत्ति के योग्य है, उसके मत में मानसिक, वाचिक वा कायिक क्रिया की अपेक्षा मोक्ष करता है, अर्थात् क्रिया से मोक्षसिद्ध होता है यह मानना युक्त ( उचित ) है। इसी प्रकार विकार के योग्य जिसके मत में मोक्ष है, उसे भी विकाराहँ मोक्ष में कर्म की अपेक्षा है। परन्तु उन दोनों पक्षों ( सिद्धान्तों ) में मोक्ष को अवश्य निश्चित अनित्यत्व होगा क्योंकि विकार योग्य दधि आदि और उत्पत्ति योग्य घटादि लोक में नित्य नहीं देखे गये हैं। मोक्ष को आप्य ( प्राप्तियोग्य ) मान कर भी उसके लिये क्रिया की अपेक्षा मानना उचित नहीं है, क्योंकि यदि मोक्ष निजात्म-स्वरूप है तो प्राप्ति के योग्य नहीं है। स्वरूप में कर्तृकर्म भाव विरुद्ध है। यदि मोक्षात्मक ब्रह्म निजस्वरूप से भिन्न हो तो भी वह प्राप्ति योग्य नहीं है, क्योंकि सर्वगत ( व्यापक ) होने से सबको सदा आकाश के समान ब्रह्म प्राप्त ही है। ब्रह्मात्मक मोक्ष संस्कार के

योग्य भी नहीं है जिससे संस्कार के लिये क्रिया की अपेक्षा हो। क्योंकि क्रियाजन्य संस्कार रूप फल दो प्रकार से होता है। एक तो संस्कार योग्य वस्तु में गुणाधान (गुण का प्रापण-स्थापन) से संस्कार होता है, जैसे इवेत वस्त्र को रगने से होता है। दूसरा दोष की निवृत्ति से होता है जैसे मलिन वस्त्र को धोने से होता है। यहाँ गुणाधान से ब्रह्म का संस्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि असंगादि होने से अतिशय (भेदविशेषता) जिसमें नहीं प्राप्त हो सके, वह ब्रह्म स्वरूप मोक्ष है। इसी से तथा मोक्षात्मक ब्रह्म के नित्य, शुद्ध, ब्रह्मस्वरूप होने से दोष का निवारण द्वारा भी संस्कार नहीं हो सकता है।

स्वात्मधर्म एव संस्तिरोभूतो मोक्षः क्रियायात्मनि संस्क्रियमाणोऽभिव्यज्यते, यथाऽऽदर्शो निघर्षणक्रियया संस्क्रियमाणो भास्वरत्वं धर्म इति चेत् । न । क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेरात्मनः । यदाश्रया हि क्रिया तमविकुर्वती नैवात्मानं लभते । यद्यात्मा क्रियया विक्रियेतानित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । 'अविकार्योऽयमुच्यते' इति चैवमादीनि वाक्यानि बाध्येन् । तच्चानिष्टम् । तस्मान्न स्वाश्रया क्रियाऽऽत्मनः सम्भवति । अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वान्न तयात्मा संस्क्रियते ।

उक्तार्थ में शका होती है कि स्वात्मा के ही धर्म नित्य, मुक्तत्वादि रूप मोक्ष है, जो पापादि रूप मल से तिरोहित (आच्छादित) है। जहाँ क्रिया रूप धर्मोपासनादि से आत्मा के संस्कृत (शुद्ध) होने पर वह मोक्ष अभिव्यक्त प्रगट होता है, जैसे मलिन दर्पण को धूलि आदि द्वारा घिसने से उसके शुद्ध होने पर उसके भास्वरत्व (दीप्त स्वभाव) रूप धर्म प्रगट होता है। तो उत्तर है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्माश्रयादि दोष से और कूटस्थ नित्य, निरवयव आत्मा के होने से आत्मा को क्रिया के आश्रयत्व नहीं हो सकता, इससे स्वाश्रित क्रिया से स्वयं संस्कृत नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दोष ही नहीं है, और यदि उसमें क्रिया हो तो वह निर्विकार भी नहीं रह सकता, क्योंकि जिसमें क्रिया होती है, उसको विकृत किए बिना स्वरूप का लाभ नहीं करती। आश्रय को विकृत करती ही हुई क्रिया उत्पन्न होती है, यह उसका स्वभाव है। यदि मान लो कि आत्मा में क्रिया होती है, और आत्मा क्रिया से विकृत भी होता है तो आत्मा में अनित्यता की प्राप्ति होगी, और 'यह आत्मा विकारा-नही कहा जाता है', इत्यादि भगवद्वाक्यादि भी बाधित (तिरस्कृत-अनादृत) होंगे, वह अनिष्ट है। जिससे आत्मा के संस्कार का हेतु स्वाश्रय क्रिया नहीं हो सकती है। यदि आत्मा से अन्य किसी में रहने वाली क्रिया से आत्मा का संस्कार मानो कि जैसे हस्तगत घर्षण रूप क्रिया से दर्पण का संस्कार होता है, तो भी नहीं हो सकता है, दृष्टान्त में दर्पण सावयव पदार्थ है धूलि, हस्तादि के साथ उसको सयोग बनता है, निरवयव आत्मा अन्याश्रित क्रिया के अविषय होने से (सयोगादिरहित होने से) उससे संस्कृत नहीं हो सकता है।

ननु देहाश्रयया स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिकया क्रियया देही संस्क्रियमाणो दृष्टः। न, देहादिसंहतस्यैवाविद्यागृहीतस्यात्मनः संस्क्रियमाणत्वात्। प्रत्यक्षं हि स्नानाचमनादेर्देहसमवायित्वम्। तथा देहाश्रयया तत्संहत एव कश्चिदविद्यात्मात्मत्वेन परिगृहीतः संस्क्रियत इति युक्तम्। यथा देहाश्रयचिकित्सानिमित्तेन धातुसाम्येन तत्संहतस्य तदभिमानिन आरोग्यफलं 'अहमरोग' इति यत्र बुद्धिरूपपद्यते। एवं स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिना 'अहं शुद्धः संस्कृत' इति यत्र बुद्धिरूपपद्यते स संस्क्रियते। स च देहेन संहत एव। तेनैव ह्यहंकर्त्राहंप्रत्ययविषयेण प्रत्ययिना सर्वाः क्रिया निर्वर्त्यन्ते, तत्फलं च स एवाश्नाति।

उक्तार्थं मे शंका होती है कि देह मे होने वाली स्नान आचमन (जलोपस्पर्श), यज्ञोपवीत (यज्ञसूत्र) आदि क्रिया से देही (जीवात्मा) संस्कृत हुआ देखा गया है, इसी प्रकार अन्यगत क्रिया से आत्मा भी संस्कृत हो सकता है। उत्तर है कि ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देह के संस्कार से भी देहेन्द्रियादि से संहत (मिलित) उसके मध्यगत, और अविद्या से गृहीत (देहादि के अभिमानयुक्त) देहाभिन्नात्ममानी जीवात्मा (व्यावहारिक जीव) का ही संस्कार होता है, असग का नहीं। और स्नानाचमनादि को प्रत्यक्ष ही देह सम्बन्धिता है। इससे उस देहाश्रित क्रिया से उस देह से मिलित ही कोई अज्ञ व्यावहारिक जीवात्मा अविद्या से सत्यात्मत्व से ज्ञात हुआ संस्कृत होता है ऐसा होना युक्त ही है, जैसे कि देहाश्रित चिकित्सा (रोगनिवारण) निमित्तक रस, रक्त, वातपित्तादि धातुओं की समता से उस देह से मिलित देहाभिमानो को आरोग्य फल होता है, जिसमे मैं अरोग हुआ ऐसी बुद्धि होती है। इसी प्रकार स्नानादि से जिसमे ऐसी बुद्धि होती है कि मैं शुद्ध और संस्कृत हो गया, वही संस्कृत होता है, वह देह से मिलित ही है। उसी अहंकार करने वाला और अहं रस ज्ञान का विषय, तथा वृत्ति रूप ज्ञान, कामादि का आश्रय जीव से सत्र क्रियाएँ की जाती हैं, और वही उन क्रियाओं के फलों को भोगता है।

'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनभ्रन्नन्यो अभिचाकशीति' (मुण्ड० ३।१।१) इति मन्त्रवर्णान्, 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः' (कठ० १।३।४) इति च। तथा 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चैता केवलो निर्गुणश्च' (श्वेता० ६।१।१) इति, 'स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धम्' (ईशा० ८) इति च, एतौ मन्त्रावनाधेयातिशयतां नित्यशुद्धतां च ब्रह्मणो दर्शयतः। ब्रह्मभावश्च मोक्षः। तस्मान्न संस्कार्योऽपि मोक्षः। अतोऽन्यन्मोक्षं प्रति क्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्यं केनचिदर्शयितुम्। तस्माज्ज्ञानमेकं मुक्त्वा क्रियाया गन्धमात्रस्याप्यनुप्रवेश इह नोपपद्यते।

उक्त अर्थ इन वक्ष्यमाणार्थिक वचनो से सिद्ध होता है। एक देह रूप वृक्ष पर

रहने वाले उन जीवात्मा और ब्रह्म मे से अन्य ( एक ) क्षेत्रज्ञनामक जीव स्वादु पिप्पल ( कर्मफल ) को भोगता है और उससे अन्य सर्वज्ञ ईश्वर कर्मफल को नहीं भोगता हुआ देखता ( प्रकाशता ) है । आत्मभाव से गृहीत देह, इन्द्रिय और मन से युक्त आत्मा को विद्वान् लोग भोक्ता कहते हैं, केवल को नहीं । वह एक देव ( दीप्त स्वरूप ) सब प्राणी मे है परन्तु माया से गूढ ( छिपा ) है । सब मे व्यापक और सब प्राणी की अन्त-रात्मारूप वह एक ही है, कर्मों का अध्यक्ष ( नियन्ता ) सब भूतो मे बसने वाला साक्षी ( निर्विकार साक्षात् द्रष्टा ) अत एव केवल चेतता ( बोद्धा ) और निर्गुण है । वह आत्मा सर्वत्र व्यापक शुक्र ( दीप्तिमान् ) लिङ्ग-देह रहित, अव्रण ( अक्षत-दु खरहित ) अस्नाविरः ( शिरा-न्नायुरहित अनश्वर ) है—स्थूल देहरहित है, और शुद्ध पाप रहित है अर्थात् अविद्या, राग, द्वेष, धर्माधर्मादि से असग है । इन वचनो मे से कठश्रुति ससारी जीवात्मा का वर्णन करती है और उससे अन्य दो मन्त्र ब्रह्मसम्बन्धी अतिशय ( न्यूनाधिकभाव ) के आधान से रहित नित्यमुक्तता को दर्शाते हैं और अतिशयादि रहित नित्यमुक्त ब्रह्मभाव ही मोक्ष है । जिससे सस्कार के योग्य भी मोक्ष नहीं है । पूर्ववर्णित मोक्ष मे क्रियाप्रवेश के चार द्वारो से अन्य मोक्ष के प्रतिक्रिया सम्बन्ध के द्वार ( हेतु ) को कोई देखा नहीं है, और उक्त चारो का असम्भव दर्शाया गया है । इससे एक ज्ञान को छोड कर क्रिया के गन्ध ( लेश ) मात्र का भी इस मोक्ष मे सम्बन्ध नहीं होता है ।

ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया । न । वैलक्षण्यात् । क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षैव चोद्यते, पुरुषचित्तव्यापाराधीना च, यथा 'यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यान्तां मनसा ध्यायेद्वषट्करिष्यन्' इति, 'संध्यां मानसा ध्यायेत्' ( ऐ० ब्रा० ३।५।१ ) इति चैवमादिषु ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसम्, यथापि पुरुषेण कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुं शक्यं, पुरुषतन्त्रत्वात् । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम् प्रमाणं च यथाभूतवस्तुविषयम्, अतो ज्ञानं कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुमशक्यं केवलं वस्तुतन्त्रमेव तत्, न चोदनातन्त्रम्, नापि पुरुषतन्त्रम्, तस्मान्मान-सत्त्वेऽपि ज्ञानस्य महद्वैलक्षण्यम् ।

शका होती है कि ज्ञान भी तो मानसी क्रिया ही है, तो विधि का विषय क्यों न होगा, वा उसके उत्पाद्यादि रूप फल क्यों नहीं होंगे ? उत्तर है कि ज्ञान क्रियारूप नहीं है, ज्ञान को क्रिया से विलक्षणता है । क्रिया वह है कि जहाँ वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा बिना विधि ( प्रेरणा ) होती है, और जो पुरुष के चित्त का व्यापार ( इच्छा अनिच्छा आदि ) के अधीन होती है । जैसे कि—जिस देवता के लिये अध्वर्यु से हविर् गृहीत हो, उस देव का 'वषट्' इस शब्द का उच्चारण करता हुआ, होता मन से ध्यान करे । संध्या देव को संध्या काल मे मन से ध्यान करे इत्यादि स्थानो मे ध्यान चिन्तन रूप है । वह यद्यपि मानस है, तथापि पुरुष से करने न करने वा अन्यथा करने

मे शक्य है क्योंकि पुरुष के अधीन है देवता के रहते भी ध्यान देवता के अधीन नहीं है। और ज्ञान तो प्रमाणजन्य होता है, और प्रमाण वही होता है कि जो वस्तु जैसी हो वैसी ही उसको विषय करे ( प्रकाशे ) इससे यथार्थ वस्तुविषयक होता है। इससे वह ज्ञान करने न करने अन्यथा करने के योग्य नहीं होता है। केवल वस्तु के अधीन ही वह ज्ञान होता है, न विधि के अधीन होता है, न पुरुष के अधीन होता है। इस कारण से ज्ञान के मानसत्त्व रहते भी क्रिया से इसमें बड़ी विलक्षणता है।

यथाच 'पुरुषो वाव गौतमाग्निः', 'योषा वाव गौतमाग्निः' ( छान्दो० ५।७, ८।१ ) इत्यत्र योषिपितृपुरुषयोरग्निबुद्धिर्मानसी भवति, केवलचोदनाजन्यत्वात्क्रियैव सा पुरुषतन्त्रा च। या तु प्रसिद्धेऽग्नावग्निबुद्धिर्न सा चोदनातन्त्रा, नापि पुरुषतन्त्रा, किं तर्हि ? प्रत्यक्षविषयवस्तुतन्त्रैवेति ज्ञानमेवैतन्न क्रिया। एवं सर्वप्रमाणविषयवस्तुपु वेदितव्यम्। तत्रैवंसति यथाभूतब्रह्मात्मविषयमपि ज्ञानं न चोदनातन्त्रम्। तद्विषये लिङ्गादयः श्रूयमाणा अप्यनियोज्यविषयत्वात्कुण्ठीभवन्त्युपलादिपु प्रयुक्तक्षुरतैर्दृष्यादिवत् अहेयानुपादेयवस्तुविषयत्वात्।

जिस प्रकार पञ्चाग्निविद्या प्रकरण में स्वर्ग, मेघ, भूमि का अग्नि रूप से चिन्तन का वर्णन करके कहा गया है कि हे गौतम ! पुरुष भी अग्नि है, योषा ( स्त्री ) भी अग्नि है। जहाँ स्त्री, पुरुष में विधि के अनुसार उपासक को अग्निबुद्धि होती है, वहाँ केवल विधिजन्य होने से क्रिया ही होती है, और पुरुषाधीन ही होती है और जो लोक में प्रसिद्ध अग्नि में अग्निबुद्धि होती है, न तो वह विधि के अधीन होती है और न पुरुष के अधीन होती। तो वह बुद्धि प्रत्यक्ष इन्द्रिय का विषय जो वस्तु उसके अधीन ही कैसे होती है ? इससे वह ज्ञान होता है, क्रिया नहीं। इसी प्रकार अनुमान, शब्दादि सब प्रमाणों के विषयरूप वस्तु में समझना चाहिये कि लिंग व्याप्ति ज्ञानादि रूप प्रमाणजन्य ज्ञान क्रिया रूप नहीं होता है और पूर्वरीति से सत्य वस्तु विषयक ज्ञान के वस्तु तन्त्र सिद्ध होने पर यथाभूत ( सत्य स्वरूप ) ब्रह्मात्म विषयक ज्ञान भी विधि के अधीन नहीं होता है, किन्तु वस्तुतन्त्र ( अधीन ) होता है। यद्यपि 'आत्मानं पश्येत्, आत्मेत्येवोपासीत, ब्रह्म त्व विद्धि, आत्मा द्रष्टव्य' इत्यादि वचनों से ब्रह्मात्म-विषयक ज्ञान की विधि सा प्रतीत होती है, क्योंकि लिङ् और तव्य प्रत्यय विद्वच्छर्थक दीर्घ पड़ते हैं, तथापि उस विषयतन्त्र ज्ञान विषयक श्रुत भी लिङादि अनियोज्य ( कृति से असाध्य-अव्यापार्यं ) विषय में प्रयुक्त ( उच्चारित ) होने से वे अर्थ बोध कराने में कुण्ठित ( असमर्थ ) हो जाते हैं। जैसे कि पाषाणादि में प्रेरित धुरा की धारतीक्ष्णता कुण्ठित होती है, ब्रह्मज्ञान का विषय ब्रह्म भी सर्वात्मा विभु होने से हेय उपादेय नहीं है। इससे विषय का विधान द्वारा भी ब्रह्मज्ञान की विधि नहीं हो सकती है।

किमर्थानि तर्हि 'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' इत्यादीनि विधिच्छायाणि वचनानि ? स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमुखीकरणार्थानीति ब्रूमः। यो हि बहि-

मुखः प्रवर्तते पुरुषः 'इष्टं मे भूयादनिष्टं मा भूदिति' नच तत्रात्यन्तिकं पुरुषार्थं लभते । तमात्यन्तिकपुरुषार्थवाञ्छिनं स्वाभाविककार्यकरणसङ्घातप्रवृत्तिगोचराद्विमुखीकृत्य प्रत्यगात्मस्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादीनि । तस्यात्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्याहेयमनुपादेयं चात्मतत्त्वमुपदिश्यते—'इदं सर्वं यदयमात्मा ( बृह० २।४।६ ) 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात्, विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' ( बृह० ४।५।१५ ) 'अयमात्मा ब्रह्म' ( बृह० २।५।१६ ) इत्यादिभिः । यदप्यकर्तव्यप्रधानमात्मज्ञानं हानायोपादानाय वा न भवतीति तत्तैथवेत्यभ्युपगम्यते । अलङ्कारो ह्ययमस्माकं यद्ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्तव्यताहानिः कृतकृत्यता चेति ।

शका होती है कि यदि ज्ञान अविषेय है, तो अरे मैत्रेयि ! आत्मा दर्शन के योग्य है, सुनने योग्य है, इत्यादि विधि तुल्य वचन सब किस प्रयोजन के लिये है ? उत्तर है कि स्वाभाविक प्रवृत्ति विषयकवस्तु से विमुख करने के लिये है, इस प्रकार प्रयोजन कहा जाता है । क्योंकि जो बहिर्मुख ( विषयपरायण ) पुरुष मुझे इष्ट ( सुख ) हो, अनिष्ट ( दुःख ) नहीं हो, इस बुद्धि से बाह्य विषय में प्रवृत्त होता है और वहाँ आत्यन्तिक पुरुषार्थ ( नित्य सुख शान्ति ) नहीं पाता है । उस नित्य सुख चाहने वाले को स्वाभाविक शरीर और इन्द्रियो के समूह की प्रवृत्ति के विषयो से विमुख करके अन्तरात्मा विषयक उसकी चित्तवृत्ति का प्रवाह रूप से उसको 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादि वचन प्रवृत्त कराते है, आत्मान्वेषण ( खोज ) में लगाते हैं । फिर जब वह आत्मान्वेषण ज्ञान में प्रवृत्त होता है तब उसको अहेय अनुपादेय ( त्याग ग्रहण के अयोग्य ) आत्मतत्त्व का उपदेश दिया जाता है कि 'जो यह जगत् है वह सब आत्म स्वरूप है, सर्वत्र एक आत्मा ही की सत्ता है, भेद मायामात्र मिथ्या है ।' इस निश्चय से जब इस ज्ञानी को सब आत्मस्वरूप सिद्ध सत्य हो गया तब किस साधन से किसको देखे किसको जाने, अरे मैत्रेयि ! विज्ञाता आत्मा को किससे जाने । यदि कहा जाय कि यह आत्मा ब्रह्म को जाने तो वह कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि यह आत्मा ही ब्रह्म है । इससे द्रष्टा द्रष्टव्यादि भाव भी मायामात्र है इत्यादि उपदेश श्रुतियो से दिया जाता है । और जो कहा गया था कि अकर्तव्य प्रधान ( विधिसम्बन्धरहित ) आत्मज्ञान त्याग वा ग्रहण के लिये नहीं होता है, वह वैसा ही माना जाता है । यह आत्मज्ञो की शोभा है कि जो आत्मज्ञान के होने पर सब कर्तव्यता की निवृत्ति और कृतकृत्यता हो जाती है ।

तथा च श्रुतिः—

'आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ।' ( बृह० ४।४।१२ ) इति ।

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत । ( भ० गा० १५।२० )

इति च स्मृतिः। तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः समर्पणम्। यदपि केचिदाहुः—‘प्रवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण केवलवस्तुवादी वेद-भागो नास्ति’ इति, तन्न, औपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात्। योऽसातुप-निपत्स्वेवाधिगतः पुरुषोऽसंसारी ब्रह्म उत्पाद्यादिचतुर्विधद्रव्यविलक्षणः स्व-प्रकरणस्थोऽनन्यशेषः, नासौ नास्ति नाधिगम्यत इति वा शक्यं वदितुम्, ‘स एष नेति नेत्यात्मा’ ( बृह० २।१।२६ ) इत्यात्मशब्दात्, आत्मनश्च प्रत्याख्या-तुमशक्यत्वात्। य एव निराकर्ता तस्यैवात्मत्वप्रसङ्गात्।

इस कृतकृत्यता को श्रुति और स्मृति कहती है कि, यदि आत्मा को पुरुष इस प्रकार जान जाय कि सर्वसाक्षी आनन्द स्वरूप मैं हूँ, तो किस वस्तु की इच्छा करता हुआ वा किस फल की इच्छा से किसके प्रयोजन के लिये शरीर के ताप से तप्त हो सकता है, अर्थात् वह सबसे रहित कृतकृत्य हो जाता है। भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन ! इस गृह्य ( गुप्त ) तत्त्व को जानकर बुद्धिमान् पुरुष वृत्तकृत्य हो जाता है। जिनमे प्रतिपत्तिविधि के विषय रूप से ब्रह्म का बोध वेदान्त से नहीं होता है। और जो कोई यह कहते हैं कि प्रवृत्तिविधि, निवृत्तिविधि, और उन दोनों के शेष ( अग ) रूप वेद भाग से अतिरिक्त ( भिन्न ) वेद का भाग नहीं है, वह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि उपनिषद् से ज्ञेय पुरुष ( आत्मा ) विधिनिषेध का शेष नहीं है, और उसके बोधक उपनिषद् वेद है। जो यह उपनिषदो मे ही पुरुष ज्ञात होता है, वही अमसारी पुरुष ब्रह्म है और उत्पाद्य, विकार्य, प्राप्य, सस्कार्य, साध्य चारो प्रकार के द्रव्यों से विलक्षण है, और किसी विधिनिषेध प्रकरण मे नहीं वर्णित होने से खास स्वप्रकरण मे निरूपित है इससे स्वप्रकरणस्थ है किसी का शेष नहीं है, वह नहीं है, वा नहीं समझा जाता है, इस प्रकार भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नेति नेति पद से प्रपञ्च का निषेधपूर्वक जो यह अपरोक्षात्मा को कहा गया है, उसको आत्मशब्दार्थ होने मे उसका निषेध नहीं हो सकता। आत्मा निषेध के अयोग्य है, क्योंकि जो निषेध करने वाला है, उसका भी वह आत्मा है, इससे स्वात्मनिषेध की प्राप्ति होगी।

नन्वात्माहंप्रत्ययविषयत्वादुपनिपत्स्वेव विज्ञायत इत्यनुपपन्नम्। न। तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्। न ह्यहं प्रत्ययविषयकर्तृव्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्व-भूतस्थः सम एकः कूटस्थनित्यः पुरुषो विधिकण्ठे तर्कसमये वा केनचित्धि-गतः सर्वस्यात्मा, अतः स न केनचित्प्रत्याख्यातुं शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतुम्। आत्मत्वादेव च सर्वेषां न हेयो नाप्युपादेयः। सर्वं हि विनश्यद्विकारजातं पुरु-षान्तं विनश्यति। पुरुषो हि विनाशहेत्वभावाद्विनाशी, विक्रियाहेत्वभावाच्च कूटस्थनित्यः, अत एव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः, तस्मात् ‘पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः’ ( कठ० १।३।११ ) ‘तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ ( बृह० ३।१।२६ ) इति चौपनिषदत्वविशेषण पुरुषस्योपनिषत्सु

प्राधान्येन प्रकाशमानत्व उपपद्यते । अतो भूतवस्तुपरो वेदभागो नास्तीति वचनं साहसमात्रम् ।

उक्तार्थं मे शंका होती है कि लोक-शास्त्र के व्यवहारो मे आत्मा अहं ( मैं ) इस ज्ञान का विषय होता है यह प्रसिद्ध है, फिर उसको औपनिषद शब्द द्वारा उपनिषदो मे ही विज्ञात होता है, ऐसा कहना अयुक्त है ? उत्तर है कि 'अहंप्रत्यय' के विषय कर्ता भोक्ता का आत्मा साक्षी है, इससे आत्मा मे अहंप्रत्यय ( ज्ञान ) की विषयता प्रयुक्त ( निषिद्ध ) है । क्योंकि अहं ज्ञान का विषय कर्ता से भिन्न और उसका भी साक्षी सर्व-भूत निवासी सम ( एकरस ) एक कूटस्थ नित्य सर्वात्मा पुरुष, कर्मकारण मे वा तर्ककाल मे न्यायसिद्धान्त मे किसी से ज्ञात नहीं हुआ है, न होता है, और इस अज्ञानता से हीन वह प्रत्याख्यान ( निषेध ) के योग्य है, न विधि के अङ्गत्व प्राप्त कराने के योग्य है, तथा सर्वात्मा होने ही से न हेय है न उपादेय ( ग्राह्य ) है । क्योंकि विनश्चर अनात्म वस्तु हेय होता है, और विनष्ट होता हुआ विकार सब भी पुरुषान्त ( पुरुषभिन्न ) ही नष्ट होते हैं, असग सर्वात्मा का विनाश के हेतु नहीं होने से वह अविनाशी है, विकार के हेतु नहीं होने से कूटस्थ नित्य है, और इससे ही नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त स्वभाव वाला है । इसीसे श्रुति कहती है कि ( आत्मा ) से पर ( भिन्न-उत्तम ) और सत्य कोई वस्तु नहीं है, वही सब की सीमा है, परगति ( परम पुरुषार्थ ) स्वरूप है । और उपनिषद्गम्य पुरुष को मैं तुम से पूछता हूँ । यहाँ पुरुष का औपनिषदत्व ( उपनिषद्गम्यत्व ) विशेषण भी पुरुष के उपनिषदो मे प्रधान रूप से प्रकाशित ( ज्ञात ) होने पर युक्त होता है । इससे उपनिषद्ब्रह्म सत्यात्मा है । इसलिये भूत ( सिद्ध ) वस्तु मात्र के बोधक वेदभाग नहीं है यह वचन साहसमात्र ( अविवेक मूलक धार्ष्ट्य-मात्र ) है ।

यदपि शास्त्रतात्पर्यविदामनुक्रमणम्—'दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्' इत्येवमादि, तद्धर्मजिज्ञासाविषयत्वाद्विधिप्रतिषेधशास्त्राभिप्रायं द्रष्टव्यम् । अपि च 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतर्थानाम्' इत्येतदेकान्तेनाभ्युपगच्छतां भूतोपदेशानर्थक्यप्रसङ्गः, प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण भूतं चेद्वस्तुपदिशति भव्यार्थत्वेन, कूटस्थनित्यं भूतं नोपदिशतीति को हेतुः । न हि भूतमुपदिश्यमानं क्रिया भवति । अक्रियात्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात्क्रियार्थ एव भूतोपदेश इति चेत् । नैष दोषः । क्रियार्थत्वेऽपि क्रियानिर्वर्तनशक्तिमद्वस्तुपदिष्टमेव । क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य । न चैतावता वस्त्वनुपदिष्टं भवति ।

जो शास्त्र के तात्पर्यज्ञो का अनुक्रमण ( शास्त्र परिपाटीविषयक वचन ) है कि कर्मावबोधन ( फलवदर्थवबोधन ) वेद का प्रयोजन देखा गया है इत्यादि । उसको धर्म-जिज्ञासा विषयक होने से विधिनिषेध शास्त्र के तात्पर्यवाला समझना चाहिये कि विधि-निषेधरूप वेद का धर्मज्ञान प्रयोजन है इत्यादि । और ऐसा नहीं मानकर वेद क्रियावाचक



है, क्रियावाचक से भिन्न को निरर्थक समझना चाहिये। इस प्रकार जो नियम से मानने वाले हैं, उनके मत में भूत ( सिद्ध ) वस्तु के उपदेश रूप ( दध्ना जुहति ) इत्यादि में दधि आदि पद अनर्थक प्राप्त होंगे, क्योंकि वे भी भूतार्थ वाले हैं। यदि कहा जाय कि भूतार्थक होते भी भव्य ( साध्य ) क्रिया के लिये कारण आदि का उपदेश करते हैं इससे सार्थक है, तो कहा जाता है कि शास्त्र यदि भूत वस्तु का उपदेश क्रिया के लिये करता है, तो कूटस्थनित्य का नहीं उपदेश करता है इसमें क्या कारण है ? क्योंकि क्रिया के लिये उपदिष्ट भूतवस्तु स्वयं क्रिया स्वरूप तो नहीं हो जाती है। यदि कहा जाय कि क्रियार्थक भूतवस्तु के क्रियात्मक नहीं होते हुए भी उसे क्रिया के साधन होने से उसका उपदेश क्रिया ही के लिए है, और ब्रह्म का उपदेश ऐसा नहीं माना जाता है, तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि दध्यादि के क्रियार्थक होने पर भी क्रियासिद्धि की शक्ति वाली सिद्ध वस्तु का तो उपदेश हुआ ही, और वह वस्तु उपदिष्ट हुई, इसी प्रकार ब्रह्म भी उपदिष्ट हो सकता है। दधि आदि को क्रियार्थता तो प्रयोजन ( फल ) है। एतावता ( दधि आदि के क्रियार्थता से ) भूत दधि आदि वस्तु अनुपदिष्ट नहीं होती है, दधि आदि शब्द का अवाच्य नहीं समझी जाती है इत्यादि।

यदि नाभोपदिष्टं किं तत्र तेन स्यादिति । उच्यते—अनवगतात्मवस्तूपदेशश्च तथैव भवितुमर्हति । तदवगत्या मिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोर्निवृत्तिः प्रयोजनं क्रियत इत्यविशिष्टमर्थवत्त्वं क्रियासाधनवस्तूपदेशेन । अपि च 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इति चैवमाद्या निवृत्तिरूपदिश्यते । न च सा क्रिया, नापि क्रियासाधनम् । अक्रियार्थानामुपदेशोऽनर्थकश्चेत् 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादिनिवृत्त्युपदेशानामानर्थक्यं प्राप्तम् । तच्चानिष्टम् । न च स्वभावप्राप्तहन्त्यर्थानुरागेण नवः शक्यमप्राप्तक्रियार्थत्वं कल्पयितुं हननक्रियानिवृत्त्यौदासीन्यव्यतिरेकेण ।

शंका होती है कि ( दध्ना जुहोति ) यहाँ सिद्ध वस्तु का उपदेश सिद्ध हुआ इससे सिद्ध ब्रह्मोपदेशवादी को क्या फल हुआ, अर्थात् सिद्ध भी उपदिष्ट दधिक्रिया में उपकारक है, इससे उसका उपदेश सार्थक है, ब्रह्म तो क्रियोपयोगी नहीं है, तब उत्तर है कि अनवगत हवन कर्ता युक्त दधि का जैसे उपदेश होता है, वैसे अनवगत ( अज्ञात ) ब्रह्म का भी उपदेश हो सकता है, और उपदेश द्वारा उस ब्रह्म के ज्ञान से संसार ( जन्मादि ) के हेतु मिथ्याज्ञान अज्ञान की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी सिद्ध होता है, इससे क्रिया के साधन दधि आदि वस्तु के उपदेश के ( अविशिष्ट ) तुल्य ही अर्थवत्त्व ( सफलता ) ब्रह्मोपदेश को है। और यह नियम नहीं है कि क्रिया और क्रिया के साधन ही का वेद और शास्त्र उपदेश करता है, क्योंकि ( ब्राह्मणो न हन्तव्यः सुरा न पिबेत् ) 'ब्राह्मण को नहीं मारे, मदिरा नहीं पीये' इत्यादि शास्त्रों से ब्राह्मण का हनन, मद्यपान से निवृत्ति का उपदेश दिया जाता है। और निवृत्ति न क्रियारूप है न क्रिया का साधन ही है, इससे क्रियार्थक से भिन्न का उपदेश यदि निरर्थक ( निष्फल ) माना

जाय तो 'ब्राह्मणो न हन्तव्य' इत्यादि निवृत्ति के उपदेश रूप शास्त्रो मे अनर्थकता की प्राप्ति होगी, वह इष्ट नहीं है, इन्हे कोई भी अनर्थक नहीं मानता है। शंका हुई कि जैसे (नेक्षतोद्यन्तमादित्यम्) उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखे, यह ब्रह्मचारी के लिये प्रजापति का व्रत प्रकरण मे उपदेश दिया जाता है, वहाँ सूर्य को नहीं देखना मात्र तो कोई व्रतात्मक कर्म नहीं हो सकता इसलिये अनीक्षण के सकल्प का विधान किया जाता है, वह सकल्प व्रतरूप कर्म होता है, वैसे ही 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादि स्थानो मे भी राग से प्राप्त हनन क्रियादि के विरोधी सकल्प का विधान किया जाता है कि हनन से उदासीनता के लिये हनन से मन का निरोधात्मक विधारक प्रयत्न करे इससे सकल्परूप यत्न क्रिया का विधायक यह वाक्य है कि 'ब्राह्मणो न हन्तव्य.' अक्रियार्थक नहीं है, उत्तर है कि 'न हन्तव्यः', इस वाक्य मे, हनन क्रिया की निवृत्ति रूप उदासीनता से भिन्न संकल्पादि रूप अप्राप्त क्रियावाचकत्व रूप 'न-शब्दार्थ' की कल्पना नहीं कर सकते है 'नेक्षेत' वाक्य मे तो व्रत के प्रकरण से सकल्प की कल्पना होती है, यहाँ कोई कल्पना का कारण नहीं है। यदि फिर भी प्रश्न हो कि कारणान्तर के नहीं रहते हुए भी 'न' शब्द के अनेक विरोधादि अर्थ होते है, जैसे—'अनुदरा कन्या' यहाँ न शब्द का अल्प अर्थ होता है, अवर्म शब्दगत न का विरोधी अर्थ होता है, वैसे ही यहाँ भी अन्यार्थ हो सकता है, तो उत्तर है कि दो प्रकार के 'न' शब्द होता है, एक पर्युदास एक प्रसज्यप्रतिषेध कहाता है, और लिखा है कि 'द्वौ नञौ हि समाख्यातौ पर्युदासप्रसज्जकौ। पर्युदास सदृशप्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्' यहाँ पर्युदास का उत्तर पद से सम्बन्ध होता है, समास होता है, और लक्षणावृत्ति से अल्पविरोधादि अर्थ का बोधक होता है, वस्तुतः यह 'न' शब्द अनेकार्थक नहीं है, और पर्युदास से भिन्न जो 'न' शब्द होता है, उसका क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है, और क्रियासम्बन्धी जो 'न' शब्द होता है वह उस प्राप्त क्रियामात्र का निषेध करता है, अन्यार्थ को नहीं कहता है। इससे 'न हन्तव्य' इम वाक्य मे स्वभावरागादिवश प्राप्त हनन के साथ ही 'न' शब्द का अनुराग ( सम्बन्ध ) है। इससे हनन का निषेधमात्र करता है, अन्यार्थ को नहीं कहता है, और वह हनन का निषेध न क्रिया है न क्रिया का साधन है, क्योंकि अभाव भाव का साधन नहीं हो सकता, और उस निषेध का उपदेश है, वैसे ही ब्रह्म का उपदेश हो सकता है इत्यादि।

नञ्चैष स्वभावो यत्स्वसम्बन्धिनोऽभावं बोधयतीति। अभावबुद्धिञ्चौ-  
दासीन्यकारणम्, सा च दग्धेन्धनाग्निवत्स्वयमेवोपशाम्यति। तस्मात्प्रसक्त-  
क्रियानिवृत्त्यौदासीन्यमेव 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादिषु प्रतिषेधार्थं मन्यामहे,  
अन्यत्र प्रजापतिव्रतादिभ्यः। तस्मात्पुरुषार्थानुपयोग्युपाख्यानादिभूतार्थवाद-  
विषयमानर्थक्याभिधानं द्रष्टव्यम्।

क्रियासम्बन्धी प्रसज्यप्रतिषेधरूप न शब्द का यह स्वभाव है कि अपने साक्षात्

सम्बन्धी के अभाव का बोध करता है, 'न हन्त्वय' इत्यादि में हन्धात्वर्थ के साथ 'न' शब्दार्थ का साक्षात्सम्बन्ध है, इससे उसके अभाव का बोध कराता है, अथवा प्रत्ययार्थ के प्रधान होने से उसके साथ 'न'शब्दार्थ का सम्बन्ध है, इससे बलवदनिष्टासम्बन्धी इष्टसाधनत्वरूप विधि प्रत्ययार्थ के अभाव का बोधन द्वारा बलवदनिष्टसाधनत्व का बोध कराता है, और वह हननाभाव बुद्धि तथा अनिष्टसाधनत्व (ज्ञान) हनन से उदासीनता एव परिपालन स्थिति का कारण होता है। शका हुई कि यदि अभाव बुद्धि उदासीनता के कारण है, तो हननोदासीनता काल में उस बुद्धि को सदा रहना चाहिये परन्तु ऐसा होता नहीं है, तो कहा जाता है कि वह बुद्धि दग्धेन्धनाग्नि के समान स्वयं शान्त हो जाती है। भाव है कि हनन के हेतु भ्रान्तिमूलक राग को नष्ट करके नष्ट होती है और हनन को अनिष्ट साधन समझ लेने पर तद्विषयक राग के अभाव से उदासीनता बनी रहती है इत्यादि। उक्त हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि रागादिमूलक प्राप्त क्रिया की निवृत्तिरूप उदासीनता ही 'ब्राह्मणो न हन्त्वय' इत्यादि वाक्यों में 'न' शब्दार्थ माना जाता है, किन्तु 'तस्य व्रतम्, नैक्षेतोद्यन्तमादित्यम्' इत्यादि व्रत-विधायक वाक्यों से अन्यत्र के लिए यह नियम है। वहाँ अभाव मात्र 'न' शब्दार्थ नहीं है। शका हुई कि पूर्ववर्णित 'आनर्थक्यमतदर्शानाम्' यह सूत्र का भाग फिर कैसे युक्त हो सकता है यदि अक्रियार्थक नशब्दार्थ का शास्त्र उपदेश करता है, और उन्मी के समान मोक्ष के लिये ब्रह्म का उपदेश भी होता है, और उपदेशजन्य ज्ञान से यदि अनर्थ की निवृत्ति भी होती है, इत्यादि। तब कहा जाता है कि इन उक्त हेतुओं से ही ऐसा समझना चाहिये कि किसी भी पुरुषार्थ में साक्षात् अनुपयोगी उपाख्यानादि रूप भूतार्थविषयक अनर्थकता का कथन क्रियासम्बन्ध के बिना किया गया है।

यदप्युक्तं—'कर्तव्यविध्यनुप्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुच्यमानमनर्थकं स्यात् 'सप्तद्वीपा वसुमती' इत्यादिवत्'इति, तत्परिहृतम्, रज्जुरियं नायं सर्प इति वस्तुमात्रकथनेऽपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्। ननु श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं संसारित्वदर्शान्नात्र रज्जुस्वरूपकथनवदर्थवत्त्वमित्युक्तम्। अत्रोच्यते—नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वं शक्यं दर्शयितुं वेदप्रमाणजनितब्रह्मात्मभावविरोधान्। न हि शरीराद्यात्माभिमानिनो दुःखभयादिमत्त्वं दृष्टमिति तस्यैव वेदप्रमाणजनितब्रह्मात्मावगमे तदभिमाननिवृत्तौ तदेव मिथ्याज्ञाननिमित्तं दुःखभयादिमत्त्वं भवतीति शक्यं कल्पयितुम्।

जो यह कहा गया है कि कर्तव्य विधि के साथ सम्बन्ध के बिना कथित वस्तुमात्र अनर्थक होगा जैसे कि 'सात द्वीपवाली भूमि है' इत्यादि कथन अनर्थक होता है। इसका परिहार भी पहले किया गया है कि रस्सी में सर्प का भ्रमयुक्त मनुष्य को कहा जाता है कि 'यह रस्सी है, सर्प नहीं है' तो वहाँ वस्तुमात्र के कथन से भय की निवृत्ति रूप प्रयोजन देखा गया है, वैसे ही ब्रह्म का कथन से श्रवणकर्ता में संसार भय का

अभाव देखा गया है, पूर्वपक्षी कहता है कि ब्रह्म का जिसने श्रवण किया है उसको भी पहले के समान संसारी दुःखभयादियुक्त देखने से रज्जु ( रस्ती ) स्वरूप के कथन के समान ब्रह्म का कथन सार्थक नहीं है। यहाँ सिद्धान्त की बात कही जाती है कि श्रवणमात्र से किसी परोक्ष ब्रह्मज्ञ मे पूर्व के समान ससारित्व रह सकता है, परन्तु वेदरूप प्रमाणजन्य साक्षात् ब्रह्मात्मभाव से ससारित्व को विरोध होने के कारण साक्षात् अनुभूत ब्रह्मात्म भाव पुरुष को पूर्व के समान संसारित्व दर्शाने योग्य नहीं है। क्योंकि जिस शरीरादि के अभिमानो को पहले दुःखभयादिवाला देखा गया है, उसीको वेदप्रमाणजन्य ब्रह्मस्वरूपता के अपरोक्षानुभव होने पर और देहादि के अभिमानो की निवृत्ति होने पर, फिर पहले के ही मिथ्याज्ञाननिमित्तक दुःखभयादि-मत्त्व होता है ( ससारित्व रहता है ) ऐसी कल्पना करना शक्य ( योग्य ) नहीं है।

न हि धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो धनापहारनिमित्तं दुःखं दृष्टमिति तस्यैव प्रब्रजितस्य धनाभिमानरहितस्य तदेव धनापहारनिमित्तं दुःखं भवति । न च कुण्डलिनः कुण्डलित्वाभिमाननिमित्तं सुखं दृष्टमिति तस्यैव कुण्डल-वियुक्तस्य कुण्डलित्वाभिमानरहितस्य तदेव कुण्डलित्वाभिमाननिमित्तं सुखं भवति । तदुक्तं श्रुत्या—अशरीरं वावसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' ( छान्दो० ८।१२।१ ) इति । शरीरे पतितेऽशरीरत्वं स्यात् न जीवत इति चेन्न । सशरीर-त्वस्य मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात् । न ह्यात्मनः शरीरात्माभिमानलक्षण मिथ्याज्ञानं मुक्त्वाऽन्यतः सशरीरत्वं शक्य कल्पयितुम् । नित्यमशरीरत्वम-कर्मनिमित्तत्वादित्यवोचाम ।

क्योंकि धनाभिमानो धनी गृहस्थ को चोरादि द्वारा धन के अपहरण निमित्तक दुःख देखा गया है, इससे वही यदि धनाभिमान रहित त्यागी सन्यासी हो गया तो वही धनापहरण निमित्तक दुःख उसको होता है, ऐसी कल्पना नहीं होती है, न उसे दुःख होता है, इसी प्रकार कुण्डल वाले को मैं कुण्डलवाला हूँ इस अभिमान निमित्तक सुख देखा गया है, इससे वही यदि कुण्डलाभिमान रहित कुण्डल के त्यागी हो गया तो फिर उसकी वही कुण्डलाभिमाननिमित्तक सुख होता है ऐसी कल्पना नहीं होती है, न उसको कुण्डल निमित्तक सुख होता है। इन दृष्टान्तो के अनुसार देहाभिमानादि रहित ज्ञानी मे सासारिक सुख-दुःख का अभाव श्रुति से भी कहा गया है कि शरीर रहित सत्यात्मा को सुख-दुःख स्पर्श नहीं करते है, वह असग है। यदि कोई कहे कि शरीर के पात ( नाश ) होने पर, अशरीरत्व होगा ज्ञानी का आत्मा सुख-दुःख रहित होगा। जीवित को अशरीरत्व नहीं हो सकता है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा मे शरीर सहितत्व ( शरीरित्व ) मिथ्याज्ञान ( अध्यास ) निमित्तक है, ज्ञान से मिथ्या-ज्ञान की निवृत्ति होते ही आत्मा के नित्य अशरीरित्व अभिव्यक्त होता है। क्योंकि शरीराऽभिमानरूप मिथ्याज्ञान के बिना आत्मा की सशरीरता अन्य किसी कारण से कल्पना के योग्य नहीं है। अर्थात् ज्ञान से नाश के अयोग्य सत्य शरीरित्व नहीं है कि

जिसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो, इसीसे अशरीरत्व नित्यात्मस्वभाव ही है, क्योंकि वह कर्मजन्य नहीं है यह पहले कहा जा चुका है कि आत्मा-नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला है इत्यादि ।

तत्कृतधर्माधर्मनिमित्त सशरीरत्वमिति चेन्न । शरीरसम्बन्धस्यासिद्धत्वाद्धर्माधर्मयोरात्मकृतत्वासिद्धेः । शरीरसम्बन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्कृतत्वस्य चेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गादन्धपरम्परैषानादित्वकल्पना । क्रियासमवायाभावाच्चात्मनः कर्तृत्वानुपपत्तेः । संनिधानमात्रेण राजप्रभृतीनां दृष्टं कर्तृत्वमिति चेन्न । धनदानाद्युपार्जितभृत्यसम्बन्धित्वात्तेषां कर्तृत्वोपपत्तेः । न त्वात्मनो धनदानादिवच्छरीरादिभिः स्वस्वामिसम्बन्धनिमित्तं किञ्चच्छक्यं कल्पयितुम् । मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्षः सम्बन्धहेतुः । एतेन यजमानत्वमात्मनो व्याख्यातम् ।

उक्तार्थ मे शका होती है कि अभिमानमात्र निमित्तक आत्मा मे सशरीरत्व नहीं है, किन्तु उस आत्मा से कृत जो पूर्व जन्म के धर्माधर्म तन्निमित्तक सशरीरत्व और अभिमान भी है । इससे धर्माधर्म की निवृत्ति होने पर ही मुक्ति हो सकती है, जीते जी नहीं । उत्तर है कि आत्मा को श्रुति असगनिर्गुणादि कहती है, इससे उसको शरीर के साथ सम्बन्ध असिद्ध है, इसीसे शरीर द्वारा कृत धर्माधर्म को आत्मजन्यत्व की असिद्धि है । इसलिए आत्मा के धर्माधर्म ही नहीं हैं कि जिसने आत्मा शरीरी हो, अन्य के धर्माधर्म से सशरीरत्व मानने पर अतिप्रसक्ति होगी । और यदि कहे कि बीजाकुरन्याय से सशरीरत्व और धर्माधर्म मे आत्मकृतत्व अनादि है, तो भी परस्परश्रयत्व है और यह अनादि की कल्पना अन्ध परम्परा रूप ( अप्रत्यक्ष ) है । अर्थात् एक जन्म के धर्माधर्म से शरीर सम्बन्ध और सम्बन्ध से धर्माधर्म मानने पर इतरेतराश्रय ( अन्योन्याश्रय ) होगा कि जिससे एक भी नहीं सिद्ध हो सकेगा, और अनादि मानने पर अदृष्ट की कल्पना होगी और केवल आत्मा मे क्रिया सम्बन्ध के अभाव से आत्मा को कर्तृत्व बन नहीं सकता है । शंका होती है कि क्रिया सम्बन्ध के बिना भी राजा आदि की समीपता मात्र से कर्मकर्तृता देखी गई है । इसी प्रकार आत्मा भी कर्ता हो सकता है । उत्तर है कि वहाँ धन के दानादि द्वारा उपार्जित भृत्य के साथ राजा आदि को सम्बन्धी होने से उन्हें भृत्य द्वारा कर्तृत्व बनता है । धन दानादि के समान आत्मा को शरीरादि के साथ स्वस्वामिभाव रूप सम्बन्ध के हेतु कुछ भी कल्पना के योग्य नहीं है एवं मिथ्या अभिमान तो प्रत्यक्ष हेतु है ही और भ्रमजन्य मिथ्या अभिमान से ही आत्मा मे मिथ्या यजमानत्व भी व्याख्यात ( कथित ) हो गया ।

अत्राहुः—देहादिव्यतिरिक्तस्यात्मन आत्मीये देहादवभिमानो गौणो न मिथ्येति चेन्न । प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः । यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां<sup>१</sup> सिंहशब्दप्रत्यय-

१. दूसरे मे शब्दाप्रत्यय होना अन्वय है, अन्यत्र नहीं होना व्यतिरेक है ।

भाङ्गमुख्योऽन्यः प्रसिद्धः, ततश्चान्यः पुरुषः प्रायिकैः क्रौर्यशौर्यादिभिः सिंहगुणैः सम्पन्नः सिद्धः, तस्य पुरुषे सिंहशब्दप्रत्ययौ गौणौ भवतो नाप्रसिद्धवस्तुभेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दप्रत्ययो भ्रान्तिनिमित्तावेव भवतो न गौणौ । यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयमित्यगृह्यमाणविशेषे पुरुषशब्दप्रत्ययौ स्थाणुविषयौ, यथा वा शुक्तिकायामकस्माद्रजतमिति<sup>१</sup> निश्चितौ शब्दप्रत्ययौ, तद्वद्देहादिसङ्घातेऽहमिति निरुपचारेण शब्दप्रत्ययावात्मानात्माविवेकेनोत्पद्यमानौ कथं गौणौ शक्यौ वदितुम् ।

यहाँ कोई मीमासक कहते हैं कि देहादि से भिन्न आत्मा को जो देहादि अपने सम्बन्धी वस्तु में आत्मता का अभिमान होता है, वह गौण (सदृश-गुणनिमित्तक) होता है। जैसे राजा के मन्त्री में गुणनिमित्तक राजा बुद्धि आदि होते हैं, इससे देहादि मिथ्या भी नहीं हैं। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ व्यवहार (शब्द प्रयोग) करने वाले को गौणत्व और मुख्यत्व की प्रसिद्धि (ज्ञान) से गौण और मुख्य वस्तु के भेद का ज्ञान प्रथम रहता है, वहाँ यदि अन्य में अन्य बुद्धि व्यवहार करता है, तो वह गौण होता है। इससे प्रसिद्ध (ज्ञान) वस्तु भेद वाला ही को गौणत्व-मुख्यत्व का ज्ञान होता है। जैसे कि जिसको वस्तु का भेद ज्ञात है कि केसर (छटा) आदि वाला आकृतिविशेष अन्वय और व्यतिरेक से सिंह शब्द और ज्ञान के भागी मुख्य वस्तु पुरुष से अन्य लोक में प्रसिद्ध है, और उससे अन्य क्रूरता-शूरता आदि सिंह के प्रायिक (बहुत) गुणों से युक्त पुरुष भी ज्ञात है। उस भेद ज्ञान वाला को जो बली पुरुष में सिंह शब्द का प्रयोग और ज्ञान होता है वह गौण होता है। वस्तु के भेद ज्ञानरहित के शब्द और ज्ञान गौण नहीं होते हैं। जैसे कि मन्द (अल्प) अन्धकार में, 'यह स्थाणु (ठूठ) है' इस प्रकार विशेष ज्ञान नहीं होने पर स्थाणु में पुरुष शब्द का प्रयोग और ज्ञान होते हैं। जैसे सीपी में अकस्मात् रजत इस प्रकार के शब्द का निश्चित प्रयोग और ज्ञान होते हैं, उसी प्रकार देहादि संघात में निरुपचार से (गुण ज्ञान के बिना) जो अह शब्द का प्रयोग और ज्ञान आत्मानात्मा के अविवेक से उत्पन्न होते हैं वह गौण कैसे कहे जा सकते हैं।

आत्मानात्मविवेकिनामपि पण्डितानामजाविपालानामिवाविविक्तौ शब्दप्रत्ययौ भवतः । तस्माद्देहादिव्यतिरिक्तात्मास्तित्ववादिनां देहादावहंप्रत्ययो मिथ्यैव न गौणः । तस्मान्मिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वात् सशरीरत्वस्य सिद्धं जीवतोऽपि विदुषोऽशरीरत्वम् । तथाच ब्रह्मविद्विषया श्रुतिः-‘तद्यथाहिनिल्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शेते, अथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव’ (बृह० १।४।७) इति । ‘सचक्षुरचक्षुरिव’ सकर्णोऽकर्ण इव

१ दृष्टकारण के बिना अदृष्टविशेष से ।

२ वस्तुतोऽचक्षुरपि बाधितवृत्त्या सचक्षुरिव, इत्यादि टीकाकार योजना करते

सवागवागिव समना अमना इव सप्राणोऽप्राण इव' इति च । स्मृतिरपि च—  
'स्थितप्रज्ञस्य का भाषा' ( भ० गी० २।१४ ) इत्याद्या स्थितप्रज्ञलक्षणान्या-  
चक्षाणा विदुषः सर्वप्रवृत्त्यसम्बन्धं दर्शयति ।

आत्मा साक्षात्कार से रहित आत्मानात्म के विवेकी श्रवणादि मे कुशल परिडतो को भी व्यवहार काल मे बकरा भेष के पालक गडेरिया के समान विवेक रहित शब्द और ज्ञान शरीरादि मे होते हैं, यही पहले कहा गया है 'पञ्चादिभ्यश्च विशेषात्' । इत्यादि सूत्र से । इससे देहादि से भिन्न आत्मवादी को देहादि मे अहं ( मैं ) ऐसा ज्ञान मिथ्या ( भ्रम ) रूप ही होता है, गौण नहीं होता और देहात्मवादी को तो उसकी दृष्टि से गौण भ्रम दोनो से भिन्न पदार्थ ही होता है । उक्त रीति से मिथ्या ज्ञान निमित्तक सशरीरत्व के होने से मिथ्या ज्ञान रहित विद्वान् को जीतेजी भी अशरीरत्व सिद्ध है । इस प्रकार के विद्वान् को वर्णन करने वाली श्रुति है कि जीतेजी ज्ञानी ब्रह्म होता है । उसमे दृष्टान्त है कि—साँप का जीर्णत्वक् साँप के बिल आदि मे सर्प से त्यक्त और मृत देह के समान सर्प के अभिमान से रहित जैसे पड़ा रहता है, उसी प्रकार इस विद्वान् का शरीर अभिमानादि से रहित रहता है और वह ज्ञानी अशरीर अमृत प्राणो का प्राण ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, तेज ( विज्ञान ज्योति ) स्वरूप हो जाता है और सचक्षुरहते भी अभिमान रहित होने से अचक्षु तुल्य होता है । इसी प्रकार सकर्ण होते अकर्ण, सवाक् होते अवाक्, मनसहित होते मनरहित और सप्राण होते अप्राण तुल्य होता है । स्मृति भी स्थितप्रज्ञ ( स्थिर बुद्धि वाला ) का 'क्या भाषा ( लक्षण ) है' इत्यादि प्रश्नपूर्वक स्थितप्रज्ञ ( जीवन्मुक्त ) ज्ञानी के लक्षणो को कहती हुई विद्वान् को शरीरादि रहते भी अभिमानादि के अभाव से सब प्रवृत्ति का असम्बन्ध दर्शाती है ।

तस्मान्नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वम् । यस्य तु यथापूर्वं संसा-  
रित्वं नासावगतब्रह्मात्मभाव इत्यनवद्यम् । यत्पुनरुक्तं श्रवणात्पराचनियोर्मन-  
ननिदिध्यासनयोर्दर्शनाद्विशेषत्वं ब्रह्मणो न स्वरूपपर्यवसायित्वमिति, न;  
श्रवणवत् अवगत्यर्थत्वान्मनननिदिध्यासनयोः । यदि ह्यवगतं ब्रह्मान्यत्र विनि-  
युज्येत भवेत्तदा विशेषत्वम्, न तु तदस्ति, मनननिदिध्यासनयोरपि श्रव-  
णवदवगत्यर्थत्वात्, तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः  
सम्भवतीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकं वेदान्तवाक्यसमन्वयादिति  
सिद्धम् । एवं च सति 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति तद्विषयः पृथक्शास्त्रारम्भ  
उपपद्यते । प्रतिपत्तिविधिपरत्वे हि 'अथातो धर्मजिज्ञासे'त्येवारब्धत्वान्न पृथ-  
क्शास्त्रमारभ्येत ।

पूर्वोक्त श्रुतिस्मृति आदि से सिद्ध हुआ कि ब्रह्मात्मरूपता के अपरोक्ष अनुभवी को  
हैं कि ज्ञानी वस्तुतः आँख कान वागादिरहित हो जाता है, परन्तु सचक्षु आदि के  
सदृश भासता है ।

अज्ञदशा के समान संसारित्व नहीं रहता है, प्रारब्धवश बाधितानुवृत्ति भले ही रहती है, और श्रवणादि करने पर भी जिसको पूर्व के समान देहादि के अभिमानित्वादिरूप संसारित्व रहता है, वह ब्रह्मात्मभाव की अपरोक्षता से रहित रहता है, श्रवणादि करने पर भी किसी प्रतिबन्धक दोष से आत्मसाक्षात्कार नहीं करने पाता है, इससे मोक्ष-लाभ के लिये ही दोषरहित वेदान्त शास्त्र है। जो पहले कहा था कि श्रवण के बाद मनन ध्यान के विधि देखने से ब्रह्म को विधि के अङ्गत्व है, स्वरूपपर्यवसायित्व ( स्वतन्त्र वेदान्तवेद्यत्व ) नहीं है। वह कहना ठीक नहीं, क्योंकि श्रवण के समान मनन निदिध्यासन को भी ज्ञान हेतुत्व है, इससे ज्ञान के लिये उनका विधान और व्यवहार किया जाता है। यदि अवगत ( ज्ञात ) ब्रह्म किसी कर्मोपासनादि में विनियुक्त होता ( अंगरूप से विधि द्वारा सम्बन्ध वाला होता ) तो विधि शेषत्व ब्रह्म को होता, परन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मनन ध्यान को भी श्रवण के तुल्य ही ज्ञानार्थकता है। उससे उपासना विधि के विषय रूप से ब्रह्म को शास्त्ररूप प्रमाण से ज्ञेयता नहीं सम्भव है, इस प्रकार स्वतन्त्र ही ब्रह्म वेदान्त वाक्यों के समन्वय से शास्त्ररूप प्रमाण का विषय है यह बात सिद्ध हुई, ब्रह्म के इस प्रकार स्वतन्त्र सिद्ध होने ही से 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस सूत्र द्वारा ब्रह्मविषयक पृथक् शास्त्र का आरम्भ सिद्ध होता है। प्रतिपत्तिविधिपरक यदि ब्रह्म बोधक वाक्य सब होते तो ( अथातो धर्मजिज्ञासा ) यह पहले से ही आरब्ध था, उपासना भी मानस धर्म ही विशेष है, पृथक् शास्त्र का आरम्भ नहीं किया जाता।

आरभ्यमाणं चैवमारभ्येत—'अथातः परिशिष्टधर्मजिज्ञासेति', 'अथातः ऋत्वर्थपुरुषार्थयोर्जिज्ञासा' ( जै० ४।१।१ ) इतिवत्, ब्रह्मात्मैक्यावगतिस्त्वप्रति-ज्ञातेति तदर्थो युक्तः शास्त्रारम्भः—'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति। तस्माद्दहं ब्रह्मास्मीत्येतदवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि चेताराणि प्रमाणानि। न ह्यहेयानुपादेयाद्वैतात्मावगतौ निर्विषयाण्यप्रमातृकाणि च प्रमाणानि भवितु-मर्हन्तीति।

यदि कथंचित् मानस धर्मविशेष का विचार के लिये पृथक् शास्त्र का आरम्भ भी किया जाता तो ( अथातः परिशिष्ट धर्मजिज्ञासा ) ऐसा किया जाता। अर्थात् बाह्य साधन साध्य धर्म विचार के बाद बाह्य साधन जन्य धर्म शुद्धान्त-करण होने से अवशिष्ट मानसधर्म के अधिकारियों के लिये मानस धर्म का विचार किया जाता है, इस प्रकार आरम्भ किया जाता। जैसे कि ( अथातः ऋत्वर्थ ) इत्यादि सूत्र का आरम्भ हुआ है। अर्थात् मीमांसा के तृतीय अध्याय में शेष शेषी के निर्णय के बाद कौन यज्ञ का अङ्ग है, एवं कौन यज्ञाङ्गता के बिना पुरुषार्थक है उस विचार का जैसे विशेष रूप से आरम्भ किया गया है, उसी प्रकार आरम्भ हो सकता था, किन्तु वैसा नहीं है और सिद्धान्त में तो ब्रह्मात्मा की एकता का ज्ञान पूर्व मीमांसा में अप्रतिज्ञात है, अर्थात् उसके विचार की



प्रतिज्ञा तथा विचारादि नहीं हुए हैं, इससे उसके लिए ( अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ) इस प्रकार पृथक् आरम्भ होना युक्त ( उचित ) है। उक्त हेतुओं से और आत्मज्ञान बाह्य धर्म के विरोधी भी हैं उससे 'मैं ब्रह्म हूँ' इस अपरोक्षानुभव से पूर्व काल तक ही सब विधि और सब भिन्न प्रमाण सत्य भासते हैं। क्योंकि अहेय ( अनुपादेय ) अत एव अद्वैत सत्य एक आत्मा के अपरोक्षानुभव होने पर, सत्यविषयरहित सत्यप्रमातारहित प्रमाण भी फिर सत्य होने के योग्य नहीं रह सकते हैं।

अपि चाहुः—

गौणमिथ्यात्मनोऽसत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात् ।

सद्ब्रह्मात्माहमित्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत् ॥

अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्प्राक्प्रमातृत्वमात्मनः ।

अन्विष्टः स्यात्प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जितः ॥

देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कल्पितः ।

लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात् ॥ इति ॥ ४ ॥

उक्त विषय को ब्रह्मवेत्ता लोग भी इस प्रकार कहते हैं कि, सत्—सर्वथा बाध नाश विकारादि शून्य साक्षिस्वरूप सर्वात्मा ब्रह्म ( सच्चिदानन्दस्वरूपत्व ) 'मैं हूँ' इस प्रकार शास्त्र गुरु आदि द्वारा बोध अपरोक्षानुभव होने पर असङ्ग स्थिति होने से पुत्र और देहादि का बाध होता है। इनमें मिथ्यात्व का निश्चय और इनसे सम्बन्धाभाव का निश्चय होता है, इससे गौणात्मा ( पुत्रादि ) और मिथ्यात्मा ( देह ) की उक्त बाध से असत्ता होने पर देह से पुत्रादि के लिये कार्य कैसे हो सकता है अर्थात् ज्ञानी के देहाभिमानादि जन्य ममतादिमूलक कर्म निवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि उक्त कर्म कर्ता प्रमाता ( व्यावहारिक जीव ) है, और अन्वेष्टव्य ( ज्ञातव्य ) आत्मा के ज्ञान से पूर्वकाल में सत्यात्म को ही वह जीव प्रमाता समझता है, अर्थात् अपने प्रमातृत्व को आत्मा में कल्पना करता है, इससे अन्विष्ट ( प्रत्यक्ष ) हुआ वह प्रमाता ही पापदोषादि से रहित शुद्धात्मा रूप भासने लगता है, जीवता भी बाधित हो जाती है। फिर किस कर्म में प्रवृत्त हो और किसके लिये हो। ऐसा होने पर भी जैसे देह में आत्मबुद्धि कल्पित मिथ्या होती हुई व्यवहार के लिये प्रमाण मानी जाती है, वैसे ही आत्मसाक्षात् पर्यन्त यह लौकिक-प्रमाण प्रत्यक्षादि भी माने जाते हैं, और सब कर्तव्य भी तभी तक रहते हैं।

( इति चतुःसूत्री समाप्ता )



## ईक्षित्यधिकरण ॥ ५ ॥

तदैक्षतेतिवाक्येन प्रधानं ब्रह्म वोच्यते ।

ज्ञानक्रियाशक्तिमत्त्वात् प्रधानं सर्वकारणम् ॥ १ ॥

ईक्षणाच्चेतनं ब्रह्म क्रियाज्ञाने तु मायया ।

आत्मशब्दात्मतादात्म्ये प्रधानस्य विरोधिनी ॥ २ ॥

श्रुतिगत तदैक्षत इस वाक्य से प्रधान कहा जाता है या ब्रह्म, ऐसी शका होने पर पूर्वपक्ष है कि त्रिगुण प्रधान मे ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों हैं इससे ईक्षता पूर्वक सर्व का कारण प्रधान है, अतः प्रधान ही तदैक्षत इस वाक्य से कहा जाता है । उत्तर है कि मुख्य ईक्षितृत्व को सिद्ध होते गौरा मानना उचित नहीं प्रतीत होता, और जड प्रधान मे मुख्य ईक्षणा हो नहीं सकता, अतः ईक्षणा के श्रवण से मुख्य चेतन ब्रह्म ही जगत् का कारण कहा गया है । उसमें भी माया से ज्ञान और क्रिया सिद्ध होती हैं । उस ईक्षिता मे 'आत्म' शब्द का प्रयोग किया गया है तथा जीवात्मा के साथ अभेद का प्रतिपादन किया गया है इसलिये दोनो बाते प्रधान के विरोधी है । जड़ प्रकृति चेतन जीव का आत्मा नहीं हो सकती है न जीव से अभिन्न हो सकती है, इससे सर्वात्मा ब्रह्म उक्त वाक्य से कहा गया है ।

एवं तावद्वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगतिप्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानामन्तरेणापि कार्यानुप्रवेश ब्रह्मणि पर्यवसानमुक्तम् । ब्रह्म च सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगद्दुत्पत्तिस्थितिनाशकारणमित्युक्तम् । साङ्ख्याद्यस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेवेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तरान्यनुभिमानास्तत्परतयैव वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति, सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेष्वनुमानेनैव कार्येण कारणं लिलक्षयिषन्ति ।

प्रधानपुरुषसंयोगा नित्यानुमेया इति साङ्ख्या मन्यन्ते । काणादास्त्वेतेभ्य एव वाक्येभ्य ईश्वरं निमित्तकारणमनुभिमीते । अणुश्च समवायिकारणम् । एवमन्येऽपि तार्किका वाक्याभासयुक्त्याभासावष्टम्भाः पूर्वपक्षवादिन इहोत्तिष्ठन्ते ।

सुखपूर्वक बोध के लिये और आक्षेपरूप अवान्तर सङ्गति दर्शाने के लिये भाष्यकार पूर्वकथित सारार्थ का अनुवादपूर्वक उत्तरभाष्य का आरम्भ करते हैं कि पहले उक्त रीति से कार्य के साथ सबन्ध के बिना भी ब्रह्मसाक्षात्कार प्रयोजन वाले ब्रह्मात्मा मे ही तात्पर्य द्वारा समन्वित वेदान्त वाक्यो का ब्रह्म मे ही पर्यवसान ( बोधकरूप से स्थिति ) कहा गया है । वह ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिवाला, जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कारण है, यह भी कहा गया है । यहाँ साङ्ख्यादि शास्त्रवादी सिद्धवस्तु को

वेदान्त से अन्य प्रमाणों द्वारा ही ज्ञेय मानते हुए, ब्रह्म से भिन्न प्रधानादिरूप जगत् के कारणों का अनुमान करते हुए, प्रधानादि परत्वेन ( प्रधानादि बोधकत्वेन ) वेदान्त वाक्यों की योजना ( सम्बन्ध ) करते हैं। तथा वे लोग मानते हैं कि सृष्टिविषयक सर्ववेदान्त वाक्यों में कार्यरूप अनुमान ( हेतुलिङ्ग ) से ही कारणरूप प्रकृति आदि दिखलाने की इच्छा का विषय है, जैसे धूम से अग्नि दिखलाई जाती है। अभिप्राय यह है कि मानान्तर के अयोग्य कूटस्थ ब्रह्म में ब्रह्मपद का शक्तिग्रह नहीं हो सकता है, न शास्त्र से उसका शक्ति के ज्ञान बिना बोध हो सकता है, न लोक में कहीं जड़ का चेतन उपादान कारण देखा गया है जिससे जड़ जगत् का निमित्तोपादान कारण ब्रह्म का अनुमान हो सके इससे जड़ प्रकृति ही जगत् का उपादान कारण है, परन्तु केवल जड़ में प्रवृत्ति का असम्भव है इससे अविवेक मूलक प्रधान और पुरुष के सयोग को भी नित्यानुमेय—सदा अनुमान से जानने योग्य—मानते हैं। ( द्रष्टृदृश्ययोः सयोगो हेयहेतुः । तस्य हेतुरविद्या । योगद-सा-१७ + २४ ) द्रष्टा और दृश्य का सयोग ससार दुःख का कारण है। और सयोग का हेतु अविद्या—अविवेक—है। ( न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते । कार्यात्कारणानुमान तत्साहित्यात् । साख्यद० अ० १।१९ + १३५ ) नित्यशुद्धादि स्वभाववाले आत्मा को प्रकृति के साथ सम्बन्ध किये बिना संसार से सम्बन्ध नहीं हो सकता। इससे प्रकृति के साथ सयोग मूलक अविवेक जन्य संसार है, वह विवेक ज्ञान से निवृत्त होता है। एव कार्यरूप विशेषादि पदार्थों से अविशेषादि कारणों का अनुमान करना चाहिये, क्योंकि कार्य के साथ कारण को रहना देखा गया है। कारणाद—वैशेषिक—शास्त्रवादी तो इन वेदान्त गत सृष्टिवोधक वाक्यों से ही निमित्त तटस्थकारणरूप ईश्वर का अनुमान करते हैं, परमाणुओं को समवायी ( कार्याधार ) कारण अनुमान से मानते हैं। इसी प्रकार अन्य भी तर्क से प्रवृत्त होनेवाले श्रुतिगत वाक्याभास ( अर्थवादादि वाक्य ) एवं असत् तर्क का अवलम्बन कर इस अद्वैत सिद्धान्त में पूर्वपक्षवादी होकर उपस्थित होते हैं।

**तत्र पदवाक्यप्रमाणज्ञेनाचार्येण वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगतिपरत्वप्रदर्शनाय वाक्याभासयुक्त्याभासप्रतिपत्तयः पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते ।**

उक्त रीति से वादियों के विवाद के उपस्थित होने पर, वेदान्त वाक्यों का ब्रह्म साक्षात्कार में तात्पर्य दिखलाने के लिये, पद ( व्याकरण ) वाक्य ( मीमांसा ) और प्रमाण ( न्याय ) के पूर्ण ज्ञाता आचार्य से वे वाक्याभास और युक्त्याभास में प्रतिपत्ति ( निश्चय ) वाले को पूर्वपक्षी बनाकर निराकृत किये जाते हैं, तथा उनके वाक्याभास असद्युक्ति विषयक जो प्रतिपत्ति ( विरुद्ध समझ ) है, उसको पूर्वपक्ष बनाकर उसका खंडन किया जाता है। महत्प्रमाण वाले स्वापेक्षा अल्पपरिमाण से ही उत्पन्न होते हैं, जैसे तन्तुओं से महान् पट होता है, परमाणु से जगत् होता है, विभुब्रह्म से नहीं। सूक्ष्म जड़ प्रकृति से जगत् हो सकता है, चेतन ब्रह्म से नहीं। महाप्रलय में दीप

निर्वाण तुल्य जगत् शून्य हो जाता है, इससे शून्य ही सत्य है, फिर उसीसे जगत् होता है सद्ब्रह्म से नहीं इत्यादि मतभेद युक्त्याभास है। एव ( असद्वा इदमत्र आसीत् ) इत्यादि वाक्य अभासमात्र है।

तत्र साङ्ख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगत्. कारणमिति मन्यमाना आहुः— यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेर्ब्रह्मणो जगत्कारणत्व दर्शयन्तीत्यवोचस्तानि प्रधानकारणपक्षेऽपि योजयितुं शक्यन्ते। सर्वशक्तित्वं तावत्प्रधानस्यापि स्वविकारविषयमुपपद्यते। एवं सर्वज्ञत्वमप्युपपद्यते। कथम्? यत्तु ज्ञान मन्यसे स सत्त्वधर्मः 'सत्त्वात् संजायते ज्ञानम्' ( गी० १४।१७ ) इति स्मृतेः। तेन च सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः। सत्त्वस्य हि निरतिशयोत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम्। न केवलस्याकार्यकारणस्य पुरुषस्योपलब्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वं किञ्चिज्ज्ञत्वं वा कल्पयितुं शक्यम्।

उन पूर्वोक्त वादियो मे सत्त्व रज तम तीन गुणयुक्त अचेतन प्रधान ( प्रकृति ) को कारण माननेवाले सांख्यवादी इस प्रकार कहते हैं कि जो तुमने कहा है कि वेदान्त के वाक्य सब सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला ब्रह्म को जगत् का कारणत्व प्रदर्शित करते हैं। वह सब वाक्य प्रधान कारणपक्ष मे ही जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि प्रथम प्रधान को ही अपने कार्यविषयक सर्वशक्तित्व युक्त हो सकता है। इसी प्रकार सर्वज्ञत्व भी वह बन सकता है। कहो कि कैसे तो सुनो, जिसको ज्ञान समझते हो, वह सत्त्वगुण का धर्म है। गीता मे लिखा है कि सत्त्वगुण से ज्ञान होता है। उसी सत्त्वगुण के धर्म ज्ञान से कार्यकारण ( देहेन्द्रिय ) वाले सर्वज्ञयोगी पुरुष ससार मे प्रसिद्ध हुए और होते हैं। सत्त्वगुण के निरतिशय ( अत्यन्त ) उत्कर्ष ( वृद्धि ) होने पर रजस्तमो गुण के अभिभूत होने से सर्वज्ञत्व प्रसिद्ध होता है। उसकी उत्कर्षता नहीं रहने से ही सब प्राणी में सत्त्व गुण रहते हुए भी सब लोग सर्वज्ञ नहीं होते हैं। इस प्रकार सत्त्व निमित्तक कार्यकरणवान् को सर्वज्ञत्व सिद्ध होने पर सत्त्व की न्यूनता द्वारा अल्पज्ञत्व सिद्ध होने से केवल ( एक ) कार्यकरण रहित उपलब्धि मात्र ( नित्यचिन्मात्र ) पुरुष ( ब्रह्म ) सर्वज्ञत्व वा अल्पज्ञत्व की कल्पना करने योग्य नहीं है। ससार मे कोई कार्य एक होकर ज्ञानादि को नहीं उत्पन्न करता है, किन्तु अनेक प्रमाण प्रमेयादि युक्त होकर कार्य को उत्पन्न करता है। वहाँ ब्रह्म केवल है, और प्रकृति त्रिगुण है। इसमे प्रकृति जगत् का कारण है ब्रह्म नहीं यह भाव है।

त्रिगुणत्वान्तु प्रधानस्य सर्वज्ञानकारणभूतं सत्त्वं प्रधानावस्थायामपि विद्यत इति प्रधानस्याचेतनस्यैव सतः सर्वज्ञत्वमुपचर्यते। वेदान्तवाक्येष्ववश्यं च त्वयापि सर्वज्ञं ब्रह्माभ्युपगच्छता सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेनैव सर्वज्ञत्वमुपगन्तव्यम्। नहि सर्वविषयं ज्ञानं कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते। तथाहि—ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्र्यं ब्रह्मणो हीयते। अथानित्यं तदिति ज्ञानक्रियाया उपरमेतापि ब्रह्म, तदा सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेनैव सर्वज्ञत्वमापतति। अपि च प्रागुत्पत्तेः सर्व-

कारकशून्यं ब्रह्मेष्टयते त्वया । न च ज्ञानसाधनानां शरीरेन्द्रियादीनामभावे  
ज्ञानोत्पत्तिः कस्यचिदुपपन्ना । अपि च प्रधानस्यानेकात्मकस्य परिणाम-  
संभवात्कारणत्वोपपत्तिर्मुदादिवत्, नासंहतस्यैकात्मकस्य ब्रह्मण इत्येवं प्राप्त  
इदं सूत्रमारभ्यते—

यदि कहा जाय कि गुणों की साम्यावस्था को सांख्य मत में प्रधान कहा जाता है, उस अवस्था में सत्त्व की उत्कर्षता के अभाव में सर्वज्ञता नहीं रह सकती, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान के त्रिगुणयुक्त होने से सब ज्ञान के कारणरूप सत्त्वगुण उस प्रधानावस्था में भी रहता है। इससे अचेतन होते हुए भी प्रधान को ही उपचार (गौणी वृत्ति) से सर्वज्ञ कहा जाता है। वेदान्त वाक्यों में सर्वज्ञ ब्रह्म को प्रतिपाद्य मानने वाले तुमको भी सर्व ज्ञान की शक्ति वाला होने से ही सर्वज्ञत्व अवश्य मानना होगा। क्योंकि ब्रह्म सदा सर्व विषयक ज्ञान करता हुआ ही नहीं रहता है। यही इस प्रकार समझना चाहिये कि यदि सर्व विषयक ब्रह्म का ज्ञान नित्य हो तो ज्ञानरूप क्रिया के प्रति ब्रह्म की स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी अर्थात् वह ज्ञान का कर्ता ज्ञाता नहीं रहेगा। यदि वह ज्ञान अनित्य है तो ब्रह्म कभी ज्ञान क्रिया से उपरत (रहित) भी हो सकता है, अर्थात् ज्ञान क्रिया से रहित भी रह सकता है, तो उस काल में सर्वज्ञान शक्तिवाला होने ही से सर्वज्ञत्व ब्रह्म में भी सिद्ध होता है। संसार की उत्पत्ति से पहले सर्व ज्ञानादि के कारणों से रहित ब्रह्म तुमसे माना जाता है, और ज्ञान के साधन शरीर इन्द्रियादि के अभाव रहते किसी को ज्ञान होना बन नहीं सकता है, इससे शरीरादि रहित ब्रह्म को सर्वज्ञादि होना असंभव है, और अनेकात्मक (त्रिगुण) प्रधान का तो मृदादि के समान परिणाम हो सकने से कारणत्व की सिद्धि होती है असहन (केवल एकात्मा) ब्रह्म का परिणाम के अभाव से उसे कारणत्व नहीं बन सकता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष होने पर यह सूत्र का आरम्भ होता है कि—

### ईक्षतेर्नाशब्दम् ॥ ५ ॥

सूत्र का संक्षिप्त अर्थ यह है कि (न विद्यते साख्यरीत्या स्वातन्त्र्येण प्रतिपादकः शब्द-  
श्रुतिर्यस्य तद् अशब्द प्रधानं न वेदान्तप्रतिपाद्य युक्त्यापि भविनुमर्हति, कुतः, ईक्षतेः ।  
साक्षादगौणोक्षितृत्वश्रवणादित्यादि) यद्यपि (आनीदवात् स्वधया तदेकम् । ऋ ८।७।१७।२  
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश्वा । श्वेत-५।१६ ) इत्यादि श्रुतियों से कहा गया है कि वायु रहित  
स्वधा (माया) सहित एक वह ब्रह्म सृष्टि से प्रथम था, वही प्रधान और क्षेत्रज्ञ (जीव)  
का स्वामी है, गुणों का प्रेरक है इत्यादि। तथापि साख्य की रीति से स्वतन्त्र रूप से  
प्रधान का प्रतिपादक श्रुति नहीं है, इसलिये प्रधान को 'अशब्द' कहा गया है। अतएव  
ईक्षय कर्तृत्व श्रुति वेदान्त से भी प्रतिपादन योग्य नहीं है (अत एव च ईक्षते श्रवणा-  
भिदात्मक ब्रह्म, अशब्दम्, श्रुत्यप्रतिपाद्यमित्यपि न वक्तुं युक्तम् किन्तु ब्रह्मैव वेदान्त-

प्रतिपाद्यमिति सर्वैवेदवादिभिर्मन्तव्यम् ) । इसी ईक्षण कर्तृत्व श्रुति से चिदात्मा ब्रह्म, अशब्द, श्रुति से प्रतिपादन के अयोग्य है यह बात कहने योग्य नहीं है, किन्तु सब वेदवादी को मानना चाहिये कि सच्चिदानन्द सर्वज्ञ सर्वशक्ति युक्त स्वतन्त्र ब्रह्म ही वेदान्त से प्रतिपादन के योग्य है ।

न साङ्ख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानं जगत्: कारणं शक्यं वेदान्तेष्वाश्रयितुम् । अशब्दं हि तत् । कथमशब्दत्वम् ? ईक्षते:—ईक्षित्वश्रवणात् कारणस्य । कथम् ? एवं हि श्रूयते—‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्’ ( छान्दो० ६।२।१ ) इत्युपक्रम्य ‘तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत, ( छान्दो० ६।२।३ ) इति । तत्रेदंशब्दवाच्यं नामरूपव्याकृतं जगत्प्रागुत्पत्तेः सदात्मनावधार्य तस्यैव प्रकृतस्य सच्छब्दवाच्यस्येक्षणपूर्वकं तेजः प्रभूतेः स्रष्टृत्वं दर्शयति । तथान्यत्र—‘आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् । नान्यकिञ्चन मिषत् । स ईक्षत लोकांश्च सृजा इति । स इमाल्लोकानसृजत’ ( ऐत० १।१।१ ) इतीक्षापूर्विकामेव सृष्टिमाचष्टे । क्वचिच्च षोडशकलं पुरुषं प्रस्तुत्याह—स ईक्षाचक्रे । स प्राणमसृजत’ ( प्रश्न० ६।३ ) इति ।

साख्य द्वारा स्वतन्त्र रूप से परिकल्पित ( अनुमित ) प्रधान, वेदान्त मे जगत् के कारण रूप से मानने योग्य नहीं है, अर्थात् वह वेदान्त का प्रतिपाद्य विषय नहीं है, क्योंकि वह प्रधान ‘अशब्द’ है । यदि कहा जाय कि प्रधान को अशब्दत्व कैसे है ? तो उत्तर है कि ‘ईक्षति’ क्रिया से अशब्दत्व है, क्योंकि जगत् कारण को ईक्षण ( दर्शन ) कर्तृत्व सुना गया है । कैसे सुना गया है ? ऐसी आकाक्षा हो तो सुनो—वेदान्त मे इस प्रकार पिता पुत्र का सवाद सुना जाता है कि ( अरुण नामक पिता श्वेतकेतु पुत्र से कहता है कि हे मौम्य यह सब जगत् सृष्टि से प्रथम सन्मात्र ही था एक ही था द्वैत रहित था, इस प्रकार उपदेश का उपक्रम ( आरम्भ ) करके, कहा कि वह सत् ईक्षण ( आलोचन विचार ) किया कि बहुत होऊँ, बहुतरूप से उत्पन्न होऊँ, फिर वह तेज को उत्पन्न किया इत्यादि । वहाँ ‘इद’ शब्द का अर्थ नामरूप से व्यक्त जगत् को उत्पत्ति से प्रथम सत् रूप ही से निश्चय करके फिर उसी प्रकृत ( प्रकरण प्राप्त ) सत् शब्दार्थ को ईक्षण पूर्वक तेज आदि के सृष्टिकर्ता श्रुति दर्शाती है । इसी प्रकार अन्यत्र भी ईक्षण पूर्वक ही सृष्टि कहती है कि एक आत्मा ही प्रथम था, अन्य कुछ भी मिषत् ( क्रियायुक्त प्राणी आदि ) नहीं था, वह आत्मा ईक्षण किया कि लोको की सृष्टि करूँ, और वह इन लोको को रचा इत्यादि । और कहीं षोडश प्राणादि कला ( अक्ष ) वाला पुरुष का प्रसंग निरूपण का आरम्भ करके श्रुति कहती है कि वह पुरुष विचार किया और वह प्राण को रचा ।

ईक्षतेरिति च धात्वर्थनिर्देशोऽभिप्रेतः, यज्जतेरिति च । न धातुनिर्देशः । तेन ‘यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्ब्रह्म नामरूपमग्रं च

जायते' ( मुण्ड० १।१६ ) इत्येवमादीन्यपि सर्वज्ञेश्वरकारणपराणि वाक्यान्यु-  
दाहर्तव्यानि । ननूक्तं सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञ प्रधानं भविष्यतीति, तन्नोप-  
पद्यते । नहि प्रधानावस्थायां गुणसाम्यात्सत्त्वधर्मो ज्ञान संभवति । ननूक्तं  
सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञं भविष्यतीति । तदपि नोपपद्यते । यदि गुणासाम्ये  
सति सत्त्वव्यपाश्रयां ज्ञानशक्तिमाश्रित्य सर्वज्ञ प्रधानमुच्येत काम रजस्तमो-  
व्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिबन्धकशक्तिमाश्रित्य किञ्चिज्ज्ञमुच्येत । अपि च नासा-  
क्षिका सत्त्ववृत्तिर्जानातिनाऽभिधीयते । न चाचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति ।  
तस्मादनुपपन्नं प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम् । योगिनां तु चेतनत्वात्सत्त्वोत्कर्षनिमित्तं  
सर्वज्ञत्वमुपपन्नमित्यनुदाहरणम् ।

यद्यपि ( इकस्तिपौ धातुनिर्देशे ) इस व्याकरण के अनुसार ईक्षति शब्द धातु  
के उच्चारणार्थ मे होना चाहिये तथापि यहाँ धातु के निर्देश अर्थ मे 'ईक्षते' यह सूत्राश  
नही है, किन्तु धात्वर्थ ( ईक्षण ) मे अभिप्रेत ( तात्पर्य वाला ) है । जैसे कि ( इतिकर्तव्य-  
ताविधेयजते पूर्ववत्त्वम् ७।४।१ ) इस जैमिनिसूत्र मे 'यजति' शब्द याग वाचक है ।  
उस ईक्षति के समान ही जो सर्वज्ञ सर्ववेत्ता है, जिसके ज्ञानमय तप है उसी से  
यह कार्य ब्रह्म ( हिरण्य गर्भ ) नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं, इत्यादि अर्थ के  
बोधक सर्वज्ञेश्वरपरक वाक्य उदाहरण के योग्य है । पहले जो कहा गया था कि सत्त्वगुण  
के धर्मज्ञान से प्रधान ही सर्वज्ञ हो सकता है, वह सो नही बन सकता है । क्योंकि गुणो  
की समता रूप प्रधानावस्था मे गुण की समता से सत्त्व गुण का धर्मरूप ज्ञान नही  
हो सकता है । एवं जो यह कहा गया था कि सब ज्ञान की शक्तिमत्ता से प्रधान सर्वज्ञ  
हो सकेगा, वह भी नही बन सकता है, क्योंकि यदि गुणो की समता होने पर भी सत्त्व-  
गुणाश्रित ज्ञानशक्ति का आश्रयण ( स्वीकार ) करके प्रधान को सर्वज्ञ कहा जाय,  
तो रजस्तमोगुण के आश्रित ज्ञान के प्रतिबन्धक शक्ति का आश्रयण करके प्रधान को  
अल्पज्ञ भी कहा जा सकता है, जिस अल्पज्ञता से उसके द्वारा सृष्टि का असम्भव हो सकता  
है । साक्षात् द्रष्टा साक्षी से रहित सत्त्वगुण की वृत्ति ( परिणाम ) भी ज्ञान शब्द  
से नही कही जाती है और अचेतन प्रधान को साक्षिता नही है । उससे प्रधान को  
सर्वज्ञता असिद्ध है । योगियो को तो चेतनता से सत्त्वगुण के आधिक्यनिमित्तक सर्वज्ञत्व  
बन सकता है, इससे प्रधान की सर्वज्ञता मे योगी दृष्टान्त नही हो सकते है ।

अथ पुनः साक्षिनिमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य कल्पयेत्, यथाग्निनिमित्तमयः  
पिण्डादेर्दग्धत्वम् । तथासति यन्निमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञं मुख्यं  
ब्रह्म जगतः कारणमिति युक्तम् । यत्पुनरुक्तं—ब्रह्मणोऽपि न मुख्य सर्वज्ञत्व-  
मुपपद्यते, नित्यज्ञानक्रियत्वे ज्ञानक्रिया प्रति स्वातन्त्र्यासम्भवादिति । अत्रो-  
च्यते—इदं तावद्भवान् प्रष्टव्यः, कथं नित्यज्ञानक्रियत्वे सर्वज्ञत्वहानिरिति । यस्य  
हि सर्वविषयावभासनक्षमं ज्ञानं नित्यमस्ति सोऽसर्वज्ञ इति विप्रतिषिद्धम् ।

अनित्यत्वे हि ज्ञानस्य कदाचिज्जानाति कदाचिन्न जानातीत्यसर्वज्ञत्वमपि स्यात् नासौ ज्ञाननित्यत्वे दोषोऽस्ति । ज्ञाननित्यत्वे ज्ञानविषयः स्वातन्त्र्यव्यपदेशो नोपपद्यत इति चेत्, न; प्रतौष्ण्यप्रकाशेऽपि सवितरि दहति प्रकाशयतीति स्वातन्त्र्यव्यपदेशदर्शनात् । ननु सवितुर्दाह्यप्रकाशसंयोगे सति दहति प्रकाशयतीति व्यपदेशः स्यात्, न तु ब्रह्मणः प्रागुत्पत्तेर्ज्ञानकर्मसंयोगोऽस्तीति विषमो दृष्टान्तः, न; असत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशत इति कर्तृत्वव्यपदेशदर्शनात् ।

यदि सेध्वर साख्यवाद को मानकर जैसे अग्निनिमित्तक लोहपिण्ड में दाहकत्व होता है, वैसे ईश्वर रूप साक्षिनिमित्तक प्रधान के दृष्टत्व ईक्षितृत्व की कल्पना की जाय, तो ऐसे मानने की अपेक्षा जिस ईश्वर निमित्तक प्रधान की ईक्षितृत्व है, वही मुख्य सर्वज्ञ ब्रह्म जगत् का कारण है ऐसा मानना उचित है । और जो पहली यह कहा गया था कि ब्रह्म को मुख्य सर्वज्ञत्व नहीं बन सकता है, क्योंकि नित्यज्ञान क्रिया वाला ब्रह्म हो तो उसको ज्ञान क्रिया के प्रति स्वतन्त्रता का असम्भव है । इस सबन्ध में कहना है कि यह बात पहले आपसे पूछी जाती है कि नित्यज्ञान क्रियावत्त्व ब्रह्म में रहते हुए भी उसकी सर्वज्ञता की हानि कैसे होती है ? जिसको सब विषयों के प्रकाशन में समर्थ ज्ञान नित्य है, वह सर्वज्ञ नहीं है, यह तो विरुद्ध बात है । यदि ज्ञान अनित्य हो तब तो कभी जानता है कभी नहीं जानता है, इससे असर्वज्ञता हो सकती है, परन्तु वह दोष ज्ञान के नित्यत्व पक्ष में नहीं है । यदि कहो कि ज्ञान के नित्य होने पर ज्ञानविषयक स्वतन्त्रता का व्यपदेश ( व्यवहार ) नहीं बन सकता है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रतत ( संतत-नित्य ) उष्णता और प्रकाश वाले सूर्य में भी जलाता है प्रकाशित होता है इस प्रकार दाह प्रकाश क्रिया के प्रति स्वतन्त्रता का व्यवहार होता है । यदि कहो कि दाह योग्य और प्रकाश योग्य वस्तु के साथ सूर्य के अनित्य संयोग होने से दहति प्रकाशयति ( जलाता है, प्रकाशता है ) यह स्वतन्त्रता का व्यवहार हो सकता है और उत्पत्ति से प्रथम ब्रह्म को तो ज्ञान के कर्मों से संयोग नहीं है, इससे यह ब्रह्म विषयक सूर्य का दृष्टान्त विषम ( अयोग्य ) है, तो इसका उत्तर है कि यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि कर्म की विवक्षा नहीं रहते भी सूर्य प्रकाशता है । इस प्रकार प्रकाश क्रिया के कर्तृत्व का सूर्य में व्यवहार होता है ।

एवमसत्यपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणः 'तदैक्षत' इति कर्तृत्वव्यपदेशोपपत्तेर्न वैषम्यम् । कर्मापेक्षायां तु ब्रह्मणीक्षितृत्वश्रुतयः सुतरामुपपन्नाः । किं पुनस्तत्कर्म, यत्प्रागुत्पत्तेरीश्वरज्ञानस्य विषयो भवतीति ? तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये नामरूपे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्रूमः । यत्प्रसादाद्धि योगिनामप्यतीतानागतविषयं प्रत्यक्षं ज्ञानमिच्छन्ति योगशास्त्रविदः, किमु वक्तव्यं तस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्य सृष्टिस्थितिसंहतिविषयं नित्यज्ञानं भवतीति । यदप्युक्तम्— प्रागुत्पत्तेर्ब्रह्मणः शरीरादिसंबन्धमन्तरेणोक्षितृत्वमनुपपन्नमिति, न तच्चोद्यम-



वतरति, सवित्प्रकाशवद्ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपनित्यत्वे ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्तेः । अपि चाऽविद्यादिमतः संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः स्यान्न ज्ञानप्रतिबन्धकारणरहितस्येश्वरस्य । मन्त्रौ चेमावीश्वरस्य शरीराद्यनपेक्षतामनावरणज्ञानतां च दर्शयतः—

सूर्य के समान ही कर्म की अपेक्षा बिना भी ( वह ईक्षण क्रिया ) इस प्रकार कर्तृता का व्यवहारादि हो सकने से दृष्टान्त में विषमता नहीं है । यदि कर्म की अपेक्षा हो तब तो ब्रह्म विषयक ईक्षितात्व विषयक श्रुतियों अत्यन्त उपपन्न ( युक्तियुक्त ) सिद्ध होती हैं । यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व वह कौन ज्ञान का कर्म रहता है जो ईश्वरीय ज्ञान का विषय होता है, तो उत्तर है कि ( न सदासीन्नासदासीत् ) इत्यादि मन्त्रों के अनुसार तत्त्वान्यत्व ( सत्यत्व असत्यत्व ) रूप से निर्बचन ( निर्णय ) के अयोग्य, अव्यक्त, व्यक्त करने की इच्छा के विषयीभूत, नाम रूप ही ईश्वरीय आलोचन का कर्म होता है यह हम कहते हैं और जिस ईश्वर की प्रसन्नता से योगियों के अतीत अनागत ( भूतभावी ) वस्तु विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान को योगशास्त्रज्ञ चाहते मानते कहते हैं । उस नित्यसिद्ध ईश्वर को सृष्टि स्थिति सहार विषयक नित्यज्ञान होता है, इस विषय में फिर कहना ही क्या है । जो यह कहा गया था कि सृष्टि से प्रथम शरीरादि के साथ सम्बन्ध के बिना ब्रह्म को ईक्षण कर्तृत्व नहीं हो सकता, वह चोद्य ( शका ) तो बुद्धिमान को ही नहीं सकती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के समान ब्रह्म के ज्ञान स्वरूप के नित्य होने से ज्ञान के साधनों की अपेक्षा की असिद्धि है और अविद्यादि वाला संसारी को शरीरादि साधन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान के प्रतिबन्धक कारण ( विघ्नो ) से रहित ईश्वर को शरीरादि की अपेक्षा पूर्वक ज्ञान नहीं होता है । यह वक्ष्यमाण दो मन्त्र ईश्वर को शरीरादि की अपेक्षा बिना ही निरावर्ण ज्ञानिता दर्शाते हैं ।

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

( श्वेता० ६।८ ) इति ।

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं महान्तम् ॥

( श्वेता० ३।११ ) इति च ।

ननु नास्ति तावज्ज्ञानप्रतिबन्धकारणवानीश्वरादन्यः संसारी, 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' ( बृह० ३।७।२३ ) इति श्रुतेः । तत्र किमिदमुच्यते संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिर्नेश्वरस्येति । अत्रोच्यते— सत्यं, नेश्वरादन्यः संसारी । तथापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्ध इष्यत एव, घटकरकगिरिगुहाद्युपाधिसंबन्ध इव व्योमः । तत्कृतश्च शब्दप्रत्ययव्यवहारो

लोकस्य दृष्टो घटच्छिद्रं करकादिच्छिद्रमित्यादिराकाशाद्यतिरेकेऽपि, तत्कृता चाकाशे घटाकाशादिभेदमिथ्याबुद्धिर्दृष्टा । तथेहापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्धा-  
विवेककृतेश्वरसंसारिभेदमिथ्याबुद्धिः ।

उस ईश्वर को कार्य ( शरीर ) करण ( इन्द्रिय ) नहीं है, न उसके तुल्य वा उससे अधिक है । परन्तु उसकी विविध कार्य मे समर्थ विविधापराशक्ति सुनो जाती है और स्वाभाविकी ज्ञानबल से क्रिया सुनी जाती है, तथा ज्ञानक्रिया बलक्रिया स्वाभाविकी सुनी जाती है । और हाथ-पैर रहित होते हुए भी ग्रहण करता है, और वेगवाला है, आँख रहित भी देखता है, कानरहित भी सुनता है, वह सब ज्ञेय वस्तु को जानता है, उसको विषय के समान जानने वाला कोई नहीं है । उसीको अग्र ( अनादि ) महानपुरुष कहते हैं । शंका होती है कि 'ज्ञान के प्रतिबन्धक कारणवाला ईश्वर से अन्य ससारी का इस एक सत्यात्मा से अन्य द्रष्टाविज्ञाता नहीं है' इत्यादि श्रुति के अनुसार अभाव है, इस अवस्था में यह कैसे कहा जाता है कि संसारी को शरीर सापेक्ष ज्ञान होता है, ईश्वर को नहीं ? यहाँ उत्तर है कि 'ईश्वर से सत्यभेदयुक्त ससारी नहीं है' यह श्रुति का कथन सत्य ही है, तो भी देहादि संघातरूप उपाधि के साथ सम्बन्ध, शास्त्र को भी इष्ट है । शास्त्र ईश्वर की उपाधि का सम्बन्ध मानता है । वह सम्बन्ध भी असंगात्मा को इस प्रकार का है कि जैसे घट, कमण्डल, पर्वत की गुफादिरूप उपाधि के साथ आकाश का सम्बन्ध होता है, और उस सम्बन्ध जन्य शब्द तज्जन्य ज्ञानरूप व्यवहार भी लोक मे देखा गया है । जैसे कि आकाश से भिन्न नहीं होते हुए भी कहा और समझा जाता है कि यह घटच्छिद्र ( घटाकाश ) है करकाकाश है इत्यादि, और इस व्यवहार से श्रोता को भी आकाश मे घटाकाशादि भेद की मिथ्या बुद्धि देखी गई है, वैसे ही यहाँ भी देहादि संघातरूप उपाधि के साथ सम्बन्ध से अविवेकजन्य ईश्वर संसारी मे मिथ्या भेद बुद्धि होती है ।

दृश्यते चात्मन एव सतो देहादिसंघातेऽनात्मन्यात्मत्वाभिनिवेशो मिथ्या-  
बुद्धिमात्रेण पूर्वपूर्वेण । सति चैवं संसारित्वे देहाद्यपेक्षमीक्षित्वमुपपन्नं संसा-  
रिणः । यद्युक्तम्—प्रधानस्यानेकात्मकत्वान्मृदादिवत्कारणत्वोपपत्तिर्नासंहतस्य  
ब्रह्मण इति, तत्प्रधानस्याशब्दत्वेनैव प्रत्युक्तम् । यथा तु तर्केणापि ब्रह्मण एव  
कारणत्वं निर्बोद्धुं शक्यते न-प्रधानादीनाम्, तथा प्रपञ्चयिष्यति—'न विलक्षण-  
त्वादस्य—' ( ब्र० २।१।४ ) इत्येवमादिना ॥ ५ ॥

और सत्यात्मा रूप जीव को ही अनात्म स्वरूप देहादि संघात ( समूह ) मे आत्मता का अभिनिवेश ( मिथ्याभिमान ) पूर्व पूर्व मिथ्या बुद्धिमात्र ( अनादिभ्रमप्रवाह ) से देखा जाता है । इस प्रकार औपाधिक भेद से ससारित्व सिद्ध होने पर, ससारी को देहादि की अपेक्षा (सहायता) पूर्वक ईक्षित्व ( ज्ञानित्व ) भी सिद्ध हुआ । और जो यह कहा था कि, मृदादि के समान प्रधान के अनेकात्मक ( त्रिगुणात्मक ) होने से । उसको

कारणत्व बन सकता है, असंहत ( केवल ) ब्रह्म को कारणता युक्त नहीं है, इस उक्ति का निराकरण प्रधान के अशब्दत्व ( शास्त्राबोधितत्त्व ) से ही हो चुका है । और तर्क से भी जिस प्रकार ब्रह्म को ही कारणत्व का निर्वाह ( सिद्धि ) किया जा सकता है, और प्रधानादि को कारणत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, उस प्रकार ( रीति ) का विस्तार पूर्वक वर्णन ( न विलक्षणत्वादस्य ) इत्यादि सूत्रों द्वारा किया जायगा ॥ ५ ॥

अत्राह—यदुक्तम्, नाचेतनं प्रधानं जगत्कारणमीक्षित्वश्रवणादिति । तदन्यथाप्युपपद्यते, अचेतनेऽपि चेतनवदुपचारदर्शनात् । यथा प्रत्यासन्न-पतनतां नद्याः कूलस्यालक्ष्य कूलं पिपतिषतीत्यचेतनेऽपि कूले चेतनवदुपचारो दृष्टः, तद्वचेतनेऽपि प्रधाने प्रत्यसन्नसर्गे चेतनवदुपचारो भविष्यति 'तदैक्षत' इति । यथा लोके कश्चिच्चेतनः स्नात्वा भुक्त्वा चापराह्णे ग्रामं रथेन गमिष्यामीतीक्षित्वानन्तरं तथैव नियमेन प्रवर्तते, तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण नियमेन प्रवर्तते । तस्माच्चेतनवदुपचर्यते । कस्मात्पुनः कारणाद्विहाय मुख्य-मीक्षित्वमौपचारिकं कल्प्यते, तत्तेज ऐक्षत' 'ता आप ऐक्षन्त' ( छान्दो० ६।३।४ ) इति चाचेतनयोरप्यमेजसोश्चेतनवदुपचारदर्शनात् । 'तस्मात्सत्कर्तृ-कमपीक्षणमौपचारिकमिति गम्यते, 'उपचारप्राये वचनात्' इति । एवं प्राप्ते इदं सूत्रमारभ्यते—

### पूर्वपक्ष—

इस पूर्वोक्त सिद्धान्त में पूर्वपक्षी कहता है कि ईक्षणकर्तृत्व के सुनने से अचेतन प्रधान ( प्रकृति ) जगत् का कारण नहीं है, यह जो सिद्धान्ती ने कहा है, जिसका तात्पर्य है कि ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व जड में नहीं हो सकता, वहाँ कहा जाता है कि अन्यथा ( प्रकृति के अचेतन रहते हुए भी ) ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व का श्रुति में वर्णन बन सकता है, क्योंकि अचेतन में भी चेतन के समान उपचार ( गौण व्यवहार ) देखा जाता है । जैसे कि प्रत्यासन्न ( अतिशीघ्र ) पतन की उन्मुखता युक्त नदी के तट को देखकर, अर्थात् शीघ्र गिरने वाले किनारे को समझकर मनुष्य कहता है कि यह नदी का तट किनारा गिरना चाहता है । वहाँ इस प्रकार अचेतन तट में भी चेतन के समान चाह ( इच्छा ) का व्यवहार ( कथन ) होता है, इसलिये उपचार ( गौण ) व्यवहार दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) है । उसीके समान सृष्टि काल के समीप प्राप्त होने पर अचेतन प्रधान में भी चेतन के समान गौण व्यवहार हो सकता है कि ( तदैक्षत ) उस सत् शब्दवाच्य प्रधान के विचार आलोचन किया इत्यादि । जैसे लोक में कोई चेतन पुरुष विचार करता है कि स्नान और भोजन करके अपराह्ण ( मध्याह्न ) काल में ( बारह बजे ) रथ द्वारा अमुक ग्राम में जाऊँगा, और इस प्रकार विचार कर नियम से विचार के अनुसार प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार प्रधान भी सृष्टि के आदि काल में महत्तत्त्व ( समष्टि बुद्धि ) अहकारादि रूप से नियम पूर्वक प्रवृत्त ( परिणत ) होता है, उससे श्रुति

मे उसका चेतन के समान ईक्षण विषयक गौण व्यवहार किया गया है। शंका होती है कि मुख्य चेतन कर्तृक ईक्षण कर्तृत्व को त्यागकर गौण की कल्पना क्यों की जाती है, तो उत्तर है कि ( तत्तेज ) वह तेज ईक्षण किया, वे जल ईक्षण किये। इस प्रकार अचेतन तेज और जल के ईक्षण उसी प्रकरण में देखा गया है, जिससे अनुमान द्वारा जाना जाता है कि सत्कर्तृक ( सत्कर्ताजन्य ) ईक्षण भी गौण ही है, क्योंकि उपचार-प्राय ( बहुत गौण ) के प्रकरण में उसका कथन है। इस प्रकार पूर्वपक्ष के प्राप्त होने पर इस सूत्र का आरम्भ होता है कि—

### गौणश्चेन्नात्मशब्दात् ॥ ६ ॥

सूत्र का सक्षित अर्थ है कि ( श्रुतौ सच्छब्दवाच्ये गौण ईक्षणकर्तृत्वप्रयोग इति न वाच्यम्, यस्मात्सदीक्षितुर्जावविषय आत्मशब्दो वर्तते जीवस्य चेक्षितविषयोऽप्यात्म-शब्दो वर्तते, अचेतनस्य प्रधानस्य प्रसिद्धश्चेतनो जीव आत्मा स्वरूपं न भवितुमर्हति न वा चेतनस्य अचेतनमात्मा भवितुमर्हतीति ) श्रुति में सतशब्दार्थं विषयक गौण ईक्षण कर्तृता का प्रयोग है—ऐसा कहन योग्य नहीं है। सत्य ईक्षिता का जीव विषयक आत्म-शब्द है, और जीव का ईक्षिता विषयक आत्मशब्द है, वहाँ अचेतन प्रधान का चेतन जीव आत्मा नहीं हो सकता, चेतन का अचेतन ही आत्मा हो सकता है। इससे मुख्य ईक्षितृत्व समझना चाहिये।

यदुक्तम्—प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नौपचारिक ईक्षितः, अप्रे-जसोरिवेति । तदसत् । कस्मात् ? आत्मशब्दात्—‘सदेव सोम्येदमप्र आसीत्’ इत्युपक्रम्य ‘तदैक्षत तत्तेजोऽसृजत’ ( छान्दो० ६।२।१, ३ ) इति च तेजो-ऽबन्नानां सृष्टिमुक्त्वा तदेव प्रकृतं सदीक्षितृ तानि च तेजोऽबन्नानि देवताशब्देन परामृश्याह—‘सेयं देवतैक्षत’ हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मना-नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ ( छान्दो० ६।२।२ ) इति । तत्र यदि प्रधानम-चेतनं गुणवृत्त्येक्षितृ कल्पयेत् तदेव प्रकृतत्वात्सेयं देवतेति परामृशयेत् । न तदा देवता जीवमात्मशब्देनाभिदध्यात् । जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां धारयिता, तत्प्रसिद्धेर्निर्वचनाच्च । स कथमचेतनस्य प्रधानस्यात्मा भवेत् ? आत्मा हि नाम स्वरूपम् । नाचेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीवः स्वरूप भवितुमर्हति । अथ तु चेतनं ब्रह्म मुख्यमीक्षितृ परिगृह्यते तस्य जीवविषय आत्मशब्दप्रयोग उपपद्यते । तथा ‘स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो’ ( छान्दो० ६।१।४३ ) इत्यत्र स आत्मा इति प्रकृतं सद्गणिमानमात्मानमात्मशब्देनोषदिश्य ‘तत्त्वमसि श्वेतकेतो’ इति चेत-नस्य श्वेतकेतोरत्मेनीदिशति । अप्रेजसोस्तु विषयत्वाद्चेतनत्वम् नामरूप-व्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेनैव निर्देशात्, न चात्मशब्दवत्किञ्चिन्मुख्यत्वे कार-णमस्तीति युक्तं कूलवद्गौणत्वमीक्षितृत्वस्य । तयोरपि च सदधिष्ठितत्वापेक्षमेवे-क्षितृत्वम् । सतस्त्वात्मशब्दान्न गौणमीक्षितृत्वमित्युक्तम् ॥ ६ ॥

पहले जो यह कहा गया है कि अचेतन प्रधान सत् शब्द का वाच्यार्थ है। उसमे जल और तेज मे ईक्षण प्रयोग के समान गौण ईक्षण का प्रयोग ( कथन ) है। ऐसा कहना असत् है, क्योंकि यहाँ आत्मशब्द का ऐसा प्रयोग है कि 'हे सोम्य ! (प्रियदर्शन ! ) यह जगत् प्रथम सत्मात्र ही था, इस प्रकार उपदेश का आरम्भ करके कहा है कि वह सत् आलोचन-चिन्तन किया, उसने तेज को उत्पन्न किया, इस प्रकार तेज जल, और अन्न की सृष्टि को कहकर, वही प्रकृत ( प्रकरण प्राप्त ) सत् ईक्षण कर्ता का और उन तेज जल और अन्न का देवता शब्द से परामर्श ( स्मरण ) करा के कहा है कि 'सिय' सो शब्द वाच्य और यह ईक्षण कर्ता देवता ने विचार किया कि हन्त ( इदानीं ) इस समय मैं इन तीनों तेज आदि रूप देवताओं मे इस जीवात्मा रूप से पैठकर नाम और रूप की अभिव्यक्ति रूप व्याकरण करूँ। वहाँ यदि अचेतन प्रधान को गौणीवृत्ति से ईक्षण कर्ता माना जाय, तो उस प्रधान को ही प्रकरण प्राप्त होने से 'सियं देवता' इस वाक्य मे वह प्रधान ही परामर्श का विषय होगा। इस अवस्था मे वह जड देवता जीव को आत्मशब्द से नहीं कह सकता है। क्योंकि जीव प्रसिद्ध चेतन है शरीर का अध्यक्ष स्वामी है ( जीव-प्राणधारण ) इस धात्वर्थ के अनुसार प्राणो का धारण करने वाला है। यह बात उसकी लोक-प्रसिद्धि और निर्वचन ( प्राणान् धारयति ) इस प्रकार के विग्रह वाक्य से सिद्ध होती है। इसलिये प्रसिद्ध चेतन जीव अचेतन प्रधान का आत्मा कैसे हो सकता है ? यह प्रसिद्ध है कि आत्मा स्वरूप को कहते हैं, और अचेतन प्रधान का चेतन जीव स्वरूप नहीं होने योग्य है। जब सिद्धान्त के अनुसार चेतन ब्रह्म को मुख्य ईक्षणकर्ता माना जाता है, तब उस ब्रह्म को जीव विषयक आत्मशब्द का प्रयोग उपपन्न ( युक्त ) होता है। इसी प्रकार ( स य एषोऽग्निमा ) वह जो सत् नामक अत्यन्त अणुत्व जगत् का मूल कारण है, तत्स्वरूप ही यह सब जगत् है, अर्थात् उसी की सत्ता सब मे है, वही सत् शब्दार्थ सत्य है, वही सबका आत्मा है। हे श्वेतकेतो ! तुम उसी के स्वरूप हो, इत्यर्थक श्रुति मे, 'स आत्मा', इन शब्दों से प्रकृत सत् अणुत्व युक्त आत्मा का आत्मशब्द से उपदेश करके कहा गया है कि हे श्वेतकेतो ! तुम वही हो, इससे चेतन श्वेतकेतु के आत्मा रूप से सत् ईक्षिता का श्रुति उपदेश करती है। जल तेज बाह्य विषय के जड होने से उनमे अचेतनत्व है। और नाम रूप के व्याकरण ( उत्पत्ति-अभिव्यक्ति ) नियमन मे उनका प्रयोज्य ( सृज्यत्व नियम्यत्व ) प्रेर्य कार्यत्व रूप से निर्देश ( कथन ) हुआ है इससे भी उन्हें अचेतनत्व है। सत् ईक्षिता मे आत्म शब्द के समान अप् तेज के ईक्षितृत्व मे मुख्यता के कोई कारण नहीं है। इससे अप् तेज के ईक्षितृत्व को तट पतन की इच्छा के समान गौण होना युक्त ( उचित ) है। वस्तुतः उस अप् तेज को सत्चेतन से अधिष्ठित होने से उस अधिष्ठान की दृष्टि से ईक्षितृत्व है। स्वयं नहीं। सत् को तो आत्म शब्द के बल से गौण ईक्षितृत्व नहीं सिद्ध हो सकता है ॥ ६ ॥

अथोच्येत—अचेतनेऽपि प्रधाने भवत्यात्मशब्दः, आत्मनः सर्वार्थकारि-

त्वात्, यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये भवत्यात्मशब्दो ममात्मा भद्रसेन इति । प्रधानं हि पुरुषस्यात्मनो भोगापवर्गौ कुर्वदुपकरोति, राज्ञ इव भृत्यः संधिविप्रहादिषु वर्तमानः । अथवैक एवात्मशब्दश्चेतनाचेतनविषयो भविष्यति, भूतात्मेन्द्रियात्मेति च प्रयोगदर्शनात् । यथैक एव ज्योतिःशब्दः क्रतुज्वलन-विषयः । तत्र कुत एतदात्मशब्दादीक्षतेरगौणत्वमिति—अत उत्तरं पठति—

अथ ( उक्तोत्तर के बाद भी ) यदि प्रधानवादी कहे कि, अचेतन प्रधान अर्थ मे भी आत्मशब्द का प्रयोग होता है । क्योंकि यह प्रधान चेतनात्मा, पुरुष के सब कार्य प्रयोजन को करने वाला है । जैसे राजा के सब अर्थ कर्ता प्रधान भृत्य मे आत्म शब्द का प्रयोग होता है कि मेरी आत्मा भद्रसेन है इत्यादि । प्रधान भी पुरुष रूप आत्मा के भोग और मोक्ष का सम्पादन करता हुआ उसका उपकार करता है । जैसे राजा का प्रधान भृत्य, सन्धिविग्रहादि में वर्तमान रह कर राजा का उपकार करता है । अथवा एक ही आत्मशब्द चेतन और अचेतन दोनों विषयक हो सकता है । प्रकरण भेदादि से दोनों अर्थ का बोध करा सकता है और भूतात्मा इन्द्रियात्मा इत्यादि वाक्यो में अचेतन भूत ( पृथिवी आदि ) और इन्द्रियो मे आत्मशब्द का प्रयोग देखा जाता है । जैसे एक ही ज्योतिशब्द का याग और अग्नि अर्थ मे प्रयोग होता है, वैसे ही आत्मशब्द को समझना चाहिये । यदि ऐसा तो फिर आत्मशब्द से ईक्षण को अगौणत्व है, यह बात किस हेतु से सिद्ध हो सकती है, ऐसी शंका होने पर उत्तर रूप सूत्र पढते हैं—

तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ॥ ७ ॥

सूत्र का संक्षिप्तार्थ है कि ( तन्निष्ठस्य आत्मनिष्ठस्य, श्रुतौ मोक्षोपदेशादात्मशब्दार्थः प्रधानं नैव भवितुमर्हति ) आत्मनिष्ठ के मोक्ष का उपदेश श्रुति मे है । इससे आत्मशब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता है ।

न प्रधानमचेनमात्मशब्दालम्बनं भवितुमर्हति, 'स आत्मा' इति प्रकृतं सद्णिमानमादाय 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति चेतनस्य श्वेतकेतोर्भोक्षयित-व्यस्य तन्निष्ठामुपदिश्य 'आचार्यवान् पुरुषो वेद, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षयेऽथ संपत्स्ये' ( छान्दो० ६।१।४।२ ) इति मोक्षोपदेशात् । यदि ह्यचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यं तदसीति ग्राहयेन्मुमुक्षुं चेतनं सन्तमचेतनोऽसीति तदा विपरीतवादि शास्त्रं पुरुषस्यानर्थीयेत्यप्रमाणं स्यात्, न तु निर्दोष-शास्त्रमप्रमाणं कल्पयितुं युक्तम् । यदि चाज्ञस्य सतो मुमुक्षोरचेतनमनात्मानमा-त्मेत्युपदिशेत् प्रमाणभूतं शास्त्रं स श्रद्धान्तयान्धगोलाङ्गूलन्यायेन तदात्मदृष्टि न परित्यजेत्, तद्व्यतिरिक्तं चात्मानं न प्रतिपद्येत, तथा सति पुरुषार्थाद्विहन्त्ये-तानार्थं च ऋच्छेत् । तस्माद्यथा स्वर्गाद्यर्थिनाऽग्निहोत्रादिसाधन यथाभूतमुप-दिशति तथा मुमुक्षोरपि 'स आत्मा, तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति यथाभूतमेवा-त्मानमुपदिशतीति युक्तम् । एवञ्च सति तत्परशुग्रहणमोक्षदृष्टान्तेन सत्याभि-

सन्धस्य मोक्षोपदेश उपपद्यते । अन्यथा ह्यमुख्ये सदात्मतत्त्वोपदेशे 'अहमुक्त-  
मस्मीति विद्यात्' ( ए० आर० २।१।२।६ ) इतिवत्संपन्मात्रमिदमनित्यफलं  
स्यात् । तत्र मोक्षोपदेशो नोपपद्येत । तस्मान्न सद्गुणिन्यात्मशब्दस्य  
गौणत्वम्, भृत्ये तु स्वामिभृत्यभेदस्य प्रत्यक्षत्वादुपपन्नो गौण आत्मशब्दो  
ममात्मा भद्रसेन इति । अपि च क्वचिद्गौणः शब्दो दृष्ट इति नैतावता  
शब्दप्रमाणकेऽर्थे गौणी कल्पना न्याय्या, सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्गात् । यत्तूक्तं—  
चेतनाचेतनयोः साधारण आत्मशब्दः ऋतुज्वलनयोरिव ज्योतिःशब्द इति,  
तन्न । अनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वात् । तस्माच्चेतनविषय एव मुख्य आत्मशब्द  
श्चेतनत्वोपचाराद्भूतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्द्रियात्मेति च । साधारणत्वेऽप्या-  
त्मशब्दस्य न प्रकरणमुपपदं वा किञ्चिन्निश्चायकमन्तरेणान्यतरवृत्तित्वा  
निर्धारयितुं शक्यते । न चात्राचेतनस्य निश्चायकं किञ्चित्कारणमस्ति, प्रकृतं  
तु सदीक्षितुं संनिहितश्च चेतनः श्वेतकेतुः, नहि चेतनस्य श्वेतकेतोरचेतन  
आत्मा संभवतीत्यवोचाम । तस्माच्चेतनविषय इहात्मशब्द इति निश्चीयते ।  
ज्योतिःशब्दोऽपि लौकिकेन प्रयोगेण ज्वलन एव रूढः अर्थवादकल्पितेन तु  
ज्वलनसादृश्येन क्रतौ प्रवृत्त इत्यदृष्टान्तः ।

सिद्धान्तभाष्य—

अचेतन प्रधान आत्मा का विषय ( अर्थ ) नहीं हो सकता है, क्योंकि, 'स आत्मा,'  
इस प्रकार प्रकरण प्राप्त सत्य अणुत्व का ग्रहण उपदेश करके, और हे श्वेतकेतु तुम  
वही हो, इस प्रकार मुक्त करने योग्य चेतन श्वेतकेतु को उस सत्यात्मा मे निष्ठा  
( अभिज्ञात दृष्टि से स्थिति ) का उपदेश करके श्रुति ने मोक्ष का उपदेश दिया है कि  
आचार्यवाला पुरुष सत्यात्मा को जानता है, और उस जाननेवाले को तभी तक  
विदेह कैवल्य मे चिर ( विलम्ब ) है कि जब तक प्रारब्धजन्य शरीर से छुटकारा नहीं  
पाता है, प्रारब्धान्त मे वह सत् स्वरूप मे लीन होता है । यदि अचेतन प्रधान सत् शब्द  
का वाच्यार्थ हो, तो वह अचेतन प्रधान तुम हो, इस प्रकार मुमुक्षु चेतन सत् को  
तुम अचेतन हो इस प्रकार ग्रहण कराता ( समझाता ) हो तो, विपरीत अर्थ को  
कहनेवाला वह शास्त्र पुरुष के अनर्थ के लिए होगा । इससे अप्रमाण भी होगा । और  
निर्दोष ( अनादि ) शास्त्र अप्रमाण है ऐसी कल्पना करना उचितन ही है । यदि  
प्रमाणरूप शास्त्र अज्ञ सत्पुरुष मुमुक्षु के प्रति अचेतन अनात्मा का आत्मारूप से  
उपदेश करेगा, तो वह मुमुक्षु श्रद्धालु होने के कारण अन्धगोलागुलन्याय से ( जैसे  
कोई वज्रक अन्धे को बैल की पूँछ पकडा दे और वह नहीं छोड़े ) इस रीति से उस  
प्रधान मे आत्मदृष्टि को मुमुक्षु नहीं त्यागेगा । एवं उससे भिन्न आत्मा को नहीं  
समझेगा न प्राप्त कर सकेगा । ऐसा होने पर वह पुरुषार्थ से च्युत होकर नष्ट  
होगा, और अनर्थ को प्राप्त करेगा । अतः स्वर्गादि को चाहनेवालो के लिये  
यथाभूत ( सत्य ) अभिहोत्रादि साधनो का शास्त्र उपदेश करता है, वैसे ही मुमुक्षु के

लिये ( वह सत्य तत्त्व आत्मा है, और हे श्वेतकेतु वही तुम हो इस प्रकार यथार्थ आत्मा का ही शास्त्र उपदेश करता है ऐसा मानना उचित है। इस प्रकार सत्यात्मोपदेश मानने ही पर तप्त परशु के ग्रहण करने पर और उससे दाह नहीं होने पर जैसे कल्पित चोर चोरी की शका से मुक्त होता है उसी दृष्टान्त से सत्य मे अभिसंधा ( निष्ठा आत्मभाव से सबन्ध ) वाले पुरुष का मोक्षोपदेश भी युक्त होता है। ऐसा नहीं मानकर अन्य प्रकार से अमुख्य सत् आत्मतत्त्व रूप प्रधान का उपदेश करने पर तो ( मैं उक्थनाम वाला प्राण हूँ ऐसा चिन्तन करे ) इस उपदेश के समान यह आत्मोपदेश भी सम्पन्मात्र ( उत्कृष्ट रूप से स्वचिन्तनात्मक उपासनारूप ) होने से अनित्य फलवाला होगा। फिर वहाँ मोक्ष का उपदेश उचित नहीं हो सकता है। अतः सत्य अणुतत्त्व मे आत्म शब्द गौण नहीं है। और स्वामी भृत्य के भेद के प्रत्यक्ष होने से भृत्य मे गौण आत्म शब्द युक्त है कि मेरा आत्मा भद्रसेन है इत्यादि। सत्यात्मा मे उचित नहीं है। आत्मशब्द कही गौण रूप मे देखा गया है, उससे ही शब्द प्रमाण द्वारा ज्ञेय अर्थ मे गौणी वृत्ति की कल्पना उचित नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने से सर्वत्र शास्त्रार्थ मे अविश्वास की प्राप्ति होगी, कहीं आत्म शब्द का क्या अर्थ है यह निश्चय नहीं होगा। पहले जो कहा गया था कि यज्ञ और अग्नि अर्थ मे ज्योति शब्द के समान आत्म शब्द चेतनाचेतनार्थ मे साधारण है, दोनों का वाचक है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मशब्द का अनेकार्थक होना अन्याय ( युक्तिविरुद्ध ) है। इससे चेतन वाचक ही मुख्य आत्म शब्द है और चेतनत्व के उपचार (गौण व्यवहार) से भूतादि मे भी आत्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, भूतात्मा इन्द्रियात्मा इत्यादि। आत्मशब्द के साधारण होने पर भी तात्पर्य के निश्चय कराने वाले कोई प्रकरण वा उपपद ( साथ पठितपद ) के बिना आत्मा अनात्मा दोनों मे से किसी एक का निश्चय नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त श्रुतियो मे अचेतन आत्मशब्दार्थ को निश्चय कराने वाला कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रकरण प्राप्त सत्य द्रष्टा है, और आत्मशब्द के पास मे पठित चेतन श्वेतकेतु है। चेतन श्वेतकेतु का अचेतन आत्मा नहीं हो सकता, यह बात कही जा चुकी है, इससे चेतन का वाचक यहाँ आत्म शब्द है, यह निश्चय किया जाता है। ज्योतिशब्द भी लौकिक प्रयोग से अग्नि अर्थ मे ही रूढ है। परन्तु अर्थवाद ( स्तुतिवाद ) से कल्पित जो अग्नि की तुल्यता उससे कल्पित सादृश्य-युक्त याग मे ज्योति शब्दबोधकरूप से प्रवृत्त हुआ है, इस लिए वह आत्म शब्द का दृष्टान्त नहीं हो सकता है।

अथवा पूर्वसूत्रे एवाशब्दं निरस्तसमस्तगौणत्वसाधारणत्वाशङ्कतया व्याख्याय ततः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणनिराकरणहेतुव्याख्येयः 'तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्' इति । तस्मान्नाचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ॥ ७ ॥

अथवा पूर्वसूत्र मे ही समस्त गौणत्व साधारणत्व की शंकाओं का निरास



( खडन ) पूर्वक आत्मशब्द का व्याख्यान करके, फिर स्वतन्त्र ही प्रधानरूप कारण के निराकरण हेतु व्याख्यान के योग्य सूत्र है कि आत्मनिष्ठ को मोक्ष का उपदेश है, इससे अचेतन प्रधान सत् शब्द वाच्य नहीं है ॥ ७ ॥

कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्—

हेयत्वावचनाच्च ॥ ८ ॥

और भी किस कारण से प्रधान सत्शब्द का अर्थ नहीं है ?

संक्षिप्त सूत्रार्थ है कि ( मोक्षार्थमेकज्ञानेन सर्वज्ञानार्थं च सदात्मानमुपदिश्य पुनर्हेय-  
त्वस्यावचनाच्च ज्ञायते नात्र प्रधान सच्छब्दार्थं ) मोक्ष के लिये और एक सत् के ज्ञान से सब वस्तु के ज्ञान के लिए सत्यात्मा का उपदेश करके फिर हेयता नहीं कही गई है। इससे सिद्ध होता है कि मुख्यात्मा का ही उपदेश है, अन्यथा अन्नमयादि के बाद प्राणमयादि के उपदेशपूर्वक परमतत्त्व ब्रह्म के उपदेश के समान यहाँ भी प्रधानात्मक सत् से भिन्न मुख्य सत्यात्मा का फिर उपदेश देना था, या ( नेद यदिदमुपासते, केन ) इत्यादि के समान फिर निषेध करना था इत्यादि।

यद्यनात्मैव प्रधानं सच्छब्दवाच्य 'स आत्मा, तत्त्वमसि' इतीहोपदिष्टं स्यात् स तदुपदेशश्रवणादनात्मज्ञतया तन्निष्ठो मा भूदिति मुख्यमात्मानमुपदिदि-  
क्षुस्तस्य हेयत्वं ब्रूयात् । यथारुन्धती दिदर्शयिषुस्तत्समीपस्थां स्थूलां ताराम-  
मुख्यां प्रथममरुन्धतीति ग्राहयित्वा तां प्रत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव ग्राहयति  
तद्वन्नायमात्मेति ब्रूयात् । न चैवमवोचत् । सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठैव हि षष्ठ-  
प्रपाठकपरिसमाप्तिर्दृश्यते । 'च'शब्दः प्रतिज्ञाविरोधाभ्युच्चयप्रदर्शनार्थः । सत्यपि  
हेयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोधः प्रसज्येत, कारणविज्ञानाद्धि सर्वं विज्ञातमिति प्रति-  
ज्ञातम् । 'उत तमादेशमप्राक्षः, येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात-  
मि'ति । 'कथं नु भगवः स आदेशो भवती'ति । 'यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं  
मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्, एवं सोम्य  
स आदेशो भवति' ( छा० ६।१।१३ ) इति वाक्योपक्रमे श्रवणात् । न च  
सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यवर्गकारणे हेयत्वेनाहेयत्वेन वा विज्ञाते भोक्तृवर्गो  
विज्ञातो भवति, अप्रधानविकारत्वाद्भोक्तृवर्गस्य । तस्मान्न प्रधान सच्छब्द-  
वाच्यम् ॥ ८ ॥

यदि अनात्मा प्रधान ही सत् शब्द का अर्थ हो, और उसी को ( स आत्मा, तत्व-  
मसि ) वह आत्मा है और वही तুম हो, इस प्रकार यहाँ उपदेश किया गया हो, तो वह जिज्ञासु श्वेतकेतु उस उपदेश के श्रवण से अनात्मज्ञता के कारण अनात्मनिष्ठ न हो  
जाय, इसलिए मुख्यात्मा के उपदेश के इच्छुक गुरु को उस उक्त सत् में हेयतात्याज्यता  
कहना चाहिये । जैसे कि अरुन्धती तारा को किसी के प्रति दिखाने की इच्छा वाला

उसके समीपवर्ती स्थूल तारारूप अमुख्य अरुन्धती को अरुन्धती नाम से दिखाकर समझा कर फिर उसका निषेध करके मुख्य अरुन्धती नामक सूक्ष्म तारा को दिखाता समझाता है, वैसे ही गुरु को कहना था कि यह सत्य आत्मा नहीं है, परन्तु ऐसा कहा नहीं है, इससे सन्मात्ररूप आत्मा की अवगति ( ज्ञान ) में निष्ठा ( स्थिति ) वाले ही छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक ( अध्याय ) की समाप्ति देखी जाती है। सूत्र में 'च' शब्द प्रतिज्ञाविरोध का समुच्चय ( हेतु रूप से सम्बन्ध ) दिखाने के लिए हेयता ( त्याज्यता ) के कथन करने पर भी यदि प्रधान सत् शब्द का अर्थ हो तो प्रतिज्ञा से विरोध की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि गुरु ने शिष्य के प्रति प्रतिज्ञा की है कि कारण के ज्ञान से ही सब वस्तु ज्ञात हो जाती है। कथा है कि गुरुकुल से लौटकर आये हुए अभिमानी पुत्र को देखकर पिता ने पुत्र से पूछा कि, क्या तुमने अपने गुरु से उस आदेश ( उपदेश ) को भी पूछा कि जिस उपदेश के सुनने से अश्रुत भी पदार्थ श्रुत हो जाता है, और अमत ( अविचारित ) भी जिसके विचार से मत ( विचारित ) हो जाता है, तथा अविज्ञात ( अनिश्चित ) जिसके विज्ञान से विज्ञात होता है इत्यादि। पुत्र बोला कि हे भगवन् वह उपदेश कैसा है, पिता जी बोले कि हे सोम्य ! जैसे एक मृत्पिण्ड के समझने से सब मृद्विकार समझे जाते हैं, वैसे एक सत्यात्मा के समझने से सब वस्तु समझी जाती है। क्योंकि विकार रूप कार्य वस्तु वाचारम्भण ( वाग् इन्द्रिय से आरम्भ किये ) जाते हैं। इससे नामैव नामधेय ( नाममात्र ही ) कारण से पृथक है। वस्तुतः जैसे मृद्विकारों में मृत्तिका ही सत्य है ? कार्य सब मिथ्या नाम मात्र है, वैसे ही सद्रूप में सद्रस्तु ही सत्य है, कार्य वस्तु मिथ्या नाम मात्र हैं, हे सोम्य वह उपदेश इस प्रकार होता है, इस प्रकार वाक्य के आरम्भ में सुना गया है, सत् शब्द का अर्थ यदि प्रधान हो तो इससे विरोध होगा, क्योंकि भोग्य वस्तु समूह के कारण रूप सत् शब्द के अर्थ प्रधान के हेयत्व वा अहेयत्व रूप से ज्ञात ( अनुभूत ) होने पर भी, भोक्ताओं का समूह विज्ञात ( अनुभूत ) नहीं हो सकता है, क्योंकि भोक्ता जीव समूह प्राधान का विकार रूप नहीं है जिससे प्रधान सत् शब्द का अर्थ नहीं है, और सिद्धान्त में तो जीव चेतनात्मक है, और जब जगत् चित्त शक्ति माया का विकार रूप है इससे जगत की सत्ता चिदात्मा से भिन्न नहीं है इसलिए सत् चेतनात्मा ब्रह्म के ज्ञान से सब वस्तु के ज्ञान होने से प्रतिज्ञा से विरोध नहीं होता है इत्यादि ॥ ८ ॥

कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्—

स्वाप्ययात् ॥ ९ ॥

और भी किस हेतु से प्रधान सत् शब्द का अर्थ नहीं है ?

सक्षिप्तार्थ है कि ( सुषुप्तिकाले स्वाप्ययात्-स्वस्मिन्-अप्ययो विलयः स्वाप्ययः, तस्य श्रुतौ श्रवणादपि न प्रधानं सच्छार्थः ) सुषुप्ति काल में सत् शब्द के अर्थ आत्मा में

जीवन का विलय सुना गया है। इससे भी प्रधान सत् शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि चेतन जीव का अचेतन में विलय नहीं हो सकता है।

तदेव सच्छब्दवाच्य कारणं प्रकृत्य श्रूयते—‘यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्वं ह्यपीतो भवति’ (छा० ६।८।१) इति, एषा श्रुतिः स्वपितीत्येतत्पुरुषस्य लोकप्रसिद्धं नाम निर्वक्ति। स्वशब्देनेहात्मोच्यते, यः प्रकृतः सच्छब्दवाच्यस्तमपीतो भवत्यपिगतो भवतीत्यर्थः। अपिपूर्वस्यैतेर्ल्यार्थत्वं प्रसिद्धं, प्रभवाप्यया-वित्युत्पत्तिप्रलययोः प्रयोगदर्शनात्, मनःप्रचारोपाधिविशेषसंबन्धादिन्द्रियार्थान्गृह्णस्तद्विशेषापन्नो जीवो जागर्ति। तद्वासनाविशिष्टः स्वप्नान् पश्यन् मनःशब्दवाच्यो भवति। स उपाधिद्वयोपरमे सुषुप्तावस्थायामुपाधिकृतविशेषाभावात्स्वात्मनि प्रलीन इवेति ‘स्वं ह्यपीतो भवति’ इत्युच्यते। यथा हृदयशब्दनिर्वचनं श्रुत्या दर्शितम्—‘स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृदयमिति, तस्माद् हृदयम् (छा० ८।३।३) इति, यथावाऽशनायोदन्याशब्दप्रवृत्तिमूलं दर्शयति श्रुतिः—‘आप एव तद्दर्शितं नयन्ते तेज एव तत्पीतं नयते’ (छा० ६।८।३, ५) इति च एवं ‘स्वमात्मानं सच्छब्दवाच्यमपीतो भवती’तीममर्थं स्वपितिनामनिर्वचनेन दर्शयति। न च चेतन आत्माऽचेतनं प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रतिपद्येत। यदि पुनः प्रधानमेवात्मीयत्वात् स्वशब्देनैवोच्येत, एवमपि चेतनोऽचेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येत। श्रुत्यन्तरं च—‘प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्’ (बृह० ४।३।२१) इति सुषुप्तावस्थायां चेतनेऽप्ययं दर्शयति। अतो यस्मिन्नप्ययः सर्वेषां चेतनानां तच्चेतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं न प्रधानम् ॥ ६ ॥

पूर्वोक्त उसी सत् शब्द के अर्थ कारण को कहकर उसी के प्रकरण में श्रुति सुनी जाती है कि यत्रैतत्पुरुषः इत्यादि। जिस सुषुप्ति काल में यह पुरुष सोता है, और जहाँ इसका ‘स्वपिति’ यह नाम होता है, हे सोम्य! उस काल में यह जीवात्मारूप पुरुष सदात्मा के साथ सम्पन्न (संगत एक) अभिन्न हो जाता है। स्व सत्परमार्थ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसमें लीन होता है, मन आदिकृत औपाधिक स्वरूप को त्याग देता है, जिससे उस अवस्था में उसको ‘स्वपिति’ इस नाम से कहते हैं, जिससे आत्मा में लीन होता है। इस प्रकार कहने वाली श्रुति ‘स्वपिति’ यह लोकप्रसिद्ध पुरुष के नाम का निर्वचन (व्याख्यान) करती है, स्वशब्द से यहाँ आत्मा कहा जाता है। और जो प्रकरण प्राप्त सत्शब्द का अर्थ है। उसी में अपीत होता है, अपिगत (लीन) होता है, यह श्रुति का अर्थ है, क्योंकि अपि अव्ययपूर्वक गत्यर्थक एतिधातु को लयवाचकत्व प्रसिद्ध है। (भवाप्ययौहिभूतानाम। म० गी० ११।२) इत्यादि वाक्यों में उत्पत्ति और प्रलय अर्थ में प्रभव और अप्यय शब्द का प्रयोग देखा जाता है। और मन के प्रचार (वृत्ति) रूपा उपाधि विशेष के सम्बन्ध से विशेषावस्था को प्राप्त यह जीव इन्द्रियार्थ (शब्दादि विषयो) का ग्रहण करता हुआ जागता है, अर्थात् स्थूल देहाभिमानी स्थूलार्थ

के ज्ञाता जागने वाला विश्व नामा जीव कहाता है । और उस जाग्रत की वासनाओ से युक्त होकर अर्थात् जाग्रद्विषययुक्त मन रूप उपाधि वाला होकर स्वप्नो को देखता हुआ मन ( तैजस ) शब्द का वाच्य जीव होता है । वही जीव, जाग्रत स्वप्न की दोनों उपाधियों के उपरम ( निवृत्ति ) होने पर सुषुप्ति अवस्था मे उपधिकृत प्रगट विशेष ( भेद ) के अभाव से स्वात्मा ( स्वरूप ) मे प्रलीन के समान होता है इससे ( स्वच्छ-पीतो भवति ) अपने ही मे लीन होता है, इस प्रकार कहा जाता है, अर्थात् उपाधि के विलय से विलय का गौण व्यवहार होता है, वास्तविक जीव भाव का विलय तो मोक्षावस्था मे होता है । यह स्वपिति नाम का निर्वचन अर्थवाद रूप नहीं है, क्योंकि इसी के समान हृदय शब्द का निर्वचन श्रुति से दर्शाया गया है कि ( वह अपहृत पाप्मादि विशेषण वाला यह आत्मा हृदय मे रहता है ) उस हृदय शब्द का यही निर्वचन है कि हृदय मे जिससे यह आत्मा रहता है जिससे ( हृद् अयम्-हृदयम् ) कहा जाता है । और भी जिस प्रकार, अशनाया, और उदन्या शब्दों की प्रवृत्ति ( व्यवहार ) का मूल को श्रुति दर्शाती है कि ( जल ही उस खाये हुए अन्न को द्रवीभूत करके पाक स्थान में पहुँचाता है, पचाता है । इससे अशनाया कहाता है । और तेज ही उस पीए हुए उदक को शोषण करता रक्त प्राणादि रूप परिणाम को प्राप्त कराता है, इससे वह उदन्या कहाता है इत्यादि । इसी प्रकार, सत् शब्द का वाच्यार्थ अपने आत्मा मे लीन होता है इस अर्थ को स्वपिति नाम के निर्वचन से श्रुति यथार्थ दर्शाती है । स्वपधान पक्ष में नहीं बन सकता है, क्योंकि चेतनात्मा पुरुष अचेतन प्रधान को निजात्म रूप से नहीं प्राप्त कर सकता है । और यदि प्रधान को ही आत्म सम्बन्धी होने से स्वशब्द से कहा जाय, तो ऐसा मानने पर भी चेतन अचेतन भाव को प्राप्त होता है, तद्रूप से उसमें लीन होता है, यह विरुद्धार्थ प्राप्त होगा । और दूसरी श्रुति साफ कहती है कि सुषुप्ति काल मे यह जीवात्मा रूप पुरुष प्राज्ञ ( प्रकृष्ट ज्ञाता ) पारमार्थिक अपने आत्मा से सपरिष्वक्त ( एक स्वरूप ) होकर बाहर भीतर की किसी वस्तु को नहीं जानता है । इससे सुषुप्ति अवस्था मे चेतन मे ही विलय दर्शाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि सुषुप्ति प्रलय मे सब चेतनात्माओ जीवो का चेतन मे विलय होता है, वही चेतन सत् शब्द का अर्थ चेतन मे है और जगत् का कारण है, प्रधान नहीं ॥ ९ ॥

कुतश्च न प्रधानं जगतः कारणम्—

गतिसामान्यात् ॥ १० ॥

और किस कारण से प्रधान जगत् का कारण नहीं है—

सक्षिप्तार्थ है कि ( सर्वेषा वेदान्तानां गतेः प्रवृत्तिमार्गस्य तुल्यत्वात्-चेतनात्मनि-विवादाऽदर्शनात् प्रधानं क्वचिदपि वेदान्ते कारणं स्वतन्त्रमभ्युपगम्यते ) सब वेदान्त की गति ( प्रवृत्ति का मार्ग ) रीति की तुल्यता से चेतनात्मा मे विवाद के अभाव दर्शन से किसी भी वेदान्त मे स्वतन्त्र कारण प्रधान नहीं माना जाता है, यह निश्चय हो जाता है ।

यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्वपि भिन्ना कारणावगतिरभिविष्यत् कचि-  
 च्चेतनं ब्रह्म जगतः कारणम्, कचिद्चेतनं प्रधानम्, कचिदन्यदेवेति, ततः कदाचि-  
 त्प्रधानकारणवादानुरोधेनापीक्षत्यादिश्रवणमकल्पयिष्यत्, न त्वेतदस्ति, समा-  
 नैव हि सर्वेषु वेदान्तेषु चेतनकारणावगतिः । 'यथाग्नेर्वलतः सर्वा दिशो  
 विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्नेत्रमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते  
 'प्राणोभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः' ( का० ३।३ ) इति, 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन  
 आकाशः संभूतः' ( त० २।१ ) इति, 'आत्मन एवेद सर्वम्' ( छा० ७।२६।१ )  
 इति, 'आत्मन एष प्राणो जायते' ( प्र० ३।३ ) इति चात्मनः कारणत्वं दर्श-  
 यन्ति सर्वे वेदान्ताः । आत्मशब्दश्च चेतनवचन इत्यवोचाम । महश्च प्रामाण्य-  
 कारणमेतद्यद्वेदान्तवाक्यानां चेतनकारणत्वे समानगतित्वं चक्षुरादीनामिव रूपा-  
 दिषु । अतो गतिसामान्यात्सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् ॥ १० ॥

यदि तार्किको ( अनुमान से जगत कारण की कल्पना करने वालो ) के सिद्धान्तो के  
 समान वेदान्तो मे भी भिन्न-भिन्न अनेक प्रकार के कारणो की अवगति ( अनुभूति-ज्ञान )  
 होती । और मानी जाती, जैसे कि कही कहा जाता कि चेतन ब्रह्म जगत का कारण  
 है, कही कहा जाता कि अचेतन प्रधान कारण है, कही अन्य ही कुछ कहा जाता कि  
 शून्यादि वा कालस्वभावादि कारण है, तो श्रोता को भी श्रवण के अनुसार भिन्न-भिन्न  
 अवगति होती, फिर कही प्रधान कारणवाद के अनुसार से भी ईक्षति इत्यादि श्रुति  
 को गौराणार्थत्व की कल्पना हो सकती और प्रधान कारण माना जाता । परन्तु ऐसी  
 गति वेदान्त मे है नहीं। क्योंकि समान ( एक प्रकार की ) ही चेतन कारण की अवगति  
 सब वेदान्तो मे होती है । जैसे कि ( यथाग्ने ) इत्यादि श्रुतियां कहती है कि जैसे  
 प्रज्वलित अग्नि से सब दिशाओ मे विस्फुर्लिंग ( चिनगारियां ) फैलती हैं, विविध रूप  
 से गमन करती हैं, इसी प्रकार सुषुप्ति काल मे आत्मा मे विलीन सब प्राण जागने के  
 समय इस आत्मा से अपने-अपने गोलक रूप आश्रय के अनुसार गमन करते है । प्रगट  
 होते हैं, और प्राणो से उनके सहायक देव व्यक्त होते है, उन देवो से लोक ( विषय )  
 व्यक्त गृहीत होते हैं । और उस मन्त्र प्रतिपादित तथा इस ब्राह्मण ग्रन्थ से प्रतिपादित  
 आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ । आत्मा ही से यह सब जगत होता है । आत्मा से  
 यह प्राण ( उत्पन्न होता है । इस रीति से सब वेदान्त आत्म की कारणता को ही  
 दर्शाते हैं । आत्मशब्द चेतनवाचक है, यह प्रथम कहा गया है । और वेदान्त वाक्यो  
 का जो चेतन कारणत्व विषयक समानगतित्व ( तुल्य प्रवृत्ति रूपता ) है, यही वेदान्त  
 वाक्यो के प्रामाण्य का महान् कारण है, विवादाभावपूर्वक समान गति से शीघ्र  
 प्रामाण्य का निश्चय होता है, जैसे कि सब पुरुष के नेत्रादि की रूपादि विषयो मे  
 समान गति से नेत्रादि मे प्रामाण्यता होती है और इस गति सामान्य से ही जगत  
 का कारण ब्रह्म है ॥ १० ॥

कुतश्च सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम्—

श्रुतत्वाच्च ॥ ११ ॥

और भी किस कारण से सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है—

संक्षिप्तार्थ है कि ( श्रुतिषु साक्षादेव ब्रह्मणो जगतः कारणत्वस्य श्रुतत्वात् सर्वज्ञं ब्रह्मैव जगतः कारणम् ) श्रुतियों में प्रत्यक्ष ही ब्रह्म को जगत की कारणता सुनी गई है। जिससे सर्वत्र ब्रह्म ही जगत का कारण है।

स्वशब्देनैव च सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमिति श्रूयते श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि सर्वज्ञमीश्वरं प्रकृत्य 'न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके, न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्, स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः' ( श्व. ६।६ ) इति। तस्मात्सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणं, नाचेतनं प्रधानमन्यद्वेति सिद्धम् ॥ ११ ॥

सर्वज्ञ ईश्वर जगत का कारण है, यह अर्थ श्रुतिगत स्वशब्दों ( चेतन सर्वज्ञादि के वाचक शब्दों ) द्वारा सुना जाता है। जैसे कि श्वेताश्वतर शाखा वालों के मन्त्रात्मक उपनिषद में सर्वज्ञ ईश्वर को प्रकरणास्थ करके लिखा है कि ( जिस ईश्वर का लोक में कोई पति ( स्वामी ) नहीं है, इसी से उसका ईशिता ( नियन्ता ) नहीं है। न उसका कोई लिङ्ग चिह्न है, वही सबका कारण है, और करणों ( इन्द्रियों ) के स्वामी जीव तथा मन का भी वही अधिष्ठाता स्वामी है। और उसका कोई जनयिता ( पिता ) वा स्वामी नहीं है। इत्यादि। जिससे सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है, अचेतन प्रधान वा अन्य कोई वस्तु जगत का कारण नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ ११ ॥

'जन्माद्यस्य यतः' इत्यारभ्य 'श्रुतत्वाच्च' इत्येवमन्तैः सूत्रैर्यान्युदाहृतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतो जन्मस्थितिलयकारणमित्येतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्। गतिसामान्योपन्यासेन च सर्वे वेदान्ताश्चेतनकारणवादिन इति व्याख्यातम्। अतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति ?

यहाँ शङ्का होती है कि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इस सूत्र से ब्रह्म विचार की प्रतिज्ञा करके ( जन्माद्यस्य यतः ) यहाँ से वेदान्त वाक्यों के विचार का आरम्भ करके ( श्रुतत्वाच्च ) इस सूत्र पर्यन्त सूत्रों के द्वारा जिन वेदान्त वाक्यों का उदाहरण रूप से ग्रहण किया गया है, उन वाक्यों को सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है। इस अर्थ का प्रतिपादकत्व है। यह अर्थ न्याय ( युक्ति ) पूर्वक प्रतिपादित ( निरूपित ) हो चुका। और गति ( ज्ञान ) सामान्य के कथन से सब वेदान्त चेतन कारणवादी है। यह तत्त्व भी व्याख्यात ( प्रसिद्ध ) हो चुका। अतः इससे आगे के ग्रन्थ का उत्थान ( उत्पत्ति-आरम्भ ) किस लिये है।

उच्यते—द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते, नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं, तद्वि-  
परीतं च सर्वोपाधिविवर्जितम् । ‘यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति,  
यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्’ ( बृह० ४।१।५ ) ‘यत्र नान्य-  
त्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्य-  
च्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं, यो वै भूमा तदमृतम् अथ यदल्पं तन्मर्त्यम्’  
( छान्दो० ७।२।१ ) ‘सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः, नामानि कृत्वाऽभिव-  
दन्यदास्ते’ ( तै० आ० ३।१२।७ )

निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् ।

अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् ॥ ( श्वे० ६।१६ )

‘नेति नेति’ ( बृ० २।३।६ ) इति<sup>१</sup> ‘अस्थूलमनणु’ ( बृ० ३।८।८ ) ‘न्यून-  
मन्यत्स्थानं संपूर्णमन्यत्’ इति च, एवं सहस्रशो विद्याविद्याविषयभेदेन ब्रह्मणो  
द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्यानि । तत्राविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्योपासकादि-  
लक्षणः सर्वो व्यवहारः । तत्र कानिचिद्ब्रह्मण उपासनान्यभ्युद्यार्थानि, कानि-  
चित्कर्ममुक्त्यर्थानि, कानिचित्कर्मसमुद्धत्यर्थानि, तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन  
भेदः । एक एव तु परमात्मेस्वरस्तैर्गुणविशेषैर्विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति,  
तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते । ‘तं यथा यथोपासते तदेव  
भवति’ इति श्रुतेः, ‘यथाकतुरस्मिँल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति’  
( छा० ३।१।४।१ ) इति च । स्मृतेश्च—

य यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ( गी० ८।६ ) इति ।

यद्यप्येक<sup>२</sup> आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढस्तथापि चित्तोपाधिविशे-  
षतारतम्यादात्मनः कूटस्थनित्यस्यैकरूपस्याप्युत्तरोत्तरमाविष्कृतस्य तारतम्य-  
मैश्वर्यशक्तिविशेषैः श्रूयते—‘तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद्’ ( ए० आ० २।३।  
२।१ ) इत्यत्र । स्मृतावपि—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसभवम् ॥ ( गी० १०।४१ )

इति यत्र यत्र विभूत्याद्यतिशयः स स ईश्वर इत्युपास्यतया चोद्यते । एव-  
मिहाप्यादित्यमण्डले हिरण्यमयः पुरुषः सर्वपाप्मोदयलिङ्गात्पर एवेति वक्ष्यति ।  
एवम् ‘आकाशस्तलिङ्गात्’ ( ब्र० १।१।२२ ) इत्यादिषु द्रष्टव्यम् । एवं सद्योमु-  
क्तिकारणमप्यात्मज्ञानमुपाधिविशेषद्वारेणोपदिश्यमानमप्यविवक्षितोपाधिसंबन्ध-

१. ‘नेति नेत्यात्मा’ इति प्रा० मु० पु० पाठः ।

२. ‘एक एवे’ति प्रा० मु० पु० पाठः ।

विशेषं परापरविषयत्वेन सन्दिह्यमानं वाक्यगतिपर्यालोचनया निर्णेतव्यं भवति । यथेहैव तावत् 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' इति ।

एवमेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधिसंबन्धं निरस्तोपाधिसंबन्धं चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यत इति प्रदर्शयितुं परो ग्रन्थ आरभ्यते । यच्च 'गतिसामान्यात्' इत्यचेतनकारणनिराकरणमुक्तं तदपि वाक्यान्तराणि ब्रह्म-विषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारणनिषेधेन प्रपञ्च्यते—

उत्तर दिया जाता है कि शास्त्र से दो स्वरूप वाला दो प्रकार का एक ही ब्रह्म अवगत ( ज्ञात ) होता है । एक स्वरूप तो नामरूपात्मक जो विकार है, उनके ही भेद ( विशेष ) रूप उपाधि सहित है, जो उपासना आदि के लिए वर्णित है । और दूसरा निर्गुण स्वरूप सब उपाधियों से रहित है । जैसे श्रुति कहती है कि पत्र ( जिस अज्ञानावस्था में ) द्वैत के समान रहता है, सत्य द्वैत ( भेद ) प्रतीत होता है, उस अवस्था में इतर द्रष्टा जीव इतर दृश्य देवादि को सत्य स्वरूप देखता है, इस अवस्था में दृश्योपाधि वाला ब्रह्म भासता है । और ( जिस ज्ञानावस्था में ) इस विद्वान् की दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया, उस अवस्था में वह किससे किसको सत्य देखे । इससे यहाँ निरुपाधिक वस्तु ज्ञानी की दृष्टि में कर्म करणादि रहित भासना प्रतीत होता है । इसी प्रकार जिस ब्रह्म में निश्चय पूर्वक स्थिर विद्वान् ब्रह्मात्मा से अन्य वस्तु को सत्स्वरूप नहीं देखता है, न अन्य को सुनता है, न मन से जानता है, वह निर्गुण भूमा ब्रह्म है । उसके बाद सगुण का कथन है कि जिस सगुण में स्थिर पुरुष ब्रह्मात्मा से अन्य को देखता सुनता और जानता है, वह अल्प ( एक देशी ) वस्तु है, और जो भूमा ( ब्रह्म ) है सो अमृत ( अविनाशी-नित्य ) है, उससे अन्य जो अल्प है वह मर्त्य ( अनित्य ) है । धीर ( सर्वज्ञ परमात्मा ही सब देवमनुष्यादि रूपों को विचिंत्य ( रचकर ) उनके तत्त्वं नाम करके हृदयों में जीव रूप से पैठ कर अभिवदन ( तत्त्वं ) व्यवहारों को करता हुआ जो है वह सगुण है । इसी प्रकार निष्कल ( निरश ) क्रियारहित, शान्त ( परिणाम रहित ) दोषशून्य, निरञ्जन ( निर्गुण ) मोक्ष की प्राप्ति में सेतुतुल्य दग्धेन्धन अग्नि के समान एक रस प्रकाश युक्त निर्गुण आत्मा को समझना चाहिये । नेति-नेति ( यह नहीं, यह नहीं ) और न स्थूल है न अणु है इत्यादि वाक्य भी निर्गुण के बोधक हैं । इसी प्रकार न्यून ( अल्प ) स्थान अन्य ( सगुण ) है । और पूर्ण ( निर्गुण ) स्थान उससे अन्य है, इस प्रकार सगुण निर्गुण दोनों का वर्णन है । और इसी प्रकार विद्या और अविद्या के विषय सत्य मिथ्या के भेद से ब्रह्म की दो रूपता को वाक्य दर्शाते हैं । वहाँ अविद्यावस्था में ब्रह्म सम्बन्धी उपास्य उपासकादिरूप सब व्यवहार होते हैं । उनमें भी कोई ब्रह्म की उपासनाये अभ्युदय ( स्वर्गादि ) के लिये हैं । कोई क्रममुक्ति ( ब्रह्मलोक की प्राप्ति पूर्वक मुक्ति ) के लिये है, कोई कर्म फल की समृद्धि ( वृद्धि ) के लिए है । उन उपासनाओं को ब्रह्म के गुणरूप उपाधि विशेष के भेद से भेद होता है, उपास्य के एक होते भी गुण के भेद से वह



भिन्न-भिन्न समझा जाता है, इससे उपासना भी भिन्न-भिन्न हो जाती है। इस प्रकार यद्यपि एक ही परमात्मस्वरूप ईश्वर तत्त्व गुणों से युक्त हो कर उपास्य (सेव्य) होता है। तो भी जैसी गुणयुक्त की उपासना की जाती है, उसके अनुसार ही फल भी भिन्न हो जाते हैं। शतपथश्रुति कहती है कि (उस परमात्मा को जिस-जिस गुणयुक्त समझ कर लोग उसकी उपासना करते हैं, उसगुणरूपता को ही उपासक प्राप्त होते हैं। और जैसा ऋतु (सकल्प ध्यान) वाला पुरुष इस लोक में होता है, मरने के बाद इस लोक से परलोक में जाकर संकल्प के अनुसार स्वरूप पाता है। गीता में श्रीभगवद्वचन है कि—हे कौन्तेय (अर्जुन) अन्तकाल में जिस-जिस भाव (पदार्थ देवादि) का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, सदा उस पदार्थ का भाव (भावना चिन्तन प्रेम) से भावित (प्रभावित वासित चित्त वाला) वह पुरुष तत्त्व भाव को ही प्राप्त होता है। यद्यपि एक ही आत्मा स्थावर जंगम सब प्राणी में गूढ (छिपा) है। अर्थात् प्राणी का एक ही सत्य पारमार्थिक स्वरूप है, वह अविद्या कृत आवरणों से नहीं भासता है। इससे स्वरूप के अभेद से यद्यपि सब प्राणी को तुल्य होना चाहिये, तथापि चित्तात्मक उपाधि (विशेषण-माया) विशेष (भेद) के तारतम्य (न्यूनाधिक भाव-शुद्धत्वाशुद्धत्वादि) से कूटस्थ नित्य एकरूप ऐश्वर्य और शक्ति विशेषों के द्वारा उत्तर आविर्कृत (व्यक्त) आत्मा का भी औपाधिक तारतम्य वक्ष्यमाण श्रुति में सुना जाता है कि (जो पुरुष जिस आत्मा के आविस्तर-प्रकटतर (अति प्रकट) आत्मा (स्वरूप) को जानता है। उस स्वरूप की उपासना करता है वह उस रूप को प्राप्त करता है) गीता का वचन है कि जो-जो विभूति ऐश्वर्यादि युक्त सत्त्व-वस्तु वा प्राणी है, शोभा लक्ष्मी से युक्त है, ऊर्जित बलोत्साह युक्त है, उन सबको तुम मेरे (ईश्वर के) तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। इत्यादि वचनों से जहाँ-जहाँ विभूति की अधिकता है, वह सब ईश्वर है इस प्रकार उपास्य का विधान है। इसी प्रकार इस सूत्रग्रन्थ में भी कहेंगे कि सूर्यमण्डल में हिरण्यमय (तेजोमय) पुरुष है, वह सब पापों से उदय (असम्बद्ध) परमात्मा ही है। इसी प्रकार (आकाशस्तञ्जिज्ञात्) इस सूत्र में आकाश शब्दार्थ परमात्मा को कहेंगे इत्यादि समझना चाहिये। उक्त रीति से सोपाधिक स्वरूप का वर्णन उपासनार्थक है, उसके निर्णय के लिये उत्तर ग्रन्थ की आवश्यकता है ही। इसी प्रकार शीघ्रमुक्ति का कारण आत्मज्ञान भी जहाँ उपाधि विशेष द्वारा उपदिश्यमान (उपदेश का विषय) है, और उपाधि द्वारा उपदेश होते भी जहाँ उपाधि की विवक्षा नहीं है, तो भी पर अपर ब्रह्म विषयकत्व का सदेह होने पर वाक्यों की गति (तात्पर्य) के विचार द्वारा वह निर्णयार्ह होता है। इस लिये भी ग्रन्थारम्भ है। जैसे यहाँ ही प्रथम (आनन्दमयोऽभ्यासात्) यह सूत्र है। इस प्रकार एक भी परब्रह्म उपाधि सम्बन्ध की अपेक्षा (विवक्षा) युक्त होने पर उपास्य रूप से और उपाधि सम्बन्ध की अपेक्षा के बिना ज्ञेय रूप से वेदान्तो में उपदेश का विषय होता है, इस अर्थ को प्रदर्शित कराने के लिये आगे के ग्रन्थ का आरम्भ किया

जाता है। और ( गति सामान्यात् ) इस सूत्र से जो अचेतन कारण का निराकरण कहा ( किया ) गया है, वह भी ब्रह्मविषयक वाक्यान्तरो के व्याख्यान करते हुए सूत्रकार से ब्रह्म से विपरीत कारणों के निषेध द्वारा विस्तृत किया जायगा।

### आनन्दमयोऽभ्यासात् ॥ १२ ॥

सक्षिमार्यं है कि ( ब्रह्मण उपक्रमादिसत्त्वेऽपि सविधेऽन्नमयादीना कीर्तनादानन्दमय-स्यार्थान्तरपरत्वस्य सशये पूर्वपक्षे च जाते सूत्रकृतोक्तवान्, यदानन्दमयशब्दार्थो मुख्यं ब्रह्मैव मन्तव्योऽभ्यासात्, न तु जीव इति ) ब्रह्म विषयक उपक्रमादि के रहते भी पास में अन्नमयादि के कथन से आनन्दमय सम्बन्धी अर्थान्तरता की शंका और पूर्वपक्ष के होने पर सूत्रकार ने कहा है कि आनन्दमय शब्द का अर्थ मुख्य ब्रह्म ही अभ्यास से मानने योग्य है।

### आनन्दमयाधिकरण ॥ ६ ॥

संसारी ब्रह्म वानन्दमयः संसार्यं भवेत् ।  
 विकारार्थमयट्शब्दात्प्रियाद्यवयवोक्तितः ॥ १ ॥  
 अभ्यासोपक्रमादिभ्यो ब्रह्मानन्दमयो भवेत् ।  
 प्राचुर्यार्थो मयट्शब्दो प्रियाद्याः स्युरुपाधिगाः ॥ २ ॥  
 अन्याङ्गं स्वप्रधानं वा ब्रह्मपुच्छमिति श्रुतम् ।  
 स्यादानन्दमयस्याङ्गं पुच्छेङ्गत्वप्रसिद्धितः ॥ ३ ॥  
 लाङ्गूलासंभवाद्ब्र पुच्छेनाधारलक्षणा ।  
 आनन्दमयजीवोऽस्मिन्नाश्रितोऽतः प्रधानता ॥ ४ ॥

श्रुतिगत आनन्दमय शब्द का अर्थ संसारी जीव है कि ब्रह्म है, ऐसी शंका होने पर पूर्वपक्ष है कि यह आनन्दमय का अर्थ संसारी हो सकता है, क्योंकि विकार अर्थ में मयट् प्रत्यय है, और आनन्दमय के प्रिय मोदादि अवयव कहे गये हैं, एवं ब्रह्म निविकार निरवयव है ॥ १ ॥

सिद्धान्त है कि अभ्यास और उपक्रमादि से आनन्दमय शब्द का अर्थ ब्रह्म ही हो सकता है। मयट् प्रत्यय प्राचुर्य ( बाहुल्य ) अर्थ में है, विकार में नहीं। तथा आनन्दमय के उपाधि विज्ञानमय में प्रियादि अवयव हैं, आनन्दमय में नहीं ॥ २ ॥

प्रकारान्तर से शंका है कि 'ब्रह्मपुच्छम्', इस श्रुत पद में ब्रह्म अन्य का अङ्ग ( अवयव ) कहा गया है, या ब्रह्म शब्द का स्वकीय अर्थ ही प्रधान है। पूर्व पक्ष है कि ब्रह्म आनन्दमय का अङ्गरूप से बोधित है। इससे स्वार्थ प्रधान नहीं है। लोक में भी पुच्छ में पशु का अङ्गत्व प्रसिद्ध है इससे भी प्रधानता नहीं है ॥ ३ ॥

सिद्धान्त है कि यहाँ आनन्दमय का लागूल ( पुच्छ ) ब्रह्म हो नहीं सकता, इससे

पुच्छ शब्द से लक्षणा द्वारा आधार का बोध होता है, और आनन्दमय नामक जीव इस ब्रह्म के आश्रित रहता है इससे ब्रह्म शब्द का स्वार्थ मे प्रधानता है ॥ ४ ॥

तैत्तिरीयकेऽन्नमयं, प्राणमय, मनोमयं, विज्ञानमयं, चानुक्रम्यान्नायते—  
‘तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः’ (तै० २।५) इति ।  
तत्र संशयः—किमिहानन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यत्प्रकृतम् ‘सत्यं  
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (तै० २।१) इति, किंवाऽन्नमयानिवद्ब्रह्मणोऽर्थान्तरमिति । कि  
तावत्प्राप्त ब्रह्मणोऽर्थान्तरममुख्य आत्मानन्दमयः स्यात् । कस्मात् ? अन्नमयाद्य-  
मुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात् । अथापि स्यात्सर्वान्तरत्वादानन्दमयो मुख्य एवात्मेति ।  
न स्यात्, प्रियाद्यवयवयोगाच्छारीरत्वश्रवणाच्च । मुख्यश्चेदात्माऽनन्दमयः  
स्यान्न प्रियादिसंस्पर्शः स्यात् । इह तु ‘तस्य प्रियमेव शिरः’ इत्यादि श्रूयते ।  
शारीरत्वं च श्रूयते—‘तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य’ इति । तस्य पूर्वस्य  
विज्ञानमयस्यैष एव शारीर आत्मा य एष आनन्दमय इत्यर्थः । नच सशारीरस्य  
सतः प्रियाप्रियसंस्पर्शो वारयितुं शक्यः । तस्मात्संसार्यैवानन्दमय आत्मा,  
इत्येवं प्राप्त इदमुच्यते—‘आनन्दमयोऽभ्यासात्’ ।

तैत्तिरीय श्रुति मे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, का क्रम से निरूपण  
करके उन्हें विशिष्टात्मा रूप से वर्णन करके फिर लिखा है (कहा गया है) कि  
( तस्माद्वा ) इत्यादि । उस उक्त विज्ञानमय से अन्य उसका अन्तरात्मा है, वह  
आनन्दमय है, इत्यादि । वहाँ संशय होता है कि यहाँ आनन्दमय शब्द से ( सत्यं  
ज्ञानमनन्त ब्रह्म ) जो इस वाक्य से परब्रह्म प्रकरण प्राप्त है, वही कहा जाता है अथवा  
अन्नमयादि के समान ब्रह्म से भिन्न ही अर्थ कहा जाता है । विचारणा हुई कि प्रथम  
प्राप्त क्या होता है । पूर्वपक्ष होता है कि ब्रह्म से भिन्न अमुख्य आत्मा आनन्दमय का  
अर्थ हो सकता है, क्योंकि अन्नमयादि रूप अमुख्य आत्मा के प्रवाह ( प्रकरण-निरूपण  
के परम्परा ) मे ही आनन्दमय भी पतित ( प्राप्तनिरूपित ) हुआ है । ऐसा होने पर  
भी यदि कहा जाय कि आनन्दमय को सर्वान्तरत्व होने से वह मुख्य ही आत्मा है,  
तो यह बात भी नहीं बन सकती है, क्योंकि उसमे प्रियमोदादि अवयवों का योग  
( सम्बन्ध ) कहा गया है, और शारीरत्व ( शरीर वृत्तित्व ) सुना गया है, मुख्यात्मा  
यदि आनन्दमय होता, तो उसमे प्रियादि अवयवों का सम्बन्ध नहीं होता, और यहाँ  
तो ( उसका प्रिय शिर है ) इत्यादि सुना जाता है । और शारीरत्व भी सुना जाता है  
कि ( जो उस पूर्व वर्णित विज्ञानमय का आत्मा है, सो वही शरीरवृत्ति आनन्दमय  
रूप आत्मा है ) और शरीर सहित रहने वाले को प्रियाप्रिय ( सुख-दुःख ) के सम्बन्ध  
का वारण नहीं किया जा सकता है, किस कारण से संसारी आत्मा ही आनन्दमय है,  
इस प्रकार पूर्वपक्ष के प्राप्त होने पर कहा जाता है कि—‘आनन्दमयोऽभ्यासात् ।’

पर एवात्मानन्दमयो भवितुमर्हति । कुतः ? अभ्यासात् । परस्मिन्नेव ह्यात्म-

न्यानन्दशब्दो बहुकृत्वोऽभ्यस्यते । आनन्दमयं प्रस्तुत्य 'रसो वैः सः' इति तस्यैव रसत्वमुक्तोच्यते—'रसश्चेवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' इति, 'को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्, यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्, एष ह्येवानन्दयति' (तै० २।७) 'सैषानन्दस्य मीमांसा भवति एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन' ( त० २।८, ६ ) इति । 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्' ( तैत्ति० ३।६ ) इति च । श्रुत्यन्तरे च—'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' ( बृ० ३।६२८ ) इति ब्रह्मण्येवानन्दशब्दो दृष्टः । एवमानन्दशब्दस्य बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासादानन्दमय आत्मा ब्रह्मेति गम्यते ।

परमात्मा ही आनन्दमय होने के योग्य है । यदि कहा जाय कि कैसे ? तो अभ्यास से आनन्दमय परमात्मा सिद्ध होता है । परमात्मा मे ही आनन्दशब्द का बहुत बार अभ्यास ( प्रयोग ) किया जाता है । आनन्दमय के प्रस्ताव ( प्रसंग ) करके लिखा है कि वह रस ( आनन्द ) है और वही इस प्रकार उस आनन्दमय के रसत्व को कहकर कहा जाता है कि ( रस सार तत्त्व ) को प्राप्त करके ही यह लोक आनन्दयुक्त होता है । कौन अन्यात् ( चले ) और कौन प्राण्यात् ( जीवे ) यदि यह आकाश ( पूर्ण ) आनन्द न हो । यह पूर्णानन्द ही सब को आनन्द देता है, आनन्दयुक्त करता है । मनुष्यानन्द से ब्रह्मानन्द तक यह आनन्द की विचारणा होती है । इस आनन्दमय आत्मा को प्राप्त करता है । ब्रह्मानन्द को जानने वाला किसी से नहीं डरता है । आनन्दस्वरूप ब्रह्मा है इस प्रकार भृगु ने समझा ( विज्ञानमानन्दं ब्रह्मा ) इस दूसरी श्रुति मे भी ब्रह्मार्थ मे ही आनन्दशब्द देखा गया है । इस प्रकार आनन्द शब्द का बहुत बार ब्रह्मविषयक अभ्यास से आनन्दमयरूप आत्मा ब्रह्मा है ऐसा समझा जाता है ।

यत्तूक्तम्—'अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वादानन्दमयस्याप्यमुख्यत्वमिति-  
नासौ दोषः । आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् । मुख्यमेव ह्यात्मानमुपदिदिक्षु  
शास्त्रं लोकबुद्धिमनुसरत् अन्नमयं शरीरमनात्मानमत्यन्तमूढानामात्मत्वेन  
प्रसिद्धमनूद्य मूषानिषिक्तद्रुतताम्रादिप्रतिमावत्ततोऽन्तरं ततोऽन्तरमित्येवं  
पूर्वेण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मानमात्मेति ग्राहयत् प्रतिपत्तिसौकर्यापेक्षया  
सर्वान्तरं मुख्यमानन्दमयमात्मानमुपदिदेशेति श्लिष्टतरम् । यथारुन्धतीनिदर्शने  
बह्वीष्वपि तारास्वमुख्यास्वरुन्धतीषु दर्शितासु यान्त्या प्रदर्शयते सा मुख्यैवारु-  
न्धती भवति, एवमिहाप्यानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वान्मुख्यमात्मत्वम् ।

जो यह कहा था कि अन्नमयादि अमुख्य ( गौण ) आत्मा के प्रसंग मे आनन्दमय के ज्ञान होने से आनन्दमय को भी अमुख्यत्व है । वहाँ कहा जाता है कि अमुख्य प्रवाह-  
पातजन्य अमुख्यत्व दोष आनन्दमय मे नहीं है, क्योंकि आनन्दमय को सर्वान्तरत्व है ।  
यदि इससे अभ्यन्तर अन्य कोई होता, तो उसकी अपेक्षा अन्नादिमय के समान यह भी  
अमुख्य होता, यह बात नहीं है । उस मुख्य ही आत्मा के उपदेश के इच्छुक शास्त्र ने

लोगो की बुद्धि का अनुसरण करता हुआ, अन्नमय अनात्मा शरीर जो अत्यन्त मूर्खों को आत्मरूप से प्रसिद्ध है उसका अनुवाद करके सोंचे में दिए हुए द्रुत तामे आदि की प्रतिमा के समान उसके अन्दर इस प्रकार पूर्व-पूर्व के समान उत्तर-उत्तर अनात्मा को ही ज्ञान की सुगमता की दृष्टि से प्रथम आत्मरूप से ग्रहण (ज्ञान) करता हुआ अन्त में सर्वान्तरमुख्य आनन्दमय आत्मा का उपदेश दिया है, ऐसा मानना अत्यन्त उचित है। जैसे अरुन्धती के प्रदर्शन (दिखाने) में प्रथम बहुत अमुख्य अरुन्धती ताराओं को देखने के बाद में जो अरुन्धती दिखाई जाती है वह मुख्य ही अरुन्धती रहती है। इसी प्रकार यहाँ भी आनन्दमय को सर्वान्तर होने से मुख्यात्मत्व है।

यत्तु ब्रूषे—प्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पनाऽनुपपन्ना मुख्यस्यात्मन इति—  
अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा न स्वाभाविकीत्यदोषः। शारीरत्वमप्यानन्दम-  
यस्यान्नमयादिशरीरपरम्परया प्रदर्श्यमानत्वात्, न पुनः साक्षादेव शारीरत्वं  
संसारिवत्, तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा ॥ १२ ॥

जो यह कहते हो कि मुख्य आनन्दमय में प्रियादि की शिर आदि रूप से कल्पना अयुक्त है, इसका उत्तर है कि वह शिर आदि की कल्पना आनन्दमय से पूर्वगत विज्ञान-मय रूप उपाधि जनित है स्वभावसिद्ध नहीं है, इससे कोई दोष नहीं है। और आनन्दमय को शरीर सम्बन्धित्व भी अन्नमयादि शरीरो की परंपरा से दिखलाया गया है। ससारी के समान साक्षात् शरीरत्व नहीं दिखलाया गया है, जिससे आनन्दमय परमात्मा ही है ॥ १२ ॥

विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् ॥ १३ ॥

विकारशब्दात् न इति चेत् न प्राचुर्यात्। इस प्रकार इस सूत्र में छः पद है। सक्षिप्तार्थ है कि (आनन्दमयशब्दे मयद्वैतयोरित्यादि। सूत्रेण विकारार्थे प्रत्ययसत्त्वा दानन्दमयशब्दो न ब्रह्मवाचक इति चेन्न, तत्प्रकृतवचने मयदिति सूत्रेण प्राचुर्यं (बाहुल्य) विशिष्टार्थेऽपि मयटोविधानात् सम्भवति ब्रह्मवाचकत्वमानन्दमयशब्दस्येति) आनन्दमय शब्द में (मयड्वा) इस सूत्र से विकार और अबयव अर्थ में प्रत्यय विधान के कारण विकार अर्थ में प्रत्यय है, इससे आनन्दमय शब्द निविकार ब्रह्म का वाचक नहीं है, इस शका का उत्तर है कि (तत्प्रकृत) इत्यादि सूत्र से बहुलता विशिष्ट (युक्त) अर्थ में मयट होता है, वही आनन्दमय में है, क्योंकि (द्व्यचश्छन्दसि) इस सूत्र से नियम किया गया है कि वैदिक शब्द में यदि विकारार्थ में मयट हो तो दो अच वाला ही से हो और आनन्द शब्द में तीन अच है, इससे आनन्दमय शब्द को ब्रह्मवाचकत्व है।

अत्राह—नानन्दमयः पर आत्मा भवितुमर्हति। कस्मात्, विकारशब्दात्। प्रकृतिवचनाद्यमन्यः शब्दो विकारवचनः समाधिगतः, आनन्दमय इति मयटो विकारार्थत्वात्। तस्मादन्नमयादिशब्दवद्विकारविषत एवानन्दमयशब्द इति चेत् न। प्राचुर्यार्थेऽपि मयटः स्मरणात्। 'तत्प्रकृतवचने मयट्' (पा०

५।३।२१) इति हि प्रचुरतायामपि मयट् स्मर्यते । यथा 'अन्नमयो यज्ञः' इत्यन्न-  
प्रचुर उच्यते । एवमानन्दप्रचुरं ब्रह्मानन्दमयम् उच्यते । आनन्दप्रचुरत्वं च  
ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्योत्तरस्मिन्ननुत्तरस्मिन्स्थाने शतगुण आनन्द इत्युक्त्वा  
ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वावधारणात् । तस्मात्प्राचुर्यार्थे मयट् ॥ १३ ॥

यहाँ पूर्वपक्षी कहता है कि आनन्दमय परमात्मा होने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें  
विकार वाचक मयट् शब्द है । ( तत्प्रकृत ) इत्यादि से जो मयट् होता है वह  
प्रकृति के बाहुल्य अर्थ में होता है । इसी प्रकार जो अन्य कोई प्रकृति का वाचक शब्द  
है उससे अन्य यह विकारवाचक शब्द मयट् समझा जाता है । तथा आनन्द शब्दार्थ  
से भिन्न अर्थ को मयट् कहता है, क्योंकि आनन्दमय इसमें मयट् को विकारार्थकत्व है ।  
जिससे आनन्दमय शब्द भी अन्नमयादि शब्दों के समान विकार वाचक है । इस शंका  
का उत्तर है कि—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राचुर्यार्थ में भी मयट् का विधान है ।  
'तत्प्रकृतवचने मयट्', बाहुल्यरूप से प्रस्तुत के वाचक से उसी संयुक्त अर्थ के कथन में  
मयट् होता है, जैसे कि ( अन्नमयो यज्ञ ) 'बहुत अन्न जिसमें है ऐसा यज्ञ है', यहाँ अन्न  
की अधिकता की प्रतीति होती है और वही मयट् की प्रकृति है, इसी प्रकार आनन्द के  
बाहुल्य युक्त ब्रह्म आनन्दमय कहा जाता है । और मनुष्यत्व से आरम्भ करके उत्तर  
स्थानों में शतगुण अधिक आनन्दों को कहकर ब्रह्मानन्द को सर्वोत्तम निश्चय करने से  
ब्रह्म में आनन्द बाहुल्य सिद्ध होता है । इस हेतु से प्राचुर्यार्थ में (ही यहाँ) मयट् है ॥१३॥

### तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥

इतश्च प्राचुर्यार्थे मयट् । यस्मादानन्दहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिशति श्रुतिः—  
'एष ह्येवानन्दयाति' इति । आनन्दयतीत्यर्थः । यो ह्यन्यानानन्दयति स प्रचुरा-  
नन्द इति प्रसिद्धं भवति । यथा लोके योऽन्येषां धनिकत्वमापादयति स प्रचुर-  
धन इति गम्यते, तद्वत् । तस्मात्प्राचुर्यार्थेऽपि मयटः सम्भवादानन्दमयः पर  
एवात्मा ॥ १४ ॥

इस वक्ष्यमाण ( आगे कथित ) हेतु से भी आनन्दमय में प्राचुर्य अर्थ में मयट् प्रत्यय  
है, जिससे श्रुति आनन्दमय ब्रह्म को ( तस्य हेतुस्तद्धेतुः ) उस जीव सम्बन्धी  
आनन्दों का हेतु कहती है कि यही सबको आनन्दयुक्त करता है । एवं जो अन्य  
को आनन्दयुक्त करता है वह बहुत आनन्द वाला है, यह प्रसिद्ध निश्चित होता है ।  
जैसे लोक में जो अन्य को धनिकत्व सिद्ध करता है, वह प्रचुरधन ( अधिक धन )  
वाला समझा जाता है, वैसे ही ब्रह्म प्रचुरानन्द वाला समझा जाता है । जिससे  
प्राचुर्यार्थ में भी मयट् के हो सकने से आनन्दमय परमात्मा ही है । सूत्रार्थ भाष्यार्थ से  
ही स्पष्ट हो गया है ॥ १४ ॥

## मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५ ॥

इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा, यस्मात्, 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' इत्युपक्रम्य 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ( तै० २।१ ) इत्यस्मिन्मन्त्रे यत्प्रकृतं ब्रह्म सत्यज्ञानानन्तविशेषणैर्निर्धारितं, यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतान्यजायन्त, यच्च भूतानि सृष्ट्वा तान्यनुप्रविश्य गुहायामवस्थितं सर्वान्तरं, यस्य विज्ञानाय 'अन्योऽन्तर आत्मान्योऽन्तर आत्मा' इति प्रकान्तं तन्मात्रवर्णिकमेव ब्रह्मेह गीयते 'अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः' ( तै० २।५ ) इति । मन्त्रब्राह्मणयोश्चैकार्थत्वं युक्तम्, अविरोधात् । अन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये स्याताम् । न चान्नमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽन्तर आत्माभिधीयते । 'एतन्निष्ठैव च सैषा भार्गवी वारुणी विद्या' ( तै० ३।६ ) तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा ॥ १५ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी आनन्दमय परमात्मा ही है, जिससे ( ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म को प्राप्त करता है ) इस प्रकार उपक्रम ( आरम्भ ) करके मन्त्र लिखा है कि ( सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ) सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है । वहाँ इस मन्त्र में जो ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त रूप विशेषणों द्वारा निर्धारित ( निश्चित ) हुआ है, और जिससे आकाशादि क्रम से स्थावर, जगम सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और जो भूतो को रच कर और उनमें प्रविष्ट हो हृदयगत बुद्धिकोशरूप गुहा में सर्वान्तर स्वरूप से स्थिर है, एव जिसके विज्ञान के लिये अन्य अन्तरात्मा है, इस प्रकार प्रकृत क्रम किया और कहा गया है, वही मन्त्रात्मक वर्ण ( शब्द ) में प्रतिपादनीय रूप से वर्तमान ब्रह्म इस ब्राह्मण वाक्य में भी गाया ( कहा ) गया है ( अन्य अन्तरात्मा आनन्दमय है ) । क्योंकि व्याख्येय और व्याख्यान रूप मन्त्र और ब्राह्मण को एकार्थवत्त्व होना भी उचित है, ऐसा होने से दोनों में अविरोध होता है । अन्यथा मन्त्र से ब्राह्मण के भिन्नार्थक होने पर प्रकृत की हानि ( प्रकरणप्राप्त का त्याग ) और अप्रकृत की प्रक्रिया ( अप्रकृतार्थ का आरम्भ स्वीकार ) रूप दोष होगा, यद्यपि मन्त्र के व्याख्यान रूप अन्नमयादि का वर्णन भी है, परन्तु उनसे अन्य अन्य अन्तरात्मा के वर्णन से उनमें अमुख्यता सिद्ध हो जाती है, और उनके समान आनन्दमय से अन्य अन्तरात्मा का कथन नहीं है । यह भृगु को दी गई वरुण से उपदिष्ट भाग की वारुणी विद्या भी एतन्निष्ठ ( आनन्दमय में ही परिनिष्ठित ) है, इससे आनन्दमय परमात्मा ही है । इन दोनों सूत्रों में चकार हेतु अर्थ में पढा गया है और इस सूत्र का अर्थ भी भाष्यार्थ से स्पष्ट हो गया है ॥ १५ ॥

## नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६ ॥

इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा नेतरः । इतर ईश्वरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः । न जीव आनन्दमयशब्देनाभिधीयते । कस्मात् ? अनुपपत्तेः । आनन्द-

मयं हि प्रकृत्य श्रूयते—‘सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ इति । ‘स तपोऽत्पद्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च’ ( तै० २।६ ) इति । तत्र प्राक्शरीराद्युत्पत्तेरभिधानं सृज्यमानानां च विकाराणां स्रष्टुरव्यतिरेकः सर्वविकारसृष्टिश्च न परस्मादात्मनोऽन्यत्रोपपद्यते ॥ १६ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी आनन्दमय परमात्मा ही है, इतर ( ईश्वर से अन्य संसारी जीव ) आनन्दमय नहीं है, अर्थात् आनन्दमय शब्द से जीव नहीं कहा जाता है, प्रश्न होता है कि क्यों नहीं कहा जाता ? उत्तर है कि—अनुपपत्ति ( असम्भव, अयुक्तता ) से नहीं कहा जाता है । कैसी अनुपपत्ति है ? इस अर्थ को दर्शाने के लिये कहा जाता है कि, आनन्दमय का प्रसङ्ग करके उसी के प्रकरण में सुना जाता है कि ( वह आनन्दमय रूप ईश्वर ने इच्छा की कि मैं बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊँ । फिर उसने सृष्टि का विचार रूप तप किया और वह तप करके इस संसार को रचा, और जो कुछ वस्तु है सबको बनाया इत्यादि । वहाँ शरीरादि की उत्पत्ति से पूर्वकाल में सृष्टि का चिन्तन विचार और सृष्टि क्रिया से उत्पन्न होने वाले सब विकारो ( कार्यों ) से सृष्टि करने वाले का अभेद ( एकता ) और सब विकार की सृष्टि, ये तीनों बातें परमात्मा के बिना अन्य में नहीं बन सकती हैं, इस हेतु से आनन्दमय परमात्मा ही जीव नहीं यह सूत्र पूर्वपक्ष का उत्तर रूप है ॥ १६ ॥

### भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७ ॥

इतश्च नानन्दमयः संसारी, यस्मादानन्दमयाधिकारे—‘रसो वै सः, रसश्चोवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ ( तै० २।७ ) इति जीवानन्दमयौ भेदेन व्यपदिशति । नहि लब्धैव लब्धव्यो भवति । कथं तर्हि ‘आत्मान्वेष्टव्यः’ ‘आत्मलाभान्न परं विद्यते’ इति च श्रुतिस्मृती, यावता न लब्धैव लब्धव्यो भवतीत्युक्तम् । षाडम् । तथाप्यात्मनोऽप्रच्युतात्मभावस्यैव सतस्तत्त्वानवबोधनिमित्तो मिथ्यैव देहादिष्वनात्मस्वात्मत्वनिश्चयो लौकिको दृष्टः, तेन देहादिभूतस्यात्मनोऽप्यात्मानन्विष्टोऽन्वेष्टव्योऽलब्धो लब्धव्योऽश्रुतः श्रोतव्योऽमतो मन्तव्योऽविज्ञातो विज्ञातव्य इत्यादिभेदव्यपदेश उपपद्यते । प्रतिषिध्यत एव तु परमार्थतः सर्वज्ञात्परमेश्वरादन्यो द्रष्टा श्रोता वा ‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ ( बृ० ३।७।२३ ) इत्यादिना । परमेश्वरस्त्वविद्याकल्पिताच्छरीरात्कर्तुर्भोक्तुर्विज्ञानात्माख्यादन्यः । यथा मायाविनश्चर्मखङ्गधरात्सूत्रेणाकाशमधिरोहतः स एव मायावी परमार्थरूपो भूमिष्ठोऽन्यः । यथा वा घटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्नान्दनुपाधिपरिच्छिन्न आकाशोऽन्यः । ईदृशं च विज्ञानात्मपरमात्मभेदमाश्रित्य ‘नेतरोऽनुपपत्तेः’ ‘भेदव्यपदेशाच्च’ इत्युक्तम् ॥ १७ ॥

पूर्व सूत्रगत अनुपपत्ति रूप हेतु के साथ समुच्चय ( एकार्थत्व ) द्योतन के लिए च शब्द है । अतः पूर्वोक्त हेतु के समान इस हेतु ( कारण ) से भी आनन्दमय संसारी जीव नहीं



है। आनन्दमय के अधिकार ( प्रकरण ) में श्रुति है कि ( वह आनन्दमय परमात्मा रस ( आनन्दस्वरूप ) है, और यह जीव उस आनन्द को पाकर आनन्द वाला होता है। इस प्रकार यह श्रुति जीव और आनन्दमय को भेदपूर्वक कथन करती है, क्योंकि प्राप्त करने वाला कर्ता ही प्राप्त करने योग्य प्राप्ति क्रिया का कर्म नहीं होता है ? लोक में कर्ता कर्म का भेद प्रसिद्ध है, इससे जीव रूप प्राप्तिकर्ता से आनन्दमय भिन्न है। यहाँ शंका होती है कि, यदि कर्ता कर्म का भेद निश्चित है जिससे लब्धा ( लाभ कर्ता ) लब्धव्य ( लाभ का कर्म ) नहीं होता है तो, 'आत्माऽन्वेष्टव्यः' आत्मलाभात्परं विद्यते। आत्मा का अन्वेषण ( खोज-विचार ) करना चाहिये। आत्मा की प्राप्ति से उत्तम कोई वस्तु वा क्रिया नहीं है, इस प्रकार के श्रुति स्मृति कैसे सगत हो सकती है। सिद्धान्त रूप उत्तर दिया जाता है कि यह शंका ठीक ही है, तो भी अप्रच्युत ( अनष्ट ) आत्मभाव युक्त वर्तमान आत्मा के ही सत्य स्वरूप के अज्ञान निमित्तक ( अज्ञानजन्य ) देहादि रूप अनात्मा में मिथ्या ही आत्मत्व का लौकिक ( भ्रम रूप लोक में प्रसिद्ध ) निश्चय ज्ञान देखा जाता है, जो प्रत्यक्ष है। इससे मिथ्या ज्ञान द्वारा देहादिरूपता को प्राप्त आत्मा का भी अन्विष्ट ( प्राप्त विचारित ) देहादि से भिन्न आत्मा है, इससे अनन्विष्ट है, इससे अन्वेषण योग्य है। इसी प्रकार अलब्ध है इससे लब्धव्य है, अश्रुत है इससे श्रोतव्य है। अमत ( मनन का अविषय ) है, इससे मन्तव्य है। अविज्ञात है इससे अविज्ञातव्य ( जानने योग्य ) है इत्यादि भेद का व्यवहार बनता है। एवं अज्ञान औपाधिक मिथ्या भेद निमित्तक सब व्यवहार होते हुए भी परमार्थ रूप से तो सर्वज्ञ परमेश्वर से अन्य द्रष्टा वा श्रोता का श्रुति से निषेध ही किया जाता है कि ( नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ) इस परमात्मा से अन्य द्रष्टा नहीं है इत्यादि। इससे सत्यात्मा से यद्यपि मिथ्या जीव भिन्न सत्ता वाला नहीं है, तो भी अविद्या कल्पित जो जीव शरीराभिमान की कर्ता भोक्ता विज्ञानात्मा नाम वाला है उससे परमेश्वर अन्य है। जैसे कि ढाल और तरवार लेकर सूत्र ( तन्तु ) द्वारा आकाश में चढ़ते हुए मायावी ( नट ) से अन्य वही सत्य मायावी भूमि में स्थिर रहता है। अथवा उपाधि से परिच्छिन्न ( एकदेशी ) आकाश से जैसे उपाधि से अपरिच्छिन्न विभु आकाश भिन्न रहता है, और इस प्रकार के कल्पित जीव परमात्मा के भेद को मानकर 'नेतरोनुपपत्तेः, भेदव्यपदेशाच्च' यह कहा गया है ॥ १७ ॥

### कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८ ॥

संक्षिप्तार्थ है कि 'जीवात्मन आनन्दमयत्वानुपपत्तावपि, अनुमानमपेक्षते स्वसिद्धा-वित्यनुमानापेक्षा प्रकृतिः सत्त्वप्रचुराऽऽनन्दमयः स्यादित्याशङ्क्यामाह—कामादपि प्रकृति-नानन्दमय' इति। जीवात्मा के आनन्दमय नहीं हो सकने पर भी अपनी सिद्धि में अनुमान की अपेक्षा रखने वाली प्रकृति सत्त्वाधिक्य युक्त होने से आनन्दमय हो सकती है। ऐसी शंका होने पर सूत्रकार ने कहा है कि काम के श्रवण से भी प्रकृति आनन्दमय नहीं हो सकती है।

आनन्दमयाधिकारे च 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' ( तै० २।६ ) इति कामयितृत्वनिर्देशान्नानुमानिकमपि सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानमानन्दमयत्वेन कारणत्वेन वापेक्षितव्यम् । 'ईक्षतेर्नाशब्दम्' ( ब्र० १।१।५ ) इति निराकृतमपि प्रधानं पूर्वसूत्रोदाहृतां कामयितृत्वश्रुतिमाश्रित्य प्रसङ्गात्पुनर्निराक्रियते गतिसामान्यप्रपञ्चनाय ॥ १८ ॥

आनन्दमय के प्रकरण मे ( उसने कामना की कि बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊँ ) इस प्रकार इच्छा कर्तृत्व रूप से आनन्दमय का कथन है, इससे और अनुमान से सिद्ध भी सांख्य से परिकल्पित अचेतन प्रधान आनन्दमय रूप वा स्वतन्त्र कारण रूप से मन्तव्य नहीं है । ईक्षतेर्नाशब्दम्, इस सूत्र से प्रथम ही प्रधान निराकृत ( खडित ) हो चुका है, तो भी उस उक्त, 'ईक्षति' सूत्र मे उदाहरण रूप से पठित कामकर्तृत्व श्रुति का आश्रयण करके, वेदान्त की गति सामान्य का विस्तार से कथन के लिये प्रसङ्गवश प्रधान का फिर निराकरण किया गया है कि अनुमीयते, इति अनुमानं प्रधान तस्यापेक्षा ( सम्बन्ध ) आनन्दमये नैव भवति कामश्रवणात् । अनुमान से जाना जाय उसको भी अनुमान कहते हैं, ऐसा जो प्रधान उसका आनन्दमय वाक्य मे वाच्य रूप से सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ काम का श्रवण है, जड में काम नहीं हो सकता । कामादि को श्रुति मे जो मन रूप कहा गया है, सो उपादानता निमित्तत्वादि दृष्टि से कहा गया है, कर्तृत्व दृष्टि से नहीं, यहाँ कर्तृत्व का वर्णन है ॥ १८ ॥

### अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९ ॥

इतश्च न प्रधाने जीवे वाऽनन्दमयशब्दः, यस्मादस्मिन्नानन्दमये प्रकृत आत्मनि प्रतिबुद्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति, तदात्मना योगस्तद्योगः, तद्भावापत्तिः मुक्तिरित्यर्थः । तद्योगं शास्ति शास्त्रम्—'यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोऽभयं गतो भवति, यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवति' ( तै० २।७ ) इति । एतदुक्तं भवति । यदैतस्मिन्नानन्दमयेऽल्पमप्यन्तरमतादात्म्यरूपं पश्यति तदा संसारभयान्न निवर्तते । यदा त्वेतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं तादात्म्येन प्रतिष्ठति तदा संसारभयान्निवर्तत इति । तच्च परमात्मपरिग्रहे घटते, न प्रधानपरिग्रहे जीवपरिग्रहे वा । तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम् ।

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी प्रधान वा जीव में आनन्दमय शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता कि जिससे इस प्रकरण प्राप्त आनन्दमय रूप आत्मा मे प्रतिबुद्ध ( ज्ञानी ) इस जीवात्मा का तद्योग ( तद्भाव से सम्बन्ध ) का अर्थात् ( अभेद ) का शास्त्र उपदेश देता है, तद्भावापत्ति रूप मुक्ति का वर्णन करता है कि ( जिस काल में यह जीव, इस अदृश्य स्थूल जगतरहित ) अनात्म्य ( लिङ्गरहित ) अवाच्य प्रकृति पार वस्तु मे, जिस प्रकार अभय हो उस रीति से चित्त की स्थिति का लाभ करता है, उसी समय वह अभय को

प्राप्त हो जाता है। और जिस काल में अल्प भी अन्तर (भेद) करता (समझता) है तो उस काल में उसको भय होता है, इससे यह कहा गया है कि जब इस आनन्दमय में अल्प भी अतादात्म्य (अब्रह्मत्व) रूप भेद को पुरुष देखता है, तब संसार भय से रहित नहीं होता है। और जब इस आनन्दमय ब्रह्म में निरन्तर (सदा) तद्रूप से स्थिर (ब्रह्मनिष्ठ) होता है, सदा निजात्मा रूप से आनन्दमय को जानता है, तब संसार-भय से रहित होता है। यह पूर्व वर्णित श्रुति का कथन तब संघटित (युक्त) हो सकता है कि जब आनन्दमय शब्द से परमात्मा को समझा जाय। और आनन्दमय से प्रधान वा जीव को समझने पर पूर्व कथन संघटित नहीं हो सकता है, इससे आनन्दमय परमात्मा है यह स्थित (सिद्ध) हुआ।

इदं त्विह वक्तव्यम्—‘स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः’ ‘तस्माद्वा एतस्माद्-  
न्नरसमयात्, अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः’ ‘तस्मात् अन्योऽन्तर आत्मा मनो-  
मयः’ ‘तस्मात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः’ (तै० २।१,२,३,४) इति च  
विकारार्थे मयट्प्रवाहे सत्यानन्दमय एवाकस्मादर्धजरतीयन्यायेन कथमिव मयट्:  
प्राचुर्यार्थत्वं ब्रह्मविषयत्वं चाश्रीयत इति। मान्त्रवर्णिकब्रह्माधिकारादिति चेत् ?  
न। अन्नमयादीनामपि तर्हि ब्रह्मत्वप्रसङ्गः।

इस पूर्वोक्त मयट् के प्राचुर्यादि रूपार्थकता युक्त व्याख्यान में यह वक्तव्य (दोष) या वचनार्ह है कि (सो यह पुरुष अन्नरसमय है) इस पूर्वोक्त इस अन्नरसमय से अन्य अन्तरात्मा प्राणमय है। उससे अन्य अन्तरात्मा मनोमय है। उससे अन्य अन्तरात्मा विज्ञानमय है, इस प्रकार विकारार्थक<sup>१</sup> मयट् के प्रवाह रहते अकस्मात् (कारण के बिना) आनन्दमय में ही अर्द्धजरती न्याय से मयट् को प्राचुर्यार्थकत्व और ब्रह्मविषयत्व किस प्रकार माना जाता है। यदि कहा जाय कि मन्त्र में वर्णित ब्रह्म का प्रकरण होने से माना जाता है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रकरण से यदि आनन्दमय ब्रह्म का वाचक हो तो अन्नमयादि को भी ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी।

अत्राह—युक्तमन्नमयादीनामब्रह्मत्वं, तस्मात्तस्मादान्तरस्यान्तरस्यान्यस्या-  
न्यस्यात्मन उच्यमानत्वात्, आनन्दमयात् न कश्चिदन्योऽन्तर आत्मोच्यते,  
तेनानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम्, अन्यथा प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गादिति।

यहाँ पूर्वपक्षी कहता है कि अन्नमयादि को अब्रह्मता उचित है, क्योंकि इस अन्न-  
मयादि से अन्य अन्य अन्तरात्मा कहा गया है। और आनन्दमय से अन्य कोई अन्त-

१. यहाँ शंका होती है कि (द्व्यचरच्छन्दसि) इस नियम सूत्र के अनुसार, अन्नर-  
समय, विज्ञानमय और आनन्दमय में विकारार्थक मयट् हो नहीं सकता है, उसका  
उत्तर है कि (नित्यं वृद्धशरादिभ्यः) इस सूत्र के आरम्भ सामर्थ्य से ही नित्यत्व के सिद्ध  
होते हुए भी नित्यग्रहण से अर्थ होता है कि लोक में वृद्ध शरादि से विकारार्थ में नित्य  
मयट् होता है, और छन्द में भी कहीं होता है।

रात्मा नहीं कहा जाता है, इससे आनन्दमय को ब्रह्मता है, अन्यथा प्रकृत की हानि और अप्रकृत की प्रक्रिया प्राप्त होगी ।

अत्रोच्यते—यद्यप्यन्नमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽन्तर आत्मेति न श्रूयते तथापि नानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं, यत आनन्दमयं प्रकृत्य श्रूयते—‘तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ ( तै० २।५ ) इति । तत्र यद्ब्रह्म मन्त्रवर्णं प्रकृतम्—‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इति, तदिह ‘ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्युच्यते । तद्विजिज्ञापयिष्यैवान्नमयादयं आनन्दमयपर्यन्ताः पञ्चकोशाः कल्पन्ते, तत्र कुतः प्रकृतहानाऽप्रकृतप्रक्रिया-प्रसङ्गः । नन्वानन्दमयस्यावयवत्वेन ‘ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्युच्यते, अन्नमया-दीनामिव ‘इदं पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्यादि, तत्र कथं ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं शक्यं विज्ञातुम् । प्रकृतत्वादिति ब्रूमः । नन्वानन्दमयावयवत्वेनापि ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं हीयते, आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति ।

यहाँ कहा जाता है कि यद्यपि अन्नमयादि से पर ( अन्य ) आत्मा के समान आनन्दमय से अन्य अन्तरात्मा नहीं सुना जाता है, तथापि आनन्दमय को ब्रह्मत्व नहीं है, क्योंकि आनन्दमय का आरम्भ करके उसके प्रकरण में सुना जाता है कि ( उस आनन्दमय का प्रिय ( इष्टार्थं दर्शनजन्यसुख ) शिर है, मोद ( इष्ट को प्राप्तिजन्य सुख ) दक्षिण पाख है, प्रमोद ( इष्टोपभोगजन्य सुख ) उत्तर पाँख है, और आनन्द रूप चेतन उसका आत्मा है, विभु शुद्ध ब्रह्म उसका पुच्छ और प्रतिष्ठा ( आश्रय ) है इत्यादि । वहाँ जो ब्रह्म मन्त्राक्षर मे प्रकृत है—( सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है ) वही ब्रह्म यहाँ पुच्छ प्रतिष्ठारूप कहा जाता है । और उसी ब्रह्म को समझाने की इच्छा से ही अन्नमयादि आनन्दमय पर्यन्त पंचकोश कल्पित होते हैं । इस व्यवस्था मे प्रकृत हान और अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसङ्ग किस हेतु से है ? पूर्वपक्षी कहता है कि जैसे अन्नमयादि को यह पृथिवी आदिपुच्छ प्रतिष्ठा है यह कहा गया है, वैसे ही आनन्दमय के अवयव रूप से ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा कहा गया है, तो इस अवस्था मे ब्रह्म को स्वयं प्रधानत्व कैसे समझा जा सकता है ? उत्तर है कि ब्रह्म का प्रकरण है, इससे हम ब्रह्म को प्रधान कहते हैं । पूर्वपक्षी कहता है कि आनन्दमय के अवयव रूप से भी ब्रह्म के विज्ञात स्वोक्त होने पर ब्रह्म का प्रकृतत्व ( प्रकरण ) नष्ट नहीं होता है, क्योंकि आनन्दमय को ब्रह्मत्व है ।

अत्रोच्यते—तथा सति तदेव ब्रह्मानन्दमय आत्मावयवी, तदेव च ब्रह्म-पुच्छं प्रतिष्ठावयव इत्यसामञ्जस्यं स्यात् । अन्यतरपरिग्रहे तु युक्तं ‘ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्यत्रैव ब्रह्मनिर्देश आश्रयितुं ब्रह्मशब्दसंयोगात्, नानन्दमयवाक्ये ब्रह्मशब्दसंयोगाभावादिति । अपि च ‘ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्युक्त्वेदमुच्यते—‘तदप्येष श्लोको भवति, असन्नेव स भवति, असद्ब्रह्मेति वेद चेत्, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, सन्तमेनं ततो विदुः’ ( तै० २।६ ) इति । अस्मिन्न श्लोकेऽननु-

कृष्यानन्दमयं ब्रह्मण एव भावाभाववेदनयोर्गुणदोषाभिधानाद्ब्रह्म्यते—‘ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्यत्र ब्रह्मण एव स्वप्रधानत्वमिति । न चानन्दमयस्यात्मनो भावाभावशङ्का युक्ता, प्रियमोदादिविशेषस्यानन्दमयस्य सर्वलोकप्रसिद्धत्वात् । कथं पुनः स्वप्रधानं सद्ब्रह्म आनन्दमयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते—‘ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इति । नैष दोषः । पुच्छत्वपुच्छं प्रतिष्ठा परायणमेकनीडं लौकिकस्यानन्दजातस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते, नावयवत्वम्, ‘एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ ( बृह० ४।३।३२ ) इति श्रुत्यन्तरात् । अपि च आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सविशेषं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यम् । निर्विशेषं तु ब्रह्म वाक्यशेषे श्रूयते, वाङ्मनसयोरगोचरत्वाभिधानात्—‘यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्, न बिभेति कुतश्चन इति’ ( तै० २।६ ) । अपि च आनन्दप्रचुर इत्युक्ते दुःखास्तित्वमपि गम्यते, प्राचुर्यस्य लोके प्रतियोग्यत्वपापेक्षत्वात् । तथाच सति ‘यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ ( छा० ७।२।४१ ) इति भूमि ब्रह्मणि तद्व्यतिरिक्ताभावश्रुतिरुपरुध्येत । प्रतिशरीरं च प्रियादिभेदानन्दमयस्यापि भिन्नत्वम् । ब्रह्म तु न प्रतिशरीरं भिद्यते ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तै० २।१ ) इत्यानन्त्यश्रुतेः, ‘एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा’ ( श्वे० ६।११ ) इति च श्रुत्यन्तरात् ।

यहाँ कहा जाता है कि उक्त रीति से मानने पर वही ब्रह्म आनन्दमय आत्मारूप अवयवी ( प्रधान ) है, और वही ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा अवयव ( अप्रधान ) है, इस प्रकार अयुक्तता होगी । दोनों मे से एक का ब्रह्म रूप से ग्रहण करना हो तो, ‘ब्रह्म-पुच्छं प्रतिष्ठा’, इसी वाक्य मे ब्रह्म का कथन मानने योग्य है, क्योंकि ब्रह्म शब्द का इसमे सम्बन्ध है । आनन्दमय वाक्य मे ब्रह्म का कथन मानने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमे ब्रह्म शब्द के सम्बन्ध का अभाव है । ‘ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा’ यह कहकर फिर यह कहा गया है कि उक्तार्थ मे यह श्लोक है कि ( असन्नेव ) इत्यादि । ब्रह्म असत् है ( नहीं है ) ऐसा जो जानता है सो स्वयं आपही असत् होता है, और जानता है कि ब्रह्म है तो उसको ज्ञानी लोग ब्रह्म रूप से सत् समझते हैं । इस श्लोक मे आनन्दमय का सम्बन्ध अनुवृत्ति नहीं करके ब्रह्म के ही भाव और अभाव की ज्ञान दशा ( अवस्था ) मे गुण और दोष के कथन से समझा जाता है कि ‘ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा’ इस वाक्य मे ब्रह्म ही स्वयं प्रधान है, और आनन्दमय रूप आत्मा के भावाभाव की शंका तो युक्त नहीं हो सकती, क्योंकि प्रियमोदादिविशेषगुण वाला आनन्दमय सब लोक मे प्रसिद्ध है । यदि कहो कि श्रुति मे सिद्धान्त के अनुसार स्वयं प्रधान सत् ब्रह्म आनन्दमय के पुच्छ रूपसे कैसे कहा गया है कि आनन्दमय का ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है । तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि पुच्छशब्द का मुख्य वाच्यार्थ तो संगत नहीं हो सकता है, इससे सादृश्य अर्थ में लाक्षणिक प्रयोग है । भाव यह है कि

जैसे पक्षी का पुच्छ उड़ने आदि में आधार होता है, वैसे ही पुच्छ के तुल्य यह ब्रह्मानन्द प्रतिष्ठा परम आयतन ( वास स्थान ) और एक नीड ( अद्वितीय आश्रय ) सब लौकिक आनन्दों का है, यह अर्थ यहाँ विवक्षित है। अर्थात् आनन्द स्वरूप ब्रह्म सब आनन्दादि का हेतु और अधिष्ठान है, अवयवत्व विवक्षित नहीं है। क्योंकि दूसरी श्रुति कहती है कि इसी ब्रह्मानन्द के मात्रा ( स्वल्पाश ) का उपभोग सब प्राणी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि आनन्दमय को ब्रह्म माना जायगा तो उसे प्रियादि अवयव वाला होने से सविशेष ( सगुण ) ब्रह्म को स्वीकार करना होगा, और निर्गुण ब्रह्म वाक्यशेष ( अगवाक्य ) में सुना जाता है, क्योंकि वाक् और मन की अगोचरता ( अविषयता ) का वाक्य शेष में कथन है कि मन सहित बाणी जिसको प्रकाश करने और कहने में असमर्थ होकर निवृत्त होती है, जिसको प्राप्त नहीं कर सकती है, उस ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला किसी से नहीं डरता है। और आनन्दमय को बहुत आनन्दयुक्त कहने पर उसमें दुःख की सत्ता भी प्रतीत होती है। अनुमान से दुःख की सत्ता समझी जाती है, क्योंकि लोक में प्रतियोगी ( विरोधी सम्बन्धी ) की अल्पत्व की अपेक्षा से अन्य में प्रचुरता ( अधिकता ) की सिद्धि होती है। ब्रह्म में अल्प दुःख की सत्ता मानने पर जिस ब्रह्म में जो अन्य को नहीं देखता है, नहीं सुनता है, न अन्य को जानता है, वही भूमा विभु ब्रह्म है। इस रीति से ब्रह्म में ब्रह्म से भिन्न वस्तु के अभावों को कहने वाली श्रुति बाधित होगी। प्रतिशरीर ( सब शरीर ) में प्रियमोदादि के भेद से आनन्दमय को भी भेद है, सब में एक आनन्दमय नहीं है, और ब्रह्म प्रत्येक शरीर में भिन्न नहीं होता है, क्योंकि ( सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ) यह अनन्तता विभुता सुनी गई है, और दूसरी श्रुति है कि ( एको देव. ) एक परम देव ब्रह्म सब प्राणी में छिपा है, सब में व्यापक और सब प्राणी की अन्तरात्मा है।

न चानन्दमयस्याभ्यासः श्रूयते, प्रातिपदिकार्थमात्रमेव हि सर्वत्राभ्यस्यते—‘रसो वै सः, रसश्छेवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति, को ह्यवान्यात्कः प्राण्यात्, यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्, एष ह्यवानन्दयाति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति’ ‘आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चनेति’ ( तै० २।७।१६ ) ‘आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्’ ( तै० ६।६ ) इति च। यदि च आनन्दमयशब्दस्य ब्रह्मविषयत्वं निश्चितं भवेत्, तत उत्तरेष्वानन्दमात्रप्रयोगेष्वप्यानन्दमयाभ्यासः कल्प्येत, न त्वादन्दमयस्य ब्रह्मत्वमस्ति, प्रियशिरस्त्वादिभिर्हेतुभिरित्यवोचाम। तस्माच्छ्रुत्यन्तरे ‘विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ ( बृ० ३।६।२८ ) इत्यानन्दप्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोगदर्शनात् ‘यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्’ इत्यादिर्ब्रह्मविषयः प्रयोगो न त्वानन्दमयाभ्यास इत्यवगन्तव्यम्।

यस्त्वयं मयडन्तस्यैवानन्दशब्दस्याभ्यासः—‘एतमानन्दमयमात्मानमुपसं-  
क्रामति’ ( तै० २।८ ) इति,— तस्य ब्रह्मविषयत्वमस्ति विकारात्मनामेवान्न-  
मयादीनामनात्मनामुपसंक्रामितव्यानां प्रवाहे पठितत्वात् ।

अभ्यास से आनन्दमय को ब्रह्म कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आनन्दमय का अभ्यास नहीं सुना जाता है, किन्तु मयट् प्रत्यय का आश्रय जो आनन्दरूप प्रातिपदिक उसी के अर्थमात्र का ही अभ्यास किया गया है कि ( वह रस है, वह रस को ही पाकर आनन्दयुक्त होता है । कौन चले या कौन जीवे, यदि वह विभु आनन्द न हो । वही आनन्द देता है । यही उस आनन्द की विचारणा है । ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला किसी से नहीं डरता है । आनन्द ब्रह्म है, ऐसा समझा ) इत्यादि । यदि कहा जाय कि यद्यपि आनन्दमात्र का अभ्यास है तथापि वह लक्षणावृत्ति से आनन्दमय का बोधक है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यदि आनन्दमय शब्द को ब्रह्मवाचकत्व निश्चित हो, तो उससे आगे के आनन्दमात्र के प्रयोग ( कथनो ) में आनन्दमय के अभ्यास की कल्पना लक्षणा से की जाय । इसलिए आनन्दमय को प्रियशिरस्त्वादि हेतुओं से ब्रह्मत्व नहीं है यह बात कही जा चुकी है । इससे दूसरी श्रुति में ( विज्ञानमानन्द ब्रह्म ) इस प्रकार आनन्द के प्रतिपादक शब्द का ब्रह्म में प्रयोग देखने से ( यह देश आकाश आनन्द ) इत्यादि भी ब्रह्मविषयक प्रयोग है, आनन्दमय का अभ्यास नहीं है ऐसा मानना चाहिये । और जो यह मयट् प्रत्ययान्त आनन्दमय का अभ्यास है कि ( इस आनन्दमय आत्मा को उपसंक्रमण करता है ) वहाँ उपसंक्रम का निवृत्ति ( बाध ) अर्थ है, इससे उसको ब्रह्मविषयत्व नहीं है, क्योंकि विकार स्वरूप जो अन्नमयादि बाधयोग्य हैं उनके ही प्रवाह में वह आनन्दमय भी पठित है ।

नन्वानन्दमयस्योपसंक्रामितव्यस्यान्नमयादिवद्ब्रह्मत्वे सति नैव विदुषो ब्रह्मप्राप्तिफलं निर्दिष्टं भवेत् । नैष दोषः । आनन्दमयोपसंक्रमणनिर्देशेनैव पुच्छप्रतिष्ठाभूतब्रह्मप्राप्तेः फलस्य निर्दिष्टत्वात् । ‘तदप्येष श्लोको भवति, यतो वाचो निवर्तन्ते’ इत्यादिना च प्रपञ्च्यमानत्वात् । या त्वानन्दमयसन्निधाने ‘सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ इति इयं श्रुतिरुदाहृता सा ‘ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्यनेन सन्निहिततरेण ब्रह्मणा सम्बन्धमाना नानन्दमयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । तदपेक्षत्वाच्चोत्तरस्य ग्रन्थस्य ‘रसो वै सः’ इत्यादेर्नानन्दमयविषयता ।

यदि कहे कि उपसंक्रम योग्य प्राप्य आनन्दमय को भी अन्नमयादि के समान ब्रह्मभिन्नत्व होने पर विद्वान को ब्रह्म की प्राप्ति रूप फल निर्दिष्ट ( कथित ) नहीं होगा, तो यह फलानिर्देश रूप दोष नहीं है, क्योंकि आनन्दमय की प्राप्ति के निर्देश से ही पुच्छ प्रतिष्ठा रूप ब्रह्म की प्राप्ति रूप फल का निर्देश हो गया है । अर्थात् उपक्रमपद से आनन्दमय की निवृत्तिपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कहा गया है, और उसी का ‘तदप्येष

श्लोको भवति, यतो वाचो' इत्यादि से विस्तार किया गया है। एवं जो आनन्दमय के समीप मे ( सोऽकामयत ) यह श्रुति उदाहरण ( दृष्टान्त ) रूप कही गई है, वह भी 'ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा' इस अत्यन्त निकट स्थित ब्रह्म के साथ सम्बन्धयुक्त होकर आनन्दमय की ब्रह्मता का प्रतिबोध नहीं कराती है, और उस ब्रह्मपुच्छ के साथ अपेक्षा रखने वाला 'रसो वै सः' इत्यादि ग्रन्थ को भी आनन्दमय विषयता नहीं है, अर्थात् आनन्दमय को रस रूप नहीं कहता है किन्तु ब्रह्म को कहता है।

ननु 'सोऽकामयत' इति ब्रह्मणि पुंलिङ्गनिर्देशो नोपपद्यते। नायं दोषः। 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' इत्यत्र पुंलिङ्गेनाप्यात्मशब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्। यत्तु भार्गवी वारुणि विद्या 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्' इति, तस्यां मयडश्रवणात्, प्रियशिरस्त्वाद्यश्रवणाच्च युक्तमानन्दस्य ब्रह्मत्वम्। तस्मादणुमात्रमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वत एव प्रियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते। नचेह सविशेषं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितं, वाङ्मनसगोचरातिक्रमश्रुतेः। तस्माद्ब्रह्ममयादिष्विवानन्दमयेऽपि विकारार्थ एव मयट विज्ञेयो न प्राचुर्यार्थः।

शंका होती है कि 'सोऽकामयत' यहाँ ब्रह्मार्थकता मे पुंलिङ्ग उच्चारण नहीं बन सकता है, आनन्दमय मे बन सकता है। उत्तर है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूत' यहाँ पुंलिङ्ग 'आत्म' शब्द से भी ब्रह्म प्रकृत ( प्रस्तुत ) है और ( आनन्द ब्रह्म है ऐसा समझा ) इत्यादि भार्गवी वारुणी विद्या कही गई है, उसमे मयट का श्रवण नहीं है, एव न प्रियशिरस्त्वादि का ही श्रवण है, इससे वहाँ आनन्द को ब्रह्मता युक्त ही है। इससे अति अल्प भी विशेष ( गुणादि ) के आश्रयण किए बिना स्वत. निर्गुण ब्रह्म को प्रियशिरस्त्वादि नहीं बन सकता है, और यहाँ सगुण के प्रतिपादन की इच्छा नहीं है, क्योंकि वाक् और मन की गोचरता ( विषयता ) का अभाव सुना गया है, जिससे अन्नमयादि के समान आनन्दमय में भी विकारार्थक मयट ही मानने योग्य है, प्राचुर्यार्थक मन्तव्य नहीं है।

सूत्राणि त्वेवं व्याख्येयानि—'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यत्र किमानन्दमय-स्यावयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यत उत स्वप्रधानत्वेनेति। पुच्छशब्दादवयवत्वेनेति प्राप्त उच्यते—'आनन्दमयोऽभ्यासात्'। आनन्दमय आत्मेत्यत्र 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपदिश्यते, अभ्यासात्। 'असन्नेव स भवति' इत्यस्मिन्निगमनश्लोके ब्रह्मण एव केवलस्याभ्यस्यमानत्वात्, 'विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्'। विकारशब्देनावयवशब्दोऽभिप्रेतः, पुच्छमित्यवयवशब्दान्न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तं, तस्य परिहारो वक्तव्यः। अत्रोच्यते—नायं दोषः प्राचुर्यादप्यवयवशब्दोपपत्तेः। प्राचुर्यं प्रायापत्तिः, अवयवप्राये वचनमित्यर्थः। अन्नमयादीनां हि शिरआदिषु पुच्छान्तेष्ववयवेषूक्तेष्वानन्दमयस्यापि शिरआदी-



न्यवयवान्तराण्युक्त्वावयवप्रायापत्त्या 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्याह, नावयव-  
विवक्षया यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम् । तद्धेतुव्यप-  
देशाच्च' । सर्वस्य च विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते-  
'इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच' ( तै० २।६ ) इति । नच कारणं सत् ब्रह्म स्व-  
विकारस्थानन्दमयस्य मुख्यया वृत्त्याऽवयव उपपद्यते । अपराण्यपि सूत्राणि  
यथासंभवं पुच्छवाक्यानिर्दिष्टस्यैव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि ॥ १६ ॥

सूत्र तो इस वक्ष्यमाण रीति से व्याख्यान के योग्य है कि 'ब्रह्म पुच्छम्' इत्यादि  
में आनन्दमय के अवयव रूप से ब्रह्म विवक्षित है किम्वा स्वयं प्रधान रूप से विवक्षित  
है, इस प्रकार के संशय के बाद, पूर्वपक्ष हुआ कि 'पुच्छ' शब्द के बल से वह अवयव रूप  
से ही विवक्षित है, तब कहा जाता है कि 'आनन्दमयोऽभ्यासात्', आनन्दमय आत्मा, यहाँ  
पर ( इस वाक्य में ) ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा, इससे स्वयं प्रधान ब्रह्म का उपदेश दिया जाता  
है । क्योंकि ( असन्नेव स भवति ) इस निगमन ( सर्वसारार्थसंग्रहरूप उपसहार ) श्लोक  
में केवल ब्रह्म का ही अभ्यास है ।<sup>१</sup> 'विकारशब्दाच्चेति चेन्न प्राचुर्यात्' यह विकार शब्द  
से अवयव शब्द अभिप्रेत ( तात्पर्य का विषय ) है । भाव यह है कि पुच्छ इस अवयव वाचक  
शब्द के रहने से ब्रह्म को स्वयं प्रधानत्व नहीं है, यह जो कहा गया है, उसका उत्तर  
कहना चाहिये । यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, प्राचुर्य से अवयव शब्द सङ्गत  
हो सकता है । प्राचुर्य अर्थ है प्रायापत्ति ( अवयव क्रम की वृद्धि ) अवयवबाहुल्य में कथन ।  
इससे अन्नमयादि के शिर आदि पुच्छ पर्यन्त अवयवों के कहने पर आनन्दमय के भी  
शिर आदि अन्य अवयवों को कहकर अवयवप्राय की प्राप्ति से 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' यह  
श्रुति कहती है, अवयवत्व की विवक्षा से नहीं कहती है । क्योंकि 'अभ्यासात्'  
इस हेतु से ब्रह्म को स्वयं प्रधानत्व समर्थित ( सिद्ध ) किया जा चुका है । 'तद्धेतुत्वव्यप-  
देशात्' । आनन्दमय सहित सब विकारों के कारण रूप से ब्रह्म का कथन किया जाता  
है ( जो कुछ ये दृश्य हैं, उन सबको रचा ) इस प्रकार सबका कर्णरूप ब्रह्म अपने  
कार्य आनन्दमय का मुख्य वृत्ति से अवयव नहीं बन सकता है । इसी प्रकार अन्य सूत्रों  
को भी सम्भव के अनुसार पुच्छ वाक्य में कथित ब्रह्म के साधक हैं, ऐसा समझना  
चाहिये । वस्तुतः 'प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीय पादः ।'  
( माण्डूक्य ५ ) 'एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभावाप्ययौ हि  
भूतानाम् ( माण्डू० ६ ) इत्यादि श्रुति में आनन्दमय सुषुप्तिकालिकप्राज्ञ नामा जीव  
को ईश्वराभेद दृष्टि से जैसे सर्वेश्वर सर्वज्ञ अन्तर्यामी योनि आदि कहा गया है, वैसे ही  
तैत्तिरीय श्रुति गत आनन्दमय को अभेद मानकर सूत्र की प्रवृत्ति प्रतीत होती है  
( सोऽस्कामयत ) इत्यादि की संगति सगुणता बिना नहीं हो सकती, इससे सूत्रकार के

१ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन ये पञ्च अवयव परार्थानुमान  
वाक्य में होते हैं, वहाँ वाक्य के अन्त्यावयव अबाधित अर्थ को पक्ष में सिद्ध करता है ।

मत से यहाँ सगुण ब्रह्म का ही मुख्य रूप से कथन है, और वह सगुण वस्तुतः निर्गुणानन्द से भिन्न नहीं है। इससे निर्गुण का अभ्यास सगुण का ही अभ्यास है, और सगुण ही वास्तविक स्वरूप से मन वाणी का अविषय है यह सूत्रकार का तात्पर्य है, भाष्य का तात्पर्य तो अति प्रगट है ॥ १९ ॥

### अन्तस्तद्धर्मापदेशात् ॥ २० ॥

यहाँ पूर्व से ब्रह्म का सम्बन्ध है, और संक्षिप्तार्थ है कि ( सूर्ये चक्षुषि चान्तः स्थित-त्वेन श्रुतः पुरुषो ब्रह्मैव नान्यः कुतस्तस्य ब्रह्मणो धर्माणामुपदेशादिति ) सूर्य और आँव में स्थित स्वरूप से सुना गया पुरुष ही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म के धर्मों का उपदेश है।

### अन्तरधिकरण ॥ ७ ॥

हिरण्यमयो देवतात्मा किं वासौ परमेश्वरः ।

मर्यादाधाररूपोक्तेर्देवतात्मैव नेश्वरः ॥ १ ॥

सार्वभ्यात्सर्वदुरितराहित्याच्चेश्वरो मतः ।

मर्यादाद्या उपास्त्यर्थमीशोऽपि स्युरुपाधिगाः ॥ २ ॥

हिरण्यमय पुरुष श्रुति में वर्णित है, वह देवतास्वरूप है या परमेश्वर है ? इस संशय के बाद पूर्वपक्ष है कि विभूति की मर्यादा, आधार और रूप के श्रवण से देवतात्मा है, ईश्वर नहीं है। उत्तर है कि विभु आधाररहित रहित ईश्वर में उपाधिगत मर्यादा आदि का उपदेश उपासना के लिये है, और सर्वात्मता सर्वपापासङ्गता के श्रवण से यह पुरुष परमेश्वर है।

इदमाम्नायते—‘अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यशम-श्रुर्हिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव सुवर्णः’ ‘तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवम-क्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद’ इत्यधिदैवतम् ( छा० १।६।७।८ )। अथाध्यात्मम्—‘अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ ( छा० १।७।१।५ ) इत्यादि। तत्र संशयः—किं विद्याकर्मातिशयवशात्प्राप्तोत्कर्षः कश्चित्संसारी सूर्यमण्डले चक्षुषि चोपास्य-त्वेन श्रूयते किंवा नित्यसिद्धः परमेश्वर इति। किं तावत्प्राप्तम् ? संसारीति। कुतः ? रूपवत्त्वश्रवणात्। आदित्यपुरुषे तावत् ‘हिरण्यशमश्रुः’ इत्यादि रूपमु-दाहृतम्। अक्षिपुरुषेऽपि तदेवातिदेशेन प्राप्यते—‘तस्यैतस्य तदेव रूपं यद-मुष्य रूपम्’ इति। नच परमेश्वरस्य रूपवत्त्व युक्तम् ‘अशब्दमस्पर्शमरूपम-व्ययम्’ ( का० १।३।१।५ ) इति श्रुतेः। आधारश्रवणाच्च—‘य एषोऽन्तरादित्ये य एषोऽन्तरक्षिणि’ इति। नह्यनाधारस्य स्वमहिमप्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्व-रस्याधार उपदिश्येत। ‘स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ ( छा० ७।२४।१ ) इति, ‘आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः’ इति च श्रुती भवतः। ऐश्वर्य-मर्यादाश्रुतेश्च। ‘स एष ये चामुष्मात्पराञ्चा लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च’

( छा० १।६।८ ) इत्यादित्यपुरुषस्यैश्वर्यमर्यादा, 'स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' ( छा० १।७।६ ) इत्यक्षिपुरुषस्य । न च परमेश्वरस्य मर्यादावदैश्वर्यं युक्तम्, 'एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय' ( बृ० ४।४।२२ ) इत्यविशेषश्रुतेः । तस्मान्नाद्यादित्यधोरन्तः परमेश्वर इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः— 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्' इति । 'य एषोऽन्तरादित्ये य एषोऽन्तरक्षिणि' इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव, न संसारी । कुतः ? तद्धर्मोपदेशात् । तस्य हि परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिष्टाः, तद्यथा—'तस्योदितिनाम' इति श्रावयित्वा अस्यादित्यपुरुषस्य नाम 'स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः' इति सर्वपाप्मापगमेन निर्वक्ति । तदेव च कृतनिर्वचनं नामाक्षिपुरुषस्याप्यतिदिशति—'यन्नाम तन्नाम' इति । सर्वपाप्मापगमश्च परमात्मन एव श्रूयते—'य आत्माऽपहतपाप्मा ( छा० ८।७।१ ) इत्यादौ । तथा चाक्षुषे पुरुषे 'सैवर्कं तत्साम तदुक्तं तद्यजुस्तद्ब्रह्म' इत्यक्सामाद्यात्मकतां निर्धारयति । सा च परमेश्वरस्योपपद्यते, सर्वकारणत्वात्सर्वात्मकत्वोपपत्तेः । पृथिव्यग्न्याद्यात्मके चाधिदैवतं ऋक्सामे वाक्प्राणाद्यात्मके चाध्यात्ममनुक्रम्याह—'तस्यर्कं साम च गोष्णौ' इत्यधिदैवतम् । तथाध्यात्ममपि—'यावमुष्य गोष्णो तौ गोष्णौ' इति । तच्च सर्वात्मकत्वे सत्येवोपपद्यते 'तद्य इमे वीणायां गायन्त्येवं त्वेव ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः' ( छा० १।७।६ ) इति च लौकिकेष्वपि गानेष्वस्यैव गीयमानत्वं दर्शयति । तच्च परमेश्वरपरिग्रहे घटते—

श्रुति मे यह कहा जाता है कि 'अथ य' इस उपासना के आरम्भार्थमे 'अथ' शब्द है । सूर्य मण्डल मे जो यह हिरण्यमय ( ज्योतिर्मय ) पुरुष उपासक से देखा जाता है, उसके दाढी केश भी हिरण्यमय हैं, और वह नखपर्यन्त सब सुवर्ण ( ज्योति स्वरूप ) है, एवं कपि ( बानर ) जिस अवयव को भूमि मे टिका के बैठता है, उसके समान जो लाल कमल उस कमल के समान जिसकी आँखें हैं उसका 'उद्' यह नाम है, और वह सबसे उदित ( उद्गत ) असंग है । जो पुरुष ऐसा समझकर उस पुरुष की उपासना करता है, वह सब पाप से रहित हो जाता है, यह अधिदैवत ( देव सम्बन्धी चिन्तन ) कहा गया है । अब अध्यात्म ( देह सम्बन्धी ) कहा जाता है कि ( जो यह आँख मे पुरुष दीखता है इत्यादि । यहाँ संशय होता है कि विद्या कर्म की अधिकता से उत्कर्षता ( श्रेष्ठता ) को प्राप्त कोई संसारी जीव सूर्यमण्डल और नेत्र में उपास्य रूप से सुना जाता है, अथवा नित्य सिद्ध परमेश्वर सुना जाता है । पूर्वपक्ष रूप में संसारी प्राप्त है, क्योंकि रूप वाला सुना जाता है । प्रथम आदित्य पुरुष में हिरण्यमयश्च आदि रूप उदाहरण कहा गया है, और नेत्रगत पुरुष में भी वही रूप

अतिदेश ( मद्दृश बोधन ) द्वारा प्राप्त होता है कि ( इस उस आँख गत पुरुष का वही रूप है, कि जो उस सूर्य मण्डलगत पुरुष का रूप है ) और परमेश्वर को रूप वाला होना युक्त नहीं है, क्योंकि ( वह शब्द स्पर्श रूप रहित निर्विकार अविनाशी है ) इस प्रकार श्रुति से रूपरहित परमात्मा है। एवं आधार के श्रवण से भी यह पुरुष परमात्मा नहीं है ( जो यह आदित्य के अन्तर में है, जो यह चक्षु मे है ) इस प्रकार आधार सुना जाता है। और निराधार अपनी महिमा ( स्वरूप ) में अत्यन्त स्थिर सर्वव्यापी परमेश्वर के आधार का उपदेश नहीं दिया जाता, यदि उसका ही उपदेश होता तो इस प्रकार नहीं कहा जाता, क्योंकि नारद जी ने पूछा कि हे भगवन् वह किसमें प्रतिष्ठित है, तब सनत्कुमार जी ने कहा कि अपनी महिमा में। तथा वह आकाश के समान सर्वगत नित्य है। केवल ऐश्वर्य की मर्यादा को सुनने से ही वह पुरुष परमेश्वर नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है कि जो आदित्यमण्डलगत पुरुष है वह उस आदित्य लोक से जो परे लोक हैं उनका, और देवताओं के कामों का ईशिता (नियन्ता) है। इस प्रकार आदित्य पुरुष के ऐश्वर्य की मर्यादा है। और ( जो चक्षुगत पुरुष है वह चक्षु के विषय रूप लोक से नीचे के लोकों का और मनुष्यों के कामों का नियन्ता है ) इस प्रकार नेत्रगत पुरुष के ऐश्वर्य की मर्यादा ( सीमा ) है। और परमेश्वर को मर्यादायुक्त ऐश्वर्य होना युक्त नहीं है। क्योंकि ( यह परमात्मा सर्वेश्वर है, यह सब प्राणी का स्वामी है, सबका रक्षक है, और यह विशेष रूप धारण करने वाला सब लोकों के असम्भेदन (अनाश-स्थिति) के लिये सेतु तुल्य है, एवं धर्मादि की मर्यादाओं का रक्षक है ) यह अविशेष ( मर्यादा रहित ) ऐश्वर्य की बोधक श्रुति है। इससे नेत्र और आदित्य के अन्तर्गत परमात्मा नहीं है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि—‘अन्तस्तदित्यादि’। यह सूर्य के अन्दर और यह नेत्र के अन्दर देखा गया पुरुष परमात्मा ही है, ससारी नहीं है, क्योंकि यहाँ इस परमात्मा के धर्म उपदिष्ट हुए हैं ( कहे गये हैं ) जो इस प्रकार हैं कि ( उसका उद् यह नाम है ) इस प्रकार आदित्य पुरुष का नाम सुनाकर, फिर उस नाम का श्रुति निर्वचन ( व्याख्यान ) करती है कि सो यह पुरुष सब पाप से उदित ( उद्गत ) रहित है, यह नाम का निर्वचन सब पाप के अपगम ( अभाव ) द्वारा किया गया है। और उसी निर्वचन वाला नाम का अक्षिगत पुरुष में श्रुति अतिदेश करती ( प्राप्त कराती ) है कि जो आदित्य पुरुष का नाम है वही नाम नेत्रगत पुरुष का भी है। और ( य आत्माऽपहृतपाप्मा ) इत्यादि श्रुति में सब पाप का अभाव परमात्मा ही सुना जाता है। इसी प्रकार नेत्रगत पुरुष में ऋग् सामादि रूपता का श्रुति अवधारण ( निश्चय ) कराती है। कि ( वह चक्षुगत पुरुष ही ऋग्वेद, साम ( स्तोत्र ) उक्थ ( शास्त्र-अप्रगीतमन्त्रकस्तुति ) यजुर्वेद, ब्रह्म ( तीनों वेद ) यह सब स्वरूप है। और यह ऋगादि रूपता परमेश्वर में बन सकती है, क्योंकि सबका कारण होने से परमात्मा में सर्वात्मकता की सिद्धि होती है। पृथिवी, अग्नि आदि स्वरूप अधिदैवत- ( देव सम्बन्धी-देवरूप ) ऋक् और साम का वर्णन करके पृथिवी ऋग् है, अग्नि साम

है इत्यादि । तथा अध्यात्म ( देह सम्बन्धी ) वाक् प्राणादिरूप ऋक् साम का वर्णन करके श्रुति कहती है कि ( तस्य ) उस आदित्यगत पुरुष के पृथिवी अग्नि आदि स्वरूप ऋक् और साम गेष्ण ( पर्व ) पोरभाग विशेष हैं, उसकी प्राप्ति के साधन सोपान रूप हैं । यह अधिदैवत उपदेश है । इसी प्रकार अध्यात्म भी है कि ( जो आदित्यगत पुरुष के गेष्ण हैं वही अधिगत पुरुष के गेष्ण हैं ) यह उपदेश सर्वात्मक परमात्मा रूप पुरुष के होने ही पर युक्त हो सकता है, वह ऋक् सामगेष्णावत्त्व अन्य में नहीं बन सकता है । और जो ये गाने वाले वीणा में गाते हैं, वह इसी पुरुष को गाते हैं, जिससे वे धन की सनि ( लाभ ) वाले ( धनी ) होते हैं । इस प्रकार लौकिक वीणा द्वारा गान में भी इसी पुरुष को गान का विषय श्रुति दर्शाती है । यह श्रुति कथन भी तभी सघटित ( युक्त ) हो सकता है कि जब पुरुषशब्द से परमेश्वर का ग्रहण किया जाय, क्योंकि भगवद्गीता में भी देखा जाता है—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥ ( १०।४१ )

इति भगवद्गीतादर्शनात् । लोककामेशितृत्वमपि निरङ्कुश श्रूयमाणं पर-  
मेश्वरं गमयति ।

यत्तुक्तं—हिरण्यश्मश्रुतिरित्यादिरूपश्रवणं परमेश्वरे नोपपद्यत—इति, अत्र  
ब्रूमः—स्यात्परमेश्वरस्यापीच्छावशान्मायामय रूपं साधकानुग्रहार्थम् ।

माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद ! ।

सर्वभूतगुणैर्युक्तं मैवं मां ज्ञातुमर्हसि ॥

इति स्मरणात् । अपि च यत्र तु निरस्तसर्वविशेषं परमेश्वरं रूपमुपदिश्यते,  
भवति तत्र शास्त्रम्—‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्’ इत्यादि । सर्वकारणत्वात्तु  
विकारधर्मैरपि कैश्चिद्विशिष्टः परमेश्वर उपास्यत्वेन निर्दिश्यते—‘सर्वकर्मा सर्व-  
कामः सर्वगन्धः सर्वरसः ( छा० ३।१४।२ ) इत्यादिना । तथा हिरण्यश्मश्रुत्वा-  
दिनिर्देशोऽपि भविष्यति । यदप्याधारश्रवणात् परमेश्वर इति । अत्रोच्यते—  
स्वमहिमप्रतिष्ठस्याप्याधारविशेषोपदेश उपासनार्थो भविष्यति, सर्वगतत्वाद्-  
ब्राह्मणो व्योमवत्सर्वान्तरत्वोपपत्तेः । ऐश्वर्यमर्यादाश्रवणमप्यध्यात्माधिदैवतवि-  
भागापेक्षमुपासनार्थमेव । तस्मात्परमेश्वर एवाद्यादित्ययोरन्तरूपदिश्यते ॥२०॥

जो जो विभूति, ऐश्वर्य वाला, लक्ष्मी शोभायुक्त, बली प्राणी हैं, ( उन सबको तुम  
मेरे तेजोऽश्व जन्म जानो ) और लोक तथा काम का जो निरङ्कुश ( स्वतन्त्र ) नेतृत्व सुना  
जाता है वह परमेश्वर का ही बोध अनुमान कराता है ।

जो यह कहा था कि सुवर्णमय दाढी आदि युक्त जो रूप सुना जाता है वह परमेश्वर  
में नहीं बन सकता है, उसका समाधान है कि साधक भक्त उपासक के प्रति अनुग्रह ( हित-  
सम्पादन अहित निवारण ) के लिए इच्छा के अधीन परमेश्वर को भी मायामय रूप हो

सकता है। महाभारत में भगवद्बचन रूप स्मृति है कि ( हे नारद ! यह जो तुम मुझे मूर्तिमान् शरीर देख रहे हो, यह मूर्ति तो मुझ से मायात्मक रची गई है, वस्तुतः सब भूतों के गुणों से युक्त इस प्रकार मुझे आप समझने के योग्य नहीं हो। ) और जहाँ सब भेदों से रहित परमेश्वर के स्वरूप का उपदेश दिया जाता है, वहाँ शास्त्र कहता है कि—वह शब्दरहित स्पर्शरहित रूपरहित निर्विकार है। और सबका कारण होने से किसी विकार के धर्मों से भी युक्त परमेश्वर कहीं कहा जाता है, जैसे कि—सब कर्म वाला—सब काम वाला—सब गन्ध वाला—सब रस वाला है। वैसे ही हिरण्य इमश्रुत्वादि का निर्देश ( कथन ) भी हो सकता है। और जो यह कहा था कि सूर्य नेत्ररूप आधार के सुनने से वह पुरुष परमेश्वर नहीं है, इस विषय में कहा जाता है कि अपनी महिमा में स्थिर ईश्वर का भी आधार विशेष का कथन रूप उपदेश उपासना के लिये हो सकता है और ब्रह्म को सर्वगत ( विभु ) होने से आकाश के समान सर्वान्तरत्व भी बन सकता है। तथा ऐश्वर्य की मर्यादा जो सुनी गई है, वह भी अध्यात्म और अधिदैवत ध्यानादि के विभाग ज्ञान पूर्वक उपासना ही के लिये सुनी गई है। ऐश्वर्य के भेद के लिये नहीं, उससे परमेश्वर का ही नेत्र और सूर्य के अन्तर में उपदेश दिया गया है, अन्य का नहीं ॥ २० ॥

### भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ २१ ॥

अस्ति चादित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ईश्वरोऽन्तर्यामी—‘य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः’ बृ० ३।६।६ ) इति श्रुत्यन्तरे भेदव्यपदेशात् । तत्र हि ‘आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद’ इति वेदितुरादित्याद्विज्ञानात्मनोऽन्योऽन्तर्यामी स्पष्टं निर्दिश्यते । स एवेहाप्यन्तरादित्ये पुरुषो भवितुमर्हति, श्रुतिसामान्यात् । तस्मात्परमेश्वर एवेहोपदिश्यत इति सिद्धम् ।

यद्यपि सूर्यलोकवासी देव भी पुरुष कहा जा सकता है, तथा जीवात्मा भी पुरुष कहा जाता है, तथापि आदित्यादि रूप शरीरों के अभिमानी जीवों से भिन्न अन्तर्यामी ईश्वर है जिसका दूसरी श्रुति में भेदपूर्वक कथन है कि जो आदित्य में रहता हुआ आदित्य से भिन्न तदन्तर्गत है। जिसको आदित्य नहीं जान सकता है, जिसका आदित्य शरीर तुल्य है, जो आदित्य का अन्तरात्मा होकर आदित्य का नियमन ( शासन ) करता है। यही अमृत ( अविनाशी ) अन्तर्यामी भी तेरा सत्यात्मा है। वहाँ उस श्रुति में कहा गया है कि, वह आदित्य से भिन्न तदन्तर्गत है जिसको आदित्य नहीं जानता है। इससे जानने वाला विज्ञानात्मा ( जीव ) रूप सूर्य से अन्य अन्तर्यामी स्पष्ट ही कहा गया है और वही इस हिरण्यमयादि श्रुति में भी आदित्य के अन्तर्गत पुरुष होने के योग्य है, क्योंकि दोनों श्रुतियों में तुल्यता है। इससे यहाँ परमेश्वर का ही उपदेश है, यह सिद्ध हुआ ॥ २१ ॥

## आकाशस्तल्लिङ्गात् ॥ २२ ॥

संक्षिप्तार्थं है कि ( अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति हो वाच । इति श्रुतौ य आकाशशब्दार्थस्तद्ब्रह्म न भूताकाशो ब्रह्मणो लिङ्गदर्शनादिति ) इस लोकाका क्या आश्रय है, इस प्रश्न का उत्तर है कि आकाश है । इस श्रुति में जो आकाश शब्द का अर्थ है वह ब्रह्म है भूताकाश नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का लिङ्ग ( चिह्न ) देखा जाता है ।

### आकाशाधिकरण ॥ ८ ॥

आकाश इतिहोवाचेत्यत्र खं ब्रह्म वाऽत्र खम् ।

शब्दस्य तत्र रूढत्वाद्वाय्वादेः सर्जनादपि ॥ १ ॥

साकाशजगदुत्पत्तिहेतुत्वाच्छ्रौतरूढितः ।

एवकारादिना चात्र ब्रह्मैवाकाशशब्दितम् ॥ २ ॥

( आकाश इति होवाच ) इस श्रुति में भूताकाश वा ब्रह्म आकाश कहा गया है ? ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष है कि भूताकाश में ही आकाश शब्द रूढ ( लोक में निश्चित ) है, और उससे वायु आदि की सृष्टि भी होती है । इससे जगत् का कारण रूप आकाश ही कहा गया है । सिद्धान्त है कि आकाश सहित जगत् के हेतु होने से और श्रौतरूढि ( श्रुतगतप्रसिद्धि ) से तथा एवकारादि से ब्रह्म ही यहाँ आकाशशब्द से कहा गया है ॥ १-२ ॥

इदमामनन्ति—‘अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्’ ( छान्दो० १।६।१ ) इति । तत्र संशयः— किमाकाशशब्देन परं ब्रह्माभिधीयते उत भूताकाशमिति । कुतः संशयः ? उभयत्र प्रयोगदर्शनात् । भूतविशेषे तावत्सुप्रसिद्धो लोकवेदयोराकाशशब्दः ब्रह्मण्यपि क्वचित्प्रयुज्यमानो दृश्यते, यत्र वाक्यशेषवशादसाधारणगुणश्रवणाद्वा निर्धारितं ब्रह्म भवति, यथा—‘यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्’ ( तै० २।७ ) इति, ‘आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म’ ( छा० ८।१।१ ) इति चैवमादौ । अतः संशयः । किं पुनरत्र युक्तम् ? भूताकाशमिति । कुतः ? तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्रं बुद्धिमारोहति । नचायमाकाशशब्द उभयोः साधारणः शक्यो विज्ञातुम्, अनेकार्थत्वप्रसङ्गात् । तस्माद्ब्रह्मणि गौण आकाशशब्दो भवितुमर्हति विभुत्वादिभिर्हि बहुभिर्धर्मैः सदृशमाकाशेन ब्रह्म भवति, नच मुख्यसंभवे गौणोऽर्थो ग्रहणमर्हति, संभवति चेह मुख्यस्यैवाकाशस्य ग्रहणम् । ननु भूताकाशपरिग्रहे वाक्यशेषो नोपपद्यते—‘सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते’ इत्यादिः । नैष दोषः । भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः । विज्ञायते हि—‘तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः’ ( तै० २।१ ) इत्यादि । ज्यायस्त्व-परायणत्वे अपि भूतान्तरापेक्ष्योपपद्येते भूताकाशस्यापि । तस्मादाकाशशब्देन भूताकाशस्य ग्रहणमिति ।

छान्दोग्य मे कथा है कि शालावत्य नामक ब्राह्मण जैवलि नामक राजा से पूछता है कि ( अस्य ) इत्यादि । उसका भाष्यकार वर्णन करते हैं कि श्रुतियाँ यह कहती हैं कि ( इस पृथिवी आदि रूप प्रत्यक्षपरोक्ष लोक का आधाररूप आश्रय कौन है ? राजा का उत्तर है कि आकाश आधार है, आकाश आधार है ऐसा कहकर आगे कहा कि आकाश इसलिए आधार है कि आकाश से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, और आकाश में ही अन्त लीन होते हैं, आकाश ही इन सबसे बहुत बड़ा है । इससे आकाश ही इनका परायण ( परम आश्रय ) है । यहाँ संशय होता है कि आकाश शब्द से परब्रह्म कहा जाता है कि भूताकाश कहा जाता है ? विचार होता है कि यह संशय क्यों होता है, तो कहा जाता है कि दोनों अर्थ मे आकाश शब्द का प्रयोग अन्यत्र देखने से यहाँ संशय होता है । भूतविशेष मे तो प्रथम लोक और वेद मे भी आकाश शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध ही है । ब्रह्म में भी कही आकाश शब्द का प्रयोग देखा जाता है कि जहाँ वाक्यशेष के बल से या ब्रह्म के असाधारण गुण के श्रवण से ब्रह्म निर्धारित ( निर्णीत-निश्चित ) रहता है । जैसे कि ( यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् ) यहाँ आनन्दरूप असाधारण गुण श्रवण से आकाश शब्दार्थ ब्रह्म निर्धारित है और ( प्रसिद्ध आकाश ही नामरूप का निर्वाहिता ( उत्पत्ति स्थिति का हेतु ) है, वे नामरूप जिससे भिन्न जिसके अन्दर हैं, वह ब्रह्म है ) । यहाँ वह ब्रह्म है इस वाक्यशेष से आकाश शब्द ब्रह्मार्थक निश्चित है, इसी प्रकार अन्यत्र भी निश्चित है । इससे यहाँ संशय होता है, परामर्श होता है कि यहाँ युक्त क्या है ? पूर्वपक्ष है कि भूताकाश युक्तार्थ है, क्योंकि अत्यन्त प्रसिद्ध लौकिक प्रयोग से भूताकाश बुद्धि ( समझ ) मे शीघ्र आता है, और यह आकाश शब्द ब्रह्म और भूतविशेष दोनों का साधारण ( तुल्य ) वाचक है । ऐसा मानने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार इस शब्द को अनेकार्थत्व की प्राप्ति होगी । इससे ब्रह्मार्थ मे आकाश शब्द गौरव होने के योग्य है, क्योंकि विभुत्व असङ्गत्वादि बहुत धर्मों द्वारा आकाश के सदृश ब्रह्म है । मुख्य अर्थ का ग्रहण के संभव रहते गौरवार्थ का ग्रहण उचित नहीं होता है और यहाँ मुख्यार्थ आकाश का ही ग्रहण हो सकता है । यदि कहा जाय कि यहाँ भूताकाश का ग्रहण करने पर ( ये सब प्रसिद्ध आकाश से ही उत्पन्न होते हैं ) इस अर्थ को कहने वाला वाक्य का भाग सगत नहीं होगा, तो उत्तर है कि यह दोष नहीं है । क्योंकि भूताकाश को भी वायु आदि की उत्पत्ति के क्रम से चराचर संसार का कारणत्व सिद्ध होता है, और ( तस्माद्वा एतस्माद् ) इत्यादि श्रुति से भूताकाश की कारणता विज्ञात भी होती है कि ( आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई और आकाश मात्र आत्म से उत्पन्न हुआ ) । एवं अन्य भूतों की अपेक्षा श्रेष्ठत्व परम आश्रयत्व भी भूताकाश को उचित हो सकता है, जिससे यहाँ आकाश शब्द से भूताकाश का ग्रहण है ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—‘आकाशस्तल्लिङ्गात्’ । आकाशशब्देन ब्रह्मणो ग्रहणं युक्तम् । कुतः ? तल्लिङ्गात् । परस्य हि ब्रह्मण इदं लिङ्गम्—‘सर्वाणि ह वा



इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते' इति । परस्माद्धि ब्रह्मणो भूतानामुत्पत्तिरिति वेदान्तेषु मर्यादा । ननु भूताकाशस्यापि वाय्यादिक्रमेण कारणत्वं दर्शितम् । सत्यं दर्शितम् । तथापि मूलकारणस्य ब्रह्मणोऽपरिग्रहादाकाशादेवेत्यवधारणं, सर्वापीति च भूतविशेषणं नानुकूल स्यात् । तथा 'आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति' इति ब्रह्मलिङ्गं 'आकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्' इति च ज्यायस्त्वपरायणत्वे । ज्यायस्त्वं ह्यनापेक्षिक परमात्मन्येवैकस्मिन्नाम्नातम्—'ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः' (छा० ३।१४।३ ) इति । तथा परायणत्वमपि परमकारणत्वात्परमात्मन्येवोपपन्नतरम् । श्रुतिश्च भवति—'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेर्दातुः परायणम्' ( बृ० ३।६।२८ ) इति । अपि चान्तवत्त्वदोषेण शालावत्यस्य पक्षं निन्दित्वाऽनन्तं किञ्चिद्भक्तुकामेन जैवलिनाऽऽकाशः परिगृहीतः, तं चाकाशमुद्गीथे संपाद्योपसंहरति—'स एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः' ( छा० १।६।२ ) इति । तच्चानन्त्यं ब्रह्मलिङ्गम् । यत्पुनरुक्तं—भूताकाशं प्रसिद्धिबलेन प्रथमतः प्रतीयत—इति । अत्र ब्रूमः—प्रथमतः प्रतीतमपि सत् वाक्यशेषगतान् ब्रह्मगुणान् दृष्ट्वा न परिगृह्यते । दर्शितश्च ब्रह्मण्यप्याकाशशब्दः—'आकाशो वै नामरूपयोर्निर्वहिता' इत्यादौ । तथाऽऽकाशपर्यायवाचिनामपि ब्रह्मणि प्रयोगो दृश्यते—'ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वेनिषेदुः' ( ऋ० सं० १।१६।३।६ ) 'सैपा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता' ( तै० ३।६ ) 'ॐ कं ब्रह्म खं ब्रह्म' ( छा० ४।१०।५ ) 'खं पुराणम्' ( बृ० ५।१ ) इति चैवमादौ । वाक्योपक्रमेऽपि वर्तमानस्याकाशशब्दस्य वाक्यशेषवशाद्युक्ता ब्रह्मविषयत्वावधारणा । 'अग्निर्धीतेऽनुवाकम्' इति हि वाक्योपक्रमगतोऽप्यग्निशब्दो माणवकविषयो दृश्यते । तस्मादाकाशशब्दं ब्रह्मेति सिद्धम् ॥ २२ ॥

इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धान्त रूप में कहा जाता है कि ( आकाशस्तच्छिङ्गात् ) आकाश शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण करना युक्त है, क्योंकि ब्रह्म का लिङ्ग ( चिह्न ) देखा जाता है । परब्रह्म का ही यह लिङ्ग है ऐसा कहा जाता है कि आकाश से ही ये सब भूत समुत्पन्न होते हैं, क्योंकि परब्रह्म से ही भूतों की उत्पत्ति होती है, यह सब वेदान्त में मर्यादा ( स्थिति-धारणा ) की गई है । यदि कहो कि भूताकाश की कारणता प्रथम वायु आदि क्रम से दिखाई गई है, तो यह कहना सत्य है, वायु आदि का कारण भूताकाश है ही, तो भी यहाँ मूलकारण ब्रह्म के नहीं ग्रहण करने पर, आकाशादेव, इस वाक्य में 'एव' शब्द से अवधारणा ( अन्य कारण का निवारण ) अनुकूल नहीं होगा, और भूतों का सर्व यह विशेषण अनुकूल नहीं होगा । तथा इसी प्रकार ( आकाश प्रत्यस्तं यन्ति ) आकाश में सब लीन होते हैं, यह भी ब्रह्म का लिंग है । आकाश सबसे अति बड़ा है, परम आश्रय है ये कथन भी ब्रह्म के ही लिंग हैं । क्योंकि अनापेक्षिक ( सर्वथा ) श्रेष्ठत्व एक परमात्मा में ही श्रुति से आमत

( कथित ) है कि ( वह पृथिवी से बहुत बड़ा है, अन्तरिक्ष से अति बड़ा है, स्वर्ग से अति बड़ा है। इन लोको से अति बड़ा है इत्यादि। इसी प्रकार परम आश्रयत्व भी परम ( मूल ) कारण होने से परमात्मामे ही अत्यन्त उचित है। श्रुति भी कहती है कि ( विज्ञान आनन्द स्वरूप ब्रह्म है ) वह धन के दाता ( यज्ञादि कर्ता ) का परम आश्रय है। एवं शालावत्य जैवलि के संवाद में अन्तवत्त्व दोष से शालावत्य के पक्ष ( मन्तव्य ) की निन्दा करके अनन्त किसी वस्तु को कहने की इच्छा से जैवलि ने आकाश का ग्रहण किया। और उस आकाश को उद्गीथ सामभाग विशेष और तदवयव ओंकार में संपादन करके ( उद्गीथ आकाश ही है ) इस प्रकार उद्गीथ आकाश की एकता करके जैवलि ने उपसंहार किया है कि ( यह उद्गीथ पर है और वरो से अति वर है, और यह अनन्त है और वऽ अनन्तता ब्रह्म का लिंग है तथा जो यह कहा था कि प्रसिद्धि के बल से भूताकाश अत्यन्त पहले ( प्रथम ) प्रतीत होता है। इस विषय का समाधान है कि बहुत पहले प्रतीत (ज्ञात) होता हुआ भी वाक्यशेषगत ब्रह्म के गुराणो को देखने पर यहाँ वह परिगृहीत ( स्वीकृत ) नहीं होता है और ब्रह्म में भी आकाश शब्द का प्रयोग दिखलाया गया है कि आकाश नामरूप को निर्वाहक है, इत्यादि में ब्रह्मार्थक आकाश शब्द है और इसी प्रकार आकाश पर्यायवाची ( आकाश के समानार्थक ) शब्दों का भी ब्रह्म में प्रयोग देखा जाता है कि ( ऋगादि सब वेद जिसमें प्रमाण है उस अक्षर-कूटस्थ अविनाशी परम व्योम (आकाश) ब्रह्म में सब देव अधिष्ठित ( स्थिर ) हैं। यह भृगु को दी गई वरुण से उपदिष्ट विद्या व्योम में प्रतिष्ठित है। ओंकार सुखरूप ब्रह्म है, विभु ब्रह्म है। विभु अनादि ब्रह्म है। इन वाक्यों में व्योम-ख शब्द आकाशवाचक आये हैं। और वाक्य के आरम्भ में भी वर्तमान आकाश शब्द को वाक्यशेष के बल से ब्रह्मविषयकत्व का अवधारण ( निश्चय ) करना उचित है। जैसे कि ( अग्निरधीतेऽनु-वाकम् ) अग्नि अनुवाक ( वेद का भाग विशेष ) को पढ़ती है। यहाँ वाक्य के आरम्भ में भी आया हुआ अग्नि शब्द बालकविषयक देखा जाता है। इससे आकाश शब्द का यहाँ ब्रह्म अर्थ है यह सिद्ध हुआ ॥ २२ ॥

### अत एव प्राणः ॥ २३ ॥

( अत एव पूर्वसूत्रश्रुतास्त्रिङ्गादेव पूर्वोदाहृतश्रुतेरग्रे वर्तमानाया श्रुतौ श्रुतः प्राण-शब्दो ब्रह्मवाचक इति ) पूर्वसूत्र में सुना गया लिंगरूप हेतु से ही पूर्व सूत्र में उदाहृत श्रुति से आगे वर्तमान श्रुति में सुना गया प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है।

### प्राणाधिकरण ॥ ९ ॥

मुखस्थो वायुरीशो वा प्राणः प्रस्तावदेवता ।  
 वायुर्भवेत्त्र सुप्तौ भूतसारेन्द्रियक्षयात् ॥ १ ॥  
 संकोचोऽक्षपरत्वे स्यात् सर्वभूतलयश्रुतेः ।  
 आकाशशब्दवत् प्राणशब्दस्तेनेशवाचकः ॥ २ ॥

प्रस्ताव ( स्तुति विशेषभाग वेद ) की देवतारूप से वर्णित प्राण मुख मे स्थिर वायु है, वा ईश्वर है, इस संशय के बाद मे पूर्वपक्ष है कि वायु ही यह प्राण हो सकता है । यदि कहा जाय कि उस प्राण मे वहाँ सब ससार के विलयादि सुने गये हैं, वह कैसे संगत होगा तो कहा जाता है कि सुषुप्ति मे भूतों के साररूप इन्द्रियो का प्राण मे विलय होता है, उस आशय से उस विलयादि का कथन है । सिद्धान्त है कि इस प्रकार मानने से केवल इन्द्रियो के लयपरक लय वाक्य के होने से सब भूत के विलय श्रुति का संकोच होगा । इससे आकाश शब्द के समान प्राण शब्द भी ईश्वर वाचक है ॥ १-२ ॥

उद्गीथे—‘प्रस्तोतार्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता’ इत्युपक्रम्य श्रूयते—‘कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता’ ( छा० १।११।४,५ ) इति । तत्र संशयनिर्णयौ पूर्ववदेव द्रष्टव्यौ । ‘प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः ( छा० ६।८।२ ) ‘प्राणस्य प्राणम्’ ( बृ० ४।४।१८ ) इति चैवमादौ ब्रह्मविषयः प्राणशब्दो दृश्यते, वायुविकारे तु प्रसिद्धतरो लोकवेदयोः, अत इह प्राणशब्देन कतरस्योपादानं युक्तमिति भवति संशयः । कि पुनरत्र युक्तम् ? वायुविकारस्य पञ्चवृत्तेः प्राणस्योपादानं युक्तम् । तत्र हि प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इत्यवोचाम । ननु पूर्ववदिहापि तल्लिङ्गाद्ब्रह्मण एव ग्रहणं युक्तम्, इहापि वाक्यशेषे भूतानां संवेशनोद्गमनं पारमेश्वरं कर्म प्रतीयते । न । मुख्येऽपि प्राणे भूतसंवेशनोद्गमनस्य दर्शनात् । एवं ह्याग्रायते—‘यदा वै पुरुषः स्वपिति प्राणं तर्हि वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः स यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्ते’ ( श० ब्रा० १०।३।३।६ ) इति । प्रत्यक्षं चैत-स्वापकाले प्राणवृत्तावपरिलुप्यमानायामिन्द्रियवृत्तयः परिलुप्यन्ते, प्रबोधकाले च प्रादुर्भवन्तीति । इन्द्रियसारत्वाच्च भूतानामविरुद्धो मुख्ये प्राणेऽपि भूतसंवेशनोद्गमनवादी वाक्यशेषः । अपि चादित्योऽन्नं चोद्गीथप्रतिहारयोर्देवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्थानन्तरं निर्दिश्येते । न च तयोर्ब्रह्मत्वमस्ति, तत्सामान्याच्च प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वमिति । एवं प्राप्ते सूत्रकार आह—‘अत एव प्राणः’ इति । ‘तल्लिङ्गात्’ इति पूर्वसूत्रे निर्दिष्टम् । अत एव तल्लिङ्गात् प्राणशब्दमपि परं ब्रह्म भवितुमर्हति । प्राणस्यापि हि ब्रह्मलिङ्गसम्बन्धः श्रूयते—‘सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते’ ( छा० १।११।४ ) इति प्राणनिमित्तौ सर्वेषां भूतानामुत्पत्तिप्रलयावुच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः । ननुक्तं मुख्यप्राणपरिग्रहेऽपि संवेशनोद्गमनदर्शनमविरुद्धं, स्वापप्रबोधयोर्दर्शनादिति । अत्रोच्यते—स्वापप्रबोधयोरिन्द्रियाणामेव केवलानां प्राणाश्रयं संवेशनोद्गमनं दृश्यते, न सर्वेषां भूतानाम्, इह तु सेन्द्रियाणां सशरीराणां च जीवाविष्टानां भूतानां ‘सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि’ इति श्रुतेः । यदाऽपि भूतश्रुतिर्महाभूतविषया परिगृह्यते तदापि ब्रह्मलिङ्गत्वमविरुद्धम् । ननु सहापि विषयैरिन्द्रियाणां स्वापप्रबोधयोः

प्राणोऽप्ययं प्राणाच्च प्रभवं शृणुमः—‘यदा सुप्तः स्वप्नं न कचन पश्यत्यथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति तदैवं वाक्सर्वैर्नामभिः सहाप्येति’ ( कौ० ३।३ ) इति ( १ ) । तत्रापि तल्लिङ्गात्प्राणशब्दं ब्रह्मैव । यत्पुनरन्नादित्यसंनिधानात्प्राणस्या- ब्रह्मत्वमिति । तदयुक्तम् । वाक्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां प्रतीय- मानायां संनिधानस्याकिञ्चित्करत्वात् । यत्पुनः प्राणशब्दस्य पञ्चवृत्तौ प्रसिद्ध- तरत्वम्, तदाकाशशब्दस्येव प्रतिविधेयम् । तस्मात्सिद्धं प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य ब्रह्मत्वम् । अत्र केचिदुदाहरन्ति—‘प्राणस्य प्राणम्, प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः’ इति च । तदयुक्तम् । शब्दभेदात्प्रकरणाच्च संशयानुपपत्तेः । यथा पितुः पितेति प्रयोगेऽन्यः पिता( २ ) षष्ठीनिर्दिष्टोऽन्यः प्रथमानिर्दिष्टः पितुः पितेति गम्यते, तद्वत् प्राणस्य प्राणम् इति शब्दभेदात् प्रसिद्धात् प्राणादन्यः प्राणस्य प्राणम् इति निश्चीयते । नहि स एव तस्येति भेदनिर्देशार्हो भवति । यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि स एव तत्र प्रकरणनिर्दिष्ट इति गम्यते । यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे—‘वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत’ इत्यत्र ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमविषयो भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे ‘प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः’ इति श्रुतेः प्राणशब्दो वायुविकारमात्रं कथमवग- मयेत् । अतः संशयाविषयत्वान्नैतदुदाहरणं युक्तम् । प्रस्तावदेवतायां तु प्राणे संशयपूर्वपक्षनिर्णया उपपादिताः ॥ २३ ॥

उद्गीथ नामक स्तुतिविशेष के प्रकरण मे सर्वप्रथम यह कथा है कि उषस्ति नामक चक्रवर्ष के चाक्रायण, पूर्ण विद्वान् ऋषि किसी दुष्काल के समय किसी राजा के यज्ञ मे द्रव्य की इच्छा से गये, और प्रस्तोता नामक ऋत्विक् के पास मे बैठ गये, तथा प्रस्तोता ने जब स्तुति करना चाहा तब बोले कि ( हे प्रस्तोतः जो देवता प्रस्ताव- स्तुति ) का नियन्ता है, उसको समझे बिना यदि मेरे सामने स्तुति करोगे तो तेरा शिर गिर जायगा । यहाँ से आरम्भ करके सुना जाता है कि उस प्रस्तोता ने ऋषि से पूछा कि भगवन् वह कौन देवता प्रस्ताव का नियन्ता है, ऋषि बोले कि वह देवता प्राण है, और ये सब भूत अन्तकाल मे प्राण मे ही लीन होते हैं, सृष्टिकाल मे प्राण से ही उद्भूत ( प्रगत उत्पन्न ) होते हैं, इसलिये यही सबका हेतुरूप देवता प्रस्ताव ( स्तुति ) का नियन्ता है । यहाँ संशय और निर्णय पूर्व के समान जानना चाहिये । जैसे कि ( प्राणबन्धनं हि सोम्य मन ) मन रूप उपाधि वाला जीव प्राण रूप बन्धन वाला है अर्थात् सुषुप्ति मे प्राण नामक ब्रह्म से एक हो जाता है, तदधीन रहता है । वह ब्रह्म प्राण का प्राण ( प्रेरक प्रकाशक ) है इत्यादि वाक्यो मे ब्रह्मविषयक प्राण शब्द देखा जाता है, और वायु के विकार प्राणापानादि अर्थ मे प्राणशब्द वेद मे प्रसिद्ध ही है । इससे यहाँ प्रस्तावनियन्ता प्राणशब्दार्थ किसको माना जाय, प्राणशब्द द्वारा दोनो मे से किसका ग्रहण करना उचित है यह सशय होता है । फिर यहाँ किसका ग्रहण युक्तियुक्त है ऐसा विमर्श होने पर पूर्वपक्ष होता

है कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नामक पाँच वृत्ति ( अवस्था-परिणाम ) वाला प्राण का ग्रहण होना उचित है, क्योंकि इस प्राण अर्थ में प्राण शब्द अतिप्रसिद्ध है, यह पहले भी कहा जा चुका है। यदि कहा जाय कि यहाँ भी पूर्व के समान ब्रह्मलिङ्ग से ब्रह्म ही का ग्रहण होना उचित है, क्योंकि यहाँ भी भूतो का विलय और उद्गमन रूप परमेश्वर का कर्म प्रतीत होता है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्य प्राण में भी भूतो का विलय उद्गमन देखा जाता है। श्रुति कहती है कि जब पुरुष शयन करता है तब उस काल में प्राण में वाक्, चक्षु, श्रोत्र, मन ये सब लीन हो जाते हैं, और जब जागता है तब प्राण से ही सब उत्पन्न होते हैं। यह प्रत्यक्ष भी है कि सुषुप्ति काल में प्राण वृत्तियों के विलय नहीं होते हुए भी इन्द्रियों की वृत्तियाँ परिलुप्त हो जाती हैं। एव जागने के समय सब इन्द्रियवृत्ति प्रगट होती हैं। 'त्यस्य ह्येष तस्य बृ० २।३।५' इत्यादि श्रुतियों के अनुसार भूतो के साररूप इन्द्रियाँ हैं, इससे मुख्य प्राण में भी भूतो के विलय उद्गम कहने वाला वाक्यशेष विरुद्ध नहीं होता है। और प्रस्ताव का देवता प्राण के कथन के बाद, उद्गीथ और प्रतिहार भाग का देवता सूर्य और अन्न क्रम से कहे गये हैं, और उन दोनों को ब्रह्मत्व नहीं है, इसलिए उनके सामीप्य तुल्यता से भी प्राण को ब्रह्मता नहीं है, इस प्रकार पूर्वपक्ष के ग्राम होने पर सूत्रकार कहते हैं कि 'अत एव प्राण', तस्मिन्नात् ' यह पूर्व सूत्र में कहा गया है, इसी तस्मिन्नात् से प्राण शब्द का अर्थ भी परब्रह्म होने योग्य है, क्योंकि प्राण को ब्रह्मलिङ्ग से सम्बन्ध है। सुना जाता है कि यह सब भूत प्राण ही में प्रवेश करते हैं, प्राण से प्रगट होते हैं। और इस प्रकार कहे गये प्राण हेतुक सब भूतो के उत्पत्ति विनाशक प्राण को ब्रह्मरूपता है ऐसा बोध अनुमान कराते हैं। यदि कहो कि पहले कहा गया है कि प्राण शब्द से मुख्य प्राण के ग्रहण करने पर भी भूतो के सवेशन और उद्गमन के दर्शन अविरुद्ध हैं। सुषुप्ति और जाग्रत काल में प्राण में प्रवेश और उसीसे उद्गम देखा जाता है, तो यहाँ कहा जाता है कि स्वाप प्रबोध काल में केवल इन्द्रियों के प्राणाश्रित सवेशन और उद्गमन देखे जाते हैं, सब भूतो के सवेशनादि नहीं देखे जाते हैं, और यहाँ तो इन्द्रिय एवं शरीर सहित जीवों से आविष्ट ( युक्त ) सब भूतो के लयादि ( सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि ) इस श्रुति से सुने जाते हैं, और जिस समय भूतश्रुति महाभूत आकाशादि विषयक मानी जाती है, तब भी उसको ब्रह्मलिङ्गत्व अविरुद्ध है। यदि कहो कि ( जब पुरुष सोया हुआ किसी स्वप्न को भी नहीं देखता है, उस समय उस प्राण में ही पुरुष ( जीव ) एक था ( अभिन्न ) हो जाता है, और उस समय इस प्राण में ही सब नामों के सहित वाग्निन्द्रिय लीन होती है ) इस श्रुत्यर्थ के अनुसार विषयों के सहित सब इन्द्रियों का प्राण में विलय और प्राण से उत्पत्ति सुने जाते हैं, तो कहा जाता है कि वहाँ भी ब्रह्म के लिङ्ग होने से प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। और जो यह कहा था कि अन्न और सूर्य की समीपता से प्राण को अब्रह्मत्व है, सो यह कहना अयुक्त ( अनुचित ) है, क्योंकि वाक्यशेष के बल से प्राण

शब्द की ब्रह्मविषयता ( ब्रह्मबोधकता ) के निश्चय ज्ञात होने पर सन्निधान ( समीपता ) कुछ कर नहीं सकता है। एव पहले जो यह कहा था कि प्राणशब्द प्राणादि पाँच वृत्ति वाला वायुविशेष में प्रसिद्ध है, उसका प्रतिविधान ( उत्तर-निराकरण ) आकाश शब्द के समान समझना चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि प्रस्ताव का देवता रूप प्राण ब्रह्म है। यहाँ कोई इस सूत्र के उदाहरण रूप ( प्राणस्य प्राणम् । प्राणबन्धन हि सोम्य मन ) इन श्रुतियों को कहते हैं, यह अयुक्त है। क्योंकि प्रथम वाक्य में शब्द के भेद से और दूसरे में प्रकरण से सशय की सिद्धि नहीं हो सकती है, जैसे कि (पितुःपिता) पिता का पिता, इस प्रयोग में षष्ठी विभक्त्यन्त पद से कहा गया यहाँ पिता एक अन्य है, और प्रथमा विभक्त्यन्त से कहा गया दूसरा पिता का पिता उससे अन्य है यह समझा जाता है, वैसे ही 'प्राणस्य प्राणम्' इस प्रकार के शब्द भेद से निश्चय किया जाता है कि प्रसिद्ध प्राण से अन्य प्राण का प्राण है, क्योंकि वह प्रसिद्ध एक ही प्राण, प्राण का प्राण है, इस प्रकार भेदपूर्वक कथन के योग्य नहीं हो सकता है। और जिसके प्रकरण में जो नामान्तर द्वारा भी कहा जाता है, वहाँ वही प्रकरण में प्रथम कथित वस्तु नामान्तर से भी समझी जाती है कि वही वस्तु यहाँ कही गई है। जैसे कि ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में ( वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत ) प्रति वसन्त में ज्योतिष नामक यज्ञ से इष्ट का संपादन करे। इस वाक्य में ज्योति. शब्द ज्योतिष्टोम का वाचक होता है। इसी प्रकार परब्रह्म के प्रकरण में सुना गया ( प्राणबन्धनम् ) यह प्राण शब्द वायु के विकार मात्र को कैसे बोध करा सकता है। इस लिए सशय के अविषय होने से यह उदाहरण युक्त नहीं है और प्रस्ताव का देवता रूप प्राणविषयक सशय पूर्वपक्ष और निर्गुण तो उपपादित ( युक्तसिद्ध प्रतिपादित ) हो चुके हैं ॥ २३ ॥

### ज्योतिश्चरणाभिधानात् ॥ २४ ॥

सक्षिप्तार्थ है कि ( परा दिवो ज्योतिरित्यादिश्रुतौ ज्योतिःशब्दार्थो ब्रह्मैव पूर्वं प्रकरणो, ब्रह्मण एव चरणाना भागानामभिधानान्न तु सूर्यादिज्योतिस्तस्यार्थ इति ) 'परो दिवो ज्योतिः' इत्यादि श्रुति में ज्योति. शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, क्योंकि पूर्व प्रकरण में ब्रह्म के भागो ( अंशो ) का कथन है। इसीसे सूर्यादि उस पद के अर्थ नहीं हैं ॥ २४ ॥

### ज्योतिश्चरणाधिकरण ॥ १० ॥

कार्यं ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिर्दीप्यत इत्यदः ।  
 ब्रह्मणोऽसंनिधेः कार्यं तेजो लिङ्गबलादपि ॥ १ ॥  
 चतुष्पात्प्रकृतं ब्रह्म यच्छब्देनानुवर्त्यते ।  
 ज्योतिः स्याद्भासकं ब्रह्म लिङ्गन्तूपाधियोगतः ॥ २ ॥

‘ज्योतिर्दीप्यते’ यहाँ ज्योतिः शब्द कार्यं ज्योति का वाचक है अथवा ब्रह्म का वाचक है, ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष है कि यहाँ ब्रह्म की असमीपता से और तेज के लिङ्गो के बल से भी कार्यं ही सूर्यादि ज्योतिः शब्दार्थ हैं ॥ १ ॥ सिद्धान्त है कि चार पाद युक्त ब्रह्म का प्रकरण है, वही प्रकृत ब्रह्म यहाँ यत् शब्द से अनुवृत्ति द्वारा प्राप्त होता है, और प्रकाशक होने से ब्रह्म ज्योति कहाता है, तथा अन्य कार्यं का लिंग उपाधि के सम्बन्ध से ब्रह्म मे भासता है ॥ २ ॥

इदमामनन्ति—‘अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः’ ( छा० ३।१३।७ ) इति । तत्र संशयः—‘किमिह ज्योतिः शब्देनादित्यादि ज्योतिरभिधीयते किवा पर आत्मेति । अर्थान्तरविषयस्यापि शब्दस्य तल्लिङ्गाद्ब्रह्मविषयत्वमुक्तम्, इह तु तल्लिङ्गमेवास्ति नास्तीति विचार्यते । किं तात्रप्राप्तम् ? आदित्यादिकमेव ज्योतिः शब्देन परिगृह्यत इति । कुतः ? प्रसिद्धेः । तमो ज्योतिरिति हीमौ शब्दौ परस्परप्रतिद्वन्द्वविषयौ प्रसिद्धौ । चक्षुर्वृत्तेर्निरोधकं शार्वरादिकं तम उच्यते । तस्या एवानुप्राहकमादित्यादिकं ज्योतिः । तथा ‘दीप्यते’ इतीयमपि श्रुतिरादित्यादिविषया प्रसिद्धा । नहि रूपादिहीनं ब्रह्म दीप्यत इति मुख्यां श्रुतिमर्हति । द्युमर्यादत्वश्रुतेश्च नहि चराचरबीजस्य ब्रह्मणः सर्वात्मकस्य द्यौर्मर्यादा युक्ता । कार्यस्य तु ज्योतिषः परिच्छिन्नस्य द्यौर्मर्यादा स्यात् । ‘परो दिवो ज्योतिः’ इति च ब्राह्मणम् । ननु कार्यस्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वाद्द्युमर्यादावस्त्वमसमञ्जसम् । अस्तु तर्ह्यत्रिवृत्कृतं तेजः प्रथमजम् । न । अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः प्रयोजनाभावादिति । इदमेव प्रयोजनं यदुपास्यत्वमिति चेत् । न प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्यैवादित्यादेरुपास्यत्वदर्शनात् । ‘तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि’ ( छा० ६।३।३ ) इति चाविशेषश्रुतेः । न चात्रिवृत्कृतस्यापि तेजसो द्युमर्यादत्वं प्रसिद्धम् । अस्तु तर्हि त्रिवृत्कृतमेव तत्तेजो ज्योतिःशब्दम् । ननूक्तमवोगपि दिवोऽवगम्यतेऽग्न्यादिकं ज्योतिरिति । नैष दोषः, सर्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः ‘परो दिवः’ इत्युपासनार्थः प्रदेशविशेषपरिग्रहो न विरुध्यते, न तु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेशावशेषकल्पना भागिनी । ‘सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेषु’ इति चाधारबहुत्वश्रुतिः कार्यं ज्योतिष्युपपद्यतेतराम् । ‘इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः’ ( छा० ३।१३।७ ) इति च कौत्सेये ज्योतिषि परं ज्योतिरध्यस्यमानं दृश्यते । सारूप्यनिमित्ताश्चाध्यासा भवन्ति । यथा—‘तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम्’ ( बृ० ५।५३ ) इति । कौत्सेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धमब्रह्मत्वम् । ‘तस्यैषा दृष्टिः तस्यैषा श्रुतिः’ ( छा० ३।१३।७ ) इति चौष्ण्यघोषविशिष्टत्वस्य श्रवणात् । ‘तदेतद् दृष्ट च श्रुतं चेत्युपासीत’ इति च श्रुतेः । ‘चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद्’ ( छा० ३।१३।८ ) इति चाल्पफलश्रवणाद्ब्रह्मत्वम् । महते हि फलाय ब्रह्मोपासन-

मिष्यते । नचान्यदपि किञ्चित्स्ववाक्ये प्राणाकाशवज्ज्योतिषोऽस्ति ब्रह्मलिङ्गम् । नच पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टमस्ति, 'गायत्री वा इदं सर्वं भूतम्' इति छन्दोनिर्देशात् । अथापि कथंचित् पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टं स्यादेवमपि न तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्ति, तत्र हि 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' ( ३।१२।१,६ ) इति द्यौरधिकरणत्वेन श्रूयते, अत्र पुनः 'परो दिवो ज्योतिः' इति द्यौरर्थादात्वेन । तस्मात्प्राकृतं ज्योतिरिह ब्राह्ममित्येवं प्राप्ते ब्रह्मः—

छान्दोग्य शाखा वाले यह कहते हैं कि ( जो इस दिव ( स्वर्ग ) से परे ज्योति दीत होती है, जो विश्व ( सब प्राणी ) के पृष्ठ के ऊपर दोत होती है, जो सब लोक के ऊपर दीत होती है, और जिससे कोई उत्तम लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोको मे जो प्रकाशित होती है, वह ज्योति यही है कि जो इस पुरुष के अन्दर मे अन्निरूप ज्योति है ) यहाँ सशय होता है कि यहाँ ज्योति शब्द से सूर्यादि ज्योति कही जाती है, अथवा परब्रह्म आत्मा कहा जाता है । यद्यपि अर्थान्तर वाचक शब्द को ब्रह्मवाचकत्व ब्रह्म के लिङ्ग से कहा जा चुका है, तथापि वह ब्रह्म का लिङ्ग यहाँ है कि नहीं है, इस अर्थ का यहाँ विचार किया जाता है । विमर्श हुआ कि प्राप्त क्या है ? पूर्व पक्ष है कि आदित्यादिक ही ज्योति शब्द से समझे जाते हैं, क्योंकि आदित्यादि अर्थ मे ज्योति शब्द की प्रसिद्धि है । तम और ज्योति ये दोनो शब्द परस्परविरोधी अर्थ को कहने वाले लोक मे प्रसिद्ध हैं । चक्षुवृत्ति के विरोध करने वाला रात्रि मे होने वाला अन्धकारादि तम कहा जाता है और उस नेत्र की वृत्ति ( तेज व्यापार ) के सहायक सूर्यादि को ज्योति कहा जाता है । इसी प्रकार ( दीप्यते ) प्रकाशता है, यह श्रुति भी आदित्यादि विषयक प्रसिद्ध है, रूपादि रहित ब्रह्म प्रकाशता है, इस श्रुति का मुख्य अर्थ नहीं हो सकता है । वह वस्तुतः इस वाक्य से नहीं कहा जा सकता है, और स्वर्ग मर्यादत्व ( स्वर्ग सीमायुक्त ) सुनने से भी यह ज्योति ब्रह्म वाचक नहीं है, क्योंकि चराचर के बीज सर्वात्मा ब्रह्म की स्वर्ग मर्यादा ( सीमा ) होना युक्त नहीं है, और परिच्छिन्न ( एकदेशी ) कार्य रूप ज्योति की स्वर्ग मर्यादा ( सीमा ) हो सकती है । ( परो दिवो ज्योतिः ) यह ब्राह्मण ग्रन्थ मर्यादा कहता है कि—स्वर्ग से परे ज्योति प्रकाशती है । यदि कार्य ज्योति को भी सर्वत्र उपलब्ध ( ज्ञात ) होने से उसमे भी स्वर्ग मर्यादत्व नहीं बन सकता ऐसी शङ्का हो तो सृष्टि काल मे प्रथम उत्पन्न भूमि ( अन्न ) जल के साथ सम्मेलन रूप त्रिवृत्करण से रहित सूक्ष्म तेज यहाँ ज्योति शब्द का अर्थ हो सकता है । यदि कहा जाय कि ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सृष्टि के बाद उस सूक्ष्म तेज का कोई प्रयोजन ( फल ) नहीं होता है, स्थूल तेज ही सर्वत्र काम देता है, इससे उसकी सत्ता मे प्रमाण का अभाव है । यदि कहो कि उसका यही प्रयोजन है कि वह उपास्य होता है, उसकी उपासना की जाती है, तो यह कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रयोजनान्तर मे प्रयुक्त (हितु रूप) ही सूर्यादि को उपास्यत्व देखा जाता है । ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसका केवल उपासना ही प्रयोजन हो । ( तेजो, अप, अन्न, रूप देवताओ मे एक एक को



त्रिवृत त्रिवृत ( तीन रूपों से सम्मिलित ) करूँ इस प्रकार ईश्वर के सकल्पपूर्वक तीनो का सामान्य रूप से सम्मेलन सुना गया है, इससे सम्मेलन रहित की सत्ता नहीं है, सम्मेलन रहित तेज को भी स्वर्ग सीमायुक्तत्व प्रसिद्ध नहीं है। फिर पूर्व पक्षी कहता है कि तो सम्मिलित ही वह स्थूल तेज ज्योति शब्द का अर्थ है। यदि कहो कि स्वर्ग से नीचे भी अग्नि आदि तेज उपलब्ध होता है यह कहा जा चुका है, तो यह दोष नहीं है, क्योंकि सर्वत्र उपलब्ध ( ज्ञात ) ज्योति का भी ( पर.दिव ) इस श्रुति के अनुसार उपासना के लिए प्रदेश विशेष का परिग्रह ( स्वीकार ) विरुद्ध नहीं होता है। निष्प्रदेश ( निरव-यव देश सम्बन्ध रहित ) ब्रह्म के प्रदेशविशेष की कल्पना भागिनी ( युक्त ) नहीं हो सकती है। ( सब के ऊपर प्रकाशता है। अनुत्तम उत्तम लोको में प्रकाशता है ) इस प्रकार बहुत आधारवत्त्व का श्रवण भी कार्य ज्योति में अत्यन्त युक्त होता है। और ( वह ज्योति यही है कि जो पुरुष में अन्तर्ज्योति है ) यहाँ कुक्षिगत ज्योति में पर ज्योति का अभ्यास ( आरोप ) किया हुआ देखा जाता है, और सदृशता निमित्तक अभ्यास होते हैं। जैसे कि ( आदित्य मण्डलान्तर्गत पुरुष का भूरूप व्याहृति शिर है, क्योंकि एक शिर है और एक ही यह अक्षर है। और कुक्षिगत ज्योति की अब्रह्मता प्रसिद्ध है ( उस कुक्षिगत तेज की यह दृष्टि है जो शरीर में गरमी उपलब्ध होती है। और जो कान में अनाहत शब्द सुना जाता है सो उसकी श्रुति ( श्रवण ) है। इस प्रकार उष्णता घोष ( नाद ) युक्तत्व को सुनने से, तथा ( यह अन्तर्ज्योति दृष्ट और श्रुत है ) इस प्रकार उपासना करे। इस श्रुति से, और इस प्रकार उपासना करने वाला दर्शनीय सुन्दर होता है एव श्रुत ( प्रख्यात ) होता है। एव अल्प फल के श्रवण से भी कुक्षिगत तेज को अब्रह्मत्व ( ब्रह्मभिन्नत्व ) सिद्ध होता है। क्योंकि महाफल के ही लिये ब्रह्म की उपासना वाञ्छित होती है। और प्राण तथा आकाश के समान अन्य भी कोई ब्रह्म का लिङ्ग स्ववाक्य ( ज्योति वाक्य ) में नहीं है कि जिस ब्रह्म से ज्योति को ब्रह्म समझा जाय। पूर्व वाक्य में भी ब्रह्म नहीं निर्दिष्ट है क्योंकि ( गायत्री वा इदं सर्वं भूतम् ) इस पूर्व वाक्य में छन्द का कथन है, कि गायत्री छन्द रूप यह सब भूत है। यदि सर्वात्मत्व अमृतत्व के कथन से किसी प्रकार पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्ट ( कथित ) है, ऐसा माना भी जाय तो भी उसका यहाँ प्रत्यभिज्ञान ( वही यह है ऐसा निश्चय ) नहीं हो सकता है। क्योंकि पूर्व वाक्य में कहा गया है कि ( त्रिपादस्यामृत-दिवि ) उसके तीन पाद रूप अमृत स्वर्ग में है। इससे स्वर्ग उस अमृत का अधिकरण रूप से सुना जाता है और यहाँ दिव ( स्वर्ग ) से पर ज्योति सुनी जाती है। इससे स्वर्ग मर्यादा सीमा रूप से सुना जाता है। तथा प्राकृत ( प्रकृति के कार्य ), साधारण ज्योति यहाँ ग्रहण के योग्य है।

ज्योतिरिह ब्रह्म प्राह्यम्। कुतः ? चरणाभिधानात्, पादाभिधानादित्यर्थः।  
पूर्वस्मिन् हि वाक्ये चतुष्पाद्ब्रह्म निर्दिष्टम्—

तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पूरुषः ।

पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥

( छा० ३।१२।६ ) इत्यनेन मन्त्रेण । तत्र यच्चतुष्पदो ब्रह्मणस्त्रिपादमृतं द्युसम्बन्धिरूपं निर्दिष्टं तदेवेह द्युसम्बन्धान्निर्दिष्टमिति प्रत्यभिज्ञायते । तत्परित्यज्य प्राकृतं ज्योतिः कल्पयतः प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्येयाताम् । न केवलं पूर्ववाक्याज्ज्योतिर्वाक्य एव ब्रह्मानुवृत्तिः, परस्यामपि शाण्डिल्यविद्यायामनुवर्तिष्यते ब्रह्म । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् । यत्तुक्तम्—‘ज्योतिर्दीप्यते’ इति चैतौ शब्दौ कार्ये ज्योतिषि प्रसिद्धाविति । नायं दोषः । प्रकरणाद्ब्रह्मावगमे सत्यनयोः शब्दयोरविशेषकत्वात् दीप्यमानकार्यज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात् । ‘येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः’ ( तै० ब्रा० ३।१२।६।७ ) इति च मन्त्रवर्णात् । यद्वा नायं ज्योतिःशब्दश्चक्षुर्वृत्तेरेवानुग्राहके तेजसि वर्तते, अन्यत्रापि प्रयोगदर्शनात्—‘वाचैवायं ज्योतिषास्ते’ ( बृ० ४।३।५ ) ‘मनो ज्योतिर्जुषताम्’ ( तै० ब्रा० १।६।३।३ ) इति च, तस्माद्यद्यत्कस्यचिदवभासकं तत्तज्ज्योतिःशब्देनाभिधीयते । तथा सति ब्रह्मणोऽपि चैतन्यरूपस्य समस्तजगदवभासहेतुत्वादुपपन्नो ज्यातःशब्दः । ‘तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ ( कौ० २।१।१५ ) ‘तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्’ ( बृ० ४।४।१६ ) इत्यादि श्रुतिभ्यश्च । यदप्युक्तं—द्युमर्यादत्वं सर्वगतस्य ब्रह्मणो नोपपद्यत—इति । अत्रोच्यते । सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थः प्रदेशविशेषपरिग्रहो न विरुध्यते ।

इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि ज्योति यहाँ ब्रह्म ग्रहण के योग्य है, क्योंकि प्रथम चरण ( ब्रह्म के पादो ) का कथन किया गया है । पूर्व वाक्य में चार पादयुक्त ब्रह्म ही कहा गया है कि ( तावान ) चतुष्पदा षड्विधा गायत्री आदि रूप यह ससार इस ब्रह्म की महिमा ( विभूति ) है, और वह ब्रह्म रूप पुरुष उस विभूति से बहुत बड़ा ( अधिक ) है, क्योंकि ये सब भूत इसके एक पाद ( अश ) रूप हैं । उसके त्रिपाद ( अनन्त स्वरूप ) दिव ( प्रकाश मय स्वरूप ) में है, या सूर्य मण्डल में है । तावानित्यादि मन्त्र में जो चतुष्पादयुक्त ब्रह्म का त्रिपाद रूप अमृत स्वरूप प्रकाश सम्बन्धी रूप वाला कहा गया है, वही यहाँ ( दिवः परः ) इस वाक्य में कहा गया है, वह प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान दिवपद के सम्बन्ध से होता है । वहाँ प्रत्यभिज्ञा के विषय ब्रह्म को त्याग कर प्राकृत ज्योति की कल्पना करने वाले को प्रकृत की हानि अप्रकृत की कल्पना रूप दोष प्राप्त होगा । एव पूर्व वाक्य से केवल ज्योति वाक्य में ही ब्रह्म की अनुवृत्ति ( प्राप्ति सम्बन्ध ) नहीं होती है, किन्तु इससे भी आगे वर्णित शाण्डिल्य नामक विद्या में ब्रह्म की अनुवृत्ति होगी । इससे यहाँ ‘ज्योति’ इस पद से ब्रह्म को समझना चाहिये । पहले जो यह कहा था कि ( ज्योति और दीप्यते )

ये दोनो शब्द कार्य रूप ज्योति मे प्रसिद्ध हैं, वहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि प्रकरण से ब्रह्म के ज्ञान होने पर ये दोनो शब्द विशेषक ( भेदक ) नहीं होते हैं, ब्रह्म की व्यावृत्ति करके अन्यार्थ के बोधक नहीं होते है। क्योंकि दीप्यमान कार्य ज्योति से उपलक्षित ( बोधित ) ब्रह्म मे भी उनका प्रयोग हो सकता है। तथा ( जिस तेज रूप चेतनात्मा से इन्द्र—प्रकाशित होकर सूर्य—तपता प्रकाश करता है ) इत्याद्यर्थक मन्त्रो से उक्तार्थ की सिद्धि होती है, अथवा यह ज्योति शब्द नेत्र वृत्ति का सहायक तेज ही अर्थ को कहता है, यह नियम नहीं है। अन्य अर्थ मे भी ज्योति शब्द का प्रयोग देखा जाता है, जैसे कि ( सूर्य दीपादि के नहीं रहने पर यह पुरुष अन्धकार मे वाक् रूप ज्योति से ही स्थिति आदि व्यवहार करता है ) और वृत्तं जुषताम्' ध्रुत का सेवन पान करने वालो का मन ज्योतिः ( प्रकाशक ) होता है इत्यादि। इससे जो जिस किसी का प्रकाशक होता है वह सब ज्योति शब्द से कहा जाता है। और ऐसे होने पर चेतन स्वरूप ब्रह्म को भी सम्पूर्ण जगत के प्रकाश का हेतु होने से उस अर्थ में ज्योति शब्द उचित है एवं ( उस ब्रह्म के प्रकाशित रहते ही सब फिर प्रकाशता है। उसके प्रकाश से यह सब जगत प्रकाशता है। उस ब्रह्म की ही ज्योतियो की ज्योति रूप से और आयु अमृत रूप से देव सब उपासना करते हैं ) इत्यादि श्रुतियों से भी ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। पहले जो यह कहा था कि विभु ब्रह्म की स्वर्ग सीमा नहीं हो सकती, सीमा युक्तत्व ब्रह्म मे अनुचित है। वहाँ कहा जाता है कि विभु ब्रह्म की उपासना के लिये प्रदेश विशेष का परिग्रह स्वीकार, विरुद्ध नहीं होता है।

ननुक्तं—निष्प्रदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेशविशेषकल्पना नोपपद्यत—इति। नायं दोषः। निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधिविशेषसम्बन्धात्प्रदेशविशेषकल्पनोपपत्तेः। तथाहि—आदित्ये चक्षुषि हृदये इति प्रदेशविशेषसम्बन्धीनि ब्रह्मण उपासनानि श्रयन्ते। एतेन 'विश्वतः पृष्ठेषु' इत्याधारबहुत्वमुपपादितम्। यदप्येतदुक्तम्—औष्ण्यघोषानुमिते कौक्षेये कार्ये ज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः कार्यं ज्योतिरेव—इति। तदप्ययुक्तम्। परस्यापि ब्रह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्कौक्षेयज्योतिष्यप्रतीकत्वोपपत्तेः। 'हृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत' इति तु प्रतीकद्वारकं हृष्टत्वं श्रुतत्वं च भविष्यति। यदप्यल्पफलश्रवणान्न ब्रह्मेति। तदप्यनुपपन्नम्। नहीयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयम्, इयते नेति नियमहेतुरस्ति। यत्र हि निरस्त-सर्वविशेषसम्बन्धं परं ब्रह्मात्मत्वेनोपदिश्यते, तत्रैकरूपमेव फलं मोक्ष इत्यवगम्यते। यत्र तु गुणविशेषसम्बन्धं प्रतीकविशेषसम्बन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते, तत्र संसारगोचराण्येवोच्चावचानि फलानि दृश्यन्ते—'अन्नादो वसुदानो विदन्ते वसु य एवं वेद' ( बृ० ४।४।२४ ) इत्याद्यासु श्रुतिषु। यद्यपि न स्ववाक्ये किञ्चिज्ज्योतिषो ब्रह्मलिङ्गमस्ति तथापि पूर्वस्मिन्वाक्ये दृश्यमानं प्रहीतव्यं भवति। तदुक्तं सूत्रकारेण—'ज्योतिश्चरणाभिधानात्' इति। कथं पुनर्वाक्यान्तरगतेन ब्रह्मसंनिधानेन ज्योतिःश्रुतिः स्वविषयात् प्रचयाव्य शक्या व्यावर्तयि-

तुम् । नैष दोषः । 'यदतः परो दिवो ज्योतिः' इति प्रथमतरपठितेन यच्छब्देन सर्वनाम्ना द्युसम्बन्धान्प्रत्यभिज्ञायमाने पूर्ववाक्यनिर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्येन परामृष्टे सत्यर्थाज्ज्योतिःशब्दस्यापि ब्रह्मविषयत्वोपपत्तेः । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् ॥ २४ ॥

यदि कहो कि यह बात कही जा चुकी है कि निरयव ब्रह्म के प्रदेश विशेष की कल्पना नहीं बन सकती है, तो कहा जाता है कि यह दोष भी नहीं है क्योंकि निरयव ब्रह्म का भी उपाधि विशेष के साथ सम्बन्ध से प्रदेश विशेष की कल्पना सिद्ध होती है, जैसे कि आदित्य, चक्षु, हृदय, इत्यादि प्रदेश विशेष सम्बन्धी ब्रह्म की उपासनार्थे सुनी जाती हैं । इन श्रुतियों से ही 'विश्वतः पृष्ठेषु' इत्यादि में वर्णित आधार बहुत्व का कथन भी उपासना के लिये उपपादित ( सिद्ध ) हो चुका । और जो यह भी कहा गया था कि उष्णता और नाद से अनुमित ( ज्ञात ) कुक्षिस्थ कार्य अग्नि में अध्यास का विषय होने से दिव ( स्वर्ग ) से पर भी कार्य अग्नि रूप ही ज्योति है, वह भी कथन अयुक्त है । परब्रह्म को भी नामादिप्रतीकत्वके समान कौक्षेय ज्योतिष्प्रतीकत्व ( आधेय अवयवत्व ) बन सकता है । और (दृष्ट है, श्रुत है इस प्रकार उपासना करे) इत्यादिविहित दृष्टत्व श्रुतत्व भी ब्रह्म को प्रतीक द्वारा होगा । जो यह कहा गया था कि अल्प फल होने से दृष्ट श्रुत ब्रह्म नहीं है । वह भी अयुक्त है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि इतने फल के लिये ब्रह्म का आश्रयण करना चाहिये और इतने के लिये नहीं । जहाँ सब विशेष सम्बन्ध से रहित ब्रह्म का उपदेश रहता है, वहाँ एक स्वरूप ही मोक्ष फल अवगत ( अनुभूत ) होता है । और जहाँ गुण विशेष का सम्बन्ध युक्त वा प्रतीक विशेष का सम्बन्ध युक्त ब्रह्म उपदिष्ट होता है, वहाँ संसार विषयक ही उत्तममध्यमादि फल देखे जाते हैं । जैसे कि ईश्वर अन्न को खाने वाला वा देने वाला है, तथा वसु ( हिरण्य को देने वाला है, इस प्रकार समझ कर जो उपासना करता है, वह धन पाता है ) इत्यादि श्रुतियों में वर्णन है । यद्यपि ज्योति बोधक वाक्य में कोई लिंग नहीं है कि ज्योति को ब्रह्मता सिद्ध करे, तथापि पूर्व वाक्य में देखा गया है कि लिङ्ग ग्रहण के योग्य है । इसलिये सूत्रकार ने कहा कि 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्' । शका होती है कि वाक्यान्तर गत ब्रह्म के सन्निधान ( सम्बन्ध ) से ज्योतिः प्रत्यक्ष श्रुति अपने विषय से प्रच्युति के योग्य कैसे हो सकती है, उत्तर है कि ( यदतः परो दिवो ज्योतिः ) यहाँ सबसे प्रथम पठित सर्वनाम यत् शब्द से स्वसामर्थ्य द्वारा पूर्व वाक्य में कथित ब्रह्म के परामृष्ट ( स्मृत ) होने पर, और दिव के साथ सम्बन्ध से प्रत्यभिज्ञात होने पर फिर ( अर्थात् ज्योति पद के साथ यत् की सामानाधिकरण्यात् ) ज्योति शब्द को ब्रह्म विषयकत्व सिद्ध होता है । इससे यहाँ 'ज्योति' इस शब्द से ब्रह्म को समझना चाहिये ॥ २४ ॥

छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पणनिगदात्तथा हि दर्शनम् ॥ २५ ॥

छन्दोभिधानात्-न-इति-चेत्-न-तथा-चेतोऽर्पणनिगदात्-तथा-हि-दर्शनम् । ये दश पद इस सूत्र में हैं । और ब्रह्म तथा ज्योति' पद का पूर्व से सम्बन्ध होता है । सक्षिप्त सूत्रार्थ है कि ( पूर्वस्मिन् वाक्ये गायत्री नाम्नश्छन्दसोऽभिधानाद् गायत्र्या एव पादत्रयाद्युक्तेस्तादृशवाक्यबलाद्वात्र ज्योतिर्ब्रह्म भवितुमर्हति इति चेन्न तथा ( तेन प्रकारेण ), गायत्रीकथनमार्गेण तत्रानुगते ब्रह्मणि तद्वाच्ये चेतसोऽर्पणस्य कथनात्, तथा अन्यत्रापि दर्शनमस्त्येव ( एतं ह्येव बह्वृचामहत्युक्थे मीमासन्ते इत्यादि ) पूर्व वाक्य में गायत्री नामक छन्द के कथन से तथा उसी के तीन पादादि की उक्ति से वैसे वाक्य के बल से यहाँ ज्योति ब्रह्म नहीं हो सकता है । यदि इस प्रकार कोई कहे तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस रीति से गायत्री के कथन द्वारा गायत्री मे अनुगत उसका वाच्य ब्रह्म में चित्त का अर्पण कहा गया है, और इस प्रकार ( एतं ह्येव ) इत्यादि वचन देखा गया है, इससे पूर्ववाक्य मे ब्रह्म का कथन है ॥ २५ ॥

अथ यदुक्तम्—पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये न ब्रह्माभिहितमस्ति, 'गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च' ( छा० ३।१।१२ ) इति गायत्र्याख्यस्य छन्दसोऽभिहितत्वात्-इति । तत्परिहर्तव्यम् । कथं पुनश्छन्दोभिधानान्न ब्रह्माभिहितमिति शक्यते वक्तुं, यावता 'तावानस्य महिमा' इत्येतस्यामृचि चतुष्पाद्ब्रह्म दर्शितम् । नैतदस्ति । 'गायत्री वा इदं सर्वम्' इति गायत्रीमुपक्रम्य तामेव भूतपृथिवीशरीरहृदयवाक्प्राणप्रभेदैर्व्याख्याय 'सैषा चतुष्पादा षड्विधा गायत्री' तदेतदृचाभ्यनूक्तं 'तावानस्य महिमा' इति तस्यामेव व्याख्यातरूपायां गायत्र्यामुदाहृतो मन्त्रः कथमकस्माद्ब्रह्म चतुष्पादाभिदध्यात् । योऽपि तत्र 'यद्वै तद्ब्रह्म' ( छा० ३।१।१५, ६ ) इति ब्रह्मशब्दः सोऽपि छन्दसः प्रकृतत्वाच्छन्दोविषय एव । 'य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद' ( छा० ३।१।३ ) इत्यत्र हि वेदोपनिषदमिति व्याचक्षते, तस्माच्छन्दोभिधानान्न ब्रह्मणः प्रकृतत्वमिति चेत् ? नैष दोषः । 'तथा चेतोर्पणनिगदात्' तथा गायत्र्याख्यच्छन्दोद्वारेण तदनुगते ब्रह्मणि चेतसोऽर्पणं चित्तसमाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगद्यते—'गायत्री वा इदं सर्वम्' इति । न ह्यक्षरसंनिवेशमात्राया गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं सम्भवति । तस्माद्यद्गायत्र्याख्यविकारेऽनुगतं जगत्कारणं ब्रह्म तदिह सर्वमित्युच्यते । यथा 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' ( छा० ३।१।४।१ ) इति । कार्यं च कारणादव्यतिरिक्तमिति वक्ष्याम—'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः, ( ब्र० २।१।१४ ) इत्यत्र । तथान्यत्रापि विकारद्वारेण ब्रह्मण उपासनं दृश्यते—'एतं ह्येव बह्वृचा महत्युक्थे मीमांसन्ते, एतमप्रावध्वयं, एतं महाव्रते छन्दोगाः' ( ऐ० आ० ३।२।३।२२ ) इति । तस्मादस्ति छन्दोभिधानेऽपि पूर्वस्मिन्वाक्ये चतुष्पाद्ब्रह्म निर्दिष्टम् । तदेव ज्योतिर्वाक्येऽपि परामृश्यते उपासनान्तरविधानाय ।

और पूर्वमे जो कहा था कि पूर्व वाक्य मे ब्रह्म नहीं कथित है, क्योंकि ( गायत्री ही इस सब भूत स्वरूप है, और जो कुछ यह वस्तु है वह गायत्री है ) इसप्रकार गायत्री नामक

छन्द कहा गया है, इस शका की निवृत्ति करनी चाहिये। यहाँ कोई कहता है कि छन्द के कथन से ब्रह्म नहीं कहा गया है। यह कैसे कहा जा सकता है? जब कि ( तावानस्य महिमा ) इस ऋग् मन्त्र में चारपादयुक्त ब्रह्म दिखलाया गया है। पूर्वपक्षी कहता है कि उस मन्त्र में भी ब्रह्म नहीं दिखलाया गया है, क्योंकि ( गायत्री वा इदं सर्वम् ) गायत्री ही यह सर्वस्वरूप है। इस प्रकार गायत्री का आरम्भ करके फिर उसीका भूत, पृथिवी, शरीर, हृदय, वाक् और प्राण के प्रभेद रूप से व्याख्यान करके उसी के विषय में कहा गया है कि—यह गायत्री चारपाद वाली छ प्रकार की है। एवं यह ऋग मन्त्र से भी कहा गया है कि—तावानस्य महिमा। इस प्रकार यह मन्त्र भी उस व्याख्यात रूपवाली गायत्री में ही उदाहरण दिया गया है। फिर चारपाद वाले ब्रह्म को वह मन्त्र अकस्मात् कैसे कह सकता है? बिना कारण के वह ब्रह्म को नहीं कह सकता है। और जो वहाँ ( यद्वैतद्ब्रह्म ) इस वाक्य में ब्रह्म शब्द है उसके बल से भी मन्त्र ब्रह्म को नहीं कह सकता है, क्योंकि छन्द का प्रकरण होने से वह ब्रह्म शब्द छन्द विषयक ही है। ( य एतामेवं ब्रह्मोपनिषद वेद ) इस वाक्य में ब्रह्मोपनिषद का वेदोपनिषद इस प्रकार व्याख्यान करते हैं। इससे गायत्री आदि रूप वेद भी ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है। उक्त वाक्य का अर्थ है कि—‘जो कोई इस वेद के रहस्यरूप मधुविद्या को कथित रीति से जानता है उसको उदयादि रहित ब्रह्म की प्राप्ति होती है।’ इस पूर्वोक्त हेतु से पूर्व प्रकरण में वेदरूप छन्द के कथन से ब्रह्म को पूर्व प्रकृतत्व नहीं है। यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है। यद्यपि गायत्री का कथन पूर्व प्रकरण में ठीक ही है, तो भी उस गायत्री के द्वारा ब्रह्म में चित्त का अर्पण भी कहा गया है, इससे ब्रह्म भी प्रकृत है। क्योंकि इस ब्राह्मण वाक्य से ( गायत्री नामक छन्द द्वारा ) उसमें व्यापक ब्रह्म में चित्त का समाधान रूप अर्पण कहा जाता है ( गायत्री ही यह सब स्वरूप है )। गायत्री पद से यदि तदनुगत ब्रह्म को लक्षित नहीं माना जाय तो अक्षरो के सन्निवेश ( रचनाविशेष ) मात्ररूप गायत्री को सर्वात्मकता सम्भव नहीं हो सकती है। जिससे गायत्री नामक कार्य में अनुगत जगत का कारण जो ब्रह्म वही यहाँ सर्व स्वरूप कहा जाय। जैसे कि ( सर्वं खल्विदं ब्रह्म ) इस श्रुति में सर्व स्वरूप ब्रह्म कहा जाता है। और कार्य वस्तु, उपादान कारण से भिन्न नहीं होती है यह आगे ( तदनन्यत्वम् ) इत्यादि सूत्र में कहेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र भी कार्य द्वारा ब्रह्म की उपासना देखी गई है कि इसी परमात्मा की बहवृत्त ( ऋग्वेदी ) महान् उक्त्य ( शस्त्र ) में उपासना करते हैं। इसी की उपासना यजुर्वेदी अग्नि में करते हैं और सामवेदी महाव्रत रूप ऋतु में उपासना करते हैं। जिससे छन्द का कथन होते हुए भी पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्ट है, वही ब्रह्म उपासनान्तर के विधान के लिये ज्योतिबोधक वाक्य में भी परामृष्ट ( स्मृत ) होता है।

अपर आह—साक्षादेव गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते संख्यासामान्यात्, यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरैः पादैस्तथा ब्रह्म चतुष्पात्। तथान्यत्रापि

छन्दोभिधायी शब्दाऽर्थान्तरे संख्यासामान्यात् प्रयुज्यमानो दृश्यते । तद्यथा—  
‘ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्’ इत्युपक्रम्याह ‘सैषा  
विराड्नादी’ ( छा० १३।८ ) इति । अस्मिन् पक्षे ब्रह्मैवाभिहितमिति न छन्दो-  
भिधानम् । सर्वथाप्यस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतं ब्रह्म ॥ २५ ॥

यहाँ अन्य कोई कहते हैं कि गायत्री शब्द लक्षणा द्वारा ब्रह्म का बोधक नहीं है किन्तु गौणी वृत्ति से साक्षात् ही गायत्री शब्द द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन होता है । यहाँ पाद सख्या की तुल्यता गुण है । जैसे षडक्षर वाले पादो से गायत्री चारपाद वाली होती है, वैसे ही ब्रह्म भी चारपाद वाला है । इसी प्रकार अन्यत्र भी छन्दवाचक शब्द संख्या की तुल्यता से अर्थान्तर मे प्रयुक्त देखा जाता है । जैसे कि सवर्गविद्या मे कहा गया है कि अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और जल ये वायु मे लीन होते है । इससे अपने स्वरूप सहित वायु पञ्चात्मक है और वाक्, चक्षु, श्रोत्र और मन प्राण मे लीन होते हैं, इससे प्राण भी पञ्चात्मक है । एव वे अग्नि आदि रूप पाँच अन्य हैं, तथा यागादि रूप पाँच अन्य हैं, वे दोनो पाँच-पाँच मिलकर दश हो जाते हैं और दश होने से कृत ( सतयुग ) और द्यूत विशेष हो जाते है, क्योंकि कृत की चार सख्या ) त्रेता की तीन सख्या, द्वापर की दो सख्या और कलि की एक सख्या ( अंक ) समझी जाती है । वहाँ कृत दशात्मक होता है ( दशाकयुक्त समझा जाता है ) क्योंकि चार के अन्दर तीन, तीन के अन्दर दो और दो के अन्दर एक प्रविष्ट होता है, इससे चार तीन सात, सात दो नौ और नौ एक दश हो जाता है, इससे वायु आदि और प्राणादि भी दश होकर कृत कहाते हैं, और इन वायु आदि दश का उपक्रम करके कहा गया है कि यही दश अक्षर वाला विराट् नामक छन्द है, जो अन्नादी है । इस पक्ष मे भी गायत्री पद से ब्रह्म ही कहा गया है ॥ २५ ॥

### भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् ॥ २६ ॥

इतश्चैवमभ्युपगन्तव्यमस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतं ब्रह्मेति, यतो भूतादीन् पादान् व्यपदिशति । भूतपृथिवीशरीरहृदयानि हि निर्दिश्याह—‘सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री’ इति । नहि ब्रह्मानाश्रयणे केवलस्य छन्दसो भूतादयः पादा उपपद्यन्ते । अपि च ब्रह्मानाश्रयणे नेयमृक्संबन्धेत—‘तावानस्य महिमा’ इति । अनथा हि ऋचा स्वरसेन ब्रह्मैवाभिधीयते, ‘पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ ( छा० ३।१२।५ ) इति सर्वात्मत्वोपपत्तेः । पुरुषसूक्तेऽपीयमृग्ब्रह्मपरतयैव समान्नायते । स्मृतिश्च ब्रह्मण एवरूपतां दर्शयति—‘विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्’ ( भग० १०।४२ ) इति । ‘यद्वै तद्ब्रह्म’ ( छा० ३।१२।७ ) इति च निर्देश एवसति मुख्यार्थ उपपद्यते । ‘ते वा एते पञ्च ब्रह्म-पुरुषाः’ ( छा० ३।१३।६ ) इति च हृदयसुषु ब्रह्मपुरुष(१)श्रुतिर्ब्रह्मसम्बन्धि-

तायां विवक्षितायां सम्भवति। तस्मादस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म प्रकृतम् । तदेव ब्रह्म ज्योतिर्वाक्ये शुसम्बन्धात्प्रत्यभिज्ञायमानं परामृश्यत इति स्थितम् ॥ २६ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भो ( गायत्री द्वारा तदनुगत ब्रह्मनिदिष्ट है ) इसी प्रकार पूर्व वाक्य मे ब्रह्म प्रकृत ( प्रस्तुत ) है यह स्वीकार करने योग्य है, जिससे भूतादिरूप पादों का कथन श्रुति करती है। जैसे कि भूत,, पृथिवी, शरीर, और हृदय का निर्देश करके कहती है कि ( यह पूर्वोक्त चार पाद वाली षड्विध गायत्री है ) वहाँ ब्रह्म का आश्रयण ( स्वीकार ) नहीं करने पर केवल छन्दरूप गायत्री के भूतादि पाद नहीं सिद्ध हो सकते हैं, किन्तु ब्रह्म के ग्रहण करने पर यह कथन युक्त होता है। एवं ब्रह्म के अनाश्रयण करने पर ( तावानस्य महिमा ) यह ऋग्मन्त्र भी समन्वित नहीं होगा, क्योंकि इस ऋग्मन्त्र से मुख्य तात्पर्य द्वारा ब्रह्म कहा जाता है ( इसके सब भूत एक पाद हैं, अमृत तीन पाद दिव्य स्वरूप मे है ) इस प्रकार सर्वात्मत्व की सिद्धि से वह तात्पर्य समझा जाता है। पुरुष सूक्त मे भी यह मन्त्र ब्रह्मपरक ही पढा गया है। एवं स्मृति भी इस प्रकार ब्रह्म की सर्वात्मकता दिखलाती है कि ( मैं एक अंश से इस सब जगत् का व्याप्त-धारण करके स्थिर हूँ ) और इस प्रकार पूर्व वाक्य मे ब्रह्म का कथन मानने पर ( यद्वै तद् ब्रह्म ) यह कथन भी मुख्यार्थक सिद्ध होता है, और ( ते वा एते ब्रह्म पुरुषाः ) इस प्रकार हृदय के छिद्रो मे ब्रह्म पुरुषत्व का श्रवण भी उसे ब्रह्म सम्बन्धी मानने पर सम्भव होता है, अर्थात् गायत्री नामक ब्रह्म की उपासना जब हृदय मे मानी जाती है, तब हृदय के पूर्वादि छिद्रो मे ब्रह्म के द्वारपालरूप प्राणादि वायु सिद्ध होते हैं, उनका कथन सम्भव है, अन्यथा नहीं। जिससे पूर्ववाक्य मे ब्रह्म प्रस्तुत है, वही 'ब्रह्म ज्योतिः' वाक्य मे 'दिव' पद के सम्बन्ध से प्रत्यभिज्ञात स्मृत होता हुआ परामृष्ट ( विचारित ) होता है, यह स्थित हुआ ॥ २६ ॥

### उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात् ॥ २७ ॥

उपदेश भेदात्-न-इति-चेत्-न-उभयस्मिन्-अपि-अविरोधात् । ये आठ पद इस सूत्र मे हैं। ब्रह्म और ज्योति का पूर्व से सम्बन्ध है। संक्षिप्तार्थ है यह कि ( पूर्वापरवाक्ययोः सप्तमी-पञ्चमी-विभक्ति-भेदेनोपदेशभेदात् तेन च विरुद्धार्थत्वाज्ज्योतिर्वाक्ये ब्रह्म न परामृश्यते, इति चेत्-उच्यते, तन्नवक्तव्यम्—कुतः, उभयस्मिन्नपि विरोधाभावात्, तादृश प्रयोगस्यैकार्थत्वेऽपि लोके दर्शनादिति ) पूर्ववाक्य मे सप्तमी और उत्तरवाक्य मे पञ्चमीविभक्ति के भेद से उपदेश मे भेद है। जिसलिए विरुद्धार्थकता है, इसलिए ज्योति वाक्य मे ब्रह्म का परामर्श नहीं होता है। यदि किसी से यह बात कही जाती हो, तो वह कहने योग्य नहीं है, क्योंकि दोनो वाक्यो मे विरुद्धार्थता का अभाव है। इस प्रकार विभक्ति भेद युक्त प्रयोग लोक मे एकार्थ मे भी देखा जाता है। अर्थात् दोनो



विभक्तियो मे से एक विभक्ति लक्षण द्वारा दूसरी विभक्ति के अर्थ को कहती है, अतः अविरोध हो जाता है, इत्यादि ।

यदप्येतदुक्तं पूर्वत्र 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' इति सप्तम्या द्यौराधारत्वेनोपदिष्टा इह पुनः 'अथ यदतः परो दिवः' इति पञ्चम्या मर्यादात्वेन, तस्मादुपदेशभेदान्न तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्तीति तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते—नायं दोषः । उभयस्मिन्नप्यविरोधान्, उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिज्ञानं विरुध्यते । यथा लोके वृक्षाग्रसंबद्धोऽपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो दृश्यते-वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात्परतः श्येन-इति च । एवं दिव्येव सद्ब्रह्म दिवः परमित्युपदिश्यते ।

जो यह भी कहा था कि प्रथम ( त्रिपादस्यामृत दिवि ) इस वाक्य मे सप्तमी विभक्ति से स्वर्गं ब्रह्म के आधार रूप मे कहा गया है, और ( अथ पदन परो दिव ) इस वाक्य मे पञ्चमी विभक्ति से स्वर्ग को ज्योति की मर्यादा ( सीमा ) रूप से कहा गया है, जिससे उपदेश के भेद से उस ब्रह्म के स्वर्ग के साथ सम्बन्ध मात्र से यहाँ ज्योति वाक्य मे प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है कि वही ब्रह्म ज्योति शब्द का अर्थ है, इस शंका का परिहार ( निवारण ) कर्तव्य है । इसलिए यहाँ कहा जाता है कि यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि दोनो वाक्यो की विभक्तियो मे विरोध नहीं होने से प्रत्यभिज्ञा मे भी विरोध नहीं है । सप्तम्यन्त पञ्चम्यन्त दोनो उपदेशो मे स्वर्ग के सम्बन्ध से होने वाला प्रत्यभिज्ञान विरुद्ध नहीं होता है । उसमे कोई विघ्न नहीं उपस्थित होता है, जैसे लोक मे वृक्षाग्र के साथ सम्बन्ध वाला भी श्येन पक्षी दो प्रकार से उपदिष्ट देखा जाता है कि वृक्षाग्र मे श्येन है वृक्षाग्र से परे श्येन है, इसी प्रकार स्वर्ग मे ही रहता हुआ ब्रह्म स्वर्ग से परे है इस प्रकार कहा जाता है, अर्थात् यहाँ पञ्चमी विभक्ति भी लक्षणा से आधार को ही कहती है ।

अपर आह—यथा लोके वृक्षाग्रेणासंबद्धोऽपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो दृश्यते, वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात्परतः श्येन इति च, एवं च दिवः परमपि सद्ब्रह्म दिव्यित्युपदिश्यते । तस्मादस्ति पूर्वनिर्दिष्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम् । अतः परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दमिति सिद्धम् ॥ २७ ॥

यहाँ दूसरे लोग कहते हैं कि वृक्षाग्र से असम्बद्ध ऊपर उदता हुआश्येन भी दोनो प्रकार से उपदिश्यमान देखा जाता है कि वृक्ष के अग्र भाग मे श्येन है, वृक्ष के अग्र भाग से परे श्येन है । इसी प्रकार वस्तुतः स्वर्ग से परे होता हुआ भी ब्रह्म स्वर्ग मे है ऐसा कहा जाता है । इस पक्ष मे सप्तमी विभक्ति लक्षण से पञ्चमी विभक्ति के अर्थ को कहती है, वस्तुतः असांघादि होने से स्वर्गादि से परे है, और विभु होने से सब में है भी, जिससे पूर्व कथित ब्रह्म का यहाँ ज्योति वाक्य मे प्रत्यभिज्ञान होता है । इसलिए यहाँ ब्रह्म ही ज्योति शब्द का अर्थ है, यह सिद्ध हुआ ॥ २७ ॥

प्रतर्दनाधिकरण ॥ ११ ॥

प्राणोऽस्मीत्यत्र वाख्विन्द्रजीवब्रह्मसु संशयः ।  
चतुर्णां लिङ्गसद्भावात्पूर्वपक्षस्त्वनिर्णयः ॥ १ ॥  
ब्रह्मणोऽनेकलिङ्गानि तानि सिद्धान्यनन्यथा ।  
अन्येषामन्यथासिद्धेर्व्युत्पाद्यं ब्रह्म नेतरत् ॥ २ ॥

प्राणोऽस्मि, इत्यादि वाक्यो मे, प्राणवायु, इन्द्र, जीव, और ब्रह्म चारो के लिङ्ग रहने से चारों विषयक संशय होता है कि इन चारो मे से मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु यहाँ कौन है ? पूर्वपक्ष होता है कि अनेक के अनेक लिङ्ग रहने ही से यहाँ निर्णय नहीं हो सकता है । सिद्धान्त है कि ब्रह्म के अनेक लिङ्ग हैं, वह अन्यथा सिद्ध नहीं है, प्राणादि के साथ उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता है, और प्राणादि के लिङ्ग अन्यथा सिद्ध हैं, उनका ब्रह्म के साथ सम्बन्ध हो सकता है, इसलिए यहाँ मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म है अन्य नहीं ॥ १-२ ॥

प्राणस्तथानुगमात् ॥ २८ ॥

संक्षिप्तार्थ है कि ( प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा ) इत्यत्र, तथा—ज्योतिवत् प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मवाचक, कस्माद् ब्रह्मधर्मानुगमात्, ब्रह्मधर्मसम्बन्धात् । पदाना समन्वयावगमात् तथैव प्रतीतेरिति ) प्राणोऽस्मि, इत्यादि वाक्य मे ज्योति वाक्यके समान प्राण शब्द भी ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि ब्रह्म के धर्मों का सम्बन्ध है । और पदो का भी ब्रह्म के साथ सम्यक् अन्वय है, जिससे ब्रह्म धर्म का सम्बन्ध ज्योति के समान ही प्रतीत होता है इत्यादि ।

अस्ति कौषीतकिब्राह्मणोपनिषदीन्द्रप्रतर्दनाख्यायिका—‘प्रतर्दनो ह वै दैवो-  
दासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च’ इत्यारभ्यान्नाता ।  
तस्यां श्रूयते—‘स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्व’  
इति । तथोत्तरत्रापि ‘अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति’  
( कौ० ३।१,२,३ ) इति । तथा ‘न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्’ इत्यादि,  
अन्ते च ‘स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः’ ( कौ० ३।८ ) इत्यादि ।  
तत्र संशयः—किमिह प्राणशब्देन वायुमात्रमभिधीयत उत देवतात्मोत जीवोऽ-  
थवा परं ब्रह्मेति । ननु ‘अत एव प्राणः’ इत्यत्र वर्णितं प्राणशब्दस्य ब्रह्मप-  
रत्वम् । इहापि च ब्रह्मलिङ्गमस्ति—‘आनन्दोऽजरोऽमृतः’ इत्यादि, कथमिह  
पुनः संशयः संभवति । अनेकलिङ्गदर्शनादिति ब्रूमः । न केवलमिह ब्रह्मलिङ्ग-  
मेवोपलभ्यते । सन्ति हीतरलिङ्गान्यपि । ‘मामेव विजानीहि’ ( कौ० ३।१ )  
इतीन्द्रस्य वचनं देवतात्मलिङ्गम्, इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयतीति प्राणलिङ्गम्,

‘न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्’ इत्यादि जीवलिङ्गम् । अत उपपन्नः संशयः । तत्र प्रसिद्धेर्वायुः प्राण इति प्राप्त उच्यते—

कौषीतकि नामक ब्राह्मण भाग रूप उपनिषद् मे इन्द्र और प्रतर्दन नामक राजा की आख्यायिका ( कथा विशेष ) है जहाँ ( प्रतर्दन नाम से प्रसिद्ध दिवोदास का पुत्र युद्ध और अन्य पुरुषार्थ के द्वारा पुण्य विशेष से इन्द्र के प्रिय धाम स्वर्ग में गया ) इस प्रकार आरम्भ करके वह कथा कही गई है, और उस कथा में सुना जाता है कि इन्द्र ने प्रसन्न होकर उसे वर देने के लिये कहा, तो प्रतर्दन ने कहा मनुष्य के लिये जो आप अत्यन्त हित समझते हो वह वर दें, तब इन्द्र बोले कि ( प्रज्ञात्मा प्राण मैं हूँ, उस मुझ को तुम आयु अमृत इस प्रकार समझ कर मेरी उपासना करो ) फिर उसके आगे कहा है कि ( प्रज्ञात्मा प्राण ही इस शरीर को अभिमानपूर्वक ग्रहण करके शयनाशनादि से उठाता है, अन्य इन्द्रियो में यह शक्ति नहीं है ) और अन्त में कहा है कि ( यह प्राण रूप ही प्रज्ञात्मा आनन्द स्वरूप अजर और अमृत है ) इत्यादि । यहाँ संशय होता है कि क्या यहाँ प्राण शब्द से वायु मात्र कहा जाता है, अथवा देवता स्वरूप इन्द्र या जीव वा परब्रह्म कहा जाता है । यदि कहा जाय कि ( अतएव प्राण ) इस सूत्र में ब्रह्म के लिङ्ग से प्राण शब्द के ब्रह्मपरत्व का वर्णन हो चुका है, और यहाँ भी ( आनन्दोऽजरोऽमृतः ) इत्यादि ब्रह्म का लिंग है ही, फिर यहाँ संशय कैसे हो सकता है, तो उत्तर है कि अनेक लिंगों के देखने से फिर संशय होता है । यहाँ केवल ब्रह्म का ही लिङ्ग नहीं उपलब्ध होता है, किन्तु अन्य के लिङ्ग भी हैं ( मुझे ही समझो ) यह इन्द्र का वचन देवतात्मा का लिंग है । और ( इस शरीर का परिग्रहण करके इसको उठाता है ) यह प्राण का लिंग है, ( वाक् को जानने की इच्छा नहीं करे, किन्तु वक्ता को समझे ) इत्यादि जीव का लिंग है, इससे संशय सिद्ध होता है । संशय होने पर पूर्वपक्ष हुआ कि प्रसिद्धि से वायु प्राण है ।

प्राणशब्दं ब्रह्म विज्ञेयम् । कुतः ? तथानुगमात् । तथाहि—पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थानां समन्वयो ब्रह्मप्रतिपादनपर उपलभ्यते । उपक्रमे तावत् ‘वरं वृणीष्व’ इतीन्द्रेणोक्तः प्रतर्दनः परमं पुरुषार्थं वरमुपचिक्षेप—‘त्वमेव मे वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे’ इति । तस्मै हिततमत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं परमात्मा न स्यात् । नह्यन्यत्र परमात्मज्ञानाद्धिततमप्राप्तिरस्ति ‘तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( श्वेता० ३।८ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तथा ‘स यो मां वेद न ह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्याया’ ( कौ० ३।१ ) इत्यादि च ब्रह्मपरिग्रहे घटते । ब्रह्मविज्ञानेन हि सर्वकर्मक्षयः प्रसिद्धः—‘क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हृष्टे परावरे’ ( मु० २।२।८ ) इत्याद्यासु श्रुतिषु । प्रज्ञात्मत्वं च ब्रह्मपक्ष एवोपपद्यते । नह्यचेतनस्य वायोः प्रज्ञात्मत्वं सम्भवति । तथोपसं-

हारेऽपि—‘आनन्दोऽजरोऽमृत’ इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्मणोऽन्यत्र संभवन्ति ।  
‘स न साधुना कर्मणा भूयान् भवति नो एवासाधुना कर्मणा कनीयानेष ह्येव  
साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते एष उ एवासाधु कर्म  
कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीषते’ इति, ‘एष लोकाधिपतिरेष  
लोकेशः’ ( कौ० ३।८ ) इति च । सर्वमेतत्परस्मिन् ब्रह्मण्याश्रीयमाणोऽनुगन्तुं  
शक्यते न मुख्ये प्राणे । तस्मात्प्राणो ब्रह्म ॥ २८ ॥

प्राण शब्द का अर्थ यहाँ ब्रह्म समझना चाहिये क्योंकि वैसा ही अनुगम ( पदो का सम्बन्ध है । इसलिये वैसा ही दिखलाया जाता है कि वाक्य के पूर्वापरसहित वाक्य को विचारने समझने से पदार्थों का समन्वय ब्रह्मप्रतिपादनपरक ही उपलब्ध होता है । आरम्भ मे प्रथम इन्द्र ने कहा कि ( वर मागो ) इस प्रकार इन्द्र से कहे जाने पर, उस प्रतर्दन ने परमपुरुषार्थ रूप वर का उपक्षेप ( प्रक्षेप ) किया, अर्थात् इन्द्र के ही प्रति अर्पण किया, माँगने का भार अपने शिर से हटाया, और इन्द्र से कहा कि मैं क्या जानता हूँ, कि मेरे लिये वर ( हित ) क्या है, आप सर्वज्ञ हो ( आप ही जिसको मनुष्य के लिये अत्यन्त हित समझते हो वह मेरे लिये देना स्वीकार करो ) फिर उस प्रतर्दन के लिये अत्यन्त हित रूप से उपदिश्यमान ( इन्द्र से उपदिष्ट ) प्राण परमात्मा कैसे नहीं होगा । क्योंकि परमात्मज्ञान के बिना अन्यत्र कहीं भी हिततम की प्राप्ति नहीं होती है, यह बात ( उस ब्रह्मात्मा को जान करके ही अतिमृत्यु मोक्ष ) पाता है, अन्य मार्ग मोक्ष के लिये नहीं है इत्यादि श्रुत्यर्थ से सिद्ध होती है । इसी प्रकार ( वह जो कोई पुरुष मुक्ष आत्मा को प्रत्यक्ष जानता है, उस विद्वान् के मोक्ष रूप लोक किसी कर्म से भी हिंसित नष्ट नहीं होता है, न चोरी से न गर्भ हत्या बालहत्या से नष्ट होता है ) इत्यादि कथन भी ब्रह्म का प्राण शब्द से ग्रहण करने पर संघटित होता है । क्योंकि ब्रह्म विज्ञान से ही सब कर्मों का नाश ( उस परावर परमात्मा के अपरोक्ष होने पर इस ज्ञानी के कर्म नष्ट हो जाते हैं । इत्याद्यर्थक श्रुतियों मे प्रसिद्ध है । और प्रज्ञात्मत्व ( प्रकृत ज्ञान रूपत्व ) तो ब्रह्म का स्वीकार पक्ष मे ही युक्त हो सकता है, अचेतन वायु को प्रज्ञात्मत्व का सम्भव नहीं है । इसी प्रकार उपसंहार ( अन्त ) मे श्रुत ( आनन्द अजर अमृत ) ये विशेषण सब ब्रह्म से अन्यत्र संबन्ध के योग्य नहीं हैं । और ( वह पुण्य कर्म से बड़ा नहीं होता है, पाप कर्म से छोटा नहीं होता है, यही उससे पुण्य करवाता है कि जिसको इन लोको से ऊपर ले जाना जाहता है, एवं वही उससे पाप कर्म कराता है जिसको इन लोको से नीचे ले जाना चाहता है । यही लोकाधिपति है, यही लोकपाल है, इत्यादि । प्राण शब्द के अर्थ रूप से परब्रह्म के स्वीकार करने पर ये वर्णित सभी विशेषण गुण सम्बन्ध के योग्य सगत होते हैं, मुख्य प्राण मे संगत नहीं हो सकते, जिससे प्राण शब्दार्थ ब्रह्म है ॥ २८ ॥

न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन् ॥

संक्षिप्तार्थ है कि ( वक्तुरिन्द्रस्यदेवतात्मन उपदेशात्प्राणशब्दार्थो देव एवन्ति चेत्क-  
श्चिद् ब्रूते, तन्न युक्तं हि ( यत. ) अस्मिन् प्रकरणेऽध्यात्मबाहुल्यमुपलभ्यते तस्माद् ब्रह्म-  
परतैव युक्ता वक्ता रूप इन्द्र के देवता स्वरूप का उपदेश से प्राण शब्द का अर्थ शरीरी  
देव ही है, इस प्रकार यदि कोई कहता हो तो वह कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस  
प्रकरण में अध्यात्म सम्बन्ध की बहुलता से इसे ब्रह्मपरता ही उचित है ॥

यदुक्तं प्राणो ब्रह्मेति, तदाक्षिप्यते-न परं ब्रह्म प्राणशब्दम् । कस्मात् ?  
वक्तुरात्मोपदेशात् । वक्ता हीन्द्रो नाम कश्चिद्विग्रहवान् देवताविशेषः स्वमात्मानं  
प्रतर्दनायाचचचे—‘मामेव विजानीहि’ इत्युपक्रम्य ‘प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ इत्य-  
हङ्कारवादेन, स एष वक्तुरात्मत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं ब्रह्म स्यात् । नहि  
ब्रह्मणो वक्तृत्वं सम्भवति’ ‘अवागमनाः’ ( बृह० ३।८।८ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः ।  
तथा विग्रहसम्बन्धिभिरेव ब्रह्मण्यसम्भवद्विधर्मैरात्मानं तुष्टाव—‘त्रिशीर्षाणं  
त्वाध्रमहनमरुमुखान् यतीन् शालावृक्षेभ्यः प्रायच्छम्’ इत्येवमादिभिः । प्राणत्वं  
चेन्द्रस्य बलवत्त्वाद्दुपपद्यते, ‘प्राणो वै बलम्’ इति हि विज्ञायते बलस्य चेन्द्रो  
देवता प्रसिद्धा । ‘या च काचिद्बलकृतिरिन्द्रकर्मैव तत्’ इति हि वदन्ति<sup>१</sup> । प्रज्ञा-  
त्मत्वमप्यप्रतिहतज्ञानत्वाद्देवतात्मनः सम्भवति, अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि  
वदन्ति । निश्चिते चैवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादिवचनानि यथासम्भवं  
तद्विषयाण्येव योजयितव्यानि । तस्माद्ब्रह्मस्यैवोपदेशात् प्राणो ब्रह्मेत्या-  
क्षिप्य प्रतिसमाधीयते—

पहले जो कहा गया है कि प्राण ब्रह्म है, उसका आक्षेप ( निन्दा-निषेध ) किया  
जाता है कि प्राण शब्द का अर्थ परब्रह्म नहीं है, क्योंकि वक्ता के आत्मा का उपदेश  
है । यहाँ इन्द्र नाम से प्रसिद्ध शरीरधारी कोई देवता विशेष रूप वक्ता ने प्रतर्दन के प्रति  
अपने आत्मा को जानने के लिये कहा कि ( मुझे ही जानो ) और इस प्रकार उपक्रम  
करके अहं ( मैं ) इस प्रकार के अहंकार का कथनपूर्वक कहा कि ( मैं ही प्राण हूँ,  
प्रज्ञात्मा हूँ ) तो इस प्रकार वक्ता इन्द्र का आत्मा रूप कहा गया प्राण ब्रह्म कैसे हो  
सकता है, और ब्रह्म को वक्तृत्व भी नहीं सम्भव है, क्योंकि ( अवागमना ) वाग् मन  
रहित है, इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं । एवं ब्रह्म में असम्भव देह सम्बन्धी धर्म द्वारा  
ही इन्द्र ने अपनी स्तुति की है कि ( मैंने तीन शिर वाले त्वष्टा के पुत्र को मार  
डाला और सत् शास्त्र के अध्ययनादि से रहित यतियों को मारकर जङ्गली कुत्तो को दे  
दिया ) इत्यादि । बली होने से इन्द्र को प्राणता सिद्ध होती है ( प्राण ही बल है ) ऐसा  
समझा जाता है, और बल का देवता इन्द्र प्रसिद्ध हैं । लोक में जिस किसी ने बल का  
काम क्रिया है वह इन्द्र का ही कर्म है इस प्रकार लोग कहते हैं । और अप्रतिहत ज्ञान

१ ‘काचन’—‘पठन्ति’ इति प्रा० मु० पु० पाठः रत्नप्रभाकाराणा सम्मतो बोध्यः ।

होने से प्रज्ञात्मत्व भी देवतात्मा को सम्भव है। क्योंकि अप्रतिहत ज्ञान वाला देव होता है ऐसा लोग कहते हैं। इस प्रकार देवात्मा के उपदेश निश्चित होने पर, हिततमत्वादि वचनो को भी सम्भव के अनुसार देवविषयक सम्बन्ध योजना करना ही युक्त है। जिससे वक्ता इन्द्र के आत्मा के उपदेश होने से प्राण ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार आक्षेप करके सिद्धान्त का समर्थन रूप प्रतिसमाधान किया जाता है।

‘अध्यात्मसम्बन्धंभूमा ह्यस्मिन्’ इति। अध्यात्मसम्बन्धः प्रत्यगात्मसम्बन्धस्तस्य भूमा बाहुल्यमस्मिन्नध्याय उपलभ्यते। ‘यावद्ध्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः’ इति प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्यायुष्प्रदानोपसंहारयोः स्वातन्त्र्यं दर्शयति, न देवताविशेषस्य पराचीनस्य। तथास्तित्वे च प्राणानां निःश्रेयसमित्यध्यात्ममेवेन्द्रियाश्रयं प्राणं दर्शयति। तथा ‘प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिग्रहोत्थापयति’ (कौ० ३।३) इति, ‘न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्’ इति चोपक्रम्य ‘तद्यथा रथस्यारथु नेमिरर्पिता नाभावरा अर्पिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणोऽर्पिताः’ ‘स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः’ इति विषयेन्द्रियव्यवहारानभिभूतं प्रत्यगात्मानमेवोपसंहरति। ‘स म आत्मेति विद्यात्’ इति चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिग्रहे साधुर्न पराचीनपरिग्रहे। ‘अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः’ (बृह० २।५।१६) इति च श्रुत्यन्तरम्। तस्मादध्यात्मसम्बन्धबाहुल्याद् ब्रह्मोपदेश एवायं न देवतात्स्योपदेशः ॥ ०६ ॥

इस अध्याय में अध्यात्म सम्बन्ध की बहुलता उपलब्ध होती है अर्थात् देह में प्राप्त अन्तरात्मा सम्बन्धी धर्मों का बहुत उपलम्भ (ज्ञान) इस अध्याय में होता है, जैसे कि (जब तक इस शरीर में प्राण बसता है तब तक आयु (जीवन) है। यहाँ प्रत्यक् स्वरूप प्रज्ञात्मा प्राण की आयु प्रदान और उपसंहार (मृत्यु) में स्वतन्त्रता श्रुति दिखलाती है, बाह्य देवता विशेष की स्वतन्त्रता नहीं दिखलाती है। इसी प्रकार प्राण के रहने ही पर निःश्रेयस (इन्द्रियो की स्थिति रूप कल्याण) होता है, इस रीति से इन्द्रियो के आश्रय अध्यात्म प्राण को ही दिखलाती है। एवं प्रज्ञात्मा प्राण ही इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है। वाक् को जानने की इच्छा नहीं करे वक्ता को समझे। यह आरम्भ करके कहा गया है कि (लोक में जैसे रथ के आरो में नेमी अर्पित (प्रोत) स्थित रहती है और नाभी में आरा अर्पित रहते हैं इसी प्रकार भूत मात्रा (शब्दादि विषय और उनके आश्रय पाँचो भूत) प्रज्ञामात्रा (इन्द्रियो) में अर्पित हैं और प्रज्ञा मात्रा प्राण में अर्पित है। इसलिये यह प्राण ही प्रज्ञात्मा आनन्द अजर अमृत है इस प्रकार विषय इन्द्रिय के व्यवहारो से अनभिभूत सर्वाश्रय आनन्दादि स्वरूप प्रत्यगात्मा का ही श्रुति अन्त में उपसंहार करती है। और (वह प्राण मेरा आत्मा है) यह भी उपसंहार प्रत्यगात्मा के परिग्रहण करने पर संगत ठीक

होगा, बाह्य वस्तु के ग्रहण करने पर नहीं ( यह आत्मा ब्रह्म है, सबका अनुभवकर्ता है ) इस प्रकार दूसरी श्रुति भी कहती है । जिससे अध्यात्मसम्बन्ध की बहुलता से यह ब्रह्मोपदेश ही है देवतात्मा का उपदेश नहीं है ॥ २९ ॥

कथं तर्हि वक्तुरात्मोपदेशः ?

### शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ॥ ३० ॥

उक्तार्थ में शङ्का होती है कि यदि प्रतर्दन के प्रति इन्द्रदेव ने उक्त रीति से ब्रह्म का ही उपदेश दिया है, तो वक्ता इन्द्र ने अपनी आत्मा का उपदेश कैसे किया है कि ( मामेव विजानीहि ) मुझे ही जानो, तब कहा जाता है कि—‘शास्त्रदृष्ट्यातूपदेशो-वामदेववत्’ ।

इन्द्रो नाम देवतात्मा स्वमात्मानं परमात्मत्वेनाहमेव परं ब्रह्मेत्यार्षेण दर्शनेन यथाशास्त्रं पश्यन्नपदिशति स्म—‘मामेव विजानीहि’ इति । यथा तद्वैत-त्पश्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवत् सूर्यश्च इति तद्वत्, ‘तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्’ ( बृ० १।४।१० ) इति श्रुतेः । यत्पुनरुक्तं—‘मामेव विजानीहि’ इत्युक्त्वा विग्रहधर्मैरिन्द्र आत्मानं तुष्टाव त्वाष्ट्रवधादिभिरिति-तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते—न त्वाष्ट्रवधादीनां विज्ञेयेन्द्रस्तुत्यर्थत्वेनोपन्यासः यस्मादेवंकर्माहं तस्मान्मां विजानीहि इति, कथं तर्हि ? विज्ञानस्तुत्यर्थत्वेन । यत्कारणं त्वाष्ट्रवधादीनि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसन्धधाति—‘तस्य मे तत्र लोम च न मीयते स यो मां वेद न ह वै तस्य केन च कर्मणा लोको मीयते’ इत्यादिना । एतदुक्तं भवति—यस्मादीदृशान्यपि क्रूराणि कर्माणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य लोमापि न हिंस्यते, स योऽन्योऽपि मां वेद न तस्य केनचिदपि कर्मणा लोको हिंस्यत इति । विज्ञेयं तु ब्रह्मैव ‘प्राणो-ऽस्मि प्रज्ञात्मा’ इति वक्ष्यमाणम् । तस्मात् ब्रह्मवाक्यमेतत् ॥ ३० ॥

इन्द्र नाम से प्रसिद्ध देवतात्मा ने अपनी आत्मा ( स्वरूप ) को आर्ष ( जन्मान्तरिय श्रवणादि सस्कारज ) दर्शन ( ज्ञान ) से शास्त्र के अनुसार मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार परमात्म स्वरूप से देखता हुआ प्रतर्दन के प्रति आत्मदृष्टि से ही उपदेश दिया कि मेरे सत्य प्रत्यगात्मा को समझो कि जो परमात्म स्वरूप है । जिसे कि ( उस ब्रह्मात्मा को अपरोक्षात्म स्वरूप से देखते हुए वामदेव ऋषि ने समझा, इस अनुभव को प्राप्त किया कि ‘मैं मनु हुआ, मैं सूर्य हुआ’ अर्थात् अपने को सर्वात्म स्वरूप समझा ) वैसे ही समझ कर इन्द्र ने उपदेश दिया । क्योंकि श्रुति कहती है कि ( देवताओं में जिस-जिस देव ने उस ब्रह्म को समझा वह अवश्य उस ब्रह्म का रूप हो गया ) और जो पहले कहा था कि ( मुझे ही जानो, ऐसा कहकर इन्द्र ने देह के धर्म त्वाष्ट्र ( विश्वरूप ) के वधादि द्वारा अपनी आप स्तुति ( प्रशंसा ) की है, उसका परिहार करना चाहिये )

यहाँ कहा जाता है कि त्वाष्ट्रवधादि का कथन विज्ञेय ( जानने योग्य ) इन्द्र की स्तुति के लिये नहीं है, अर्थात् उसका यह तात्पर्य नहीं है कि जिससे मैं इस प्रकार के कर्मों को करने वाला हूँ इससे मुझे समझो । यदि कहो कि उसका क्या तात्पर्य है ? तो सुनो, उस त्वष्ट्रपुत्रवधादि का कथन विज्ञान की स्तुति के लिये है, जिस कारण से त्वाष्ट्रवधादि रूप साहसो ( दुष्कर कर्मों ) का कथन करके वहाँ के आगे के वाक्य से विज्ञान की स्तुति का ही अनुसन्धान ( सम्बन्ध ) किया गया है कि ( उस मुझ साहसी का वहाँ एक लोम भी नहीं हिंसित हुआ ) जो कोई मुझे जानता है आत्मानुभवो हांता है उसके भी किसी कर्म से लोक ( मोक्ष ) नहीं हिंसित होता इत्यादि । इससे यह साफ कहा गया है कि जिस कारण से इस प्रकार के क्रूर कर्मों को करने वाला होने पर भी ब्रह्म स्वरूप होने से मेरा एक लोम भी नहीं हिंसित होता है, इसी प्रकार जो अन्य कोई भी मुझे समझता है उसके भी किसी कर्म से लोक हिंसित नहीं होता है । ज्ञान की स्तुति होते भी विज्ञेय ( जानने योग्य ) ब्रह्म ही है, क्योंकि ( मैं प्रजात्मा प्राण हूँ ) इस प्रकार वक्ष्यमाण ( आगे का ) वाक्य है, जिससे यह ब्रह्मबोधक वाक्य है ॥ ३० ॥

### जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्या- दाश्रितत्वादिह तद्योगात् ॥ ३१ ॥

‘जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्-न-इति-चेत्-न-उपासात्रैविध्यात्-आश्रितत्वात्-इह-तद्यो-  
गात्’ । ये नौ पद इस सूत्र में हैं । सक्षिप्तार्थ है कि ( जीवस्य मुख्यप्राणस्य च लिङ्गात्-  
लिङ्गस्य सत्त्वान्न केवलब्रह्मपदमिदं वाक्यं भवितुमर्हतीति कश्चिद् यद्याह, तन्न युक्तं  
तथासति ह्युपासनायात्रैविध्यप्रसङ्गात्, श्रुत्यन्तरे ब्रह्मलिङ्गवशात्प्राणशब्दस्य ब्रह्मपर-  
त्वस्वीकारादिहापि च ब्रह्मलिङ्गयोगाद् ब्रह्मपरत्वमेव वाक्यस्येति ) जीव और मुख्य  
प्राण के भी लिंग रहने से यह वाक्य केवल ब्रह्मपरक नहीं हो सकता है । यदि इस  
प्रकार कोई कहे तो वह कहना उचित नहीं है, क्योंकि केवल ब्रह्मपरक वाक्य को  
नहीं मानने पर त्रिविध उपासना की प्राप्ति से वाक्यभेद की प्राप्ति होगी । वाक्य  
एक है, और दूसरी श्रुति में ब्रह्म के लिंग से प्राण शब्द को ब्रह्मपरक माना गया  
है, एव यहाँ भी ब्रह्म के लिंग का संबन्ध है, इससे जीव प्राण वाच्य शब्द भी  
ब्रह्मपरक है ।

यद्यप्यध्यात्मसम्बन्धभूमदर्शनान्न पराचीनस्य देवतात्मन उपदेशः, तथापि  
न ब्रह्मवाक्यं भवितुमर्हति । कुतः ? जीवलिङ्गान्मुख्यप्राणलिङ्गाच्च । जीवस्य  
तावदस्मिन् वाक्ये विस्पष्टं लिङ्गमुपलभ्यते—‘न वाचं विजिज्ञासीत वक्त्रारं  
विद्यात्’ इत्यादि । अत्र हि वागादिभिः करणैर्व्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य  
जीवस्य विज्ञेयत्वमभिधीयते । तथा मुख्यप्राणलिङ्गमपि—‘अथ खलु प्राण  
एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति’ इति । शरीरधारणं च मुख्यप्राणस्य



धर्मः। प्राणसंवादे वागादीन् प्राणान् प्रकृत्य—‘तान् वरिष्ठः प्राण उवाच सा मोह-  
मापद्यथाऽहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि’ (प्र० २।३)  
इति श्रवणात्। ये तु ‘इमं शरीरं परिगृह्य’ इति पठन्ति तेषामिमं जीवमिन्द्रि-  
यप्राप्तं वा परिगृह्य शरीरमुत्थापयतीति व्याख्येयम्। प्रज्ञात्मत्वमपि जीवे  
तावच्चैतनत्वादुपपन्नम्। मुख्येऽपि प्राणे प्रज्ञासाधनप्राणान्तराश्रयत्वादुपपन्न-  
मेव। जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे च प्राणप्रज्ञात्मनोः सहवृत्तित्वेनाभेदनिर्देशः  
स्वरूपेण च भेदनिर्देश इत्युभयथा निर्देश उपपद्यते—‘यो वै प्राणः सा प्रज्ञा  
या वै प्रज्ञा स प्राणः इति ‘सह ह्येतावस्मिन् शरीरे वसतः सहोक्तामतः’ इति।  
ब्रह्मपरिग्रहे तु किं कस्माद्भिद्येत। तस्मादिह जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर उभौ वा  
प्रतीयेयातां न ब्रह्मेति चेत्? नैतदेवम्, उपासात्रैविध्यात्। एव सति त्रिविध-  
मुपासनं प्रसज्येत जीवोपासनं मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति। न चैतदेक-  
स्मिन् वाक्येऽभ्युपगन्तुं युक्तम्। उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि वाक्यैकत्वमवगम्यते।  
‘मामेव विजानीहि’ इत्युपक्रम्य ‘प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा त मामायुरमृतमित्युपास्व’  
इत्युक्तवान्ते ‘स एष प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽमृतः’ इत्येकरूपवुप-  
क्रमोपसंहारौ दृश्येते। तत्रार्थैकत्वं युक्तमाश्रयितुम्। न च ब्रह्मलिङ्गमन्यपरत्वेन  
परिणेतुं शक्यम्, दर्शानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणोऽन्यत्रार्पणानु-  
पपत्तेः। आश्रितत्वाच्च, अन्यत्रापि ब्रह्मलिङ्गवशात् प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि प्रवृत्तेः।  
इहापि च हिततमोपन्यासादिब्रह्मलिङ्गयोगाद्ब्रह्मोपदेश एवायमिति गम्यते। यत्तु  
मुख्यप्राणलिङ्गं दर्शितम्—‘इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति’ इति। तदसत्।  
प्राणव्यापारस्यापि परमात्मायत्तत्वात् परमात्मन्युपचरितुं शक्यत्वात्, —

अध्यात्म सम्बन्ध की बहुलता के देखने से यद्यपि बाह्य देवतात्मा का उपदेश  
नहीं है, तो भी ब्रह्म वाक्य होने योग्य नहीं है। क्योंकि जीव का लिङ्ग है, और  
मुख्य प्राण का भी लिङ्ग है ( वाक् को जानने की इच्छा नहीं करे किन्तु वक्ता को  
समझे ) इत्यादि कथन रूप जीव का अतिस्पष्ट लिङ्ग इस वाक्य में प्रथम उपलब्ध  
होता है। क्योंकि यहाँ वागादि इन्द्रियो द्वारा व्यापार करने वाले शरीरेन्द्रिय के  
अव्यक्त जीव को ज्ञेयत्व कहा जाता है। इसी प्रकार ( निश्चित यह प्रज्ञात्मा प्राण ही  
इस शरीर को धर कर उठाता है ) यह मुख्य प्राण का लिङ्ग भी है। क्योंकि शरीर  
का धारण करना मुख्य प्राण का धर्म है। प्राण के सम्वाद में वागादि रूप प्राण  
( इन्द्रियो ) का प्रसंग करके कि सब इन्द्रियाँ कहने लगी कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और  
निर्णय के लिये प्रजापति के पास<sup>१</sup> गईं, प्रजापति बोले कि जिसके निकलने से शरीर  
अत्यन्त अमङ्गल रूप हो वह तुमसे श्रेष्ठ है, अन्य के निकलने से शरीर वैसा नहीं

१ यद्यपि प्रश्नोपनिषद् में प्रजापति की कथा नहीं है, तथापि बृहदा० ६।१ में है,  
और सब श्रुतियों का समन्वय है इसलिए ऐसा लिखा गया है।

हुआ, और मुख्य प्राण जब निकालना चाहा तभी सब इन्द्रियाँ व्याकुल हो गईं ( तब मुख्य सर्वश्रेष्ठ प्राण ने उनसे कहा कि मोह को नहीं प्राप्त होओ, मैं ही अपनी आत्मा को पाँच रूप से विभक्त करके इस कार्य को करता हूँ कि इस प्राण ( गमनशील ) शरीर को आश्रयण करके इसको धरता हूँ ) जो कोई ( इम शरीरं परिगृह्य ) इस प्रकार श्रुति को पढते हैं, उनके मत में ( इस जीव को वा इन्द्रिय समूह को आश्रयण करके शरीर को उठाता हूँ इस प्रकार व्याख्यान होगा । और जीव के चेतन होने से उसमें प्रज्ञात्मत्व मुख्य रूप से सिद्ध होता है । मुख्यप्राण में ( प्रज्ञा ) ज्ञान के साधन अन्य इन्द्रियो के आश्रय होने से प्रज्ञात्मत्व सिद्ध होता ही है । जीव तथा मुख्य प्राण दोनों के ग्रहण करने पर इन दोनों की सहवृत्तता से अभेद का कथन भी युक्त होता है, और स्वरूप से भेद का कथन भी युक्त होता है । जैसे कि ( जो ही प्रज्ञा है वही प्राण है, और जोही प्राण ही वही प्रज्ञा है ) यह अभेद कथन है । और ( ये प्राण और प्रज्ञा दोनों इस शरीर में साथ बसते हैं, साथ निकलते हैं ) यह भेद कथन है । यदि यहाँ ब्रह्म का सर्वथा ग्रहण हो तो कौन किससे भिन्न होगा, जिससे यहाँ जीव और मुख्यप्राण में से एक या दोनों ज्ञेय प्रतीति के विषय हो सकते हैं, ब्रह्म नहीं । इस प्रकार यदि कोई कहे, तो कहना चाहिये कि यह उपदेश का तत्त्व इस प्रकार ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उपासात्रैविध्यप्रसङ्गात्, वाक्यभेदापत्तेरित्यादि । अर्थात् जीव और मुख्य प्राण के लिङ्ग रहने से जीव और मुख्य प्राण को उपास्यादि रूप ज्ञेय मानने पर ब्रह्म का भी लिङ्ग है ही इससे तीनों की त्रिविध उपासना की प्राप्ति होगी, कि जीवोपासना, मुख्यप्राणोपासना और ब्रह्मोपासना इस वाक्य में विहित हैं, यह त्रैविध्य इस एक वाक्य में मानना उचित नहीं है । क्योंकि यहाँ उपक्रम और उपसंहार ( आरम्भ और समाप्ति ) से एकवाक्यता ( एकार्थ प्रतिपादकता ) प्रतीत होती है ( मुझे ही जानो ) इस प्रकार उपक्रम करके ( मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूँ, मुझ आयु अमृत रूप से चिन्तन करो ) इस प्रकार कहकर अन्त में कहा कि ( यह प्राण ही प्रज्ञात्मा है, आनन्द अजर और अमृत है ) इस रीति से एक रूप ही उपक्रम और उपसंहार देखे जाते हैं । वहाँ अर्थ की एकता भी मानने योग्य है । और प्रधान स्वरूप ब्रह्म के लिङ्ग को अन्यपरत्वेन ( अन्यार्थसम्बन्धित्वरूप से ) प्राप्त नहीं करा सकते हैं । क्योंकि पाँच भूत और पाँच विषयरूप स्थूल सूक्ष्म दश भूत मात्राओं का तथा उनके वृत्ति ज्ञान रूप दश प्रज्ञा मात्राओं का ब्रह्म से अन्य में अर्पण नहीं बन सकता है । ब्रह्म लिङ्ग के बल से प्राण शब्द की ब्रह्म में प्रवृत्ति का तो अन्यत्र भी आश्रयण ( स्वीकार ) किया गया है । यहाँ भी हिततम ( अत्यन्त हित ) का कथनादि रूप लिङ्ग के सम्बन्ध से यह ब्रह्म का ही उपदेश है ऐसा समझा जाता है । और जो मुख्य प्राण का लिङ्ग दिखलाया है कि—इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है, यह मुख्यप्राण का लिङ्ग है, वह असत् है—ठीक नहीं है । क्योंकि प्राण का

व्यापार भी परमात्मा के अधीन है, इससे परमात्मा में भी शरीरोत्थापन का गौण व्यवहार किया जा सकता है ।

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥

( काठ० २।५।५ ) इति श्रुतेः । यदपि 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तांरं विद्यात्' इत्यादि जीवलिङ्गं दर्शितम्, तदपि न ब्रह्मपक्षे निवारयति, नहि जीवो नामात्यन्तभिन्नो ब्रह्मणः 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादिश्रुतिभ्यः । बुद्ध्याद्युपाधिकृतं तु विशेषमाश्रित्य ब्रह्मैव सन् जीवः कर्ता भोक्ता चेत्युच्यते । तस्योपाधिकृतविशेषपरित्यागेन स्वरूपं ब्रह्म प्रदर्शयितुं 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तांरं विद्यात्' इत्यादिना प्रत्यगात्माभिमुखीकरणार्थमुपदेशो न विरुध्यते । 'यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते' ( क० १।४ ) इत्यादि च श्रुत्यन्तरं वचनादिक्रियाव्यापृतस्यैवात्मनो ब्रह्मत्वं दर्शयति । यत्पुनरेतदुक्तम्—'सह ह्येतावस्मिन् शरीरे वसतः सहोत्क्रामतः' इति प्राणप्रज्ञात्मनोर्भेददर्शनं ब्रह्मवादे<sup>१</sup> नोपपद्यत इति । नैष दोषः । ज्ञानक्रिया-शक्तिद्वयाश्रययोर्बुद्धिप्राणयोः प्रत्यगात्मोपाधिभूतयोर्भेदनिर्देशोपपत्तेः । उपाधि-द्वयोपहितस्य तु प्रत्यगात्मनः स्वरूपेणाभेद इत्यतः प्राण एव प्रज्ञात्मेत्येकी-करणमविरुद्धम् ।

श्रुति कहती है कि ( कोई मनुष्य प्राण वा अपान से नहीं जीवित रहता है, किन्तु इनसे इतर ( भिन्न ) ब्रह्मात्मा से सब प्राणी जीते हैं कि जिस ब्रह्म के आश्रित ही ये प्राणापान भी रहते हैं । और जो जीव का लिंग दिखलाया है कि ( वाक् को जानने की इच्छा नहीं करे, वक्ता को समझे ) यह जीव का लिंग है । वह लिंग भी ब्रह्मपक्ष का निवारण नहीं करता है, क्योंकि ( तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि ) इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है कि जीव नाम से प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न नहीं है, किन्तु बुद्धि आदि रूप उपाधि से जन्य विशेषाभिव्यक्ति आदि का आश्रयण करके ब्रह्म ही होता हुआ कर्ता और भोक्ता जीव कहा जाता है । उसके उपाधिकृत विशेष ( भेद ) को त्याग कर ब्रह्मस्वरूप दिखलाने के लिये ( वाक् को जानने की इच्छा नहीं करे वक्ता को समझे ) इत्यादि वाक्यों से अन्तरात्मा के अभिमुख करने के लिये यह उपदेश है, वह भी विरुद्ध नहीं होता है । क्योंकि ( जो वाक् से नहीं कहा जाता है, जिससे वाक् कही जाती है, उसी ब्रह्म को तुम जानो, जिसकी इदं रूप से उपासना की जाती है उसे ब्रह्म नहीं जानो ) इत्यादि अन्य श्रुतियाँ वचनादि क्रिया से रहित ही आत्मा को ब्रह्मरूपता बताती है । और जो यह कहा था कि ( ये जीवात्मा और मुख्यप्राण साथ ही इस शरीर में बसते हैं, साथ ही निकलते हैं ) इस प्रकार प्राण और प्रज्ञात्मा का भेददर्शन

ब्रह्मवाद मे नही बन सकेगा । तो वह दोष भी नही है, क्योंकि ज्ञानशक्ति और क्रिया-शक्ति के आश्रय जो बुद्धि और प्राण प्रत्यगात्मा के उपाधि स्वरूप हैं, उनके भेद का कथन बनता है । और दोनो उपाधियो से उपहित ( युक्त ) जो अन्तरात्मा है उसको स्वरूप से एकता है इससे ( प्राण ही प्रज्ञात्मा है ) इस प्रकार एक निश्चय करना भी अविरुद्ध है ।

अथवा 'नोपासान्नैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्' इत्यस्यायमन्योऽर्थः— न ब्रह्मवाक्येऽपि जीवमुख्यप्राणलिङ्गं विरुध्यते । कथम् ? उपासान्नैविध्यात् । त्रिविधमिह ब्रह्मोपासनं विवक्षितं प्राणधर्मेण प्रज्ञाधर्मेण स्वधर्मेण च । तत्र 'आयुरमृतमुपास्ववायुः' प्राणः' इति, 'इदं शरीरं परिगृह्णोत्थापयति' इति, 'तस्मादेतदेवोक्तमुपासीत' इति च प्राणधर्मः । 'अथ यथास्यै प्रज्ञायै सर्वाणि भूतान्येकीभवन्ति तद्व्याख्यास्यामः' इत्युपक्रम्य 'वागेवास्या एकमङ्गमदूदुहत्तस्यै नाम परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्राः प्रज्ञया वाच समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति' इत्यादिः प्रज्ञाधर्मः । 'ता वा एता दशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञं, दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्, यद्धि भूतमात्रा न स्युर्न प्रज्ञामात्राः स्युः, यद्धि प्रज्ञामात्रा न स्युर्न भूतमात्राः स्युः, नह्यन्यतरतो रूप किञ्चन सिद्धयेत्, नो एतन्नाना । 'तद्यथा रथस्यारेषु नेभिरर्पिता नाभावरा अपिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणोऽर्पिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा' इत्यादिर्ब्रह्मधर्मः । तस्माद्ब्रह्मण एवैतदुपाधिद्वयधर्मेण स्वधर्मेण चैकमुपासनं त्रिविधं विवक्षितम् । अन्यत्रापि 'मनोमयः प्राणशरीरः' ( छा० ३।१४।२ ) इत्यादावुपाधिधर्मेण ब्रह्मण उपासनमाश्रितम्, इहापि तद्युज्यते वाक्यस्योपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थत्वावगमात् प्राणप्रज्ञाब्रह्मलिङ्गावगमाच्च । तस्माद्ब्रह्मवाक्यमेतदिति सिद्धम् ॥ ३१ ॥

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीशङ्करभगवत्पादकृतौ

प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥



अथवा 'नोपासान्नैविध्यादि'त्यादि, सूत्राश का यह वक्ष्यमाण अन्य अर्थ है कि ब्रह्मवाक्य मे भी जीव और मुख्य प्राण का लिंग विरुद्ध नही होता है, क्योंकि ब्रह्म की एक ही उपासना के त्रैविध्य हैं । यहाँ तीन प्रकार की ब्रह्मोपासना विवक्षित है, एक प्राणधर्म द्वारा दूसरा प्रज्ञाधर्म द्वारा तोसरा ब्रह्म का स्वकीय धर्म द्वारा विवक्षित है । द्वार मे भेद है उपास्य ब्रह्म है । इससे वाक्यभेद दोष नही है । वहाँ ( आयु अमृत की उपासना करो, आयु प्राण है ) यह, और ( इस शरीर का आश्रयण करके इसे उठाता है ) यह तथा ( शरीर को प्राण उठाता है, जिससे इसी को उक्थ समझ कर

उपासना करे) ये सब प्राण के धर्म हैं। (अथ) बुद्धि प्राण की साथ स्थिति और उत्क्रम के बाद में जिस प्रकार इस प्रज्ञा (बुद्धि) के सम्बन्धी सब भूत एक हो जाते हैं, उसके आत्मा हो जाते हैं, यह व्याख्यान करेगे, इस प्रकार आरम्भ करके कहा है कि (नाम और रूपात्मक इस बुद्धि के एक अंग को वाक् पूरण किया, अर्थात् वाग द्वारा नामविषयक बुद्धि हुई। और उस बुद्धि का ही प्रसिद्ध अङ्गरूप चक्षु द्वारा दृष्टादिभूतमात्रा रूपादि पीछे अर्द्धाङ्ग रूप प्रतिविहित (ज्ञापित-सिद्ध) हुए। इस प्रकार नामरूपात्मक बुद्धि के दोनो अंग के सिद्ध होने पर, जीवात्मारूप पुरुषप्रज्ञा (बुद्धि) द्वारा वागिन्द्रिय पर आरूढ़ होकर वाक् द्वारा सब नामों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार नेत्रादि द्वारा रूपादि को प्राप्त करता है, वह सब बुद्धियुक्त जीव के धर्म है। और वे पूर्व वर्णित दश ही भूतमात्रा हैं, वह प्रज्ञा (इन्द्रियजन्य ज्ञान) में स्थिर है, इन्द्रियों से समझे जाते हैं, और दश प्रज्ञा मात्रा (इन्द्रिय और तज्जन्य वृत्ति) भूतमात्राओं में स्थिर हैं, क्योंकि यदि भूतमात्रा न हो तो प्रज्ञामात्रा नहीं हो सकते हैं, और यदि प्रज्ञामात्रा न हो तो भूतमात्रा भी नहीं हो सकते, क्योंकि अन्यतर (दोनों में से एक) से कोई रूप नहीं सिद्ध हो सकता है। अर्थात् ग्राह्य विषय से ग्राह्य का स्वरूप नहीं सिद्ध होता है, किन्तु ग्राहक इन्द्रिय से उसका स्वरूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार ग्राहक भी विषय की अपेक्षा बिना नहीं सिद्ध होता है, इस प्रकार परस्पर सापेक्ष होने से ये ग्राह्यग्राहक (भूतेन्द्रियादि) नाना (भिन्न) नहीं हैं। और जैसे रथ के आगे में नेमी प्राप्त रहती है, नाभि में आरा स्थिर रहता है, इसी प्रकार ये भूतमात्रा प्रज्ञामात्रा में रहते हैं, प्रज्ञामात्रा प्राण में रहता है, और यह प्राण ब्रह्म ही प्रज्ञात्मा है, अर्थात् विषयेन्द्रिय बुद्धि आदि सब में आत्मा को ही सत्ता है, इत्यादि ब्रह्म धर्म हैं, जिससे ब्रह्म का ही उपाधि रूप बुद्धि और प्राण के धर्म द्वारा और स्वधर्म द्वारा एक ही उपासना तीन प्रकार से विवक्षित है। अन्यत्र भी 'मनोमय प्राणशरीर' इत्यादि वाक्यों में मन प्राण उपाधि के धर्म द्वारा ब्रह्म की उपासना मानी गई है कि ब्रह्मात्मा मनोमय है, प्राण रूप शरीर वाला है इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये इत्यादि। इससे जीवोपाधि द्वारा चिन्तन सिद्ध होता है, यहाँ भी वह अन्य धर्म द्वारा उपासनायुक्त हो सकती है, क्योंकि वाक्य के उपक्रम और उपसंहार से एकार्थत्व का ज्ञान होता है, और प्राण प्रज्ञा तथा ब्रह्म के धर्मों का भी ज्ञान होता है। जिससे यह ब्रह्म का बोधक वाक्य है, यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार प्रथमाध्याय प्रथम पाद का अनुवाद समाप्त हुआ।



## प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः

अत्रास्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्तवाक्यानामुपास्यब्रह्मविषयाणां विचारः

सर्वत्र प्रसिद्धयधिकरण ॥ १ ॥

मनोमयोऽयं शारीर ईशो वा प्राणमानसे ।

हृदयस्थित्यणीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जीवगाः ॥ १ ॥

शमवाक्यगतं ब्रह्म तद्धितादिरपेक्षते ।

प्राणादियागश्चिन्तार्थश्चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः ॥ २ ॥

प्रथमे पादे 'जन्माद्यस्य यतः' इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादि-कारण ब्रह्मेत्युक्तम् । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं नित्यत्वं सर्व-ज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्त्वं सर्वात्मकत्वमित्येवजातीयका धर्मा उक्ता एव भवन्ति । अर्था-न्तरप्रसिद्धानां च केषाञ्चिच्छब्दानां ब्रह्मविषयत्वहेतुप्रतिपादनेन कानिचि-द्वाक्यानि स्पष्टब्रह्मलिङ्गानि सन्दिह्यमानानि ब्रह्मपरतया निर्णीतानि । पुनरप्य-न्यानि वाक्यान्यस्पष्टब्रह्मलिङ्गानि सन्दिह्यन्ते—किं पर ब्रह्म प्रतिपाद्यन्त्याहो-स्विदर्थान्तर किञ्चिदिति तन्निर्णयाय द्वितीयतृतीयौ पादावारभ्येते ।

इस समन्वयाध्याय के प्रथम पाद मे ( जन्माद्यस्य यत. ) इस सूत्र से आकाशादि सम्पूर्णा जगत् का कारण रूप ब्रह्म है यह कहा गया है, और उस समस्त जगत् के कारण रूप ब्रह्म के व्यापकत्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्त्व, सर्वात्मकत्व इस प्रकार के सभी जातीय धर्म उक्त हो जाते हैं । अर्थात् जिन गुणादिको के बिना ईश्वरत्व नहीं सिद्ध हो सकता है, उनका कथन निरपेक्ष ईश्वर के कथन से ही समझना चाहिये । ब्रह्म से अन्यार्थ मे प्रसिद्ध कितने शब्दो को ब्रह्मविषयत्व ( वाचकत्व ) मे हेतुओ के प्रतिपादन द्वारा स्पष्ट ब्रह्म लिङ्ग वाले सन्देह के विषय कितने वाक्य ब्रह्म के प्रतिपादक रूप से निर्णीत किये गये हैं । फिर अस्पष्ट लिङ्ग वाले अन्य वाक्य सन्देह के विषय सदिग्ध है कि ये वाक्य परब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, अथवा किसी दूसरे अर्थ का । उनके निर्णय के लिये दूसरे और तीसरे पाद का आरम्भ किया जाता है ।

सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १ ॥

सक्षिप्तार्थ यह है कि ( सर्वेषु वेदान्तेषु जगत् कारणत्वेनोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वादिना च प्रसिद्धस्य ब्रह्मणः ( तज्जलानुपासीत ) इत्यत्रोपास्यत्वेनोपदेशान्मनोमय इत्यादि शब्देन ब्रह्मैवावगन्तव्यमिति ) सब वेदान्त मे जगत् के कारण उपास्यत्व, ज्ञेयत्वादि रूप से प्रसिद्ध ब्रह्म की ही उत्पत्ति-स्थिति-लयाधार रूप से उपासना करे ऐसा कहा गया है ।

यहाँ उपास्य रूप से उपदेश है, इसलिए उस प्रकरण में स्थित मनोमयादि शब्द से भी ब्रह्म को ही समझना चाहिये ।

इदमाम्नायते—‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिन्नलोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतु कुर्वीत, मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः’ ( छा० ३।१।१, २ ) इत्यादि । तत्र संशयः किमिह मनोमयत्वादिभिर्धर्मैः शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिश्यते, आहोस्वित्परं ब्रह्मेति । किं तावत्प्राप्तम् ? शारीर इति । कुतः ? तस्य हि कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मन आदिभिः सम्बन्धो न परस्य ब्रह्मणः ‘अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः’ ( मु० २।१।२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । ननु ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ इति स्वशब्देनैव ब्रह्मोपात्तं कथमिह शारीर आत्मोपास्य आशङ्क्यते । नैष दोषः । नेदं वाक्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरम्, किं तर्हि ? शमविधिपरम् । यत्कारणं ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत’ इत्याह । एतदुक्तं भवति—यस्मात्सर्वमिदं विकारजातं ब्रह्मैव, तज्जत्वात्तज्जत्वात्तदन्तत्वाच्च । नच सर्वस्यैकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति । नच शमविधिपरत्वे सत्यनेन वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते, उपासनं तु ‘स क्रतुं कुर्वीत’ इत्यनेन विधीयते । क्रतुः सङ्कल्पो ध्यानमित्यर्थः । तस्य च विषयत्वेन श्रयते—‘मनोमयः प्राणशरीरः’ इति जीवलिङ्गम् । अतो ब्रूमो जीवविषयमेतदुपासनमिति । ‘सर्वकर्म सर्वकामः’ इत्याद्यपि श्रूयमाणं पर्यायेण जीवविषयमुपपद्यते । ‘एष म आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा’ इति च हृदयायतनत्वमणीयस्त्वं चाराप्रमात्रस्य जीवस्यावकल्पते नापरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः । ननु ‘ज्यायान्पृथिव्या’ इत्याद्यपि न परिच्छिन्नेऽवकल्पत इति । अत्र ब्रूमः—न तावदणीयस्त्वं ज्यायस्त्वं चोभयमेकस्मिन्समाश्रयितुं शक्यं विरोधात् । अन्यतराश्रयणे च प्रथमश्रुतत्वादणीयस्त्वं युक्तमाश्रयितुम् । ज्यायस्त्वं तु ब्रह्मभावापेक्षया भविष्यतीति । निश्चिते च जीवविषयत्वे यदन्ते ब्रह्मसंकीर्तनं ‘एतद्ब्रह्म’ ( छा० ३।१।४ ) इति, तदपि प्रकृतपरामर्शार्थत्वाज्जीवविषयमेव । तस्मान्मनोमयत्वादिभिर्धर्मैर्जीव उपास्य इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः ।

श्रुति यह कहती है कि ( यह सब जगत् निश्चित ब्रह्म स्वरूप ही है ) इसकी सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि ‘तज्ज’ उस ब्रह्म से जायमान है । ‘तज्ज’ उसी में लीन होता है । तदन्, उसी में चेश्टा जीवन करता है । इससे सबको ब्रह्म भिन्न एक सत्य स्वरूप होने से भेद को बाचारम्भणमात्र होने से राग-द्वेषादि को त्याग कर शान्त होकर, उत्पत्ति आदि का हेतु रूप ब्रह्म की तज्ज, तज्ज, तदन्, इस रूप से उपासना करनी चाहिये और समझना चाहिये कि यह जीवात्मा रूप पुरुष क्रतु ( संकल्प-उपासन-चिन्तन ) मय ही है । इससे जैसा सकल्प वाला इस लोक और

शरीर मे पुरुष रहता है, वैसा ही यहाँ से लोकान्तरादि मे जाकर मरने के बाद होता है। इसलिए वह पुरुष संकल्प ध्यान करे कि ब्रह्मात्मा मनोमय प्राणरूप शरीरवाला प्रकाश स्वरूप है, इत्यादि। यहाँ संशय होता है कि इस श्रुति मे मनोमयत्वादि धर्म द्वारा शरीरवृत्ति जीवात्मा की उपासना का उपदेश दिया गया है, इससे जीवात्मा उपास्य है अथवा परब्रह्म की उपासना का उपदेश है, अर्थात्—ब्रह्म उपास्य रूप कहा गया है। विमर्श हुआ कि प्राप्त क्या होता है? तब पूर्वपक्ष होता है कि शरीर-वृत्ति जीवात्मा प्राप्त होता है। क्योंकि कार्यकरण (शरीरेन्द्रिय) के स्वामी उस जीव का मन आदि के साथ सम्बन्ध प्रसिद्ध है, और (ब्रह्मात्मा प्राणरहित है, मनरहित है, दीप्त शुद्ध है) इत्यादि श्रुति, से ब्रह्म के साथ मन आदि के सम्बन्धादि के निषेध से ब्रह्म मे सम्बन्ध प्रसिद्ध नहीं है। शंका होती है कि (यह सब जगत् ब्रह्म ही है) इस प्रकार ब्रह्म अपने वाचक ब्रह्म शब्द से ही वहाँ गृहीत—'कथित' है, फिर भी शरीरी उपास्य है यह शंका कैसे की जाती है। वहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि यह वाक्य उपासना की विधिपरक (उपासनाविषयक) नहीं है, तो क्या है? शमविधिपरक है। कारण यह सब जगत् ब्रह्मस्वरूप ही है। 'उत्पत्ति आदि के आधार रूप से ब्रह्म की उपासना शान्त होकर करे' यह श्रुति कहती है। श्रुति द्वारा कहा जाता है कि यह सब विकार (कार्य) समूह ब्रह्म ही है, क्योंकि उस ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, उसी मे लीन होता है, और उसी मे जीवन व्यवहार करता है। सब का एक स्वरूप निश्चित होने पर रागादि का सम्भव नहीं हो सकता, जिससे शान्त होकर उपासना करे। इस प्रकार इस वाक्य को शमविधिपरक होने पर पुनः इससे ब्रह्मोपासना का नियम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपासना (वह संकल्प करे) इस वाक्य से विहित होती है। ऋतु का संकल्प=ध्यान अर्थ है, और उस ध्यान का विषय रूप से मनोमय प्राणशरीर सुना जाता है, यह जीव का लिङ्ग है। इससे पता चलता है कि यह उपासना जीवविषयक है और (सर्वकर्मा-सर्वकाम) इत्यादि भी जो सुना जाता है, वह भी अनन्त जन्मों के क्रम से जीव मे सम्भव हैं। एक जन्म मे नहीं कर सकने पर भी जन्म की परपरा से सब कर्म कामादि जीव करते हैं और (यह मेरी आत्मा हृदय मे है, ध्यान वा यव से भी अति अणु (छोटा) है। इस श्रुतिवर्णित हृदयाश्रयत्व अति अल्पत्व भी आरा के अग्रमात्र स्वरूप जीव मे युक्त होता है, व्यापक ब्रह्म मे नहीं युक्त हो सकता है। यदि कहा जाय कि 'पृथिवी से बहुत बड़ा है' इत्यादि श्रुति भी परिच्छिन्न जीव मे युक्त नहीं हो सकती। ऐसा होने पर यहाँ कहा जाता है कि अति अणुता और अति महत्ता के विरोध से ये दोनों धर्म एक वस्तु मे नहीं रह सकते हैं। इससे परस्पर विरोधी ये धर्म एक मे माने भी नहीं जा सकते हैं। इन दोनों मे से एक को मानने पर प्रथम श्रुत होने से अणुता मानना उचित है, और सर्वश्रेष्ठत्व तो जीव को ब्रह्म भाव की अपेक्षा



से होगा। इस प्रकार जीवविषयत्व वाक्य के निश्चित होने पर, जो अन्त में ब्रह्म का संकीर्तन है कि 'एतद्ब्रह्म'—यह ब्रह्म है, वह भी पूर्व प्रकृत (प्रस्तुत) का परामर्श के लिए होने से जीवविषयक ही है, जिससे मनोमयत्वादि धर्मयुक्त स्वरूप से जीव ही उपास्य है। ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि—

परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिर्धर्मैरुपास्यम् । कुतः ? सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् । यत्सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धं ब्रह्मशब्दस्यालम्बन जगत्कारणम्, इह च 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इति वाक्योपक्रमे श्रुतं तदेव मनोमयत्वादिधर्मैर्विशिष्टमुपदिश्यत इति युक्तम् । एव च प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये न भविष्यतः । ननु वाक्योपक्रमे शमविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं न स्वविवक्षयेत्युक्तम् । अत्रोच्यते— यद्यपि शमविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं तथापि मनोमयत्वादिषूपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म संनिहितं भवति । जीवस्तु न संनिहितो न च स्वशब्देनोपात्त इति वैषम्यम् ॥ १ ॥

परब्रह्म ही मनोमयत्वादि धर्मयुक्त रूप से उपास्य है। क्योंकि सर्वत्र प्रसिद्ध ब्रह्म का ही उपदेश है। जो ब्रह्म शब्द का आलम्बन (विषय) जगत् का कारण सब वेदान्त में प्रसिद्ध है, और जो यहाँ भी वाक्य के आरम्भ में सुना गया है कि 'यह सब जगत् ब्रह्म है' वही ब्रह्म मनोमयत्वादि धर्म सहित यहाँ उपदेश का विषय है, ऐसा मानना उचित है। ऐसा मानने से प्रकृतहान और अप्रकृत की प्रक्रिया रूप दोष नहीं होगा। यदि कहे कि वाक्य के आरम्भ में शमविधि की विवक्षा (कहने की इच्छा) से ब्रह्म निर्दिष्ट (कथित) हुआ है। ब्रह्म की विवक्षा से नहीं निर्दिष्ट हुआ है। यद्यपि शमविधि की विवक्षा से ही ब्रह्म निर्दिष्ट हुआ है, तथापि मनोमयादि के उपदेश काल में वह ब्रह्म ही संनिहित (उपस्थित-प्राप्त) होता है, जीव न संनिहित है, न जीव शब्द से वहाँ गृहीत है, यह जीव और ब्रह्म में यहाँ भेद है ॥ १ ॥

## विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥

वक्तुमिष्टा विवक्षिताः । यद्यप्यपौरुषेये वेदे वक्तुरभावाच्चेच्छर्थः संभवति तथाप्युपादानेन फलेनोपचर्यते । लोके हि यच्छब्दाभिहितमुपादेयं भवति तद्विवक्षितमित्युच्यते, यदनुपादेयं तद्विवक्षितमिति । तद्ब्रह्मेऽप्युपादेयत्वेनाभिहितं विवक्षितं भवति, इतरद्विवक्षितम् । उपादानानुपादाने तु वेदवाक्यतात्पर्यतात्पर्याभ्यामवगम्येते । तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासनायामुपादेयत्वेनोपदिष्टाः सत्यसङ्कल्पप्रभृतयस्ते परस्मिन्ब्रह्मण्युपपद्यन्ते । सत्यसङ्कल्पत्वं हि सृष्टिस्थितिसंहारेष्वप्रतिबद्धशक्तित्वात्परमात्मन एवावकल्पते । परमात्मगुणत्वेन च 'य आत्मापहतपाप्मा' (छा० ८।७।१) इत्यत्र 'सत्यकामः सत्यसङ्कल्प' इति श्रुतम् । आकाशात्मेत्यादिनाकाशवदात्मास्येत्यर्थः । सर्वगतत्वा-

दिभिर्धर्मैः संभवत्याकाशेन साम्यं ब्रह्मणः । 'ज्यायान्पृथिव्याः' इत्यादिना चैतदेव दर्शयति । यदाप्याकाश आत्मा यस्येति व्याख्यायते, तदापि संभवति सर्व-जगत्कारणस्य सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम्, अतएव 'सर्वकर्मा' इत्यादि । एवमिहोपास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मण्युपपद्यन्ते । यत्तुक्तं 'मनोमयः प्राण-शरीरः' इति जीवलिङ्गं न तद्ब्रह्मण्युपपद्यत इति, तदपि ब्रह्मण्युपपद्यत इति ब्रूमः । सर्वात्मत्वाद्धि ब्रह्मणो जीवसम्बन्धीनि मनोमयत्वादीनि भवन्ति । तथाच ब्रह्मविषये श्रुतिस्मृती भवतः—

कहने की इच्छा के विषय जो पदार्थ हो, जिनका कथन इष्ट हो वे पदार्थ विवक्षित कहते हैं । वहाँ अपौरुषेय ( पुरुष से अरचित ) अनादि वेद मे मूल वक्ता के अभाव से इच्छार्थक सत् प्रत्यय का यद्यपि सम्भव नहीं है, तथापि उपादेय ग्राह्यगुण का उपादान ( ग्रहण ) रूप फल से गौण व्यवहार किया जाता है । लोक मे जो शब्द से कथित अर्थ उपादेय होता है वह विवक्षित इस शब्द से और जो अनुपादेय ( अग्राह्य ) होता है, वह अनुपादेय कहा जाता है । ग्रहण तथा अग्रहण वेद के तात्पर्य और अतात्पर्य से समझे जाते है । वैदिक शब्दो के जिस अर्थ मे वेद का तात्पर्य रहता है उसका ग्रहण होता है अन्य का त्याग होता है, जिससे यहाँ जो सत्यसंकल्पादि विवक्षित गुण उपासना मे उपादेय रूप से इष्ट हैं, वे सब परब्रह्म में ही सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि सृष्टि, स्थिति और सहार मे अखण्डित शक्ति होने से परमात्मा ही को सत्य सकल्पवत्त्व सिद्ध हो सकता है । परमात्मा के ही गुण रूप से ( जो आत्मा पापरहित है ) यहाँ पर भी ( सत्यकाम है, सत्यसकल्प है ) यह सुना गया है । और ( आकाशात्मा ) इत्यादि पद से आकाशतुल्य विभु असंग इस का स्वरूप है । एवं सर्वगतत्वादि धर्मों द्वारा ब्रह्म को आकाश के साथ तुल्यता का सम्भव है । ( पृथिवी से बहुत बडा है ) इत्यादि से भी इसी सर्वगतत्वादि को श्रुति दिखलाती है, जब आकाश आत्मा है जिसका ) इस प्रकार आकाशात्मा शब्द का व्याख्यान करते हैं तब भी सब जगत् का कारण सर्वात्मा ब्रह्म को ही आकाशात्मत्व संभव है, और सर्वात्मा होने ही से ब्रह्म सर्वकर्म है इत्यादि । इस प्रकार यहाँ उपास्य रूप से विवक्षित गुण ब्रह्म मे युक्त होते हैं । जो पहले कहा गया था कि 'मनोमयः प्राणशरीरः' ये जीव के लिङ्ग हैं, और ब्रह्म मे सिद्ध नहो हो सकते, वे भी ब्रह्म मे उपपन्न ( युक्त ) होते हैं, इसलिये कहते है कि ब्रह्म को सर्वात्मा होने से जीवसम्बन्धी मनोमयत्वादि धर्म भी ब्रह्म के होते हैं । उसके सर्वात्मत्व के बोधक श्रुति-स्मृति वचन स्पष्ट हैं—

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥

( श्रे० ४।३ ) इति ।

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

( गा० १३।३३ ) इति च । 'अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः' इति श्रुतिः शुद्ध-  
ब्रह्मविषया । इयं तु 'मनोमयः प्राणशरीरः' इति सगुणब्रह्मविषयेति विशेषः ।  
अतो विवक्षितगुणोपपत्तेः परमेव ब्रह्मेहोपास्यत्वेनोपदिष्टमिति गम्यते ॥ २ ॥

तुम आनन्दात्मा ही स्त्री-पुरुष शब्द का वाच्य होते हो, और कुमार-कुमारी भी होते हो, वृद्ध होने पर तुम दरद के सहारे चलते हो, और जात ( उत्पन्न ) बालक होते हो और सब तरफ मुख वाला नानावस्थायुक्त होते हो ) वह ब्रह्म सर्वतो हाथ पैर वाला सर्वतोऽक्षि-शिर-मुख वाला है तथा सर्वत श्रोत्र वाला है और लोक में सब को आच्छादित करके स्थिर है । ( अप्राणो ह्यमना शुभ्र ) यह श्रुति शुद्ध ब्रह्म-विषयक है । और ( मनोमय. ) इत्यादि श्रुति सगुण ब्रह्मविषयक है, यह भेद है । अतः विवक्षित गुणो की उपपत्ति से पर ब्रह्म ही यहाँ उपास्य रूप से उपदिष्ट है यह ज्ञात और सिद्ध होता है ॥ २ ॥

### अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥

पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपत्तिरुक्ता । अनेन तु शारीरे  
तेषामनुपपत्तिरुच्यते । तुशब्दोऽवधारणार्थः । ब्रह्मैवोक्तेन न्यायेन मनोमयत्वा-  
दिगुणं, न तु शारीरो जीवो मनोमयत्वादिगुणः, यत्कारणं 'सत्यसङ्कल्पः आका-  
शात्मा अवाकी अनादरः ज्यायान् पृथिव्या' इति चैवंजातीयका गुणा न शारीरे  
आञ्जस्येनोपपद्यन्ते । शारीर इति शरीरे भव इत्यर्थः । नन्वीश्वरोऽपि शरीरे  
भवति । सत्यम् । शरीरे भवति न तु शरीर एव भवति । 'ज्यायान्पृथिव्या  
ज्यायानन्तरिक्षात्, आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इति च व्यापित्वश्रवणात् । जीव-  
स्तु शरीर एव भवति, तस्य भोगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत्त्यभावात् ॥ ३ ॥

जीव के धर्मों का ब्रह्म में सर्वात्मत्व से सम्भव है, परन्तु ब्रह्म के धर्मों का जीव में सम्भव नहीं है, अनुपपन्न है । इस रीति से पूर्वसूत्र द्वारा ब्रह्म में विवक्षित गुणों की सिद्धि कही गई है । इस सूत्र से उन ब्रह्म-गुणों की जीव में असिद्धि कही जाती है । 'तु' शब्द निश्चयार्थक है । उक्त सर्वात्मत्वादि न्याय ( युक्ति ) से मनोमयत्वादि गुण वाला ब्रह्म ही है, शरीरवर्ती जीवमनोमयत्वादि गुण वाला नहीं है । क्योंकि ( सत्यसङ्कल्प ) आकाशात्मत्व, वागादि इन्द्रिय रहितता, अनादर ( अकामता ) पृथिवी आदि से महत्ता । इस प्रकार के गुण सब जीव में तत्त्वतः यथार्थ रूप से नहीं सिद्ध हो सकेगे । शारीर उसको कहा जाता है जो शरीर में हो । यदि कहें कि ईश्वर भी शरीर में रहता है, तो वह कहना सत्य है । परन्तु शरीर ही में नहीं रहता है, क्योंकि ( पृथिवी से बड़ा है, अन्तरिक्ष से बड़ा है, आकाश के समान सर्वगत और नित्य है ) इत्यादि वाक्यों से व्यापकत्व सुना जाता है । जीव तो शरीर में ही

रहता है, क्योंकि भोग के आश्रय शरीर से अन्यत्र उसकी वृत्ति ( जीविका स्थिति ) नहीं है ॥ ३ ॥

### कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥

इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्कर्मकर्तृव्यपदेशो भवति 'एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि' ( छा० ३।१४।४ ) इति । एतमिति प्रकृतं मनोमयत्वादिगुणमुपास्यमात्मानं कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति । अभिसंभवितास्मीति शारीरमुपासकं कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन । अभिसंभवितास्मीति प्राप्तास्मीत्यर्थः । नच सत्यां गतावेकस्य कर्मकर्तृव्यपदेशो युक्तः । तथोपास्योपासकभावोऽपि भेदाधिष्ठान एव । तस्मादपि न शारीरो मनोमयत्वादि-विशिष्टः ॥ ४ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी जीव मनोमयादि गुण वाला नहीं है, जिससे कर्म और कर्ता का व्यपदेश ( व्यवहार-कथन ) होता है, कि ( इस शरीर से मुक्त होकर इस सर्वात्मा को प्राप्त कहेगा ) श्रुति में 'एतम्' इस पद से मनोमयादि गुण वाला उपास्य आत्मा का कर्म रूप से प्राप्यरूप से श्रुति कथन करती है । अभिसंभवितास्मि, इस पद से उपासक जीव का कर्तृत्व प्रापकत्व रूप से कथन करती है, अभिसंभवितास्मि, इसको प्राप्त करने वाला हूँ यह अर्थ है, और गति ( मार्गान्तर उपास्यान्तर ) के रहते एक को कर्म कर्ता का व्यवहार युक्त नहीं होता है । इसी प्रकार उपास्य-उपासक भाव भी भिन्नाश्रय में ही रहता है, जिससे भी जीव मनोमयत्वादि युक्त उपास्य नहीं है किन्तु उपासक है ॥ ४ ॥

### शब्दविशेषात् ॥ ५ ॥

इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणः, यस्माच्छब्दविशेषो भवति समान-प्रकरणे श्रुत्यन्तरे—'यथा व्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाक-तण्डुलो वैवमयमन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः' ( शत० ब्रा० १०।६।३।२ ) इति । शारीरस्यात्मनो यः शब्दोऽभिधायकः सप्तम्यन्तोऽन्तरात्मन्निति, तस्माद्विशिष्टोऽन्यः प्रथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वादिविशिष्टस्यात्मनोऽभिधायकः । तस्मात्तयोर्भेदोऽधिगम्यते ॥ ५ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी जीव से अन्य मनोमयादि गुण वाला है जिससे शब्द का ( विभक्ति का ) विशेष ( भेद ) है । इसी श्रुति के तुल्य प्रकरण वाली दूसरी श्रुति में वाक्य है कि ( जैसे ब्रीहि, वा यव वा श्यामाक वा श्यामाक तण्डुल हो ) ऐसे यह हिरण्मय पुरुष अन्तरात्मा में रहता है । यहाँ जीवात्मा का वाचक जो लुप्त सप्तम्यन्त 'अन्तरात्मन्' यह शब्द है, उससे विशिष्ट ( भेदयुक्त ) प्रथमान्त पुरुषशब्द मनोमयत्वादि युक्त आत्मा का वाचक है । जिससे दोनों शब्दों का भेद समझा जाता

है और शब्द के भेद से आधारारथेय अर्थ का भेद सिद्ध होता है इनसे जीव मनो-मयादि से भिन्न है ॥ ५ ॥

### स्मृतेश्च ॥ ६ ॥

स्मृतिश्च शारीरपरमात्मनोर्भेदं दर्शयति—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

( गी० १८।६ ? ) इत्याद्या ।

अत्राह—कः पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनोऽन्यः यः प्रतिपिध्यते 'अनुपपत्तेस्तु न शारीरः' इत्यादिना । श्रुतिस्तु—'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता' ( बृह० ३।७।२३ ) इत्येवंजातीयका परमात्मनोऽन्यमात्मानं वारयति । तथा स्मृतिरपि—

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ! ।

( गी० १३।२ ) ।

इत्येवंजातीयकेति ।

अत्रोच्यते सत्यमेवैतत् । पर एवात्मा देहेन्द्रियमनोबुद्ध्युपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बालः शारीर इत्युपचर्यते । यथा घटकरकाद्युपाधिवशादपरिच्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभासते तद्वत् । तदपेक्षया च कर्मत्वकर्तृत्वादिभेदव्यवहारो न विरुध्यते प्राक् 'तत्त्वमसि' इत्यात्मैकत्वोपदेशप्रणात् । गृहीते त्वात्मैकत्वे बन्धमोक्षादिसर्वव्यवहारपरिसमाप्तिरेव स्यात् ॥ ६ ॥

स्मृति भी जीव परमात्मा मे भेद दिखलाती है । भगवान् कहते हैं कि 'हे अर्जुन ! शरीर रूप यन्त्र पर अभिमानादि से आरूढ ( स्थिर ) सब प्राणी को अपनी माया से भ्रमण कराता हुआ ईश्वर सब प्राणी के हृदय मे स्थिर रहता है' इत्यादि स्मृति का कथन है । यहाँ कोई शंका करता है कि यह शारीर ( जीव ) नामक परमात्मा से अन्य कौन है कि जिसका ( अनुपपत्तेस्तु न शारीर ) इत्यादि सूत्रो से निषेध किया जाता है ( इस परमात्मा से अन्य द्रष्टा नहीं है, श्रोता नहीं है ) इस प्रकार कहने वाली श्रुति तो परमात्मा से अन्य आत्मा का वारण ( निषेध ) करती है । तथा हे भारत ( अर्जुन ! ) सब शरीरो मे क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो । इस प्रकार की स्मृति भी भेद का वारण करती है । यहाँ इस शंका का समाधान ( उत्तर ) कहा जाता है कि वास्तविक सत्यात्मा की दृष्टि से यह कहना सत्य ही है कि परमात्मा से अन्य जीव नहीं है, तो भी परमात्मा ही देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि रूप उपाधियो से परिच्छिद्यमान ( उपहित ) होकर अज्ञो से जीव कहा जाता है ( मिथ्या व्यवहार किया जाता है ) जैसे घट, कमण्डलु आदि उपाधि के वश ( बल ) से अपरिच्छिन्न भी आकाश परिच्छिन्न ( एकदेशी-परिमित ) भासता है, वैसे ही इससे ( तत् त्वमसि ) वह ब्रह्म

सत्यात्मा तू है, इस प्रकार आत्मा के एकत्व के उपदेश के ग्रहण से प्रथम उस औपाधिक भेद की अपेक्षा से कर्मत्व-कर्तृत्व का व्यवहार विरुद्ध नहीं होता है। आत्मा के एकत्व के ग्रहण करने पर ( समझने पर ) तो बन्ध-मोक्षादि सब व्यवहार समाप्त ही हो जाते हैं ॥ ६ ॥

**अर्भकौकस्तात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥**

अर्भकौकस्तात् - तद्व्यपदेशात् - च - न - इति - चेत् - न - निचाय्यत्वात् एवम्व्योमवत् - च । ये ग्यारह पद इस सूत्र में हैं । सक्षिप्तार्थ यह है कि (अर्भकमल्पमोक' स्थानं यस्य स. अर्भकौकास्तस्य भावोऽर्भकौकस्तात् तस्मादल्पस्थानवत्त्वात्, तस्याल्पस्थानवत्त्वस्य अल्पत्वस्य च साक्षात् कथनाच्च न ब्रह्मात्राभिधीयते, इति चेत् कश्चिद् वक्ति तन्न वक्तव्यम् । यतः अर्भकस्थाने निचाय्यत्वात् - उपास्यत्वादुपलभ्यत्वाच्चैव व्यपदिश्यते न स्वरूपतः । व्योमवच्चैतदौपाधिकाल्पस्थानत्व स्वरूपेण विभुत्वमुत्प्रेयम् ) हृदयादि अल्प स्थान वाला होने से तथा अल्प स्थानवत्त्व अल्पत्व के साक्षात्कथन से मनोमयादि ब्रह्म नहीं है, किन्तु जीव है, इस प्रकार यदि कोई कहता हो तो वह नहीं कहना चाहिये । क्योंकि अल्पस्थान में उपास्य, अन्वेषणीय, प्राप्य होने से अल्पस्थान वाला अणीयान् ( अति अणु ) आदि ब्रह्म कहा जाता है, स्वरूप से नहीं, और आकाश के समान यह उपाधि निमित्त से अल्पदेशित्व और स्वरूप से विभुत्व समझने योग्य है ।

अर्भकमल्पमोको नीडम्, 'एष म आत्मान् न हृदये' इति परिच्छिन्न आयतनत्वात्, स्वशब्देन च 'अणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा' इत्यणीयस्त्वव्यपदेशात्, शारीर एवाराग्रमात्रो जीव इहोपदिश्यते, न सर्वगतः परमात्मेति यदुक्तं तत्परिहर्तव्यम् ।

यह आत्मा मेरे हृदय में है, इस प्रकार अर्भक ( अल्प ) आत्मा का नीड ( आश्रय ) श्रुत है, इससे परिच्छिन्न ( अल्प ) आयतनत्व ( आश्रयवाला ) होने से, तथा अल्पार्थ-वाचक शब्द द्वारा उपदेश होने से ( यह ब्रह्मि से अति अणु है वा यव से अति अणु है ) इस प्रकार अणुत्व के कथन से शरीरधारी आराग्रमात्र ( सूक्ष्म ) जीव ही यहाँ उपदेश का विषय है, सर्वगत परमात्मा उपदेश का विषय नहीं है, यह जो प्रथम कहा गया था, उसका परिहार ( निवारण ) कर्तव्य है ।

अत्रोच्यते - नायं दोषः । न तावत्परिच्छिन्नदेशस्य सर्वगतत्वव्यपदेशः कथमप्युपपद्यते, सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिच्छिन्नदेशव्यपदेशोऽपि कयाचिदपेक्षया सम्भवति, यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि सन्नयोध्याधिपतिरिति व्यपदिश्यते । कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सन्नीश्वरोऽर्भकौका अणीयांश्च व्यपदिश्यते इति । निचाय्यत्वादेवमिति ब्रमः । एवमणीयस्त्वादिगुणगणोपेत

ईश्वरस्तत्र हृदयपुण्डरीके निचाय्यो द्रष्टव्य उपदिश्यते । यथा शालग्रामे हरिः । तत्रास्य बुद्धिविज्ञानं ग्राहकम् । सर्वगतोऽपीश्वरस्तत्रोपास्यमानः प्रसीदति । व्योमवच्चैतद् द्रष्टव्यम् । यथा सर्वगतमपि सद् व्योम सूचीपाशाद्यपेक्षयाऽर्भकौकोऽपीयश्च व्यपदिश्यते, एवं ब्रह्मापि । तदेवं निचाय्यत्वापेक्षं ब्रह्मणोऽर्भकौकस्त्वमणीयस्त्वं च न पारमार्थिकम् । तत्र यदाशङ्क्यते—हृदयायतनत्वाद्-ब्रह्मणो हृदयायतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वाद्भिन्नायतनानां च शुकादीनामनेकत्वसावयवत्वानित्यत्वादिदोषदर्शनाद्ब्रह्मणोऽपि तत्प्रसङ्ग इति, तदपि परिहृतं भवति ॥ ७ ॥

इसमे यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है । पहले तो बात यह है कि परिच्छिन्न देश वाले एकदेशी का सर्वगतत्व व्यापकत्व का कथन किसी प्रकार नहीं बन सकता है । और सर्वगत को तो सर्वदेश में वर्तमान रहने से परिच्छिन्न देश का कथन भी किसी स्वरूप की अपेक्षा से हो सकता है, जैसे कि समस्त भूमि का स्वामी होता हुआ भी अयोध्या का अधिपति कहा जाता है । यदि कहो कि फिर किस अपेक्षा से सर्वगत होता हुआ भी ईश्वर अल्पस्थान वाला और अति अणु कहा जाता है, तो कहते हैं कि निचाय्य ( द्रष्टव्य ) होने से ऐसा कहा जाता है । क्योंकि जैसे शालग्राम शिला में हरि का उपदेश दिया जाता है, इसी प्रकार अति अणुत्वादि गुण समूहयुक्त ईश्वर उस हृदय कमल में निचाय्य द्रष्टव्य कहा जाता है । वह हृदय में इसलिये कहा जाता है कि जिससे उस हृदय में बुद्धि के वृत्तिरूप विज्ञान उस ईश्वर को ग्रहण-व्यक्त करने वाला होता है । सर्वगत भी ईश्वर उस हृदय में उपासना के विषय होने पर प्रसन्न व्यक्त होता है और इसको आकाश के समान समझना चाहिये—जैसे सर्वगत होते हुए भी सूचीपाशादि की अपेक्षा से अल्पस्थान वाला अति अणु कहा जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म भी कहा जाता है । इस प्रकार द्रष्टव्यत्व व्येयत्व की अपेक्षा से वह ब्रह्म का अल्पस्थानत्व और अति अणुत्व है, पारमार्थिक ( सत्य ) नहीं है । इस प्रकार आकाशतुल्य अल्पस्थानादि के मिथ्यात्व सिद्ध होने पर, जो यहाँ शका होती है कि ब्रह्म का हृदय आश्रय होने से एवं प्रत्येक शरीर में हृदय रूप आश्रय के भिन्न होने से तथा भिन्न आश्रय वाले शुकादि को अनेकत्व सावयवत्व अनित्यत्व दोष देखने से ब्रह्म को भी भिन्नत्व और अनेकत्वादि दोष प्राप्त होते हैं । यह शका भी आकाश के दृष्टान्त से ही परिहृत निवारित हो गई, क्योंकि अनेकाश्रय वाला भी आकाश वस्तुतः भिन्नानेकादि नहीं होता है ॥ ७ ॥

**सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशोभ्यात् ॥ ८ ॥**

संक्षिप्तार्थ यह है कि ( सर्वगतस्यापि ब्रह्मणोऽर्भकौकस्त्वे स्वीकृते तस्यापि जीववत् सम्भोगस्य प्राप्ति स्यादिति चेन्न ससङ्गत्वादितिभिन्नभयोर्भेदात् ) सर्वगत ब्रह्म को भी जीव के स्थान रूप अल्प हृदय स्थान वाला मानने पर जीव के समान ब्रह्म को भी सम्भोग की

प्राप्ति होगी यदि ऐसी शका कोई करे तो ठीक नहीं है असंगता असंगता आदि से जीव ब्रह्म में भेद है, इससे जीव के समान ईश्वर को सभोग नहीं होता है ।

व्योमवत्सर्वगतस्य ब्रह्मणः सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धात्, चिद्रूपतया च शारीरादविशिष्टत्वात् सुखदुःखादिसम्भोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत । एकत्वाच्च । नहि परस्मादात्मनोऽन्यः कश्चिदात्मा संसारी विद्यते, 'नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' ( बृ० ३।७।२३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तस्मात्परस्यैव संसारसम्भोग-प्राप्तिरिति चेत् न, वैशेष्यात् । न तावत्सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धाच्छारीरवद्ब्रह्मणः सम्भोगप्रसङ्गः, वैशेष्यात् । विशेषो हि भवति शारीरपरमेश्वरयोः । एकः कर्ता भोक्ता धर्माधर्मसाधनः सुखदुःखादिमांश्च, एकस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्मत्वादि-गुणः । एतस्मादनयोर्विशेषादेकस्य भोगो नेतरस्य । यदि च संनिधानमात्रेण वस्तुशक्तिमनाश्रित्य कार्यसम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, आकाशादीनामपि दाहादि-प्रसङ्गः, सर्वगतानेकात्मवादिनामपि समावेतौ चोद्यपरिहारौ । यदपि-एकत्वाद् ब्रह्मण आत्मान्तराभावाच्छारीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोगप्रसङ्ग—इति । अत्र वदामः—इदं तावद्देवानांप्रियः प्रष्टव्यः—'कथमयं त्वयात्मान्तराभावोऽध्य-वसित' इति । 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' 'नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' इत्यादि-शास्त्रेभ्य इति चेत् ? यथाशास्त्रं तर्हि शास्त्रीयोऽर्थः प्रतिपत्तव्यो न तत्रार्धजरतीयं लभ्यम् । शास्त्रं च 'तत्त्वमसि' इत्यपहतपाप्मत्वादिविशेषणं ब्रह्म शारीरस्यात्म-त्वेनोपदिशच्छारीरस्यैव तावदुपभोक्तृत्वं वारयति । कुतस्तदुपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः ।

आकाश के समान सर्वगत ब्रह्म का सब प्राणी के हृदयो के साथ सम्बन्ध होने से और चेतन होने से जीव से विलक्षणता के अभाव से सुखदुःखादि का सभोग भी जीव के तुल्य ही प्राप्त होगा । जीव ब्रह्म की एकता से भी तुल्य भोग प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा से अन्य कोई आत्मा समारी नहीं है यह 'इस ब्रह्म से अन्य विज्ञाता नहीं है' इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है । जिससे परमात्मा ही को भोग की प्राप्ति होती है । यदि इस प्रकार कहा जाय तो यह कहना उचित नहीं क्योंकि जीव ब्रह्म में भेद है । सबप्राणी के हृदय के साथ सम्बन्ध से जीव के समान ब्रह्म को संभोग की प्राप्ति नहीं है । इसमें विशेषता ( भेद ) ही हेतु है । और जीव परमेश्वर में परस्पर भेद अवश्य है । एक जीव कर्ता, भोक्ता, धर्माधर्म रूप साधन वाला और सुख-दुःखादि वाला है और एक परमात्मा उससे विपरीत अपहतपाप्मत्वादि ( पापादि-रहितत्वादि ) गुण वाला है । इसी विशेष ( भेद ) से एक जीव को भोग होता है, उससे अन्य परमात्मा को भोग नहीं होता है । यदि वस्तु की शक्ति का आश्रयण ( स्वीकार ) नहीं करके सन्नधि ( समीपता ) मात्र से कार्य के सम्बन्ध को स्वीकार करें, तो दग्ध होते हुए काष्ठादि के सामीप्य से आकाशादि को भी दाहादि की प्राप्ति होगी । सर्वगत



अनेकात्मवादियो को भी यह शका और समाधान तुल्य है। सबके आत्मा सर्व हृदय मे सम्बन्ध वाले है, इससे सर्वत्र सब को भोग प्राप्त हाता है, उसका निवारण सबका कर्तव्य है, केवल मुझे ही इस शका का निवारण करना नहीं है। पहले जो यह कहा था कि ब्रह्म के एक होने से, आत्मान्तर के अभाव से जीव के भोग से ब्रह्म को भोग प्राप्त होता है, तो इस विषय मे कहते है कि पहले उस मूढ को पूछना चाहिये कि दूसरे आत्माओ का अभाव है, यह तुमने कैसे निश्चय किया है, किस प्रमाण से समझा है ? यदि कहे कि 'तत्त्वमसि, 'अहं ब्रह्मास्मि' नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' इत्यादि शास्त्रो से समझा है कि तू ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म से अन्य विज्ञाता नहीं है। तो उसको सर्वाश मे शास्त्र के अनुसार ही शास्त्रकथित अर्थ को समझना चाहिये। शास्त्रार्थ मे अर्द्धजरतीय प्राप्त होने योग्य नहीं है। कुछ मानना कुछ नहीं मानना यह अर्द्धवृद्धयुवत्व के समान अयुक्त है। 'तत्त्वमसि' यह शास्त्र तो विगतपापादिविशेषणयुक्त ब्रह्म को जीव की आत्मा रूप से उपदेश करता हुआ जीव को भी प्रथम से अज्ञानवश प्राप्त उपभोक्तृत्व का वारण करता है, फिर उस जीव के उपभोग से ब्रह्म को कैसे उपभोग की प्राप्ति हो सकती है ?

अथागृहीतं शारीरस्य ब्रह्मणैकत्वं तदा मिथ्याज्ञाननिमित्तः शारीरस्योपभोगः, न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः संस्पर्शः। नहि बालैस्तलमलिनतादिभिर्व्योम्नि विकल्प्यमाने तलमलिनतादिविशिष्टमेव परमार्थतो व्योम भवति। तदाह—न वैशेष्यादिति। नैकत्वेऽपि शारीरस्योपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः, वैशेष्यात्। विशेषो हि भवति मिथ्याज्ञानसम्यग्ज्ञानयोः। मिथ्याज्ञानकल्पित उपभोगः, सम्यग्ज्ञानदृष्टमेकत्वम्। नच मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन सम्यग्ज्ञानदृष्टं वस्तु संस्पृश्यते। तस्मान्नोपभोगगन्धोऽपि शक्य ईश्वरस्य कल्पयितुम् ॥ ८ ॥

यदि शास्त्रादि द्वारा जीव की ब्रह्म के साथ एकता को नहीं समझता है, तो मिथ्या ज्ञाननिमित्तक प्रतिभासात्मक जीव को भोग होता है, और उस भोग के साथ सत्य स्वरूप ब्रह्म को संस्पर्श (सम्बन्ध) नहीं होता है, जैसे कि अज्ञानियो से तल-मलिनतादि धर्मों द्वारा आकाश के विकल्पित (उन धर्मों से सहित ज्ञात) होने पर भी वस्तु-तलमलिनतायुक्त ही आकाश नहीं हो जाता है, जिससे सूत्रकार कहते है कि (न वैशेष्यादिति)। ब्रह्म के एक सर्वानुगत होते हुए भी जीव के उपभोग से ब्रह्म को उपभोग की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भेद है। मिथ्या ज्ञान और सत्य ज्ञान मे अवश्य भेद होता है। वहाँ मिथ्याज्ञान से कल्पित (सिद्ध) उपभोग होता है, और सत्यज्ञान से एकत्व दृष्ट (प्रत्यक्ष) होता है, तथा मिथ्याज्ञान से कल्पित उपभोग के साथ सत्यज्ञान से दृष्ट वस्तु संस्पृष्ट-सम्बद्ध नहीं होती है, जिससे उपभोग का गन्ध (लेश) मात्र भी ईश्वर मे कल्पना के योग्य नहीं है ॥ ९ ॥

## अत्राधिकरण ॥ २ ॥

जीवोऽग्निरीशो वाऽत्ता स्यादोदने जीव इष्यताम् ।

स्वाद्वृत्तीति श्रुतेर्वह्निर्वाग्निरन्नाद इत्यदः ॥ १ ॥

ब्रह्मक्षत्रादिजगतो भोज्यत्वात् स्यादिहेश्वरः ।

ईशप्रश्नोत्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चात्ता ॥ २ ॥

संक्षिप्तार्थं यह है कि (यद्यपि पूर्वाधिकरणे ब्रह्मणो भोक्तृत्व प्रतिषिद्ध तथापि कठवा-  
क्याल्लब्धोऽत्ता ब्रह्मैव नामन्यादिकम् । ब्रह्मक्षत्रपदाम्ब्या चराचरस्य जगतो ग्रहणादत्तव्यत्वेन  
स्वीकारादिति ) यद्यपि पूर्वं अधिकरण मे ब्रह्म को भोक्तृता का निषेध किया गया है,  
तथापि कठ श्रुति के ओदनयुक्त वाक्य से सूचित अत्ता ब्रह्म ही हो सकता है, अग्नि  
आदि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मक्षत्रपद से चराचर जगत् का उपलक्षण द्वारा  
ग्रहण होता है, और सब जगत का सहर्तारूप अत्ता ब्रह्म ही हो सकता है, अन्य नहीं  
हो सकता ।

## अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ ९ ॥

(यस्य ब्रह्म च क्षत्र च ) इस श्रुति से उपलब्ध अत्ता जीव वा अग्नि वा ईश्वर है,  
ऐसा सशय होने पर पूर्वपक्ष होता है कि ओदन शब्दार्थ भोग्य के रहने के कारण  
भोक्तारूप जीव ही यहाँ अत्ता हो सकता है, और ( पिप्पल स्वाद्वृत्ति ) इस श्रुति से  
भी अत्ता जीव सिद्ध होता है । अथवा ( अग्निरन्नादः ) इस श्रुति के अनुसार अग्नि  
अत्ता हो सकती है ॥ १ ॥ सिद्धान्त है कि ब्रह्मक्षत्रपद के उपलक्षक होने से यहाँ  
सब जगत के भोज्य होने से ईश्वर ही अत्ता हो सकता है । दूसरी बात है कि उक्त  
वाक्य ईश्वरविषयक प्रश्न का उत्तर रूप है, इससे ईश्वर ही अत्ता है । जगत् का सहार  
ही ईश्वर की अत्तृता ( भोक्तृता ) है, क्योंकि सुखादि की भोक्तृता उसमे नहीं है, यह  
पहले ही कहा जा चुका है ॥ २ ॥

कठवल्लीषु पठ्यते—'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्यो-  
पसेचनं क इत्था वेद यत्र सः' ( १।२।२४ ) इति । अत्र कश्चिदोदनोपसेचन-  
सूचितोऽत्ता प्रतीयते । अत्र किमग्निरत्ता स्यात्, उत जीवः, अथवा परमात्मेति  
संशयः, विशेषानवधारणात्, त्रयाणां चाग्निजीवपरमात्मनामस्मिन्प्रत्ये प्रश्नो-  
पन्यासोपलब्धेः । किं तावत्प्राप्तम् ? अग्निरत्तेति । कुतः ? 'अग्निरन्नादः' ( वृ०  
१।४।६ ) इति श्रुतिप्रसिद्धिभ्याम् । जीवो वाऽत्ता स्यात्, 'तयोरन्यः पिप्पलं  
स्वाद्वृत्ति' इति दर्शनात् । न परमात्मा, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' ( मुण्ड०  
३।१।१ ) इति दर्शनादित्येवं प्राप्ते ब्रूमः ।

कठोपनिषद् के छ वल्ली ( लता-कारण्ड ) है । दो अध्याय है । वहाँ प्रथमा अध्याय  
वल्ली २ के अन्दर पढा गया है कि ( जिसके ब्राह्मण-क्षत्रिय दोनो ओदन हैं, मृत्यु उस

ओदन मे उपसेचन (सस्कारक घृत दाल आदि) है, वह अत्ता जिस निर्गुण ब्रह्म मे अभिन्न रूप से रहता है। जिम निज महिमा मे रहता है, उस ईश्वराश्रय को जैसे साधनसम्पन्न अधिकारी जानता है, इस रीति से अन्य कौन जान सकता है) इत्यादि। यहाँ ओदन और उपसेचन से सूचित ( बोधित ) कोई अत्ता प्रतीत होता है। यहाँ सशय होता है कि अग्नि अत्ता हो सकती है अर्थात् जीव अत्ता है, अथवा परमात्मा ? क्योंकि विशेष का निश्चय नहीं होता है, और अग्नि, जीव, परमात्मा इन तीनों के प्रश्नो का कथन इस ग्रन्थ मे उपलब्ध ( ज्ञात ) होता है। विमर्श होता है कि पहले प्राप्त क्या है ? पूर्वपक्ष है कि अग्नि अत्ता है, क्योंकि ( अग्नि अन्न का भोक्ता है ) इस प्रकार श्रुति कहती है, और लोक मे प्रसिद्धि भी है कि अग्नि अत्ता है। जाठराग्नि के ही अधीन भोक्तृत्व है। अथवा जीव अत्ता हो सकता है, क्योंकि जीवेश्वर मे एक जीव स्वादु विषय को भोगता है। इस अर्थ मे श्रुति देखी जाती है, और परमात्मा 'तो भोक्ता नहीं हो सकता। क्योंकि ( भोग नहीं करता हुआ परमात्मा प्रकाश करता है ) इस अर्थ मे श्रुति देखी जाती है। इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहते हैं।

अत्ताऽत्र परमात्मा भवितुमर्हति। कुतः ? चराचरग्रहणात्। चराचरं हि स्थावरजङ्गमं मृत्यूपसेचनमिहाद्यत्वेन प्रतीयते। तादृशस्य चाद्यस्य न परमात्मनोऽन्यः काल्स्त्वेनात्ता सम्भवति, परमात्मा तु विकारजातं संहरन् सर्वमत्तीत्युपपद्यते। नन्विह चराचरग्रहणं नोपलभ्यते, तत् कथं सिद्धवच्चराचरग्रहणं हेतुत्वेनोपादीयते। नैष दोषः। मृत्यूपसेचनत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात्, ब्राह्मणक्षत्रयोश्च प्राधान्यात्प्रदर्शनार्थत्वोपपत्तेः। यत्तु—परमात्मनोऽपि नात्तत्वं सम्भवति, 'अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' इति दर्शनात्—इति। अत्रोच्यते। कर्मफलभोगस्य प्रतिषेधकमेतद्दर्शनम्, तस्य संनिहितत्वात्, न विकारसंहारस्य प्रतिषेधकम्, सर्ववेदान्तेषु सृष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्। तस्मात्परमात्मैवेहात्ता भवितुमर्हति ॥ ६ ॥

यहाँ 'अत्ता' परमात्मा ही होने योग्य है, क्योंकि चराचर का यहाँ ग्रहण है। इससे चराचर रूप स्थावर और जगम मृत्युरूप उपसेचनयुक्त यहाँ प्रतीत होता है। ऐसे चराचररूप अद्य ( भक्ष्य ) का सम्पूर्ण रूप से भक्षक परमात्मा से अन्य नहीं हो सकता है, और परमात्मा तो विकार-समूह का सहार करता हुआ सबको खाता है, यह बन सकता है। शका होती है कि यहाँ चराचर का ग्रहण उपलब्ध ( ज्ञात ) नहीं होता है, तो भी श्रुति मे वर्तमान के समान चराचर ग्रहण का हेतुरूप से कैसे ग्रहण किया जाता है। उत्तर है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि मृत्यु की उपसेचनता से सब प्राणि-समूह की प्रतीति होती है। ब्राह्मण-क्षत्रिय का ग्रहण प्रधानता से है, और उन दोनों की प्रधानता से अन्य सब प्राणी के प्रदर्शनार्थत्व की सिद्धि होती है, उनके द्वारा सब प्राणी को ओदन रूप समझाया जाता है। और जो यह कहा था कि परमात्मा को भी भोक्तृत्व नहीं बन सकता, क्योंकि ( भोगरहित होकर परमात्मा

प्रकाश करता है) इस अर्थ में श्रुति देखी जाती है। यहाँ कहा जाता है कि कर्मफल भोग का प्रतिषेधन रूप यह दर्शन (वचन) कर्मफल भोग ही की समीपता है, विकारसंहार का प्रतिषेधक वह दर्शन नहीं है, क्योंकि सब वेदान्त में सृष्टि स्थिति और संहार के कारण रूप से ब्रह्म प्रसिद्ध है। जिससे यहाँ परमात्मा अत्ता होने योग्य है ॥ ९ ॥

### प्रकरणाच्च ॥ १० ॥

इतञ्च परमात्मैवेहात्ता भवितुमर्हति, यत्कारणं प्रकरणमिदं परमात्मनः, 'न जायते क्षियते वा विपश्चित्' (काठ० १।२।१८) इत्यादि। प्रकृतग्रहणं च न्याय्यम्। 'क इत्था वेद् यत्र सः' इति च दुर्विज्ञानत्वं परमात्मलिङ्गम् ॥ १० ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी परमात्मा ही अत्ता होने योग्य है। क्योंकि यह परमात्मा ही का प्रकरण है (यह परमात्मा न जन्मता है, न मरता है और यह विद्वान् सर्वज्ञ है) इत्यादि। एव प्रकरणप्राप्त का ग्रहण न्याययुक्त होता है। और जहाँ वह परमात्मा है उसे इदमित्यम्—यह ऐसा है इस प्रकार से कौन जान सकता है। इस प्रकार (दुर्विज्ञानत्व) कष्टसाध्यज्ञानविषयत्व भी परमात्मा का ही लिंग है ॥ १० ॥

### गुहाप्रविष्टाधिकरण ॥ ३ ॥

गुहां प्रविष्टौ धीजीवौ जीवेशौ वा हृदि स्थितौ।

छायातपाख्यदृष्टान्ताद्धीजीवौ स्तो विलक्षणौ ॥ १ ॥

पिबन्ताविति चैतन्यद्वयं जीवेश्वरौ ततः।

हृत्स्थानमुपलब्धे स्याद्वैलक्षण्यमुपाधितः ॥ २ ॥

'गुहा प्रविष्टौ' इस रूप से वर्णित बुद्धि और जीव हैं, अथवा जीवेश्वर हैं? ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष है कि छाया और आतप नामक दृष्टान्त से विलक्षण हृदय-स्थित बुद्धि और जीव है ॥ १ ॥ सिद्धान्त है कि 'पिबन्तौ' इस कथन से दो चेतन की प्रतीति होती है, इससे जीव और ईश्वर गुहाप्रविष्ट कहे गये हैं, और हृदय स्थान उपलब्धि (ज्ञानोपासना) के लिये कहा गया है। जीवेश्वर में उपाधि से विलक्षणता होती है ॥ २ ॥

### गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ ११ ॥

'गुहाम-प्रविष्टौ-आत्मानौ-हि-तद्दर्शनात्' ये पाँच पद इस सूत्र में हैं। संक्षिप्तार्थ है कि (गुहा प्रविष्टौ = इति कठबल्ल्या गुहाया प्रविष्टत्वेन श्रुतौ जीवपरमात्मानौ हि एव स्तः। तयोरेवान्यास्वपि श्रुतिषु गुहाप्रविष्टत्वेन दर्शनादिति) गुहा प्रविष्टौ, इस प्रकार पठित कठबल्ल्या में गुहाप्रविष्टत्वरूप से सुने गये जीव और परमात्मा हैं, क्योंकि उन दोनों को ही अन्य श्रुतियों में भी गुहाप्रविष्टत्वरूप से वर्णित देखा जाता है।

कठवल्लीष्वेव पठ्यते—‘ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्निन्यो ये च त्रिणाचिकेताः’ ( काठ० १।३।१ ) इति । तत्र संशयः—किमिह बुद्धिजीवौ निर्दिष्टावुत जीवपरमात्माना-विति । यदि बुद्धिजीवौ, ततो बुद्धिप्रधानात्कार्यकरणसङ्घाताद्विलक्षणो जीवः प्रतिपादितो भवति । तदपीह प्रतिपादयितव्यम्, ‘येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः’ ( काठ० १।१।२० ) इति पृष्टत्वात् । अथ जीवपरमात्मानौ, ततो जीवाद्विलक्षणः परमात्मा प्रतिपादितो भवति । तदपीह प्रतिपादयितव्यम्, ‘अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्ब्रह्म’ ( काठ० १।२।१४ ) इति पृष्टत्वात् । अत्राहाक्षेप्ता—उभावप्येतौ पक्षौ न सम्भवतः । कस्मात् ? ऋतपानं कर्मफलोपभोगः, ‘सुकृतस्य लोके’ इति लिङ्गात् । तच्च चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य सम्भवति, नाचेतनाया बुद्धेः । ‘पिबन्तौ’ इति च द्विवचनेन द्वयोः पानं दर्शयति श्रुतिः । अतो बुद्धिक्षेत्रज्ञपक्षस्तावन्न सम्भवति । अत एव क्षेत्रज्ञपरमात्मपक्षोऽपि न सम्भवति, चेतनेऽपि परमात्मनि ऋतपानासम्भवात् । ‘अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’ इति मन्त्रवर्णादिति । अत्रोच्यते—नैष दोषः । छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेनापि छत्रिणा बहूनां छत्रित्वो-पचारदर्शनात् । एवमेकेनापि पिबता द्वौ पिबन्तावुच्येयाताम् । यद्वा जीवस्ता-वत्पिबति, ईश्वरस्तु पाययति, पाययन्नपि पिबतीत्युच्यते । पाचयित्यपि पक्त्-त्वप्रसिद्धिदर्शनात् । बुद्धिक्षेत्रज्ञपरिग्रहोऽपि सम्भवति करणे कर्तृत्वोपचारात्, एधांसि पचन्तीति प्रयोगदर्शनात् । न चाध्यात्माधिकारेऽन्यौ कौचिद् द्वावृतं पिबन्तौ सम्भवतः । तस्माद् बुद्धिजीवौ स्यातां जीवपरमात्मानौ वेति सशयः किं तावत्प्राप्तम् ? बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति । कुतः ? ‘गुहां प्रविष्टौ’ इति विशेषणात् । यदि शरीरं गुहा यदि वा हृदयम् उभयथापि बुद्धिक्षेत्रज्ञौ गुहां प्रविष्टावुपपद्येते । नच सति सम्भवे सर्वगतस्य ब्रह्मणो विशिष्टदेशत्वं युक्तं कल्पयितुम् । ‘सुकृतस्य लोके’ इति च कर्मगोचरानतिक्रमं दर्शयति । परमात्मा तु न सुकृतस्य वा दुष्कृतस्य वा गोचरे वर्तते, ‘न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्’ इति श्रुतेः । ‘छायातपौ’ इति च चेतनाचेतनयोर्निर्देश उपपद्यते छायातपवत्परस्परविलक्ष-णत्वात् । तस्माद् बुद्धिक्षेत्रज्ञाविहोच्येयातामिति प्राप्ते ब्रूमः—

कठवल्लियो मे ही पढा जाता है कि सुकृत-स्वयकृत कर्म के ऋत-अवश्यभाविकल को ससार मे वा कर्मफलरूप देहात्मक लोक मे वर्तमान और पर ( परात्मा ) की स्थिति के योग्य परार्ध हृदय रूप गुहा मे प्रविष्ट को ब्रह्मवेत्ता और कर्मी भी छाया और आतप के समान विलक्षण कहते हैं, जो कर्मी पञ्चाग्नि वाले और तीन बार नाचिकेत नामक अग्नि का चयन करने वाले हैं । वहाँ सशय होता है कि क्या यहा बुद्धि और जीव गुहाप्रविष्ट शब्द से कहे गये है, वा जीव और परमात्मा कहे गये हैं ? यदि बुद्धि

और जीव कहे गये हो तो जिसमे बुद्धि प्रधान है ऐसे देहेन्द्रिय के संघात से विलक्षण जीव यहाँ प्रतिपादित होता है। उस जीव का बुद्धि से विलक्षणत्व भी यहाँ प्रतिपादन कर्तव्य है, क्योंकि कोई कहते हैं कि मनुष्य के मरने पर भी जीवात्मा रहता है, कोई कहते हैं कि नहीं रहता है, इस तत्त्व को मैं आप से उपदिष्ट शिक्षित हो कर जादूंगा। यही वरो मे तीसरा वर है। यदि यहाँ जीव और परमात्मा कहे गये हो, तो जीव से विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित होता है। वह विलक्षण परमात्मा का स्वरूप भी यहाँ प्रतिपादन योग्य है, क्योंकि प्रश्न है कि ( धर्म, अधर्म, इस कार्य कारण, और भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान इन सबसे अन्यत्र ( भिन्न ) त्रिकालातीत जिस वस्तु को जानते हो सो कहे )। यहाँ आक्षेप ( निन्दा ) करने वाला कहता है कि, ये दोनो पक्ष अयुक्त हैं, बन नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्मफल भोग का नाम ऋतपान है। उसमे, 'सुकृतस्य लोके' ( स्वयं कृत कर्म के कार्य देह मे ) यह कथन लिंग हेतु अनुमापक है। और ऋतपान चेतन क्षेत्रज्ञ का हो सकता है। अचेतन बुद्धि का नहीं हो सकता है। एव पिवन्तौ, इस पद मे द्विवचन से गुहाप्रविष्ट दोनो के ऋतपान के सम्बन्ध को श्रुति दर्शाती है। इससे प्रथं बुद्धि क्षेत्रज्ञ वाला पक्ष का असम्भव है। इसी हेतु से दूसरा क्षेत्रज्ञ परमात्मपक्ष ( विशेष ) का भी सम्भव नहीं है, क्योंकि चेतन परमात्मा मे भी कर्मफल का भोग नहीं है ( परमात्मा फल को नहीं भोगता हुआ प्रकाश करता है। इस प्रकार वेद मन्त्र कहता है। यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि एक छत्र वाले के रहते भी अजहत् लक्षणा के द्वारा एक साथ चलने वाले बहुत मनुष्य मे ऐसा व्यवहार देखा जाता है कि ये छत्ता वाले जाते हैं। इसी प्रकार एक फल भोक्ता जीव के साथ से जीवेश्वर दोनो फल भोगते हैं यह लक्षणा से कहा जा सकता है। अथवा जीव वस्तुतः फल भोगता है, और ईश्वर भोगाता है। इससे भोगाता हुआ भी भोगता है इस प्रकार कहा जाता है, क्योंकि पाक करने वालो मे भी पाक-कर्तृत्व की प्रसिद्धि देखी जाती है। और बुद्धि क्षेत्रज्ञ का ग्रहण भी करण मे कर्तृत्व के उपचार ( गौण व्यवहार ) से हो सकता है। एधासि पचन्ति ( लकड़ियाँ पकाती है ) ऐसा प्रयोग देखा जाता है। और अध्यात्म-निरूपण के अधिकार ( प्रकरण ) मे अन्य कोई फल भोक्ता नहीं हो सकते हैं। जिससे बुद्धि जीव हो सकते है, या जीवपरमात्मा हो सकते हैं। इससे शंशय है, विमर्श है कि क्या प्राप्त है ? पूर्वपक्ष है कि बुद्धि और क्षेत्रज्ञ प्राप्त है। क्योंकि भोक्ता का गुहा प्रविष्ट यह विशेषण है, उसका बुद्धि और जीव मे सम्भव है। क्योंकि यदि शरीर गुहा है वा हृदय गुहा है इन दोनो प्रकार से बुद्धि और क्षेत्रज्ञ ही गुहाप्रविष्ट हो सकते है। सम्भव रहते सर्वगत ब्रह्म को विशिष्ट देशत्व ( एक देशित्व ) की कल्पना करना युक्त नहीं है। और ( 'सुकृतस्य लोके' ) यह श्रुति कर्मफल का अनतिक्रमण ( सबन्ध ) दर्शाती है। परमात्मा तो पुण्य पाप के अधीन नहीं रहता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि परमात्मा न कर्म से बढ़ता है न छोटा होता है, और छाया आतप तुल्य कथन

भी अचेतन, तथा चेतन मे बन सकता है। क्योंकि जड चेतन मे छाया और आतप तुल्य विलक्षणता है। जिससे बुद्धि और क्षेत्रज्ञ यहाँ पान-कर्ता कहे जा सकते है। इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं—

विज्ञानात्मपरमात्मानाविहोच्येयाताम् । कस्मात् ? आत्मानौ हि ता-  
वुभावपि चेतनौ समानस्वभावौ । संख्याश्रवणे च समानस्वभावेष्वेव लोके  
प्रतीतिर्दृश्यते । अस्य गोद्वितीयोऽन्वेष्टव्य इत्युक्ते गौरेव द्वितीयोऽन्विष्यते,  
नाश्वः पुरुषो वा । तदिह ऋतपानेन लिङ्गेन निश्चिते विज्ञानात्मनि द्विती-  
यान्वेषणाय समानस्वभावश्चेतनः परमात्मैव प्रतीयते । ननूक्तं—‘गुहाहित-  
त्वदर्शानात्र परमात्मा प्रत्येतव्य’—इति । गुहाहितत्वदर्शनादेव परमात्मा प्रत्ये-  
तव्य इति वदामः । गुहाहितत्वं तु श्रुतिस्मृतिष्वसकृत्परमात्मन एव दृश्यते—  
‘गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्’ ( काठ० १।२।१२ ) ‘यो वेद निहितं गुहायां परमे  
व्योमन्’ ( तै० २।१ ) ‘आत्मानमन्विच्छुः गुहां प्रविष्टम्’ इत्याद्यासु । सर्व-  
गतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थो देशविशेषोपदेशो न विरुध्यत इत्येतदप्युक्तमेव ।  
सुकृतलोकवर्तित्वं तु छत्रित्ववदेकस्मिन्नपि वर्तमानमुभयोरविरुद्धम् । छाया-  
तपावित्यप्यविरुद्धम्, छायातपवत्परस्परविलक्षणत्वात्संसारित्वासंसारित्वयोः ।  
अविद्याकृतत्वात्संसारित्वस्य पारमार्थिकत्वाच्चात्संसारित्वस्य । तस्माद्विज्ञानात्म-  
परमात्मानौ गुहां प्रविष्टौ गृह्येते ॥ ११ ॥

विज्ञानात्मा ( जीव ) और परमात्मा यहाँ कहे जा सकते हैं। क्योंकि वे दोनो  
चेतनात्मा ही समान स्वभाव वाले भी हैं और संख्या के श्रवण स्थान मे समान  
स्वभाव विषयक ही प्रतीति लोक मे देखी जाती है, जैसे कि इस गौ ( वृष-बैल )  
के सम्बन्धी ( साथी जोडा ) दूसरा गौ का अन्वेषण करना ( खोजना ), ऐसा कहने  
पर दूसरा बैल ही लोक मे खोजा जाता है, अश्व वा पुरुष ( मनुष्य ) नहीं खोजा जाता  
है। जिससे यहाँ भी कर्मफल भोगरूप लिंग से विज्ञानात्मा ( जीव ) के निश्चय होने  
पर द्वितीय के खोज चिन्ता करने पर समान स्वभाव वाला चेतन परमात्मा ही प्रतीत  
होता है। एवं जो कहा गया है कि ‘गुहाहितत्व’ ( शरीर बुद्धि मे प्रविष्टत्व ) के दर्शन से  
परमात्मा नहीं समझा जा सकता, वहाँ कहते हैं कि गुहाहितत्व के देखने से ही  
परमात्मा समझा जा सकता है। क्योंकि परमात्मा को ही गुहाहितत्वरूप से अनेको  
वार श्रुति स्मृतियो मे सुना जाता है ( बुद्धि गुहा मे प्रविष्ट-देह रूप गह्वर ( गहन  
निकुञ्ज ) मे स्थिर पुरातन को जान कर विद्वान् हर्ष शोक को त्यागता है। परम श्रेष्ठ  
व्योम हृदयाकाश गत बुद्धि गुहा मे जो निहित ( प्रविष्ट ) ब्रह्म को जानता है, सो सब  
काम को प्राप्त करता है। ( गुहा मे प्रविष्ट आत्मा को विचारो ) इत्यादि श्रुति ब्रह्मात्मा  
को गुहाहित कहने वाली हैं और सर्वगत ब्रह्म का भी ज्ञानोपासनादि के लिए देश विशेष  
का उपदेश विरुद्ध नहीं होता है यह बात कही जा चुकी है। सुकृत लोक ( कर्म  
जन्य देह ) में रहना भी एक जीव ही मे रहते भी छत्रित्व के समान लक्षणा से दोनो

मे कथं, अविरोध है। छायातप तुल्यता भी अविरोध है, क्योंकि ससारित्व और अससारित्व को छाया और आतप के समान परस्पर विलक्षणता है। अविद्याकृत ससारित्व एव पारमार्थिक अससारित्व है, इससे इन दोनों में विलक्षणता है। जिससे विज्ञानात्मा और परमात्मा गुहाप्रविष्ट गृहीत ( ज्ञात ) होते हैं ॥ ११ ॥

कृतश्च विज्ञानात्मपरमात्मानौ गृह्येते ?

### विशेषणाच्च ॥ १२ ॥

किस हेतु से विज्ञानात्मा और परमात्मा गृहीत होते हैं ?

सक्षिप्तार्थ है कि ( गन्तुगन्तव्यत्वादिविशेषण भेदात् । मन्तुमन्तव्यत्वादिविशेषण-भेदेन निरूपणात्—जीवात्मपरमात्मैव गृह्येते ) गन्ता । प्राप्ति कर्ता जीव है। गन्तव्य पदमपद परमात्मा है। मनन करने वाला ज्ञाता जीव है मन्तव्य परमात्मा है। इनके धर्म रूप विशेषणों का भेद है। विशेषणों के भेद पूर्वक श्रुति में निरूपण इन दोनों का किया गया है। इससे जीवात्मा परमात्मा का ग्रहण किया जाता है।

विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव सभवति । 'आत्मान रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु' ( का० १।३।३ ) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रथिरथादिरूपक-कल्पनया विज्ञानात्मानं रथिनं संसारमोक्षयोगन्तारं कल्पयति । 'सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्' ( का० १।३।६ ) इति च परमात्मानं गन्तव्यं कल्पयति । तथा 'त दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥' ( का० १।२।१२ ) इति पूर्वस्मिन्नपि ग्रन्थे मन्तुमन्तव्यत्वेनैतावेव विशेषितौ । प्रकरणं चेद् परमात्मनः । 'ब्रह्मविदो वदन्ति' इति च वक्तृविशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे घटते । तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्येयाताम् । एष एव न्यायः 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' ( मुण्ड० ३।१।१ ) इत्येवमादिष्वपि । तत्रापि ह्यध्यात्माधिकारात् प्राकृतौ सुपर्णावुच्येते । 'तयोरन्यः पिप्पलु स्वाद्वन्ति' इत्यनलिङ्गाद्विज्ञानात्मा भवति । 'अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' इत्यनश्नचेतनत्वाभ्यां परमात्मा । अनन्तरे च मन्त्रे तावेव द्रष्टृदृष्टव्यभावेन विशिनष्टि—'समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥' ( मुण्ड० ३।१।२ ) इति ।

जीवात्मा और परमात्मा का ही वक्ष्यमाण विशेषण होसकता है, क्योंकि आत्मा को रथी और शरीर को रथ जानो । इत्यादि आगे के ग्रंथ से रथी रथादि रूपक की कल्पना द्वारा विज्ञानात्मारूप रथी को संसार और मोक्ष मार्ग में गमन कर्ता सिद्ध किया जाता है । और वह जीव संसार मार्ग के परम पार को प्राप्त करता है जो परम पार विष्णु 'व्यापक' परमात्मा का पद ( स्वरूप ) है । इस प्रकार परमात्मा को गन्तव्य ( प्राप्य ) सिद्ध करता है । इसी प्रकार ( उस दुर्दर्श दुर्ज्ञेय )



माया से आवृत माया में प्रविष्ट शरीरासक्त मिलित के समान पुरातन उस आत्म-देव को विवेकादियुक्त निदिध्यासनरूप आध्यात्मयोग से अपरोक्ष समझकर ( अध्यात्म-योग की प्राप्ति से आत्मा को प्राप्त करके ) विद्वान् पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है । इस पूर्व ग्रन्थ में भी मन्ता और मन्तव्य रूप से ये जीव और परमेश्वर ही विशेषण युक्त निरूपित कथित हैं । परमात्मा का प्रकरण है, और ( ब्रह्मवेत्ता इसको कहते हैं ) यह वक्ता का ब्रह्मज्ञतारूप विशेषण भी परमात्मा के परिग्रहण करने पर संघटित-युक्त होता है । जिससे यहाँ जीव परमात्मा को ही कहने योग्य समझना चाहिये । यही न्याय ( द्वासुपर्णा सयुजा सखाया ) इत्यादि श्रुति में भी समझना चाहिये । सुन्दर गति वाले, सदा साथ रहने वाले, तुल्य स्वभाव वाले जीवेश्वर दोनों एक शरीर वृक्ष का आश्रयण करते हैं, उनमें से एक जीव स्वादु कर्म फल को भोगता है । एक ईश्वर भोगे बिना सही रूप से प्रकाशता है । इस श्रुति में भी अध्यात्म प्रकरण होने से सुपर्ण पद से सुन्दर पाँख वाले प्राकृत ( लोक प्रसिद्ध ) साधारण पक्षी नहीं कहे जाते हैं । किन्तु उनमें एक स्वादु पिप्पल खाता है । इस अदन ( भोग ) रूप लिंग से विज्ञानात्मा सिद्ध होता है । भोगे बिना प्रकाशता है । यहाँ अनशन ( भोगाभाव ) और चेतनत्व से परमात्मा सिद्ध होता है । द्वासुपर्णा, के अनन्तर पठित मन्त्र में वे ही जीव और परमात्मा द्रष्टा और द्रष्टव्य भावरूप विशेषण युक्त कहे गये हैं । इन्हीं को द्रष्टृत्व द्रष्टव्यत्व विशेषण युक्त श्रुति कहती है कि समान एक देह वृक्ष में देहभिमानादि से आसक्त जीवात्मा रूप पुरुष अनीशता के कारण मोहित होता हुआ शोचता है सन्तप्त होता है । और जब योगादि द्वारा जुष्ट ( सेवित ) अन्य ईश्वर को अपरोक्ष करता है, और सब जगत् को उसके महिमा रूप देखता है तब उसको प्राप्त हो कर शोक रहित हो जाता है इत्यादि ।

अपर आह—‘द्वा सुपर्णा’ इति नेयमृगस्याधिकरणस्य सिद्धान्तं भजते, पैङ्गिरहस्यत्राह्नणेनान्यथा व्याख्यातत्वात् । ‘तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ती’ति सत्त्वम्, ‘अनशनन्नन्योऽभिचाकशीतीति, अनशनन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञः, तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ’ इति । सत्त्वशब्दो जीवः क्षेत्रज्ञशब्दः परमात्मेति यदुच्यते । तन्न । सत्त्वक्षेत्रज्ञशब्दयोरन्तःकरणशारीरपरतया प्रसिद्धत्वात् । तत्रैव च व्याख्यातत्वात्—‘तदेतत्सत्त्वं येन स्वप्नं पश्यति, अथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञस्तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ’ इति । नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजते । नह्यत्र शारीरः क्षेत्रज्ञः कर्तृत्वभोक्तृत्वादिना संसारधर्मेणोपेतो विवक्ष्यते । कथं तर्हि सर्वसंसारधर्मातीतो ( १ ) ब्रह्मस्वभावश्चैतन्यमात्रस्वरूपः ‘अनशन-न्योऽभिचाकशीति, अनशनन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञः’ इति वचनात् । ‘तत्त्वमसि’ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ ( गी० १३।२ ) इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च । तावता च विद्योपसंहारदर्शनमेवमेवावकल्प्यते, ‘तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ, न ह वा एवंविदि

किञ्चन रज आध्वंसते' इत्यादि । कथं पुनरस्मिन्पक्षे 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तीति सत्त्वम्' इत्यचेतने सत्त्वे भोक्तृत्ववचनमिति । उच्यते । नेथं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामीति प्रवृत्ता किं तर्हि ? चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याभोक्तृत्वं ब्रह्मस्वभावता च वक्ष्यामीति । तदर्थं सुखादिविक्रियावति सत्त्वे भोक्तृत्वमध्यारोपयति । इदं हि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च सत्त्वक्षेत्रज्ञयोरितरे-तरस्वभावाविवेककृत कल्प्यते । परमार्थतस्तु नान्यतरस्यापि सम्भवति, अचेतनत्वात्सत्त्वस्य, अविक्रियत्वाच्च क्षेत्रज्ञस्य, अविद्याप्रत्युपस्थापितस्वभाव-त्वाच्च सत्त्वस्य सुतरां न सम्भवति । तथाच श्रुतिः—'यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्' इत्यादिना स्वप्नदृष्टहस्त्यादिव्यवहारवद्विद्याविषय एव कर्तृत्वादिव्यवहारं दर्शयति । 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्' (बृ० ४।१।१५) इत्यादिना च विवेकिनः कर्तृत्वादिव्यवहाराभावं दर्शयति ॥१०॥

अन्य कोई कहते हैं कि ( द्वासुपर्णा ) यह ऋग् इस अधिकरण के सिद्धान्त को नहीं भजती ( कहती ) है । क्योंकि 'पैङ्गिरहस्य' ब्राह्मण से इसका अन्य रीति से व्याख्यान किया गया है । कहा गया है कि ( तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति ) यहाँ भोक्ता सत्त्व है और अनश्ननन्योऽभिचाकशीति ) इससे कहा गया है कि भोगे बिना अन्य देखता है, सो ज्ञ ( ज्ञाता ) है । और ये दोनों सत्त्व और क्षेत्रज्ञ है । सत्त्व शब्द का अर्थ जीव और क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा जो कहते हैं वह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सत्त्व क्षेत्रज्ञ शब्द को अन्त करण और शारीरपरता प्रसिद्ध है । जिस अन्त करण शारीर अर्थ में ही पैङ्गिरहस्य में ये दोनों शब्द व्याख्यात हैं ( जो यह सत्त्व है, जिससे स्वप्न देखता है और जो यह शारीर उपद्रष्टा है वह क्षेत्रज्ञ है, यही दो सत्त्व क्षेत्रज्ञ हैं ) और इसी प्रकार यह ऋक् इस अधिकरण के पूर्वपक्ष को भी नहीं भजती है । क्योंकि यहाँ कर्तृत्वभोक्तृत्वादि ससार धर्म से युक्त शरीर क्षेत्रज्ञ विवक्षित नहीं है । फिर कैसा विवक्षित है कि सब सासारिक धर्म से रहित असङ्गतादि ब्रह्म के स्वभाव-वाला चैतन्यमात्र स्वरूप विवक्षित है, क्योंकि बिना भोगे प्रकाशता है, बिना भोगे देखता है । इस प्रकार का वचन है । वही सत्यात्मा तू है, ( मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो ) इत्यादि श्रुति स्मृति से भी उक्तार्थ की सिद्धि होती है और तावता ( मन्त्र के व्याख्यान मात्र से ही ) विद्या का उपसंहार दर्शन इस प्रकार जीव की ब्रह्मता उक्ति से ही सगत हो सकती है । उपसंहार वचन है कि ( ये दोनों सत्त्व और क्षेत्रज्ञ है ) इस प्रकार जानने वाले में अविद्या रूप रज कुछ भी विध्वंस को नहीं प्राप्त करा सकता है, विद्वान् में अविद्या का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता है । शंका होती है कि इस पक्ष में ( उन दोनों में से एक स्वादु पिप्पल खाता है, और वह सत्त्व है ) इस प्रकार अचेतन सत्त्व में भोक्तृता कथन कैसे बन सकता है । यहाँ उत्तर कहा जाता है कि यह श्रुति, अचेतन सत्त्व को भोक्तृत्व कहूँगा, इस आशय से नहीं प्रवृत्त हुई है, तो किस आशय से प्रवृत्त हुई कि चेतन क्षेत्रज्ञ को अभोक्तृता और ब्रह्म स्वभावता

कहूँगा ? इस आशय से प्रवृत्त हुई है। इसलिये सुखादि विकार वाले सत्त्व में भोक्तृता का आध्यारोप करती है। और यह कर्तृत्व भोक्तृत्व भी सत्त्व और क्षेत्रज्ञ के परस्पर स्वभावों के अविवेककृत सिद्ध होता है। परमार्थ से तो सत्त्व क्षेत्रज्ञ में एक को भी कर्तृत्व भोक्तृत्व का सम्भव नहीं है, क्योंकि सत्त्व में अचेतनता है और क्षेत्रज्ञ को निर्विकारता है। सत्त्व को अविद्याजन्य स्वभाव वाला होने से उसमें कर्तृत्वादि का अत्यन्त असम्भव है। अतः श्रुति कहती है कि (जिस अज्ञान काल में चैतन्य भिन्न के समान रहता है, उस काल में अन्य द्रष्टा अन्य दृश्य को देखता है) इत्यादि कथनों से स्वप्न से दृष्ट हस्ती आदि व्यवहार के समान अविद्या विषय (काल) में ही कर्तृत्वादि व्यवहार को श्रुति दर्शाती है, और (जिस काल में इस ज्ञानी को सब आत्मा ही हो गया उस काल में किससे किसको देखे) इत्यादि से विवेकी के कर्तृत्वादि व्यवहारों के अभाव को दर्शाती है ॥ १२ ॥

### अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥

‘य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ यहाँ सशय होता है कि यह नेत्र में दृश्य पुरुष छाया है, या जीव है, वा देव है, या ईश्वर है ? पूर्व पक्ष है कि आधार और दृश्यता के कथन से ईश्वर से अन्य तीन में से कोई हो सकता है। सिद्धान्त है कि जो प्रथम सुखस्वरूप विभु ब्रह्म कहा गया है वही वामनीत्वादि गुण युक्त नेत्र में उपासना का विषय है अन्य नहीं, क्योंकि अन्य में अमृतत्वादि सम्भव नहीं है ॥ १-२ ॥

### अन्तरधिकरण ॥ ४ ॥

छायाजीवौ देवतेशौ वाऽसौ ओऽक्षिणि दृश्यते ।  
आधारदृश्यतौक्त्येशादन्येषु त्रिषु कश्चन ॥  
क खं ब्रह्म यदुक्तं प्राग् तदेवाक्षिण्युपासते ।  
वामनीत्वादिनाऽन्येषु नामृतत्वादिसम्भवः ॥

सक्षिप्तार्थ है कि (चक्षुषि दृश्यत्वेनोपदिष्टोऽन्तर. पुरुष परमात्मैव, तत्रोक्तानां गुणानां परमात्मन्येवोपपत्तेरिति) नेत्र में दृश्यत्वरूप से उपदिष्ट अन्तरात्मा रूप पुरुष परमात्मा ही है, क्योंकि वहाँ कहे गये धर्मों की सिद्धि परमात्मा में ही हो सकती है।

‘य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्-ब्रह्मेति, तद्यद्यप्यस्मिन्सर्विर्वोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति’ (छा० ४।१।१) इत्यादि श्रूयते। तत्र संशयः—किमयं प्रतिबिम्बात्माद्यधिकरणो निर्दिश्यतेऽथवा विज्ञानात्मा उत देवतात्मेन्द्रियस्याधिष्ठाताऽथवेश्वर इति। किं तावत्प्राप्तम् ? छायात्मा पुरुषप्रतिरूप इति। कुत. ? तस्य दृश्यमानत्व-प्रसिद्धेः। ‘य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ इति च प्रसिद्धवदुपदेशात्। विज्ञानात्मनो वाऽयं निर्देश इति युक्तम्। स हि चक्षुषा रूपं पश्यंश्चक्षुषि

सन्निहितो भवति, आत्मशब्दश्चास्मिन्पक्षेऽनुकूलो भवति । आदित्यपुरुषो वा चक्षुषोऽनुग्राहकः प्रतीयते, रश्मिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः' (बृ० ५।१२) इति श्रुतेः । अमृतत्वादीनां च देवतात्मन्यपि कथंचित्संभवात् । नेश्वरः, स्थान-विशेषनिर्देशादित्येवं प्राप्ते ब्रूमः ।

उपकोसल नामक शिष्य के प्रति जावाल नाम के गुरु ने कहा कि ( जो यह आँख में पुरुष दीखता है यह आत्मा है और यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्मा है, और इस आत्मा का जो नेत्र रूप स्थान है उसमें यदि घृत वा जल कोई सींचता है, तो वह घृत वा जल नेत्र में नहीं टिकता है किन्तु वर्तों ( पक्ष्मों ) पलकों में ही चला जाता है ) इत्यादि सुना जाता है । यहाँ संशय होता है कि यह नेत्र रूप अधिकरण वाला प्रतिबिम्ब स्वरूप कहा जाता है, अथवा विज्ञानात्मा जीव कहा जाता है, या इन्द्रिय का अधिष्ठाता देवतात्मा कहा जाता है अथवा ईश्वर कहा जाता है । प्रात क्या होता है ? ऐसा प्रश्न होने पर पूर्व पक्ष होता है कि पुरुष का प्रतिबिम्बरूप छायात्मा निर्दिष्ट है, और उसमें अमृतत्वादि ध्यान के लिए कल्पित मात्र है सत्य नहीं । छायात्मा ही क्यों है जिससे उसको दृश्यमानत्व प्रसिद्ध है, और मनुष्य दूसरे के नेत्र में अपने शरीर के प्रतिबिम्ब को देख सकता है । ( यह आँख में जो पुरुष दीखता है ) इस प्रकार प्रसिद्ध के समान उपदेश है, इससे छायात्मा उपास्य है । अथवा इस पक्ष में अमृतत्वादि को अत्यन्त कल्पित होने से विज्ञानात्मा का यह कथन है ऐसा मानना उचित है । यद्यपि विज्ञानात्मा सम्पूर्ण शरीर में रहता है वा विशेष रूप से उसका हृदय स्थान है, तथापि वह चक्षु से रूप को देखते समय चक्षु में विशेषरूप से सन्निहित ( प्राप्त ) होता है, और श्रुति कथित आत्म शब्द भी इस पक्ष में अनुकूल होता है । अथवा नेत्र के सहायक आदित्य पुरुष यहाँ प्रतीत होता है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ( यह सूर्य किरणों द्वारा नेत्र में स्थिर है ) देवतात्मा में भी कल्पान्त तक स्थिति से किसी प्रकार अमृतत्वादि का सम्भव है । स्थान विशेष के कथन से यहाँ ईश्वर नहीं प्रतीत होता है । इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि—

परमेश्वर एवाक्षिप्यभ्यन्तरः पुरुष इहोपदिष्ट इति कस्मात् ? उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमेश्वरे गुणजातमिहोपदिश्यमानम् । आत्मत्वं तावन्मुख्यथा वृत्त्या परमेश्वर उपपद्यते 'स आत्मा तत्त्वमसि' इति श्रुतेः । अमृतत्वाभयत्वे च तस्मिन्नसकृच्छ्रुतौ श्रूयते । तथा परमेश्वरानुरूपमेतदक्षिस्थानम् । यथाहि परमेश्वरः सर्वदोषैरलिप्तः, अपहृतपाप्मत्वादिश्रवणात् तथाक्षिस्थानं सर्वलोपरहितमुपदिष्टम्, 'तद्यद्यस्मिन्सर्विबोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति' इति श्रुतेः । संयद्रामत्वादिगुणोपदेशश्च तस्मिन्नवकल्पते । 'एतं संयद्राम इत्याचक्षते एतं हि सर्वाणि वामान्यमिसंयन्ति, एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि

वामानि नयति' 'एव उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति' (छा० ४.११२,३,४) इति च अत उपपत्तेरन्तरं परमेश्वर' ॥ १३ ॥

नेत्र के अर्ध्यान्तर निर्दिष्ट ( कथित ) पुरुष परमेश्वर ही हैं' क्योंकि उसी की उपपत्ति ( सिद्ध ) होती है । जिससे यहाँ उपदिष्ट गुण समूह परमेश्वर मे ही सिद्ध होते है । और ( वह आत्मा है, तुम आत्म स्वरूप हो ) इस श्रुति से आत्म शब्द भी मुख्य वृत्ति से परमेश्वर मे ही सघटित सिद्ध होता है । एव अमृतत्व-अभयत्व उस परमेश्वर मे अनेको वार श्रुति मे सुने जाते हैं । इसी प्रकार परमेश्वर के योग्य यह नेत्र रूप स्थान है । क्योंकि पापादि से अलिप्ततादि के सुनने से जैसे परमेश्वर सब दोषो से अलिप्त असग है, वैसा ही नेत्र रूप स्थान सब लेप से रहित उपदिष्ट ( कथित ) है कि ( यदि इस आँख मे घृत वा जल सींचता है, तो वह वर्त्म मे चला जाता है ) और सयद्बामत्वादि<sup>१</sup> गुणो का उपदेश भी उस परमात्मा मे ही सघटित होता है । श्रुति कहती है कि ( इस नेत्र गत पुरुष को सयद्बाम कहते हैं, क्योंकि इसी परमात्मा के निमित्त कारण रूप से प्राप्त करके सब प्राणी के वाम ( शोभन कर्म फल पुण्य ) उत्पन्न और प्राप्त होते हैं । इससे यह परमात्मा ही वामनी ( कर्मफलदाता-शोभनपुण्यादि को प्राप्त कराने वाला ) है । क्योंकि यही सब वामो ( कर्म फलो ) को प्राप्त कराता है । यही भामनी ( प्रकाश का प्रापक ) है । क्योंकि यही सब लोको मे प्रकाशता है । इस प्रकार श्रुत्यर्थ के ईश्वर मे सघटित सिद्ध होने से यहाँ अन्तरात्मा परमेश्वर है ॥ १३ ॥

### स्थानादिच्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥

कथं पुनराकाशवत्सर्वगतस्य ब्रह्मणोऽद्यल्पस्थानमुपपद्यत इति । अत्रोच्यते-भवेदेषाऽनवक्लृप्तिः यद्येतदेवैकं स्थानमस्य निर्दिष्ट भवेत् । सन्ति ह्यन्यान्यपि पृथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि-‘यः पृथिव्या तिष्ठन्’ ( बृ० ३।७।३ ) इत्यादिना । तेषु हि चक्षुरपि निर्दिष्टम्-‘यश्चक्षुषि तिष्ठन्’ इति । ‘स्थानादिच्यपदेशात्’ इत्यादिग्रहणेनैतद्दर्शयति-न केवलं स्थानमेवैकमनुचितं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं दृश्यते, किं तर्हि ? नामरूपमित्येवंजातीयकमप्यनामरूपस्य ब्रह्मणोऽनुचितं निर्दिश्यमानं दृश्यते-‘तस्योदिति नाम’ ‘हिरण्यश्मश्रुः’ ( छा० १।६।७।१६ ) इत्यादि । निर्गुणमाप सद्ब्रह्म नामरूपगतैर्गुणैः सगुणमुपासनार्थं तत्र यत्रोपदिश्यत इत्येतदप्युक्तमेव । सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषो न विरुध्यते, शालग्राम इव विष्णोरित्येतदप्युक्तमेव ॥ १४ ॥

पूर्वोक्तार्थं मे चका होती है कि आकाश तुल्य सर्वगत ब्रह्म का नेत्ररूप अल्प स्थान कैसे सिद्ध हो सकता है ? यहाँ कहा जाता है कि यह असिद्धि अयुक्तता तब

१ सयन्ति-समुत्पद्यन्ते, वामानि शोभनानि फलानि यतः स सयद्बाम इति ।

होती, कि यदि यह एक ही स्थान इस ब्रह्म का निर्दिष्ट ( कथित ) होता । ऐसी बात है नहीं, क्योंकि अन्य भी पृथिवी आदि स्थान इसके निर्दिष्ट है । जैसे लिखा है कि ( वह पृथिवी मे रहता हुआ पृथिवी का नियन्ता है ) इत्यादि । और उन पृथिवी आदिको मे चक्षु भी निर्दिष्ट है कि ( जो चक्षु मे रहता हुआ चक्षु का नियन्ता है ) और ( स्थानादि व्यपदेशात् ) इसमे आदि शब्द का ग्रहण से वह दशति हैं कि ब्रह्म का केवल एक अनुचित स्थान ही कहा गया नहीं दीखता है, किन्तु इस प्रकार के नाम रूप रहित ब्रह्म के अनुचित नाम और रूप के कथन भी दीखते हैं कि ( उसका उद् यह नाम है ) और ( वह हिरण्यमय दाढी वाला है ) इत्यादि । भाव यह है कि वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म का नाम रूप मे स्थिर गुरागे के द्वारा उपासना के लिए तत्तत् स्थानो मे सगुण उपदेश दिया जाता है, यह पहले भी कहा ही गया है । और सर्वगत ब्रह्म का भी ज्ञान उपासना के लिये स्थान विशेष विषय नहीं होता है, जैसे विष्णु की उपासना के लिए शालग्राम विरुद्ध नहीं होता है । यह भी पहले कहा जा चुका है ॥ १४ ॥

### सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५ ॥

अपिच नैवात्र विवदितव्यम्—कि ब्रह्मास्मिन्वाक्येऽभिधीयते न वेति । सुखविशिष्टाभिधानादेव ब्रह्मत्वं सिद्धम् । सुखविशिष्टं हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे प्रक्रान्तं 'प्राणो ब्रह्म क ब्रह्म खं ब्रह्म' इति, तदेवेहाभिहित, प्रकृतपरिग्रहस्य न्याय्यत्वात् । 'आचार्यस्तु ते गति वक्ता' ( छा० ४।१।४।१ ) इति च गति-मात्राभिधानप्रतिज्ञानात् । कथं पुनर्वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्म विज्ञायत इति । उच्यते—'प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म' इत्येतदग्नीनां वचनं श्रुत्वोपकोसल उवाच—'विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न विजानामि' इति । तत्रेदं प्रतिवचनम्—'यद्वाच कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्' ( छा० ४।१।०।५ ) इति । तत्र खशब्दो भूताकाशे निरूढो लोके । यदि तस्य विशेषणत्वेन कशब्दः सुखवाची नोपादीयेत, तथा सति केवले भूताकाशे ब्रह्मशब्दो नामादिष्विव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात् । तथा कशब्दस्य विषयेन्द्रिय-संपर्कजनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्, यदि तस्य खशब्दो विशेषणत्वेन नोपादीयेत, लौकिकं सुखं ब्रह्मेति प्रतीतिः स्यात् । इतरेतरविशेषितौ तु कख-शब्दौ सुखात्मकं ब्रह्म गमयतः । तत्र द्वितीये ब्रह्मशब्देऽनुपादीयमाने कं खं ब्रह्मेत्येवोच्यमाने कशब्दस्य विशेषणत्वेनैवोपयुक्तत्वासुखस्य गुणस्याध्येयत्वं स्यात्, तन्मा भूदित्युभयोः कंखंशब्दयोर्ब्रह्मशब्दशिरस्त्वं 'क ब्रह्म खं ब्रह्म' इति । इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवद्ध्येयत्वम् । तदेव वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्मोपदिष्टम् । प्रत्येकं च गार्हपत्यादयोऽग्नयः स्वं स्वं महिमानमुपदिश्य 'एपा सोम्य तेऽस्माद्विद्यात्मविद्या च' इत्युपसहरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टमिति ज्ञापयन्ति । 'आचार्यस्तु ते गति वक्ता' इति च गतिमात्राभिधान-

प्रतिज्ञानमर्थान्तरविवक्षां वारयति । 'यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते' ( छा० ४।१।४।३ ) इति चाक्षिस्थानं पुरुष विज्ञानतः पापेनानुपघातं ब्रुवन्नक्षिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्शयति । तस्मात्प्रकृतस्यैव ब्रह्मणोऽक्षिस्थानतां संयद्ब्रामत्वादिगुणतां चोक्त्वाचिरादिकां तद्विदो गति वक्ष्यामीत्युपक्रमते—'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत् एष आत्मेति होवाच' ( छा० ४।१।४।१ ) इति ॥ १५ ॥

यहाँ इस वाक्य में ब्रह्म कहा जाता है या नहीं कहा जाता है ? इस प्रकार के विवाद यहाँ नहीं करने चाहिये । क्योंकि सुख विशिष्ट का कथन से ही ब्रह्मत्व सिद्ध-निश्चित है । सुखविशिष्ट ही जो ब्रह्मवाक्य के आरम्भ में निरूपण के लिए प्रस्तुत हुआ है कि ( प्राण ब्रह्म है क सुख ब्रह्म ख विभु ब्रह्म है ) वही ब्रह्म यहाँ नेत्र में कहा गया है, क्योंकि प्रकृत का ग्रहण न्याय्य ( उचित ) होता है । एव उपकोशल की सेवा से प्रसन्न अग्नि देव ने ( प्राणो ब्रह्म ) इत्यादि रीति से ब्रह्म का उपदेश करके ( तेरा आचार्य गति-मार्ग कहेगा ) इस प्रकार गति मात्र के कथन की प्रतिज्ञा किया है । इससे विशेषत आचार्य को गति मात्र वक्तव्य है । अन्य उपदेश तो अग्नि के ब्रह्म स्वरूप उपदेश का अनुवाद मात्र है । ऐसा नहीं मानने पर प्रतिज्ञादि से विरोध होगा । यदि कहो कि वाक्य के उपक्रम में सुख विशिष्ट ब्रह्म कैसे समझा जाता है, तो कहा जाता है कि ( प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है ) इस अग्नि के वचन को सुनकर उपकोशल ने कहा कि ( सूत्रात्मारूप प्राण को ब्रह्म जानता हूँ, परन्तु तुच्छ विषयसुख और जड आकाश को तो ब्रह्म नहीं जानता हूँ ) इस सशय में अग्नि का प्रतिवचन है कि ( जो ही क है वही ख है और जो ख है वही क है ) यहाँ तात्पर्य यह है कि लोक में ख शब्द भूताकाश में निरूढ है ( भूतरूप आकाश का वाचक रूप से निश्चित है ) यदि उस खं का विशेषण रूप से सुख वाचक क शब्द का ग्रहण नहीं होता, तो ऐसी प्रतीति होती कि केवल भूताकाश में प्रतीक के अभिप्राय से ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कि नाम मन आदि में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है । इसी प्रकार के शब्द को विषय एवं इन्द्रियों के सम्बन्ध से जन्य सदोष सोपद्रव विनश्वर सुखार्थ में प्रसिद्ध होने से यदि उसका विशेषण रूप से खं शब्द का ग्रहण नहीं किया जाता तो लौकिक सुख ब्रह्म है ऐसी प्रतीति होती और परस्पर पूर्वरीति से विशेषितार्थक क ख शब्द तो अनित्य सुख तथा भूताकाश से भिन्न नित्य सुखात्मक विभु ब्रह्म का बोध कराते हैं । यदि कहा जाय कि सुख स्वरूप ब्रह्म का बोध के लिये तो ( क ख ब्रह्म ) इतने ही को जरूरत है, दूसरा ब्रह्म शब्द का श्रुति में क्यों ग्रहण किया गया है, तो कहा जाता है कि वहाँ दूसरे ब्रह्म शब्द के नहीं ग्रहण करने पर और ( कं ख ब्रह्म ) इतना ही कहने पर क शब्द खं का विशेषण रूप से उपयोगी ( सफल ) होगा, ख का विशेषण होकर उसको भूताकाश

से व्यावृत्त करेगा, इससे विशेषण रूप में उपयुक्त होने से सुख गुण होगा और खं प्रधान होगा, इसी से गुण रूप सुख ध्येय नहीं होगा, उसमें ध्यानाविषयता की प्राप्ति होगी, वह न हो इसलिए क खं दोनों शब्दों को ब्रह्म शिरवाला ( कं ब्रह्म ख ब्रह्म ) ऐसा किया गया है। यद्यपि ऐसा करने पर भी सुख ब्रह्म का गुण ( विशेषण है ) तथापि विशिष्ट ब्रह्म के ध्यान में गुणी ब्रह्म के समान गुण रूप सुख को भी ध्येयत्व इष्ट है। और ( क ख ब्रह्म ) कहने पर ख गुणविशिष्ट ब्रह्म ध्येय होगा विशेषण रूप से खं भी ध्येय होगा परन्तु ख का विशेषण क विशेषण का विशेषण हो जाने से ध्येय नहीं होगा। इसलिये सुख विशिष्ट विभुता विशिष्ट ब्रह्म वाक्य के उपक्रम में इस प्रकार उपदिष्ट है। और प्रत्येक गार्हपत्यादि अग्निषो ने अपनी २ महिमाओं का उपदेश करके ( हे सोम्य ! तेरे लिये ये हमारी विद्या और आत्मविद्या कही गई हैं ) इस प्रकार उपसंहार करती हुई समझाती हैं कि प्रथम ब्रह्म का निर्देश किया गया है। और ( आचार्य तेरा गति कहेगा ) इस प्रकार गतिमात्र के कथन का जो प्रतिज्ञान है, वह अर्थान्तर की विवक्षा का वारण करता है। एव ( जैसे कमल के पत्र में जल लित नहीं होता है, वैसे ही इस प्रकार जानने वाले में पाप कर्म )। इस प्रकार नेत्रस्थ पुरुष को जानने वाले को पाप से पीडा हिंसा के अभाव को कहता हुआ आचार्य अक्षिस्थ पुरुष को ब्रह्मत्व दर्शाता है। जिससे सिद्ध होता है कि प्रकृत ब्रह्म की ही अक्षिस्थानता और सद्यद्ब्रह्मत्वादिगुणता को कहकर और उसको जानने वालों की अर्चि आदि गति ( मार्ग ) कहूँगा इस आशय से वक्ता आरम्भ करता है कि ( जो यह आँख में पुरुष देखता है वह आत्मा है ऐसा कहा ) इत्यादि ॥ १५ ॥

### श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥ १६ ॥

इतश्चाक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः, यस्माच्छ्रुतोपनिषत्कस्य श्रुतरहस्य-  
विज्ञानस्य ब्रह्मविदो या गतिर्देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतौ—‘अथोत्तरेण तपसा  
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्त एतद्वै प्राणानामा-  
यतनमेतद्मृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्ते’ ( प्रश्न० १।१० ) इति ।  
स्मृतावपि—

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ ( गी० ८।२४ ) इति ।

सैवेहाक्षिपुरुषविदोऽभिधीयमाना दृश्यते । ‘अथ यदु चैवास्मिञ्छठ्यं कुर्वन्ति  
याद् च नार्चिषमेवाभिसम्भवन्ति’ इत्युपक्रम्य ‘आदित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो  
विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रति-  
पद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते’ ( छा० ४।१५।५ ) इति । तदिह ब्रह्म-  
विद्विषयया प्रसिद्धया गत्याक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्व निश्चीयते ॥ १६ ॥



इस वक्ष्यमाण हेतु से भी अक्षिस्थानवाला पुरुष परमेश्वर है, क्योंकि जिसने उपनिषदों को सुना है और श्रवण पूर्वक रहस्यमय उपासनाओं का अनुष्ठान (आचरण) किया है, उस सगुण ब्रह्मोपासक ज्ञानी को श्रुतोपनिषत्क कहा गया है, उस श्रुतोपनिषत्क उपासना रहस्य (मर्म) के ज्ञानी सगुण ब्रह्म वेत्ता की जो देवयान नामक गति (मार्ग) श्रुति में प्रसिद्ध है कि (तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या से आत्मा का अन्वेषण ध्यान चिन्तन उपासना करके अर्थ (मृत्यु के बाद) उत्तर मार्ग से सूर्य लोक में प्राप्ति पूर्वक सगुण ब्रह्म स्थान को उपासक प्राप्त करते हैं) यह ब्रह्म प्राणों का आश्रय है यह अमृत है यह अभय है, यही परमगति है, अर्थात् सगुण ब्रह्म निर्गुण स्वरूप ही है उसकी सत्ता एक है, ज्ञानपूर्वक उसको प्राप्त करके उससे फिर संसार में नहीं आता है। स्मृति में भी कहा है कि (अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण छः मास के अभिमानी देवों से युक्त मार्ग में मर कर प्राप्त होने वाले ब्रह्मोपासक जन ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं) इस पूर्व कही रीति से श्रुतोपनिषत्क उपासक की जो गति कही गयी है, वही गति यहाँ अक्षिस्थ पुरुष के ज्ञानी को अभिधीयमान (कही हुई) देखी जाती है कि (इस प्रकार के उपासक के मरने पर यदि अन्य लोग उसके शव (मृत शरीर) सम्बन्धी कर्म करते हैं वा नहीं करते हैं, परन्तु वह मर कर अर्चि को प्राप्त करता है। इस प्रकार आरम्भ करके लिखा है कि (आदित्य से चन्द्रमा को चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होते हैं) तब अमानव पुरुष ब्रह्मलोक से आकर उन्हें ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म लोक में ले जाता है, यही देव मार्ग है, इसी को ब्रह्म पथ कहते हैं, इस मार्ग में ब्रह्मलोक में प्राप्त पुरुष इस मानव संसार जन्ममरणों आदि आवृत्ति में नहीं प्राप्त होते हैं, इत्यादि। अतः यहाँ ब्रह्मविद् विषयक प्रसिद्ध गति से अक्षिस्थानवाला पुरुष के ब्रह्मत्व का निश्चय किया जाता है ॥१६॥

### अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १७ ॥

यत्पुनरुक्तम्—छायात्मा विज्ञानात्मा देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान—इति । अत्रोच्यते—न छायात्मादिरितर इह ग्रहणमर्हति । कस्मात् ? अनवस्थितेः । न तावच्छायात्मनश्चक्षुषि नित्यमवस्थानं सम्भवति । यदैव हि कश्चित्पुरुषश्चक्षुरासीदति तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया दृश्यते, अपगते तस्मिन्न दृश्यते । ‘य एषोऽक्षिणि पुरुषः’ इति च श्रुतिः संनिधानात्स्वचक्षुषि दृश्यमानं पुरुषमुपास्यत्वेनोपदिशति । नचोपासनाकाले छायाकरं कश्चित्पुरुषं चक्षुःसमीपे संनिधाप्योपास्त इति युक्तं कल्पयितुम् । ‘अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति’ (छा० ८।११) इति श्रुतिश्छायात्मनोऽप्यनवस्थितत्वं दर्शयति । असम्भवाच्च तस्मिन्नमृतत्वादीनां गुणानां न छायात्मनि प्रतीतिः ।

जो यह कहा था कि छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा वा आँख में स्थान वाले हैं। यहाँ कहा जाता है कि छायात्मादि कोई भी ब्रह्म से इतर (भिन्न) यहाँ ग्रहण

के योग्य नहीं हो सकता है। क्योंकि इन सबकी अक्षि में अनवस्थिति है अर्थात्—सदा स्थिति का अभाव है। प्रथम तो छायात्मा की नेत्र में नित्य स्थिति का सम्भव नहीं है, क्योंकि जब ही कोई पुरुष आँख के पास में आता है तभी आँख में पुरुष की छाया दीखती है, उस पुरुष के चले जाने पर छाया नहीं दीखती है, और ( जो यह आँख में पुरुष दीखता है ) ऐसा कहने वाली श्रुति सन्निधान ( समीपता ) के कारण अपने नेत्र में दृश्यमान ( दीख पडने वाले ) पुरुष को उपास्य रूप से उपदेश करती है। और उपासक पुरुष उपासना काल में अपने नेत्र में छाया को सिद्ध करने वाले किसी पुरुष को नेत्र के समीप में उपस्थित करके उपासना करता है यह कल्पना करने योग्य नहीं है। क्योंकि ( इस शरीर के नाश के बाद छायात्मा नष्ट होता है ) इस प्रकार श्रुति भी छायात्मा को अनवस्थितत्व दर्शाती है, और उस छायात्मा में अमृतत्वादि गुणों का असम्भव है, इससे ( एषोऽक्षिणि ) यहाँ छायात्मा की प्रतीति नहीं होती है।

तथा विज्ञानात्मनोऽपि साधारणे कृत्स्नशरीरेन्द्रियसम्बन्धे सति चक्षुष्ये-  
वावस्थितत्वं वक्तुं न शक्यम् । ब्रह्मणस्तु व्यापिनोऽपि दृष्ट उपलब्ध्यर्थो हृदया-  
दिदेशविशेषसम्बन्धः । समानश्च विज्ञानात्मन्यप्यमृतत्वादीनां गुणानाम-  
सम्बन्धः । यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽनन्य एव, तथाप्यविद्याकामकर्मकृतं  
तस्मिन्मर्त्यत्वमध्यारोपितं भय चेत्यमृतत्वाभयत्वे नोपपद्येते । संयद्वा मत्वाद्य-  
श्चैतस्मिन्ननैश्वर्यादनुपपन्ना एव । देवतात्मनस्तु 'रश्मिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः'  
इति श्रुतेर्यद्यपि चक्षुष्यवस्थान स्यात्तथाप्यात्मन्वं तावन्न सम्भवति, परा-  
ग्रूपत्वात् । अमृतत्वादयोऽपि न सम्भवन्ति, उत्पत्तिप्रलयश्रवणात् । अमरत्वमपि  
देवानां चिरकालावस्थानापेक्षम् । ऐश्वर्यमपि परमेश्वरायत्तं न स्वाभाविकम् ।

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः ।

भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥

( तै० २।८ ) इति मन्त्रवर्णात् । तस्मात्परमेश्वर एवायमक्षिस्थानः प्रत्येतद्व्यः ।  
अस्मिञ्च पक्षे दृश्यत इति प्रसिद्धवदुपादानं शास्त्राद्यपक्षं विद्वद्विषयं प्ररोचनार्थ-  
मिति व्याख्येयम् ॥ १७ ॥

इसी प्रकार विज्ञानात्मा के भी सपूर्ण शरीर और इन्द्रियों के साथ साधारण  
( समान-तुल्य ) सम्बन्ध रहते चक्षु में ही अवस्थितत्व कहना योग्य नहीं है। एवं  
ब्रह्म को व्यापक होने पर भी ज्ञानोपासना के लिए हृदयादि देश विशेष का सम्बन्ध  
श्रुति में वर्णित देखा गया है। छायात्मा के समान ही विज्ञानात्मा में अमृत-  
त्वादि गुणों का असम्बन्ध है। यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मा से अनन्य ( अभिन्न )  
ही है, इससे अमृतत्व अभयत्व भी होना चाहिये तथापि अविद्या और काम जन्म  
मर्त्यता ( मरण शीलता ) उस विज्ञानात्मा में अध्यारोपित है, और भय भी अध्यारोपित  
है। जिससे अमृतत्व और अभयत्व दोनों सिद्ध नहीं हो सकते हैं। और अनीश्वरता

( ऐश्वर्य का अभाव ) से संयद्ब्रामत्वादि गुण भी इस विज्ञानात्मा मे अनुपपन्न (असिद्ध) ही हैं । ( यह आदित्य किरणों द्वारा नेत्र मे प्राप्त है ) इस श्रुति की उक्ति के अनुसार यद्यपि देवतात्मा की चक्षु मे स्थिति है, तथापि देवता को भी पहले तो आत्मत्व का सम्भव नहीं है, क्योंकि पराग ( बाह्य ) अनात्म रूपता है । और उत्पत्ति प्रलय के सुनने मे अमृतत्वादि का भी देवतात्मा मे सम्भव नहीं है । देवताओं को अमरत्व भी अन्य प्राणी की अपेक्षा से चिरकाल तक स्थिति की अपेक्षा ( दृष्टि ) से है । और देवताओं के ऐश्वर्य ( विभूति ) भी ईश्वराधीन है स्वाभाविक नहीं, क्योंकि वेदमन्त्र कहता है कि ( इस ईश्वर से भय के कारण वायु चलता है, सूर्य उदित होता है, और अग्नि तथा इन्द्र भय के कारण अपने २ कार्य करते है, और पञ्चम मृत्यु भय के कारण गतायु के पास जाता है । अतः यह अक्षिस्थ पुरुष परमेश्वर ही है, ऐसा समझना चाहिये । इस पक्ष मे 'दृश्यते' दीखता है, इस प्रकार प्रसिद्ध ज्ञात के समान जो ग्रहण ( कथन ) है, वह शास्त्रादि की अपेक्षा से है । अर्थात् ( प्रतिबोध विदितं मतम् केन० २।४ ) इस श्रुति के अनुसार यहाँ चक्षु शब्द सब इन्द्रिय जन्य बुद्धि वृत्ति का बोधक है और सब बुद्धि वृत्ति मे बुद्धि वृत्तियों के साक्षिरूप से ब्रह्म ही प्रकाशता है । इस प्रकार समझने वाले को ही ब्रह्म ज्ञात अनुभूत होता है, इस ऐसे विद्वान् का अनुभव विषयक यह ग्रहण है, और अज्ञ प्राणी के प्रति प्ररोचनार्थक ( रुचि उत्पादनार्थक ) यह उपदेश है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिये ॥ १७ ॥

### अन्तर्याम्यधिकरण ॥ ५ ॥

प्रधानं जीव ईशो वा कोऽन्तर्यामी जगत्प्रति ।

कारणत्वात्प्रधानं स्याज्जीवो वा कर्मणो मुखात् ॥ १ ॥

जीवैकत्वामृतत्वादेरन्तर्यामी परमेश्वरः ।

द्रष्टृत्वादेर्न प्रधानं न जीवोऽपि नियम्यतः ॥ २ ॥

जगत् के प्रति श्रुत अन्तर्यामी कौन है ? प्रधान है, या जीव है, या ईश्वर है ? ऐसा संदेह होने पर पूर्वपक्ष है कि जगत् का कारण होने से प्रधान अन्तर्यामी हो सकता है । अथवा कर्म द्वारा जीव हो सकता है ॥ १ ॥ सिद्धान्त है कि ( एषत् आत्मान्तर्याम्यमृतः ) इस श्रुति मे जीव के साथ अभेद श्रुति और अमृतत्वादि के श्रवण से परमात्मा अन्तर्यामी है, द्रष्टृत्वादि के श्रवण से प्रधान नहीं है । तथा नियम्य ( नियमन का विषय ) होने से नियन्ता अन्तर्यामी जीव भी नहीं है ॥ २ ॥

### अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ १८ ॥

सक्षिप्तार्थ है कि ( अधिदैवादिषु योऽन्तर्यामी श्रूयते स परमात्मैव नान्यः । तस्य परमात्मनो धर्माणा व्यपदेशादिति ) अधिदैवादिवादिषु मे जो अन्तर्यामी सुना जाता है सो परमात्मा ही है, अन्य नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा के धर्मों का कथन है ।

‘य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति’ इत्युपक्रम्य श्रूयते—‘यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः’ ( बृ० ३।१।१, २ ) इत्यादि । अत्राधिदैवतमधिलोकमधिचेदमधियज्ञमधिभूतमध्यात्मं च कश्चिदन्तरवस्थितो यमयितान्तर्यामीति श्रूयते । स किमधिदैवाद्यभिमानी देवतात्मा कश्चित्किवा प्राप्ताणिमाद्यैश्वर्यः कश्चिद्योगी किवा परमात्मा किवार्थान्तरं किञ्चिदित्यपूर्वसंज्ञादर्शनात्संशयः । किं तावन्नः प्रतिभाति, संज्ञाया अप्रसिद्धत्वात्संज्ञिनाऽप्यप्रसिद्धेनार्थान्तरेण केनचिद्भूतव्यमिति । अथवा नानिरूपितरूपमर्थान्तरं शक्यमस्त्यभ्युपगन्तुम् । अन्तर्यामिशब्दान्तर्यमनयोमेन प्रवृत्तो नात्यन्तमप्रसिद्धः । तस्मात्पृथिव्याद्यभिमानी कश्चिद्देवोऽन्तर्यामी स्यात् । तथाच श्रूयते—‘पृथिव्येव यस्यायतनमग्निलोको मनो ज्योतिः’ ( बृ० ३।६।१० ) इत्यादि । स च कार्यकरणवत्त्वात्पृथिव्यादीनन्तस्तिष्ठन्न्यमयतीति युक्तं देवतात्मनो यमयितृत्वम् । योगिनो वा कस्यचित्सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन यमयितृत्व स्यात्, नतु परमात्मा प्रतीयेत, अकार्यकरणत्वादिति ।

( जो मनुष्यादि के स्थान रूप इस लोक का तथा देवादि के स्थान रूप इस लोक का नियन्त्रण करता है, तथा जो सब भूतों के अन्तरात्मा होता हुआ सब भूतों का नियन्त्रण अनुशासन करता है । उसको क्या जानते हो ? ) इस प्रकार आरम्भ करके सुना जाता है कि ( जो पृथिवी में रहता हुआ पृथ्वी का अन्तरात्मा है, जिसको पृथिवी नहीं जानती है, जिसका पृथिवी शरीर है, जो पृथिवी का अन्तरात्मा होकर पृथिवी का नियन्ता है, वही अमृत अन्तर्यामी तेरा आत्मा है ) इत्यादि । इस अन्तर्यामी ब्राह्मण ग्रन्थ में अधिदेव ( पृथिवी आदि देव में वर्तमान ) तथा इसी प्रकार लोकादि में वर्तमान, अधिलोक, अधिवेद, अधियज्ञ, अधिभूत, अध्यात्म स्वरूप और सब के अन्तर में स्थित कोई सर्व नियन्ता रूप अन्तर्यामी सुना जाता है, जहाँ अपूर्व संज्ञा ( नाम ) के देखने से संशय होता है कि वह अधिदैवादि के अभिमानी कोई देवतात्मा है, अथवा अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त किया हुआ कोई योगी है, अथवा परमात्मा है, अथवा इन सब से भिन्न कोई आन्तर विलक्षण पदार्थ है । प्रथम हमको क्या प्रतीत होता है कि संज्ञा के अप्रसिद्ध होने से संज्ञा भी कोई अप्रसिद्ध अर्थान्तर होना चाहिये । अथवा अनुरूपित ( अप्रसिद्ध ) रूप वाला पदार्थान्तर है ? ऐसा मानना नहीं बन सकता है । और अन्तर्यामी शब्द अन्तर में नियमन रूप अवयवार्थ द्वारा प्रवृत्त हुआ है इससे अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं है । जिससे पृथिवी आदि के अभिमानी कोई देव अन्तर्यामी होगा । इस पक्ष के अनुसार ही सुना जाता है कि ( इस देव का पृथिवी ही आयतन ( शरीर ) है । और अग्निलोक ( नेत्र ) है, सर्वार्थ प्रकाशक ज्योतिर्मन है इत्यादि । वह देव शरीर और इन्द्रिय वाला होने के कारण पृथिवी आदि

के अन्तर में रहता हुआ उनका नियमन करता है। इससे देवतात्मा को नियन्तृत्व होना युक्त है। अथवा किसी सिद्ध योगी को सब में अनुप्रवेष्ट द्वारा नियन्तृता हो सकती है। परमात्मा नियन्ता रूप नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि वह शरीरेन्द्रियादि साधन रहित है।

एवं प्राप्ते इदमुच्यते—योऽन्तर्याम्यधिदैवादिषु श्रूयते स परमात्मैव स्यान्नान्य इति। कुतः ? तद्धर्मव्यपदेशात्। तस्य हि परमात्मनो धर्मा इह निर्दिश्यमाना दृश्यन्ते। पृथिव्यादि तावदधिदैवादिभेदभिन्नं समस्तं विकारजातमन्तस्तिष्ठन्प्रयमयतीति परमात्मनो यमयितृत्वं धर्म उपपद्यते। सर्वविकारकारणत्वे सति सर्वशक्त्युपपत्तेः। 'एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः' इति चात्मात्वामृतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपद्येते। 'यं पृथिवी न वेद' इति च पृथिवीदेवताया अविज्ञेयमन्तर्यामिणं ब्रुवन्देवतात्मनोऽन्यमन्तर्यामिणं दर्शयति। 'पृथिवी देवता ह्यहमस्मि पृथिवीत्यात्मानं विजानीयात्'। तथा 'अदृष्टोऽश्रुत' इत्यादिव्यपदेशो रूपादिविहीनत्वात्परमात्मन उपपद्यत इति। यत्तु—अकार्यकरणस्य परमात्मनो यमयितृत्वं नोपपद्यते—इति। नैष दोषः। यान्निचच्छति तन्कार्यकरणैरेव तस्य कार्यकरणवन्वोपपत्तेः। तस्याप्यन्यो नियन्तेत्यनवस्थादोषश्च न संभवति, भेदाभावात्। भेदे हि सत्यनवस्थादोषोपपत्तिः। तस्मात्परमात्मैवान्तर्यामी।

इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर यह कहा जाता है कि अधिदैवादि में जो अन्तर्यामी सुना जाता है वह परमात्मा ही हो सकता है अन्य नहीं, क्योंकि परमात्मा के ही धर्मों का वहाँ कथन है। साक्षात् उसी के धर्म कहे गये यहाँ देखे जाते हैं। प्रसिद्ध पृथिवी आदि अधिदैवतादि भेद से भिन्न (भेदयुक्त) समस्त विकार समूह के अन्तर में रह कर नियमन करता है, इस कथन से परमात्मा का ही नियन्तृत्व धर्म सिद्ध होता है। क्योंकि परमात्मा को ही सब विकारों के कारण होते हुए सर्वशक्तिमत्त्व की उपपत्ति (सिद्ध) है। और (यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है) इसमें वर्णित आत्मत्व और अमृतत्व मुख्यरूप से परमात्मा में ही सिद्ध होते हैं। और (जिसको पृथिवी नहीं जानती है) इस प्रकार पृथिवी देवता से अविज्ञेय अन्तर्यामी को कहता हुआ वक्ता देवतात्मा से अन्य अन्तर्यामी को दर्शाता है। क्योंकि पृथिवी रूप जो देवता है, वह तो मैं पृथिवी हूँ, इस प्रकार अपने को जान सकता है। इसी प्रकार (अदृष्ट—अश्रुत) इत्यादि कथन भी परमात्मा को रूपादि रहित होने से सगत होता है। और जो यह कहा था कि शरीरेन्द्रिय रहित परमात्मा को नियन्तृत्व नहीं बन सकता, वह दोष नहीं है, क्योंकि परमात्मा जिनका नियन्त्रण करता है उनके ही शरीर और इन्द्रियों से शरीरेन्द्रियवाला हो जाता है, इससे उसको कार्य करवावत्ता की सिद्धि है। जैसे देहादि के नियन्ता जीव का ईश्वर नियन्ता है। इसी प्रकार उस ईश्वर का भी अन्य नियन्ता होगा तब अनवस्था दोष होगा। वह दोष भी

नही हो सकता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा मे सत्यभेद का अभाव है, इससे नियन्ता रूप से जो जीव प्रसिद्ध है, वह परमात्मा ही है, ऐसा उपाधि का वारण द्वारा उपदेश है । यदि सत्यभेद हो तो अनवस्था दोष की सिद्धि हो । इससे सर्वात्मा परमात्मा ही अन्तर्यामी है यह सिद्ध हुआ ॥ १८ ॥

### न च स्मार्तमतद्धर्माभिलापात् ॥ १९ ॥

सक्षिप्तार्थ है कि ( स्मार्त साख्यादिस्मृतिषु प्रायः प्रसिद्ध प्रधानं तु न अन्तर्यामी शब्दार्थः । प्रधानभिन्नचेतनधर्माणामभिलापादिति । यद्यपि ( धर्मशास्त्र तु वै स्मृतिः ) इति मनुवचनानुसारेण धर्मशास्त्राणामेव स्मृतिशब्दार्थत्व विद्यते, तथाप्यत्र दर्शने गीता-पुराणदर्शनादीनामपि स्मृतिशब्दार्थत्वमुपलभ्यते—इति ध्येयम् ) साख्यादि स्मृतियो मे अधिक प्रसिद्ध प्रधान तो यहाँ अन्तर्यामी शब्द का अर्थ है नहीं, क्योंकि ( न तद्व अतद्-तस्य धर्माः—अतद्धर्मा—तेषामभिलापात् ) जो प्रधान नहीं है, जड़ प्रधान से भिन्न चेतन है उसके धर्मों का कथन है और धर्मशास्त्र को स्मृति कहा जाता है इस मनु वचन के अनुसार धर्मशास्त्र ही स्मृति शब्द का अर्थ है । तथापि वेदान्त दर्शन मे गीता पुराण इतिहास दर्शन को भी स्मृति शब्दार्थता उपलब्ध होती है, इसे ध्यान मे रखना चाहिये, इसमे कारण है कि इन सभी मे परापरधर्म का शासन है । इस से सब धर्मशास्त्र कह सकते हैं, और वैशेषिक दर्शन का तो प्रथम सूत्र ही है कि—( अथातो धर्म व्याख्यास्यामः ) इत्यादि । पूर्व भीमासा मे धर्म का व्याख्यान है ही । साख्ययोग भी विवेकादि रूप धर्मों का पूर्ण व्याख्यान करते हैं । इत्यादि ।

स्यादेतत् । अदृष्टत्वादयो धर्माः सांख्यस्मृतिकल्पितस्य प्रधानस्याप्युप-पद्यन्ते, रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात् । 'अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिद्र-सर्वतः' ( मनु० १।५ ) इति हि स्मरन्ति । तस्यापि नियन्तृत्वं सर्वविकारकार-णत्वादुपपद्यते । तस्मात्प्रधानमन्तर्यामिशब्दं स्यात् । 'ईक्षतेर्नाशब्दम्' ( ब्र० १।१।५ ) इत्यत्र निराकृतमपि सत्प्रधानमिहादृष्टत्वादिव्यपदेशसंभवेन पुनराशङ्क्यते ।

यहाँ शका होती है कि यह पूर्वोक्त कथन हो सकता है, परन्तु अदृष्टत्वादिधर्म साख्य-स्मृति से कल्पित स्वतन्त्र प्रधान के भी सिद्ध हो सकते है, केवल परमात्मा के ही हो सके यह बात नहीं है, क्योंकि रूपादिरहित स्वरूप से उन लोगो ने उस प्रधान को माना है ( प्रधान तर्क का अविषय है, रूपादि रहित होने से अविज्ञेय है, और जड़ से सर्वत्र प्रसुप्त के समान होने से व्याप्त है ) इस प्रकार स्मृति कहती है । सब विकारो के कारण होने से अपने कार्यों के प्रति उसको भी नियन्तता बन सकती है । जिससे प्रधान अन्तर्यामी शब्द का अर्थ हो सकता है । यद्यपि ( ईक्षतेर्नाशब्दम् ) यहाँ प्रधान निराकृत हो चुका है, तथापि यहाँ अदृष्टादिव्यवहार के सम्भव से फिर प्रधान की शका होती है ।

अत उत्तरमुच्यते—नच स्मार्तं प्रधानमन्तर्यामिशब्दं भवितुमर्हति । कस्मान् ? अतद्धर्माभिलापात् । यद्यप्यदृष्टत्वादिद्वयपदेशः प्रधानस्य संभवति तथापि न द्रष्टृत्वादिद्वयपदेशः संभवति, प्रधानस्याचेतनत्वेन तैरभ्युपगमात् । ‘अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमृतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता’ ( बृह० ३।७।२३ ) इति हि वाक्यशेष इह भवति । आत्मत्वमपि न प्रधानस्योपपद्यते ॥ १६ ॥

अतः उत्तर कहा जाता है कि प्रधान अन्तर्यामी शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है, क्यों कि प्रधान से भिन्न धर्मों का कथन है । यद्यपि अदृष्टत्वादि का व्यवहार ( कथन ) प्रधान को भी सम्भव है, तथापि दृष्टत्वादि का व्यवहार सम्भव नहीं है, क्यों कि प्रधान को अचेतन रूप से उन लोगो ने माना है । और ( अदृष्ट होते द्रष्टा है, अश्रुत होते श्रोता है, अमृत होते मन्ता है, अविज्ञात होते विज्ञाता है ) इस प्रकार यहाँ वाक्य शेष है । एवं प्रधान को आत्मत्व भी नहीं युक्त हो सकता है ॥ १९ ॥

यदि प्रधानमात्मत्वद्रष्टृत्वाद्यसंभवान्नान्तर्याम्यभ्युपगम्यते, शारीरस्तर्ह्यन्तर्यामी भवतु । शारीरो हि चेतनत्वाद्द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता च भवति, आत्मा च प्रत्यक्त्वात् । अमृतश्च, धर्माधर्मफलोपभोगोपपत्तेः । अदृष्टत्वादयश्च धर्माः शारीरे प्रसिद्धाः, दर्शनादिक्रियायाः कर्तारि प्रवृत्तिविरोधात् । ‘न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येः’ ( बृ० ३।४।२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । तस्य च कार्यकरणसंघातमन्तर्यामितुं शीलं, भोक्तृत्वात् । तस्माच्छारीरोऽन्तर्यामीति । अत उत्तरं पठति—

फिर शका होती है कि आत्मत्व दृष्टृत्वादि के असम्भव होने से यदि प्रधान को अन्तर्यामी नहीं माना जाता है, तो शरीरी जीवात्मा ही अन्तर्यामी हो । क्योंकि चेतन होने से जीवात्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता होता है । और प्रत्यक् ( अन्तर ) होने से आत्मा भी है । धर्माधर्म के फलो के उपभोग की उपपत्ति ( सिद्धि ) से अमृत ( अविनाशी ) है । अन्यथा शरीर के समान यदि जीव का नाश हो तो धर्मादि के फलों को कौन भोगेगा । जीवात्मा मे अदृष्टत्वादि धर्म भी प्रसिद्ध है । क्योंकि दर्शन क्रिया की कर्ता मे प्रवृत्ति का विरोध है । अर्थात् दर्शनकर्ता अपने आप उस दर्शन का विषय नहीं होता है, क्योंकि एक मे कर्तुं कर्मभाव विरुद्ध है । इसलिये अर्थ ( दृष्टि के द्रष्टा को न देखो अर्थात्—नहीं देख सकते हो ) इत्यादि श्रुत्यर्थ सिद्ध होता है । एव उस जीव को कार्यकरण शरीरेन्द्रिय के अन्दर स्थिति पूर्वक उनका नियन्त्रण करने का स्वभाव है, क्योंकि वह भोक्ता है । यहाँ शका होती है कि शरीरादि के नियन्त्रण के बिना भोग नहीं हो सकता है । अतः शरीरात्मा अन्तर्यामी है । इस शंका का उत्तर सूत्रकार भगवान् व्यास इस प्रकार देते है कि—

**शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ २० ॥**

नेति पूर्वसूत्रादनुवर्तते । शारीरश्च नान्तर्यामीष्यते । कस्मान् ? यद्यपि दृष्टत्वादयो धर्मास्तस्य सम्भवन्ति तथापि घटाकाशवदुपाधिपरिच्छिन्नत्वाच्च

कात्स्न्येन पृथिव्यादिष्वन्तरवस्थातुं नियन्तुं च शक्नोति । अपि चोभयेऽपि हि शाखिनः काण्वा माध्यन्दिनाश्चान्तर्यामिणो भेदेनैनं शारीरं पृथिव्यादिवदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते—‘यो विज्ञाने तिष्ठन्’ ( बृ० ३।७।२२ ) इति काण्वाः । ‘य आत्मनि तिष्ठन्’ इति माध्यन्दिनाः । ‘य आत्मनि तिष्ठन्’ इत्यस्मिन्स्तावत्पाठे भवत्यात्मशब्दः शारीरस्य वाचकः । ‘यो विज्ञाने तिष्ठन्’ इत्यस्मिन्नपि पाठे विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि शारीरः । तस्माच्छारीरादन्य ईश्वरोऽन्तर्यामीति सिद्धम् ।

इस सूत्र मे पूर्वसूत्र से ‘न’ इस पद की अनुवृत्ति ( आगमन ) होती है । जिससे सूत्रार्थ यह होता है कि शरीर-जीवात्मा अन्तर्यामी रूप से इष्ट मन्तव्य नहीं है । यद्यपि द्रष्टृत्वादि धर्म उसके सम्भव हैं, तथापि घटाकाश के समान उपाधि से परिच्छिन्न ( परिमित ) होने से पृथिवी आदि मे पूर्णरूप से स्थिति के लिये और उनका नियन्त्रण करने के लिये वह समर्थ नहीं हो सकता है । दूसरी बात यह है कि कारण और माध्यन्दिन शाखा वाले दोनो ही अन्तर्यामी से भेदपूर्वक इस शरीर को पृथिवी आदि के समान अन्तर्यामी के अधिष्ठान ( आश्रय ) रूप से और नियम्य रूपसे पढते हैं । अर्थात् अन्तर्यामी के नियन्त्रण के अधीन जीव को कहते हैं ( जो विज्ञान मे रहता हुआ ) इस प्रकार कारण शाखा वाले कहते हैं । एव ( जो आत्मा मे रहता हुआ ) इस प्रकार माध्यन्दिन शाखा वाले पढते हैं । ( यो विज्ञाने तिष्ठन् ) इस पाठ मे तो प्रत्यक्ष आत्म शब्द शारीर का वाचक प्रसिद्ध है ( य आत्मनि तिष्ठन् ) इस पाठ मे भी विज्ञान शब्द से शारीर कहा जाता है, क्योंकि जीव विज्ञानमय ही है । यद्यपि बुद्धि को ही विज्ञान कहा जाता है तथापि बुद्धिरूप उपाधिवाला होने से जीव भी विज्ञान शब्द से कहा जाता है । जिससे शारीर जीव से भिन्न ईश्वर अन्तर्यामी है यह सिद्ध हुआ ।

कथं पुनरेकस्मिन्देहे द्वौ द्रष्टारवुपपद्येते, यश्चायमीश्वरोऽन्तर्यामी यश्चायमितरः शारीरः । का पुनरिहानुपपत्तिः । ‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ इत्यादि श्रुतिवचनं विरुध्येत । अत्र हि प्रकृतादन्तर्यामिणोऽन्यं द्रष्टारं, श्रोतारं मन्तारं विज्ञातारं चात्मानं प्रतिषेधति । नियन्त्रन्तरप्रतिषेधार्थमेतद्वचनमिति चेत् ? न । नियन्त्रन्तराप्रसङ्गाद्विशेषश्रवणाच्च ।

यहाँ फिर भी शका होनी है कि एक देह मे अन्तर्यामी = ईश्वर और शारीर = जीव ये दो द्रष्टा कैसे उपपन्न ( युक्त ) हो सकते है ? यदि कहा जाय कि यहाँ अनुपत्ति ( अयुक्तता दोष ) क्या है, तो उसका उत्तर है कि ( इस अन्तर्यामी से अन्य द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि श्रुति वचन विरुद्ध होंगे । क्योंकि इस श्रुति वचन मे प्रकृत अन्तर्यामी से अन्य द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता आत्मा का यह वचन निषेध करता है । यदि कहा जाय कि यह वचन द्रष्टा आदि रूप जीवात्मा के निषेध के लिये नहीं है, किन्तु दूसरे नियन्ता के प्रतिषेध के लिये है, तो यह कहना



ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे नियन्ता का यहाँ प्रसंग नहीं है, निषेध का अविशेष ( समान ) रूप से श्रवण होता है, इससे अन्तर्यामी भिन्न द्रष्टा मात्र का निषेध है ।

अत्रोच्यते—अविद्याप्रत्युपस्थापितकार्यकरणोपाधिनिमित्तोऽयं शारीरान्त-  
र्यामिर्णोर्भेदव्यपदेशो न पारमार्थिकः । एको हि प्रत्यगात्मा भवति, न द्वौ  
प्रत्यगात्मानौ सम्भवतः । एकस्यैव तु भेदव्यवहार उपाधिकृतो यथा घटाकाशो  
महाकाश इति । ततश्च ज्ञातृज्ञेयादिभेदश्रुतयः प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि  
संसारानुभवो विधिप्रतिषेधशास्त्रं चेति सर्वमेतदुपपद्यते । तथाच श्रुतिः—‘यत्र  
हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’ इत्यविद्याविषये सर्वं व्यवहारं  
दर्शयति । ‘यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्’ इति विद्याविषये सर्वं  
व्यवहारं वारयति ॥ २० ॥

यहाँ उत्तर कहा जाता है कि अविद्याजन्य कार्यकरणरूप उपाधिनिमित्तक यह  
जीव और अन्तर्यामी के भेद का व्यवहार होता है, पारमार्थिक ( सत्य ) व्यवहार  
नहीं है । प्रत्यगात्मा एक ही होता है, दो प्रत्यगात्मा ( अन्तरात्मा ) हो नहीं सकता  
है, और एक का उपाधिकृत भेद का व्यवहार होता है, जैसे घटाकाश महाकाश यह  
औपाधिक भेद का व्यवहार होता है । उस औपाधिक भेद से ज्ञाता, ज्ञेयादि के  
भेद विषयक श्रुतियों, और प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण, ससार का अनुभव, और  
विधि-प्रतिषेध रूप शास्त्र ये सब उपपन्न ( सिद्ध ) होते हैं । वैसे ही श्रुति कहती है कि  
( जिस अविद्या काल में द्वैत के समान रहता है, उस काल में इतर द्रष्टा इतर दृश्य  
को देखता है ) इस प्रकार अविद्या काल में सब व्यवहार को दर्शाती है । और  
( जिस काल में इस ज्ञानी को सब आत्मा ही हो गया उस काल में किससे किसको  
देखेगा ) यह श्रुति विद्या काल में सब व्यवहार का वारण करती है ॥ २० ॥

### अदृश्यत्वाधिकरण ॥ ६ ॥

भूतयोनिः प्रधानं वा जीवो वा यदि वेश्वरः ? ।

आद्यौ पक्षानुपादाननिमित्तस्याभिधानतः ॥

ईश्वरो भूतयोनिः स्यात्सर्वज्ञत्वादिर्कीर्तनात् ।

दिव्याद्युक्तेर्न जीवः स्यान्न प्रधानं भिदोक्तितः ॥

( यत्तद्रेष्य ) इत्यादि श्रुतियो में अदृश्यतादि गुणवाला भूतो का योनिरूप जो  
पदार्थ कहा गया है, वह प्रधान है, या जीव है, या परमात्मा है, ऐसा संशय होने  
पर पूर्व पक्ष है कि भूत योनि में प्रथम के दोनो पक्ष हो सकते हैं, अर्थात् प्रधान और  
जीव भूतयोनि कह सकते हैं । ‘माया तु प्रकृतिं विद्धि’ इत्यादि श्रुति मायारूप प्रकृति  
को उपादान रूप से कथन करती है, और जीव कर्म द्वारा निमित्त कारण हैं ।  
यहाँ कारणमात्र का योनि शब्द बोधक है इत्यादि । सिद्धान्त है कि सर्वज्ञता आदि धर्मों

के कथन से भूत योनि ईश्वर ही हो सकता है, दिव्यता आदि गुणों के कथन से जीव नहीं हो सकता है, तथा ( अक्षरात् परतः परः ) इस श्रुति में अपने कार्यों से पर अक्षर ( प्रधान ) से भूतयोनि को पर कहा गया है । इससे भेद की उक्ति ( कथन ) से प्रधान भूतयोनि नहीं हो सकता है इत्यादि ॥ १-२ ॥

### अदृश्यत्वादिगुणको धर्मात्तेः ॥ २१ ॥

‘अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते’, ‘यत्तदद्रेश्यमप्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः-  
श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति  
धोराः’ ( मुण्ड० १।१।५, ६ ) इति श्रूयते । तत्र संशयः—किमयमद्रेश्यत्वादि-  
गुणको भूतयोनिः प्रधानं स्यादुत शारीर आहोस्वित्परमेश्वर इति । तत्र  
प्रधानमचेतनं भूतयोनिरिति युक्तम्, अचेतनानामेव तस्य दृष्टान्तत्वेनोपादानात् ।

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥

( मुण्ड० १।१।७ ) इति । ननूर्णनाभिः पुरुषश्च चेतनाविह दृष्टान्तत्वेनोपात्तौ ।  
नेति ब्रूमः । नहि केवलस्य चेतनस्य तत्र सूत्रयोनित्वं केशलोमयोनित्वं  
चास्ति । चेतनाधिष्ठितं ह्यचेतनमूर्णनाभिशरीरं सूत्रस्य योनिः, पुरुषशरीरं च  
केशलोमामिति प्रसिद्धम् । अपि च पूर्वत्रादृष्टत्वाद्यभिलापसम्भवेऽपि द्रष्टृत्वा-  
द्यभिलापासंभवान्न प्रधानमभ्युपगतम् । इह त्वदृश्यत्वादयो धर्माः प्रधाने  
संभवन्ति । नचात्र विरुध्यमानो धर्मः कश्चिदभिलप्यते । ननु ‘यः सर्वज्ञः  
सर्ववित्’ ( मुण्ड० १।१।६ ) इत्ययं वाक्यशेषोऽचेतने प्रधाने न सम्भवति,  
कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति । अत्रोच्यते—‘यथा तदक्षरमधिगम्यते’  
‘यत्तदद्रेश्यम्’ इत्यक्षरशब्देनादृश्यत्वादिगुणकं भूतयोनिं श्रावयित्वा पुनरन्ते  
श्रावयिष्यति—‘अक्षरात्परतः परः’ ( मुण्ड० २।१।२ ) इति । तत्र यः परोऽक्षरा-  
च्छ्रुतः स सर्वज्ञः सर्ववित्संभविष्यति । प्रधानमेव त्वक्षरशब्दनिदिष्टं भूतयोनिः ।  
यदा तु योनिशब्दे निमित्तवाची तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात्, धर्मा-  
धर्माभ्यां भूतजातस्योपार्जनादिति ।

अपरा विद्या के बाद पराविद्या उसे समझना चाहिये कि जिस विद्या से उस अक्षर  
( अविनाशी ) को प्राप्त किया जाता है । ( जो वह अक्षर है वह ज्ञानेन्द्रियो से  
अदृश्य है, कर्मेन्द्रियो से अग्राह्य है, गोत्रवर्ण रहित है, चक्षु और श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियो  
से रहित है, पाणि पादादि कर्मेन्द्रियो से रहित है, नित्य है, विभु ( प्रभु ) है, सर्वगत  
और अत्यन्त सूक्ष्म है, वह अव्यय ( निविकार अपक्षय रहित ) है, जिसको धीर  
( विद्वान् ) स्नेह ‘भूतयोनि’ जानते हैं, उसी की विद्या परविद्या है ऐस पुना ब्रह्मा  
है । यहाँ संशय होता है कि क्या यह अदृश्यत्वादि गुणवाला भूतयोनि प्रधान हो सकता

है, या जीव अथवा परमेश्वर । यहाँ पूर्व पक्ष है कि प्रधान अचेतन है, वही भूत योनि है ऐसा मानना युक्तियुक्त है, क्योंकि उस भूतयोनि का दृष्टान्त रूप से श्रुति में अचेतनो का ही ग्रहण किया गया है । ( जैसे मकड़ी तन्तुओं की सृष्टि सर्जन करती है, और फिर उनका ग्रहण उपसंहार करती है ) और जैसे भूमि में औषधियाँ होती हैं, जैसे जीवित पुरुष से केश लोम होते हैं, इसी प्रकार इस सर्ग काल में अक्षर से विश्व होता है । यहाँ अचेतन दृष्टान्त दिये गये हैं । यदि कहा जाय कि चेतन रूप मकड़ी और पुरुष दृष्टान्त रूप से गृहीत हैं, पृथिमात्र जड़ दृष्टान्त है, तो हम कहते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मकड़ी और पुरुष में केवल चेतन को सूत्र ( तन्तु ) योनित्व वा केशलोमयोनित्व नहीं है । केवल चेतन से कहीं भी तन्तु वा केशलोमादि नहीं होते हैं । किन्तु चेतन से अधिष्ठित ( आश्रित ) अचेतन मकड़ी का शरीर तन्तु का योनि ( कारण ) है, और चेतन से अधिष्ठित पुरुष का शरीर केश लोमादि का कारण है, यह लोक में प्रसिद्ध है । दूसरी बात है कि पूर्वाधिकरण में वर्णित अदृष्टत्वादि की उक्ति का प्रधान में सम्भव होते भी द्रष्टृत्वादि उक्ति के असम्भव से वहाँ प्रधान का स्वीकार नहीं किया गया है । यहाँ तो अदृश्यत्वादि धर्मों का प्रधान में सम्भव है, कोई भी यहाँ प्रधान का विरोधी धर्म नहीं कहा जाता है । यदि कहा जाय कि ( जो सबको सामान्य रूप से जानने वाला सर्वज्ञ, और विशेष रूप से जानने वाला सर्वविद् है ) इस शाक्य शेष ( अंग ) का अचेतन प्रधान में सम्भव नहीं है, इससे विरोध है, तो फिर यहाँ भूतयोनि प्रधान है, यह प्रतिज्ञा कैसे की गई है वा कैसे प्रतिज्ञा की जा सकती है ? तो यहाँ कहा जाता है कि (जिस विद्या से अक्षर को प्राप्त किया जाता है ) ( जो अक्षर अदृश्य है ) इस प्रकार अक्षर शब्द से अदृश्यत्वादि गुण वाले भूतयोनि को सुना कर फिर अन्त में सुनाया जायगा कि ( वह पर अक्षर से भी पर है ) वहाँ जो अक्षर से पर सुना गया है, वह सर्वज्ञ और सर्ववित् सिद्ध सम्भव होगा, और प्रधान ही अक्षर शब्द कथित भूतयोनि है । जब योनि शब्द निमित्त वाचक हो, तो जीव भी भूत योनि हो सकता है, क्योंकि धर्माऽधर्म द्वारा जीव भूत-समूह का उपार्जन ( प्राप्ति-सृष्टि ) करता है ।

एवं प्राप्तेऽभिधीयते—योऽयमदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः स परमेश्वर एव स्यान्नान्य इति । कथमेतद्वगम्यते ? धर्मोक्तेः । परमेश्वरस्य हि धर्म इहोच्यमानो दृश्यते—‘यः सर्वज्ञः सर्ववित्’ इति । नहि प्रधानस्याचेतनस्य शरीरस्य ब्रोपाधिपरिच्छिन्नदृष्टेः सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं वा संभवति ।

नन्वक्षरशब्दनिर्दिष्टाद्भूतयोनेः परस्यैव तत्सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं च न भूतयोनिविषयमित्युक्तम् । अत्रोच्यते—नैवं संभवति । यत्कारणं ‘अक्षरात्संभवतीह विश्वम्’ इति प्रकृतं भूतयोनिमिह जायमानप्रकृतित्वेन निर्दिश्यानन्तरमपि जायमानप्रकृतित्वेनैव सर्वज्ञं निर्दिशति—

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ इति ॥

तस्मान्निर्देशसाम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्प्रकृतस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेः सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं च धर्म उच्यते इति गम्यते । 'अक्षरात्परतः परः' इत्यत्रापि न प्रकृताद्भूतयोनेरक्षरात्परः कश्चिदभिधीयते । कथमेतद्वगम्यते ? 'येनाक्षरं पुरुष वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्' ( मुण्ड० १।२।१३ ) इति प्रकृत्य तस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेरदृश्यत्वादिगुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात् । कथं तर्हि 'अक्षरात्परतः परः' इति व्यपदिश्यत इति ? उत्तरसूत्रे तद्व्यासः । अपि चात्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते—'परा चैवापरा च' इति । तत्रापराऽमृगवेदादि-लक्षणां विद्यामुक्त्वा ब्रवीति—'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते' इत्यादि । तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रुतम् । यदि पुनः परमेश्वरादन्यददृश्य-त्वादिगुणकमक्षरं परिकल्प्येत नेयं परा विद्या स्यात् । परापरविभागो ह्ययं विद्ययोरभ्युदयनिःश्रेयसफलतया परिकल्प्यते । नच प्रधानविद्या निःश्रेयस-फला केनचिदभ्युपगम्यते । तिस्रश्च विद्याः प्रतिज्ञायेरन्, त्वत्पक्षेऽक्षराद्भूत-योनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात् । द्वे एव तु विद्ये वेदितव्ये इह निर्दिष्टे, 'कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' ( मु० १।१।३ ) इति चैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणेऽवकल्प्यते, नाचेतनमात्रैकायतने प्रधाने, भोग्यव्यतिरिक्ते वा भोक्तरि । अपिच 'स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठासथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह' ( मुण्ड० १।१।१ ) इति ब्रह्मविद्यां प्राधान्येनोपक्रम्य परापरविभागेन परां विद्यामक्षराधिगमनीं दर्शय-स्तस्या ब्रह्मविद्यात्वं दर्शयति । सा च ब्रह्मविद्यासमाख्या तदधिगम्यस्याक्षर-स्या ब्रह्मत्वे बाधिता स्यात् । अपरर्गवेदादिलक्षणा कर्मविद्या ब्रह्मविद्योपक्रम उपन्यस्यते ब्रह्मविद्याप्रशंसायै—

पूवा ह्येते अहदा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥

( मुण्ड० १।२।७ ) इत्येवमादिनिन्दावचनात् । निन्दित्वा चापरां विद्यां ततो विरक्तस्य परविद्याधिकारं दर्शयति—

ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि जो यह अदृश्यत्वादि गुणवाला भूतयोनि है वह परमात्मा ही हो सकता है, अन्य नहीं हो सकता । यदि कहो कि यह कैसे समझा जाता है ? तो कहा जाता है कि परमात्मा के धर्मों की उक्ति ( कथन ) से यह परमात्मा समझा जाता है । यहाँ परमेश्वर का ही कहा जाता हुआ धर्म दीखता है, कि ( जो सर्वज्ञ और सर्ववित् है ) अचेतन प्रधान को वा उपाधि से परिच्छिन्न दृष्टिवाले जीव को, सर्वज्ञत्व वा सर्ववित्त्व नहीं सम्भव है । यदि कहो कि अक्षर शब्द

से कथित भूतयोनि से पर का सर्वज्ञत्व और सर्ववित्त्व धर्म है। इससे सर्वज्ञत्वादि का कथन भूतयोनि विषयक नहीं है, यह पहले कहा गया है। अब कहा जाता है कि इस प्रकार व्यवस्था होना यहाँ सम्भव नहीं है। जिस कारण से ( यहाँ अक्षर से विश्व होता है ) इस प्रकार भूतयोनि को उत्पन्न होने वाले जगत् के प्रकृति ( उपादान ) रूप से कथन करके उसके अनन्तर भी उत्पद्यमान के प्रकृति रूप से ही श्रुति कथन करती है कि जो सर्वज्ञ, सर्वविद् है, जिसके ज्ञानमय तप है, उससे यह कार्य ब्रह्म नामरूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। जिससे निर्देश ( कथन ) की तुल्यता से वही यह है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा के विषय होने के कारण प्रकृत भूतयोनि का ही सर्वज्ञत्व सर्ववैतृत्व धर्म कहा जाता है, ऐसी प्रतीति होती है। और ( पर अक्षर से भी पर है ) यहाँ भी प्रकृत भूतयोनि रूप अक्षर से पर कोई पदार्थ नहीं कहा जाता है। यदि कहो कि यह कैसे समझा जाता है, तो कहा जाता है कि ( जिस ज्ञान से अक्षर भूतयोनि सत्यपुरुष को शिष्य जाने उस ब्रह्मविद्या को शिष्य के लिये आचार्य यथार्थ रूप से कहे ) इस प्रकार प्रारम्भ करके उसी अदृश्यत्वादि गुण वाले भूतयोनि रूप अक्षर की वक्तव्य रूप से प्रतिज्ञा की गई है। इससे समझा जाता है कि भूतयोनि अक्षर से पर कोई अन्य नहीं है। यदि कहो कि ऐसा होने पर ( अक्षरात्परतः परः ) यह कैसे कहा गया है ? तो इसका विवरण-विचार आगे के सूत्र में किया जायगा। यहाँ यह भी सम्झना चाहिये कि श्रुति में दो विद्याये जानने योग्य कही गई हैं, जिनमें एक परा और एक अपरा नाम वाली है। उनमें ऋग्वेदादिरूप अपरा विद्या को कहकर आचार्य कहता है कि ( अपरा के बाद परा है कि जिससे वह अक्षर समझा जाता है, प्राप्त किया जाता है ) इत्यादि। यहाँ परा विद्या का विषय रूप से अक्षर श्रुत हुआ ( सुना गया ) है। यदि यहाँ परमेश्वर से अन्य अदृश्यत्वादि गुणवाला अक्षर परिकल्पित हो ( माना जाय ) तो यह अक्षर विषयक विद्या परा विद्या नहीं होगी। यदि कहो कि कारण रूप प्रधान की विद्या भी परा विद्या है तो बड़ हो नहीं सकती, क्योंकि विद्यार्थी का जो यह परा और अपरा रूप से विभाग है, वह अम्युदय और निःश्रेयसरूप फल के भेद से सिद्ध होता है, अर्थात् फल भेद से विद्या में भेद की कल्पना होती है, और प्रथम की विद्या निःश्रेय सफलवाली किसी से मानी नहीं गई है, और ऋगादि विद्या, निःश्रेयसफला ब्रह्मविद्या से भिन्न यदि भूतयोनि विद्या हो तो तीन विद्या की प्रतिज्ञा की जाती, क्योंकि तेरे पक्ष में अक्षर भूतयोनि से पर परमात्मा का प्रतिपादन है, परन्तु दो ही विद्या यहाँ वेदितव्य कही गई हैं। और ( हे भगवन् ! किसके विज्ञात होने से यह सब विज्ञात होता है ) इस प्रकार एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की अपेक्षा ( चिन्तन ) की गई है, वह सर्वात्मक ब्रह्म के विवक्षित होने पर सिद्ध हो सकती है। एक अचेतन भाव के अश्रय ब्रह्मान के विवक्षित रहने पर, का श्रेय से भिन्न श्रेय के विवक्षित रहने पर नहीं सिद्ध हो सकती है।

और ( उस ब्रह्मा ने सब विद्याओ की प्रतिष्ठा-आश्रय सीमा-रूप ब्रह्म विद्या का कथन ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा के लिए किया ) इस प्रकार ब्रह्मविद्या का प्रधान रूप से प्रारम्भ करके फिर परापर के विभाग द्वारा अक्षरतत्त्व को प्राप्त करानेवाली परा को दर्शाते हुए, उसको ब्रह्मविद्यात्व भी दर्शाते हैं । अतः उस विद्या की ब्रह्मविद्या समाख्या ( यौगिक नाम ) बाधित होगी । उससे अतिरक्त अधिगम्य ( ज्ञेय-प्राप्तव्य ) अक्षर को तो, अब्रह्मता होगी । उस ब्रह्मविद्या के आरम्भ में उस ब्रह्मविद्या की स्तुति प्रशंसा के लिए ऋग्वेदादिरूप अपरा कर्मविद्या कही गई है । जिससे ( यज्ञ के निरूपक साधक अतएव यज्ञरूप षोडशऋत्विक् यजमान और यजमान की पत्नी ये अठारह जिससे अदृढ ( अस्थिर ) और प्लव विनश्चर हैं । और जिनमें अवर ( अनित्य फलप्रद ) कर्म कहा गया है । यही कर्म श्रेय है, इस प्रकार जो मूढ अभिनन्दन स्वीकार करते हैं, वे फिर भी बार बार जरामृत्यु को प्राप्त होते हैं ) इत्यादि रूप से कर्म के निन्दा वचन से ब्रह्मविद्या की प्रशंसा होती है । इस प्रकार अपरा विद्या की निन्दा करके उससे विरक्त का विद्या में श्रुति अधिकार दर्शाती है ।

परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥

( मुण्ड० १।२।२२ ) इति । यत्तुक्तम्—अचेतनानां पृथिव्यादीनां दृष्टान्त-स्वेनोपादानाद्दार्ष्टान्तिकेनाप्यचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यम्—इति । तदुक्तम् । नहि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति । अपि च स्थूलाः पृथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूल एव दार्ष्टान्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते । तस्माददृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वरः एव ॥ २१ ॥

( कर्मों से साधित लोको को अनित्यादि रूप से जान कर ब्रह्म में प्रेमादियुक्त होकर बैराग्य को प्राप्त करे क्योंकि अकृत ( मोक्ष ) कृत कर्म से नहीं होता है । ऐसा समझ कर उस ब्रह्म के विज्ञान के लिये विद्वान् ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण समिदादि भेट युक्त प्राप्त हो ) और जो यह कहा था कि अचेतन पृथिवी आदि का दृष्टान्त रूप से ग्रहण होने के कारण, जिसका दृष्ट है, वह दार्ष्टान्तिक भूतयोनि भी अचेतन ही होना चाहिये, वह कहना सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक को अत्यन्त तुल्य होना चाहिये, ऐसा नियम नहीं है । यदि सर्वथा तुल्यता को स्वीकार करो, तो स्थूल पृथिवी आदि दृष्टान्त रूप से गृहीत हैं । इसलिये तुझे स्थूल ही दार्ष्टान्तिक भूतयोनिको मानना चाहिये । परन्तु स्थूल ही दार्ष्टान्तिक भूतयोनि किसी से नहीं माना जाता है, जिससे अदृश्यत्वादि गुणवाला भूतयोनि परमेश्वर ही सिद्ध होता है ॥ २१ ॥

## विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२ ॥

इतश्च परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतरौ शारीरः प्रधानं वा । कस्मात् ? विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याम् । विशिनष्टि हि प्रकृतं भूतयोनि शारीराद्विलक्षणत्वेन—‘दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः’ (मुण्ड० २।१।२) इति । न ह्येतद्विव्यत्वादिविशेषणमविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपपरिच्छेदाभिमानिनस्तद्धर्मान्स्वात्मनि कल्पयतः शारीरस्थोपपद्यते । तस्मात्साक्षादौपनिषदः पुरुष इहोच्यते । तथा प्रधानादपि प्रकृतं भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति—‘अक्षरात्परतः परः’ इति । अक्षरमव्याकृतं नामरूपबीजशक्तिरूपं भूतसूक्ष्ममीश्वराश्रयं तस्यैवोपाधिभूतं सर्वस्माद्विकारात्परो योऽविकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात्परमात्मानमिह विवक्षितं दर्शयति । नात्र प्रधानं नाम किञ्चित्स्वतन्त्रं तत्त्वमभ्युपगम्यं तस्माद्भेदव्यपदेश उच्यते । किं तर्हि ? यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं श्रुत्यविरोधेनाव्याकृतादिशब्दवाच्यं भूतसूक्ष्मं परिकल्प्येत परिकल्प्यताम् । तस्माद्भेदव्यपदेशात्परमेश्वरो भूतयोनिरित्येतदिह प्रतिपाद्यते ॥ २२ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी परमेश्वर ही भूतयोनि है, इतर जीव वा प्रधान भूतयोनि नहीं है। यदि कहो कि किस हेतु से ऐसा नियम करते हो, तो कहा जाता है कि भूतयोनि का विशेषण और भेद के कथन से यह नियम सिद्ध होता है। क्योंकि शरीर से विलक्षण रूप से भूतयोनि को विशेषणों से विधिष्ट (युक्त) कहा जाता है कि (वह दिव्य स्वयं प्रकाश अमूर्त-पूर्ण-प्रत्यगात्मा पुरुष है, और वही बाह्य स्थूल आभ्यन्तर सूक्ष्म सहित है इन सबका आधार है, अज है, प्राण मन से रहित शुभ्र है। इससे जीव से अन्तर्यामी को यह वचन भिन्न दर्शाता है। क्योंकि यह शुभ्र दिव्यत्वादि विशेषण, अविद्याजन्य नामरूप भेद के अभिमानी और नामरूप के धर्मों को अपने आत्मा में कल्पना करने वाला शारीर जीव का उपपन्न (सिद्ध) नहीं हो सकता है। जिससे साक्षात् उपनिषद से ज्ञेय पुरुष यहाँ कहा जाता है। इसी प्रकार प्रधान से भी भेद पूर्वक प्रकृत भूतयोनि का कथन श्रुति करती है कि (पर अक्षर से यह भूतयोनि पर है) यहाँ अक्षर शब्द का अनादि अव्यक्त नामरूप का बीज ईश्वर की शक्तिरूप भूतो के सूक्ष्म सस्कारो का आश्रय चिदात्मा ईश्वर के आश्रित रहने वाला और उस ईश्वर के उपाधि स्वरूप, और सब विकार से पर जो अविकार है, उस पर से पर भूतयोनि है इस प्रकार भेद पूर्वक निर्देश से परमात्मा को ही यहाँ श्रुति विवक्षित दर्शाती है। यह भी यहाँ समझना चाहिये कि, यहाँ प्रधान नामक किसी स्वतन्त्र तत्त्व को मान कर उससे भेद का कथन नहीं किया जाता है। तो यहाँ कहा जाता है कि यदि अव्याकृतादि शब्दों का वाच्यार्थ भूतो का सूक्ष्म स्वरूप कल्पमान प्रधान भी श्रुति के साथ अविरोध पूर्वक अर्थात् स्वतन्त्रता रहित ईश्वर की शक्ति स्वरूप से परिकल्पित (सिद्ध)

हो सके, तो परिकल्पित ( सिद्ध ) हो, स्वयं श्रुति कहती है कि ( इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ) इत्यादि । जिससे भेद कथन से परमेश्वर भूतयोनि है यह यहाँ प्रतिपादन किया जाता है ॥ २२ ॥

कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः—

### रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥

अपि च 'अक्षरात्परतः परः' इत्यस्यानन्तरम् 'एतस्माज्जायते प्राणः' इति प्राणप्रभृतीनां पृथिवीपर्यन्तानां तत्त्वानां सर्गमुक्त्वा तस्यैव भूतयोनिः सर्वविकारात्मकं रूपमुपन्यस्यमानं पश्यामः—

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी च सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः ।

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥

( मुण्ड० २।१।४ ) इति । तच्च परमेश्वरस्यैवोचितं, सर्वविकारकारणत्वात् । न शरीरस्य तनुमहिम्नः । नापि प्रधानस्यायं रूपोपन्यासः सम्भवति, सर्वभूतान्तरात्मत्वासम्भवात् । तस्मात्परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतराविति गम्यते । कथं पुनर्भूतयोनेरयं रूपोपन्यास इति गम्यते ? प्रकरणात्, 'एषः' इति च प्रकृतानुकर्षणात् । भूतयोनि हि प्रकृत्य 'एतस्माज्जायते प्राणः' 'एष सर्वभूतान्तरात्मा' इति वचनं भूतयोनिविषयमेव भवति । यथोपाध्यायं प्रकृत्यै तस्मादधीष्वैष वेदवेदाङ्गपारग इति वचनमुपाध्यायविषयं भवति तद्वत् । कथं पुनरदृश्यत्वादिगुणकस्य भूतयोनेर्विग्रहवद्रूपं संभवति । सर्वात्मत्वविवक्षयेदमुच्यते नतु विग्रहवत्त्वविवक्षयेत्यदोषः, 'अहमन्नमहमन्नादः' ( तै० ३।१०। ) इत्यादिवत् ।

किस हेतु से परमेश्वर भूतो का कारण सिद्ध होता है—तो और हेतु यह है कि 'पर अक्षर से पर है' इस कथन के अनन्तर ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ) इस प्रकार से प्राणादि पृथिवी पर्यन्त तत्त्व की सृष्टि को कह कर, फिर उसी भूतयोनि का सर्वविकारात्मक रूप उपन्यस्यमान ( कथ्यमान ) कथित-वर्णित देखते हैं कि ( उसके अग्नि, स्वर्ग, शिर है, चन्द्र सूर्य नेत्र है, दिशाएँ कान हैं, विवृत्त, प्रसिद्ध, वेद वाक् हैं, वायु प्राण है, ससार हृदय है, पृथिवी पैर है, इस प्रकार का जिसका रूप आकार है, वह सब प्राणी का अन्तरात्मा है ) यह रूप का कथन सब विकारो ( कार्यों ) के कारण होने से परमेश्वर के लिये उचित है । अल्प महिमा वाले जीव के लिए उचित नहीं है, और प्रधान का भी यह रूप कथन सम्भव नहीं है, क्योंकि उसको सब भूतो के अन्तरात्मत्व का असम्भव है । जिससे परमेश्वर ही भूतयोनि है, उससे इतर ( अन्य ) जीव और प्रधान भूतयोनि नहीं है, यह समझा जाता है । यदि कहो कि भूतयोनि के रूप का यह कथन है । यह किस प्रमाण से कैसे समझते हो तो कहा जाता है कि



प्रकरण से समझते हैं, और श्रुति में जो 'एष' यह पद है, उससे प्रकृत भूतयोनि का अनुकर्षण ( आवृत्ति पूर्वक सम्बन्ध ) होता है। और भूतयोनि के ही कथन का प्रारम्भ करके कहा गया है कि ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ) ( यह सब भूतों के अन्तरात्मा है ) इससे यह वचन भूतयोनि विषयक ही है। जैसे कि उपाध्याय को प्रस्तुत करके ( उपाध्याय के नाम गुणादि का कथन करके ) यदि कहा जाता है कि इनसे पदो, ये वेदपारंगत हैं, तो फिर उपाध्याय के नाम लिए बिना भी यह वचन प्रकरण से उपाध्याय विषयक ही होता है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये। यदि कहा जाय कि ऐसा होने पर भी अदृश्यत्वादि गुण वाले भूतयोनि को विग्रह ( विस्तार विभाग युक्त शरीर ) वाला रूप का सम्भव रूप कैसे हो सकता है, तो कहा जाता है कि सर्वात्मकता की विवक्षा से भूतयोनि का यह कहा जाता है, शरीरवत्त्व की विवक्षा से नहीं, इससे दोष ( पूर्वापर विरोध ) नहीं है। जैसे कोई आत्मज्ञ कहता है कि ( मैं अन्न हूँ मैं अन्न हूँ ) वह सर्वात्मकता दृष्टि से कहता है, उसी के समान यहाँ समझना चाहिये।

अन्ये पुनर्मन्यन्ते—नायं भूतयोने रूपोपन्यासः, जायमानत्वेनोपन्यासात् ।

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुर्द्यौतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥

इति हि पूर्वत्र प्राणादिपृथिव्यन्तं तत्त्वजातं जायमानत्वेन निरदिक्षत् । उत्तरत्रापि च 'तस्मादग्निः समिधो यश्च सूर्यः' इत्येवमादि, 'अतश्च सर्वा ओषधयो रसाश्च' इत्येवमन्तं जायमानत्वेनैव निर्देक्षति । इहैव कथमकस्मादन्तराले भूतयोने रूपमुपन्यसेत् । सर्वात्मत्वमपि सृष्टिं परिसमाप्त्योपदेक्षति—'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म' ( मुण्ड० २।१।१० ) इत्यादिना । श्रुतिस्मृत्योश्च त्रैलोक्यशरीरस्य प्रजापतेर्जन्मादि निर्दिश्यमानमुपलभामहे—

हिरण्यगर्भः समवर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

( ऋ० सं० १०।१२।१ ) इति । समवर्ततेत्यजायतेत्यर्थः । तथा—

स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते ।

आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥ इति च ॥

विकारपुरुषस्यापि सर्वभूतान्तरात्मत्वं सम्भवति, प्राणात्मना सर्वभूतानामध्यात्मसंस्थानात् । अस्मिन्पक्षे 'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म' इत्यादिसर्वरूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम् ॥ २३ ॥

यहाँ अन्य लोपे लो मानते हैं कि यह पूर्व वर्णित भूतयोनि के रूप का कथन नहीं है, क्योंकि जायमान ( उत्पद्यमान ) रूप से प्राणादि का कथन है कि ( इस भूत

योनि से प्राण उत्पन्न होता है, और मन, सब इन्द्रिय आकाश, वायु, तेज, जल, विश्व का धारण करनेवाली भूमि ) ये सब उस भूतयोनि से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार प्रथम प्राणादि पृथिवी पर्यन्त तत्त्व समूह जायमान ( कार्य ) रूप से कहे गये हैं। और आगे भी ( उससे अग्नि स्वर्ग हुई जिसके सूर्य समिध हैं ) इत्यादि जायमान स्वर्गादि का और ( इसी से सब औषधियाँ और रस हुए ) इस प्रकार रसादि पर्यन्त का जायमान कार्य रूप से ही कथन करेगे। यहाँ मध्य मे अकस्मात् ( कारण के बिना ) भूतयोनि के रूप का कथन कैसे करेगे। इससे मध्य मे सृष्टि का ही कथन है। यदि कहा जाय कि सर्वात्मता की विवक्षा से मध्य में भूतयोनि के रूप का कथन है तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि सृष्टि कथन को समाप्त करके अन्त मे सर्वात्मत्व का भी उपदेश करेगे, कि ( पुरुष ही यह विश्व और कर्मस्वरूप है ) इत्यादि। और श्रुति स्मृति मे तीनों लोक रूप शरीर वाले प्रजापति के जन्मादि का कथन हमे उपलब्ध होता है कि ( प्रथम हिरण्यगर्भ-सूत्रात्मा समवर्तत उत्पन्न हुआ ) और वह उत्पन्न होकर भूतो का एक स्वामी हुआ। एवं उसने इस पृथिवी और स्वर्ग को धारण किया। उस एक अपूर्व देव की रुचि द्वारा लोग सेवा परिचर्या करते है। समवर्तत, इस पद का अजायत ( उत्पन्न हुआ ) यह अर्थ है। इसी प्रकार वर्णन है कि ( वह ब्रह्मा ही ( हिरण्य गर्भ ) प्रथम शरीरी है, वही पुरुष कहा जाता है। वह प्राणियो का आदि कर्ता है, यह प्रथम उत्पन्न हुआ ) इत्यादि। यदि कहो कि उसको सर्वात्मत्व कैसे हो सकता है, तो कहा जाता है कि विकार पुरुष हिरण्यगर्भ को भी सर्वभूतान्तरात्मत्व का सम्भव है, क्योंकि समष्टि प्राण रूप से सब भूतो के शरीर के अन्दर उसकी स्थिति होती। इस पक्ष मे पुरुष ही यह विश्व कर्म और तप आदि है। इत्यादि सर्वरूप का कथन परमेश्वर के ज्ञान का हेतु है। इस रीति से सूत्र का व्याख्यान कर्तव्य है ॥ २३ ॥

### वैश्वानराधिकरण ॥ ७ ॥

वैश्वानरः कौक्षभूतदेवजीवेश्वरेषु कः ? ।

वैश्वानरात्मशब्दाभ्यामीश्वरान्येषु कश्चन ॥

द्युमूर्धत्वादितो ब्रह्मशब्दाश्चेश्वर इष्यते ।

वैश्वानरात्मशब्दौ तावीश्वरस्यापि वाचकौ ॥

जाठराग्नि, भूताग्नि, देवाग्नि, जीव, ईश्वर, इनमें से किस का वाचक श्रुति में वैश्वानर शब्द है, ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्ष है कि वैश्वानर शब्द अग्नि अर्थ मे प्रसिद्ध है। आत्मशब्द जीव मे प्रसिद्ध है, इससे दोनों शब्दों के बल से ईश्वर से अन्य ही कोई वैश्वानर है। सिद्धान्त है कि द्युमूर्धत्वादि के श्रवण से तथा ब्रह्म शब्द से वैश्वानर ईश्वर ही अभीष्टार्थ है। और वे वैश्वानर और आत्म शब्द भी ईश्वर के वाचक हैं ॥ १-२ ॥

सक्षिप्तार्थं है कि ( आत्मानं वैश्वानरमुपास्त, इति श्रुतौ वैश्वानरशब्दस्य जाठरान्नि भूताङ्ग्यादित्यदेवेषु साधारणत्वेऽपि, तथा चात्मशब्दस्य जीवात्मपरमात्मनोः साधारण-वाचकत्वेऽपि ( मूर्धैव सुतेजा. ) इत्यादि विशेषस्य श्रवणाद्वैश्वानरः परमात्मैवेति ) वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, इस श्रुति मे वैश्वानर शब्द जाठरान्नि आदि अर्थ मे साधारण है । आत्म शब्द जीवात्मा परमात्मा अर्थ मे साधारण है, तो भी विशेष श्रवण से वैश्वानर शब्द का अर्थ यहाँ परमात्मा ही है ।

### वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ २४ ॥

‘को न आत्मा किं ब्रह्म’ इति, ‘आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यध्येषितमेव नो ब्रूहि’ ( छां० ५।११।१,६ ) इति चोपक्रम्य द्युसूर्यवाय्वाकाशवारिपृथिवीनां सुतेजस्त्वादिगुणयोगमेकैकोपासननिन्दया च वैश्वानरं प्रत्येषां मूर्धादिभावमुपदिश्यान्नायते—‘यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्से स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्वात्मस्वन्नमन्ति तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिर्लोमानि बर्हिर्हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः’ ( छां० ५।१८।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः—किं वैश्वानरशब्देन जाठरोऽग्निरुपदिश्यत उत भूताग्निरथ तदभिमानीनी देवता अथवा शारीर आहोस्वित्परमेश्वर इति । किं पुनरत्र संशयकारणम् ? वैश्वानर इति जाठरभूताग्निदेवतानां साधारणशब्दप्रयोगादात्मेति च शारीरपरमेश्वरयोः । तत्र कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति संशयः । किं तावत्प्राप्तम् ? जाठरोऽग्निरिति । कुतः ? तत्र हि विशेषेण क्वचित्प्रयोगो दृश्यते—‘अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते’ ( बृह० ५।६ ) इत्यादौ । अग्निमात्रं वा स्यात्, सामान्येनापि प्रयोगदर्शनात् ‘विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्णामकृष्वन्’ ( ऋ० सं० १०।८।१२ ) इत्यादौ । अग्निशरीरा वा देवता स्यात्, तस्यामपि प्रयोगदर्शनात् ‘वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानाममिश्रीः’ ( ऋ० सं० १।६।१ ) इत्येवमाद्याः श्रुतेर्देवतायामैश्वर्याद्युपेतायां सम्भवात् । अथात्मशब्दसामानाधिकरण्यादुपक्रमे च ‘को न आत्मा किं ब्रह्म’ इति केवलात्मशब्दप्रयोगादात्मशब्दवशेन च वैश्वानरशब्दः परिणेत्य इत्युच्यते, तथापि शारीर आत्मा स्यात्, तस्य भोक्तृत्वेन वैश्वानरसंनिकर्षात् । प्रादेशमात्रमिति च विशेषणस्य तस्मिन्नुपाधिपरिच्छिन्ने सम्भवात् । तस्मान्नेश्वरो वैश्वानर इति ।

कथा है कि प्राचीनशास्त्रादि नाम वालो ने प्रथम आपस से विचार किया कि ( हम सबका आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है ? फिर निश्चय के लिये उद्दालक ऋषि के पास

गये, ऋषि भी नहीं समझा सके, फिर ऋषि सहित सब कैकय नाम राजा के पास गये, और राजा से पूछा कि इस समय आप वैश्वानर आत्मा का स्मरण चिन्तन करते हो, उसी का कथन हम लोगो के प्रति आप करे। यहाँ से आरम्भ करके, फिर वर्णन है कि राजा सबसे जुदा जुदा पूछेंगे कि आप सब किसकी उपासना करते हो, तो वे लोग जुदा जुदा ( भिन्न भिन्न ) बोले। स्वर्ग, सूर्य, वायु, आकाश, जल, पृथिवी को अपना अपना भिन्न भिन्न ध्येय बताये। तब राजा सुतेजस्त्वादि गुणो के सम्बन्ध का उपदेश करके एक एक की उपासनाओ की निन्दा पूर्वक वैश्वानर के प्रति इन स्वर्गादिको को मूर्धादिभाव का उपदेश करके कहा कि ये सब स्वतन्त्र उपास्य नहीं हैं, किन्तु वैश्वानर के शिर आदि रूप से उपास्य हैं इस प्रकार से उपदेश करके फिर कहा गया है कि ( जो इस प्रादेशमात्र उन अङ्गों युक्त ) अभिविमान ( सर्वज्ञ ) वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, सो सब लोक, सब भूत, सब आत्मा मे अन्न खाता है। और उस प्रसिद्ध इस वैश्वानर आत्मा के सुतेजा ( स्वर्ग ) मूर्धा है, विश्वरूप-सूर्य, चक्षु है, पृथग्ब्रह्मात्मा वायु प्राण है, बहुल आकाश सदेह ( देह मध्य ) है। वस्तिस्थान रयि ( धन का हेतु जल ) है, पृथिवी पाद है, उर स्थान यज्ञ वेदी है, कुश लोम है, हृदय गार्हपत्याग्नि है, मन अन्वाहार्यपचन है, मुख आहवनीय है इत्यादि। यहाँ संशय होता है कि वैश्वानर शब्द से जाठराग्नि का उपदेश दिया जाता है, या भूताग्नि का अथवा अग्नि के अभिमानी देव का अथवा जीव या ईश्वर का उपदेश दिया जाता है। यदि कहा जाय कि यहाँ संशय का कारण क्या है, तो उसका उत्तर यह है कि यहाँ जाठराग्नि, भूताग्नि, देवाग्नि इन तीनों के साधारण तुल्य रूप से वाचक वैश्वानर शब्द का प्रयोग है, और जीवेश्वर के साधारण वाचक आत्म शब्द का प्रयोग है। यहाँ संशय होता है कि इन पाचो का तो ग्रहण उपासना के लिये हो नहीं सकता है, तो इनमे से किसका ग्रहण न्याय्य ( उचित ) है, और किसका त्याग उचित है यह संशय होता है, विमर्श होता है कि प्राप्त क्या है। प्रथम पूर्व पक्ष है कि जाठराग्नि प्राप्त है, क्योंकि जाठराग्नि विषयक ही कही विशेषरूप से वैश्वानर शब्द का प्रयोग देखा जाता है कि ( यह अग्नि वैश्वानर है कि जो पुरुष के अन्तर में है, और जिससे यह अन्न पचता है कि जो यह अन्न पुरुष से खाया जाता है ) इत्यादि। अथवा अग्निमात्र वैश्वानर होगा, क्योंकि समानरूप से भी प्रयोग देखा जाता है कि ( सब भुवनो के लिए देवताओ ने दिन का चिह्न रूप सूर्यात्मक अग्नि को बनाया है ) इत्यादि। या अग्नि शरीर वाला देव वैश्वानर हो सकता है, क्योंकि उस देव-विषयक प्रयोग भी देखा जाता है ( हम लोग वैश्वानर की सुमति का विषय हों, अर्थात् हमारे विषयक वैश्वानर की सुमति हो। जिससे वैश्वानर भुवनो का राजा है ( सुख स्वरूप सुख प्रद ) है, और अभिमुख श्रीवाला है। इस प्रकार श्रुतियो का ऐश्वर्यादियुक्त देवताविषयक ही प्रयोग सम्भव है। और यदि ( आत्मानं वैश्वानरम् )

यहाँ वैश्वानर को आत्मा के साथ समानाधिकरणता से और आरम्भ में ( हमारा आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है ) यहाँ केवल आत्म शब्द के प्रयोग से आत्म शब्द के बलद्वारा भी वैश्वानर शब्द आत्मार्थ में परिणेत ( प्राप्त कराने योग्य ) आत्मार्थक है ऐसा कहा जाय, तो भी वैश्वानर शब्द का अर्थ जीवात्मा हो सकता है, क्योंकि उसे भोक्ता होने से वैश्वानर के साथ उसको सम्बन्ध सामीप्य है, और प्रादेशमात्र इस विशेषण का भी उपाधिपरिच्छिन्न उस जीवात्मा में सम्भव है । जिससे ईश्वर वैश्वानर नहीं है ।

एवं प्राप्ते तत इदमुच्यते-वैश्वानरः परमात्मा भवितुमर्हतीति । कुतः ? साधारणशब्दविशेषात् । साधारणशब्दर्योर्विशेषः साधारणशब्दविशेषः । यद्यप्येतावुभावप्यात्मवैश्वानरशब्दौ साधारणशब्दौ, वैश्वानरशब्दस्तु त्रयस्य साधारणः, आत्मशब्दश्च द्वयस्य तथापि विशेषो दृश्यते, येन परमेश्वरपरत्वं तयोरभ्युपगम्यते, 'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध्वं सुतेजाः' इत्यादि । अत्र हि परमेश्वर एव द्यमूर्धत्वादिविशिष्टोऽवस्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते, कारणत्वात् । कारणस्य हि सर्वाभिः कार्यगताभिरवस्थाभिरवस्थावत्त्वाद्युलोकाद्यवयवत्वमुपपद्यते । 'स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्वात्मस्वन्नमन्ति' इति च सर्वलोकाद्याश्रयं फलं श्रूयमाणं परमकारणपरिग्रहे सम्भवति । 'एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते' ( छा० ५।२४।३ ) इति च तद्विदुः सर्वपाप्मप्रदाहश्रवणम् । 'को न आत्मा किं ब्रह्म' इति चात्मब्रह्मशब्दाभ्यामुपक्रम इत्येवमेतानि लिङ्गानि परमेश्वरमेवावगमयन्ति । तस्मात्परमेश्वर एव वैश्वानरः ॥ २४ ॥

इस प्रकार प्राप्त होने पर यह सिद्धान्त कहा जाता है कि वैश्वानर परमात्मा होने के योग्य है । क्योंकि साधारण शब्दों का भी विशेष है । साधारण शब्दों के विशेष को साधारण शब्द विशेष इस शब्द से सूत्र में कहा गया है । भाव यह है कि ये आत्म शब्द और वैश्वानर शब्द दोनों ही साधारण शब्द हैं, उनमें वैश्वानर शब्द तीन का साधारण वाचक है, आत्म शब्द दो का साधारण वाचक है, तो भी विशेष देखा जाता है । जिस विशेष से उन दोनों शब्दों को परमेश्वरपरत्व स्वीकार करते हैं । वह विशेष यह है कि ( उस वैश्वानर आत्मा के ही सुन्दर प्रकाश वाला स्वर्ग मूर्धा है ) इत्यादि । यहाँ त्रिलोकात्मकता रूप अवस्थान्तर को प्राप्त परमेश्वर ही द्यमूर्धत्वादि विशिष्ट भी प्रत्यगात्मारूप से आन्तरध्यान के लिए कहा गया है, ऐसी प्रतीति होती है । क्योंकि वह सब का कारण है । और कारण को कार्यगत अवस्थाओं से अवस्थावत्त्व होता, इससे स्वर्गादिलोक रूप अवयवत्व भी सिद्ध होता है । और ( सब लोक सब भूत सब आत्मा में अन्न खाता है ) सर्वलोकादि के आश्रित सुना गया यह फल भी पर कारण का स्वीकार करने पर सम्भव है । इसी प्रकार ( अग्नि में इषीका तूल के समान इस विद्वान् के सब पाप नष्ट हो जाते हैं ) इस वैश्वानर के ज्ञानी के यह सब

पापो का दाह श्रवण । और ( कौन हमारी आत्मा है, ब्रह्म क्या है ) इस प्रकार आत्म ब्रह्म से आरम्भ ये सब लिङ्ग परमेश्वर का ही बोध करते हैं, जिससे परमेश्वर ही वैश्वानर है ॥ २४ ॥

सक्षितार्थ है कि ( स्मृत्या स्मर्यमाण परमेश्वरं रूपं स्वमूलमूता श्रुतिमनुमापयद्वैश्वानरस्यानुमान गमकं स्यात्तस्माद्वैश्वानर परमेश्वर एवेति ) स्मृति से स्मर्यमाण जो परमेश्वर का रूप है, अतः अपने मूलश्रुति का अनुमान कराता हुआ वैश्वानर का बोधक होता है, इसलिए वैश्वानर परमेश्वर है ।

### स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २५ ॥

इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानरः, यस्मात्परमेश्वरस्यैव-अग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा-  
इतीदृशं त्रैलोक्यात्मकं रूपं स्मर्यते—

यस्याग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः ।

सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रं तस्मै लोकात्मने नमः ॥ इति ।

एतत्स्मर्यमाणं रूपं मूलभूतां श्रुतिमनुमापयदस्य वैश्वानरशब्दस्य परमेश्वर-  
परत्वेऽनुमानं लिङ्गं गमकं स्यादित्यर्थः । इतिशब्दो हेत्वर्थः । यस्मादिदं  
गमकं तस्मादपि वैश्वानरः परमात्मैवेत्यर्थः । यद्यपि रतुतिरियं 'तस्मै लोका-  
त्मने नमः' इति । स्तुमित्वमपि नासति मूलभूते वेदवाक्ये सम्यगीदृशेन  
रूपेण सम्भवति ।

द्यां मूर्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं वै नाभिं चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे ।

दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ क्षिति च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणोता ॥

इत्येवंजातीयका च स्मृतिरिहोदाहर्तव्या ॥ २५ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी परमेश्वर ही वैश्वानर है, क्योंकि परमेश्वर का ही  
( —अग्नि, जिसका मुख है, स्वर्ग शिर है— ) इस प्रकार का त्रैलोक्यात्मक स्वरूप का  
स्मृति से कथन किया जाता है कि ( जिसका अग्नि मुख है, स्वर्ग शिर है, आकाश नाभि  
है, भूमि चरण है, सूर्य नेत्र है, दिशाये कान है, उस सर्वलोक स्वरूप परमात्मा के प्रति  
प्रणाम है ( म० भा० शा० ४८।३८ ) इस स्मृति से यह स्मर्यमाण रूप, एतदर्थक  
स्वमूलश्रुति का अनुमान करता हुआ, इस वैश्वानर शब्द को परमेश्वर परत्व मे  
अनुमानरूप गमक लिङ्ग होता है । सूत्र मे इति शब्द हेतु अर्थ मे है, इस प्रकार अर्थ  
होता है कि जिससे स्मर्यमाण रूप गमक है, उससे भी वैश्वानर परमात्मा ही है । उस  
लोकात्मा के प्रति नमस्कार से यद्यपि यह स्मृति स्तुतिरूप है, तथापि मूलस्वरूप  
वेदवाक्य के अभाव काल मे इस प्रकार के रूप द्वारा स्तुतित्व भी सम्यक् नही हो  
सकता है । और ( विप्र लोग जिसके शिर को स्वर्ग कहते हैं, आकाश को नाभि कहते  
हैं, चन्द्र सूर्य को नेत्र कहते हैं, दिशाओ को श्रोत्र कहते हैं, पृथिवी को पाद कहते हैं,

वह अचिन्त्यात्मा सब भूतों का प्रणेता नियन्ता कर्ता स्वामी है उसको जानो ) इस प्रकार की अन्य स्मृतियाँ भी यहाँ उदाहरण के योग्य हैं ॥ २५ ॥

## शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथाहृष्ट्युपदेशाद- संभवात्पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६ ॥

शब्दादिभ्यः-अन्तःप्रतिष्ठानात्-च-न-इति-चेत्-न-तथा-हृष्ट्युपदेशात्-असंभवात्-पुरुषम्-अपि-च-एनम्-अधीयते । इस सूत्र में १५ पद हैं, संक्षिप्तार्थ है कि ( वैश्वानरशब्द गार्हपत्याद्यग्निकल्पनप्राणाहुत्याधारतासंकीर्तनेभ्यः शरीरान्तःप्रतिष्ठानाच्च न वैश्वानरः परमात्मेति चेन्न तेन प्रकारेण जाठरे परमात्महृष्ट्युपदेशासंभवात् । किञ्चैन वैश्वानरं वैश्वानरपुरुषमपि पठन्ति तस्मात्परमात्मैव वैश्वानर इति ) अग्निवाचक वैश्वानर शब्द से, तथा गार्हपत्यादि तीन अग्निवो की कल्पना से, प्राण के लिये जो आहुति एवं उसकी आधारता के कथन से तथा शरीर के अन्दर स्थिति के कथनादि से वैश्वानर परमात्मा नहीं है, किन्तु जाठराग्नि आदि है । ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उसरीति से जठराग्नि में परमात्महृष्टि का ही उपदेश दिया गया है और जाठर में विशेषण का असंभव है । इस वैश्वानर को कोई 'पुरुष' शब्द से भी कहते हैं, अतः परमात्मा ही वैश्वानर है ।

अत्राह—न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमर्हति । कुतः ? शब्दादिभ्योऽन्तः-प्रतिष्ठानाच्च । शब्दस्तावद्वैश्वानरशब्दो न परमेश्वरो सम्भवति, अर्थान्तरे रूढत्वात् । तथाग्निशब्दः 'स एषोऽग्निवैश्वानरः' इति । आदिशब्दात् 'हृदयं गार्हपत्यः' ( छा० ४।१८।२ ) इत्याद्यग्नित्रेताप्रकल्पनम् । 'तद्यद्भक्तं प्रथम-मागच्छेत्तद्धोमीयम्' ( छा० ५।१०।१ ) इत्यादिना च प्राणाहुत्याधिकरणता-संकीर्तनम् । एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्वानरः प्रत्येतव्यः । तथान्तःप्रतिष्ठानमपि श्रयते—'पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद' इति । तच्च जाठरे सम्भवति । यदप्युक्तम्—मूर्धैव सुतेजा इत्यादेर्विशेषात्कारणात्परमात्मा वैश्वानर—इति । अत्र ब्रूमः—कुतो ह्येष निर्णयः, यदुभयथापि विशेषप्रतिभाने सति परमेश्वरविषय एव विशेष आश्रयणीयो न जाठरविषय इति । अथवा भूताग्नेरन्तर्बहिःश्रावतिष्ठमानस्यैष निर्देशो भविष्यति । तस्यापि हि द्युलोकादिसम्बन्धो मन्त्रवर्णाद्वगम्यते—'यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्' ( ऋ० सं० १०।८८।३ ) इत्यादौ । अथवा तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्ययोगाद्द्युलोकाद्यवयवत्वं भविष्यति । तस्मान्न परमेश्वरो वैश्वानर इति ।

उक्तार्थ में कोई शंका करता है कि परमेश्वर वैश्वानर शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि वैश्वानरशब्दादिरूप हेतुवो से और अन्तःप्रतिष्ठान ( स्थिति ) से ऐसी प्रतीति होती है कि वैश्वानर ईश्वर नहीं है । पहले तो वैश्वानर शब्द ऐसा है कि

जो परमेश्वरार्थं मे उसके प्रयोग का सम्भव नहीं है, क्योंकि वह दूसरे अर्थ में रूढ है, रूढि ( समुदायशक्ति ) से अग्नि का वाचक है । वैसे ही अग्नि शब्द भी अर्थान्तर से रूढ है, वह भी परमेश्वर वाचक नहीं है । जैसे कि यह अग्नि वैश्वानर है इत्यादि प्रयोग है । सूत्र में आदि शब्द से ( हृदय गार्हपत्य है ) इत्यादि वचनो से जो तीन अग्नियो की कल्पना की गई है उनका ग्रहण है, और ( वह जो प्रथम भात ( ओदन ) आवे वह होमार्थक द्रव्य है ) इत्यादि वचनो से प्राण के लिये अन्न की आहुति ( हवन ) की अधिकरणाता का वैश्वानराम्नि में कथन है इन हेतुओं से जाठराम्नि वैश्वानर शब्द का अर्थ जानने योग्य है । इसी प्रकार उस वैश्वानर की शरीरान्तर ( भीतर ) में स्थिति भी सुनी जाती है कि ( वैश्वानर को पुरुष के अन्दर प्रतिष्ठित समझे ) वह अन्तःस्थिति भी जाठराम्नि में ही सम्भव है । एवं जो यह पहले कहा है कि ( मूर्धैव सुतेजा ) इत्यादि । वहाँ विशेषरूप कारण से परमात्मा वैश्वानर है । अब प्रश्न है कि यह निर्णय कैसे हो सकता है कि जाठराम्नि विषयक और परमात्मविषयक दोनों प्रकार के विशेषो की प्रतीति रहने भी वैश्वानर शब्द परमेश्वरविषयक का ही आश्रयण करना चाहिये, जाठरविषयक विशेष का नहीं । यदि कहो कि द्युमूर्धत्वादि विशेष का जाठराम्नि में असंभव है, इससे परमेश्वरविषयक विशेष बली है, तो भी बाहर-भीतर वर्तमान भूताग्नि का ही यह द्युमूर्धत्वादि निर्देश ( कथन ) है, क्योंकि उस अग्नि को भी द्युलोकादि के साथ संबन्ध का ज्ञान मन्त्राक्षर से होता है । मन्त्र कहता है— ( जो अग्नि इस भूमि और स्वर्गरूप रोदसी ( लोक ) तथा मध्यगत अन्तरिक्ष को सूर्य द्वारा व्याप्त किया ) इत्यादि । यदि जड़ अग्निमात्र ध्येय नहीं माना जा सके, तो चाहे उस अग्निरूप शरीर वाले देव को ऐश्वर्यादि के सम्बन्ध से द्युलोकादि अवयव हो सकते हैं, और देव स्वर्ग-शिर आदि वाला हो सकता है, उससे परमेश्वर वैश्वानर नहीं है ।

अत्रोच्यते—न तथादृष्ट्युपदेशादिति । न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानं युक्तम् । कुतः ? तथा जाठरापरित्यागेन दृष्ट्युपदेशात् । परमेश्वरदृष्टिर्हि जाठरे वैश्वानर इहोपदिश्यते, 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत' ( छा० ३।१८।१ ) इत्यादिवत् । अथवा जाठरवैश्वानरोपाधिः परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेनोपदिश्यते, 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' ( छा० ३।१४।२ ) इत्यादिवत् । यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत केवल एव जाठरोऽग्निर्विवक्ष्येत ततो मूर्धैव सुतेजा इत्यादेर्विशेषस्यासम्भव एव स्यात् । यथा तु देवताभूताग्निव्यपाश्रयेणाप्ययं विशेष उपपादयितुं न शक्यते तथोत्तरसूत्रे वक्ष्यामः । यदि च केवल एव जाठरो विवक्ष्येत, पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्यान्न तु पुरुषत्वम् । पुरुषमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः—'स एषोऽग्निवैश्वानरो यत्पुरुषः स यो हैतमेवमग्निं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' ( शं० ब्रा० १०।६।१।११ ) इति । परमेश्वरस्य तु सर्वात्मत्वात्पुरुषत्वं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं



चोभयमुपपद्यते । ये तु 'पुरुषविधमपि चैनमधीयते' इति सूत्रावयव पठन्ति, तेषामेषोऽर्थः—केवलजाठरपरिग्रहे पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं स्यान्न पुरुष-विधत्वम् । पुरुषविधमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः—'पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः-प्रतिष्ठितं वेद' इति । पुरुषविधत्वं च प्रकरणाद्यदधिदैवतं द्युमूर्धत्वादि पृथिवी-प्रतिष्ठितत्वान्तं, यच्चाध्यात्मं प्रसिद्धं मूर्धत्वादि चुबुकप्रतिष्ठितत्वान्तं तत्प-रिगृह्यते ॥ २६ ॥

यहाँ सिद्धान्त कहा जाता है कि उस प्रकार की परमात्मविषयक दृष्टि का उपदेश होने से पूर्व कथन ठीक नहीं । अर्थात् उक्त शब्दादि रूप हेतुओं से परमात्मा का प्रत्याख्यान करना उचित नहीं है, क्योंकि उस प्रकार से जाठराग्नि को त्यागे बिना परमात्म दृष्टि का उपदेश है अर्थात् यहाँ जाठराग्निरूप वैश्वानर मे परमेश्वर दृष्टि ( उपासना ) का उपदेश दिया जाता है । जैसे कि 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत'—मन ब्रह्म है—ऐसी उपासना करे, इत्यादि उपदेश हैं, उनके समान इस उपदेश को समझना चाहिये । अथवा ( मनोमयः प्राणशरीरोभाःरूपः ) इत्यादि के समान इस उपदेश को समझ जाठर वैश्वानर ( जाठराग्नि ) रूप उपाधिवाला परमेश्वर यहाँ द्रष्टव्य रूप से उपदेश का विषय है, क्योंकि यदि यहाँ परमेश्वर नहीं विवक्षित हो, और केवल जाठराग्नि ही विवक्षित हो तो ( मूर्द्धैव सुतेजा ) इत्यादि विशेष का असम्भव ही होगा । देवता तथा भूताग्नि के आश्रयण द्वारा भी इस द्युमूर्द्धत्वादि विशेष का उपपादन नहीं कर सकते, यह प्रकार उत्तर सूत्र मे कहेंगे । यदि केवल जाठराग्नि को विवक्षित माना जाय तो उसमे केवल पुरुष के अन्दर प्रतिष्ठितत्व विशेषण का सम्भव होगा, पुरुषत्व का सम्भव नहीं होगा और वाजसनेयी लोग इस वैश्वानर का पुरुष रूप से भी अध्ययन करते हैं कि ( जो पुरुष है, वह यह वैश्वानर अग्नि है, जो कोई इस वैश्वानर अग्नि को इस प्रकार पुरुष सदृश पुरुष के अन्दर मे प्रतिष्ठित जानता है, वह सर्वत्र भोग पाता है ), और परमेश्वर को तो सर्वात्मा होने से पुरुषत्व पुरुष के अन्त प्रतिष्ठितत्व दोनो उपपन्न होते हैं । और जो कोई ( पुरुषविधमपि चैनमधीयते । इस प्रकार सूत्र का अवयव पढते हैं, उनके अनुसार अर्थ होगा कि केवल जाठराग्नि के ग्रहण करने पर, केवल पुरुष के अन्तःप्रतिष्ठितत्व होगा, पुरुषविधत्व नहीं होगा, और इस वैश्वानर को वाजसनेयी पुरुषविध भी पढते हैं कि ( पुरुष सदृश और पुरुष के अन्दर प्रतिष्ठित जानते हैं ) इत्यादि । यहाँ प्रकरण से पुरुषविधत्व वह है कि जो अधिदैवत द्युमूर्द्धत्वादि से युक्त पृथिवी प्रतिष्ठितत्व पर्यन्त है । और मूर्धत्वादियुक्त चुबुकप्रतिष्ठितत्व पर्यन्त जो अध्यात्म प्रसिद्ध है । अर्थात् एक विराड्देहाकारत्व है । और एक उपासक के शिर से डाढी तक मे कल्पित ईश्वर के पुरुषविधत्व हैं । वेही यहाँ परिगृहीत होते है, देहव्यापित्वादि का ग्रहण नहीं होता है ॥ २६ ॥

## अत एव न देवता भूतं च ॥ २७ ॥

यत्पुनरुक्तम्—भूताग्नेरपि मन्त्रवर्णे द्युलोकादिसम्बन्धदर्शनान्मूर्धैव सुतेजा इत्याद्यवयवकल्पनं तस्यैव भविष्यतीति, यच्छरीराया देवताया वैश्वर्ययोगात्— इति । तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते—अत एवोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वैश्वानरः । तथाभूताग्निरपि न वैश्वानरः । नहि भूताग्नेरौष्ण्यप्रकाशमात्रात्मकस्य द्युमूर्धत्वादिकल्पनोपपद्यते, विकारस्य विकारान्तरात्मत्वासम्भवात् । तथा देवतायाः सत्यप्यैश्वर्ययोगे न द्युमूर्धत्वादिकल्पना सम्भवति । अकारणत्वात्परमेश्वराधीनैश्वर्यत्वाच्च । आत्मशब्दासम्भवश्च सर्वेष्वेषु पक्षेषु स्थित एव ॥२७॥

जो यह कहा था कि भूताग्नि का भी मन्त्रवर्ण मे द्युलोकादि के साथ सम्बन्ध देखा ( सुना ) जाता है, उससे ( मूर्धैव सुतेजा ) इत्यादि वचनो द्वारा अग्नि के ही अवयवो की कल्पना हो सकती है, अथवा उस अग्नि रूप शरीर वाले देव के अवयवो की कल्पना हो सकती है ? इस शंका का परिहार ( निवारण ) अवश्य कर्तव्य है । उक्त द्युमूर्धत्वादि सर्वलोकफलभागित्व सर्वपापप्रहादिरूप हेतुओ से ही देवता वैश्वानर नहीं है तथा भूताग्नि भी वैश्वानर नहीं है, क्योंकि औष्ण्य ( उष्णता ) और प्रकाशमात्र जिसकी आत्मा ( स्वरूप ) है, ऐसी भूताग्नि के द्युमूर्धत्वादि की कल्पना युक्त सिद्ध नहीं हो सकती है, जिससे एक विकार की विकारान्तरात्मता का असम्भव है । वैसे ही देवता के ऐश्वर्यादि का सम्बन्ध रहते भी द्युमूर्धत्वादिकल्पना का सम्भव नहीं है, क्योंकि देवता उपादान कारण नहीं है, और उसका ऐश्वर्य ईश्वराधीन है । इन सभी पक्षो मे आत्मशब्द का असम्भव तो स्थिर ही है ॥ २७ ॥

## साक्षादप्यविरोधं जौमिनिः ॥ २८ ॥

पूर्वं जाठराग्निप्रतीको जाठराग्न्युपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्तमन्तः-प्रतिष्ठितत्वाद्यनुरोधेन । इदानीं तु विनैव प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां साक्षादपि परमेश्वरोपासनपरिग्रहे न कश्चिद्विरोध इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । ननु जाठराग्न्यपरिग्रहेऽन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि विरुद्ध्येरन्निति । अत्रोच्यते—अन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं तावन्न विरुद्ध्यते । नहीह 'पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति जाठराग्न्यभिप्रायेणोद्मुच्यते । तस्याप्रकृतत्वादसंशब्दितत्वाच्च । कथं तर्हि यत्प्रकृतं मूर्धादिचुबुकान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं कल्पितं तदभिप्रायेणोद्मुच्यते—'पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति । यथा वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्यतीति तद्वत् । अथवा यः प्रकृतः परमात्माध्यात्ममधिदैवतं च पुरुषविधत्वोपाधिस्तस्य यत्केवलं साक्षिरूपं तदभिप्रायेणोद्मुच्यते—'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति । निश्चिते च पूर्वापरालोचनवशेन

परमात्मपरिग्रहे तद्विषय एव वैश्वानरशब्दः केनचिद्योगेन वर्तियते । विश्वश्चायं नरश्चेति, विश्वेषां वायं नरः, विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः परमात्मा, सर्वात्मत्वात् । विश्वानर एव वैश्वानरः । तद्धितोऽनन्यार्थः, राक्षसवाद्यसादिवत् । अग्निशब्दोऽप्यप्रणीत्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एव भविष्यति । गार्हपत्यादिकल्पनं प्राणाहुत्यधिकरणत्वं च परमात्मनोऽपि सर्वात्मत्वादुपपद्यते ।

प्रथम जाठरामि रूप प्रतीक ( मूर्ति ) वाले वा जाठरामि रूप उपाधि वाले परमेश्वर उपास्य हैं, यह बात अन्तःप्रतिष्ठितत्वादि के अनुरोध ( अनुकूलता ) से कही गई है । अब इस समय कहा जाता है कि प्रतीक और उपाधि की कल्पना के बिना ही साक्षात् भी परमेश्वर की उपासना का स्वीकार करने पर कोई विरोध नहीं है, इस प्रकार जैमिनि आचार्य मानते हैं । यहाँ कोई पूर्व वर्णित शंका करते हैं कि जाठरामि के सर्वथा अपरिग्रह ( अस्वीकार ) करने पर अन्तःप्रतिष्ठितत्व-वचन और पूर्वोक्त शब्दादि कारण विरुद्ध होंगे । इसका उत्तर है कि प्रथम अन्तःप्रतिष्ठितत्व-वचन तो नहीं विरुद्ध होता है, क्योंकि यहाँ ( पुरुषविध पुरुष के अन्तःप्रतिष्ठित को जाने ) यह वचन जाठरामि के अभिप्रायसे नहीं कहा जाता है, वह अग्नि अप्रकृत है, अर्थात् यहाँ जाठरामि का कोई प्रकरण नहीं है, और असशब्दित है, अर्थात् खास उसके वाचक शब्द से जाठरामि कही नहीं गई है । अग्नि आदि शब्द ईश्वर के वाचक हैं, जाठरामि के नहीं । यदि कहो कि अन्दर जाठरामि की स्थिति के अभिप्राय से अन्तःप्रतिष्ठितत्व—वचन नहीं है, तो किस अभिप्राय से वैसा वचन है ? इसका समाधान है कि जो पुरुषविधत्व प्रकृत है और मूर्धादिचुबुकान्त पुरुष के अवयवों में कल्पित है, उसके अभिप्राय से यह कहा जाता है कि ( पुरुषविध पुरुष प्रतिष्ठित को जाने ) यह पुरुष के अन्दर देखने के बिना पुरुषविध शिर आदि को पुरुष में इस प्रकार से देखता है, जैसे वृक्ष में प्रतिष्ठित शाखा को मनुष्य देखता है । अथवा अध्यात्म और अधिदैवत पुरुषविधत्वोपाधिवाला जो परमात्मा प्रकृत है, उसका जो केवल साक्षिरूप है उसके अभिप्राय से यह कहा जाता है कि ( पुरुष के अन्दर प्रतिष्ठित जाने ) और पूर्वापर ग्रन्थ के पर्यालोचन के बश से परमात्म-परिग्रह के निश्चित होने पर वैश्वानर शब्द भी किसी योग ( अवयव शक्ति ) द्वारा उस परमात्मविषय ( अर्थ ) में ही स्थित रहेगा । योगवृत्ति ऐसी होगी कि ( विश्वरूप यह नर है—अर्थात् सर्वात्मा है ) अथवा विश्व का कर्ता नर ईश्वर है, अथवा सब नर ( जीव ) इसके स्वरूप है, क्योंकि यह सर्वात्मा है । स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय होने से विश्वानर ही वैश्वानर कहाता है, और ( नरे संज्ञायाम् ) इस सूत्र से विश्व शब्द को दीर्घ होता है । यहाँ तद्धित का अन्य अर्थ नहीं है, जैसे वायस राक्षसादि शब्दों में प्रकृति के अर्थ से अन्य प्रत्ययार्थ नहीं रहता है । अग्नि शब्द भी अग्रफल-प्रापकत्वादि योग के आश्रयण द्वारा परात्मविषयक ही होगा । इसी प्रकार गार्हपत्यादि

रूपता की कल्पना और प्राणाहुति का अधिकरणत्व भी परमात्मा के सर्वात्मत्व से उपपन्न सिद्ध होता है ॥ २८ ॥

कथं पुनः परमेश्वरपरिग्रहे प्रादेशमात्रश्रुतिरूपपद्यत इति तां व्याख्यातु-  
मारभते—

### अभिव्यक्तेरित्याह्मरथ्यः ॥ २९ ॥

अतिमात्रस्यापि परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्तं स्यात् । अभि-  
व्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां कृते । प्रदेशेषु वा  
हृदयादिषूपलब्धिस्थानेषु विशेषेणाभिव्यज्यते । अतः परमेश्वरेऽपि प्रादेशमात्र-  
श्रुतिरभिव्यक्तेरूपपद्यत इत्याह्मरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २८ ॥

यहाँ शङ्का होती है कि पूर्वरीति से परमात्मा के स्वीकार करने पर प्रादेशमात्र  
श्रुति कैसे उपपन्न होगी अर्थात् फैलाई हुई तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्यभाग को एक  
वितस्ति से भी कम प्रदेश को प्रादेश कहते हैं, परमात्मा प्रादेशमात्रवृत्ति कैसे होगा ? इस  
शंका की निवृत्ति के लिए उस श्रुति का व्याख्यान करने के लिए आरम्भ करते हैं—  
'अभिव्यक्तेरित्याह्मरथ्यः' इति अर्थात् सब परिमाणों से रहित परमेश्वर को भी प्रादेश-  
मात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्तक होता है । क्योंकि उपासकों के लिए प्रादेशमात्र-परिमाण  
वाला ही परमेश्वर अवश्य अभिव्यक्त ( प्रकट ) होता है । अथवा उपलब्धि ( ज्ञान ) के  
स्थान हृदयादि प्रदेशों में विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है । इससे ( प्रदेशेषु मीयते  
ज्ञायते ) ऐसा प्रादेशमात्र कहा जाता है । इससे परमेश्वर में भी अभिव्यक्तिरूप हेतु  
से प्रादेशमात्रता की श्रुति उपपन्नयुक्त होती है, इस प्रकार आह्मरथ्य आचार्य  
मानते हैं ॥ २९ ॥

### अनुस्मृतेर्बादरिः ॥ ३० ॥

प्रादेशमात्रहृदयप्रतिष्ठेन वायं मनसाऽनुस्मर्यते तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते ।  
यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते तद्वत् । यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव  
परिमाणं प्रस्थसम्बन्धाद्ब्रूय्यते, न चेह परमेश्वरगतं किञ्चित्परिमाणमस्ति  
यद्दृश्यसम्बन्धाद्ब्रूय्यते; तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्रुतेः सम्भवति  
यथाकथंचिदनुरणमालम्बनमित्युच्यते । प्रादेशमात्रत्वेन वायमप्रादेशमात्रोऽ-  
प्यनुस्मरणीयः प्रादेशमात्रश्रुत्यर्थवत्तायै । एवमनुस्मृतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेश-  
मात्रश्रुतिरिति बादरिराचार्यो मन्यते ॥ ३० ॥

अथवा प्रादेशमात्र ( देशविशेषमात्र ) रूप हृदय में रहने वाला मन से यह परमात्मा  
स्मरण का विषय होता है ( ध्यान में आता है ) उससे प्रादेशमात्र कहा जाता है,  
जैसे कि प्रस्थनामक प्रमाण विशेष से मित ( मापे-तौले गए ) जौ ( यव ) भी

प्रस्थ कहलाते हैं। वैसे ही प्रादेशरूप मन से मित ( ज्ञात-स्मृत ) होने से परमात्मा प्रादेशमात्र कहलाता है। यद्यपि यवो मे स्वगत ही परिमाण प्रस्थ के सम्बन्ध से अभिव्यक्त ( ज्ञात ) होता है। यहाँ परमात्मा मे रहने वाला कोई भी परिमाण नहीं है कि जो परिमाण हृदय-सम्बन्ध से अभिव्यक्त हो। तथापि परमात्मविषयक प्रयुक्त ( कथित ) प्रादेशमात्र श्रुति-वचन का जिस किसी प्रकार से अनुस्मरण आलम्बन ( विषय ) हो सकता है इस आशय से श्रुति कहती है, कि मनगत प्रादेशमात्रता मन से स्मृत परमात्मा मे कल्पित होती है, अथवा सूत्र का अर्थ है कि प्रादेशमात्र श्रुति की अर्थवत्ता ( सफलता ) के लिये यह अप्रादेशमात्र ( विभु ) परमात्मा भी प्रादेशमात्ररूप से स्मरण के योग्य है, अर्थात् परमात्मा के प्रादेशमात्र नहीं रहते हुए भी श्रुति की सार्थकता के लिए वैसा स्मरण करना चाहिये। इस प्रकार अनुस्मरणनिमित्तक परमात्मा मे प्रादेशमात्र श्रुति है, यह बादरि आचार्य मानते हैं ॥ ३० ॥

### सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शयति ॥ ३१ ॥

सम्पत्तिनिमित्ता वा स्यात्प्रादेशमात्रश्रुतिः । कुतः ? तथाहि—समानप्रकरणं वाजसनेयिब्राह्मणं द्युप्रभृतीन्पृथिवीपर्यन्तास्त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्यावयवानध्यात्ममूर्धप्रभृतिषु चुबुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु सम्पादयत्प्रादेशमात्रसम्पत्ति परमेश्वरस्य दर्शयति—प्रादेशमात्रमिव ह वै देवाः सुविदिता अभिसम्पन्नास्तथानु व एतान्वदयामि यथा प्रादेशमात्रमेवाभिसंपादयिष्यामीति, स होवाच मूर्धानमुपदिशन्नुवाच एष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति । चक्षुषी उपदिशन्नुवाचैष वै सुतेजा वैश्वानर इति । नासिके उपदिशन्नुवाचैष वै पृथग्वर्त्मात्मा वैश्वानर इति । मुख्यमाकाशमुपदिशन्नुवाचैष वै बहुलो वैश्वानर इति । मुख्या अप उपदिशन्नुवाचैष वै रथिवैश्वानर इति । चुबुकमुपदिशन्नुवाचैष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर इति । चुबुकमित्यधरं मुखफलकमुच्यते । यद्यपि वाजसनेयके द्यौरतिष्ठात्वागुणा समान्नायते आदित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः, छान्दोग्ये पुनर्यौः सुतेजस्त्वगुणा समान्नायते, आदित्यश्च विश्वरूपत्वगुणः । तथापि नैतावता विशेषेण किञ्चिद्धीयते, प्रादेशमात्रश्रुतेरविशेषात्, सर्वशाखाप्रत्ययत्वाच्च । संपत्तिनिमित्तां प्रादेशमात्रश्रुतिं युक्ततरां जैमिनिराचार्यो मन्यते ॥ ३१ ॥

अथवा सम्पत्ति ( लघु का बृहत्संपादन ) निमित्तक यह प्रादेशमात्र श्रुति है, क्योंकि वैसा ही वर्णनरूप ब्राह्मण ग्रन्थ इस अर्थ को प्रदर्शित करता है। इस प्रादेश श्रुति के तुल्य प्रकरणे वाला वाजसनेयी ब्राह्मणरूप ग्रन्थ पृथिवी आदि तीन लोक पर्यन्त जो त्रिलोकात्मक वैश्वानर के महान् अवयव हैं, उनको अपने आत्म ( देह )—सम्बन्धी मूर्धादि चुबुक ( दाढ़ी ) पर्यन्त देह के अवयवो मे सम्पादन ( प्रतिपादन सिद्ध ) करता हुआ परमेश्वर

को भी प्रादेशमात्रता की प्राप्ति दिखलाता है (प्रादेशरहित ईश्वर को भी प्रथम के देव सबने सम्पत्ति से प्रादेशमात्र के समान समझा, और प्राप्त किया। जिस प्रकार देवताओं ने उसे प्रादेशमात्र प्रत्यगात्मा रूपसे प्राप्त किया, उसी प्रकार इन द्युलोकादि अवयवों को हमलोगों ने (यह कैकेय राजा का कथन प्राचीनशालादियों के प्रति है) जिस रीति से वैश्वानर को प्रादेशमात्र ही सिद्ध कर फिर अपने शिर का उपदेश करता (अङ्गुली से प्रदर्शन करता) हुआ वह राजा बोला कि यह मेरा शिर भूरादि लोको का अतिक्रमण करने वाला निश्चय से अतिष्ठा नामक वैश्वानर का अवयव है। नेत्रों को दिखाता हुआ उसने कहा कि यह निश्चय सुन्दर तेज वाला सुतेजानामक वैश्वानर का अवयव है। नासिका को दिखाता हुआ कहा—कि यह (इसमें रहने वाला प्राण) पृथक् गतिवाला वायु स्वरूप वैश्वानर का अवयव है। मुख के आकाश को दिखाता हुआ कहा—कि यह बहुल (आकाश) नामक वैश्वानर का अवयव है। मुख के जल को दिखाता हुआ कहा—कि यह रयि (बस्तिस्थ उदक) रूप वैश्वानर का अवयव है। चुबुक (डाढ़ी) को दिखाता हुआ कहा—कि यह अवश्य प्रतिष्ठा (पाद) रूप विश्वानर का अवयव है। (मुख के नीचे के भाग को चुबुक कहते हैं)। यद्यपि वाजसनेयक में द्युलोक को अतिष्ठात्व गुण वाला पदा है और आदित्य को सुतेजस्त्व गुण वाला कहा है। और छान्दोग्य में द्युलोक को सुतेजस्त्व गुण वाला पदा है, आदित्य को विश्वरूपत्व गुण वाला पदा है तो भी इतने भेद से कुछ हानि नहीं होती है। विद्या में भेद नहीं समझी जाती है, क्योंकि प्रादेशमात्र का श्रवण दोनों में अविशेष (तुल्य) है। एवं शाखा का भेद होते हुए भी शाखाओं में प्रतीत होने वाली वैश्वानरादि की उपासना एक है यह न्याय आगे कहना है। इससे सम्पत्तिनिमित्तक श्रुति को प्रादेशमात्र ही जैमिनि आचार्य युक्ततर मानते हैं ॥ ३१ ॥

### आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ ३२ ॥

आमनन्ति चैनं परमेश्वरमस्मिन्मूर्धचुबुकान्तराले जाबालाः—‘य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति। सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति। वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति। का वै वरणा का च नासीति’। तत्र चेमामेव नासिकां वरणा नासीति निरुच्य या सर्वाणीन्द्रियकृतानि पापानि वारयतीति सा वरणा, सर्वाणीन्द्रियकृतानि पापानि नाशयतीति सा नासीति। पुनरामनन्ति—‘कतमन्वास्य स्थान भवतीति, भ्रुवोर्ग्राणस्य च यः सन्धिः स एष द्युलोकस्य परस्य च सन्धिर्भवतीति’ (जाबा० १)। तस्मादुपपन्ना परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिः। अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगात्मत्वाभिप्राया। प्रत्यगात्मतया सर्वैः प्राणिभिरभिविमीयत इत्यभिविमानः। अभिगतो वायं प्रत्यगात्मत्वाद्धिमानश्च मानवियोगादित्यभिविमानः। अभिवि-

मिमीते वा सब जगत्कारणत्वादित्यभिविमानः । तस्मात्परमेश्वरो वैश्वानर इति सिद्धम् ॥ ३२ ॥

इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये  
प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥



परमेश्वर के मूर्धा और चुबुक के अन्तराल ( मध्य ) में जाबाल प्रश्न करते हैं कि अव्यक्त अनन्त आत्मा को कैसे जानूँगा ? इस प्रकार अत्रि जी के द्वारा प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य जी बोले कि जो यह अनन्त अव्यक्त आत्मा है वह अविमुक्त ( कामादि से बद्ध जीव ) के अन्दर प्रतिष्ठित ( स्थिर ) है । इससे वही उपासना से जानने योग्य है । फिर अत्रि जी बोले कि वह अविमुक्त कहाँ प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य जी बोले कि वह अविमुक्त वरणा और नासी के मध्य में प्रतिष्ठित है । अत्रि जी बोले कि वह वरणा कौन है, और नासी कौन है ? तब उस जाबाल-श्रुति में इस भ्रूसहित नासिका को ही वरणा और नासी निश्चयपूर्वक कहकर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि इन्द्रियकृत सब पापों का वारण करती है इससे भ्रुवारण है और इन्द्रियकृत सब पापों का नाश करती है इससे नासिका नासी है । पुनः प्रश्न होता है कि उन दोनों में भी इस जीव का स्थान कौन है ? उत्तर है कि दोनों भ्रू और नासिका की जो सन्धि रूप त्रिकुटी है, वही द्युलोक और परलोक परमात्मा की सन्धि ( गुप्त स्थान ) है । उससे परमेश्वर में प्रादेशमात्र श्रुति उपपन्न ( सिद्ध ) होती है । एव प्रत्यागात्मत्व के अभिप्राय से अभिविमान श्रुति है, क्योंकि प्रत्यगात्मारूप से जो सब प्राणियों से जाना जाय उसको अभिविमान कहते हैं, सब प्राणी के अहं प्रत्यय ( ज्ञान ) का विषय साक्षीरूप वस्तुतः परमात्मा ही है । अथवा प्रत्यगात्मा ( सबकी अन्तरात्मा ) होने से परमात्मा सब को अभिगत ( प्राप्त ) है, और व्यापक होने से परिमाण रहित है विगतमान है, इससे अभिविमान कहलाता है । अथवा कारण होने से सब जगत् का अभितः विमाता निर्माता कर्ता है इससे अभिविमान कहाता है । तथा उससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर वैश्वानर है ॥ ३२ ॥

प्रथमाध्याय का द्वितीय पाद समाप्त ।



## प्रथमाध्याये तृतीयः पादः

[ अत्रास्पष्टब्रह्मलिङ्गानां प्रायो ज्ञेयब्रह्मविषयाणां विचारः । एवं  
पादत्रयेणापि वाक्यविचारः ]

१ द्युभ्वाद्याधिकरण ॥ १ ॥

सूत्रं प्रधानं भोक्तेशो द्युभ्वाद्यायतनं भवेत् । श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिभ्यां भोक्तृत्वाच्चेत्श्वरेतरः ।  
नाद्यौ पञ्चावात्मशब्दाच्च भोक्ता मुक्तगम्यतः । ब्रह्मप्रकरणादीशः सर्वज्ञत्वादितस्तथा ॥

मुण्डक श्रुति मे जो स्वर्ग भूमि आदि का आश्रय सुना गया है, वह सूत्रात्मा  
( हिरण्यगर्भ ) है, या प्रधान है, अथवा भोक्ता जीव है या ईश्वर है ? ऐसी शका  
होने पर पूर्वपक्ष है कि सूत्रात्मा रूप वायु से लोक ग्रथित है, इत्यादि श्रुति-प्रसिद्धि  
के अनुसार सूत्रात्मा हो सकता है अथवा साख्य स्मृति मे प्रसिद्धि के अनुसार प्रधान  
हो सकता है, अथवा भोक्ता होने से कर्म द्वारा सब का आश्रय जीव हो सकता है  
जो ईश्वर से भिन्न है । सिद्धान्त है कि आत्म शब्द के श्रवण से सूत्रात्मा और प्रधान  
नहीं हो सकते हैं, मुक्त से प्राप्यता के श्रवण से भोक्ता जीव भी नहीं हो सकता है,  
और ब्रह्म के प्रकरण से तथा सर्वज्ञत्वादि के श्रवण से ईश्वर ही स्वर्ग-भूमि आदि का  
आश्रय है, अन्य नहीं ॥ १-२ ॥

द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ १ ॥

इदं श्रूयते—

यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः ।

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः ॥

( मुण्ड० २।२।५ ) इति । अत्र यदेतद्द्युप्रभृतीनामोतत्ववचनादायतनं  
किञ्चिद्वगम्यते, तत्किं परं ब्रह्म स्यादाहोस्विदर्थान्तरमिति सन्दिह्यते ।  
तत्रार्थान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति प्राप्तम् । कस्मात् ? 'अमृतस्यैष सेतुः'  
इति श्रवणात् । पारवान् हि लोके सेतुः प्रख्यातः । न च परस्य ब्रह्मणः पारवत्त्वं  
शक्यमभ्युपगन्तुम् 'अनन्तमपारम्' ( बृह० २।४।१२ ) इति श्रवणात् । अर्था-  
न्तरे चायतने परिगृह्यमाणे स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानं परिगृहीतव्यं, तस्य हि  
कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः । श्रुतिप्रसिद्धो वा वायुः स्यात्, 'वायुर्वै गौतम  
तत्सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि  
सन्दृब्धानि भवन्ति' ( बृह० ३।७।२ ) इति वायोरपि विधारणत्वश्रवणात् ।  
शारीरो वा स्यात्, तस्यापि भोक्तृत्वाद्भोग्यं प्रपञ्चं प्रत्यायतनत्वोपपत्तेरिति ।



यह सुना जाता है कि ( जिसमे स्वर्ग, भूमि और अन्तरिक्ष रूप सब स्थूल प्रपञ्च ओत ( समाश्रित-अर्पित ) है और सब गौण-मुख्य प्राण-इन्द्रियादि सहित मन ( सूक्ष्म प्रपञ्च ) जिसमे ओत है ( कल्पित ) है। उसी एक सर्वाधिष्ठान आत्मा को जानो ( श्रवणादि से समझो ), और अन्य अनात्मबोधक वचनो को सर्वथा त्याग दो। क्योंकि अनात्मपरक वचनादि का त्यागपूर्वक आत्मदर्शन ही संसार सिन्धु के पार रूप अमृत को प्राप्त कराने मे सेतु ( पुल ) तुल्य है। इस श्रुति मे स्वर्ग-भूमि आदि के ओतत्व-कथन से जो यह कुछ आश्रय प्रतीत होता है, वह क्या परब्रह्म है ? अथवा अर्थान्तर है ? ऐसा सन्देह होता है। वहाँ पूर्वपक्ष है कि कोई अर्थान्तर आयतन ( आश्रय ) होना चाहिए ऐसा ही प्राप्त ( ज्ञात ) होता है, क्योंकि यह अमृत का सेतु है, इस प्रकार भेद सुना जाता है और लोक मे सेतु पार वाली वस्तु ही प्रख्यात ( प्रसिद्ध ) है। परब्रह्म को पारवत्त्व ( परिच्छिन्नत्व ) माना नहीं जा सकता है, क्योंकि ( अनन्तम्-अपारम् ) ऐसा सुना गया है। इस कारण से अर्थान्तर रूप जगदाश्रय के स्वीकार करने पर स्मृति मे प्रसिद्ध प्रधान स्वीकार के योग्य है, क्योंकि उसको कारणत्व होने से आश्रयत्व सिद्ध हो सकता है। अथवा श्रुति मे प्रसिद्ध वायु जगदाश्रय हो सकता है। श्रुति है कि ( हे गौतम ! वायु ही वह निश्चित सूत्र ( सूत्रात्मा ) है इससे हे गौतम ! वायु रूप सूत्र से ही यह लोक-परलोक और सब भूत सन्द्ब्ध ( ग्रथित घृत ) है। इससे वायु को भी विचारकत्व का श्रवण होता है, अथवा जीव आयतन हो सकता है। क्योंकि उसको भोक्तृत्व के रहने से भोग्य प्रपञ्च के प्रति आयतनत्व की सिद्धि होसकती है।

एवं प्राप्त इदमाह—द्युभ्वाद्यायतनमिति । द्यौश्च भूश्च द्युभुवादी यस्य तदिदं द्युभ्वादि । यदेतदस्मिन्वाक्ये द्यौः पृथिव्यन्तरिक्षं मनः प्राणा इत्येवमात्मकं जगदोतत्वेन निर्दिष्टं तस्यायतनं परं ब्रह्म भवितुमर्हति । कुतः ? स्वशब्दात् आत्मशब्दादित्यर्थः । आत्मशब्दो हीह भवति—‘तमेवैकं जानथ आत्मानम्’ इति । आत्मशब्दश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकल्पते नार्थान्तरपरिग्रहे । क्वचिच्च स्वशब्देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते—‘सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः’ ( छां० ६.८.४ ) इति । स्वशब्देनैव चेह पुरस्तादुपरिष्ठाच्च ब्रह्म सङ्कीर्त्यते—‘पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्’ इति । ‘ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण’ ( मुण्ड० २।२।११ ) इति च । तत्र त्वायतनायतनवद्भावश्रवणात् ‘सर्वं ब्रह्मे’ति च सामानाधिकरण्यात् । यथानेकात्मको वृक्षः शाखा स्कन्धो मूलं चेत्येवं नानारसो विचित्र आत्मेत्याशङ्का सम्भवति तां निवर्तयितुं सावधारणमाह—‘तमेवैकं जानथ आत्मानम्’ इति ।

इस प्रकार पूर्वपक्ष के प्राप्त होने पर सूत्रकार यह कहते है कि द्युभू आदि का

आयतन ब्रह्म है। यहाँ दिव ( स्वर्ग ) और भूमि को द्युभुवौ कहते हैं, और वे दोनों हैं आदि जिसके वह समूह द्युभवादिक होता है, ऐसा जो इस श्रुति-वाक्य में कथित स्वर्ग, भूमि, अन्तरिक्ष, मन, प्राणादि हैं, और एतत्स्वरूप ही सब जगत् है, जो कि ओत रूप से निर्दिष्ट ( कथित ) है, उस सब जगत् का आयतन परब्रह्म ही होने योग्य है, क्योंकि वहाँ ब्रह्म का स्ववाचक आत्मशब्द है। ( उस एक आत्मा ही को जानो ) इस वाक्य में यहाँ आत्मशब्द है। और परमात्मा के स्वीकार करने पर आत्मशब्द का प्रयोग सम्यक् सिद्ध होता है, अर्थान्तर के स्वीकार करने पर ऐसा नहीं होगा। कही साक्षात् आयतन शब्द से ही ब्रह्म का आयतनत्व सुना जाता है कि ( हे सोम्य ! सद्ब्रह्मरूप मूल वाली ये सब प्रजा है, और स्थिति काल में सत् आयतन वाली हैं, अन्त में सब सत् में प्रतिष्ठा ( समाप्ति ) वाली है। यहाँ स्ववाचक शब्द से ही प्रथम और आगे भी ब्रह्म कहा जाता है कि ( पुरुष ही यह सब विश्वस्वरूप है, कर्म, तप आदि रूप विश्व है और ब्रह्म पर अमृत स्वरूप है। ( यह अमृत ब्रह्म ही पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर है ) परन्तु यस्मिन् इत्यादि श्रुति में सन्मूलादि श्रुति में आयतन-भाव और आयतनवद्भाव के श्रवण से तथा ( सब ब्रह्म ) है इस प्रकार सब जगत् के साथ ब्रह्म की समानाधिकरणता ( एकविभक्तिवाच्य अभिन्नता ) से आशंका हो सकती है कि जैसे अनेकात्मक वृक्ष होता है, शाखा, स्कन्ध और मूल ये सब वृक्ष रूप हैं, सब को मिलाकर वृक्ष कहा जाता है, वैसे ही नाना रस ( गुण-शृङ्गारादि ) वाला विचित्र आत्मा है। उस शङ्का को निवारण करने के लिये अवधारण ( निश्चय ) पूर्वक श्रुति कहती है कि उस एक आत्मा को ही जानो।

एतदुक्तं भवति—न कार्यप्रपञ्चविशिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेयः। किं तर्हि ? अविद्याकृतं कार्यप्रपञ्चं विद्यया प्रविलापयन्तस्तमेवैकमायतनभूतमात्मानं जानथैकरसमिति। यथा यस्मिन्नास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवानयति न देवदत्तम्, तद्वदायतनभूतस्यैवैकरसस्यात्मनो विज्ञेयत्वमुपदिश्यते। विकारानृताभिसन्धस्य चापवादः श्रूयते—‘मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ ( का० २.४।११ ) इति। सर्वं ब्रह्मेति तु सामानाधिकरण्यं प्रपञ्चप्रविलापनार्थं नानेकरसताप्रतिपादनार्थम्, ‘स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव’ ( बृह० ४।५।१३ ) इत्येकरसताश्रवणात्। तस्माद्द्युभवाद्यायतनं परं ब्रह्म। यत्तूक्तं—सेतुश्रुतेः सेतोश्च पारवत्त्वोपपत्तेर्ब्रह्मणोऽर्थान्तरेण द्युभवाद्यायतनेन भवितव्यम्—इति। अत्रोच्यते—विधारणत्वमात्रमत्र सेतुश्रुत्या विवक्ष्यते, न पारवत्त्वादि। नहि मृदारुमयो लोके सेतुर्दृष्ट इत्यत्रापि मृदारुमय एव सेतुरभ्युपगम्यते। सेतुशब्दार्थोऽपि विधारणत्वमात्रमेव न पारवत्त्वादि, षिव्यो बन्धन-कर्मणः सेतुशब्दव्युत्पत्तेः।

इससे यह उक्त ( कथित ) होता है कि कार्यविस्तारयुक्त विचित्र आत्मा नहीं विज्ञेय ( विशेष रूप से जानने योग्य ) है, तो क्या जानना कि अविद्याकृत कार्यविस्तार को विद्या से विलय करते हुए उस एक आयतनस्वरूप आत्मा को एकरस जानो । जैसे कि कहा जाय कि जिस पर देवदत्त बैठा है उसे लाओ, तो आसन को ही लाता है, देवदत्त को नहीं । वैसे ही आयतनस्वरूप एकरस आत्मा को विज्ञेयत्व का उपदेश दिया जाता है और विकार रूप अनृत ( मिथ्या ) मे अभिसन्ध ( अभिमान आसक्ति ) वाले का अपवाद ( निन्दा ) सुना जाता है कि ( जो इस एकरस ब्रह्म को नाना के समान देखता है वह जन्म-मृत्यु के प्रवाह मे पडता है ) । 'सब ब्रह्म है' इस प्रकार जो समानाधिकरणाता है, वह रज्जुसर्पतुल्य प्रपञ्च का बाध द्वारा विलय के लिए है, अनेक रसता का प्रतिपादन के लिये नहीं है । क्योंकि ( जैसे लोक मे प्रसिद्ध लवण का पिण्ड बाहर-भीतर रसान्तरसे शून्य सम्पूर्ण लवण रसमय ही रहता है, अरे मैत्रेयि ! इसी प्रकार यह आत्मा बाहर-भीतर भेदरहित सम्पूर्ण प्रज्ञानरूप एक रस ही है ) । इत्यादि श्रुति से एकरसता सुनी जाती है । उससे स्वर्गादि का आयतन ब्रह्म है । एवं जो यह कहा है कि श्रुति में सेतु कहने से और सेतु को पारवत्त्व की सिद्धि से, ब्रह्म से अर्थान्तर ही दिव-भूमि आदि का आश्रय होना चाहिये । यहाँ कहा जाता है कि सेतु-श्रुति से विधारण मात्र ही यहाँ अर्थ विवक्षित हैं, पारवत्त्वादि विवक्षित नहीं है । लोग मे मिट्टी, लकड़ी आदिमय सेतु देखा गया है । इससे यहाँ श्रुति मे मिट्टी, लकड़ी से बना हुआ सेतु का स्वीकार नहीं किया जा सकता है । और सेतु शब्द का अर्थ भी विधारण-त्वमात्र ही है, पारवत्त्वादि उसका अर्थ नहीं है । क्योंकि बन्धनक्रियार्थक षिञ् धातु से सेतु शब्द सिद्ध होता है, वहाँ बन्धन से नियमन रूप विधारण अर्थ की ही प्रतीति होती है । वह ब्रह्म सबके अमृत को धारण करने वाला है, तथा सत्य-धर्मादि का धारण करने वाला है । इसी से 'स सेतुरीजानानाम् । स सेतुर्विद्युतिः । एष सेतुर्विधारणः' इत्यादि श्रुति से सङ्गति होती है ।

अपर आह—'तमेवैकं जानथ आत्मानम्' इति यदेतत्सङ्कीर्तितमात्मज्ञानं, यच्चैतत् 'अन्या वाचो विमुञ्चथ' इति वाग्विमोचनं, तदत्रामृतत्वसाधनत्वात् 'अमृतस्यैष सेतुः' इति सेतुश्रुत्या सङ्कीर्त्यते न तु द्युभवाद्यायतनम् । तत्र यदुक्तं—सेतुश्रुतेर्ब्रह्मणोऽर्थान्तरेण द्युभवाद्यायतनेन भाव्यमिति—एतदयुक्तम् ॥ १ ॥

प्रथम द्युभवादि आयतन के साथ सेतु पद के सम्बन्ध को मानकर शङ्का हुई थी, और उस सम्बन्ध को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया गया है । दूसरे लोग कहते हैं कि सेतु पद का आयतन के साथ सम्बन्ध नहीं, किन्तु ( उस एक आत्मा ही को जानो ) इस वाक्य से जो यह आत्मज्ञान कहा गया है और ( अन्य वचनो को त्यागो ) इस वाक्य से जो यह अन्य वचन का त्याग कहा गया है, वे ही दोनों अमृतत्व का साधन होने से ( यह अमृत का सेतु है ) इस प्रकार सेतु-श्रुति से कहे जाते हैं । द्युभवादि का

आयतन ब्रह्म सेतु पद से नहीं कहा जाता है। 'तत्र' इस प्रकार अन्य वाग्-विमोचन सहित ज्ञान को सेतु मानने पर जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि सेतु के सुनने से ब्रह्म से कोई अन्यार्थ ही स्वर्ग-भूमि आदि का आश्रय होना चाहिये वह अयुक्त है ॥ १ ॥

### मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॥ २ ॥

इतश्च परमेव ब्रह्म द्युभवाद्यायतनम् । यस्मान्मुक्तोपसृप्यतास्य व्यप-  
दिश्यमाना दृश्यते । मुक्तैरुपसृप्यं मुक्तोपसृप्यम् । देहादिष्वनात्मस्वहम-  
स्मीत्यात्मबुद्धिरविद्या, ततस्तत्पूजनादौ रागस्तत्परिभवादौ च द्वेषः, तदुच्छे-  
ददर्शनाद्भयं मोहश्चेत्येवमयमन्तभेदोऽनर्थत्रातः सन्ततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः ।  
तद्विपर्ययेणाविद्यारागद्वेषादिदोषमुक्तैरुपसृप्यं गम्यमेतदिति द्युभवाद्यायतनं  
प्रकृत्य व्यपदेशो भवति । कथम् ?

भिद्यते हृदयप्रन्थिश्लिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हृष्टे परावरे ॥ ( मुण्ड० २।२।८ )

इत्युक्त्वा ब्रवीति—

तथा विद्वान्नामरूपाद्धिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।

( मुण्ड० २।२।८ ) इति । ब्रह्मणश्च मुक्तोपसृप्यत्वं प्रसिद्धं शास्त्रे—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ( बृह० ४।४।७ )

इत्येवमादौ । प्रधानादीनां तु न कचिन्मुक्तोपसृप्यत्वमस्ति प्रसिद्धम् । अपि च  
'तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः' इति वाग्वि-  
मोकपूर्वकं विज्ञेयत्वमिह द्युभवाद्यायतनस्योच्यते । तच्च श्रुत्यन्तरे ब्रह्मणो दृष्टम्—

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।

नानुभ्यायाद्ब्रह्मं श्लब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत् ॥

( बृह० ४।४।२१ ) इति । तस्मादपि द्युभवाद्यायतनं परं ब्रह्म ॥ २ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी परब्रह्म ही द्युभवादि का आयतन है कि जिससे मुक्तो से उपसृप्यता ( प्राप्यता ) कही गई हुई इसकी देखी जाती है । अर्थात् मुक्त पुरुष इस सर्वाधार को प्राप्त होते हैं इस प्रकार श्रुति कहती है, इससे वह सर्वाधार ब्रह्म ही है, अन्य नहीं । मुक्तो से जो उपसृप्य ( प्राप्य ) हो, उसको मुक्तोपसृप्य कहते हैं । प्रथम बन्ध क्या है कि जिससे मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, इस आशङ्का की निवृत्ति के आशय से कहा जाता है कि, 'अनात्मस्वरूप देहादि मे' यह मैं हूँ इस प्रकार की आत्मबुद्धि ( आत्मता का ज्ञान ) अविद्याजन्य होने से अविद्या रूप है, और उस शरीर के पूजन-सत्कारादि मे राग होता है, एवं उस शरीर से परिभव तिरस्कार

अनादरादि मे द्वेष होता है, उस शरीर के उच्छेद-नाशादि के देखने से भय और मोह होते हैं, इस प्रकार के अनन्त भेद वाले अनर्थसमूह (ससार-बन्धन) सर्वत्र सतत (व्याप्त) हम सबको प्रत्यक्ष दीखता है। एव उस अनर्थ से विपरीत (उलटा) स्वभाव से युक्त अविद्या राग-द्वेषादि दोषो से रहित पुरुषो से उपसृप्य गम्य (प्राप्य) यह है, इस प्रकार द्युभ्वादि आयतन के प्रकरण मे कथन है। वह कथन कैसे है कि (उस पर-अवर स्वरूप श्रेष्ठ परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान होने पर इस ज्ञानी के हृदय की ग्रन्थि टूट जाती है। सब सशय नष्ट हो जाते हैं, और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। ऐसा कह कर फिर श्रुति कहती है कि (जैसे समुद्र मे प्राप्त होने पर नदियाँ अपने नाम-रूप को त्याग कर समुद्र रूप से स्थिर होती हैं। वैसे ही विद्वान् भी नाम-रूपात्मक ससार को त्याग कर, कार्यों से पर अव्यक्त से भी पर (पूर्ण) दिव्य (स्वयंप्रकाश) को प्राप्त हो कर तद्रूप से स्थिर होता है)। (इस मुमुक्षु के हृदय मे वर्तमान जो काम है वे हसब जब ज्ञानादि से समूल नष्ट हो जाते हैं उस समय यह मर्त्य भी अमृत हो जाता है, और इस देह मे रहते ब्रह्म को सम्यक् प्राप्त करता है) इत्यादि शास्त्रो मे मुक्तो से प्राप्यता ब्रह्म की प्रसिद्ध है, और प्रधानादि की कही भी मुक्त से प्राप्यता प्रसिद्ध नहीं है दूसरी बात है कि (उसी एक आत्मा को जानो अन्य वचनो को त्यागो, यह अमृत का सेतु है) इस प्रकार अन्य वाक् का त्यागपूर्वक स्वर्गादिक के आश्रय को यहाँ विज्ञेयत्व कहा जाता है, वह विज्ञेयत्व दूसरी श्रुति मे ब्रह्म का देखा गया है कि (धीर विवेकी ब्राह्मण उस आत्मा को जान कर (विशुद्ध लक्ष्य को समझ कर) असग सर्वात्मस्वरूप की प्रज्ञा को प्राप्त करे एव बहुत शब्दो का अनुचिन्तन-अध्ययनादि नहीं करे, क्योंकि उनके चिन्तनादि वाक् और वाक् सम्बन्धी सब वर्णस्थानो के विग्लापन (शोषण श्रम) कारक है। मन मे ग्लानि को पैदा करने वाले हैं इत्यादि। उससे भी द्यु-भूमि आदि का आश्रय पर ब्रह्म है ॥ २ ॥

### नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरुक्तो नैवमर्थान्तरस्य वैशेषिको हेतुः प्रतिपादकोऽस्तीत्याह—नानुमानिकं साङ्ख्यस्मृतिपरिकल्पितं प्रधानमिह द्युभ्वाद्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्। कस्मात्? अतच्छब्दात्। तस्याचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दस्तच्छब्दः, न तच्छब्दोऽतच्छब्दः। न ह्यत्रा-चेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चिच्छब्दोऽस्ति, येनाचेतनं प्रधानं कारणत्वेनायतनत्वेन वाऽवगम्येत। तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादकशब्दो-ऽत्रास्ति—‘यः सर्वज्ञः सर्ववित्’ (मुण्ड० १।१।६) इत्यादिः। अत एव न वायुरपीह द्युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रीयते ॥ ३ ॥

जैसे ब्रह्म का प्रतिपादक वैशेषिक (असाधारण) हेतु कहा है। अर्थान्तर का

प्रतिपादक इस प्रकार के असाधारण हेतु नहीं है। इस अर्थ को सूत्रकार कहते हैं कि आनुमानिक ( केवल अनुमान से ज्ञेय ) साख्य-स्मृति में परिकल्पित प्रधान भी युम्वादि के आश्रय रूप से ज्ञातव्य नहीं है, क्योंकि उसका वाचक कोई शब्द इस प्रकरण में नहीं है। उस अचेतन प्रधान के प्रतिपादक शब्द को तच्छब्द कहा गया है। तच्छब्द का न होना अतच्छब्द है। यहाँ अचेतन प्रधान का प्रतिपादक कोई शब्द नहीं है कि जिससे अचेतन प्रधान को कारण रूप से वा आयतन रूप से समझा जाय। किन्तु उस प्रधान से विपरीत चेतन का प्रतिपादक शब्द ( जो अविनाशी भूतयोनिरूप पुरुष सर्वज्ञ-सर्ववेत्ता है इत्यादि ) में है। इसी अतच्छब्दत्व रूप हेतु से वायु भी यहाँ युम्वादि के आयतन रूप से स्वीकार के योग्य नहीं है ॥ ३ ॥

### प्राणभृच्च ॥ ४ ॥

यद्यपि प्राणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च सम्भवति तथाप्युपाधिपरिच्छिन्नज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाद्यसम्भवे सत्यस्मादेवातच्छब्दात् प्राणभृदपि न युम्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः। न चोपाधिपरिच्छिन्नस्याविभोः प्राणभृतो युम्वाद्यायतनत्वमपि सम्यक्सम्भवति। पृथग्योगकरणमुत्तरार्थम् ॥ ४ ॥

यद्यपि प्राणधारी जीव को आत्मत्व और चेतनत्व का सम्भव है, तथापि उपाधि से परिच्छिन्न ( परिमित ) ज्ञान वाले को सर्वज्ञत्वादि के असम्भव होने पर इस अतच्छब्द ( सर्वज्ञात्मत्वाभाव शब्द ) से ही प्राणधारी भी युम्वादि के आश्रय रूप से स्वीकार के योग्य नहीं है, और उपाधि से परिच्छिन्न ( परिमित ) अतएव एकदेशी प्राणधारी को युम्वादि का आयतनत्व सम्यग् रीति से सम्भव भी नहीं है। अतच्छब्द रूप हेतु के रहते भी प्राणभृच्च, इस योग ( सूत्र ) को प्रथम सूत्र से पृथक् इसलिये किया गया है कि जिससे उत्तर सूत्र में इसकी ही अनुवृत्ति हो ॥ ४ ॥

कुतश्च न प्राणभृद्द्युम्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः—

### भेदव्यपदेशात् ॥ ५ ॥

भेदव्यपदेशश्चेह भवति—‘तमेवैकं जानथ आत्मानम्’ इति ज्ञेयज्ञातृभावेन। तत्र प्राणभृत्तान्मुमुक्षुत्वाज्ज्ञाता, परिशेषादात्मशब्दवाच्यं ब्रह्म ज्ञेयं युम्वाद्यायतनमिति गम्यते, न प्राणभृत् ॥ ५ ॥

किस हेतु से प्राणधारी युम्वादि के आश्रय रूप से अमन्तव्य है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं—‘भेदव्यपदेशात्’ इति। अर्थात् इस युम्वादि के आयतन के प्रकरण में भेद का व्यवहार-कथन है कि ( उस एक आत्मा को ही जानो ) इस प्रकार ज्ञेयभाव और ज्ञातृभाव से भेद का कथन है, उसमें मुमुक्षु होने से प्रथम प्राणधारी ज्ञाता है। और उससे परिशेष रहने के कारण आत्मशब्द का वाच्य ज्ञेय ब्रह्म युम्वादि का आयतन है, ऐसा समझा जाता है, किन्तु प्राणधारी आयतन रूप नहीं समझा जाता है।

कुत्तरच न प्राणभृद्द्युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः—

### प्रकरणात् ॥ ६ ॥

प्रकरणं चेदं परमात्मनः । 'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' ( मु० १।१।३ ) इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणात् । परमात्मनि हि सर्वात्मके विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं स्यान्न केवले प्राणभृति ॥ ६ ॥

कुत्तरच न प्राणभृद्द्युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः—

किस हेतु से प्राणधारी सर्वाश्रय नहीं मन्तव्य है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 'प्रकरणात्' इति । अर्थात् यह परमात्मा का प्रकरण है कि ( हे भगवन् किसके विज्ञात होने से यह सब जगत् विज्ञात होता है । इस प्रकार यहाँ एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की अपेक्षा ( आशा ) की गई है, और एक परमात्मा के ही विज्ञात होने से यह सब जगत् विज्ञात होता है । केवल प्राणधारी के ज्ञात होने से जगत् नहीं ज्ञात हो सकता ॥ ६ ॥

### स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥

द्युभ्वाद्यायतनं च प्रकृत्य 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ' ( मु० ३।१।१ ) इत्यत्र स्थित्यदने निर्दिश्येते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति' इति कर्मफलाशनम्, 'अनन्नन्नन्योऽभिचाकशीति' इत्यौदासीन्येनावस्थानं च । ताभ्यां च स्थित्यदनाभ्यामीश्वरक्षेत्रज्ञौ तत्र गृह्येते । यदि चेश्वरो द्युभ्वाद्यायतनत्वेन विवक्षितस्ततस्तस्य प्रकृतस्येश्वरस्य क्षेत्रज्ञात्पृथग्वचनमवकल्पते, अन्यथा ह्यप्रकृतवचनमाकस्मिकमसम्बद्धं स्यात् । ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्येश्वरापृथग्वचनमाकस्मिकमेव प्रसज्येत ? न, तस्याविवक्षितत्वात् । क्षेत्रज्ञो हि कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च प्रतिशरीरं बुद्ध्याद्युपाधिसम्बद्धो लोकत एव प्रसिद्धो नासौ श्रुत्या तात्पर्येण विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाच्छ्रुत्या तात्पर्येण विवक्ष्यत इति न तस्याकस्मिकं वचनं युक्तम् । 'गृहां प्रविष्टावात्मानौ हि' इत्यत्राप्येतद्दर्शितं 'द्वा सुपर्णा' इत्यस्यामृचीश्वरक्षेत्रज्ञावुच्येते इति । यदापि पैङ्गुपनिषत्कृतेन व्याख्यानेनास्यामृचि सत्त्वक्षेत्रज्ञावुच्येते, तदापि न विरोधः कश्चित् । कथम् ? प्राणभृद्धीह घटादिच्छिद्रवत्सत्त्वाद्युपाध्यभिमानित्वेन प्रतिशरीरं गृह्यमाणो द्युभ्वाद्यायतनं न भवतीति निषिध्यते । यस्तु सर्वशरीरेषुपाधिभिर्विनोपलक्ष्यते परमात्मैव भवति । यथा घटादिच्छिद्राणि घटादिभिरुपाधिभिर्विनोपलक्ष्यमाणानि महाकाश एव भवन्ति, तद्वत्प्राणभृतः परस्मादन्यत्वानुपपत्तेः प्रतिषेधो नोपपद्यते । तस्मात्सत्त्वाद्युपाध्यभिमानिन एव द्युभ्वाद्यायतनत्वप्रतिषेधः । तस्मात्परमेव ब्रह्म द्युभ्वाद्यायतनम् । तदेतत् 'अदृश्यत्वादिगुणको धर्मात्केः' इत्यनेनैव सिद्धम्, तस्यैव हि भूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पठितम् 'यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम्' इति । प्रपञ्चार्थं तु पुनरुपन्यस्तम् ॥ ७ ॥

किस हेतु से स्वर्ग भूमि आदि के आश्रय रूप से प्राण धारी को नहीं मानना चाहिए ? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं—‘स्थित्यदनाभ्या च’ अर्थात् स्वर्ग भूमि आदि के आयतन को प्रस्तुत ( प्रकरण प्राप्त ) करके ( द्वासुपर्णा ) इस मन्त्र मे स्थिति और अदन ( भक्षण ) का निर्देश ( कथन किया गया ) है कि ( जीवेश्वर दोनो मे से एक जीव स्वादु कर्मफल को भोगता है ) इसमे कर्मफल का अशन ( भोग ) निर्दिष्ट होता है । और ( उस जीव से अन्य ईश्वर भोग के बिना प्रकाश करता है ) इस कथन से उदासीनतापूर्वक स्थिति का निर्देश होता है । वहाँ उस स्थिति और अदन उपभोग से ही ईश्वर और जीव गृहीत ( ज्ञात ) होते हैं । यहाँ यदि ईश्वर स्वर्ग भूमि आदि के आश्रय रूप से विवक्षित होता है, तब तो उस प्रकृत ईश्वर साक्षी स्वरूप का जीव से पृथक् कथन युक्त सिद्ध होता है, ऐसा नहीं होने पर आकस्मिक अप्रकृत का वचन असम्बद्ध होगा । यदि वह स्वर्गादि का आयतन होता है, तो उसके लिये ईश्वर प्रतिपादनीय रहता है । अन्यथा उसका वचन असम्भव होगा । यदि कही कि तेरे मत मे भी तो जीव को ईश्वर से पृथक् कथन आकस्मिक ( निर्हेतुक ) ही प्राप्त होगा, क्योंकि वह प्रतिपादनीय नहीं है । यह कहना ठीक नहीं है ? क्योंकि ईश्वर से भिन्न जीवन का कथन होते हुए भी वहाँ जीव विवक्षित अर्थ नहीं है, जिससे कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप से प्रत्येक शरीर मे बुद्धि आदि उपाधि के साथ सम्बन्ध वाला क्षेत्रज्ञ जीव लोकव्यवहारादि से ही प्रसिद्ध है, इससे वह श्रुति के तात्पर्य का विषय रूप से विवक्षित नहीं होता है और ईश्वर तो लोक से अप्रसिद्ध है । इससे श्रुति के तात्पर्य का विषय रूप से विवक्षित होता है । अतः उसका आकस्मिक कथन होना युक्त नहीं है । क्योंकि ( गुहां प्रविष्टौ ) इत्यादि सूत्र मे भी यह दर्शाया गया है कि ‘द्वा सुवर्णं’ इस ऋगमन्त्र मे ईश्वर और क्षेत्रज्ञ दोनो कहे जाते हैं । जब पैङ्गी उपनिषद् कृत व्याख्यान के अनुसार इष ऋगमन्त्र से सत्त्व ( बुद्धि ) क्षेत्रज्ञ को कहते हैं । तब भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि घटादि छिद्र के तुल्य सत्त्वादि के अभिमानी रूप से प्रत्येक शरीर मे ज्ञायमान प्राणधारी ही यहाँ स्वर्गादि ससार का आश्रय नहीं हो सकता, इस प्रकार परिच्छिन्न प्राणधारी का निषेध किया जाता है । एवं जो सब शरीरो मे उपाधियो के बिना चिन्मात्र उपलक्षित होता है वह परमात्मा ही है । जैसे घटादि रूप उपाधियो के बिना उपलक्ष्यमाण घटादि के छिद्र महाभाकाश ही रहते हैं, वैसे ही प्राणधारियो को परमात्मा से अन्यत्व की असिद्धि से निषेध नहीं बन सकता ( द्युभू आदि के आयतनत्व का अभाव नहीं कहा जा सकता ) है जिससे सत्त्वादि उपाधियो के अभिमानियो को ही सर्वाश्रयत्व का निषेध है अतः परब्रह्म ही सर्वाश्रय है । यद्यपि यह पूर्वप्रतिपादित अर्थ ( अदृश्यत्वादि ) इस सूत्र से ही गतार्थ है, क्योंकि उसी भूतयोनि वाक्य के मध्य मे ही ( यस्मिन् द्यौः ) इत्यादि पठित हैं । तथापि प्रपञ्चार्थ ( विस्तार से सेतु शब्दार्थ को समझाने के लिए ) फिर से कहा गया है ॥ ७ ॥



## २ भूमाधिकरण ॥ १-२ ॥

भूमा प्राणः परेशो वा प्रश्नप्रत्युक्तिवर्जनात् ।  
 अनुवर्त्यातिवादित्वं भूमोक्तेर्वायुरेव सः ॥  
 विच्छिद्यैष त्विति प्राणं सत्यस्थोपक्रमात्तथा ।  
 महोपक्रम आत्मोक्तेरीशोऽयं द्वैतवारणात् ॥

यहाँ सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि भूमा प्राण है वा परमात्मा है । पूर्वपक्ष है कि प्रथम से अनेक प्रश्नोत्तर है, और प्राण के उपदेश के बाद में श्रुति में प्रश्नोत्तर का अभाव है, इससे प्रतीत होता है कि अन्तिम उद्देश्य, उपदेश्य वस्तु प्राण है, और प्राण को ही जानने वाले की अतिवादित्व की अनुवृत्तिपूर्वक भूमा का कथन है, इससे भूमा वायु (प्राण) ही है । सिद्धान्त है कि (सत्येन तु) इस वाक्य गत तु शब्द से प्राण के विच्छेद करके उसके सम्बन्ध हटाकर सत्यब्रह्म के उपदेश का आरम्भ हुआ है, और महा उपक्रम में आत्मा कहा गया है, तथा (नान्यत्पश्यति) इस वाक्य से द्वैत का वारण किया गया है; इससे भूमा ब्रह्म है ॥ १-२ ॥

## भूमा संप्रसादादध्युपदेशात् ॥ ८ ॥

इदं समामनन्ति—‘भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य’ इति ‘भूमानं भगवो विजिज्ञास’ इति । ‘यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्’ (छा० ७।२३, २४) इत्यादि । तत्र संशयः—कि प्राणो भूमा स्यादाहोस्वित्परमात्मेति । कुतः संशयः ? भूमेति तावद्बहुत्वमभिधीयते, ‘बहोर्लोपो भू च बहीः’ (पा० ६।४।१५८) इति भूमशब्दस्य भावप्रत्ययान्ततास्मरणात् । किमात्मकं पुनस्तद्बहुत्वमिति विशेषकाङ्क्षायां ‘प्राणो वा आशाया भूयान्’ (छा० ७।१।५।१) इति संनिधानात्प्राणो भूमेति प्रतिभाति । तथा ‘श्रुतं ह्येव मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मवित्’ इति, ‘सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु’ (छा० ७।१।१।३) इति प्रकरणोत्थानात्परमात्मा भूमेत्यपि प्रतिभाति । तत्र कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति संशयः । किं तावत्प्राप्तम् ? प्राणो भूमेति । कस्मात् ? भूयः प्रश्नप्रतिवचनपरम्परा दर्शनात् । यथा हि ‘अस्ति भगवो नाम्नो भूयः’ इति, ‘वाग्वाव नाम्नो भूयसी’ इति, तथा ‘अस्ति भगवो वाचो भूयः’ इति, ‘मनो वाव वाचो भूयः’ इति च नामादिभ्यो ह्या प्राणाद्भूयः प्रश्नप्रतिवचनप्रवाहः प्रवृत्तः । नैवं प्राणात्परं भूयः प्रश्नप्रतिवचनं दृश्यते—अस्ति भगवः प्राणाद्भूय इत्यदो वाव प्राणाद्भूय—इति । प्राणमेव तु नामादिभ्य आशान्तेभ्यो भूयांसं ‘प्राणो वा आशाया भूयान्’ इत्यादिना सप्रपञ्चमुक्त्वा प्राणदर्शनश्चातिवादित्वम्—‘अति

वाद्यसीति अतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापह्नुवीत' इत्यभ्यनुज्ञाय 'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' इति प्राणव्रतमतिवादित्वमनुकृष्यापरित्यज्यैव प्राणं सत्यादिपरम्परया भूमानमवतारयन्प्राणमेव भूमानं मन्यत इति गम्यते । कथं पुनः प्राणो भूमनि व्याख्यायमाने 'यत्र नान्यत्पश्यति' इत्येतद्भूमनो लक्षणपरं वचनं व्याख्यायेतेति । उच्यते-सुषुप्त्यवस्थायां प्राणग्रस्तेषु करणेषु दर्शनादिव्यवहारनिवृत्तिदर्शनात्सम्भवति प्राणस्यापि 'यत्र नान्यत्पश्यति' इत्येतद्वृत्तम् । तथा च श्रुतिः 'न शृणोति न पश्यति' इत्यादिना सर्वकरणव्यापारप्रत्यस्तमयरूपां सुषुप्त्यवस्थामुक्त्वा 'प्राणाग्रय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति' ( प्र० ४।२।३ ) इति तस्यामेवावस्थायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य जागरणं ब्रुवती प्राणप्रधानां सुषुप्त्यवस्थां दर्शयति । यच्चैतद्भूमनः सुखत्वं श्रुतम्- 'यो वै भूमा तत्सुखम्' ( छा० ७।२३ )-इति, तदप्यविरुद्धम् 'यत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ यदेतस्मिन्च्छरीरे सुखं भवति' ( प्र० ४।६ ) इति सुषुप्त्यवस्थायामेव सुखश्रवणान् । यच्च- 'यो वै भूमा तदमृतम्' ( छा० ७।२।१ )-इति, तदपि प्राणस्याविरुद्धं, 'प्राणो वा अमृतम्' ( कौ० ३।२ )-इति श्रुतेः । कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्यमानस्य 'तरति शोकमात्मवित्' इत्यात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपद्यते । प्राण एवेहात्मा विवक्षित इति ब्रूमः । तथाहि- 'प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः' ( छा० ७।१५।१ ) इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति । 'यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्प्राणो सर्वं समर्पितम्' इति च सर्वात्मत्वारनाभिनिदर्शनाभ्यां च सम्भवति वैपुल्यात्मिका भूमरूपता प्राणस्य । तस्मात्प्राणो भूमेत्येवं प्राप्तम् ।

यद्यपि भूमा वाक्य से प्रथम प्राण की चर्चा है, तथापि सुषुप्ति अवस्था मे भी जागृत रहने वाले प्राण से ऊपर भूमा का उपदेश है । प्राण से प्राण ऊपर नहीं हो सकता इससे भूमा ब्रह्म है । नारद जी के पूछने पर उनके प्रश्न के उत्तर रूप से छान्दोग्य मे सनत्कुमार जी यह कहते हैं कि ( अल्प मे सुख नहीं है, विभु ब्रह्म ही सुख रूप है, इससे सुखार्थियों से भूमा ही विचारणीय है ) नारद जी ने कहा कि ( भगवन् मे भूमा को विचारना जानना चाहता हूँ वह कैसा है ) सनत्कुमार जी ने कहा कि ( जिस भूमा मे अन्य द्रष्टा अन्य दृश्य को नहीं देखता है, इसी प्रकार न अन्य को सुनता है न अन्य को जानता है वह भूमा है ) अर्थात् जिसके ज्ञान होने पर सब वस्तु तन्मय भासती है, वही ब्रह्म है । और जहाँ अन्य को देखता, सुनता, जानता है वह अल्प ( तुच्छ ) है इत्यादि । वहाँ संशय होता है कि प्राण भूमा हो सकता है अथवा परमात्मा भूमा है । सशय क्यों होता है कि भूमा यह शब्द मुख्य रूप से बहुत्व अर्थ को कहता है, क्योंकि ( बहोर्लोपो भू च बहोः ) इस सूत्र से 'भूम' शब्द को

भावप्रत्ययान्तता कही गई है। अर्थात् बहु शब्द से भाव अर्थ में 'इमनिच्' प्रत्यय होता है, उसके आदि भाग इकार का इसी सूत्र से लोप होता है, बहु के स्थान में भू का आदेश होता है, इच् अनुबन्ध होने से लुप्त होता है, तब 'भूमन्' शब्द बनता है। सु विभक्ति के सबन्ध से पुंल्लिङ्ग में भूमा होता है, इससे उसका अर्थ बहुन्व ही है। वहाँ वह बहुत्वकिमात्मक ( किस स्वरूप का ) है इस प्रकार विशेष को जानने की आकांक्षा ( इच्छा ) होने पर ( प्राण ही आशा से बहुत बड़ा है ) इस वचन के सन्निधान ( सामीप्य ) से प्राण भूमा है, ऐसी प्रतीति होती है। एव प्रकरण के उत्थान ( आरम्भ ) से परमात्मा भूमा है ऐसी प्रतीति भी होती है, क्योंकि प्रकरण के आरम्भ में नारद जी का कथन है कि ( हे भगवन् ! आप जैसे महात्माओं से मुझे श्रुत है कि आत्मज्ञ शोक को तर जाता है, और मैं तो अनेक विद्याओं का ज्ञाता होते हुए भी अनात्मज्ञ होने के कारण शोक करता हूँ, जिस मुझ को आप ससार शोक के पार कर दें ) वहाँ सशय होता है कि किसका ग्रहण उचित है और किसका त्याग है ? वहाँ प्रथम विचार होता है कि प्राप्त क्या है, पूर्वपक्ष है कि प्राण भूमा है, क्योंकि प्राण के बाद अधिकतर का प्रश्न और प्रतिवचन की परंपरा के दर्शन से यह निश्चय हो जाता है कि प्राण भूमा है, जैसे कि—नारद जी का प्रश्न है कि ( भगवान् के नाम से अधिकतर है क्या है ? ) उत्तर है कि ( वाक् ही नाम से अधिकतर है ) इसी प्रकार प्रश्न है कि ( वाक् से अधिकतर क्या है ) उत्तर है कि ( वाक् ही नाम से अधिकतर है ) इसी प्रकार प्रश्न है कि ( क्या वाक् से भी अधिकतर है ? ) उत्तर है कि ( मन ही वाक् से अधिकतर है ) इस प्रकार नामादि से आरम्भ करके प्राणपर्यन्त अधिकता के प्रश्न और प्रतिवचन का प्रवाह प्रवृत्त (सिद्ध) रहा है, और प्राण के आगे अधिकतर का प्रश्न वा प्रतिवचन नहीं दीखता है कि हे भगवन् प्राण से अधिकतर क्या है, या अमुक प्राण से अधिक है इत्यादि। किन्तु ( प्राण ही आशा से अधिकतर है। इत्यादि वचनों से प्राण को ही नामादि आशा पर्यन्त से अधिकतर विस्तारपूर्वक कहकर, फिर प्राणोपासक को ही अतिवादी श्रेष्ठ वक्ता स्वीकार किया है कि ( यदि कोई प्रश्न करे कि तुम क्या अतिवादी हो तो प्राणोपासक को उत्तर देना चाहिये कि मैं अतिवादी हूँ, उसे अपने अतिवादित्व का अपह्नव (अपलाप-अस्वीकार) नहीं करना चाहिये, असत्य नहीं बोलना चाहिये कि मैं अतिवादी नहीं हूँ )। इसी प्रकार प्राणवेत्ता में अतिवादित्व का स्वीकार करके फिर कहा है कि ( यह तो निश्चय अतिवादी है, कि जो सत्य से अतिवादी श्रेष्ठवक्ता होता है ) इस प्रकार प्राणोपासना सम्बन्धी व्रतरूप अतिवादित्व का एष शब्द से अनुकर्षण सबन्ध करके और प्राण को नहीं त्याग कर सत्यादि की परंपरा से भूमा का अवतरण ( आरम्भ-निरूपण ) करते हुए सनत्कुमार प्राण को ही भूमा मानते हैं, ऐसी प्रतीति होती है। यदि कहा जाय कि प्राण को भूमा रूप से व्याख्यान करने

पर (जिसमें अन्य को नहीं देखता है सो भूमा है) इस प्रकार के भूमा के लक्षणपरक वचन का कैसे व्याख्यान किया जायगा ? तो कहा जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में करणों के प्राण से ग्रस्त होने पर ( इन्द्रियों के प्राण में लीन होने पर ) दर्शनादि व्यवहारों की निवृत्ति देखने से प्राण का भी यह लक्षण हो सकता है कि ( जिसमें अन्य को नहीं देखता है वह भूमा रूप प्राण है ) क्योंकि ( न मुनता है न देखता है ) इस प्रकार की श्रुति भी सब कारणों के व्यापार का विलय रूप सुषुप्ति अवस्था को कहकर ( इस पुर में प्राण अग्निर्वाही जागती है ) इस रीति से उस सुषुप्ति अवस्था में ही पञ्चवृत्ति वाले प्राण की जागृति को कहती हुई प्राण रूप प्रधान वाली सुषुप्ति अवस्था को दर्शाती है । और ( जो भूमा है वही सुख है ) इस प्रकार जो भूमा को सुखत्व सुना गया है, वह भी प्राणपक्ष में विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि ( जिस काल में यह देव ( जीव ) स्वप्नो को नहीं देखता है, उस समय सुषुप्ति में इस शरीर के अन्दर यह सुख होता है ) इस प्रकार प्राण प्रधान सुषुप्ति में सुख सुना गया है । और 'जो भूमा है वही अमृत है' इस प्रकार जो अमृतत्व भूमा को श्रुत है, सो भी प्राण को अविरुद्ध है, क्योंकि ( प्राण अवश्य अमृत है ) यह श्रुति है । यदि कहा जाय कि प्राण को भूमा मानने वाले के मत में ( आत्मज्ञ शोकरहित हो जाता है ) इस प्रकार आत्मज्ञान की इच्छा से प्रकरण का आरम्भ कैसे उचित होगा ? तो कहते हैं कि यहाँ प्राण ही आत्मा विवक्षित है, क्योंकि ( प्रसिद्ध प्राण ही पिता, माता, भ्राता, बहन, आचार्य और ब्राह्मण है ) इस प्रकार की श्रुति प्राण को ही सर्वात्मि स्वोकार और सिद्ध करती है । और ( जैसे नाभि में—आरा समर्पित प्रोत रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में सब समर्पित है ) इस सर्वात्मत्व और आरा नाभि के दृष्टान्त से विपुलता रूप भूमा रूपता प्राण को सम्भव है, जिससे प्राण ही भूमा है इस प्रकार प्राप्त है ।

तत इदमुच्यते—परमात्मैवेह भूमा भवितुमर्हति न प्राणः । कस्मात् ? सम्प्रसादादध्युपदेशात् । सम्प्रसाद इति सुषुप्तं स्थानमुच्यते, सम्यक्प्रसीदत्यस्मिन्निति निर्बचनात् । बृहदारण्यके च स्वप्नजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात् । तस्यां च सम्प्रसादावस्थायां प्राणो जागर्तीति प्राणोऽत्र सम्प्रसादोऽभिप्रेयते । प्राणादूर्ध्वं भूम्न उपदिश्यमानत्वादित्यर्थः । प्राण एव चेद्भूमा स्यात्स एव तस्मादूर्ध्वमुपदिश्येतेत्यश्लिष्टमेवैतत्स्यात् । नहि नामैव नाम्नो भूय इति, नाम्न ऊर्ध्वमुपदिष्टम् । किं तर्हि ? नाम्नोऽन्यदर्थान्तरमुपदिष्टं वागाख्यम्—'वाग्वाव नाम्नो भूयसी' इति । तथा वागादिभ्योऽप्या प्राणार्थान्तरमेव तत्र तत्रोर्ध्वमुपदिष्टम्, तद्वत्प्राणादूर्ध्वमुपदिश्यमानो भूमा प्राणार्थान्तरभूतो भवितुमर्हति ।

इसके बाद यह सिद्धान्त कहा जाता है कि यहाँ परमात्मा ही भूमा होने योग्य है,

प्राण नहीं, क्योंकि सप्रसाद (सुषुप्ति प्राण) से आगे ऊपर भूमा के उपदेश से यह निश्चय होता है। सप्रसाद इस शब्द से सुषुप्ति स्थान कहा जाता है। अच्छी तरह यथार्थ रूप से जिसमें सप्रसन्न (सुखी) हो, इस प्रकार सप्रसाद का निर्वचन अर्थ किया जाता है, और बृहदारण्यक श्रुति में स्वप्न जागरित स्थान के साथ सप्रसाद के पाठ से सप्रसाद सुषुप्त स्थान है और उस सप्रसादावस्था में प्राण जागता है। इस कथन से लक्षणा द्वारा इस सूत्र में सप्रसाद शब्दार्थ प्राण अभिप्रेत (स्वीकृत) है। अर्थात् सूत्र में सप्रसाद शब्द से प्राण को कहा गया है, इससे सूत्र का अर्थ है कि (प्राण के बाद 'ऊपर' भूमा उपदिष्ट है, इससे भूमा प्राण नहीं है किन्तु परमात्मा है) क्योंकि यदि प्राण ही भूमा हो तो वह प्राण ही प्राण के बाद (ऊपर) उपदिष्ट होगा, फिर इस प्रकार यह वाक्य असंगत ही हो जायगा। क्योंकि नाम ही नाम से बड़ा है, इस प्रकार नाम के आगे नाम नहीं उपदिष्ट हुआ है। कारण, नाम के बाद नाम से अन्य अर्थान्तर वाग् नामक उपदिष्ट हुआ है। जैसे (नाम से बड़ी वस्तु वाक् है) उसी प्रकार वागादि से प्राण तक भी अर्थान्तर ही उन-उन स्थानों में अधिकतर उपदिष्ट हुए हैं। एवं प्राण से आगे उपदिष्ट भूमा भी प्राण से अर्थान्तर स्वरूप होने योग्य है।

नन्विह नास्ति प्रश्नः—अस्ति भगवः प्राणाद्भूय—इति, नापि प्रतिवचनमस्ति—प्राणाद्वाव भूयोऽस्ति—इति, कथं प्राणाद्धि भूमोपदिश्यत इत्युच्यते। प्राणविषयमेव चातिवादित्वमुत्तरत्रानुकुष्यमाणं पश्यामः—‘एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति’ इति। तस्मान्नास्ति प्राणाद्ध्युपदेश इति। अत्रोच्यते—न तावत्प्राणविषयस्यैवातिवादित्वस्यैतदनुकर्षणमिति शक्यं वक्तुं, विशेषवादात् ‘यः सत्येनातिवदति’ इति।

यहाँ तो हे भगवन् ‘प्राण से बड़ा क्या है?’ ऐसा प्रश्न नहीं है, न उसका उत्तर ही है कि प्राण से भी बड़ा है। तो प्राण से ऊपर भूमा का उपदेश है, भूमा ऊपर उपदिष्ट है, यह कैसे कहा जाता है, और प्राण विषयक अतिवादित्व ही आगे अनुकृष्ट (अनुवृत्त) देखते हैं (वह अतिवादी है कि जो सत्यवचनयुक्त अतिवादी होता है) जिससे प्राण से ऊपर उपदेश नहीं है। यहाँ कहा जाता है कि प्रथम तो यह नहीं कह सकते हो कि प्राण विषयक अतिवादित्व का ही यहाँ यह अनुकर्षण (अनुवृत्ति सबन्ध) है। क्योंकि यहाँ सत्य से अतिवादित्व रूप पूर्व से विशेष (अधिक) वाद है कि (सत्य से जो अतिवादी होता है)।

ननु विशेषवादोऽप्ययं प्राणविषय एव भविष्यति। कथम्? यथैषोऽग्निहोत्री यः सत्यं वदतीत्युक्ते न सत्यवदनेनाग्निहोत्रित्वम्, केन तर्हि? अग्निहोत्रेणैव, सत्यवदनं त्वग्निहोत्रिणो विशेष उच्यते। तथा ‘एष तु वा अतिवदति यः

सत्येनातिवदति' इत्युक्ते न सत्यवदनेनातिवादित्वम्, केन तर्हि ? प्रकृतेन प्राणविज्ञानेनैव । सत्यवदन तु प्राणविदो विशेषो विवक्ष्यत इति । नेति ब्रूमः । श्रुत्यर्थपरित्यागप्रसङ्गात् । श्रुत्या ह्यत्र सत्यवदनेनातिवादित्वं प्रतीयते—'यः सत्येनातिवदति सोऽतिवदति' इति । नात्र प्राणविज्ञानस्य संकीर्तनमस्ति । प्रकरणात्तु प्राणविज्ञानं सम्बन्धयेत् । तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुतिः परित्यक्ता स्यात् । प्रकृतव्यावृत्त्यर्थश्च तुशाब्दो न सङ्गच्छेत 'एष तु वा अतिवदति' इति । 'सत्य त्वेव विजिज्ञासितव्यम्' ( छां० ७।१६ ) इति च प्रयत्नान्तरकरणमर्थान्तरविवक्षां सूचयति । तस्माद्यथैकवेदप्रशंसायां प्रकृतायामेष तु महा-ब्राह्मणो यश्चतुरो वेदानधीत इत्येकवेदेभ्योऽर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते तादृगेतद्द्रष्टव्यम् । न च प्रश्नप्रतिवचनरूपयैवार्थान्तरविवक्षया भवितव्यमिति नियमोऽस्ति, प्रकृतसम्बन्धासम्भवकारितत्वादर्थान्तरविवक्षायाः । तत्र प्राणान्तमनुशासनं श्रुत्वा तूष्णीम्भूतं नारदं स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति । यत्प्राणविज्ञानेन विकारानृतविषयेणातिवादित्वमनतिवादित्वमेव तत् 'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' इति । तत्र सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते, परमार्थरूपत्वात् 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ( तै० २।१ ) इति च श्रुत्यन्तरात् । तथा व्युत्पादिताय नारदाय 'सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि' इत्येवं प्रवृत्ताय विज्ञानादिसाधनपरम्परया भूमानमुपदिशति । तत्र यत्प्राणादधि सत्यं वक्तव्यं प्रतिज्ञातं तदेवेह भूमेत्युच्यत इति गम्यते । तस्मादस्ति प्राणादधि भूम्न उपदेश इत्यतः प्राणादन्यः परमात्मा भूमा भवितुमर्हति । एवं चेहात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपन्नं भविष्यति । प्राण एवेहात्मा विवक्षित इत्येतदपि नोपपद्यते । नहि प्राणस्य मुख्यया वृत्त्याऽऽत्मत्वमस्ति । न चान्यत्र परमात्म-ज्ञानाच्छ्लोकविनिवृत्तिरस्ति, 'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' ( श्वे० ६।१५ ) इति श्रुत्यन्तरात् । तं मा भगवान् शोकस्य परं पारं तारयतु' ( छां० ७।१३ ) इति चोपक्रम्योपसंहरति—'तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान्सनत्कु-मारः' ( छां० ७।२६।२ ) इति । तम इति शोकादिकारणमविद्योच्यते । प्राणान्ते चानुशासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत । 'आत्मनः प्राणः' ( छां० ७।२६।१ ) इति च ब्राह्मणम् । प्रकरणान्ते च परमात्मविवक्षा भविष्यात्, भूमा तु प्राण एवेति चेत् । न । 'स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ( छां० ७।२४।१ ) इत्यादिना भूम्न एवाप्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात् । वैपुल्यात्मिका च भूसरूपता सर्वकारणत्वात्परमात्मनः सुतरामुपपद्यते ॥ ८ ॥

यहाँ शका होती है कि यह विशेष वाद भी प्राण विषयक ही हो सकता है, कैसे हो सकता है, कि जैसे कहा जाय कि यह अग्निहोत्री है, जो सत्य बोलता है । यहाँ सत्य कथन से अग्निहोत्रित्व नहीं होता है, तो किससे होता है ? उत्तर—अग्निहोत्र से

ही होता है। और सत्य कथन अग्निहोत्री का विशेष धर्म कहा जाता है, वैसे ही ( मह अतिवादी है जो सत्य से अतिवादी है ) ऐसा कहने पर भी सत्य कथन से अतिवादित्व नहीं होता है, तो कैसे होता है कि प्रकृत ( प्रस्तुत ) प्राण विज्ञान से ही अतिवादित्व होता है। एवं सत्य कथन प्राणवेत्ता का विशेष धर्म विवक्षित रहता है। यहाँ सत्य शब्द को सत्य वचनार्थक मानकर और ( एष तु ) वाक्य से एष शब्द से प्राणवेत्ता का अनुकर्षण मानकर पूर्वपक्ष हुआ है। सिद्धान्त में सत्य शब्द का सत्यात्मा अर्थ मानकर, तु शब्द से प्राण के सम्बन्ध के विच्छेद से एष शब्द सत्यब्रह्म वक्ता का बोधक है ऐसा मानकर यहाँ कहा जाता है कि यह पूर्व का कथन ठीक नहीं है। क्योंकि वैसी विवक्षा से श्रुत अर्थ के परित्याग का प्रसंग आता है। 'सत्येन' इस पद में तृतीया विभक्तिरूप श्रुति से सत्यब्रह्म के कथन से अतिवादित्व ( अनात्मा का अनिक्रमण पूर्वक वक्तृत्व ) प्रतीत होता है, क्योंकि ( जो सत्यब्रह्म द्वारा अतिक्रमण कहता है वह अतिवक्ता है ) यह श्रुति कहती है। यहाँ प्राण विज्ञान का सकीर्तन नहीं है। प्रकरण से प्राण विज्ञान सम्बद्ध हो सकता है, और उसके सम्बद्ध होने पर प्रकरण के अनुसार से प्रत्यक्ष श्रुति परित्यक्त हो जायगी। एव पूर्व से प्रकृत की व्यावृत्ति के लिए पठित 'तु' शब्द भी सगत नहीं होगा कि ( यही फिर निश्चय अतिवादी है ) इत्यादि। तथा ( सत्य ही विचारणीय है ) इस वचन से प्रथमनन्तर का कथन अर्थान्तर की विवक्षा को सूचन करता है। इससे जैसे एक वेदज्ञ की प्रशंसा के प्रकरण में कहा जाता है कि 'यह महाब्राह्मण' है जो चारो वेद पढता है, तो वहाँ एक वेदज्ञो से अर्थान्तर स्वरूप चतुर्वेदी प्रशंसित होता है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये कि प्राणज्ञ से आत्मज्ञ प्रशंसित होता है। और जो यह कहा था कि प्रश्न के बिना भूमा कहा गया है इससे प्राण है, वहाँ कहा जाता है कि यह नियम नहीं है कि प्रश्न प्रतिवचन रूप से ही अर्थान्तर की विवक्षा होनी चाहिये, क्योंकि अर्थान्तर की विवक्षा प्रकृत सम्बन्ध के असम्भव से कारित ( उत्पादित ) होती है। और उस नारद सनत्कुमार जी के सवाद में प्राण पर्यन्त के उपदेश को सुनकर तूष्णीभूत ( चुप लगाये ) नारद को स्वयं सनत्कुमार व्युत्पन्न ( विज्ञानी ) करते समझाते हैं कि विकार अनृत विषयक प्राण विज्ञान से जो अतिवादित्व है, वह वस्तुतः अतिवादित्व नहीं है, ( यह वस्तुतः अतिवादी है जो सत्य करके अतिवादी है ) वहाँ सत्य शब्द से परब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म परमार्थ स्वरूप है, और दूसरी श्रुति में ( सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म है ) ऐसा कहा गया है। उक्तरीति से व्युत्पादित ( विवेकादि युक्त समाहित ) किए गए, और ( हे भगवन् अब मैं सत्य से अतिवादी होऊँगा ) इस प्रकार सत्य के ज्ञान के लिये प्रवृत्त नारद जी के प्रति विज्ञानादि ( मनन श्रद्धादि ) साधनों की परंपरा द्वारा भूमा का उपदेश सनत्कुमार जी ने दिया। वहाँ प्राण के ऊपर जो सत्य वक्तव्य रूप से प्रतिज्ञात हुआ, जिसे कहने के लिये प्रतिज्ञा की गई

है, वही वहाँ 'भूमा' इस शब्द से कहा जाता है ऐसी प्रतीति होती है। उससे प्राण के बाद भूमा का उपदेश है। इसीसे प्राण से अन्य परमात्मा भूमा होने योग्य है। यहाँ ऐसा होने ही पर आत्मज्ञान की इच्छा से प्रकरण का आरम्भ युक्त सिद्ध होगा। एव जो यह कहा था कि यहाँ प्राण ही आत्मा विवक्षित है, वह नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि मुख्य शक्तिवृत्ति से प्राण को आत्मशब्दार्थत्व नहीं है। और परमात्मज्ञान के बिना शोक की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी श्रुति कहती है कि (शोकादि की निवृत्ति रूप मोक्ष के लिये आत्मज्ञान से अन्य मार्ग नहीं है) और यहाँ (जिस शोकयुक्त मुक्ष को हे भगवन्! आप शोकसागर से पार कर दे) इस प्रकार आरम्भ करके उपसंहार करते हैं कि (उस दोषरहित नारद के लिये तम के पार को भगवान् सनत्कुमार दर्शाते हैं) यहाँ 'तम' इस शब्द से शोकादि का कारण अविद्या कही जाती है। और यदि यहाँ प्राण पर्यन्त ही उपदेश होता तो प्राण की अन्याधीनता नहीं कही जाती कि (आत्मा से प्राण होता है) और ऐसा ब्राह्मण है। यदि कही कि प्रकरण के अन्त में परमात्मा की विवक्षा होगी और भूमा तो प्राण ही है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि (हे! भगवन् वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है) निज महिमा में प्रतिष्ठित है, इत्यादि वचनो से भूमा का ही प्रकरण की समाप्ति पर्यन्त अनुकर्षण होता है, और विपुलतात्मक भूमरूपता सर्वकारणता से परमात्मा को ही अत्यन्त उचित सिद्ध होती है ॥ ८ ॥

### धर्मोपपत्तेश्च ॥ ९ ॥

अपि च ये भूम्नि श्रूयन्ते धर्मास्ते परमात्मन्युपपद्यन्ते । 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' इति दर्शनादिव्यवहाराभावं भूमन्यवगमयति । परमात्मनि चायं दर्शनादिव्यवहाराभावोऽवगतः, 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्' ( बृ० ४।५।१५ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरात् । योऽप्यसौ सुषुप्तावस्थायां दर्शनादिव्यवहाराभाव उक्तः सोऽप्यात्मन एवासङ्गत्वविवक्षयोक्तो न प्राणस्वभावविवक्षया, परमात्मप्रकरणात् । यदपि तस्यामवस्थायां सुखमुक्तम्, तदप्यात्मन एव सुखरूपत्वविवक्षयोक्तम् । यत आह— 'एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' ( बृ० ४।३।३२ ) इति । इहापि 'यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्' इति सामयसुखनिराकरणेन ब्रह्मैव सुखं भूमानं दर्शयति । 'यो वै भूमा तदमृतम्' इत्यमृतत्वमपीह श्रूयमाणं परमकारणं गमयति, विकाराणाममृतत्वस्यापेक्षिकत्वात्, 'अतोऽन्यदार्तम्' ( बृ० ३।४।२ ) इति च श्रुत्यन्तरात् । तथा च सत्यत्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वमिति चैते धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मन्येवोपपद्यन्ते नान्यत्र । तस्माद्भूमा परमात्मेति सिद्धम् ॥ ९ ॥



और भूमा मे जो धर्म सुने जाते हैं वह परमात्मा ही मे सिद्ध युक्त हो सकते हैं । जैसे कि ( जहाँ अन्य को न देखता है, न सुनता है, न जानता है वह भूमा है ) यह वचन भूमा मे दर्शनादि व्यवहारो के अभाव को बोध कराता है । और परमात्मा मे यह दर्शनादि का अभाव ( जिसकाल मे इस ज्ञानी को सब आत्मा हो गया उस काल में किससे किसको देखे ) इत्यादि दूसरी श्रुतियो से अवगत ( ज्ञात ) होता है । एवं जो वह सुषुप्ति अवस्था मे दर्शनादि व्यवहारो का अभाव कहा है, वह भी आत्मा के ही असङ्गत्व की विवक्षा से कहा है, प्राग्ग के स्वभाव की विवक्षा से नहीं, क्योंकि परमात्मा का प्रकरण है । इसी प्रकार जो सुषुप्ति मे सुखरूपता कही गई है, वह आत्मा की है प्राग्ग की नहीं, जिससे दूसरी श्रुति कहती है कि ( यह आत्मा का परम आनन्द है ) इसी आनन्द के लेश को अन्य प्राणी ( उपभोग करते हैं ) और इस छान्दोग्य मे भी ( जो भूमा है वही सुख है अल्प मे सुख नहीं है ) इस कथन से नाशादि दोषरूप आमय सहित सुख का निराकरणपूर्वक ब्रह्मरूप भूमा ( विभु ) सुख को ही दर्शाते है । ( जो भूमा है वही अमृत है ) इस कथन से यहाँ सुना गया अमृतत्व भी परम कारण का बोध कराता है, क्योंकि विकारो को आपेक्षिक अमृतत्व होता है, सर्वथा नहीं इसलिये दूसरी श्रुति कहती है कि ( इस आत्मा से अन्य आर्त-नश्वर है ) जिससे यह सिद्ध हुआ कि ( सत्यत्व, स्वमहिमा मे स्थिरत्व, सर्वगतत्व, सर्वात्मत्व ) ये श्रुतिप्रतिपादित धर्म सब परमात्मा मे ही युक्त सिद्ध होते है, अन्य मे नहीं, जिससे भूमा परमात्मा ही है यह सिद्ध हुआ ॥ ९२ ॥

### अक्षराधिकरण ॥ ३ ॥

अक्षरं प्रणवः किवा ब्रह्म लोकेऽक्षराभिधा । वर्णे प्रसिद्धा तेनात्र प्रणवः स्यादुपास्तये ॥  
अव्याकृताधारतोक्तेः सर्वधर्मनिषेधतः । शासनाद् द्रष्टृतादेश्च ब्रह्मैवाक्षरमुच्यते ॥

भूमि से लेकर आकाश ( अव्यक्त ) पर्यन्त के धारण का श्रवण से अक्षर शब्द वर्णमात्र का वाचक नहीं है परन्तु ब्रह्म का वाचक है । फिर भी सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि ( तदक्षरम् ) इस श्रुति मे अक्षर शब्द का अर्थ प्रणव ( ओकार ) वर्ण है, वा ब्रह्म ? लोक मे अक्षर यह नाम वर्ण का प्रसिद्ध है, इससे यहाँ उपासना के लिए अक्षर शब्दार्थ प्रणव होगा । सिद्धान्त है कि अव्याकृत की आधारता के कथन से तथा सब धर्मों के निषेध से शासन के श्रवण से द्रष्टृतादि के श्रवण से ब्रह्म ही अक्षर कहा जाता है, यह निश्चय होता है ॥ १-२ ॥

### अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १० ॥

‘कस्मिन्नु खत्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति, स होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनणु’ ( बृ० ३।१।७।८ ) इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः—किमक्षरशब्देन वर्ण उच्यते किंवा परमेश्वर इति । तत्राक्षरसामान्याय

इत्यादावक्षरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वात् प्रसिद्ध्यतिक्रमस्य चायुक्तत्वात्, 'ॐकार एवेदं सर्वम्' ( छा० २।२३।३ ) इत्यादौ च श्रुत्यन्तरे वर्णस्याप्युपास्यत्वेन सर्वात्मकत्वावधारणात्, वर्ण एवाक्षरशब्द इति ।

बृहदारण्यक की कथा है कि महात्मा याज्ञवल्क्य जी से विरक्ता विदुषी गार्गी ने पूछा कि भूत, भविष्यत्, वर्तमान यह सब जगत् किसमे ओत ( सम्मिलित होकर स्थिर ) है । मुनि ने अव्याकृत आकाश क्ने सबका आश्रय बताया । तब फिर गार्गी ने पूछा कि ( आकाश किस निश्चित वस्तु में ओत प्रोत है । मुनि ने कहा कि हे गार्गी यही वह अक्षर ( अविनाशी ) वस्तु है कि जिसको ब्राह्मण लोग अस्थूल अनणु इत्यादि कहते हैं ) इत्यादि सुना जाता है । यहाँ संशय होता है कि 'अक्षर' शब्द से वर्ण कहा जाता है किंवा परमात्मा ? वहाँ पूर्व पक्ष है कि पाणिनि व्याकरण के मूल रूप चतुर्दश सूत्र को अक्षर समाम्नाय ( अक्षरात्मक वेद ) कहा जाता है, इससे ऐसे स्थानों में अक्षर शब्द वर्णार्थ में प्रसिद्ध है, और प्रसिद्धि का अतिक्रमण अयुक्त होता है, 'ओकार ही यह सब जगद् रूप है' इस प्रकार दूसरी श्रुति में वर्ण को भी उपास्य रूप से सर्वात्मकता का निश्चय किया गया है, इससे यहाँ वर्ण ही अक्षर शब्द का अर्थ है ।

एवं प्राप्त उच्यते—पर एवात्माक्षरशब्दवाच्यः । कस्मात् ? अम्बरान्तधृतेः—पृथिव्यादेराकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात् । तत्र हि पृथिव्यादेः समस्त-विकारजातस्य कालत्रयविभक्तस्य 'आकाश एव तदोतं च प्रोतं च' इत्याकाशे प्रतिष्ठितत्वमुक्त्वा 'कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च' इत्यनेन प्रश्नेनेदम-क्षरमवतारितम् । तथा चोपसंहृतम्—'एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्गीकाश ओतश्च प्रोतश्च' इति । नचेयमम्बरान्तधृतिर्ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्भवति । यदपि—'ॐकार एवेदं सर्वम्—इति, तदपि ब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वात्स्तुत्यर्थं द्रष्टव्यम् । तस्मान्न क्षरत्यश्नुते चेति नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्षरं परमेव ब्रह्म ॥ १० ॥

ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि परमात्मा ही अक्षर शब्द का वाच्यार्थ है, यह कैसे निश्चय होता है कि जिससे पृथिवी से आकाश पर्यन्त विकार का धारण सुना जाता है । वहाँ श्रुति में तीन काल में विभक्त पृथिवी आदि सम्पूर्ण विकार ( कार्य ) समूह को ( वह आकाश में ही ओत और प्रोत है ) इस प्रकार आकाश में प्रतिष्ठितत्व ( स्थिरता ) कह कर ( आकाश किस निश्चित आधार में ओत प्रोत सर्वथा स्थिर है ) इस प्रश्न द्वारा इस अक्षर को श्रुति में अवतारित ( वक्तव्य रूप से प्राप्त ) किया है । और उसी प्रकार से उपसंहार किया है कि ( हे गार्गी: इस अक्षर में ही आकाश ओत प्रोत है ) और यह आकाश पर्यन्त सब विकार का धारण ब्रह्म से अन्य में सम्भव नहीं है । ( ओकार ही यह सब जगद् रूप है ) यह जो श्रुति है, वह भी ओकार ब्रह्मज्ञान का साधन है, इससे उस ओकार की स्तुति के लिए

है, ऐसा समझना चाहिये। यद्यपि ( रूढियोगमपहरति ) रूढिवृत्ति योग वृत्ति का अपहरण करती है, इस न्याय से वर्णार्थ में अक्षर शब्द की रूढि बली है, तथापि प्रश्न प्रतिवचन से जगदाधार में श्रुति के तात्पर्य का निश्चय होने से, यहाँ ऐसा योग वृत्ति मानना चाहिये कि ( न क्षरति-अश्नुते च ) नष्ट नहीं होता है, और सब में व्यापक है, इससे अक्षर कहा जाता है। इस प्रकार नित्यत्व व्यापकत्व से अक्षर पर ब्रह्म ही है ॥ ११ ॥

स्यादेतत् कार्यस्य चेत्कारणाधीनत्वमम्बरान्तधृतिरभ्युपगम्यते, प्रधानकारणवादिनोऽपीयमुपपद्यते, कथमम्बरान्तधृतेर्ब्रह्मत्वप्रतिपत्तिरिति, अत उत्तरं पठति—

### सा च प्रशासनात् ॥ ११ ॥

सा चाम्बरान्तधृतिः परमेश्वरस्यैव कर्म। कस्मात् ? प्रशासनात्। प्रशासनं हीह श्रूयते—‘एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः’ ( बृ० ३।८।६ ) इत्यादि। प्रशासनं च पारमेश्वरं कर्म नाचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासनं भवति। न ह्यचेतनानां घटादिकारणानां मृदादीनां घटादिविषयं प्रशासनमस्ति ॥ ११ ॥

फिर शंका होती है कि इस अम्बरान्त धृति से वर्ण अक्षर शब्दार्थ नहीं है, यह ऐसा ही सिद्धान्त रहे, परन्तु कार्य को कारणाधीनत्व रूप यदि अम्बरान्त धृति मानी जाती है, तो यह प्रधान कारणवादी को भी बढ सकती है, फिर अम्बरान्त धृति से कारण में ब्रह्मत्व ज्ञान का कैसे हो सकता है, ऐसी शंका होने पर सूत्रकार, उत्तर देते हैं ‘सा च प्रशासनात्’ इति। अर्थात् वह अम्बरान्त का श्रुति कथित धारण परमेश्वर का ही कर्म ( क्रिया ) है, क्योंकि प्रशासन सुना जाता है। यहाँ निश्चयपूर्वक प्रशासन सुना है कि ( हे गार्गी ! इस अक्षर के प्रशासन-आज्ञा में सूर्य और चन्द्रमा व्यवस्थित रूप से स्थिर हैं ) इत्यादि। शासन परमेश्वर का कर्म है, अचेतन प्रधान का प्रशासन रूप कर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि घटादि के कारण अचेतन मृत्तिका आदि का घटादि विषयक अनुशासन नहीं होता है ॥ ११ ॥

### अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥

अन्यभावव्यावृत्तेश्च कारणाद् ब्रह्मैवाक्षरशब्दवाच्यम्, तस्यैवाम्बरान्तधृतिः कर्म नान्यस्य कस्यचित्। किमिदमन्यभावव्यावृत्तिरिति। अन्यस्य भावोऽन्यभावस्तस्माद् व्यावृत्तिरन्यभावव्यावृत्तिरिति। एतदुक्तं भवति—यदन्यद् ब्रह्मणोऽक्षरशब्दवाच्यमिहाशङ्क्यते तद्भावादिदमम्बरान्तविधारणमक्षरं व्यावर्तयति श्रुतिः—‘तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टुं अश्रुतं श्रोतुं अमतं मन्तुं अविज्ञातं विज्ञातुं’ ( बृ० ३।८।११ ) इति। तत्रादृष्टत्वादिव्यपदेशः प्रधानस्यापि संभति, द्रष्ट-

त्वादिव्यपदेशस्तु न संभवत्यचेतनत्वात् । तथा 'नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्य-  
दतोस्ति श्रोतृ नान्यदतोस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ' इत्यात्मभेदप्रति-  
षेधात् । न शारीरस्याप्युपाधिमतोऽक्षरशब्दवाच्यत्वम्, 'अचक्षुष्कमश्रोत्रम-  
वागमनः' ( बृ० ३।२।८ ) इति चोपाधिमत्ताप्रतिषेधात् । नहि निरुपाधिकः  
शारीरो नाम भवति । तस्मात्परमेव ब्रह्माक्षरमिति निश्चयः ॥ १२ ॥

ब्रह्म से अन्य के भाव ( स्वप्नव धर्मादि ) की व्यावृत्तिरूप कारण से ब्रह्म ही  
अक्षर शब्द का वाच्यार्थ है, और उस ब्रह्म का अम्बरान्त का धारण रूप कर्म है  
अन्य का यह कर्म नहीं है । 'अन्यभावव्यावृत्ते' इसका क्या अर्थ है, यदि ऐसी  
जिज्ञासा हो तो सुनो—अन्य के भाव को अन्यभाव ( भेद ) कहते हैं, उसकी व्यावृत्ति  
( अभाव ) को अन्यभाव व्यावृत्ति कहते हैं । इससे यह कथित होता है कि जो ब्रह्म  
से अन्य अक्षर शब्दार्थ यहाँ पूर्व पक्षी से माना जाता है, उस भाव से इस अम्बरान्त  
का विधारण करने वाले अक्षर को श्रुति भिन्न बताती है ( हे गाणि ! वह ऐसा अक्षर  
है कि अन्य से अदृष्ट होते द्रष्टा है, अश्रुत होते श्रोता है, अमत होते मन्ता है, अविज्ञात  
होते विज्ञाता है । उन अदृष्टत्वादि का कथन प्रधानको भी सभव होता है, परन्तु प्रधान  
के अचेतन होने से द्रष्टृत्वादि का व्यवहार कथन प्रधान में नहीं हो सकता है । ) इसी  
प्रकार ( इस अक्षरात्मा से अन्य द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नहीं है ) यह आत्मा में भेद  
का प्रतिषेध है, जिससे उपाधि वाले जीव को भी अक्षर शब्द की वाच्यता नहीं है । और  
( अक्षरात्मा चक्षुः श्रोत्र वाङ्मन रहित है ) इस प्रकार उपाधि सम्बन्ध के निषेध से  
भी अक्षर शब्द का वाच्य जीव नहीं है, क्योंकि उपाधिरहित जीव प्रसिद्ध नहीं है,  
जिससे परब्रह्म ही अक्षर है, यह निश्चय है ॥ १२ ॥

### ईक्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरण ॥ ४ ॥

त्रिमात्रप्रणवे ध्येयमपरं ब्रह्म वा परम् । ब्रह्मलोकफलोक्त्यादेरपरं ब्रह्म गम्यते ॥  
ईक्षितव्यो जीवघनात्परस्तात्प्रत्यभिज्ञया । भवेद्ध्येयंपरं ब्रह्म क्रममुक्तिः फलिष्यति ॥

'त्रिमात्रेण-अभिध्यायीत' इत्यादि वाक्य में ध्येय वह परमात्मा ही है, क्योंकि  
( पुरुषमीक्षते ) इस वाक्य में वह ध्येय ही ईक्षणा का कर्मरूप से कहा गया है, और का  
कर्म तो कल्पित भी हो सकता है, सत्य ज्ञान का विषय कर्म कल्पित नहीं होता है,  
इससे सत्य परमात्मा ही ध्येय है । ऐसा होते हुए भी सामान्य दृष्टि से सशय है कि तीन  
मात्रा वाले प्रणव में ध्येय अपर ब्रह्म है या परब्रह्म ? । पूर्व पक्ष है कि ब्रह्मलोक की  
प्राप्ति के कथनादि से अपर ब्रह्म की प्रतीति होती है । सिद्धान्त है कि अन्त में जीव घन  
( समष्टि जीव ) हिरण्यगर्भ से पर जो ब्रह्म द्रष्टव्य पुरुष कहा गया है, ध्यान विधायक  
वाक्य में पुरुष शब्द से उसी की प्रत्यभिज्ञा होती है कि यह वही है, इससे ईक्षति  
कर्म परब्रह्म ही ध्येय होता है, उस ध्यान से क्रममुक्तिरूप फल सिद्ध होता है ॥ १-२ ।

### ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्सः ॥ १३ ॥

‘एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति’ इति प्रकृत्य श्रूयते—‘यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिधायीत’ ( प्र० ५१२, ५ ) इति । किमस्मिन्वाक्ये परं ब्रह्माभिधायितव्यमुपदिश्यत आहोस्त्रिदपरमिति । एतेनैवायतनेन परमपरं चैकतरतन्वेतीति प्रकृतत्वात्संशयः । तत्रापरमिदं ब्रह्मेति प्राप्तम् । कस्मात् ? ‘स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः’ ‘स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्’ इति च तद्विदो देशपरिच्छिन्नस्य फलस्योच्यमानत्वात् । नहि परब्रह्मविदेशपरिच्छिन्नं फलमश्नुवीतेति युक्तम्, सर्वगतत्वात्परस्य ब्रह्मणः । नन्वपरब्रह्मपरिग्रहे परं पुरुषमिति विशेषणं नोपपद्यते । नैष दोषः, पिण्डापेक्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः ।

प्रश्नोपनिषद् की कथा है कि पिप्पलाद नामक गुरु से सत्यकाम नामक शिष्य ने पूछा कि हे भगवन् ! प्राणान्त तक जो ओंकार का सदा ध्यान करता है, वह किस लोक को प्राप्त करता है । गुरु ने कहा कि हे सत्यकाम ! जो यह ओंकार है वह पर ( निर्गुण ) और अपर ( सगुण ) दोनों ब्रह्मरूप है, अर्थात् दोनों का वाचक है, दोनों का ध्यान के लिये अवलम्ब प्रतीक रूप आश्रय है उससे प्राण को ब्रह्मरूप जानने वाले विद्वान् इस ओंकार के ध्यान रूप आयतन ( आश्रय-साधन ) से ही ध्यान के अनुसार पर अपर में से किसी एक को प्राप्त करता है, इस प्रकार ओंकार की चर्चा को आरम्भ करके मध्य में एक मात्रद्विमात्र ओंकार की चर्चा के बाद सुना जाता है कि जो पुरुष त्रिमात्र ( तीनों मात्राओं के ऋषि देवादि के ज्ञानादि पूर्वक ) ओमित्याकरक अक्षर रूप से पर पुरुष का ध्यान करता है, वह तेज रूप सूर्य में प्राप्त होता है इत्यादि । यहाँ इसी आयतन से पर वा अपर एक को प्राप्त करता है, इस प्रकार पर अपर दोनों के प्रस्तुत होने से संशय होता है कि इस वाक्य में ध्यान वा ( ध्येय ) रूप से परब्रह्म का उपदेश है, अथवा अपर ब्रह्म का उपदेश है ? वहाँ पूर्वपक्ष है कि यह ध्येय अपर ब्रह्म है ऐसा प्राप्त ( प्रतीत ) होता है, क्योंकि ( सोष्याता रूप रूप तेज में सम्पन्न प्रविष्ट होता है, फिर वह तृतीय मात्रारूप साम द्वारा ब्रह्मलोक में प्राप्त कराया जाता है ) इस प्रकार उस ओंकार के ज्ञाता उपासक के लिए देश से परिच्छिन्न ( परिमित ) फल कहा गया है । परब्रह्म के ज्ञाता देश से परिच्छिन्न फल को भोगता है ऐसा होना युक्त नहीं है, क्योंकि परब्रह्म सर्वगत ( विशु ) है, और तदात्मकता ही ब्रह्मज्ञ का फल है । यदि कहा जाय कि अपर ब्रह्म को ध्येय स्वीकार करने पर ( परं पुरुषम् ) वह ध्येय का विशेषण अयुक्त होगा, तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि विशद ( विराट् ) की अपेक्षा से प्राण रूप हिरण्यगर्भ को परत्व सिद्ध होता है ।

इत्येवं प्राप्तेऽभिधीयते—परमेव ब्रह्मेहाभिध्यातव्यमुपदिश्यते । कस्मात् ? ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् । ईक्षतिर्दर्शनम्, दर्शनव्याप्यमीक्षतिकर्म, ईक्षतिकर्मत्वेनास्याभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति—‘स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ इति । तत्राभिध्यायतेरतथाभूतमपि वस्तु कर्म भवति, मनोरथकल्पितस्याप्यभिध्यायतिकर्मत्वात् । ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टमित्यतः परमात्मैवाय सम्यग्दर्शनविषयभूत ईक्षतिकर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते । स एव चेह परपुरुषशब्दाभ्यामभिध्यातव्यः प्रत्यभिज्ञायते ।

इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि यहाँ परब्रह्म ही ध्यातव्य ( ध्यानयोग्य ) उपदिष्ट होता है, क्योंकि ईक्षति का कर्म रूप से उस ध्येय का कथन है और ईक्षति दर्शन ( ज्ञान ) का नाम है । उस दर्शन से व्याप्य दर्शन का विषय ईक्षति कर्म है और इस अभिध्यातव्य ( ध्यानयोग्य ) पुरुष का वाक्य शेष में ईक्षति ( दर्शन ) का कर्मरूप से कथन है कि वह ( ध्यान करने वाला इस पर जीवघन ( सूत्रात्मा ) से पर पुरिशय ( सर्वेशरीरानुप्रविष्ट ) पुरुष को देखता है ) वहाँ अभिध्यान का विषयरूप कर्म तो मिथ्या वस्तु भी होती है, क्योंकि इच्छा से कल्पित भी ध्यान का विषयरूप कर्म होता है । परन्तु ईक्षति कर्म तो लोक में ( सत्य वस्तु ) ही देवी जाती है, इससे सम्यक् दर्शन का विषयरूप परमात्मा ही इस ईक्षति का कर्म रूप से कहा गया है, ऐसी प्रतीति होती है । वही यहाँ अभिध्यातव्य है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा पर और पुरुष शब्द से होती है ।

नन्वभिध्याने परः पुरुष उक्तः, ईक्षणो तु परात्परः, कथमितर इतरत्र प्रत्यभिज्ञायत इति । अत्रोच्यते—परपुरुषशब्दौ तावदुभयत्र साधारणौ । नचात्र जीवघनशब्देन प्रकृतोऽभिध्यातव्यः परः पुरुषः परामृश्यते, येन तस्मात्परात्परोऽयमीक्षितव्यः पुरुषोऽन्यः स्यात् । कस्तर्हि जीवघन इति उच्यते ? घनो मूर्तिः, जीवलक्षणो घनो जीवघनः, सैन्धवखिल्यवद्यः परमात्मनो जीवरूपः खिल्यभावः उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रियेभ्यः सोऽत्र जीवघन इति । अपर आह—‘स सामभिर्ब्रह्मीयते ब्रह्मलोकम्’ इत्यतीतानन्तरवाक्यनिर्दिष्टो यो ब्रह्मलोकः परश्च लोकान्तरेभ्यः सोऽत्र जीवघन इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणपरिवृतानां सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोकनिवासिनि सघातोपपत्तेर्भवति ब्रह्मलोको जीवघनः । तस्मात्परो यः परमात्मेक्षणकर्मभूतः स एवाभिध्यानेऽपि कर्मभूत इति गम्यते । परं पुरुषमिति च विशेषणं परमात्मपरिग्रह एवावकल्पते । परो हि पुरुषः परमात्मैव भवति यस्मात्परं किञ्चिदन्यत्रास्ति, ‘पुरुषान्न पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः’ इति च श्रुत्यन्तरात् । ‘परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः’ इति च विभज्यानन्तरमोङ्कारेण परं पुरुषमभिध्यातव्यं ब्रुवन् पर-

मेव ब्रह्म परं पुरुषं गमयति । 'यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एव ह वै स पापमना विनिर्मुच्यते' इति पापमविनिर्मुक्तफलवचनं परमात्मानभिहाभिध्यातव्यं सूचयति । अथ यदुक्तं—परमात्माभिध्यायिनो न देशपरिच्छिन्नं फलं युज्यत—इति । अत्रोच्यते—त्रिमात्रेणोङ्कारेणालम्बनेन परमात्मानमभिध्यायतः फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिः क्रमेण च सम्यग्दर्शनोत्पत्तिरिति क्रममुक्त्यभिप्रायमेतद्ब्रह्मविध्यतीत्यदोषः ॥ १३ ॥

यहाँ शंका होती है कि अभिध्यान मे पर पुरुष ध्येय कहा गया है और ईक्षणा में पर से पर कहा गया है, तो इतर ( ईक्षति कर्म ) इतरत्र ( ध्यायति वाक्य मे ) कैसे प्रत्यभिज्ञात होता है । यहाँ कहा जाता है कि पर और पुरुष शब्द प्रथम दोनो वाक्य मे तुल्य है ) इस ईक्षति वाक्य मे जीवघन शब्द से प्रकृत अभिध्यातव्य पर पुरुष का परामर्श ( सम्बन्ध ) नहीं होता है कि जिससे उस ध्यातव्य पर से पर यह द्रष्टव्य पुरुष अन्य ( ध्येय से भिन्न ) हो । शंका होती है कि यदि ध्यातव्य पर पुरुष जीव घन नहीं है, तो कौन है ? इसका उत्तर कहा जाता है कि घन शब्द मूर्ति का वाचक है, और जीव रूप जो घन उसको जीवघन कहते हैं अर्थात् सैन्धव ( लवण ) खिल्य ( पिराड ) तुल्य जो परमात्मा को उपाधिकृत जीव भाव रूप खिल्य भाव ( परिच्छिन्न भाव ) है, और इन्द्रियो से पर है यहाँ जीवघन है । कोई कहते हैं कि ( वह साम से ब्रह्म लोक मे पहुँचाया जाता है ) इस अतीत ( पूर्वगत ) अव्यवहित वाक्य मे निर्दिष्ट जो ब्रह्म लोक है, और लोकान्तरो से पर भी है, वही यहाँ जीवघन शब्द से कहा जाता है, जिससे व्यष्टि करणो ( इन्द्रियो ) से परवृत्त ( आच्छादित ) व्यष्टि करणो के अभिमानी सब जीवो का सर्वकरणात्मा ( समष्टि करणाभिमानी ) ब्रह्मलोक निवासी हिरण्य गर्भ मे सघात की सिद्धि होती है, जिससे ब्रह्मलोक जीवघन ( जीव सघ का आश्रय ) होता है, उससे पर जो परमात्मा ईक्षणा का कर्म स्वरूप है, वही अभिध्यान मे भी कर्म स्वरूप है ऐसा जाना जाता है । एव 'पर पुरुषम्', यह विशेषण भी परमात्मा को स्वीकार करने पर हीयुक्त सिद्ध होगा । क्योंकि पर पुरुष परमात्मा ही होता है जिससे पर अन्य कुछ भी नहीं है । दूसरी श्रुति कहती है कि ( पुरुष से पर कुछ नहीं है, पुरुष परत्व की सीमा है और उत्तम गतिरूप है ) और ( जो ओकार है, वह पर अपर ब्रह्म है ) इस प्रकार विभाग कर के उसके बाद पर पुरुष को अभिध्यातव्य कहता हुआ गुरु पर ब्रह्म को पर पुरुष समझाता है । ( जैसे सर्प जीर्ण त्वक् से मुक्त होता है, वैसे ही वह ध्याता पाप से मुक्त होता है ) इस प्रकार पाप की निवृत्ति रूप फल का वचन यहाँ परमात्मा को अभिध्यातव्य सूचन करता है । जो यह कहा था कि परमात्मा के अभिध्यान करने वाले के लिए देश से परिच्छिन्न ( परिमित ) फल युक्त नहीं है । यहाँ कहा जाता है कि त्रिमात्र ओकार रूप आलम्बन के द्वारा परमात्मा के ध्यान करने वाले को प्रथम ब्रह्मलोक की

प्राप्ति रूप फल होता है, फिर क्रम से सम्यग् दर्शन की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार क्रम मुक्ति मे अभिप्राय वाला यह फल वचन है, इससे दोष नहीं है ॥ १३ ॥

### दहराधिकरण ॥ ५ ॥

दहरः को वियजीवो ब्रह्म वाऽऽकाशशब्दतः । वियत्स्यादथवात्पत्वश्रुतेर्जीवो भविष्यति ॥  
बाह्याकाशोपमानेन द्युभूम्यादिसमाहितः । आत्मापहतपाप्मत्वात्सेतुत्वाच्च परेश्वरः ॥

( दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश ) इस श्रुति मे सुना गया दहर ( अल्प ) आकाश ब्रह्म का बोधक है, भूताकाशादि का नहीं, उस मे कारण यह है कि उत्तर वाक्य शेषो मे, सर्वाधिष्ठानत्वापहतपाप्मत्वादि कहे गये हैं सो ब्रह्म से अन्य मे नहीं हो सकते । सामान्य दृष्टि से संशय है कि दहर कौन है ? आकाश जीव या ब्रह्म है । पूर्वपक्ष है कि आकाश शब्द से भूताकाश है, अल्पत्व के सुनने से जीव हो सकता है । सिद्धान्त है कि बाह्याकाश को उपमान कहा गया है, और उसे उपमेय कहा गया है, इससे वह भूताकाश नहीं है, और स्वर्गभूमि आदि की उसमे स्थिति कही गई है, तथा पापादि से रहित असंग कहा गया है, एव धर्मादि के सेतु कहा गया है इससे दहर परमात्मा है ।

### दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥

‘अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरे पुण्डरीके वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्न्यदन्तमनदन्वेष्टयं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्’ (छां० ८।१।१) इत्यादिवाक्यं समाम्नायते । तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः स किं भूताकाशोऽथवा विज्ञानात्माऽऽथवा परमात्मेति संशय्यते । कुतः संशयः ? आकाशब्रह्मपुरशब्दाभ्याम् ! आकाशशब्दो ह्ययं भूताकाशो परस्मिन् प्रयुज्यमानो दृश्यते । तत्र किं भूताकाश एव दहरः स्यात्किंवा पर इति संशयः । तथा ब्रह्मपुरमिति किं जीवोऽत्र ब्रह्मनामा तस्येदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरमथवा परस्यैव ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति । तत्र जीवस्य परस्य वान्यतरस्य पुरस्वामिनो दहराकाशत्वे संशयः । तत्राकाशशब्दस्य भूताकाशे रूढत्वाद्भूताकाश एव दहरशब्द इति प्राप्तम् । तस्य च दहरायतनापेक्षया दहरत्वम् । ‘यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाशः, इति च बाह्याभ्यन्तरभावकृतभेदस्योपमानोपमेयभावः’ द्यावापृथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितम्, अवकाशात्मनाकाशस्यैकत्वात् । अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम्, ब्रह्मपुरशब्दात् । जीवस्य हीदं पुर सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते, तस्य स्वकर्मणोपार्जितत्वात् । भक्त्या च तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम् । नहि परस्य ब्रह्मणः शरीरेण स्वस्वाभिभावः सम्बन्धोऽस्ति । तत्र पुरस्वामिनः पुरैकदेशोऽवस्थानं दृष्ट यथा राज्ञः । मनउपाधिकश्च जीवः, मनश्च प्रायेण हृदये प्रतिष्ठितमित्यतो जीवस्यैवेदं हृदयेऽन्तरवस्थानं स्यात् । दहरत्वमपि तस्यैव आरात्रोपमितत्वादवकल्पते । आकाशोपमितत्वादि



च ब्रह्माभेदविवक्षया भविष्यति । नचात्र दहरस्याकाशस्यान्वेष्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रूयते, 'तस्मिन्यदन्तः' इति परविशेषणत्वेनोपादानादिति ।

भूमविद्या के बाद ( ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से ब्रह्मपुर रूप जो यह मानव शरीर है, उसमें जो यह प्रसिद्ध दहर ( अल्प ) हृदय कमल है, जो वेश्म ( गृह ) के समान है । उसमें दहर आकाश है, उसके अन्दर जो है सो अन्वेषणीय है, और विशेष रूप से ज्ञातव्य है ) इत्यादि वाक्य पढ़े जाते हैं । वहाँ जो यह दहर हृदय पुण्डरीक में दहर आकाश सुना गया है । वह क्या भूताकाश है, अथवा जीव है, अथवा परमात्मा है ? इस प्रकार संशय होता है । जिज्ञासा होती है कि संशय किस हेतु से होता है, उत्तर है कि आकाश और ब्रह्मपुर इन दोनों शब्दों से संशय होता है, क्योंकि यह आकाश शब्द भूताकाश और परमात्मा दोनों अर्थ में प्रयुक्त—( पठित ) देखा जाता है, वहाँ संशय होता है कि इस वाक्य में क्या भूताकाश ही दहर होगा । अथवा परमात्मा दहर होगा । इसी प्रकार 'ब्रह्मपुरम्', इसमें संशय होता है कि क्या यही जीव ब्रह्म नाम बाला है और उसका पुर यह शरीर है इससे ब्रह्मपुर है । अथवा पर ब्रह्म का ही पुर है इससे ब्रह्मपुर है । उस वर्णित संशय के होने पर जीव वा परमात्मा रूप अन्यतर पुर स्वामी के दहराकाशत्व में संशय होता है । वहाँ आकाश शब्द के भूताकाश में रूढ़ होने से भूताकाश ही दहर शब्द का अर्थ है, ऐसा प्राप्त होता है, और उसको अल्प आश्रय की अपेक्षा से अल्पत्व है । ( जितना परिमाणवाला यह बाह्याकाश है, उतना ही परिमाणवाला यह हृदय का आकाश है ) इस बाह्याभ्यन्तर भावकृत भेदवाले आकाश को उपमान उपमेय भाव होता है । एव आकाश स्वरूप से एक होने के कारण उसके अन्दर स्वर्गभूमि आदि समाहित ( सम्यक् धृत् ) है । अथवा ब्रह्मपुर शब्द से जीव दहर है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि यह शरीर जीव का पुर होता हुआ ब्रह्मपुर कहा जाता है और उसके अपने कर्म से शरीर उपाजित है, इससे उसका पुर है । चेतन होने से गौणीवृत्ति द्वारा जीव को ब्रह्म शब्द की वाच्यता है । पर ब्रह्म का यहाँ ब्रह्म शब्द से नहीं ग्रहण हो सकता, क्योंकि परब्रह्म को शरीर के साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध नहीं है । वहाँ पुर के स्वामी जीव का ही हृदय रूप एक देश में वास देखा गया है, जैसे राजा का निवास पुर के एक देश में देखा जाता है । अर्थात् लोक में पुर के स्वामी राजा का अवस्थान जैसे पुर के एक देश राजभवन में देखा गया है, वैसे ही उक्त श्रुति में शरीर के स्वामी जीव का हृदय में अवस्थान देखा गया है, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि जैसे नगर के स्वामी से अन्य भी नगर के एक देश में रहता है, वैसे ही शरीर के स्वामी जीव से अन्य ब्रह्म का हृदय वास स्थान है । यद्यपि जीव का सम्पूर्ण शरीर भोग का स्थान है, तथा कर्मोपाजित है, तथापि मन उपाधिवाला जीव है और मन अधिकतर हृदय में प्रतिष्ठित रहता है, इस हेतु से जीव का ही यह श्रुति दृष्ट हृदय के अन्दर अवस्थान ( निवास ) हो सकता है । आराग्न से उपमित ( तुल्यता ) के कारण दहरत्व

भी जीव को ही युक्त सिद्ध होता है, एव आकाश तुल्यता आदि जीव को ब्रह्म के साथ अभेद की विवक्षा से होगा। एव ध्रुति मे अन्वेषणीय रूप से जिज्ञासितव्य रूप से दहराकाश नहीं सुना जाता है, क्योंकि ( जो उसके अन्दर है ) इस प्रकार जो उसके पर ( अन्य वस्तु है, उसके विशेषण आधार रूप से आकाश का ग्रहरण है, इससे भूताकाश दहर हो सकता है, और उसमे अन्वेषणीय पर ब्रह्म है।

अत उत्तरं ब्रूम—परमैश्वर एवात्र दहराकाशो भवितुमर्हति न भूताकाशो जीवो वा। कस्मात् ? उत्तरेभ्यो वाक्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः। तथाहि—अन्वेष्यतया विहितस्य दहरस्याकाशस्य 'तं चेद्ब्रयुः' इत्युपक्रम्य 'किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्' इत्येवमाक्षेपपूर्वकं प्रतिसमाधानवचनं भवति। 'म ब्रूयाद्यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश उभे अस्मिन्वावापृथिवी अन्तरेव समाहिते' ( छां० ८।१।३ ) इत्यादि। तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्याकाशस्य प्रसिद्धाकाशौपम्येन दहरत्वं निवर्तयन् भूताकाशत्वं दहरस्याकाशस्य निवर्तयतीति गम्यते। यद्यप्याकाशशब्दो भूताकाशो रूढस्तथापि तेनैव तस्योपमा नोपपद्यत इति भूताकाशशब्दा निवर्तिता भवति।

इस प्रकार प्राप्त होने पर इसके बाद उत्तर कहते हैं कि परमेश्वर ही यहाँ दहराकाश होने योग्य है, भूताकाश वा जीव नहीं। क्योंकि आगे के वाक्य शेष गत हेतुओं से ऐसा निश्चय होता है, जैसे कि 'तदन्वेष्यम्' इत्यादि वचन से अन्वेष्य रूप से विहित का सम्बन्धी आधार दहराकाश का आक्षेपपूर्वक, उस गुरु को यदि शिष्य कहे, इस प्रकार आरम्भ करके शिष्य का कथन है कि ( अल्प पुण्डरीक के अन्दर अति अल्प इस ) दहराकाश के अन्दर क्या है जो अन्वेष्य और विशेष विचारणीय है ? इस प्रकार दहराकाश का आक्षेपपूर्वक शिष्य के प्रति समाधान का वचन है कि ( वह गुप्त शिष्य के प्रति कहे कि जितना यह बाह्य आकाश है, निश्चय उतना ही अन्तर हृदयाकाश है। एव स्वर्ग भूमि दोनों इसमे अन्तर्गत स्थिर स्थापित हैं ) इत्यादि। वहाँ प्रसिद्ध आकाश की उपमा से पुराडरीक के अल्पत्व से जो आकाश को अल्पत्व प्राप्त था उस अल्पत्व को निवृत्त करता हुआ गुरु दहराकाश के भूताकाशत्व की भी निवृत्ति करता है, ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि आकाश शब्द भूताकाश मे रूढ है, तो भी उस भूताकाश की उपमा ( तुल्यता ) नहीं बन सकती है, इससे भूताकाश की शका निवृत्त हो जाती है।

नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानोपमेयभावः सम्भवतीत्युक्तम्। नैवं सम्भवति। अगतिका हीयं गतिः, यत्काल्पनिकभेदाश्रयणम्। अपि च कल्पयित्वापि भेदमुपमानोपमेयभावं वर्णयतः परिच्छिन्नत्वादभ्यन्तराकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणत्वमुपपद्येत।

यद्यपि एक आकाश के भी बाह्यत्व अन्तरत्व से कल्पित भेद द्वारा उस एक मे भी

उपमान उपमेय भाव का सम्भव है, यह पहले कहा है, तथापि इस प्रकार उपमान उपमेय भाव का मुख्य रूप से सम्भव नहीं है, और जो उपमान उपमेय भाव के लिए काल्पनिक भेद का स्वीकार है, यह तो अगतिक गति है ' यहाँ दहराकाश को ब्रह्म मानने पर अगतिकता है नहीं । और दूसरी बात है कि अभेद में भेद की कल्पना करके उपमान उपमेय भाव का वर्णन करने वाले को अन्तर्गत आकाश के परिच्छिन्न होने से वह बाह्य आकाश के परिमाण वाली उपमा नहीं सिद्ध हो सकती है, न उपमेय हो सकता है, परिच्छेद दृष्टि को त्यागने पर अत्यन्ताभेद से उपमानोपमेय भाव नहीं हो सकता है ।

ननु परमेश्वररस्यापि 'व्यायानाकाशात्' ( शत० ब्रा० १०।६।३।२ ) इति श्रुत्यन्तरात्रैवाकाशपरिमाणत्वमुपपद्येत । नैष दोषः । पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तदहरत्वनिवृत्तिपरत्वाद्वाक्यस्य न तावत्प्रतिपादनपरत्वम् । उभयप्रतिपादने हि वाक्यं भिद्येत । नच कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टिते आकाशैकदेशे व्यावाप्रथिव्यादीनामन्तः समाधानमुपपद्यते । 'एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः ' इति चात्मत्वापहतपाप्मत्वाद्यश्च गुणा न भूताकाशे सम्भवन्ति । यद्यप्यात्मशब्दो जीवे सम्भवति तथापीतरेभ्यः कारणेभ्यो जीवाशङ्कापि निवर्तिता भवति । नह्युपाधिपरिच्छिन्नस्याराधोपमितस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वं शक्यं निवर्तयितुम् । ब्रह्माभेदविवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादिविद्येतेति चेत् । यदात्मतया जीवस्य सर्वगतत्वादि विद्येतेत तस्यैव ब्रह्मणः साक्षात्सर्वगतत्वादि विद्येतेति युक्तम् । यदप्युक्तं—ब्रह्मपुरमिति जीवेन परस्योपलक्षितत्वाद्वाज्ञ इव जीवस्यैवेदं पुरस्वामिनः पुरैकदेशवर्तित्वमस्तु—इति । अत्र ब्रूमः । परस्यैवेदं ब्रह्मणः पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते, ब्रह्मशब्दस्य तस्मिन्मुख्यत्वात् । तस्याप्यस्ति पुरेणानेन सम्बन्धः, उपलब्ध्यधिष्ठानत्वात् । 'स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते' ( प्र० ५।५ ) 'स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयः' ( बृ० २।५।१८ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । अथवा जीवपुर एवास्मिन्ब्रह्म संनिहितमुपलक्ष्यते । यथा शालग्रामे विष्णुः संनिहित इति तद्वत् । 'तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' ( छां० ८।१।६ ) इति च कर्मणामन्तवत्फलत्वमुक्त्वा 'अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' इति प्रकृतदहराकाशविज्ञानस्यानन्तफलत्वं वदन् परमात्मत्वमस्य सूचयति । यदप्येतदुक्तं—न दहरस्याकाशस्यान्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतं, परविशेषणत्वेनोपादानात्—इति । अत्र ब्रूमः । यद्याकाशो नान्वेष्टव्यत्वेनोक्तः स्यात् 'यावान् वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाशः' इत्याद्याकाशस्वरूपप्रदर्शनं नोपयुज्येत ।

यदि कहा जाय कि ( ज्यायानाकाशात्—परमात्मा आकाश से बहुत बड़ा है ) इस श्रुति से परमात्मा मे भी अति श्रेष्ठत्व सिद्ध है, इससे परमात्मा को भी आकाश तुल्य परिमाणवत्त्व नहीं सिद्ध हो सकता है। इसका समाधान है कि यहाँ यह दोष नहीं है, क्योंकि यह वाक्य पुण्डरीक वेष्टन से प्राप्त जो अल्पत्व उसकी निवृत्ति परक है, अर्थात् आकाश की उपमा से अल्पत्व शंकामात्र निवृत्त किया जाता है, इससे इस वाक्य को आकाश तुल्यत्वमात्र प्रतिपादन परत्व नहीं है। एक वाक्य से दोनो अर्थ के प्रतिपादन करने पर वाक्य भेद की प्राप्ति होगी और कल्पित भेदवाले पुण्डरीक से वेष्टित आकाश के एक देश मे स्वर्ग भूमि आदि का अन्त समाधान ( सम्यग् धारण ) नहीं बन सकता है। इसी प्रकार ( यह आत्मा पाप रहित, जरा अवस्था रहित, मृत्यु और शोक रहित, बुभुक्षारहित, पिपासा रहित, सत्यकाम और सत्य सकल्प वाला है ) इस प्रकार के आत्मत्व पाप विमुक्तवादि गुण भूताकाश मे सम्भव नहीं हैं। यद्यपि आत्म शब्द जीव मे सम्भव है, तो भी इतर हेतुओ से जीव की आशका भी निवृत्त हो जाती है। क्योंकि उपाधि से परिमित आराग्र की उपमा वाला जीव का पुण्डरीक वेष्टनकृत दहरत्व निवृत्त करने के लिये शक्य ( योग्य ) नहीं है। यदि ब्रह्म के साथ अभेद की विवक्षा से जीव के सर्वगतत्वादि कहना चाहते हो, तो उस ब्रह्म को ही साक्षात् सर्वगतत्वादि की विवक्षा करो, यही उचित है और भी जो यह कहा था कि 'ब्रह्मपुरम्' इस वाक्य मे जीव से पुर ( देह ) के उपलक्षितत्व ( सम्बद्धत्व ) के कारण राजा के समान पुर के स्वामी जीव का ही पुर के एक देश हृदय मे वर्त्तिता ( स्थिति ) रहे। यहाँ कहते है कि पर ब्रह्म का ही पुर होता हुआ यह शरीर ब्रह्मपुर कहाता है, क्योंकि ब्रह्मशब्द परब्रह्म मे मुख्य वृत्ति से है इसमे यहाँ उसका ही मुख्यत्व है। एव उस ब्रह्म को भी इस पुर के साथ सम्बन्ध है, क्योंकि यह देह उस ब्रह्म की उपलब्धि ( ज्ञान ) का अधिष्ठान ( स्थान ) है, इससे उपलब्धि स्थानत्वरूप सम्बन्ध है। तथा ( वह ध्याता इस पर जीवघन से पर पुरनिवासी पुरुष को देखता है ) और 'वह पुरुष सब शरीरो मे हृदय पुर मे यह सोया ( स्थिर ) है' इत्यादि श्रुति वचनो से उक्त सम्बन्ध सिद्ध निश्चित होता है। अथवा शरीर की वृद्धि का हेतु होने से जीव ही ब्रह्म शब्द का अर्थ ( ब्रह्मपुरम् ) इस वाक्य मे है और उस जीव के इस शरीर रूप पुर मे ही हृदय मे सन्निहित ( ध्यात ) ब्रह्म उपलक्षित ( ज्ञात ) होता है, जैसे कि शालग्राम मे सन्निहित विष्णु उपलक्षित होता है, वैसे ही समझना चाहिये। एव जैसे यहाँ कर्माजित लोक नष्ट होता है, वैसे ही परलोक में पुरयाजित लोक विषयादि भी नष्ट होते है। इस प्रकार कर्मों को विनश्वर फलवत्त्व कहकर कहा है कि ( वैराग्य के बाद जो कोई इस शरीर मे आत्मा को ध्यानादि से जानकर परलोक मे जाते है, तथा इस आत्मा के आश्रित रहने वाले इन सत्य कामादि गुणो को जानकर परलोक मे जाते हैं उनको सब लोको मे यथेष्ट गति होती है ) इस कथन से प्रकृत दहराकाश के विज्ञान के अनन्त फलत्व को कहता हुआ गुरु

इसको परमात्मत्व सूचित करता है। पहले जो यह भी कहा था कि दहराकाश को अन्वेष्टव्यत्व और विजिज्ञासितव्यत्व नहीं सुना गया है, क्योंकि पर के विशेषण रूप से उसका ग्रहण किया गया है। उसके लिए कहते हैं कि यदि आकाश अन्वेष्टव्य रूप से नहीं उक्त होता तो 'जितना यह आकाश है इतना ही यह अन्त हृदयाकाश है' इत्यादि वचन से आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन उपयुक्त ( सफल ) नहीं होगा।

नन्वेतदप्यन्तर्वतिवस्तुसद्भावप्रदर्शनायैव प्रदर्श्यते, 'तं चेद्ब्रूयुर्यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्' इत्याक्षिप्य परिहारावसर आकाशोपम्योपक्रमेण द्यावापृथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्वदर्शनात् । नैतदेवम् । एवं हि सति यदन्तः-समाहितं द्यावापृथिव्यादि तदन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्य चोक्तं स्यात् । तत्र वाक्यशेषो नोपपद्येत । 'अस्मिन्कामाः समाहिताः, एष आत्माऽपहतपाप्मा' इति हि प्रकृतं द्यावापृथिव्यादिसमाधानाधारमाकाशमाकृष्य 'अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामान्' इति समुच्चयार्थेन चशब्देनात्मानं कामाधारमाश्रितांश्च कामान्विज्ञेयान्वाक्यशेषो दर्शयति । तस्माद्वाक्योपक्रमेऽपि दहर एवाकाशो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तःस्थैः समाहितैः पृथिव्यादिभिः सत्यैश्च कामैर्विज्ञेय उक्त इति गम्यते । स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति ॥ १४ ॥

यदि कहो कि यह स्वरूप प्रदर्शन भी अन्तर्वर्ती वस्तु के सद्भाव प्रदर्शन कराने के लिए किया गया है, क्योंकि 'उस गुरु को यदि शिष्य कहे कि जो इस ब्रह्मपुर मे अल्प पुराडरीक रूप वेश्म है उसमे अल्प अन्त आकाश है, यहाँ कौन वह वस्तु है कि जो अन्वेष्टव्य है और अवश्य विजिज्ञासितव्य है' इस प्रकार आक्षेप करके, परिहार के अवसर मे आकाश की उपमा तुल्यता का प्रारम्भ पूर्वक स्वर्ग भूमि आदि का अन्त-समाहितत्व देखा जाता है, जिमसे अन्तगति वस्तु प्रदर्शन के ही लिये आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन है। वहाँ कहा जाता है कि यह प्रदर्शन इस प्रकार का नहीं है, जिससे ऐसा होने पर जो अन्त-मे समाहित स्वर्ग भूमि आदि हैं वेही अन्वेष्टव्य और विजिज्ञासितव्य है, यह कथित होगा। इससे जगत ही ध्येय ज्ञेय सिद्ध होगा। ऐसा होने पर वाक्य शेष सगत नहीं होगा, क्योंकि ( इसमे काम समाहित है, यह आत्मा अपहत पाप्मा है ) इन वाक्यो से प्रकृत स्वर्ग भूमि आदि के समाधान का आधार आकाश का आकर्षण संबन्ध करके ( अथ जो यहाँ आत्मा और इन सत्य कामो को जान कर गमन करता है ) इस कथन से समुच्चयार्थक च शब्द से काम के आधार आत्मा को और आश्रित कामो को वाक्यशेष विज्ञेय दिखलाता है स्वर्ग भूमि आदि को नहीं। इससे वाक्य के आरम्भ मे भी हृदयपुराडरीकवृत्ति दहराकाश ही अन्त-स्थित समाहित पृथिवी आदि सहित और सत्य कामो सहित विज्ञेय कहा गया है, यह निश्चय होता है। एवं वह दहर उक्त हेतुओ से परमात्मा है ॥ १४ ॥

## गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥

गतिशब्दाभ्याम्—तथा-हि-दृष्टम्-लिङ्गम्-च । इस सूत्र मे छ' पद है । सन्निभार्थ है कि ( गमन ब्रह्मलोकशब्दाभ्यां दहरो ब्रह्मेति हि । यस्माच्छ्रुत्यन्तरे तथा दृष्टं वर्तते वाक्य-शेषे श्रुत्यन्तरे दृष्टं वचनं च ब्रह्मलोकशब्दे कर्मधारयसमासे लिङ्गं भवतीति ) ब्रह्मलोक मे प्रतिदिन का गमन और ब्रह्मलोक शब्द से दहर ब्रह्म है और दूसरी श्रुति में भी जिससे वैसा वचन देखा गया है, उससे भी दहर ब्रह्म है, एव वही वचन कर्मधारय समास मे भी लिङ्ग ( हेतु ) होता है ।

दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम् । त एवोत्तरे हेतव इदानीं प्रपञ्चयन्ते । इतश्च परमेश्वर एव दहरः, यस्माद्दहरवाक्यशेषे परमेश्वरस्यैव प्रतिपादकौ गतिशब्दौ भवतः—'इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्म-लोकं न विन्दन्ति' ( छां० ८।३।२। ) इति । तत्र प्रकृतं दहरं ब्रह्मलोकशब्दे-नाभिधाय तद्विषया गतिः प्रजाशब्दवाच्यानां जीवानामभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति । तथा ह्यहरहर्जीवानां सुषुप्तावस्थायां ब्रह्मविषय गमनं दृष्टं श्रुत्यन्तरे—'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति' ( छां० ६।८।१ ) इत्येवमादौ । लोकेऽपि किल गाढं सुषुप्तमाचक्षते-ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतां गत-इति । तथा ब्रह्म-लोकशब्देऽपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाशशङ्कां निवर्तयन् ब्रह्मतामस्य गमयति । ननु कमलासनलोकमपि ब्रह्मलोकशब्दो गमयेत्, गमयेद्यदि ब्रह्मणो लोक इति षष्ठीसमासवृत्त्या व्युत्पाद्येत । सामानाधिकरण्यवृत्त्या तु व्युत्पाद्यमानो ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति । एतदेव चाहरहर्ब्रह्मलोक-गमनं दृष्टं ब्रह्मलोकशब्दस्य सामानाधिकरण्यवृत्तिपरिग्रहे लिङ्गम् । नह्यहर-हरिमा' प्रजा' कार्यब्रह्मलोकं मत्तल्लोकाख्यं गच्छन्तीति शक्यं कल्पयितुम् ॥१५॥

उत्तर हेतुओ से दहर परमेश्वर ही है, पहले यह कहा गया है । अब वे ही अगले हेतु इस समय विस्तृत रूप से कहे जाते हैं कि इस वक्ष्यमारा हेतु से भी परमेश्वर ही दहर है, जिससे दहर के वाक्य शेष मे परमेश्वर के ही प्रतिपादक गति और शब्द है कि ( यह सब प्रजाजीव ) प्रतिदिन सुषुप्ति काल मे इस दहररूप ब्रह्म मे प्राप्त होती हैं, परन्तु अज्ञान से आवृत रहने के कारण ब्रह्मलोक को जानती नहीं है ) । वहाँ प्रकृत दहर को ब्रह्मलोक शब्द से कह कर प्रजाशब्द के वाच्य जीवों की उस दहर विषयक गति को कहती हुई श्रुति दहर की ब्रह्मता को समझाती है । एव श्रुत्यन्तर मे भी उसी रीति से जीवों की प्रतिदिन सुषुप्ति अवस्था मे ब्रह्म विषयक गमन देखा गया है कि ( हे सोम्य ! सुषुप्ति काल मे जीव सद्ब्रह्म से मिल जाता है ) इत्यादि । लोक मे भी अत्यन्त गाढ ( अतिशय ) निद्रायुक्त को लोग कहते हैं कि ब्रह्मस्वरूप हो गया ब्रह्मता को प्राप्त किया इत्यादि । उक्त गति के समान श्रुतिगत ब्रह्मलोक शब्द भी प्रकृत दहर

मे प्रयुज्यमान ( उच्चारित ) हो कर, दहर विषयक जीव और भूताकाश वाचकत्वशंका निवृत्त करता हुआ इस दहर की ब्रह्मता को समझता है। शंका होती है कि ब्रह्मा के लोक को भी 'ब्रह्मलोक' शब्द बोध करा सकता है? उत्तर है कि यदि ( ब्रह्मरूपो लोक ) ब्रह्मा का लोक, इस प्रकार से षष्ठीसमासरूप वृत्ति द्वारा ब्रह्मलोक शब्द को सिद्ध किया जाना तो ब्रह्मलोक शब्द ब्रह्मा के लोक को बोध कराता, परन्तु जहाँ कर्मधारय समास समब हो, वहाँ षष्ठी से कर्मधारय बली होता है, यह पूर्वमीमांसा ( निषादस्थपति अधिकरण ) में प्रसिद्ध है। यहाँ कर्मधारय का सम्भव है इससे समानाधिकरण वृत्ति ( कर्मधारय ) से साधा गया है कि ब्रह्मरूप लोक ब्रह्मलोक है। इस प्रकार यह शब्द पर ब्रह्म का ही बोध करायेगा अन्य का नहीं। एवं यही देखा गया प्रतिदिन का ब्रह्मलोकगमन ब्रह्मलोक शब्द की समानाधिकरण वृत्ति के स्वीकार में लिंग है, क्योंकि ये प्रजा सत्यलोक नामक कार्यब्रह्म के लोक में प्रतिदिन जाती है, ऐसी कल्पना हो नहीं सकती है ॥ १५ ॥

### धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नपलब्धेः ॥ १६ ॥

धृते -च-महिम्न-अस्य-अस्मिन्-उपलब्धे ये छ पद इस सूत्र में है। सक्षिप्तार्थ है कि ( धृतेर्हेतो परमात्मैव दहरो भवति धृत्यात्मकस्य, अस्य परमात्मनो महिम्नोऽस्मिन् दहरे ह्युपलब्धेर्ज्ञायते यदयं ब्रह्मेति ) धारणारूप हेतु से दहर परमात्मा है, और श्रुत्यन्तर में प्रसिद्ध परमात्मा की धृतिरूप महिमा इस दहर में ज्ञात होता है, इससे जाना जाता है कि दहर ब्रह्म है।

धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवायं दहरः। कथम्? 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इति हि प्रकृत्याकाशौपम्यपूर्वक तस्मिन्सर्वसमाधानमुक्त्वा तस्मिन्नेव चात्मशब्दं प्रयुज्यापहतपापमत्वादिगुणयोगं चोपदिश्य तमेवानतिवृत्तप्रकरणं निर्दिशति— 'अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय' ( छां० ८।४।१ ) इति। तत्र विधृतिरित्यात्मशब्दसामानाधिकरण्याद्विधारयितोच्यते, क्तिच. कर्तारि स्मरणात्। यथोदकसन्तानस्य विधारयिता लोके सेतुः क्षेत्रसंपदामसम्भेदाय, एवमयमात्मैषामध्यात्मादिभेदभिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादीनां च विधारयिता सेतुरसम्भेदायासङ्करायेति। एवमिह प्रकृते दहरे विधारणलक्षण महिमानं दर्शयति। अयं च महिमा परमेश्वर एव श्रुत्यन्तरादुपलभ्यते 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' इत्यादेः। तथान्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवाक्ये श्रूयते—'एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधारण एषां लोकानामसम्भेदाय' इति। एव धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवायं दहरः ॥ १६ ॥

धृति हेतु से भी परमेश्वर ही यह दहर है, क्योंकि ( इसमें दहर अन्तर आकाश है ) इस प्रकार आरम्भ करके ही आकाश की उपमा पूर्वक उसमें सबका समाधान कहकर

और उस दहर मे ही 'आत्म' शब्द का प्रयोग करके और अपहृतपाप्मत्वादि गुण सम्बन्ध का उपदेश करके, जिसका प्रकरण अतिवृत्त (समान-निवृत्त) नहीं हुआ है उसी का श्रुति निर्देश करती है कि ( जो आत्मा है वह इन लोको का असम्भेद = अमिश्रण ) के लिये सेतु है । विद्युति = धारण कर्ता है । वहाँ 'विद्युति' इस शब्द से आत्म शब्द के सामानाधिकरण्यात् से विधारयिता कहा जाता है । क्योंकि क्तिच् प्रत्यय कर्ता अर्थ मे स्मृत है, और जैसे जलप्रवाह का विधारण करने वाला सेतु लोक मे होता है, वह क्षेत्र सम्पत्ति का असम्भेद के लिये होता है, वैसे यह आत्मा अध्यात्मादि भेद से भिन्न इन लोको का और वर्णाश्रमादि का असम्भेद ( असङ्कर ) के लिये विधारयिता सेतु है, इस प्रकार यहाँ प्रकृत दहर मे विधारणरूप महिमा को श्रुति दिखलाती है, और यह महिमा श्रुत्यन्तर से परमेश्वर की ज्ञात होती है कि ( हे गार्गी इस अक्षर परमात्मा के अनुशासन मे सूर्य चन्द्रमा विद्युत स्थिर है ) इत्यादि । वैसे ही अन्यत्र भी निश्चित परमेश्वर विषयक वाक्य मे सुना जाता है कि ( यह सर्वेश्वर है यह भूतपति है, यह भूतपालक है, और इन लोको का असम्भेद के लिये यही विधारण कर्ता सेतु है । इस प्रकार धृति हेतु से भी परमात्मा ही यह दहर है ॥ १६ ॥

### प्रसिद्धेश्च ॥ १७ ॥

इतश्च परमेश्वर एव 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इत्युच्यते । यत्कारणमाकाशशब्दः परमेश्वरे प्रसिद्धः । 'आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहितः' ( छां० ८।१।४। ), 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते' ( छां० १।६।१ ) इत्यादिप्रयोगदर्शनात् । जीवे तु न कचिदाकाशशब्दः प्रयुज्यमानो दृश्यते । भूताकाशस्तु सन्यामप्याकाशशब्दप्रसिद्धावुपमानोपमेयभावाद्यसम्भवाच्च ग्रहीतव्य इत्युक्तम् ॥ १७ ॥

इस हेतु से भी परमेश्वर ही ( इसमे दहर अन्तः आकाश है ) इस प्रकार कहा जाता है, कि जिस कारण से आकाश शब्द परमेश्वर अर्थ मे प्रसिद्ध है ( आकाश ही नाम रूप का निर्वाहक आश्रय है । सब भूत आकाश ही से सम्यक् उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि वचनो मे ईश्वर विषयक आकाश शब्द का प्रयोग देखने से प्रसिद्धि समझी जाती है । जीव अर्थ मे प्रयुज्यमान ( पठिन ) आकाश शब्द तो कही नहीं देखा जाता है । भूताकाश अर्थ मे आकाश शब्द की प्रसिद्धि होते भी उपमान उपमेयभाव का एक मे असम्भव से भूताकाश यहाँ ग्रहण के योग्य नहीं है, यह पहले कहा जा चुका है ।

### इतरपरामर्शात्स इति चेन्नासम्भवात् ॥ १८ ॥

यदि वाक्यशेषबलेन दहर इति परमेश्वरः परिगृह्येतास्तीतरस्यापि जीवस्य वाक्यशेषे परामर्शः—'अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्य एष आत्मेति होवाच' ( छां० ८।३।४ )



इति । अत्र हि सम्प्रसादशब्दः श्रुत्यन्तरे सुषुप्तावस्थायां दृष्टत्वात्तदवस्थावन्तं जीवं शक्नोत्युपस्थापयितुं नार्थान्तरम् । तथा शरीरव्यपाश्रयस्यैव जीवस्य शरीरात्समुत्थानं सम्भवति । यथाकाशव्यपाश्रयाणां वाय्वादीनामाकाशात्समुत्थानं यद्वत् । यथा चादृष्टोऽपि लोके परमेश्वरविषय आकाशशब्दः परमेश्वरधर्मसमभिव्याहारात् 'आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता' इत्येवमादौ परमेश्वरविषयोऽभ्युपगत एवं जीवविषयोऽपि भविष्यति । तस्मादितरपरामर्शात् 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश' इत्यत्र स एव जीव उच्यते इति चेत् । नैतदेवं स्यात् । कस्मात् ? असम्भवात् । नहि जीवो बुद्ध्याद्युपाधिपरिच्छेदाभिमानी सन्नाकाशेनोपमीयेत । नचोपाधिधर्मानभिमन्यमानस्यापहतपाप्मत्वाद्यो धर्माः सम्भवन्ति । प्रपञ्चितं चैतत्प्रथमसूत्रे । आतरेकाशङ्गापरिहारायात्र तु पुनरुपन्यस्तम् । पठिष्यति चोपरिष्ठात् 'अन्यार्थश्च परामर्शः' ( ब्र० १।३।२० ) इति ॥

शंका होती है कि यदि वाक्य शेष के बल से 'दहर' इस पद से परमेश्वर परिगृहीत = स्वीकृत = ज्ञात होता है, तो परमेश्वर से इतर ( भिन्न ) जीव का भी वाक्य शेष में परामर्श ( विचार ) कथन है कि—जो यह संप्रसाद जीव इस शरीर से सम्यक् उठकर ( विविक्त आत्मा को समझकर ) और शरीराभिमान के अभाव से आत्मा को निज स्वरूप से प्राप्त करके उस परम ज्योति को प्राप्त करता है वही आत्मा है, ऐसा प्रजापति ने इन्द्र से कहा । दूसरी श्रुति में संप्रसाद शब्द सुषुप्ति अवस्था में प्रयुक्त देखा गया है । इससे यहाँ उस अवस्था वाले जीव को उपस्थित ( बुद्धिस्थ ज्ञात ) करा सकता है, अर्थान्तर को नहीं करा सकता । इसी प्रकार शरीर के आश्रित रहने वाला शरीराभिमानो जीव का ही शरीर से समुत्थान का सम्भव है, जैसे कि आकाश के आश्रित रहने वाले वायु आदि का आकाश से समुत्थान ( आविर्भाव ) होता है, ऐसा ही समझना चाहिये । जैसे लोक में आकाश पर परमेश्वर विषयक ( परमेश्वर वाचक ) अदृष्ट भी है, तो भी परमेश्वर के धर्मों के कथन से ( प्रसिद्ध आकाश ही नाम और रूप का निर्वाहक है ) इत्यादि श्रुति में परमेश्वर विषयक आकाश शब्द माना गया है, इसी प्रकार जीव विषयक भी दहराकाश शब्द हो सकता । इस कारण से इतर का परामर्श से ( इसमें अल्प अन्तराकाश है ) । यहाँ वह जीव ही दहराकाश कहा जाता है, इस प्रकार यदि कोई कहे, तो उसका उत्तर है कि यह दहराकाश इस प्रकार जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होना असम्भव है । जिससे बुद्धि आदि उपाधिकृत परिच्छेद ( भेद ) का अभिमानी होता हुआ जीव आकाश से उपमित नहीं हो सकता ( आकाश के तुल्य नहीं कहा जा सकता ) है । एवं उपाधि के हर्षशोकादि धर्मों का भी सम्भव नहीं है, यह प्रथम सूत्र में विस्तार पूर्वक कहा गया है । यहाँ तो आगे वर्णित अधिक शंका का निवारण के लिए फिर उपन्यास ( कथन ) किया गया है और जीव के स्वरूप के परामर्श का प्रयोजन आगे सूत्र में कहेंगे कि ( अन्यार्थक जीव का परामर्श है ) ॥१८॥

## उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥

इतरपरामर्शाद्या जीवाशङ्का जाता साऽसम्भवान्निराकृता । अथेदानी मृत-  
स्यैवामृतसेकात्पुनः समुत्थान जीवाशंकायाः क्रियते उत्तरस्मात्प्रजापत्याद्वा-  
क्यात् । तत्र हि 'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानमन्वे-  
ष्टव्य विजिज्ञासितव्यं च प्रतिज्ञाय 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मा'  
( छां० ८.७.४ ) इति ब्रुवन्नक्षिस्थं द्रष्टारं जीवमात्मानं निदिशति । 'एतं त्वेव  
ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि' ( छां० ८.१३.३ ) इति च तमेव पुनः पुनः परामृश्य  
'य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मा' ( छां० ८.१०.१ ) इति, 'तद्यत्रैत-  
त्सुमः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मा' इति च जीवमेवाव-  
स्थान्तरगतं व्याचष्टे । तस्यैव चापहतपाप्मत्वादि दर्शयति—'एतदमृतमभय-  
मेतद्ब्रह्म' इति । 'नाह खन्वयमेव सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो  
एवेमानि भूतानि' ( छां० ८.११.१, २ ) इति च सुषुप्तावस्थायां दोषमुपलभ्य  
'एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मात्' इति चोपक्रम्य  
शरीरसम्बन्धनिन्दापूर्वकं 'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं व्योतिरुप-  
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिपद्यते स उत्तमः पुरुषः' इति जीवमेव शरीरात्स-  
मुत्थितमुत्तमम्पुरुषं दर्शयति । तस्मादस्ति सम्भवो जीवे पारमेश्वराणां धर्मा-  
णाम् । अतः 'दह्रोऽस्मिन्नन्तराकाश' इति जीव एवोक्त इति चेत्कश्चिद्ब्रूयात् ।

इतर के परामर्श से जीव की शंका हुई थी, वह असम्भव से निराकृत ( निवारित )  
की गई । फिर जैसे अमृत के सेचन से मृत को जिलाया गया, वैसे उत्तर पठित प्रजापति  
के वाक्य से इस समय जीव शंका का समुत्थान किया जाता है । क्योंकि उस प्रजापति  
के वाक्य में ( जो आत्मा है सो पापरहित है ) इस प्रकार विगत पापत्वादि गुण वाला  
आत्मा को अन्वेष्टव्य और विजिज्ञातव्य की प्रतिज्ञा करके ( जो यह आँख में पुरुष  
देखता है यह आत्मा है ) इस प्रकार कहता हुआ, अक्षिस्थ द्रष्टा को जीवात्मा कहते हैं,  
( इसी को तेरे लिये फिर व्याख्यान करूँगा ) इस प्रकार उसका ही बार-बार परामर्श  
( स्मरण ) करके ( जो यह स्वप्न में वासनामय विषयो से पूज्यमान होकर विचरता है  
यह आत्मा है ) इस वाक्य में और ( सुषुप्ति काल में जब यह गाढ निद्रा से सोया रहता  
है, सब इन्द्रियों जिसकी लीन हुई रहती हैं, स्वयं सम्प्रसन्न दोषरहित शुद्ध रहता है,  
स्वप्न नहीं देखता है, यह आत्मा है ) इस वाक्य में भी प्रजापति अवस्थान्तर गत जीव  
का ही कथन करते हैं । उसी को ( यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है ) इत्यादि  
वाक्य से अपहतपाप्मत्वादि दिखलाते हैं । यहाँ इन्द्र का कथन है कि ( अह-खेद है कि  
इस सुषुप्ति काल में यह जीव अपने ही आत्मा को नहीं जानता है कि मैं यह हूँ और न  
इन भूतों को ही जानता है ) इस प्रकार दोष देखकर स्थिर इन्द्र के प्रति प्रजापति का  
कथन है कि ( इसी आत्मा का मैं फिर व्याख्यान करूँगा, इससे अन्य का व्याख्यान

नही कहूँगा ) इस प्रकार आरम्भ करके शरीर सम्बन्ध का निन्दापूर्वक जीव को ही शरीर से समुत्थित ( भिन्न ) उत्तम पुरुष दिखलाते हैं कि ( यह सम्प्रसाद इस शरीर से समुत्थित होकर पर ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप से निष्पन्न पूर्ण होता है ) उस प्रजापति के वाक्य से जीव में परमेश्वर के धर्मों का सम्भव है । इससे प्रजापति के वाक्य असम्भव की असिद्धि से इसमें दहर अन्तराकाश है ) इस प्रकार जीव ही कहा गया है, इस प्रकार यदि कोई कहे तो—

तं प्रति ब्रूयात्—‘आविर्भूतस्वरूपस्तु’ इति । तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः । नोत्तरस्मादपि वाक्यादिह जीवस्याशङ्का सम्भवतीत्यर्थः । कस्मात् ? यतस्तत्राप्याविर्भूतस्वरूपो जीवो विवक्ष्यते । आविर्भूतं स्वरूपमस्येत्याविर्भूतस्वरूपः । भूतपूर्वगत्या जीववचनम् ।

उसके प्रति कहना चाहिये कि वहाँ ससारी जीव नहीं कहा गया है, किन्तु आविर्भूत (प्रकट) स्वरूपवाला जीव कहा गया है । यहाँ ‘तु’ शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिए है । अर्थ है कि यहाँ उत्तर वाक्य से भी जीव की आशंका का सम्भव नहीं है, क्योंकि जिससे उत्तर वाक्य में भी आविर्भूत स्वरूप वाला जीव विवक्षित है । जिसका जीवत्व से रहित स्वरूप प्रकट हो गया हो उसको आविर्भूत स्वरूप कहते हैं, और इस अवस्था में जीवत्व के अभाव होते भी भूतपूर्व गति ( पूर्वकालिक अवस्था की दृष्टि ) से जीव कहा जाता है ।

एतदुक्त भवति—‘य एषोऽक्षिणि’ इत्यक्षिलक्षितं द्रष्टार निर्दिश्योदशराव-  
ब्राह्मणेनैनं शरीरात्मताया व्युत्थाप्य ‘एतं त्वेव ते’ इति पुनःपुनस्तमेव व्या-  
ख्येयत्वेनाकृष्य स्वप्नसुप्तोपन्यासक्रमेण ‘परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा-  
भिनिष्पद्यते’ इति यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परं ब्रह्म तद्रूपतयेनं जीवं व्याचष्टे  
न जैवेन रूपेण । यत्परं ज्योतिरुपसम्पत्तव्यं श्रुतं तत्परं ब्रह्म, तच्चापहतपाप्म-  
त्वादिधर्मकं, तदेव च जीवस्य पारमार्थिकं स्वरूपं ‘तत्त्वमसि’ इत्यादिशास्त्रेभ्यः,  
नेतरदुपाधिकल्पितम् । यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषबुद्धिं द्वैतलक्षणामविद्यां  
निवर्तयन्कूटस्थानित्यदृक्स्वरूपमात्मानमहं ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते तावज्जी-  
वस्य जीवत्वम् । यदा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घाताद्ब्युत्थाप्य श्रुत्या प्रति-  
बोध्यते—‘नासि त्व देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातः, नासि संसारी, किं तर्हि ? तद्य-  
त्सत्यं स आत्मा चैतन्यमात्रस्वरूपस्तत्त्वमसीति । तदा कूटस्थानित्यदृक्स्वरूपमा-  
त्मानं प्रतिबुद्ध्यास्माच्छरीराद्यभिमानात्समुत्तिष्ठन् स एव कूटस्थानित्यदृक्स्वरूप  
आत्मा भवति । ‘स यो ह वै तत्परम ब्रह्मैव भवति’ ( मुण्ड० ३।२।६ ) इत्यादि-  
श्रुतिभ्यः । तदेव चास्य पारमार्थिकं स्वरूपं येन शरीरात्समुत्थाय स्वेन रूपेणा-  
भिनिष्पद्यते ।

इससे यह तात्पर्य सिद्ध होता है कि ( एषो अक्षिणि ) यह आँख में दीखता है । इस कथन से नेत्रजन्य वृत्ति में साक्षिस्वरूप से उपलक्षित द्रष्टा आत्मा का निर्देश

करके उदकयुक्त शराव का वर्णन करने वाले ब्राह्मण ग्रन्थ से, इस द्रष्टा आत्मा को शरीरात्मता से पृथक् करके अर्थात् जल प्रतिबिम्ब के समान शरीरको मिथ्या दिखलाता हुआ उससे भिन्न द्रष्टा को सत्य समझाकर, और 'एतत्त्वेव ते' इस वाक्य से उसी द्रष्टा का बार-बार आकर्षण करके और स्वप्न सुषुप्ति के प्रदर्शन क्रम से ( परं ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है ) इस कथन द्वारा जो इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप परब्रह्म है, उस रूप से इस जीव का व्याख्यान प्रजापति करते हैं, जीव सम्बन्धी रूप से नहीं करते हैं, यह तत्त्व यहाँ उक्त हुआ है। एवं जो पर ज्योति प्राप्तव्य सुना गया है, वह परब्रह्म है, और वह अपहतपाप्मत्वादि धर्म वाला है। वही जीव का पारमार्थिक स्वरूप है, उपाधि से कल्पित दूसरा स्वरूप पारमार्थिक नहीं है, वह ( तत्त्व-मसि ) तु वही है इत्यादि शास्त्र से सिद्ध होता है। जीव को जीवत्व तभी तक है कि जब तक स्थाणु में पुरुष बुद्धि के समान द्वैतरूप अविद्या को निवृत्त करता हुआ कूटस्थ-नित्य चित्स्वरूप आत्मा को ( अहं ब्रह्मास्मि ) मैं ब्रह्म हूँ इस रूप से नहीं समझता है। और जिस काल में देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप संघात से व्युत्थित ( ऊपर पृथक् ) करके श्रुति से समझाया जाता है कि तुम देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि रूप संघात ( अनेकात्मक समूह ) नहीं हो, संसारी नहीं हो, तो क्या हो कि वह जो सत्य है, वही चैतन्य-मात्र स्वरूप आत्मा है, वही तुम हो। इस प्रकार समझाने पर अधिकारी जीव कूटस्थ-नित्य चित्स्वरूप आत्मा को समझकर इस शरीरादि के अभिमान से उत्थित मुक्त होता हुआ वही कूटस्थ नित्य और ज्ञानस्वरूप आत्मा होता है। ( वह जो कोई उस परब्रह्म को जानता है वह परब्रह्म ही होता है ) इत्यादि श्रुतियों से उक्तार्थ सिद्ध होता है। इस जीव का वही पारमार्थिक स्वरूप है कि जिस स्वरूप से शरीर से समुत्थित ( भिन्न ) होकर अभिनिष्पन्न ( सिद्ध स्थिर ) होता है।

कथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनैव च निष्पद्यत इति सम्भवति कूटस्थनित्यस्य । सुवर्णादीनां तु द्रव्यान्तरसम्पर्कादभिभूतस्वरूपाणामनभिव्यक्तासाधारणविशेषाणां क्षारप्रक्षेपादिभिः शोध्यमानानां स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात् । तथा नक्षत्रादीनामहन्यभिभूतप्रकाशानामभिभावकवियोगे रात्रौ स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात् । नतु तथात्मचैतन्यज्योतिषो नित्यस्य केनचिदभिभवः सम्भवत्यसंसर्गित्वाद्बोन्न इव । दृष्टविरोधाच्च । दृष्टिश्रुतिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम् । तच्च शरीरात्समुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते । सर्वो हि जीवः पश्यन् शृण्वन्मन्वानो विजानन्व्यवहरत्यन्यथा व्यवहारानुपपत्तेः । तच्चेच्छरीरात्समुत्थितस्य निष्पद्येत प्राक्समुत्थानाद्दृष्टो व्यवहारो विरुध्येत । अतः किमात्मकमिदं शरीरात्समुत्थानं, किमात्मिका वा स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरिति ।

यहाँ शङ्का होती है कि कूटस्थ नित्य जीव का अपना स्वरूप पुनः स्वरूप से निष्पन्न होता है, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? क्योंकि द्रव्यान्तर के सम्पर्क से अभिभूत

स्वरूप वाले अतएव अनभिव्यक्त ( अप्रकट ) असाधारण विशेषण वाले सुवर्णादि का तो क्षार द्रव्य के प्रक्षेप ( अर्पण ) आदि से शोधन होने पर स्वरूप से सिद्धि हो सकती है । एवं दिन में अभिभूत प्रकाश वाले नक्षत्रादि का रात्रि में अभिभावक सूर्यालोक के वियोग से स्वरूप से निष्पत्ति हो सकती है । परन्तु आकाश के समान अससर्गी होने से नित्य आत्मचैतन्य ज्योति का सुवर्णादि नक्षत्रादि के समान किसी से अभिभव होना सम्भव नहीं है और अभिभव मानने पर दृष्ट व्यवहार से भी विरोध होता है । क्योंकि दर्शन-श्रवण-मनन-विज्ञान ही जीव का स्वरूप है, वह स्वरूप शरीरसे असमुत्थित ( शरीराभिमानी ) जीव का भी सदा निष्पन्न ( सिद्ध ) ही देखा जाता है जिससे सब जीव देखते सुनते विचारते जानते हुए ही गमनागमनादि व्यवहार करते हैं, अन्यथा दर्शनादि के बिना व्यवहार ही नहीं सिद्ध हो सकता है । वह जीव का स्वरूप यदि शरीर से समुत्थित ज्ञानी को ही निष्पन्न ( सिद्ध ) हो, तो समुत्थान से प्रथम दृष्ट व्यवहार विरुद्ध होगा, व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी । इस प्रकार सदा सरूप की निष्पत्ति ( अभिव्यक्ति ) के रहते भी जो शरीर से समुत्थान के बाद कही जाती है, उस निष्पत्ति का हेतु रूप समुत्थान का क्या स्वरूप है ) यह शरीर से समुत्थान किस स्वरूप वाला है, और स्वरूप से अभिनिष्पत्ति किस स्वरूप वाली है ? यह प्रश्न है ।

अत्रोच्यते—प्राग्विवेकविज्ञानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य दृष्ट्यादि ज्योतिःस्वरूपं भवति । यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छद्यं शौक्ल्यं च स्वरूपं प्राग्विवेकग्रहणाद्द्रक्तनीलाद्युपाधिभिरविविक्तमिव भवति । प्रमाणजनितविवेकग्रहणात्तु पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छद्येन शौक्ल्येन च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इत्युच्यते प्रागपि तथैव सन् । तथा देहाद्युपाध्यविविक्तस्यैव सतो जीवस्य श्रुतिकृतं विवेकविज्ञानं शरीरात्समुत्थानं विवेकविज्ञानफलं स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः केवलात्मस्वरूपावगतिः । तथा विवेकाविवेकमात्रेणैवात्मनोऽशरीरत्वं सशरीरत्वं च मन्त्रवर्णात् 'अशरीर शरीरेषु' ( कौ० १।२।२२ ) इति, 'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' ( गी० १३।३१ ) इति च सशरीरत्वाशरीरत्वविशेषाभावस्मरणात् । तस्माद्विवेकविज्ञानाभावादानविर्भूतस्वरूपः सन्विवेकविज्ञानादाविर्भूतस्वरूप इत्युच्यते । नत्वन्यादृशावाविर्भावानाविर्भावौ स्वरूपस्य सम्भवतः स्वरूपत्वादेव । एवं मिथ्याज्ञानकृत एव जीवपरमेश्वरयोर्भेदो न वस्तुकृतः, व्योमवदसङ्गत्वाविशेषात् । कुतश्चैतदेवं प्रतिपत्तव्यम् । यतो 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इत्युपदिश्य 'एतदमृतमभयमेतद्ब्रह्म' इत्युपदिशति । योऽक्षिणि प्रसिद्धो द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सोऽमृताभयलक्षणोऽन्यश्चेत्स्यात्ततोऽमृताभयब्रह्मसामानाधिकरण्यं न स्यात् । नापि प्रतिच्छायात्मायमक्षिलक्षितो निर्दिश्यते, प्रजापतेर्मृषावादित्वप्रसङ्गात् । तथा द्वितीयेऽपि पर्याये 'य एषः स्वप्ने महीयमानश्चरति' इति न प्रथमपर्यायनिर्दिष्टादक्षिपुरुषाद्द्रष्टुरन्यो निर्दिष्टः, 'एतं त्वेव ते भूयोऽनु-

व्याख्यास्यामि' इत्युपक्रमात् । किञ्चाहमद्य स्वप्ने हस्तिनमद्राक्षं नेदानीं तं पश्यामीति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्याचष्टे । द्रष्टारं तु तमेव प्रत्यभिजानाति—य एवाहं स्वप्नमद्राक्षं स एवाहं जागरितं पश्यामि—इति । तथा तृतीयेऽपि पर्याये 'नहि खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि' इति सुषुप्तावस्थायां विशेषविज्ञानाभावमेव दर्शयति न विज्ञातारं प्रतिषेधति । यत्तु तत्र 'विनाशमेवापीतो भवति' इति, तदपि विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेव न विज्ञातृविनाशाभिप्रायम्, 'नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्' ( बृ० ४।३।३० ) इति श्रुत्यन्तरात् । तथा चतुर्थेऽपि पर्याये 'एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मात्' इत्युपक्रम्य 'मघवन्नमत्यं वा इदं शरीरम्' इत्यादिना प्रपञ्चेन शरीराद्युपाधिसम्बन्धप्रत्याख्यानेन सम्प्रसादशब्दोदितं जीवं 'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' इति ब्रह्मस्वरूपापन्नं दर्शयन्न परस्माद्ब्रह्मणोऽमृताभयस्वरूपादन्यं जीवं दर्शयति ।

यहाँ उत्तर कहा जाता है कि विवेक विज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व काल में शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय और विषयो का अनुभव तथा हर्षशोकादिरूप वेदना रूप उपाधियो से अविविक्त ( मिलित ) के समान जीव के दृष्टि आदि रूप ज्योति स्वरूप रहता है, विविक्त भी अविविक्त के समान भासता है। जैसे कि शुद्ध स्फटिक की स्वच्छता और शुक्लता रूप स्वरूप विवेकज्ञान से प्रथम रक्तनीलादिरूप उपाधि से अविविक्त ( अभिन्न ) के समान रहता है। प्रमाणजनित विवेक ज्ञान होने से तो प्रथम भी स्वच्छ शुक्ल रहने पर ही कहा जाता है कि पहले यह बाह्यस्थित स्फटिक की ही स्वच्छता और शुक्लता रूप अपने स्वरूप से व्यक्त हो रहा है। उसी प्रकार शरीरादि उपाधि से अविविक्त ( अभिन्न ) वर्तमान जीव को ही श्रुतिकृत विवेक का विज्ञान होता है, वह शरीर से समुत्थान कहलाता है, और विवेक विज्ञान के फलरूप स्वरूप से अभिनिष्पत्ति केवल आत्मस्वरूप की अवगति है। इसी प्रकार ( शरीरो मे रहते अशरीर है ) इत्यादि मन्त्राक्षर के अनुसार विवेक और अविवेकमात्र से ही अशरीरत्व और सशरीरत्व आत्मा को है। ( कौन्तेय ! आत्मा शरीर मे रहते भी न कर्म करता है न कर्मफल से लित होता है ) इस कथन से आत्मा में सशरीरत्व अशरीरत्वरूपविशेष ( भेद ) के अभाव कथन से भी अविवेक विवेककृत ही सशरीरत्व और अशरीरत्व है। एव विवेक विज्ञान के अभाव से पहले अनाविभूत स्वरूप होता हुआ विवेक विज्ञान से आविभूतस्वरूप हुआ ऐसा कहा जाता है, अर्थात् पहले अव्यक्त ( अप्रकट ) था अब व्यक्त हुआ ऐसा व्यवहार अविवेक विवेककृत होता है। स्वरूप होने से ही इससे अन्य प्रकार के सत्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार आकाशतुल्य असंगता के तुल्य रहने से जीवेश्वर में मिथ्याज्ञानकृत ही भेद है, वस्तुतः सत्य भेद नहीं है। जिज्ञासा हुई कि यह जीवेश्वर-

भेद के मिथ्यात्व को कैसे समझा जाय, तब कहा जाता है कि जिससे श्रुति में ( जो यह नेत्र में पुरुष दीखता है। इस प्रकार से उपदेश करके फिर उपदेश करते हैं कि यह अमृत है, अभय है, ब्रह्म है ) वहाँ आँख में प्रसिद्ध जो द्रष्टा शिष्य को द्रष्टा रूप से समझाया जाता है, वह यदि अमृत अभयस्वरूप ब्रह्म से अन्य हो, तो अमृत अभय ब्रह्म के साथ समानाधिकरणता ( अभेदबोधक एक विभक्तिवाच्यता ) जीव को नहीं हो सकेगी और यह नहीं समझना चाहिये कि आँख में लक्षित ( दृष्ट ) छायात्मा कहा जाता है द्रष्टा जीव का द्रष्टा रूप से कथन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर प्रजापति को मृषावादित्व की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार द्वितीय पर्याय ( क्रम प्रकार ) में भी ( जो यह स्वप्न में पूज्यमान हो कर विचरता है ) इस वाक्य में प्रथम-निर्दिष्ट अक्षिस्थ पुरुषरूप द्रष्टा से अन्य का निर्देश ( कथन ) नहीं है, क्योंकि ( इसी का मैं तेरे लिए फिर व्याख्यान करूँगा ) इस प्रकार उसका उपक्रम ( आरम्भ ) हुआ है। एवं मैंने आज स्वप्न में हाथी देखा था, इस समय उसको नहीं देखता हूँ, इस प्रकार दृष्टवस्तु का ही जागृत हो कर निषेध करता है, और द्रष्टा को तो वह रूप ही समझता है कि जिसे मैंने स्वप्न देखा था उसे ही मैं जागरित रूप में देखता हूँ। इसी प्रकार तृतीय पर्याय में भी ( निश्चय यह खेद है कि सुषुप्ति में न यह अपने को जानता है कि यह मैं हूँ न इन भूतो को जानता है ) इस प्रकार विशेष विज्ञान के अभाव को ही दर्शाता है, विज्ञाता का प्रतिषेध नहीं करता है। और जो वहाँ सुषुप्तिविषयक वचन है कि ( विनाश को ही प्राप्त होता है ) वह भी वचन विशेष विज्ञान के नाश का अभिप्राय वाला ही है, विज्ञाता के नाश का अभिप्राय वाला नहीं है, क्योंकि दूसरी श्रुति है कि ( विज्ञाता की विज्ञानिज्ञानस्वरूपता ) का नाश नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी है। इसी प्रकार चतुर्थ पर्याय में भी ( इसी का तेरे लिए मैं फिर व्याख्यान करूँगा, इससे अन्य का नहीं ) इस प्रकार आरम्भ करके ( हे इन्द्र ! यह शरीर अवश्य मरणाशील-विनश्वर है ) इत्यादि विस्तारयुक्त शरीरादि उपाधि के प्रत्याख्यानपूर्वक संप्रसाद शब्द से कथित जीव को ( अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होता है ) इस प्रकार ब्रह्मस्वरूपात्म ( ब्रह्मस्वरूप-प्राप्त ) दिखाता हुआ अमृत अभयस्वरूप परब्रह्म से जीव अन्य नहीं है, यह प्रजापति दिखलाते हैं।

केचित्तु परमात्मविवक्षायाम् 'एतं त्वेव ते' इति जीवाकर्षणमन्याय्यं मन्यमाना एतमेव वाक्योपक्रमसूचितमपहतपाप्मत्वादिगुणकामानं ते भूयोऽनु-व्याख्यास्यामीति कल्पयन्ति । तेषामेतमिति संनिहितावलम्बिनी सर्वनामश्रुति-विप्रकृत्येत । भूयः श्रुतिश्चोपरुध्येत, पर्यायान्तराभिहितस्य पर्यायान्तरेऽभिधी-यमानत्वात् । 'एतं त्वेव ते' इति च प्रतिज्ञाय प्राक्चतुर्थात् पर्यायादन्यमन्यं व्याचक्षणस्य प्रजापतेः प्रतारकत्वं प्रसज्येत । तस्माद्यद्विद्याप्रत्युपस्थापितम-पारमार्थिकं जैवं रूपं कर्तृभोक्तृरागद्वेषादिदोषकलुषितमनेकानर्थयोगि तद्विलय-

नेन तद्विपरीतमपहतपाप्मत्वादिगुणकं पारमेश्वरं स्वरूपं विद्यया प्रतिपाद्यते, सर्पादिविलयनेनेव रज्ज्वादीन् ।

जीव और परमात्मा को सर्वथा भिन्न मानने वाले कोई आचार्य तो जब परमात्मा की विवक्षा है, उस अवस्था में ( एव त्वेव ते ) इसीका मैं तेरे लिए फिर व्याख्यान करूँगा । इन वाक्यों में 'एत' शब्द से जीव के आकर्षण को अन्याय मानते हुए कल्पना करते हैं कि वाक्य के आरम्भ में सूचित और अपहतपाप्मत्वादि गुण वाला इस आत्मा ही का मैं तेरे लिए फिर व्याख्यान करूँगा । उनके मत में सन्निहित अर्थ को बोध कराने वाली ( एतं ) यह सर्वनामरूप श्रुति विप्रकृष्ट ( दूरान्वित ) हो जायगी और भूयः श्रुति भी उपरुद्ध ( निरुद्ध बाधित ) होगी, क्योंकि पूर्वकथित का फिर कथन में भूयः कहा जाता है । एव उक्त मत में प्रथम पर्यायान्तर में कथित का आगे के पर्यायान्तर में कथन नहीं है, और इसी को 'तेरे लिये फिर व्याख्यान करूँगा' इस प्रकार प्रतिज्ञा करके चतुर्थ पर्याय से प्रथम अन्य-अन्य का व्याख्यान करने वाला प्रजापति को प्रतारकत्व ( वञ्चकत्व ) की प्राप्ति होगी । उससे अविद्याजन्य, कर्तृत्व भोक्तृत्व राग-द्वेषादि दोषों से क्लृप्ति ( मलिन ) अनेक अनर्थों से युक्त मिथ्याकल्पित जो जीव का रूप है, उसका विलयन ( सशोषन बाध ) करके, उससे विपरीत अपहतपाप्मत्वादि गुण वाला परमेश्वर के स्वरूप का विद्या ( महावाक्य ) से प्रतिपादित किया जाता है, जैसे कल्पित सर्पादि का बाध करके रज्जु आदि का प्रतिपादन ।

अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव जैवं रूपमिति मन्यतेऽस्मदीयाश्च केचित् । तेषां सर्वेषामात्मैकत्वसम्यग्दर्शनप्रतिपक्षभूतानां प्रतिषेधायेदं शारीरकमारब्धम् । एक एव परमेश्वरः कूटस्थानित्यो विज्ञानधातुरविद्यया मायया मायाविवदनेकधा विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति । यत्त्विदं परमेश्वरवाक्ये जीवमाशङ्क्य प्रतिषेधति सूत्रकारः—'नासम्भवात्' ( ब्र० १।३।१८ ) इत्यादिना । तत्रायमभिप्रायः—नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावे कूटस्थानित्ये एकस्मिन्नसङ्गे परमात्मनि तद्विपरीतं जैवं रूपं व्योम्नीव तलमलादि परिकल्पितम् । तदात्मैकत्वप्रतिपादनपरैर्वाक्यैर्न्यायोपेतैर्द्वैतवादप्रतिषेधैश्चापनेष्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं द्रढयति । जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रतिपिपादयिषति किन्त्वनुवदत्येवाविद्याकल्पितं लोकप्रसिद्धं जीवभेदम् । एवं हि स्वाभाविककर्तृत्वभोक्तृत्वानुवादेन प्रवृत्ता कर्मविधयो न विरुद्ध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपाद्यं तु शास्त्रार्थमात्मैकत्वमेव दर्शयति—'शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्' ( ब्र० १।३।३० ) इत्यादिना । वर्णितश्चास्माभिर्विद्वद्विद्वद्भेदेन कर्मविधिविरोधपरिहारः ॥ १६ ॥

अन्यवादी लोग और कुछ मेरे लोग भी जीव के सासारिक स्वरूप को सत्य ही मानते हैं, आत्मैकत्व के सम्यग्दर्शन के प्रतिपक्ष ( विरोधी ) स्वरूप उन सबका प्रतिषेध ( खरडन ) के लिये यह शारीरिक आरब्ध हुआ है ( रचा गया है ) कि कूटस्थ



नित्य विज्ञान स्वरूप एक ही परमेश्वर अविद्यारूप माया से मायावी के समान अनेक प्रकार से प्रतीत होता है, उससे अन्य विज्ञान स्वरूप वस्तु नहीं है और जो यह परमेश्वर के प्रतिपादक वाक्य में जीव की आशंका करके सूत्रकार प्रतिषेध करते हैं कि ( नासम्भवाद् ) इत्यादि, वहाँ यह अभिप्राय है कि नित्य शुद्धबुद्ध मुक्त स्वभाव वाले कूटस्थ नित्य एक परमात्मा में उससे विपरीत जीव का रूप आकाश में तलमलादि के समान कल्पित है। उस कल्पित रूप का न्याययुक्त, आत्मा के एकत्व के प्रतिपादनपरक वाक्यों से और द्वैतवाद के प्रतिषेधों से निवारण करूँगा, इस आशय से जीव से परमात्मा के अन्यत्व को दृढ करते हैं, एवं जीव को तो परमात्मा से अन्यत्व का प्रतिपादन करना नहीं चाहते हैं, किन्तु अविद्या से कल्पित लोक में प्रसिद्ध जीव के भेद का अनुवादनात्र करते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अनुवाद से कर्मविधि विरुद्ध नहीं होते हैं यह मानते हैं, और ( शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ) इत्यादि से प्रतिपादनयोग्य शास्त्र का अर्थ आत्मएकत्व को ही दिखलाते हैं। तथा विद्वान् अविद्वान् के भेद से कर्म विधि के विरोध का परिहार हमसे भी पहले वरिष्ठ हुआ है ॥

### अन्यार्थश्च परामर्शः ॥ २० ॥

अथ यो दहरवाक्यशेषे जीवपरामर्शो दर्शितः—‘अथ य एष सम्प्रसादः’ ( छां० ८।३।४ ) इत्यादिः, स दहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने न जीवोपासनोपदेशो न प्रकृतविशेषोपदेश इत्यनर्थकत्वं प्राप्नोतीति । यत आह—अन्यार्थोऽयं जीवपरामर्शो न जीवस्वरूपपर्यवसायी, किं तर्हि ? परमेश्वरस्वरूपपर्यवसायी । कथम् ? सम्प्रसादशब्दोदितो जीवो जागरितव्यवहारे देहेन्द्रियपञ्चराध्यक्षो भूत्वा तद्वासनानिर्मितांश्च स्वप्नान्नाडीचरोऽनुभूय श्रान्तः शरणं प्रेषुरुभयरूपादपि शरीराभिमानात्समुत्थाय सुषुप्तावस्थायां परं ज्योतिराकाशशब्दितं परं ब्रह्मोपसम्पद्य विशेषविज्ञानवत्त्वं परित्यज्य स्वेन रूपेणायमभिनिष्पद्यते । स एष आत्माऽपहतपाप्मत्वादिगुण उपास्य इत्येवमर्थोऽयं जीवपरामर्शः परमेश्वरवादिनोऽप्युपपद्यते ॥ २० ॥

उक्तार्थ के बाद शंका होती है कि जो दहर के वाक्यशेष में जीव का परामर्श ( जो यह सम्प्रसाद ) इत्यादि से दिखलाया गया है। वहाँ दहर को परमेश्वर रूप से व्याख्यान करने पर वह जीव का परामर्श न होकर जीव की उपासना का उपदेशरूप हुआ, न कि प्रकृत दहर में विशेष गुणादि का उपदेशरूप हुआ। इससे अनर्थकत्व को प्राप्त होता है। इससे सूत्रकार कहते हैं कि यह जीव का परामर्श जीव के स्वरूपमात्र में पर्यवसान ( तात्पर्य ) वाला नहीं है, किन्तु अन्यार्थक है ( जीव को ब्रह्मभाव का उपदेश के लिये है )। यह जीव के परामर्श के बिना नहीं हो सकता है, इसलिये जीव का परामर्श है। जीव के स्वरूप पर्यवसायी नहीं है तो क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि परमेश्वरस्वरूप पर्यवसायी है ( परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन के तात्पर्य से परामर्श

है) इसी से अनर्थक नहीं है। क्योंकि सम्प्रसाद शब्द से कथित जीव जाग्रत्काल के व्यवहार में देहेन्द्रिय समूह का अध्यक्ष होकर फिर नाडीचर ( नाडीचारी ) होता हुआ उस जागरणकालिक वासनाओं से निर्मित ( रचित ) स्वप्नो का अनुभव करके श्रान्त होकर शरण ( रक्षक विश्रामस्थान ) की प्राप्ति का इच्छुक होकर जाग्रत्स्वप्न-कालिक दोनों रूपवाले शरीर के अभिमानों से उत्थित ( रहित ) होकर सुषुप्ति अवस्था में पर ज्योति और आकाश शब्द से कथित परब्रह्म को प्राप्त करके विशेष ज्ञान-वृत्त को त्यागकर अपने स्वरूप से यह निष्पन्न ( सिद्ध व्यक्त ) होता है और जिस रूप से निष्पन्न होता है। वही यह सर्वात्मा अपहृतपाप्मत्वादि गुणवाला उपास्य है, इस प्रकार के इस प्रयोजन के लिये जीव का परामर्श परमेश्वरवादी को भी उपपन्न सफल सिद्ध होता है ॥ २० ॥

### अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम् ॥ २१ ॥

यदप्युक्तम्—‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः’ इत्याकाशस्याल्पत्वं श्रूयमाणं पर-  
मेश्वरे नोपपद्यते, जीवस्य त्वाराधोपमितस्याल्पत्वमवकल्पत—इति, तस्य  
परिहारो वक्तव्यः। उक्तो ह्यस्य परिहारः—परमेश्वरस्यापेक्षिकमल्पत्वमवकल्पत—  
इति, ‘अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च’  
( ब्र० १।२।७ ) इत्यत्र, स एवेह परिहारोऽनुसन्धातव्य इति सूचयति। श्रुत्यैव  
चेदमल्पत्वं प्रयुक्तं प्रसिद्धेनाकाशेनोपमिमानया ‘यावान्वा अयमाकाशस्तावानै-  
षोऽन्तर्हृदय आकाशः’ इति ॥ २१ ॥

और जो यह भी कहा गया था कि ( इसमें अल्प आकाश है ) इस प्रकार सुना हुआ आकाश का अल्पत्व परमेश्वर में युक्त नहीं सिद्ध होता है और आराध से उपमित ( आराध तुल्य ) जीव को अल्पत्वयुक्त सिद्ध होता है, जो उसका परिहार कहना चाहिये। किन्तु इसका परिहार ( उत्तर ) पहले ही किया गया है कि परमेश्वर का आपेक्षिक अल्पत्व युक्त होता है ( अर्भकौकस्त्वाद् ) इस सूत्र में यह परिहार कहा गया है, वही परिहार यहाँ अनुसन्धान ( सम्बन्ध-चिन्तन ) करने योग्य है, यह सूत्रकार सूचना करते हैं। ( जितना यह बाहर आकाश है उतना यह अन्तर हृदय में आकाश है ) इस प्रकार प्रसिद्ध आकाश द्वारा उपमा देने वाली श्रुति ही ने इस अल्पत्व का निवारण किया है।

### अनुकृत्यधिकरण ॥ ६ ॥

न तत्र सूर्यो भातीति तेजोऽन्तरमुनापि चित् तेजोऽभिभावकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत् ॥  
चित्स्थान्त्यसूर्याद्यभास्यत्वात्तादृक्तेजोऽप्रसिद्धितः। सर्वस्मात्पुरतो भानात्तद्भासा चान्वभासनात्  
( तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ) इस श्रुति में अनुकरण के श्रवण से सर्वान्व-  
भासक परब्रह्म है, अन्य नहीं, उस ब्रह्म की ही अनुकृति और अवभास है। ( यह  
सूत्रार्थ है ) ‘न तत्र सूर्यो भाति’, यहाँ सशय होता है कि यह तेजोन्तर निरोधक और  
सर्वप्रकाशक कोई विलक्षण तेजोन्तर है अथवा चेतनात्मा है। पूर्वपक्ष है कि तेज का

अभिभावक होने से कोई महत्—भारी तेज ही है । सिद्धान्त है कि सूर्यादि से अप्रकाशितत्व के श्रवण से तथा सब तेज का अभिभावक सर्वप्रकाशक तेज की अप्रसिद्धि से तथा सबसे प्रथम भान होने से और उसी के प्रकाश से अन्य के प्रकाशित होने से चेतनात्मा ही हो सकता है, अन्य नहीं ॥ १-२ ॥

### अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

( मु० २।२।१० ) इति समामनन्ति । तत्र यं भान्तमनुभाति सर्वं यस्य च भासा सर्वमिदं विभाति स किं तेजो धातुः कश्चिदुत प्राज्ञ आत्मेति विचिकित्सायां तेजो धातुरिति तावत्प्राप्तम् । कुतः ? तेजोधातूनामेव सूर्यादीनां भानप्रतिषेधात् । तेजःस्वभावकं हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वभावक एव सूर्ये भासमानेऽहनि न भासते इति प्रसिद्धम्, तथा सह सूर्येण सर्वमिदं चन्द्रतारकादि यस्मिन्न भासते सोऽपि तेजःस्वभाव एव कश्चिदित्यवगम्यते । अनुमानमपि तेजःस्वभावक एवोपपद्यते, समानस्वभावकेष्वनुकारदर्शनात्, गच्छन्तमनुगच्छतीतिवत् । तस्मात्तेजोधातुः कश्चित् ।

उस पर ब्रह्म में सूर्य नहीं भासते हैं अर्थात् उसको नहीं प्रकाशते हैं, इस प्रकार चन्द्र, तारा, विद्युत् जिसको नहीं प्रकाश कर सकते, उसे यह अग्नि कैसे प्रकाश कर सकती है, उसी के प्रकाशित दीप्त होने पर सब प्रकाशित होते हैं, क्योंकि उसी के प्रकाश से यह सब जगत् भासता है । इस प्रकार की श्रुति को पढते हैं, वहाँ जिसके प्रकाशित होने से सब प्रकाशते हैं, तथा जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वह क्या कोई तेज रूप पदार्थ है, अथवा प्राज्ञ सर्वज्ञ सर्वाभिभासक आत्मा है, ऐसी विचिकित्सा ( संशय ) होने पर पूर्ववक्ष कहा जाता है कि तेज रूप पदार्थ ही प्रथम प्राप्त ( प्रतीत ) होता है, क्योंकि उसके प्रकाश से तेज रूप सूर्यादि के ही प्रकाश का प्रतिषेध होता है और लोक में प्रसिद्ध है कि तेजस्वी स्वभाव वाले सूर्य के दिन में प्रकाशित रहने पर तेजस्वी स्वभाव वाले चन्द्र तारा आदि नहीं प्रकाशते हैं, उसी प्रकार जिसके प्रकाशित रहते सूर्य सहित ये चन्द्र तारा आदि नहीं प्रकाश करते हैं, वह भी तेज स्वभाव वाला कोई पदार्थ है, इस प्रकार अनुमान से समझा जाता है । अनुमान ( एक के बाद दूसरे का भान ) भी तेज स्वभाव वाले में ही सिद्ध हो सकता है, क्योंकि समान स्वभाव वाले में ही अनुकार ( अनुकरण ) देखा गया है, जैसे कि चलते हुए के पीछे चलता है, ऐसा कहने पर एक गमन स्वभाव वाले के बाद दूसरे के गमन की प्रतीति होती है, वहाँ दोनों गतिवाले रहते हैं, वैसे ही यहाँ तेज स्वभाव तिससे कोई तेज रूप पदार्थ है ऐसा समझना चाहिये ।

इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः—प्राज्ञ एवायमात्मा भवितुमर्हति । कस्मात् ? अनुकृतेः । अनुकरणमनुकृतिः । यदेतत् 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्' इत्यनुमानं, तत्प्राज्ञपरिग्रहेऽवकल्पते । 'भारूपः सत्यसङ्कल्पः' ( छां० ३।१४ २ ) इति हि प्राज्ञमा-

त्मानमामनन्ति, न तु तेजो धातुं कञ्चित्सूर्यादयोऽनुभान्तीति प्रसिद्धम् । सम-  
त्वाच्च तेजोधातूनां सूर्यादीनां न तेजोधातुमन्यं प्रत्यपेक्षास्ति य भान्तमनु-  
भायुः । नहि प्रदीपः प्रदीपान्तरमनुभाति । यदप्युक्तं—समानस्वभावकेष्वनु-  
कारो दृश्यते—इति । नायमेकान्तो नियमोऽस्ति, भिन्नस्वभावकेष्वपि ह्यनुकारो  
दृश्यते, यथा सुतप्तोऽयःपिण्डोऽग्न्यनुकृतिरग्निं दहन्तमनुदहति, भौमं वा रजो  
वायुं वहन्तमनुवहतीति । अनुकृतेरित्यनुभानमसूचत् । तस्य चेति चतुर्थं  
पादमस्य श्लोकस्य सूचयति । ‘तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इति तद्धेतुकं  
भानं सूर्यादेरुच्यमानं प्राज्ञमात्मानं गमयति । ‘तद्देवा ज्योतिषा ज्योतिरायुर्हो-  
पासतेऽमृतम्’ ( बृ० ४।४।१६ ) इति हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण  
सूर्यादितेजो विभातीत्यप्रसिद्धं विरुद्धं च, तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य प्रतिघातात् ।  
अथवा न सूर्यादीनामेव श्लोकपरिपठितानामिदं तद्धेतुकं विभानमुच्यते । कि  
तर्हि ? ‘सर्वमिदम्’ इत्यविशेषश्रुतेः सर्वस्यैवास्य नामरूपक्रियाकारकफलजा-  
तस्य याभिव्यक्तिः सा ब्रह्मज्योतिःसत्तानिमित्ता । यथा सूर्यादिज्योतिःसत्तानि-  
मित्ता सर्वस्य रूपजातस्याभिव्यक्तिस्तद्वत् । ‘न तत्र सूर्यो भाति’ इति च  
तत्रशब्दमाहरन्प्रकृतप्रहणं दर्शयति । प्रकृतं च ब्रह्म ‘यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्त-  
रिक्षमोतम्’ ( मु० २।२।५ ) इत्यादिना । अनन्तरं च—

हिरण्यमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ इति ।

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्राज्ञ आत्मा ही सबका भासक होने योग्य  
है, क्योंकि अनुकृति ( अनुकरण ) सुनी जाती है, ( उसके भासित रहते पीछे सब  
भासते हैं ) यह जो अनुमान श्रुत है, वह प्रज्ञात्मा के स्वीकार करने पर संगत  
सिद्ध होता है । ( प्रकाश स्वरूप है, सत्य संकल्प है ) इत्यादि श्रुतियाँ प्राज्ञ आत्मा  
को ही कहती हैं । किसी तैजस पदार्थ के बाद सूर्यादि प्रकाशते हैं, यह लोकवेद मे  
कही प्रसिद्ध नहीं है, उससे तैजस पदार्थ सूर्यादि को अन्य तैजस पदार्थ की अपेक्षा  
नहीं है कि जिसके भासित होने पर पीछे सूर्यादि भासित हो, एक दीप किसी दूसरे  
दीप को प्रकाशित नहीं करता है । एवं जो यह कहा था कि समान स्वरूप वालो  
मे अनुकरण देखा जाता है, वह भी अनिवार्य नियम नहीं है । भिन्न स्वभाव  
वालो मे भी अनुकरण देखा जाता है, जैसे अत्यन्त तप्तलोहपिण्ड अग्नि का  
अनुकरण करता है, जलाती हुई अग्नि को जलाता है, भूमि की घूल चलते हुए  
वायु के पीछे चलती है, इत्यादि । अनुकृतेः, इससे अनुमान का सूचन सूत्रकार ने  
किया है । और ‘तस्य च’, इस सूत्राश से ( न तत्र ) इत्यादि रूप इस श्लोक के  
चतुर्थ पाद को सूचित करते हैं कि ( उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशता है ) इससे  
उस हेतुजन्य कथित सूर्यादि का प्रकाश परमात्मा का बोध कराता है, क्योंकि ( उस

ब्रह्म को देव लोग ज्योतियो की ज्योति और आयु अमृत रूप से उपासना करते हैं ) इस प्रकार प्राज्ञात्मा का ही कथन करते हैं । अन्य तेज से सूर्यादि प्रकाशित होते है, यह अप्रसिद्ध एव विरुद्ध है, क्योंकि प्रबल दूसरे तेज से अल्पबल तेजोन्तर का प्रतिघात ( पराभव ) होता है । अथवा श्लोक मे परिपठित ( पढे गए ) सूर्यादि का ही यह तन्निमित्तक प्रकाश नहीं कहा जाता है किन्तु ( सर्वमिदम् ) उसके प्रकाश से यह सब प्रकाशता है, इस प्रकार अविशेष ( सामान्य ) श्रुति द्वारा नामरूप क्रियाकारक फल सामान्यरूप से इस विद्यमान समस्त जगत् की जो अभिव्यक्ति होती है, वह ब्रह्मज्योति की सत्ता निमित्तक ही होती है, जैसे कि सूर्यादि ज्योति की सत्तानिमित्तक सर्वरूप सामान्य की । एव 'न तत्र सूर्यो भाति' यहाँ तत्र शब्द का ग्रहण करते हुए गुरु पूर्वप्रकृत ( प्रस्तुत ) का ग्रहण दिखलाते है और 'जिसमे स्वर्गं भूमि अन्तरिक्ष स्थिर है' इत्यादि वचन से ब्रह्म प्रकृत है, तथा 'न तत्र सूर्यो भाति', इसके अव्यवहित पूर्व मे भी ब्रह्म का वर्णन है कि 'तेजोमय पर आनन्दमय कोश मे निर्दोष निरवयव ब्रह्म है, वह शुद्ध ज्योतियो की ज्योति है, जिसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ।'

कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत इदमुत्थितम्—'न तत्र सूर्यो भाति' इति । यदप्युक्तं—सूर्यादीनां तेजसां भानप्रतिषेधस्तेजोधातावेवान्यस्मिन्नवकल्पते सूर्य इवेतरेषाम्—इति । तत्र तु स एव तेजोधातुरन्यो न सम्भवतीत्युपपादितम् । ब्रह्मण्यपि चैषां भानप्रतिषेधोऽवकल्पते, यतो यदुपलभ्यते तत्सर्वं ब्रह्मणैव ज्योतिषोपलभ्यते, ब्रह्म तु नान्येन ज्योतिषोपलभ्यते स्वयं ज्योतिःस्वरूपत्वात्, येन सूर्यादयस्तस्मिन्भायुः । ब्रह्म ह्यन्यद्व्यनक्ति नतु ब्रह्मान्येन व्यज्यते 'आत्म-नैवायं ज्योतिषास्ते' ( बृ० ४।३।६ ) 'अगृह्यो नहि गृह्यते' ( बृ० ४।२।४ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥ २२ ॥

वह ज्योतियो की ज्योति किस प्रकार है, ऐसी जिज्ञासा होने पर 'नतत्र' यह वचन जिज्ञासा की निवृत्ति के लिये उपस्थित होता है कि ( उसमे सूर्य नहीं प्रकाशता है ) इत्यादि । एव पहले जो यह कहा है कि जैसे सूर्य के रहते अन्य तैजस पदार्थभान का प्रतिषेध होता है, वैसे ही अन्य तैजस-पदार्थ के ही रहते सूर्यादि रूप तेजो के भान का प्रतिषेध पराभव होना सम्भव है, इसके उत्तर में उपादान ( सिद्ध ) किया गया है कि वह प्रज्ञात्मा ही तेजोधातु ( प्रकाशमय पदार्थ ) है अन्य का सम्भव नहीं है, और ब्रह्म मे भी इन सूर्यादिको के भान ( प्रकाश ) का प्रतिषेधसंभव सिद्ध हो सकता है, जिससे जो कुछ उपलब्ध ( ज्ञात-अनुभूत ) होता है, वह सब ब्रह्मज्योति से ही उपलब्ध होता है । स्वयंप्रकाश ज्योतिस्वरूप होने से ब्रह्म अन्य ज्योति से उपलब्ध नहीं होता है कि जिससे सूर्यादि उसमे भासित हो प्रकाश करे । ब्रह्म अन्य को अभिव्यक्त करता है, ब्रह्म अन्य से अभिव्यक्त नहीं होता है, यह अर्थ ( यह आत्मा आत्मज्योति से रहता है ) अग्राह्य है, अर्थात्—किसी से गृहीत नहीं होता है इत्यादि श्रुति-वचन से सिद्ध होता है ॥ २२ ॥

### अपि च स्मर्यते ॥ २३ ॥

अपि चेद्व्युत्पत्वं प्राज्ञस्यैवात्मनः स्मर्यते भगवद्गीतासु—न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ( १५।६ ) इति, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ( १५।१२ ) इति च ॥ २३ ॥

और अन्य से अप्रकाश्यत्व स्वयंप्रकाशत्व ऐसा रूपवान् प्राज्ञ आत्मा ही को है, ऐसा भगवद्गीता में स्मरण एव वर्णन किया गया है कि ( उसको सूर्य नहीं प्रकाश करते हैं, चन्द्र और अग्नि भी नहीं प्रकाशित करते हैं, जिसे प्राप्त करके जीव ससार में नहीं आते हैं, वही मेरा परमधाम ( तेजोमय स्वरूप ) है । सूर्यगत जो तेज सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशता है, और जो तेज चन्द्रमा तथा अग्नि में है, उन्हें मेरा तेज जानो, आत्मचैतन्य-रूप सब तेजो को समझो ॥ २३ ॥

### प्रमिताधिकरण ॥ ७ ॥

अङ्गुष्ठमात्रो जीव स्यादीशो वाऽल्पप्रमाणतः । देहमध्ये स्थितेश्चैव जीवो भवितुमर्हति ॥ भूतभव्येशताजीवे नास्त्यताऽसाविहेश्वरः । स्थितिप्रमाणे ईशेऽपि स्तो ह्यस्योपलब्धतः ॥

अङ्गुष्ठमात्र प्रमाणयुक्त सुना गया प्राज्ञात्मा है, वह ईशानादि श्रुतिगत शब्द से प्रमित ( ज्ञात ) होता है, वहाँ अङ्गुष्ठमात्रता और ईशानता दोनों के श्रवण से संशय होता है, कि यह अङ्गुष्ठमात्र जीव है अथवा ईश्वर है । यहाँ पूर्वपक्ष है कि अल्प प्रमाणाता से और देह के मध्य में स्थिति से यह जीव ही होने योग्य है सिद्धान्त है कि ईश्वरता जीव में नहीं है, और यहाँ ईश्वरता सुनी जाती है, इससे यह ईश्वर है और हृदय में उपलब्धि से शरीर के अन्दर स्थिति और प्रमाण ईश्वर में भी हैं ॥ २ ॥

### शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥

‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति’ इति श्रूयते । तथा ‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्व एतद्वै तत्’ ( का० २।४।१३ ) इति च । तत्र योऽयमङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः श्रूयते स किं विज्ञानात्मा किंवा परमात्मेति संशयः । तत्र परिमाणोपदेशान्तावद्विज्ञानात्मेति प्राप्तम् । नह्यनन्त्यामविस्तारस्य परमात्मनोऽङ्गुष्ठपरिमाणमुपपद्यते । विज्ञानात्मनस्तूपाधिमन्त्वात्सम्भवति कयाचित्कल्पनयाङ्गुष्ठमात्रत्वम् । स्मृतेश्च—अथ सत्यवतः कायात्पाशबद्धं वशं गतम् । अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात् ॥ ( म० भा० ३।२६।७।१७ ) इति । नहि परमेश्वरो बलाद्यमेन निष्कण्ठं शक्यस्तेन तत्र संसार्यङ्गुष्ठमात्रो निश्चितः स एवेहापीति ।

‘अङ्गुष्ठमात्र परिमाण वाला पुरुष मध्यआत्मा ( शरीर मध्यहृदय ) में रहता है’ यह सुना जाता है । इसी प्रकार सुना जाता है कि ( घूमरहित निर्मलप्रकाशरूप

ज्योति के समान अङ्गुष्ठपरिमाण पुरुष है वह भूतभावी का स्वामी नियन्ता है, वही आज प्राणियो मे वर्तमान है, और वही आगे रहेगा, और नचिकेता जिसे पूछा था वह ब्रह्म यही है ) । यहाँ जो अङ्गुष्ठमात्र पुरुष सुना जाता है वह विज्ञानात्मा जीव है, अथवा परमात्मा है ? यह सशय होता है, यहाँ परिमाण के उपदेश से पहले जीवात्मा प्राप्त होता है, क्योंकि अनन्तदीर्घता और अनन्तविस्तार महत्वयुक्त परमात्मा को अङ्गुष्ठपरिमाण सिद्ध नहीं हो सकता है, और विज्ञानात्मा को तो उपाधि वाला होने से किसी कल्पना द्वारा अङ्गुष्ठमात्रत्व का सम्भव है । स्मृति से भी जीव मे ही अङ्गुष्ठमात्रत्व की सिद्धि होती है, महाभारत मे लिखा है कि ( मरण के बाद यम-पाश से बद्ध कर्म के वशगत अङ्गुष्ठमात्र पुरुष को सत्त्वानु के शरीर से यम ने बल से खींचा ) परमेश्वर यम से बलपूर्वक खींचने के योग्य नहीं है, अत इस स्मृति मे ससारी अङ्गुष्ठमात्र निश्चित है, यही यहाँ श्रुति मे भी है ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—परमात्मैवायमङ्गुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुमर्हति । कस्मात्, शब्दात्—‘ईशानो भूतभव्यस्य’ इति । नह्यन्यः परमेश्वराद्भूतभव्यस्य निरङ्कुममीशिता । ‘एतद्वै तत्’ इति च प्रकृत पृष्ठमिहानुसन्दधाति । एतद्वै तच्चतुष्टं ब्रह्मेत्यर्थः । पृष्टं चेह ब्रह्म—अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृता-कृतात् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद् ॥ ( का० १।२।१४ ) इति । शब्दादेवेत्यभिधानश्रुतेरेवेशान इति परमेश्वरोऽयं गम्यत इत्यर्थः ॥ २४ ॥

ऐसा प्राप्त होने पर कहते है कि परमात्मा ही यह अङ्गुष्ठमात्र परिमित पुरुष होने योग्य है, क्योंकि ( भूत भव्य का ईशान है ) इस शब्द से परमात्मा ही सिद्ध होता है । परमेश्वर से अन्य भूतभावी का निरङ्कुश ( स्वतन्त्र ) नियन्ता नहीं है । ( एतद्वै तत् ) यह वही है, इस कथन से प्रकृत मे पूछी गई वस्तु का यहाँ अनुसंधान ( सबन्ध ) करते हैं । एव यहाँ पूछी गई वस्तु ब्रह्म ही है कि ( धर्म अधर्म से ) अन्य इस कार्य-कारण से अन्य भूत भावी-वर्तमान से अन्य जिसको देखते हो उसे कहो ) इससे ‘ईशान’ इस शब्दरूप अभिधान ( ईश्वर का नाम ) सुनने से ही यह अङ्गुष्ठमात्र परमात्मा है, ऐसी प्रतीति होती है यह सूत्र का अर्थ है ॥ २४ ॥

कथं पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्रूमः—

**हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥**

सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृद्येऽवस्थानमपेक्ष्याङ्गुष्ठमात्रत्वमिदमुच्यते । आकाशस्यैव वंशपर्वापेक्षमरत्निमात्रत्वम् ! नह्यञ्जासातिमात्रस्यैव परमात्मनोऽङ्गुष्ठमात्रत्वमुपपद्यते । न चान्यं परमात्मन इह ग्रहणमर्हतीशानशब्दादिभ्य इत्युक्तम् ।

फिर सर्वगत परमेश्वर के परिमाण का उपदेश कैसे किया गया है, ऐसी शका होने पर यहाँ उत्तर कहते हैं कि—सर्वगत परमात्मा को भी हृदय मे स्थिति की दृष्टि से यह अङ्गुष्ठमात्रता कही जाती है, जैसे कि आकाश को बास के पर्वा ( पोर ) की

दृष्टि से हाथ भर कहा जाता है, अतिमात्र ( विभु ) परमात्मा को हृदयादि की अपेक्षा के बिना अज्ञसा ( तत्त्वतः सत्य ) अङ्गुष्ठमात्र नहीं कहा जा सकता है, न अङ्गुष्ठ-मात्रत्व सिद्ध हो सकता है, और ईशानशब्दादि से परमात्मा से अन्य वस्तुतः हृदयवर्ती भी जीव यहाँ ग्रहण के योग्य नहीं है ।

ननु प्रतिप्राणिभेदं हृदयानामनवस्थितत्वात्तदपेक्षमप्यङ्गुष्ठमात्रत्वं नोपपद्यत इत्यत उत्तरमुच्यते—मनुष्याधिकारत्वादिति । शास्त्रं ह्यविशेषप्रवृत्तमपि मनुष्यानेवाधिकरोति, शक्तत्वादर्थित्वादर्पयुदस्तत्वाद्दुपनयनादिशास्त्राच्चेति वर्णित-मेतदधिकारलक्षणे ( जै० ६।१ ) । मनुष्याणां च नियतपरिमाणः काय , औचित्येन नियतपरिमाणमेव चैषामङ्गुष्ठमात्रं हृदयम् । अतो मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य मनुष्यहृदयावस्थानापेक्षमङ्गुष्ठमात्रत्वमुपपन्नं परमात्मनः । यद्युक्त—परिमाणोपदेशात्स्मृतेश्च संसार्येवायमङ्गुष्ठमात्रः प्रत्येतव्य—इति, तत्प्रत्युच्यते—‘स आत्मा तत्त्वमसि’ इत्यादिवत्संसारिण एव सतोऽङ्गुष्ठमात्रस्य ब्रह्मत्वमिदमुपदिश्यत इति । द्विरूपा हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः, क्वचित्परमात्मस्वरूपनिरूपणपरा क्वचिद्विज्ञानात्मनः परमात्मैकत्वोपदेशपरा । तदत्र विज्ञानात्मनः परमात्मनैकत्वमुपदिश्यते नाङ्गुष्ठमात्रत्वं कस्यचित् । एतमेवार्थं परेण स्फुटीकरिष्यति—‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । त स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुञ्जादिवेषीकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतम् ॥’ ( का० २।६।१७ ) इति ।

यहाँ शंका होती है कि भिन्न-भिन्न तत्त्व प्राणियों के भी हृदयो के अनवस्थित ( अनेक ) स्वरूप वाले होने से उस हृदय की अपेक्षा से भी सर्वहृदयनिवासी परमात्मा को अङ्गुष्ठमात्रत्व नहीं सिद्ध हो सकता है । अतः उत्तर है कि शास्त्र में मनुष्य के अधिकार से दोष नहीं है । यद्यपि शास्त्र सामान्य रूप से प्रवृत्त होता है, तथापि मनुष्यो को ही कर्म-भक्ति-ज्ञानादि का अधिकार देता है, मनुष्यो में भी जो शक्त ( सामर्थ्ययुक्त ) हैं, कर्मादि के फलार्थी हैं, अपयुदस्त ( अनिषिद्ध हैं, उनको शक्तत्वादि से शास्त्र अधिकारी बनाता है । इसी प्रकार उपनयनादि शास्त्र से उपनयनादि युक्त को ही त्रैवर्णिक कर्मादि में शास्त्रबोधित अधिकार है, यह पूर्व मीमांसा के अधिकाराध्याय में वर्णित है । और मनुष्यो के नियत परिमाण बाला शरीर होता है, और उस शरीर की योग्यता से युक्त नियत परिमाण वाला ही इनका अङ्गुष्ठमात्र हृदय होता है । इससे शास्त्र का अधिकार मनुष्यो को होने से मनुष्य के हृदय में स्थिति की अपेक्षा से परमात्मा को अङ्गुष्ठमात्रत्वयुक्त है । जो यह कहा गया था कि परिमाण के उपदेश से और स्मृति से ससारी ही अङ्गुष्ठ मात्र है, ऐमा जानना चाहिये, उसके प्रति समाधान है कि ( वह सत्यादि स्वरूप आत्मा है, और आत्मा तुम हो ) इत्यादि के समान अङ्गुष्ठमात्र को ससारी होते भी वह ब्रह्मत्व का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि दो रूपवाले वेदान्त वाक्यो की प्रवृत्ति है, कही ( अस्थूलम् )



इत्यादि स्थान मे परमात्मास्वरूप के निरूपणपरक प्रवृत्ति है, और कही विज्ञानात्मा के परमात्मा के साथ एकत्व (अभेद) का उपदेशपरक प्रवृत्ति है । यहाँ वही विज्ञानात्मा के परमात्मा के साथ एकत्व का उपदेश दिया जाता है, किसी के अगुष्ठ मात्रत्व का उपदेश नहीं दिया जाता है । इसी अर्थ को आगे के ग्रन्थ से गुरु स्फुट व्यक्त करेगे कि अगुष्ठ मात्र अन्तरात्मारूप पुरुष जनो के हृदय मे सदा सम्यक् निविष्ट ( प्रविष्ट ) है । उसको अपने शरीर से धैर्य द्वारा मूज से ईषीका के समान विविक्त पृथक् करे, और उसको शुद्ध अमृतस्वरूप समझे ॥ २५ ॥

### देवताधिकरण ॥ ८ ॥

नाधिक्रियन्ते विद्यायां देवाः किंवाऽधिकारिणः । विदेहत्वेन सामर्थ्यहानेर्नैषामधिक्रिया ॥  
अविरुद्धार्थवादादिमन्त्रादेर्देहसत्त्वतः । अर्थित्वादेश्च सौलभ्याद् देवाद्या अधिकारिणः ॥

समन्वयाध्याय मे प्रसंग से मनुष्याधिकार के चिन्तन होने पर प्रसंग से ही देवाधिकार का चिन्तन है कि मनुष्यो से ऊपर स्थिर जो देव है, उनका भी ज्ञान मे अधिकार है, क्योंकि उनमे सामर्थ्यादि का सम्भव है । यहाँ ज्ञान से पुस्तक के अध्ययन-जन्य ज्ञान का ग्रहण नहीं है किन्तु अधिकार की प्राप्ति के बाद गुरुशरण मे प्राप्त हो कर जो नचिकेता सत्यकाम श्वेतकेतु नारदादि के समान पुस्तक द्वारा या बिना पुस्तक के गुरु से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, उस ज्ञान का ग्रहण है । यहाँ सशय होता है कि आत्मविद्या में देव अधिकारी नहीं होते हैं, अथवा अधिकारी होते हैं । पूर्वपक्ष है कि विदेह होने से देव मे सामर्थ्य का अभाव है अतः इनका अधिकार नहीं है । सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणो से अविरुद्ध अर्थवाद और मन्त्र-पुराण इतिहासादि से देव को देहवत्त्व सिद्ध होने से तथा देही होने पर अर्थित्वादि के भी सुलभ होने से देवादि भी अधिकारी हैं ।

### तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात् ॥ २६ ॥

अङ्गुष्ठमात्रश्रुतिर्मनुष्यहृदयापेक्षया मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्येत्युक्तं, तत्प्रसङ्गेनेदमुच्यते । बाढं मनुष्यानधिकरोति शास्त्रम्, न तु मनुष्यानेवेतीह ब्रह्मज्ञानेन नियमोऽस्ति, तेषां मनुष्याणामुपरिष्ठाद्ये देवादयस्तानप्यधिकरोति शास्त्रमिति बादरायण आचार्यो मन्यते । कस्मात् ? सम्भवात् । सम्भवति हि तेषामप्यर्थित्वाद्यधिकारकारणम् । तत्रार्थित्वं तावन्मोक्षविषयं देवादीनामपि सम्भवति विकारविषयविभूत्यनित्यत्वालोचनादिनिमित्तम् । तथा सामर्थ्यमपि तेषां सम्भवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो विग्रहवत्त्वाद्यवगमात् । न च तेषां कश्चित्प्रतिषेधोऽस्ति । नचोपनयनादिशास्त्रेषामधिकारो निवर्त्येत, उपनयनस्य वेदाध्ययनार्थत्वात्, तेषां च स्वयंप्रतिभातवेदत्वात् । अपि चैषां विद्याग्रहणार्थं ब्रह्मचर्यादि दर्शयति—‘एकशतं ह वै वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ

ब्रह्मचर्यमुवास' ( छां० ८।१।१३ ), 'भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार  
अधीहि भगवो ब्रह्म' ( तै० ३।१ ) इत्यादि । यदपि कर्मस्वनधिकारकारणमुक्तम्—  
'न देवानां देवतान्तराभावात्' इति, 'न ऋषीणामार्षेयान्तराभावात्' ( जै० ६।  
१।६,७ )—इति, न तद्विद्यास्वस्ति, नहीन्द्रादीनां विद्यास्वधिक्रियमाणानामि-  
न्द्राद्युद्देशेन किञ्चित्कृत्यमस्ति, न च भृगवादीनांभृगवादिसगोत्रतया । तस्माद्देवा-  
दीनामपि विद्यास्वधिकारः केन वार्यते । देवाद्यधिकारेऽप्यङ्गुष्ठमात्रश्रुतिः स्वाङ्गु-  
ष्ठापेक्षया न विरुध्यते ॥ २६ ॥

पहले कहा गया है कि शास्त्र का अधिकार मनुष्य को है, इससे अगुष्ठमात्रश्रुति  
मनुष्य के हृदय की अपेक्षा से है, उस अधिकार के प्रसंग से यह कहा जाता है कि  
शास्त्र मनुष्य को अधिकृत करता है, यह बात सत्य है । परन्तु मनुष्यमात्र को इस  
ब्रह्मज्ञान में अधिकृत करता है, यह नियम यहाँ नहीं है । इससे उन मनुष्यों के ऊपर  
जो देवादि हैं, उनको भी शास्त्र अधिकृत करता है, इस प्रकार बादरायण आचार्य  
मानते हैं । क्यों ऐसा मानते हैं, तो उसका उत्तर है कि ऐसा सम्भव है । क्योंकि उन  
देवों को भी अधिकार के कारण अर्थित्वादि का सम्भव है । प्रथम मोक्षविषयक अर्थित्व  
( इच्छा ) विकार रूप विषय विभूति के अनित्यत्व के आलोचन ( दर्शन ) निमित्तक  
देवादि को भी जैसे सम्भव है वैसे ही मन्त्र अर्थवाद इतिहास पुराण और लोक द्वारा  
शरीरित्व के ज्ञान होने से उन्हें सामर्थ्य का भी सम्भव है उनके अधिकरण का प्रतिषेध  
रूप कोई शब्द नहीं है । उपनयनादि शास्त्र से उनका अधिकार निवृत्त नहीं किया  
जा सकता है, क्योंकि उपनयन वेद का अध्ययन के लिए होता है । देवादि को  
जन्मान्तर के संस्कारादि से वेद स्वयं प्रतिभान ( स्मृत-प्रतिभागत ) रहते हैं । दूसरी  
बात यह है कि विद्या का ग्रहण ( प्राप्ति ) के लिये इनके ब्रह्मचर्यादि को श्रुति  
दिखलाती है कि ( इन्द्र ने एक सौ एक वर्ष प्रजापति के पास में ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास  
किया । वरुण के पुत्र भृगु पिता के पास में गया और उनसे कहा कि भगवन् मुझे  
ब्रह्मज्ञान का उपदेश करो । और जो कर्म में देवादि के अनधिकार का कारण कहा  
गया है कि ( देवों को देवोद्देश्यक ) कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि उद्देश्य देवान्तर  
का अभाव है । इसी प्रकार ऋषि को भी आर्षेय ( ऋषि उद्देश्यक ) कर्म में अधिकार  
नहीं है क्योंकि आर्षेयान्तर ( उद्देश्यान्तरमन्त्रादि ) का अभाव है, अर्थात् वसु आदि  
देव के लिये ध्येय दूसरे वसु आदि वैसे नहीं है, तैसे ही मन्त्रादि के ऋषि ध्येय भृगु  
आदि दूसरे नहीं हैं, इससे देव और ऋषि का समन्त्रकादि वैदिक कर्म में अधिकार  
नहीं है । वह अनधिकार का कारण विद्या ( ब्रह्मात्मज्ञान ) में नहीं है, क्योंकि  
विद्याओं में अधिक्रियमाण ( प्रवृत्त ) इन्द्रादि को इन्द्रादि का उद्देश्य ( लक्ष्य ) करके कुछ  
भी कर्त्तव्य नहीं है, न भृगु आदि को भृगुसगोत्रता से कुछ कर्त्तव्य है, अतः देवादि का  
विद्याविषयक अधिकार किससे निवारित हो सकता है ? अर्थात् विद्या के अधिकार का

कोई नहीं निवारण कर सकता है। देवादि का अधिकार होने पर भी अपने अंगूठे की अपेक्षा से अंगुष्ठमात्रश्रुतिविरुद्ध नहीं होती है।

### विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शानात् ॥ २७ ॥

स्यादेतत्, यदि विग्रहवत्त्वाद्यभ्युपगमेन देवादीनां विद्यास्वधिकारो वर्ण्येत विग्रहवत्त्वाद्दृष्टिगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वरूपसंनिधानेन कर्माङ्गभावोऽभ्युपगम्येत, तदा च विरोधः कर्मणि स्यात्, नहीन्द्रादीनां स्वरूपसन्निधानेन यागोऽङ्गभावो दृश्यते, न च सम्भवति, बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वरूपसंनिधानतानुपपत्तेरिति चेत् ? नायमस्ति विरोधः। कस्मात् ? अनेकप्रतिपत्तेः। कस्यापि देवतात्मनो युगपदनेकस्वरूपप्रतिपत्तिः सम्भवति। कथमेतदवगम्यते ? दर्शानात्। तथाहि—‘कति देवाः’ इत्युपक्रम्य ‘त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रा’ इति निरुच्य ‘कतमे ते’ इत्यस्यां पृच्छायाम् ‘महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत्त्वेव देवा’ (ब्र० ३।६।१२) इति निर्ब्रुवती श्रुतिरेकैकस्य देवतात्मनो युगपदनेकरूपतां दर्शयति। तथा त्रयस्त्रिंशतोऽपि षडाद्यन्तर्भावक्रमेण ‘कतम एको देव इति ‘प्राणः’ इति, प्राणैकरूपतां देवानां दर्शयन्ती तस्यैवैकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दर्शयति।

तथा स्मृतिरपि—आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ। योगी कुर्याद्भूलं प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीं चरेत् ॥ प्राप्नुयाद्विषयान्कैश्चित्कैश्चिदुग्रं तपश्चरेत्। संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव ॥ इत्येवंजातीयका प्राप्ताणिमाद्यैश्वर्याणां योगिनामपि युगपदनेकशरीरयोगं दर्शयति। किमु वक्तव्यमाजन्मसिद्धानां देवानाम्। अनेकरूपप्रतिपत्तिसम्भवाच्चकैका देवता बहुभी रूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदङ्गभावं गच्छति, परैश्च न दृश्यतेऽन्तर्धानादिक्रियायोगादित्युपपद्यते।

पूर्वोक्त सापेक्ष अंगुष्ठमात्रत्वादि हो सकता है, परन्तु यदि विग्रहवत्त्व ( शरीरित्व ) का स्वीकार करके देवादि का विद्या में अधिकार का वर्णन किया जायगा, तो इन्द्रादि को भी ऋत्विगादि के समान शरीरी होने से ऋत्विगादि के समान ही शरीर द्वारा सन्निधान ( सामीप्य ) पूर्वक इन्द्रादि के कर्माङ्गभाव ( कर्माङ्गत्व ) अभ्युपगत स्वीकृत होगा। तब कर्म में विरोध होगा। क्योंकि यदि स्वरूप ( शरीर ) से देव का कर्म सन्निधान हो तो दीखना चाहिये, और इन्द्रादि का स्वरूप सन्निधानपूर्वक याग में अङ्गत्व दीखता नहीं है। और ऐसा अङ्गभाव का सम्भव भी नहीं है, क्योंकि बहुत यागो में एक काल में एक इन्द्र की स्वरूप से सन्निधानता की अनुपपत्ति ( अयुक्तता-असिद्धि ) है। इस प्रकार यदि कोई विरोध की शका करे, तो कहा जाता है कि यह विरोध नहीं है, क्योंकि एक देव को भी अनेकरूपता अदृश्यता आदि की प्राप्ति होती है। एक देवातात्मा को भी एक काल में अनेक स्वरूप की प्राप्ति सम्भव है। यदि कहो कि यह कैसे समझा जाता है, तो कहा जाता है कि शास्त्र को देखने से यह समझा जाता है।

ऐसा ही शास्त्र है कि ( शाकल्य ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि यज्ञविशेष में स्तुत्यर्हं देव कितने है ? इस प्रकार आरम्भ करके फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ( तीन सौ तीन और तीन हजार तीन देव हैं ) अर्थात् तीन हजार तीन सौ छ' देव है, इस प्रकार सख्या का निर्वचन (कथन) करके, फिर संख्येय देव विषयक पृच्छा ( प्रश्न ) उपस्थित हुई कि वे देव कौन हैं । इस प्रश्न के बाद याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये तीन हजार आदि इन देवों के महिमा ( विभूति ) है, वस्तुतः आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र और प्रजापति ये तैत्तीस देव हैं, इस प्रकार देव का निर्वचन ( कथन ) करती हुई श्रुति एक-एक देवातात्मा की एक काल में अनेकरूपता दिखलाती है, इसी प्रकार तैत्तीस देव का भी छ' देवादि में अन्तर्भाव के क्रम से एक में अन्तर्भाव कहने पर प्रश्न उपस्थित हुआ कि वह एक देव कौन हैं, उत्तर है कि समष्टिप्राणरूपहिरण्यगर्भ एक देव हैं, अर्थात् वन्तु आदि तैत्तीस का अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और दिव में अन्तर्भाव है, इनका तीन लोक में अन्तर्भाव है, लोको का हिरण्यगर्भ में अन्तर्भाव है । इस प्रकार देवों की एकप्राण रूपता दिखलाती हुई श्रुति उस एक प्राण की ही एक काल में अनेकरूपता दिखलाती है । इसी प्रकार की स्मृति भी है कि ( हे भरत श्रेष्ठ । योगी योग की अणिमादि सिद्धि रूप बल को प्राप्त करके अपने बहुत शरीरों को बना लेता है, और उन सबसे भूमि पर विचरता है कि कितने शरीरों से विषयो को प्राप्त करता है, कितने से उग्र ( उल्कट ) तप करता है और फिर उनको सक्षिप्त करता ( समेटता ) है, जैसे सूर्य किरण समूहों को समेटते हैं । इस प्रकार की स्मृति अणिमादि ऐश्वर्यों को प्राप्त किये योगियों का भी एक काल में अनेक शरीर से सम्बन्ध दिखलाती है, तो फिर जन्म-सिद्ध देवताओं के विषय में कहना ही क्या है । और अनेक रूप की प्राप्ति के सम्भव होने से एक-एक देव बहुत रूप से अपने आत्मा को प्रविभक्त करके बहुत यागों में एक काल में अङ्गभाव ( अङ्गत्व ) को प्राप्त होते हैं अन्तर्धानादि क्रिया के सम्बन्ध में अन्य से देखे नहीं जाते हैं, ऐसा सिद्ध होता है, और देवों को भी विद्या में अधिकार इससे युक्त है ।

अनेकप्रतिपत्तेर्दर्शनादित्यस्यापरा व्याख्या—विग्रहवतामपि कर्माङ्गभावचो-  
दनास्वनेका प्रतिपत्तिर्दृश्यते । क्वचिदेकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं न  
गच्छति, यथा बहुभिर्भोजयद्भिर्नैको ब्राह्मणो युगपद्भोज्यते । क्वचिच्चैकोऽपि  
विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभाव गच्छति, यथा बहुभिर्नमस्कुर्वाणैरेको ब्राह्मणो  
युगपन्नमस्क्रियते । तद्वदिहोद्देशपरित्यागात्मकत्वाद्यागस्य विग्रहवतीमप्येकां  
देवतामुद्दिश्य बहवः स्वं स्वं द्रव्यं युगपत्परित्यज्यन्तीति विग्रहवत्त्वेऽपि देवानां  
न किञ्चित्कर्मणि विरुध्यते ॥ २७ ॥

‘अनेक प्रतिपत्तेर्दर्शनात्’ इस सूत्राश की दूसरी व्याख्या है कि शरीरियों के भी कर्म के अङ्गत्व की विधि में अनेक प्रतिपत्ति ( प्राप्ति रीति ) देखी जाती है कि कहीं तो

एक भी शरीरी एक काल में अनेक व्यवहार में अङ्गत्व को नहीं प्राप्त होता है । जैसे कि बहुत भोजन कराने वालों से एक ब्राह्मण एक काल में भोजन नहीं कराया जाता है और कहीं एक भी शरीरी अनेक व्यवहार में एक काल में ही अङ्गता प्राप्त करता है, जैसे कि बहुत नमस्कार करने वालों से एक ब्राह्मण एक काल में नमस्कृत होता है । इस नमस्कार के अङ्गत्व के समान एक एक देव को अनेकानेक याग में अङ्गत्व होगा, क्योंकि देव को उद्देश ( ध्यान ) करके द्रव्य का परित्यागात्मक यज्ञ के होने से विग्रह वाली एक देव को भी उद्देश्य ( ध्यान का लक्ष्य ) करके बहुत लोग एक काल में अपने-अपने द्रव्यों का परित्याग करेंगे, इस प्रकार देवों के शरीरित्व होने पर भी कर्म में कोई विरोध नहीं है ॥ २७ ॥

### शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २८ ॥

शब्दे-इति-चेत्-न-अत-प्रभवात्—प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् । इस सूत्र में सात पद हैं । मक्षितार्थ है कि ( कर्मणि विरोधाभावेऽपि शब्दे विरोधः स्यादि चेन्न-अत-शब्दादेव प्रत्यक्षानुमानाभ्या प्रभवात् विरोधासिद्धे. ) कर्म में विरोध के नहीं होते भी शरीरी देव पक्ष में शब्द के नित्यत्व में विरोध होगा, यह नहीं कहना, श्रुति स्मृति से नित्य शब्द-जन्यत्व देवादि के सिद्ध होने से विरोध की असिद्धि होती है ।

मा नाम विग्रहवत्त्वे देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चिद्विरोधः प्रसञ्जि, शब्दे तु विरोधः प्रसज्येत । कथम् ? औत्पत्तिकं हि शब्दस्यार्थेन सम्बन्धमाश्रित्य 'अनपेक्षत्वात्' इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम् । इदानीं तु विग्रहवती देवताभ्युपगम्यमाना यद्यप्यैश्वर्ययोगाद्युपपदनेककर्मसम्बन्धीनि हवींषि भुञ्जीत तथापि विग्रहयोगादस्मदादिवज्जननमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्ये-नार्थेन नित्ये सम्बन्धे प्रतीयमाने यद्वैदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति चेत् । नायमप्यस्ति विरोधः । कस्मात् ? अतः प्रभवात् । अतएव हि वैदिकाच्छब्दाद्देवादिकं जगत्प्रभवति ।

देवादि को शरीरी मानने वर कर्म में कोई विरोध भले ही नहीं प्राप्त हो, परन्तु शब्द में विरोध की प्राप्ति होगी, क्योंकि शब्दों का अर्थों के साथ औत्पत्तिक ( स्वाभाविक नित्य ) सम्बन्ध को मानकर ( अनपेक्षत्वात् ) इस अनपेक्षत्व हेतु से वेद की प्रामाण्यता को स्थिर किया है । अब इस समय देव को शरीरी मानने पर तो यद्यपि विग्रह वाली मानी गई देवता ऐश्वर्य के सम्बन्ध से एक काल में अनेक कर्म सम्बन्धी हविषों को भोग सकती है, तथापि देह के सम्बन्ध से हम सबके समान वह देवता भी जन्म मरण वाली होगी, इस कारण से जो नित्य शब्द को नित्य अर्थ के साथ नित्य सम्बन्ध के प्रतीत होने से वैदिक शब्दों में प्रामाण्य स्थिर रहा, उसका विरोध होगा, ऐसा यदि कोई कहे तो कहा जाता है कि यह भी विरोध नहीं है, क्योंकि इस शब्द से ही प्रभव ( उत्पत्ति ) होती है इस वैदिक शब्द से देवादि सब जगत् उत्पन्न होता है, और कारण

होने से शब्द सदा रहता है, इससे शब्द में अनित्यत्व रूप विरोध नहीं है, और जो जिससे उत्पन्न होता है उसका उसके साथ वाच्य-वाचकादि भाव सदा रहता है, इससे सम्बन्ध में भी अनित्यत्व विरोध नहीं है।

ननु 'जन्माद्यस्य यतः' ( ब्र० १।१।२ ) इत्यत्र ब्रह्मप्रभवत्वं जगतोऽवधारितं, कथमिह शब्दप्रभवत्वमुच्यते। अपि च यदि नाम वैदिकाच्छब्दादस्य प्रभवोऽभ्युपगतः, कथमेतावता विरोधः शब्दे परिहृतः, यावता वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इत्येतेऽर्था अनित्या एवोत्पत्तिमत्त्वात्, तद्वद्विरोधे च तद्वाचिनां वैदिकानां वस्वादिशब्दानामनित्यत्वं केन निवार्यते। प्रसिद्धं हि लोके देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति। तस्माद्विरोध एव शब्दे चेत्। न। गवादिशब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वदर्शनात्। नहि गवादि-व्यक्तीनामुत्पत्तिमत्त्वे तदाकृतीनामप्युत्पत्तिमत्त्वं स्यात्। द्रव्यगुणकर्मणां हि व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते नाकृतयः। आकृतिभिश्च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिः। व्यक्तीनामानन्त्यात्सम्बन्धग्रहणानुपपत्तेः। व्यक्तिसूत्रग्रहणानुपपत्तेः। नित्यत्वान्न गवादिशब्देषु कश्चिद्विरोधो दृश्यते। तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेऽप्याकृतिनित्यत्वान्न कश्चिद्वस्वादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टव्यम्। आकृति-विशेषस्तु देवादीनां मन्त्रार्थवादादिभ्यो विग्रहवत्त्वाद्यवगमादवगन्तव्यः। स्थान-विशेषसम्बन्धनिमित्ताश्चेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत्। ततश्च यो यस्तन्त-त्स्थानमधिरोहति स स इन्द्रादिशब्दैरभिधीयत इति न दोषो भवति। न चेदं शब्दप्रभवत्व ब्रह्मप्रभवत्ववदुपादानकारणाभिप्रायेणोच्यते। कथं तर्हि ? स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थसम्बन्धनि शब्दव्यवहारयोग्यार्थव्यक्तिनिष्प-त्तवतः प्रभव इत्युच्यते। कथं पुनरवगम्यते शब्दात्प्रभवति जगदिति ? प्रत्य-क्षानुमानाभ्याम्। प्रत्यक्षं श्रुतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्। ते हि शब्दपूर्वा सृष्टि दर्शयतः। 'एते इति वै प्रजापतिर्देवानसृजतासृष्टमिति मनुष्यानिन्दव इति पितृस्तिरः पवित्रमिति प्रहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शस्त्रमभिसौभ-गेत्यन्याः प्रजाः' इति श्रुतिः। तथान्यत्रापि 'स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्' ( बृ० १।२।४ ) इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः श्राव्यते।

यहाँ शंका होती है कि 'जन्माद्यस्य यत' इस सूत्र में जगत् की ब्रह्म-प्रभवत्व ( ब्रह्मजन्यत्व ) निश्चित किया है, फिर यहाँ शब्द-प्रभवत्व कैसे कहा जाता है ? और दूसरी बात है कि यदि प्रसिद्ध वैदिक शब्द से इस देवादि का प्रभव ( उत्पत्ति ) मान भी लिया गया, तो इतने मानने से शब्द में विरोध कैसे परिहृत ( निवारित ) हुआ ? क्योंकि जब वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, मरुत ये सब अर्थ उत्पत्ति वाले होने से अनित्य ही हैं, तो उनके अनित्य होने पर उनके वाचक वैदिक वसु आदि शब्दों का अनित्यत्व को किससे निवारण किया जा सकता है। लोक में प्रसिद्ध है कि देवदत्त के

पुत्र के उत्पन्न होने पर उसका यज्ञदत्त यह नाम किया जाता है, उससे शब्द में विरोध ही है। ऐसी यदि शका हो तो कहा जाता है कि विरोध नहीं है, क्योंकि गो आदि शब्द और उसके अर्थ के सम्बन्ध का नित्यत्व देखा जाता है, क्योंकि गवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति होने पर भी जाति और जाति का व्यञ्जक उनकी आकृति (आकार) की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति भिन्न भिन्न रहती है, और जाति, आकृति भूत, भावी, वर्तमान सबमें एक रहती है। इससे द्रव्य गुण और कर्म की व्यक्तियाँ ही उत्पन्न होती हैं, और शब्दों का जाति, आकृतियों के साथ सम्बन्ध है, व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि व्यक्तियाँ अनन्त हैं, उनके साथ शब्दों के सम्बन्ध का ग्रहण ही नहीं सकता है। व्यक्तियों के उत्पन्न होने पर भी जाति, आकृति की नित्यता से गो आदि शब्दों में कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार देवादि की व्यक्तियों की उत्पत्ति मानने पर भी जाति, रूप, आकृति के नित्य होने पर वसु आदि शब्दों में कोई विरोध नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। मन्त्र अर्थवादादि से देवादि के शरीरित्व के निश्चय ज्ञान होने से उनका आकृति-विशेष भी जानने योग्य (मन्तव्य) है। आकार-विशेष भी मन्त्रादि से ही ज्ञेय है। सेनापति आदि शब्द के समान स्थान-विशेष के साथ सम्बन्ध-निमित्तक भी इन्द्रादि शब्द हो सकते हैं, उससे जो-जो उन-उन स्थानों में आरूढ प्राप्त स्थिर होता है वह-वह इन्द्रादि शब्दों से कहा जाता है, इससे विरोध दोष नहीं होता है। जो यह शब्द जन्यत्व है ऐसा कहते हैं, वह ब्रह्मजन्यत्व के समान उपादान कारण के अभिप्राय से नहीं। वह कैसे कहते हैं कि वाचक रूप से नित्यार्थ-सम्बन्धी नित्य शब्द के स्थिर रहते शब्द से व्यवहार के योग्य अर्थ की उत्पत्ति होती है, अतः प्रभव, शब्द से उत्पन्न हो जाता है यह कहा है। फिर भी शब्द से जगत् होता है, यह कैसे जाना जा सकता है? यदि ऐसी जिज्ञासा हो तो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से जाना जाता है, वहा अपनी प्रमाणाता के प्रति अन्य की अपेक्षा रहित होने से श्रुति को प्रत्यक्ष कहते हैं, और प्रमाणाता में श्रुतिसापेक्ष होने से स्मृति को अनुमान कहते हैं, वे श्रुति-स्मृति दोनों शब्दपूर्वक सृष्टि दिखलाती है कि देव का स्मारक एते शब्द से देव का स्मरण करके प्रजापति ने देवताओं की सृष्टि की। इसी प्रकार असृक्-रुधिरमय देह में रमने वाले असृग्-मनुष्य की सृष्टि असृग् से स्मरण पूर्वक हुई। इन्दु शब्दपूर्वक पितृओं की, तिरःपवित्रम्, से ग्रहों (यज्ञ-पात्रों) की स्मृति पूर्वक यज्ञपात्रों की, आशवः, से स्मरणपूर्वक स्तोत्रों की, विश्वानि, से स्मरणपूर्वक शस्त्रों की और अभिसौभाग, इससे अन्य प्रजाओं का स्मरणपूर्वक अन्य की सृष्टि की गई इस प्रकार श्रुति कहती है। वैसे ही अन्यत्र भी श्रुति है कि (उस प्रजापति ने मनसे वाक् को मिथुन किया) अर्थात् वेद से प्रकाशित सृष्टि का मन से आलोचन विचार किया) इत्यादि वचनों से तत्तत्स्थानों में शब्दपूर्वक सृष्टि श्रुतियों में सुनी जाती है।

स्मृतिरपि—

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा ।

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ इति ।

उत्सर्गोऽप्ययं वाचः संप्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाया अन्यादृशस्योत्सर्गस्यासम्भवात् । तथा—

नामरूपे च भूतानां कर्मणां च प्रवर्त्तनम् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥ ( मनु० २।१२१ )

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ इति च ।

अपि च चिकीर्षितमर्थमनुतिष्ठंस्तस्य वाचकं शब्दं पूर्वं स्मृत्वा पश्चात्तमर्थ-  
मनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत् । तथा प्रजापतेरपि स्रष्टुः सृष्टेः पूर्वं  
वैदिकाः शब्दा मनसि प्रादुर्भूवुः, पश्चात्तदनुगतानर्थान् ससर्जेति गम्यते । तथा  
च श्रुतिः—‘स भूरिति व्याहरन् स भूमिमसृजत’ ( तै० ब्रा० २।१।१२ )  
इत्येवमादिका भूरादिशब्देभ्य एव मनसि प्रादुर्भूतेभ्यो भूरादिलोकान् सृष्टान्  
दर्शयति ।

और स्मृति भी है कि (सृष्टि के आदि काल में स्वयंभू ब्रह्मा) ने वेदमयी दिव्य आदि  
अन्तरहित नित्य वाक् का उत्सर्ग ( सृष्टि ) किया । जिससे कि सब प्रवृत्ति सिद्ध हुई ।  
यह वाक् का उत्सर्ग ( सृष्टि ) भी संप्रदाय ( गुरु-शिष्यपरंपरा ) का प्रवर्तन रूप  
समझना चाहिये । क्योंकि आदि-अन्त रहित वाक् के अन्य प्रकार के उत्सर्ग का  
असंभव है । इसी प्रकार ( उस महेश्वर ने वेद के शब्दों से ही आदि काल में भूतो  
के नाम-रूप का कर्मों की प्रवृत्ति का निर्माण ( सृष्टि ) किया ) । उस परमात्मा ने  
सबके पृथक्-पृथक् नामों का पृथक्-पृथक् कर्मों का पृथक्-पृथक् संस्था ( अवस्था ) का  
वेद शब्द से ही आदि काल में निर्माण ( रचना ) किया । जैसे हम सब को यह  
प्रत्यक्ष है कि जिस काम या वस्तु के करने की इच्छा होती है, उसको करने या बनाने  
वाला पुरुष उसके वाचक शब्द का प्रथम स्मरण करके उस काम को करता है या  
वस्तु को बनाता है, वैसे स्रष्टा ( सृष्टिकर्ता ) प्रजापति को भी सृष्टि से प्रथम वैदिक  
शब्द मन में प्रादुर्भूत ( प्रकट ) हुए । उसके बाद उन शब्दों में अनुगत ( वाच्य रूप  
से प्राप्त ) तथा उनके बाद उनसे स्मृत अर्थों की सृष्टि प्रजापति ने किया । श्रुति से  
ऐसा समझा जाता है । इसी प्रकार ( वह भूः ऐसा कहा और भूमि को रचा )  
इत्यादि अर्थ को कहने वाली श्रुतियाँ भी मन में प्रादुर्भूत भूरादि शब्दों से ही जन्म  
भूरादि लोकों को दिखलाती है ।

किमात्मकं पुनः शब्दमभिप्रेत्येदं शब्दप्रभवत्वमुच्यते ? स्फोटमित्याह ।  
वर्णपक्षे हि तेषामुत्पन्नध्वंसित्वान्नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिदिव्यक्तीनां प्रभव



इत्यनुपपन्नं स्यात् । उत्पन्नध्वंसिनश्च वर्णाः प्रत्युच्चारणमन्यथा चान्यथा च प्रतीयमानत्वात् । तथाहि—अदृश्यमानोऽपि पुरुषविशेषोऽध्ययनध्वनिश्रवणादेव विशेषतो निर्धार्यते—देवदत्तोऽयमधीते—इति । नचायं वर्णविषयोऽन्यथात्वप्रत्ययो मिथ्याज्ञानं, बाधकप्रत्ययाभावात् । नच वर्णभ्योऽर्थोवगतिर्युक्ता, न ह्येकैको वर्णोऽर्थं प्रत्याययेत् न्यभिचारात् । नच वर्णसमुदायप्रत्ययोऽस्ति, क्रमवत्त्वा-द्वर्णानाम् । पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितोऽन्त्यो वर्णोऽर्थं प्रत्याययिष्यतीति यद्युच्येत । तन्न । सम्बन्धग्रहणापेक्षो हि शब्दः स्वयं प्रतीयमानोऽर्थं प्रत्याययेद् धूमादिवत् । नच पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितस्यान्त्यवर्णस्य प्रतीतिरस्ति, अप्रत्यक्षत्वात्संस्काराणाम् । कार्यप्रत्यायितैः संस्कारैः सहितोऽन्त्यो वर्णोऽर्थं प्रत्याययिष्यतीति चेत् ? न । संस्कारकार्यस्यापि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात् । तस्मात्स्फोट एव शब्दः । स चैकैकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबी-जेऽन्त्यवर्णप्रत्ययजनितपरिपाके प्रत्ययिन्येकप्रत्ययविषयतया भूतिरिति प्रत्यवभा-सते । नचायमेकप्रत्ययो वर्णविषया स्मृतिः, वर्णानामनेकत्वादेकप्रत्ययविषय-त्वानुपपत्तेः तस्य च प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वान्नित्यत्वम्, भेदप्रत्ययस्य वर्णविषयत्वात् । तस्मान्नित्याच्छब्दात्स्फोटरूपादभिधायकात्क्रियाकारकफलल-क्षणं जगदभिधेयभूतं प्रभवतीति ।

यहाँ जिज्ञासा होती है कि शब्द से जो सृष्टि मानी गई वह शब्द को किस स्वरूप को मानकर अर्थात् वह शब्द वर्णात्मक है वा स्फोटात्मक ? जिससे संसार को जन्यत्व कहा जाता है । वहाँ वैयाकरण कहते हैं कि वह शब्द स्फोट नामक वर्ण से भिन्न नित्य है, वह वर्णों से व्यक्त होकर पद-वाक्यादि रूप से भासता है । वर्णपक्ष में वर्णों की अनित्यता से उनके स्वयं उत्पन्न विनाशशील होने से उनसे सृष्टि नहीं हो सकती, इससे नित्य स्फोटात्मक शब्द से ही देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना युक्त होगा । यदि ऐसा नहीं माना जाय तो नित्य शब्दों से देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है यह कथन अनुपपन्न (अयुक्त-असिद्ध) होगा और प्रत्येक उच्चारण में भिन्न-भिन्न प्रतीत होने से वर्ण उत्पत्ति-विनाश वाले हैं । ऐसा ही देखा जाता है कि किसी अदृश्यमान (परोक्ष) पुरुष के अध्ययन की ध्वनि को सुनने से ही विशेष रूप से निर्धारण-निश्चय किया जाता है कि यह देवदत्त पढ़ रहा है, यह यज्ञदत्त पढ़ता है इत्यादि । यदि कहा जाय कि ध्वनिरूप उपाधिकृत वर्णों में भेद का ज्ञान होता है इससे मिथ्याज्ञान (भ्रम) है, वहाँ कहा जाता है कि यह वर्ण-विषयक अन्यथात्व प्रत्यय (भेदज्ञान) मिथ्याज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके बाधक ज्ञान का अभाव है, बाधक ज्ञान से ही मिथ्या-ज्ञानत्व का निश्चय होता है, अन्यथा नहीं । और वर्णों से अर्थ की अवगति (अनुभूति) भी उचित नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि पदगत एक-एक वर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता है, जिससे व्यभिचार है, अर्थात्

एक वर्ण से पद के अर्थ की प्रतीति का अभाव है, वर्णमात्र से अर्थ की प्रतीति नहीं देखी जाती, और यदि ऐसे हो भी तो अन्य वर्ण व्यर्थ होंगे। यदि वर्णों के समूह से अर्थ का ज्ञान माना जाय तो वह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्षज्ञान के करण श्रोत्र-नेत्रादि अज्ञात होते हुए भी ज्ञान के हेतुस्वरूप से होते हैं, प्रत्यक्ष से अतिरिक्त स्थान में ज्ञात करण ज्ञान का हेतु होता है, जैसे पर्वत में ज्ञात घूम अग्नि की अनुमिति का हेतु होता है, वैसे ही शब्द भी ज्ञात होकर शाब्द ज्ञान का हेतु होता है, और वर्णों के क्रमवाले होने से एक काल में वर्ण-समुदाय का प्रत्यय ( ज्ञान ) नहीं होता है। यदि कोई कहे कि वर्ण-समूह का एक काल में ज्ञान नहीं होने पर भी संस्कार द्वारा वर्णों का समूह (समेलन) होगा उससे अर्थ का ज्ञान होगा, क्योंकि पूर्व-पूर्व वर्णों के संस्कार-सहित अन्तिम वर्ण अनुभूत होकर अर्थ का ज्ञान करायेगा। तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि घूमादि हेतु के समान स्वयं प्रतीयमान ( ज्ञात ) और अर्थ के साथ सम्बन्ध शक्ति सकेत का ग्रहण की अपेक्षापूर्वक ही शब्द अर्थ का प्रत्यय करा सकता है, और पूर्व-पूर्व वर्णों के अनुभवजन्य संस्कार-सहित अन्तिम वर्ण की प्रतीति ( ज्ञान ) नहीं होती है, क्योंकि अदृष्टादि के समान संस्कार अप्रत्यक्ष वस्तु है, स्मृतिरूप कार्य मे अनुमेय है। यदि कहा जाय कि अर्थ ज्ञान वा स्मरण रूप कार्य से प्रत्यायित ( अनुमित ) संस्कार-सहित ज्ञात अन्त्य वर्ण अर्थ का ज्ञान करायेगा, तो वह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि वर्णों के क्रमयुक्त होने से उन के अनुभव क्रम से होते हैं, अनुभव के अनुसार संस्कार क्रम से होते हैं, इससे संस्कार के कार्य स्मरण भी क्रम से बर्तनेवाले ( रहनेवाले ) होते हैं, और क्रमवाले होने से क्रम से ही संस्कार की अनुमिति के हेतु होंगे, उससे एक काल में अनुमिति सब संस्कारों के साथ होकर भी अन्तिम अनुभूत वर्ण अर्थज्ञान का हेतु नहीं हो सकती है। इससे स्फोट ही शब्द है ( स्फुट-साफ जिससे अर्थ का ज्ञान हो उसे स्फोट कहते हैं ) और वह स्फोट ही अनेक वर्ण और पद में एक पद और एक वाक्य ज्ञान का विषय होकर पद स्फोट और वाक्य स्फोट कहा जाता है, और एक प्रत्यय का विषय इस प्रकार होता है कि एक-एक वर्ण के ज्ञानों से जन्य स्फोटविषयक अब्यक्त ज्ञानरूप बीज जिस चित्तरूप प्रत्ययी ( ज्ञानाश्रय ) में स्थिर किया गया है, और अन्त्य वर्णों के ज्ञान से अन्तिम संस्काररूप परिपाक जिसमें हो चुका है, उस प्रत्ययी में एक ज्ञान का विषय रूप से स्फोट शीघ्र भासता है कि यह एक पद है, एक वाक्य है। यह पद वा वाक्य विषयक एकत्व की प्रतीति वर्णविषयक स्मृतिरूप नहीं है, क्योंकि वर्ण अनेक हैं, इससे एक ज्ञान की विषयता उनमें हो नहीं सकती है। उस स्फोट को प्रत्येक उच्चारण में प्रत्यभिज्ञा के विषय होने से नित्यत्व है। एक पद में जो उदात्त-अनुदात्त, तार-मन्दादि भेद की प्रतीति होती है, वह वर्णविषयक होती है, भ्रम से भले ही स्फोट में भासता हो परन्तु स्फोट प्रत्येक उच्चारण में एक रहता है, उससे अर्थ के अभिधायक ( वाचक )

नित्यस्फोट रूप नित्यशब्द से क्रियाकारक फलरूप अभिधेय ( वाच्यार्थ ) रूप जगत् उत्पन्न होता है यह सिद्ध हुआ ।

‘वर्णा एव तु शब्दः’ इति भगवानुपवर्षः । ननूत्पन्नप्रध्वंसित्वं वर्णानामुक्तम् । तन्न । त एवेति प्रत्यभिज्ञानात् । सादृश्यात्प्रत्यभिज्ञानं केशादिष्विवेति चेत् ? न । प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण बाधानुपपत्तेः । प्रत्यभिज्ञानमाकृतिनिमित्तमिति चेत् ? न । व्यक्तिप्रत्यभिज्ञानात् । यदि हि प्रत्युच्चारणं गवादिव्यक्तवदन्या अन्या वर्णव्यक्तयः प्रतीयेरस्तत आकृतिनिमित्त प्रत्यभिज्ञानं स्यात् । नत्वेतदस्ति । वर्णव्यक्तय एव हि प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायन्ते । द्विर्गोशब्द उच्चारित इति हि प्रतिपत्तिर्न तु द्वौ गोशब्दाविति । ननु वर्णा अप्युच्चारणभेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते देवदत्तयज्ञदत्तयोरध्ययनध्वनिश्रवणादेव भेदप्रतीतोऽत्युक्तम् । अत्राभिधीयते—सति वर्णविषये निश्चिते प्रत्यभिज्ञाने सयोगविभागाभिव्यङ्ग्यत्वाद्दर्णानामभिव्यङ्गकवैचित्र्यनिमित्तोऽयं वर्णविषयो विचित्रः प्रत्ययो न स्वरूपनिमित्तः । अपिच वर्णव्यक्तिभेदवादिनापि प्रत्यभिज्ञानसिद्धये वर्णाकृतयः कल्पयितव्याः । तासु च परोपाधिको भेदप्रत्यय इत्यभ्युपगन्तव्यम्, तद्वर वर्णव्यक्तिष्वेव परोपाधिको भेदप्रत्ययः, स्वरूपनिमित्त च प्रत्यभिज्ञानमिति कल्पनालाघवम् । एष एव च वर्णविषयस्य भेदप्रत्ययस्य बाधकः प्रत्ययो यत्प्रत्यभिज्ञानम् । कथं तर्ह्येकस्मिन् काले बहूनामुच्चारयतामेक एव सन् गकारो युगपदनेकरूपः स्यात्—उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च सानुनासिकश्च निरनुनासिकश्च—इति । अथवा ध्वनिकृतोऽयं प्रत्ययभेदो न वर्णाकृत इत्यदोषः ।

अब आचार्य सम्प्रदाय की उक्तिपूर्वक सिद्धान्त कहते हैं कि भगवान् उपवर्ष कहते हैं कि वर्णों रूप ही शब्द है, क्योंकि वर्णों से अतिरिक्त स्फोट रूप शब्द का अनुभव नहीं होता है । जो यह कहा है कि वर्णों उत्पन्न होकर प्रध्वंस स्वभाव वाले क्षणिक हैं, वह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिनका देवदत्तने उच्चारण किया था वे ही वर्णों ये हैं जिनका यज्ञदत्त उच्चारण कर रहा है । इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से वर्णों उत्पन्न प्रध्वंसी नहीं है । यदि कहो कि अनेको बार कटने पर फिर बड़े हुये केशों में दीपशिखा नदी-प्रवाहादि में सदृशता से प्रत्यभिज्ञा होती है, वैसे ही वर्णों में सादृश्य से प्रत्यभिज्ञा भ्रमरूप होती है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि भ्रम का प्रमाणान्तर से बाध ( नाश ) होता है और वर्णों प्रत्यभिज्ञा का प्रमाणान्तर से बाध की अनुपपत्ति (असिद्धि) है, इसका बाध नहीं होता है । यदि कहो कि आकृति-निमित्तिक प्रत्यभिज्ञा है, अर्थात् वह जाति को विषय करती है, इससे भ्रमरूप नहीं होने से बाध भी नहीं होता है, और उसके बल से वर्णों भी नित्य शब्दरूप नहीं सिद्ध हो सकते हैं, तो यह कहना भी अनुचित है, क्योंकि व्यक्ति के भेद की सिद्धि के बिना प्रत्यभिज्ञा की जातिविषयता में कोई प्रमाण नहीं है, इससे वर्णों व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा होती है । यदि प्रत्येक उच्चारण

मे गो आदि की व्यक्ति के समान अन्य अन्य वर्ण व्यक्ति प्रतीत होते, तो प्रत्यभिज्ञा आकृतिनिमित्तक होती, परन्तु यह व्यक्ति के भेद का ज्ञान नहीं होता है, इससे वर्णों की व्यक्तियाँ ही प्रत्येक उच्चारण मे प्रत्यभिज्ञा होती है ( प्रत्यभिज्ञा से जानी जाती है ) जिससे कहा जाता है कि इसने एक गो शब्द का दो बार उच्चारण किया है, इससे दो बार गो शब्द उच्चारित हुआ ऐसी प्रतीति होती है, दो गो शब्द उच्चारित हुए ऐसी प्रतीति नहीं होती है। यका होती है कि उदात्तादि भेद से उच्चारण के भेद द्वारा वर्ण भी भिन्न प्रतीत होते है, क्योंकि देवदत्त यज्ञदत्त के अध्ययन की ध्वनि के श्रवण से ही अध्ययन भेद की प्रतीति होती है, यह कहा जा चुका है। यहाँ उत्तर है कि वर्णविषयक निश्चित प्रत्यभिज्ञा के होने पर, वर्णविषयक यह विचित्र प्रत्यय वर्ण के स्वरूपनिमित्तक नहीं है, किन्तु तत्तत् तालु आदि स्थानो मे वायु आदि के सयोग और विभाग से वर्णों की अभिव्यक्ति होने से अभिव्यञ्जक स्थान वायु आदि की विचित्रता-निमित्तक यह वर्णविषयक विचित्र ज्ञान होता है। दूसरी बात है कि वर्ण व्यक्ति के भेद मानने वाले को भी प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि के लिये वर्णों की आकृति पर (जातियों) की कल्पना करनी पड़ेगी। एव उनमे परोपाधिनिमित्तक उदात्तादि भेद का ज्ञान होता है ऐसा मानना होगा। उससे श्रेष्ठ यह मन्तव्य है कि वर्णों की व्यक्तियों मे अन्योपाधिक भेद ज्ञान है, और स्वरूपनिमित्तक प्रत्यभिज्ञान है, क्योंकि ऐसा मानने पर व्यक्ति का भेद और जाति की कल्पना नहीं करके वर्ण-भेद मात्र की औपाधिकता से कल्पना की लघुता होती है। एव जो यह प्रत्यभिज्ञा है वही वर्णविषयक भेद-ज्ञान का बाधक ज्ञान है, ऐसा निश्चय होने पर अनेक उच्चारण करने वालो से उच्चारित एक ही होता हुआ यह गकार एक काल मे अनेक कैसे होगा कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक और निरनुनासिक भिन्न हैं, अर्थात् प्रत्यभिज्ञा के बल से भिन्नकालिक गकार के अभेद सिद्ध होने पर एक काल मे अनेक से उच्चारित मे भी उदात्तादि भेद से किसी प्रकार भी स्वरूप-भेद नहीं सिद्ध हो सकता है, इससे औपाधिक भेद उदात्तादि मे भी है स्वरूप-भेद नहीं। इस औपाधिक भेद का स्वीकारपूर्वक वायु आदि के सयोग रूप उपाधि मे अप्रत्यक्षता से तद्वत् विचित्रता का प्रत्यक्ष उदात्तादि मे प्रत्यक्ष आरोप नहीं हो सकता है, इस आशय से स्वमत भाष्यकार कहते है कि अथवा वर्णों मे यह उदात्तादि ज्ञान का भेद ध्वनिनिमित्तक है, वर्ण-भेदकृत नहीं है, इससे वर्ण मे भेदापत्ति आदि दोष नहीं है। अर्थात् उदात्तत्वादि ध्वनि के धर्म हैं, वह ध्वनि और वर्ण के अभेदाध्यास से वर्ण मे भासते हैं।

कः पुनरयं ध्वनिर्नाम ? यो दूरादाकर्णयतो वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथसवतरति, प्रत्यासीदतश्च पटुमृदुत्वादिभेदं वर्णेष्व्वासञ्जयति । तन्नियन्धनाश्चोदात्तादयो विशेषा न वर्णस्वरूपनिबन्धनाः । वर्णानां प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् । एवंच सति सालम्बना उदात्तादिप्रत्यया भविष्यन्ति, इतरथा

हि वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां निर्भेदत्वात्संयोगविभागकृता उदात्तादिविशेषाः कल्पेरन् । संयोगविभागानां चाप्रत्यक्षत्वात् तदाश्रया विशेषा वर्णेष्वध्यवसितुं शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना एवैत उदात्तादिप्रत्ययाः स्युः । अपिच नैवैतदभि-  
निवेष्टव्यम्—उदात्तादिभेदेन वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां भेदो भवेत्—इति । नह्यन्यस्य भेदेनान्यस्याभिद्यमानस्य भेदो भवितुमर्हति । नहि व्यक्तिभेदेन जाति भिन्नां मन्यन्ते । वर्णभ्यश्चार्थप्रतीतेः सम्भवात्स्फोटकल्पनानार्थिका । न कल्पयाम्यहं स्फोटं प्रत्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि, एकैकवर्णग्रहणाहितसंस्कारायां बुद्धौ भ्रूतिरिति प्रत्यवभासनादिति चेत् ? न । अस्या अपि बुद्धेर्वर्णविषयत्वात् । एकैकवर्णग्रहणोत्तरकाला हीयमेका बुद्धिर्गौरिति समस्तवर्णविषया नार्थान्तर-  
विषया । कथमेतदवगम्यते ? यतोऽस्यामपि बुद्धौ गकारादयो वर्णा अनुवर्तन्ते न तु दकारादयः । यदि ह्यस्या बुद्धेर्गकारादिभ्योऽर्थान्तरं स्फोटो विषयः स्यात्ततो दकारादय इव गकारादयोऽप्यस्या बुद्धेर्व्यावर्तेरन्, न तु तथास्ति, तस्मादिय-  
मेकबुद्धिर्वर्णविषयैव स्मृतिः ।

यका होती है कि ध्वनि नाम वाली कौन वस्तु है ? उत्तर है कि दूर से शब्द सुनने के कारण जो श्रोता वर्ण के विवेक को न समझ सकता है, उसके कर्णमार्ग में जो वर्ण विवेक के बिना पहले पहल दूर से प्रविष्ट होती है, और धीरे २ पास में जाने पर वर्णों में उस श्रोता के लिये पटुत्व ( स्फुटत्व ) मन्दत्वादि भेद का आरोप सम्बन्ध करती है वह ध्वनि है, और उस ध्वनिनिमित्तक वर्णों में उदात्तादि विशेष ( भेद ) हैं, स्वरूप-  
निमित्तक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक उच्चारण में वर्णों की प्रत्यभिज्ञा होती है प्रत्यभिज्ञा का विषय एक वर्ण प्रतीत होता है । इस प्रकार प्रत्यक्ष ध्वनि रूप वर्ण की उपाधि के स्वीकार करने पर उदात्तादि का ज्ञान सालम्बन ( विषयसहित ) होगा, अन्यथा वर्णों के प्रत्यभिज्ञात होने से उनमें भेद के अभाव होने के कारण संयोग-विभागकृत उदात्तादि विशेषो की पूर्व रीति से कल्पना करनी होगी, और उक्त संयोग-विभागो के अप्रत्यक्ष होने से उनके आश्रित रहने वाले विशेषो का वर्णों में अनुभव निश्चय नहीं किया जा सकता है, इससे इस प्रकार ये उदात्तादि के ज्ञान निरालम्बन ही हो जायेंगे । ऐसा आग्रह कभी नहीं करना चाहिये कि उदात्तादि के भेद से प्रत्यभिज्ञात वर्णों का भी भेद होगा, क्योंकि किसी अन्य घट मठादि के भेद से भेदरहित आकाश का भेद होने योग्य नहीं है, वैसे ही ध्वनि गत उदात्तादि भेद से वर्णों में भेद होने योग्य नहीं है, जैसे कि व्यक्ति के भेद से जाति को भिन्न नहीं मानते हैं, वैसे ही ध्वनि के भेद से वर्णों में भेद नहीं मानते हैं । वर्णों से ही अर्थ की प्रतीति के सम्भव होने से स्फोट की कल्पना अनर्थक है, यदि कोई कहे कि मैं स्फोट की कल्पना नहीं करता हूँ, किन्तु इस प्रत्यक्ष स्फोट का अनुभव स्वीकार करता हूँ, क्योंकि एक एक वर्णों के ग्रहण से अर्पित स्फोटविषयक संस्कार वाली बुद्धि में यह स्फोट स्वयं प्रत्यवभासित अनुभूत होता है । वहाँ कहा जाता है कि यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि यह बुद्धि भी वर्णों-

विषयक ही होती है, एक-एक वर्णों के ज्ञान के उत्तरकाल में होने वाली गौः, इस प्रकार की यह एक बुद्धि ( एक ज्ञान ) सम्पूर्णा वर्णविषयक होती है, स्फोट रूप अर्थान्तर विषयक नहीं होती है। यदि कहो कि यह कसे समझते हो कि यह बुद्धि वर्णविषयक है ? तो कहा जाता है कि जिससे इस बुद्धि में गकारादि वर्ण ही अनुवृत्त ( सम्बद्ध ) होते हैं, दकारादि नहीं, इससे इसको गकारादि वर्णविषयक समझते हैं। और यदि इस बुद्धि का विषय गकारादि से अतिरिक्त अर्थान्तर स्फोट होता तो, उस बुद्धि से जैसे दकारादि व्यावृत्त हो जाते हैं, वैसे ही इस बुद्धि से गकारादि भी व्यावृत्त हो जाते, 'गौ' इस बुद्धि में दकारादि से समान गकारादि भी नहीं भासते, परन्तु वैसे होता नहीं है, उससे यह एक बुद्धि वर्णविषयक ही स्मृति है।

नन्वनेकत्वाद्दर्शानां नैकबुद्धिविषयतोपपद्यत इत्युक्तम् । तत्प्रति ब्रूमः— सम्भवत्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वम्, पङ्क्तिर्वनं सेना दशशतं सहस्रमित्यादि-दर्शनात् । या तु गौरित्येकोऽय शब्द इति बुद्धिः, सा बहुष्वेव वर्णेष्वेकार्थव-च्छेदनिबन्धनौपचारिकी वनसेनादिबुद्धिवदेव । अत्राह—यदि वर्णा एव सामस्त्येनैकबुद्धिविषयतामापद्यमानाः पदं स्युस्ततो जारा राजा कपिः पिक इत्यादिषु पदविशेषप्रतिपत्तिर्न स्यात्, त एव हि वर्णा इतरत्र चेतत्र च प्रत्यवभासन्त—इति । अत्र वदामः । सत्यपि समस्तवर्णप्रत्यवमर्शे यथा क्रमा-नुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पङ्क्तिबुद्धिमारोहन्ति, एवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः पदबुद्धिमारोहन्ति, तत्र वर्णानामविशेषेऽपि क्रमविशेषकृता पदविशेषप्रति-पत्तिर्न विरुध्यते । वृद्धव्यवहारे चेमे वर्णाः क्रमाद्यनुगृहीता गृहीतार्थविशेषण-सम्बन्धाः सन्तः स्वव्यवहारेऽप्येकैकवर्णग्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमर्शिन्यां बुद्धौ तादृशा एव प्रत्यवभासमानास्तं तमर्थमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति वर्णवादिनो लघीयसी कल्पना । स्फोटवादिनस्तु दृष्टहानिरदृष्टकल्पना च । वर्णाश्चेमे क्रमेण गृह्यमाणाः स्फोटं व्यञ्जयन्ति, स स्फोटोऽर्थं व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात् । अथापि नाम प्रत्युच्चारणमन्येऽन्ये वर्णाः स्युः, तथापि प्रत्यभिज्ञालम्बनभावेन वर्णसामान्यानामवश्याभ्युपगन्तव्यत्वाद्या वर्णेष्वर्थप्रतिपादनप्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु संचारयितव्या । ततश्च नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम् ॥ २८ ॥

जो यह कहा था कि वर्णों के अनेक होने से एकपदादि बुद्धिविषयता वर्णों की नहीं हो सकती, वहाँ प्रत्युत्तर कहते हैं कि अनेक वर्णों को भी एकार्थबोधकत्व एक स्मृतिविषयत्वादि से एकबुद्धिविषयत्व का सम्भव है, जैसे कि पक्ति वन, सेना, दशशत, सहस्र, इत्यादि प्रयोगों में देखा जाता है। इसी प्रकार 'गौः' यह एक शब्द है। ऐसी जो बुद्धि होती है, वह बहुत वर्णों में ही एकार्थवच्छेदनिमित्तक ( एकार्थबोध-कन्वनिमित्तक ) औपचारिकी ( गौणी ) बुद्धि वन-सेनादि-बुद्धि तुल्य ही होती है। यहाँ

कोई कहते हैं कि यदि वरुण ही समस्त रूप से एकबुद्धि विषयता को प्राप्त होकर पद होते हैं, तो जारा-राजा, और कपिः-पिकः, इत्यादि में पद-भेद का ज्ञान नहीं होना चाहिये, क्योंकि तुल्य वे ही वरुण भिन्न भिन्न स्थानों में भासते हैं। यहाँ कहते हैं कि वे ही समस्त वरुणों के भिन्न-भिन्न स्थानों में ज्ञान होने पर भी जैसे क्रम का अनुरोध धारण करने वाली चीटियाँ पक्ति-बुद्धि का विषय होती हैं, इसी प्रकार क्रमानुरोधी ही वरुण पदबुद्धि में आरूढ होंगे। उससे वहाँ वरुणों के तुल्य होने पर भी क्रम के भेद से जन्य पदभेद की बुद्धि में विरोध नहीं होता है। यद्यपि वरुण विभु है, इससे उनमें क्रम नहीं है, तथापि उनके ज्ञान में क्रम होता है, इससे पदशक्ति के ग्राहक वृद्धों के व्यवहार में क्रमादि से अनुगृहीत ( ज्ञात ) हुए और तत्तत् विशेष अर्थ के साथ गृहीत ( ज्ञात ) शक्ति सम्बन्ध वाले ये वरुण, अपने व्यवहार में भी एक-एक वरुणों के ज्ञान के बाद समस्त वरुणों को विषय करने वाली स्मृतिरूप बुद्धि में उस क्रमिक स्वरूप से ही प्रत्यवभासित ( प्रकाशित ) हुए उस-उस अर्थ को निश्चित रूप से बोध करायेगे, इस रीति से वरुणों वादी की अति लघु कल्पना करनी पड़ती है, और स्फोटवादी की दृष्ट वरुणों की हानि होती है और अदृष्ट स्फोट की कल्पना करनी पड़ती है। इससे गौरव है, क्योंकि क्रम से गृहीत वरुण स्फोट को अभिव्यक्त करेगे, और वह व्यक्त स्फोट अर्थ को अभिव्यक्त करेगा, यह अति गुरु कल्पना होगी। अभ्युपगम वाद से कहते हैं कि यदि प्रत्युच्चारण प्रसिद्ध वर्ण अन्य-अन्य भी हों, तो भी प्रत्यभिज्ञा के अवलम्बन ( विषय ) रूप से वरुणों के सामान्यो ( जातियो ) को अवश्य मन्तव्य होने से वरुणों में अर्थ प्रतिपादन की जो प्रक्रिया ( रीति ) रची गई है, उस प्रक्रिया का वरुण-सामान्य में सञ्चार करना होगा; अर्थात् वरुणों की जाति में अर्थबोधकता माननी पड़ेगी, स्फोट की कोई जरूरत नहीं है। उससे नित्य शब्दों से देवादि व्यक्ति की उत्पत्ति होती है इस सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं है।

### अत एव च नित्यत्वम् ॥ २९ ॥

स्वतन्त्रस्य कर्तुरस्मरणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेन तस्य विरोधमाशङ्क्य 'अतः प्रभवात्' इति परिहृत्येदानीं तदेव वेदनित्यत्वं स्थितं द्रढयति—अतएव च नित्यत्वमिति। अतएव नियताकृतेर्देवादेर्जगतो वेदशब्दप्रभवत्वाद्देशब्दनित्यत्वमपि प्रत्येतन्नम्। तथाच मन्त्रवर्णः—'यज्ञेन वाचः पदवीथमायन्तामन्वविन्दन्तृषिषु प्रविष्टाम्' ( ऋ० सं० १०।७।३ ) इति स्थितामेव वाचमनुविज्ञां दर्शयति। वेदव्यासश्चैवमेव स्मरति—

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः।

लोभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥ इति ॥ २६ ॥

स्वतन्त्र वेदकर्ता के अस्मरण ( स्मरणाभाव ) आदि हेतुओं से वेद के नित्यत्व स्थिर होने पर, देवादि व्यक्तियों को उत्पत्ति मानने से उस नित्यत्व के विरोध की

आशंका करके फिर ( अतः प्रभवात् ), इससे शंका का परिहार करके, अब इस समय उस स्थिर वेद के नित्यत्व को ही दृढ करते हैं कि ( अतएव च नित्यत्वमिति ) इसी हेतु से अर्थात् नियत आकृतिवाले देवादि रूप जगत् की वेदशब्द से सृष्टि होने से वेद के शब्दों में नित्यत्व भी समझना चाहिये । वैसा ही मन्त्रवर्ण भी है कि ( पूर्व के सुकृत रूप यज्ञ द्वारा वेदरूप वाक् की प्राप्ति की योग्यता को प्रथम प्राप्त करने वाले याज्ञिक लोगो ने पीछे ऋषियो में प्रविष्ट उस वाक् को प्राप्त किया ) यह मन्त्र प्रथम से सिद्ध वेद को ही अनुविन्न ( उपलब्ध-प्राप्त ) दिखलाता है और भगवान् वेदव्यास भी ऐसे ही कहते हैं कि ( प्रथम ब्रह्मा जी की सम्मति युक्त महर्षियो ने युगान्त में अन्तर्हित ( लुप्त ) वेदों को तप से प्राप्त किया ) ॥ २९ ॥

### समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्च ॥३०॥

समान नाम रूपत्वात्-च-आवृत्तौ-अपि-अविरोध-दर्शनात्-स्मृते-च । ये आठ पद इस सूत्र में हैं । संक्षिप्तार्थ है कि ( सर्गप्रलयो पुनः प्राप्तिलक्षणायामावृत्तौ सत्यामपि शब्दार्थसम्बन्धानित्यत्वदोषात्मको विरोधो नास्ति समाननामरूपत्वात्, तथाविधश्रुतेर्दर्शनात् स्मृतेश्चेति ) सृष्टि और प्रलय की बार-बार प्राप्ति रूप आवृत्ति के होने पर भी शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में अनित्यत्व दोष रूप विरोध नहीं है, क्योंकि सब सर्ग में तुल्यनाम रूप वाले देवादि होते हैं, और इसका निश्चय वैसी श्रुति स्मृति के देखने से होता है ॥ ३० ॥

अथापि स्यात्-यदि पश्चादिव्यक्तिवद् देवादिव्यक्तयोऽपि सन्तत्यैवोत्पद्येर-  
त्रिभूधेरश्च ततोऽभिधानाभिधेयाभिधातृव्यवहाराविच्छेदात्सम्बन्धनित्यत्वेन  
विरोधः शब्दे परिह्रियेत । यदा तु खलु सकलं त्रैलोक्यं परित्यक्तनामरूपं  
निर्लेपं प्रलीयते प्रभवति चाभिनवमिति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति तदा कथम-  
विरोध-इति ।

फिर भी शंका होती है कि पूर्वोक्त व्यवस्था तब हो सकती, यदि आज पशुआदि ध्यक्ति के समान देवादि की व्यक्तियों के भी निरन्तर प्रवाह रूप से सर्ग प्रलय होते, नाम नामी और वक्ता के व्यवहार के अविच्छेद ( निरन्तर वर्तमानता ) से नामनामी के सम्बन्ध के नित्य होने से, शब्द में अनित्यत्व दोष परिहृत ( निवाहित ) हो जाता । परन्तु श्रुति स्मृति के वचन कहते हैं कि प्रलय में तीन लोकात्म यह सब जगत् नाम रूप को त्याग कर निःशेषरूप से प्रलीन नष्ट हो जाता है, और फिर नवीन उत्पन्न होता है, तो इस अबस्था में शब्दानित्यत्व विषयक अविरोध कैसे हो सकता है ?

तत्रेदमभिधीयते—समाननामरूपत्वादिति । तदापि संसारस्यानादित्वं  
तावद्भ्युपगन्तव्यम् । प्रतिपादयिष्यति चाचार्यः संसारस्यानादित्वम्—‘उप-  
पद्यते चाप्युपलभ्यते च’ ( ब्र० २।१।३६ ) इति । अनादौ च संसारे यथा



स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रभवश्रवणोऽपि पूर्वप्रबोधवदुक्तप्रबोधेऽपि व्यवहारात् कश्चिद्विरोधः । एवं कल्पान्तरप्रभवप्रलययोरपीति द्रष्टव्यम् । स्वापप्रबोधयोश्च प्रलयप्रभवौ श्रूयन्ते—‘यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति तदैवं वाक्सर्वैर्नामभिः सहाप्येति, चक्षुः सर्वै रूपैः सहाप्येति, श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सहाप्येति, मनः सर्वैर्ध्यानैः सहाप्येति, स सदा प्रतिबुध्यते यथाऽग्नेर्ज्वलतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणोभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः’ (कौ० ३।३) इति ।

इस शंका के होने पर यह कहा जाता है, कि प्रलय होने पर फिर सृष्टि-काल में पूर्वसर्ग-तुल्य नाम रूप होने में अविरोध है, क्योंकि, सर्ग-प्रलय की आवृत्ति होने पर भी, ससार की अनादिता (प्रवाह रूप से सदा वर्तमानता) अवश्य मन्तव्य है, और आचार्य भी ‘उपपद्यते च’ इत्यादि सूत्र से ससार की अनादिता का प्रतिपादन करेंगे । ससार के अनादि होने पर, जैसे सुषुप्ति और जागरण में प्रलय और सृष्टि के श्रवण होने पर भी पूर्व जागरण के समान आगे के जागरण में कोई व्यवहार का विरोध नहीं होता है, इसी प्रकार कल्पान्तर के सर्ग और प्रलय में भी व्यवहार के अविरोध को समझना चाहिये कि पूर्वकल्प के समान ही वेद और देवादि प्रकट होते हैं, इससे अनित्यत्व दोष वेद में नहीं है इत्यादि । सुषुप्ति और जागरण में प्रलय और सर्ग सुने जाते हैं कि (जब सोया हुआ प्राणी कोई स्वप्न नहीं देखता है उस समय वह इस परमात्मा-स्वरूप प्राण में एक हो जाता है । उस समय सब नामों के सहित वाक् (उस प्राण में लीन हो जाती है) नेत्र सब रूपों के सहित प्राण में लीन होता है । कान सब शब्दों के सहित लीन होता है और मन सब ध्यान (सकल्प-विकल्पादि) सहित लीन होता है । प्राणी जब जागता है तब ज्वलित अग्नि से जैसे चिनगारियाँ सब दिशाओं में गमन करती फैलती हैं, इसी प्रकार इस आत्मा से सब इन्द्रियाँ अपने-अपने आयतनों (गोलकस्थानों) के तरफ गमन करती हैं, प्रगट होती है, उन प्राणों से देव प्रगट होते हैं, देव सहित इन्द्रियों से विषयादि रूप लोक प्रगट होते हैं । इत्यादि ।

स्यादेतत् । स्वापे पुरुषान्तरव्यवहाराविच्छेदात्स्वयं च सुप्तप्रबुद्धस्य पूर्वप्रबोधव्यवहारानुसन्धानसम्भवादविरुद्धम् । महाप्रलये तु सर्वव्यवहारो-च्छेदाज्जन्मान्तरव्यवहारवच्च कल्पान्तरव्यवहारस्थानुसन्धानुसंशक्यत्वाद्द्वेष-म्यमिति । नैष दोषः । सत्यपि सर्वव्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये परमेश्वरानु-ग्रहादीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानोपपत्तेः । यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मान्तरव्यवहारमनुसन्धाना दृश्यन्त इति, तथापि न प्राकृतवदीश्वराणां भवितव्यम् । यथाहि प्राणित्वाविशेषेऽपि मनुष्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु ज्ञानैश्वर्यादिप्रतिबन्धः परेण परेण भूयान्भवन्द्दृश्यते, तथा मनुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भपर्यन्तेषु ज्ञानैश्वर्याद्यभिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवतीत्येतच्छ-

तिस्मृतिवादेष्वसकृदनुश्रूयमाणं न शक्यं नास्तीति वदितुम् । ततश्चातीतकल्पा-  
नुष्ठितप्रकृष्टज्ञानकर्मणामीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां वर्तमानकल्पादौ प्रादुर्भवतां  
परमेश्वरानुगृहीतानां सुप्तप्रतिबुद्धवत्कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानोपपत्तिः ।

फिर शंका होती है कि सुषुप्ति में प्रलय सुनने पर भी एक के सो जाने पर भी पुरुषान्तर के व्यवहार का उच्छेद अभाव नहीं होता है, और स्वयं पहले सो कर जागे हुए को पूर्व जाग्रत् के व्यवहारो के अनुसंधान ( स्मरणादि ) के सम्भव से विरुद्ध व्यवहारादि नहीं प्राप्त होते हैं, और महाप्रलय में तो सब व्यवहारो का नाश हो जाता है इससे जन्मान्तर के व्यवहारो के समान कल्पान्तर के व्यवहार का अनुसंधान करना अशक्य है, इससे महाप्रलय के लिये सुषुप्ति का दृष्टान्त विषमतायुक्त है। यहाँ कहा जाता है कि यह अनुसंधानाभावादिरूप दोष नहीं है, क्योंकि सब व्यवहार के उच्छेदवाले महाप्रलय के होने पर भी परमेश्वर के अनुग्रह से ईश्वररूप हिरण्यगर्भादि को कल्पान्तर के व्यवहारो का अनुसंधान की सिद्धि होती है। यद्यपि प्राकृत साधारण प्राणी जन्मान्तर के व्यवहारो का अनुसंधान करते हुए नहीं देखे जाते हैं, तथापि प्राकृत प्राणी के समान अनुसंधानादि रहित ईश्वर को नहीं होना चाहिये, न ऐसा हो सकते हैं। जैसे कि प्राणिता के तुल्य रहने पर भी मनुष्य से स्तम्ब ( तृण ) पर्यन्त में ज्ञान ऐश्वर्यादि का उत्तर अधिक प्रतिबन्ध ( निरोध-वियोग ) होता हुआ दीखता है। इसी प्रकार मनुष्यादि में ही हिरण्यगर्भादि पर्यन्त में ज्ञानैश्वर्यादि की अभिव्यक्ति ( प्रकटता प्राप्ति ) उत्तर-उत्तर अधिक होती है, यह बात श्रुति-स्मृति-वचनो में बार-बार सुनी जाती है, वह ऐश्वर्यादि नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, न श्रुति-स्मृति का निषेध कर सकते हैं, इससे व्यतीत कल्प में जिन्हो ने प्रकृष्ट ज्ञान ( उपासना ) और कर्मों का अनुष्ठान ( आचरण ) किया है, ऐसे ईश्वर रूप वर्तमान कल्प के आदि में प्रादुर्भूत ( प्रकट ) होनेवाले परमेश्वर से अनुगृहीत हिरण्यगर्भादि को सुषुप्ति से जागे हुए के समान कल्पान्तर के व्यवहारो का अनुसंधान की सिद्धि होती है।

तथा च श्रुतिः—

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ ( श्वे० ६।१८ ) इति ।

स्मरन्ति च शौनकादयः 'मधुच्छन्दःप्रभृतिभिर्ऋषिभिर्दाशतय्यो दृष्टाः' इति । प्रतिवेदं चैवमेव काण्डर्ष्यादयः स्मर्यन्ते । श्रुतिरप्यृषिज्ञानपूर्वकमेव मन्त्रेणानुष्ठानं दर्शयति—'यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाणुं वच्छति गर्तं वा प्रतिपद्यते' ( सर्वानु० परि० ) इत्युपक्रम्य 'तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्' इति । प्राणिनां च सुखप्राप्तये धर्मो विधीयते, दुःखपरिहाराय चाधर्मः प्रतिषिध्यते । दृष्टानुश्रि-

कसुखदुःखविषयौ च रागद्वेषौ भवतो न विलक्षणविषयावित्यतो धर्माधर्म-  
फलभूतोत्तरा सृष्टिर्निष्पद्यमाना पूर्वसृष्टिसदृश्येव निष्पद्यते । स्मृतिश्च  
भवति—

तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे ।

तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥

हिंसाहिंसे मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृत्तानृते ।

तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ इति ।

श्रुति कहती है कि 'जो परमेश्वर के कल्प के आदि काल में ब्रह्मा को उत्पन्न सिद्ध करता है और उस ब्रह्मा के लिए ज्ञानमय वेद का प्रदान करता है, आत्मरूप से बुद्धि में प्रकाशमान उस देवरूप शरण ( रक्षक ) को मुमुक्षु मैं प्राप्त होता हूँ' । शौनकादि स्मरण करते कहते हैं कि ( मधुच्छन्द आदि ऋषियो ने ( दशतथ्य ) दगमण्डलात्मक ऋग्वेद की ऋचाओ को देखा ) इसी प्रकार सब वेद में तत्तत् नाम से कारण और ऋषि आदि कहे जाते हैं, और श्रुति भी मन्त्रों के ऋषि के ज्ञानपूर्वक ही मन्त्र से अनुष्ठान दिखलाती है कि ( जिस मन्त्र के आर्षेय स्मर्ता ऋषि, छन्द, देव, विनियोजक ब्राह्मण का ज्ञान नहीं हो, उस मन्त्र से यदि यज्ञ कराता है वा अध्यापन कराता है, तो स्थावर योनि में प्राप्त होता है वा नरक में जाता है ) इस प्रकार आरम्भ करके कहा है कि ( ऋषि आदि के ज्ञान बिना उक्त अनर्थ होने के कारण इन ऋषि आदि को प्रत्येक मन्त्र में समझना चाहिये ) । और प्राणियों को सुख की प्राप्ति के लिए धर्म की विधि की जाती है, दुःख की निवृत्ति के लिए अधर्म का निषेध किया जाता है । एवं दृष्ट इस लोक के सुख-दुःखविषयक वा शास्त्र से अनुश्रुत परलोक के सुख-दुःख-विषयक राग और द्वेष होते हैं, इससे विलक्षण-विषयक राग-द्वेष नहीं होते हैं, अर्थात् सुख में द्वेष और दुःख में राग नहीं होते हैं, इससे धर्माधर्म के फलस्वरूप आगे होनेवाली सृष्टि पूर्व सृष्टि के सदृश सिद्ध ही होती है । इस अर्थ को कहने वाली स्मृति भी है कि ( उन प्राणियों में जो प्राणी जिन कर्मों को पूर्वसृष्टि में प्राप्त किये, वे बार-बार उत्पन्न होकर उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं, वे ही कर्म करते हैं ) । हिंस्र-अहिंस्र ( घातुक-अघातुक ) मृदु-क्रूर, धर्म-अधर्म, सत्य-मिथ्या, कर्मादि को उनकी वासना से युक्त होकर प्राप्त करते हैं, और उस वासना से ही पुण्य-पापादि पसन्द होते हैं ।'

प्रलीयमानमपि चेदं जगच्छक्त्यवशेषमेव प्रलीयते । शक्तिमूलमेव च प्रभवति इतरथाकस्मिकत्वप्रसङ्गात् । नचानेकाकाराः शक्तयः शक्त्याः कल्पयितुम् । ततश्च विच्छिद्य विच्छिद्याप्युद्भवतां भूरादिलोकप्रवाहाणां, देवतिर्यङ्गानुष्यलक्षणानां च प्राणिनिकायप्रवाहाणां वर्णाश्रमधर्मफलव्यवस्थानां चानादौ संसारे नियतत्वमिन्द्रियविषयसम्बन्धनियतत्ववत्प्रत्येतव्यम् । नहीन्द्रियविषयसम्बन्धादेर्व्यवहारस्य प्रतिसर्गमन्यथात्वं षष्ठेन्द्रियविषयकल्पं शक्यमुत्प्रेक्षितुम् । अतश्च सर्वकल्पानां तुल्यव्यवहारत्वात्कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धा-

नक्षमत्वाच्चेश्वराणां समाननामरूपा एव प्रतिसर्गं विशेषाः प्रादुर्भवन्ति । समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावपि महासर्गमहाप्रलयलक्षणायां जगतोऽभ्युपगम्यमानायां न कश्चिच्छब्दप्रामाण्यादिविरोधः । समाननामरूपतां च श्रुतिस्मृती दर्शयतः—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ (ऋ० सं० १०।१६०।३) इति ।

यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सूर्याचन्द्रमःप्रभृति जगत्कलुषं तथास्मिन्नपि कल्पे परमेश्वरोऽकल्पयदित्यर्थः । तथा 'अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवानां स्यामिति, स एवमग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निरवपत्' ( तै० ब्रा० ३।१।४।१ ) इति नक्षत्रेष्टिविधौ योऽग्निर्निरवपद्यस्मै वाग्नये निरवपत्तयोः समाननामरूपतां दर्शयतीत्येवंजातीयका श्रुतिरिहोदाहर्तव्या ।

प्रलय मे प्रलीन होता हुआ भी यह जगत् संस्कार-वासना नामक शक्ति की अवशेषता ( स्थिरता ) पूर्वक लीन होता है, फिर शक्तिमूलक ही सृष्टि-काल मे उत्पन्न होता है, अन्यथा शक्ति सहित लीन होने पर सृष्टि को आकस्मिकत्व ( निर्हेतुकत्व ) की प्राप्ति होगी और कल्पादि के भेद से भी शक्ति रूप प्रकृतियाँ अनेकाकार वाली कल्पना के योग्य नहीं है । उससे विच्छिन्न नष्ट हो-हो कर उत्पन्न होनेवाले भूरादिलोको के प्रवाह, और देव, तिर्यक्, मनुष्य रूप प्राणिसमूह के प्रवाह, और वर्ण-आश्रम के धर्म तथा फल की व्यवस्था, इन सब को अनादि ससार मे नियतत्व है, इससे जैसे इन्द्रिय-विषय-सम्बन्ध को नियतत्व होता है, वैसे ही इनके नियतत्व को समझना चाहिये । इन्द्रिय और विषय के सम्बन्धादि रूप व्यवहार का हर एक सर्ग मे बाह्यषष्ठेन्द्रियविषय के समान अन्यथात्व ( भेद ) की कल्पना करना शक्य ( योग्य ) नहीं है । इससे सब कल्पो के तुल्य व्यवहार होने से, और ईश्वरो को कल्पान्तर के व्यवहारो के अनुसंधान मे समर्थ होने से समान नाम-रूप वाले ही विशेष ( विभक्त कार्य ) सब सर्ग मे प्रकट होते हैं । समान नाम-रूप के होने से जगत् के महासर्ग-महाप्रलय रूप आवृत्ति को मानने पर भी शब्द के प्रामाण्यादि मे कोई विरोध नहीं होता है । सब सर्ग मे समान नाम-रूपता को श्रुति और स्मृति दिखलाती हैं ( जगत् का धारण करने वाले परमात्मा ने पूर्वसृष्टि के समान ही सूर्य, चन्द्रमा, दिव्यलोक, भूमि, अन्तरिक्ष और स्वर्ग को उत्पन्न सिद्ध किया ) पूर्वकल्प मे सूर्य-चन्द्रादि रूप जगत् जैसे क्लृप्त ( सिद्ध ) था वैसे ही परमेश्वर ने इस कल्प मे भी सिद्ध किया, यह श्रुति का अर्थ है । इसी प्रकार ( भावी दृष्टि से अग्नि नाम वाला यजमान ने कामना किया कि मैं देवताओ के अन्न को खाने वाला हूँ ) फिर उसने कृत्तिका नक्षत्र के अभिमानी अग्निदेव के लिए आठ कपालो ( मृत्पात्रो मे ) पकाया हुआ पुरोडाश ( हवि ) का अर्पण किया ) यह श्रुति नक्षत्र दृष्टि ( याग ) विधि मे जिस अग्नि ने पुरोडाश का अर्पण किया और

जिसके लिये किया, उन दोनों की समान नाम-रूपता दर्शाती है, इसी प्रकार के अन्य श्रुतियाँ भी यहाँ उदाहर्तव्य है ।

स्मृतिरपि—

ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः ।  
 शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥  
 यथर्तुःश्रुतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये ।  
 दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥  
 यथाभिमानिन्नेऽतीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह ।  
 देवा देवैरतीतैर्हि रूपैर्नामभिरेव च ॥ इत्येवञ्जातीयका द्रष्टव्याः ॥३०॥

स्मृति भी है कि ( पूर्वकल्प में ऋषियों के जो नाम रहते हैं, वेदविषयक जो दृष्टियाँ ज्ञान रहते हैं प्रलय रूप रात्रि के अन्त में अज परमात्मा उत्पन्न उन ऋषियों के वेही नाम और दृष्टि उनके लिए देता है ) जैसे ऋतुओं के पर्याय आवृत्ति में नानारूप वाले वेही-वेही ऋतुओं के लिए चिह्न देखे जाते हैं, वैसे ही युगादि में पदार्थ तुल्य होते हैं । और जो चक्षु आदि के अभिमानी देव व्यतीत हो गये, वह जैसे यहाँ अभी वर्तमान अभिमानी देव के साथ तुल्य नाम-रूप द्वारा थे, वैसे ही उन अतीतो के साथ तुल्यनाम-रूप से युक्त वर्तमान अभिमानी देव है ) इस प्रकार के अन्य स्मृति भी द्रष्टव्य हैं ॥ ३० ॥

**मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः ॥ ३१ ॥**

इह देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकार इति यत्प्रतिज्ञातं तत्पर्यावर्त्यते । देवादीनामनधिकारं जैमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात् ? मध्वादिष्वसम्भवात् । ब्रह्मविद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविशेषान्मध्वादिविद्यास्वप्यधिकारोऽभ्युपगम्येत । नचैवं सम्भवति । कथम् ? 'असौ वा आदित्यौ देवमधु' ( छां० ३।१।१ ) इत्यत्र मनुष्या आदित्यं मध्वध्यासेनोपासीरन्, देवादिषु ह्युपासकेष्वभ्युपगम्यमानेष्ववादित्यः कमन्यमादित्यमुपासीत । पुनश्चादित्यव्यपाश्रयाणि पञ्च रोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य 'वसवो रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्च पञ्च देवगणाः क्रमेण तत्तदमृतमुपजीवन्ती'त्युपदिश्य 'स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वाग्निनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा दृष्यति' इत्यादिना वस्वाद्युपजीव्यान्यमृतानि विजानतां वस्वादिमहिमप्राप्तिं दर्शयति । वस्वादयस्तु कातन्यान्वस्वादीनमृतोपजीविनो विजानीयुः कं वान्यं वस्वादिमहिमानं प्रेप्सेयुः । तथा 'अग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः' ( छां० ३।१।२ ), 'वायुर्वाव संवर्गः' ( छां० ४।३।१ ) 'आदित्यो ब्राह्मेत्यादेशः' ( छां० ३।१।१ ) इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधिकारः

सम्भवति । तथा 'इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः'  
( बृ० २।२।४ ) इत्यादिष्वप्यृषिसम्बन्धेषूपानेषु न तेषामेवर्षीणामधिकारः  
सम्भवति ॥ ३१ ॥

इस ब्रह्मविद्या में देवादि का भी अधिकार है, यह जो प्रथम प्रतिज्ञा की गई है, उसकी पर्यावृत्ति ( निवारण ) किया जाता है कि जैमिनि आचार्य देव-ऋषि का ज्ञान में अधिकार नहीं मानते हैं, क्योंकि मधु आदि विद्याओ में देव का अधिकार होना असम्भव है । एवं ब्रह्म विद्या में अधिकार मानने पर विद्यात्व की तुल्यता से मधु आदि विद्याओ में भी अधिकार माना जायगा, और ऐसा सम्भव है नहीं, क्योंकि ( अन्तरिक्ष में स्थित यह आदित्य देवताओं के मधु है ) जिससे देवताओ का मोद आनन्द के हेतु है, इससे आदित्य देव मधु कहा गया है, परन्तु इस आदित्य में मधु का अभ्यास करके मनुष्य उपासना कर सकते हैं, देव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवादि को भी उपासक मानने पर आदित्य देव किस अन्य आदित्य की उपासना करेंगे । फिर भी आदित्य के आश्रित आदित्य में रहने वाले रक्तशुक्लकृष्णादिरूप किरणमय अमृतों के वर्णन का आरम्भ करके, फिर वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, साध्य ये पंचदेवगण उन अमृतों को क्रम से भोगते हैं । इस प्रकार उपदेश करके कहा है कि ( वह जो कोई उपासक इस अमृत को इस प्रकार जानता है वह वसु में एक वसु रूप होकर अग्नि की प्रधानता द्वारा अग्नि मुख से अमृत को देखकर तृप्त होता है ) इत्यादि रीति से वसु आदि के उपभोग्य रूप अमृतों को जानने वालों को वसु आदि की महिमा की प्राप्ति रूप फलश्रुति दर्शाती है, वहाँ वसु आदि किन अन्य अमृतोपभोगी वसु आदि को जानेगें, या किन अन्य वसु आदि की महिमा को प्राप्त करना चाहेंगे ? इसी प्रकार आकाश रूप ब्रह्म के ( अग्नि पाद भाग, हैं, वायु पाद है, आदित्य पाद है, दिसापद है, वायु संवर्ग है, आदित्य ब्रह्म है यह उपदेश है ) इत्यादि रीति से विहित देवतात्माओं की उपासनाओं में उन देवतात्माओं का अधिकार सम्भव नहीं है । इसी प्रकार गले से ऊपर वर्ती इन्द्रियो को सप्तर्षि रूप से चिन्तन बताया गया है । वहाँ यह दक्षिण कर्ण गोतम है, वाम कर्ण भरद्वाज है, इससे ये दोनों गोतम भरद्वाज हैं, इत्यादि रीति से वर्णित ऋषि सम्बन्धी उपासनाओं में उन ऋषियों का अधिकार असम्भव है ॥ ३१ ॥

कुतश्च देवादीनामनधिकारः—

ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥

यदिदं ज्योतिर्मण्डलं शुस्थानमहोरात्राभ्यां बभ्रमज्जगदवभासयति तस्मिन्-  
न्नादित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते लोकप्रसिद्धेर्वाक्यशेषप्रसिद्धेश्च ।  
नच ज्योतिर्मण्डलस्य हृदयादिना विग्रहेण चेतनतयार्थत्वादिना वा योगोऽ-  
वगन्तुं शक्यते मृदादिवदचेतनत्वावगमात् । एतेनाग्न्यादयो व्याख्याताः ।

स्यादेतत्—मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां विग्रहवत्त्वाद्यवग-

मादयमदोष इति । नेत्युच्यते । नहि तावल्लोको नाम किञ्चित् स्वतन्त्रं प्रमाण-  
मस्ति, प्रत्यक्षादिभ्य एव ह्यविचारितविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्ध-चन्द्रर्थो लोकात्  
प्रसिध्यतीत्युच्यते, नचात्र प्रत्यक्षादीनामन्यतमं प्रमाणमस्ति । इतिहासपुराण-  
मपि पौरुषेयत्वात् प्रमाणान्तरमूलमाकाङ्क्षति । अर्थवादा अपि विधिनैकवाक्य-  
त्वात् स्तुत्यर्थाः सन्तो न पार्थगर्थ्येन देवादीनां विग्रहादिसद्भावे कारणभावं  
प्रतिपद्यन्ते । मन्त्रा अपि श्रुत्यादिविनियुक्ताः प्रयोगसमवायिनोऽभिधानार्था न  
कस्यचिदर्थस्य प्रमाणमित्याचक्षते । तस्माद्भावो देवादीनामधिकारस्य ॥३२॥

किस हेतु से देवादि का विद्या मे अनधिकार है ? इस पर कहते हैं—कि आकाश मे  
रहने वाले दिन रात्रि के भेद से भ्रमने वाले जो यह ज्योतिमण्डल ( ज्योतिसमूह )  
जगत को प्रकाशता है, उसी अर्थ मे आदित्य आदि देवता वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं ।  
अर्थात् ज्योतिमण्डल को ही आदित्य, सूर्य, चन्द्र, शुक्रादि शब्दो से कहा जाता है । वह  
लोक प्रसिद्धि और ( आदित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता ) सूर्य पूर्वदिशा मे उदय  
वाला पश्चिम मे अस्त होने वाला है, इत्यादि वाक्य शेष से समझा जाता है । उस  
ज्योतिर्मण्डल का, हृदयादि के साथ, विग्रह ( देह ) के साथ, चेतनता के साथ, वा  
आर्थित्वादि के साथ योग ( सम्बन्ध ) नहीं माना जा सकता है, न समझा जा सकता  
है । क्यों कि मृदादि के ससान उसमे अचेतना का अवगम ( ज्ञान ) होता है । इसी  
अचेतनता के ज्ञान से अग्निवायुभूमि भी ज्ञानानधिकारी व्याख्यात ( कथित ) हो गये,  
और अग्नि आदि शब्द अचेतन वाचित्वेन व्याख्यात हो गये । यदि कहा जाय कि ये दीख  
पडने वाले ज्योतिमण्डल अग्नि आदि अचेतन हो, परन्तु मन्त्र अर्थवादरूप ( 'चञ्जहस्तः  
पुरन्दर.' 'सोऽरोदीत्' ) इत्यादि वाक्यों से तथा अनेक इतिहास, पुराण और लोक से  
देवादि के शरीरित्व के ज्ञान होने से यह अचेतत्वमूलक अधिकार दोष नहीं । वहाँ कहा  
जाता है कि यह कहना नहीं बन सकता, क्योंकि लोक नामक तो कोई स्वतन्त्र प्रमाण  
नहीं है कि जिससे देव को शरीरित्वादि सिद्ध हो सके, किन्तु विशेष विचार रहित  
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रसिद्ध होता हुआ अर्थ, लोक से प्रसिद्ध है इस प्रकार कहा  
जाता है । देव सम्बन्धी शरीर भोगऐश्वर्यादिविषयक प्रत्यक्षादि मे से कोई भी  
प्रमाण नहीं है, और इतिहास पुराण भी पुरुष रचित होने से अपनी प्रमाणाता  
के लिये प्रमाणान्तर रूप मूल की आकांक्षा करते हैं । अर्थवाद भी विधि के साथ एक-  
वाक्यता पूर्वक स्तुत्यर्थक होता हुआ पृथक् अर्थ वाला होकर देवादि के शरीरादि  
की सत्ता मे कारणता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं । श्रुति लिंगादि रूप छ  
भ्रमणार्थो से कर्मों मे विनियुक्त ( सम्बद्ध ) मन्त्र भी कर्म सम्बन्धी अर्थ को कहने वाले  
झीहि आदि के समान पदार्थ स्मरण कराने द्वारा कर्म मे प्रत्यक्ष उपकारक हैं, किसी  
अर्थ के प्रमाण रूप नहीं हैं, इस प्रकार मीमांसक कहते हैं । उस विग्राहादि के अभाव  
से देवादि के अधिकार का अभाव है ॥ ३२ ॥

## भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥

‘तु’ शब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति । बादरायणस्त्वाचार्यो भावमधिकारस्य देवादीनामपि मन्यते । यद्यपि मध्वादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्रास्वसम्भवोऽधिकारस्य, तथाप्यस्ति हि शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां सम्भवः, अर्थित्वसामर्थ्याप्रतिषेधाद्यपेक्षत्वादधिकारस्य । न च क्वचिदसम्भव इत्येतावता यत्र सम्भवस्तत्राप्यधिकारोऽपोद्येत, मनुष्याणामपि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिष्वधिकारः सम्भवति । तत्र यो न्यायः सोऽत्रापि भविष्यति । ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति दर्शनं श्रौतं देवाद्यधिकारस्य सूचकम्—‘तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्’ ( बृ० १।४।१० ) इति, ‘ते होचुर्हन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्च लोकानाम्प्रोति सर्वाश्च कामान्’ इति, ‘इन्द्रो ह वै देवानामभिप्रवव्राज विरोचनोऽसुराणाम्’ ( छां० ८।७।२ ) इत्यादि च । स्मार्तमपि गन्धर्वयाज्ञवल्क्यसंवादादि ।

सूत्रगत ‘तु’ शब्द पूर्व पक्ष को व्यावृत्त करता है, कि पूर्व पक्ष समाप्त हो गया अब सिद्धान्त कहा जाता है कि बादरायण आचार्य तो देवादि के भी ज्ञानाधिकार का भाव मानते हैं, और कहते हैं कि देवता से व्यामिश्रित (समिलित) मधु आदि विद्या में यद्यपि देवादि के अधिकार का असम्भव है । तथापि शुद्ध ब्रह्म विद्या में उनके अधिकार का सम्भव है, क्योंकि शुद्ध विद्या में अर्थित्व सामर्थ्य और अप्रतिषेधादि की अपेक्षा अधिकार को रहती है, अर्थात् अर्थित्वादि से विद्या का अधिकार होता है । कही अधिकार का असम्भव भी है, इसी से जहाँ सम्भव है वहाँ अधिकार निवारित (निषिद्ध) नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणादि सब मनुष्यो को भी राजसूयादि सब कर्मों में अधिकार नहीं सम्भव होता है, वहाँ उन ब्राह्मणादिको में अधिकार के लिए जो न्याय ( उचित ) है, वह देवाधिकार के लिए भी होगा और ब्रह्मविद्या के प्रकरण में श्रौत दर्शन—श्रुति सम्बन्धी दृष्टि है कि (देवताओं में जिस जिस उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मा समझा वह तद्रूप ही हो गया, वैसे ही ऋषियो में और मनुष्यो में ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूप हुआ ) । वे देव परस्पर विचार कर बोले कि हम सब इस समय उस आत्मा का अन्वेषण करे कि जिस का अन्वेषण ( खोज ) करके सब लोक और सब काम को प्राप्त करता है । उसके बाद ( देवताओं का राजा इन्द्र और असुरों का राजा विरोचन विद्याप्रद प्रजापति के पास में गये ) इत्यादि वचन देवाधिकार का दर्शन ( लिंग ) रूप हैं । गन्धर्व और याज्ञवल्क्य के सम्वादादि रूप स्मृतियाँ भी इस अर्थ में प्रमाण हैं ।

यदप्युक्तं—ज्योतिषि भावाच्च—इति । अत्र ब्रूमः—ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाश्चेतनावन्तमैश्वर्याद्युपेत तं तं देवतात्मानं समर्पयन्ति, मन्त्रार्थवादादिषु तथा व्यवहारात् । अस्ति ह्यैश्वर्ययोगाद्देवतानां ज्योतिराद्यात्मभिश्चावस्थातुं यथेष्टं च तं तं विग्रहं प्रहीतुं सामर्थ्यम् । तथाहि



श्रूयते सुब्रह्मण्यार्थवादे—मेघातिथेर्मेघेति, 'मेघातिथि ह काण्वायनमिन्द्रो मेघो भूत्वा जहार' ( षड्विंश० ब्रा० १।१ ) इति । स्मर्यते च—'आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तीमुपजगाम ह' इति । मृदादिष्वपि चेतना अधिष्ठातारोऽभ्युपगम्यन्ते—'मृदब्रवीदापोऽब्रुवन्' इत्यादिदर्शनात् । ज्योतिरादेस्तु भूतघातारादित्यादिष्व-चेतनत्वमभ्युपगम्यते, चेतनास्त्वधिष्ठातारो देवतात्मानो मन्त्रार्थवादादिषु व्यवहारादित्युक्तम् । यदप्युक्तं—मन्त्रार्थवादयोरन्यार्थत्वान्न देवताविद्वादिप्रकाशनसामर्थ्यम्—इति । अत्र ब्रूमः—प्रत्ययाप्रत्ययौ हि सद्भावासद्भावयोः कारणं, नान्यार्थत्वमन्यार्थत्वं वा । तथाह्यन्यार्थमपि प्रस्थितः पथि पतितं तृणपर्णाद्य-स्तीत्येव प्रतिपद्यते । अत्राह—विषम उपन्यासः, तत्र हि तृणपर्णादिविषयं प्रत्यक्षं प्रवृत्तमस्ति येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते । अत्र पुनर्विध्युद्देशैकवाक्यभावेन स्तुत्यर्थेऽर्थवादे न पार्थगर्थेन वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः शक्याऽध्ववसानुम् । नहि महावाक्येऽर्थप्रत्यायकेऽवान्तरवाक्यस्य पृथक्प्रत्यायकत्वमस्ति । यथा 'न सुरां पिबेत्' इति नञ्बन्ति वाक्ये पदत्रयसम्बन्धात्सुरापानप्रतिषेध एवैकोऽर्थोऽव-गम्यते, न पुनः सुरां पिबेदिति पदद्वयसम्बन्धात्सुरापानविधिरपीति ।

जो यह कहा है कि 'ज्योतिषि भावाच्च' ज्योति मे देव शब्द का प्रयोग होता है, यहाँ कहते हैं कि देवता वाचक आदित्यादि शब्द ज्योति आदि विषयक होते भी चेतना वाले ऐश्वर्यादियुक्त तत्त्व देवतात्मा का बोध कराते हैं, क्योंकि मन्त्र अर्थवादादि मे उस चेतनत्व रूप से व्यवहार है ( कथन है ) और देवताओं को ऐश्वर्य के सम्बन्ध से ज्योति आदि रूप से स्थिति के लिये, तथा यथेष्ट तत्त्व शरीर को ग्रहण करने के लिये सामर्थ्य है । क्योंकि वैसा ही शरीरी रूप का व्यवहार सुब्रह्मण्य ( उदात्तगरास्थ ऋत्विक् ) के अर्थवाद मे सुना जाता है कि ( इन्द्र ने मेघ होकर करव के पुत्र मेघातिथि का हरण किया ) इससे उक्त अर्थवाद मे ( मेघातिथि का मेघ ) ऐसा सम्बोधन इन्द्र विषयक है । एवं स्मृति मे सुना जाता है कि ( आदित्य पुरुष हो कर कुन्ती के पास गया ) और मृदादि ( भूमि आदि ) मे भी चेतन अधिष्ठाता माने जाते हैं क्योंकि ( मृत्तिका बोली, जल बोला ) इत्यादि वचन देखा जाता है, इससे मृत्तिकादि के समान आदित्यादि को सर्वथा जड कहना नहीं बन सकता है, और आदित्यादि मे ज्योति आदि रूप भूतात्मक पदार्थ को तो अचेतनत्व माना ही जाता है, किन्तु मन्त्र अर्थवादादि मे चेतन रूप से व्यवहार से उन भूतात्माओं के अधिष्ठाता देवतात्मा चेतन हैं, यह कहा गया है । जो यह कहा था कि मन्त्र और अर्थवाद अन्य प्रयोजन के लिये हैं, इससे देवता के विग्रह ( शरीर ) आदि के प्रकाशन ( बोध कराने ) में उनका सामर्थ्य नहीं है । यहाँ कहते हैं कि पदार्थ के ज्ञान और अज्ञान पदार्थ की सत्ता असत्ता का कारण है, वचन के अन्यार्थत्व वा अनन्यार्थत्व किसी का कारण नहीं है, जैसे कि अन्य प्रयोजन के लिये चला हुआ मनुष्य भी मार्ग पतित तृणपर्णादि को 'है' ऐसा समझता

है, वैसे ही अन्य प्रयोजन के लिये उच्चारित मन्त्र अर्थवाद से प्रतीत होने वाले अर्थ हैं ऐसे समझे जायेंगे। यहाँ पूर्व पक्षी कहता है कि मन्त्रार्थादि का तृणपर्णादि रूप दृष्टान्त विषय है, क्योंकि दृष्टान्त में तो तृणपर्णादि विषयक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्त होता है कि जिससे तृणपर्णादि की सत्ता ज्ञात होती है, और यहाँ दार्ष्टान्तिक में तो विधि वाक्य के साथ एकवाक्यता रूप से स्तुत्यर्थक अर्थवाद में पृथक् अर्थ के प्रतिपादक रूप से सिद्ध वृत्तान्त भूतार्थ विग्रहादि विषयक वाक्य की प्रवृत्ति का निश्चय नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ( न सुरा पिवेत् ) मदिरा न पिये, इस न युक्त वाक्य में तीनों पद के सम्बन्ध से सुरापान का निषेध रूप एक ही अर्थ प्रतीत होता है, और 'न' रहित दो पद के सम्बन्ध से ( सुरा पिये ) इस प्रकार सुरागान की विधि भी नहीं प्रतीत होती है, वैसे अर्थवाद में स्तुत्यर्थ के बाद भूतार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती।

अत्रोच्यते—विषम उपन्यास'। युक्तं यत्सुरापानप्रतिषेधे पदान्वयस्यैकत्वा-  
दवान्तरवाक्यार्थस्याग्रहणम्, विध्युद्देशार्थवादयोस्त्वर्थवादस्थानि पदानि पृथ-  
गन्वयं वृत्तान्तविषयं प्रतिपद्यान्तरं कैमर्थ्यवशेन कामं विधेः स्तावक्तुं  
प्रतिपद्यन्ते। यथाहि—'वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः' इत्यत्र विध्युद्देशवर्तिनां  
वायव्यादिपदानां विधिना सम्बन्धः, नैवं 'वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन  
भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूति गमयति' इत्येषामर्थवादगतानां पदानाम्।  
नहि भवति वायुर्वा आलभेतेति क्षेपिष्ठा देवता वा आलभेतेत्यादि। वायुस्व-  
भावसङ्कोर्त्तनेन त्ववान्तरमन्वयं प्रतिपद्यैवंशिष्टदैवत्यमिदं कर्मेति विधिं स्तुवन्ति।  
तद्यत्र सोऽवान्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरो भवति तत्र तदनुवादेनार्थवादः  
प्रवर्तते। यत्र प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन। यत्र तु तदुभयं नास्ति तत्र किं  
प्रमाणान्तराभावाद् गुणवादः स्यादाहोस्वित् प्रमाणान्तराविरोधाद्विद्यमानार्थवाद-  
इति प्रतीतिशरणैविद्यमानवाद आश्रयणीयो न गुणवादः। एतेन मन्त्रो  
व्याख्यातः। अपिच विधिभिरेवेन्द्रादिदैवत्यानि हवींषि चोदयद्भिरपेक्षितमि-  
न्द्रादीनां स्वरूपम्, नहि स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्चेतस्यारोपयितुं शक्यन्ते। नच  
चेतस्यनारूढायै तस्यै तस्यै देवतायै हविः प्रदातु शक्यते। श्रावयति च—'यस्यै  
देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्तां ध्यायेद्वषट्करिष्यन्' (ऐ० ब्रा० ३। ८। १) इति। नच  
शब्दमात्रमर्थस्वरूप सम्भवति, शब्दार्थयोर्भेदाद्, तत्र यादृशं मन्त्रार्थवादयो-  
रिन्द्रादीनां स्वरूपमवगतं न तत्तादृशं शब्दप्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम्।  
इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण सम्भवन्मन्त्रार्थवादमूलत्वात् प्रभवति  
देवताविग्रहादि साधयितुम्। प्रत्यक्षादिमूलमपि सम्भवति। भवति ह्यस्माकम-  
प्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम्। तथाच व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षं  
व्यवहरन्तीति स्मर्यते। यस्तु ब्रूयादिदानान्तनानामिव पूर्वेषामपि ज्ञास्ति  
देवादिभिर्व्यवहर्तुं सामर्थ्यमिति, स जगद्वैचित्र्यं प्रतिषेधेत्। इदानीमिव च

नान्यदापि सार्वभौमः क्षत्रियोऽस्तीति ब्रूयात् । ततश्च राजसूयादिचोदनोपरुन्ध्यात् । इदानीमिव च कालान्तरेऽप्यव्यवस्थितप्रायान् वर्णाश्रमधर्मान् प्रतिजानीत, ततश्च व्यवस्थाविधायि शास्त्रमनर्थकं स्यात्, तस्माद्धर्मोत्कर्षवशाच्चिरन्तना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजहुरिति श्लिष्यते । अपिच स्मरन्ति— 'स्वाध्यायादिष्टद्वेतासंप्रयोगः' ( यो० सू० २।४४ ) इत्यादि । योगोऽप्यणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिफलः स्मर्यमाणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम् ।

यहाँ सिद्धान्ती कहते हैं कि अर्थवाद वाक्य का 'न सुरा पिबेत्' यह वाक्यरूप दृष्टान्त विषय है। क्योंकि एकवाक्यता दो प्रकार की होती है, एक तो पदैकवाक्यता होती है, दूसरी वाक्यैकवाक्यता। जहाँ एकवाक्यगत अनेक पद रहते हैं, उनका एक बार जो परस्पर अन्वय होता है, उसको पदैकवाक्यता कहते हैं, और जहाँ दो वाक्य अलग-अलग पदैकवाक्यता को प्राप्त होकर फिर दोनो एकवाक्यता को प्राप्त होते हैं उसको वाक्यैकवाक्यता कहते हैं। यहाँ ( सुरा न पिबेत् ) जो सुरापान का प्रतिषेध है, वह पदैकवाक्यता से पदो का सम्बन्ध एक है, इससे ( सुरा पिबेत् ) सुरा पिये इस प्रकार अवान्तर वाक्यार्थ ( मध्यगत भिन्न वाक्यार्थ ) का अग्रहण होना ही युक्त है। विधिवाक्य अर्थवाद में से जो अर्थवाद में स्थित पद हैं, वह भूतार्थ विषयक पृथक् सम्बन्ध को प्राप्त होकर किमर्थता के वश से अर्थात् इस वाक्य में फलादि के अश्रवणादि से ये स्तुति आदि वाक्य किसके लिए हैं, ऐसी आकाक्षा के वश से यथेष्ट विधि के स्तावकत्व को प्राप्त होते हैं। जैसे कि ( विभूति की इच्छावाला श्वेत पशु का वायु के लिये अर्पण करे ) इस स्थान में विधिवाक्य में स्थिर वायव्यादि पदों का विधि के साथ सम्बन्ध होता है, इस प्रकार अर्थवाद गत पदों का विधि के साथ अन्वय नहीं होता है। अर्थवाद है कि ( वायु निश्चय शीघ्रगामिनी देवता है, जो कोई उस वायु के अपने भाग द्वारा उसको तृप्त करता है, उसको वह वायु विभूति प्राप्त कराता है। यहाँ ऐसा सम्बन्ध नहीं होता है कि वायुरालभेत, वा क्षेपिष्ठा देवताः आलभे, इत्यादि। अर्थात् अर्थवाद को विधि के साथ पदैकवाक्यता नहीं होती है, किन्तु वायु के स्वभाव का सकीर्तन द्वारा अवान्तर अन्वय को प्राप्त होकर, इस प्रकार के श्रेष्ठ देववाला यह कर्म है, इससे श्रेष्ठ है इस प्रकार विधि की स्तुति अर्थवाद करते हैं। उन अर्थवादों में जहाँ वह अवान्तर वाक्यार्थ प्रमाणान्तर का विषय रहता है, तहाँ उस प्रमाणान्तर सिद्ध का अनुवाद द्वारा अर्थवाद प्रवृत्त होता है, जैसे कि ( अग्निर्हिमस्य भेषजम् ) अग्नि ठण्डी को निवृत्त करनेवाली है, यह वाक्य है, और जहाँ प्रमाणान्तर से विरुद्ध अर्थ रहता है वहाँ गुणवाद से अर्थवाद प्रवृत्त होता है, जैसे कि ( आदित्यो यूषः ) यज्ञस्तम्भ सूर्य है, यहाँ तेजस्वित्व गुणमात्र में तात्पर्य है। और जहाँ ये दोनो प्रकार नहीं हैं, वहाँ इन्द्र, वरुणादि के वर्णरूप अर्थवाद प्रमाणान्तर के अभाव से क्या गुणवाद होंगे, अथवा प्रमाणान्तर से अविरोधता के कारण

विद्यमानार्थवाद होगे। इस प्रकार विचार कर प्रतीतिरूप शरणवाले विचारशीलो को विद्यमानार्थवाद का आश्रयण करना चाहिये, गुणवाद का नहीं, इसी से मन्त्र भी व्याख्यात हो गये, अर्थात् मन्त्रार्थ में जहाँ प्रमाणान्तर से विरोधादि नहीं है, वहाँ मन्त्र भी विद्यमान अर्थ को कहनेवाले हैं इत्यादि। दूसरी बात है कि इन्द्रादि देव के अभाव मानने पर देवसम्बन्धी किसी कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इन्द्रादि देवसम्बन्धी हविषो के विधान करनेवाली विधियों को इन्द्रादि के स्वरूप अपेक्षित हैं, जिससे स्वरूप रहित इन्द्रादि देवचित्त में ध्यान धारण योग्य नहीं हो सकते हैं, और चित्त में आरूढ हुए बिना तत्तत् देवताओं के लिये हविष का प्रदान नहीं कर सकते। श्रुति सुनाती है कि (जिस देवता के लिए हविषूहीत हो वषट् करने से प्रथम उस देव का ध्यान करे। यदि कोई कहे कि विधि को अपेक्षित हो तो देव का स्वरूप माना जाय परन्तु विधि को देवस्वरूप की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि शब्दात्मक ही देव है। वहाँ कहा जाता है कि शब्दमात्र अर्थ का स्वरूप सम्भव नहीं है, क्योंकि शब्द और अर्थ का भेद है। इस प्रकार देवस्वरूप के अपेक्षित होने पर मन्त्र और अर्थवाद में इन्द्रादि का जैसा स्वरूप अवगत (ज्ञात) हुआ है, वह वैसा है, इसलिये शब्दप्रमाणवादी से प्रत्याख्यान के योग्य नहीं है। एव इतिहास पुराण भी मन्त्र और अर्थवाद मूलक होने से व्याख्यात मार्ग से प्रमाणरूप होते हुए देवादि के विग्रहादि को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं, और प्रत्यक्षमूलक भी देव शरीरादि की सिद्धि का सम्भव है। क्योंकि हमलोगों के अप्रत्यक्ष भी पदार्थ चिरन्तन-प्राचीनों को प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि स्मृति है कि व्यासादि देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे। जो कोई कहेगा कि वर्तमान मनुष्यों के समान पूर्व के लोगों को भी देवादि के साथ व्यवहार करने का सामर्थ्य नहीं था, वह जगत् की विचित्रता का भी निषेध करेगा। इस समय के समान अन्य काल में भी सार्वभौम (चक्रवर्ती) क्षत्रिय नहीं थे ऐसा भी वह कहेगा। तब तो राजसूयादि की विधि निराकृत हो जायगी। वह वर्तमान काल के समान कालान्तर में भी वर्णाश्रम धर्म को प्रायः अव्यवस्थित मानेगा, तब तो व्यवस्थाविधायक शास्त्र अनर्थक होगा। जिससे धर्मोत्कर्षवश (बल) से चिरन्तन लोग देवादि के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे यही मानना संगत है। महर्षि पतञ्जलि कहते हैं कि (स्वाध्याय वेदाऽध्ययन मन्त्र जप परायण होने से इष्टदेव का दर्शन सभाषणादि सम्बन्ध होता है) इत्यादि। अग्निमा, गरिमा आदि रूप ऐश्वर्य की प्राप्तिरूप फल वाला योग भी योगस्मृति में स्मृत है सो साहस (दृष्टता) मात्र से प्रत्याख्यान के योग्य नहीं है।

श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं प्रख्यापयति—

“पृथङ्मत्तेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुरोरे प्रवृत्ते।

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगोऽग्निमयं शरीरम् ॥” (श्वे० २।

१२ ) इति । ऋषीणामपि मन्त्रब्राह्मणदर्शिनां सामर्थ्येनास्मदीयेन सामर्थ्येनोपमातुं युक्तम् । तस्मात्समूलमितिहासपुराणम् । लोकप्रसिद्धिरपि न सति संभवे निरालम्बनाध्यवसातुं युक्ता, तस्मादुपपन्नो मन्त्रादिभ्यो देवादीनां विग्रहवस्वाद्यवगमः । ततश्चार्थित्वादिसम्भवादुपपन्नो देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामधिकारः । क्रममुक्तिदर्शनान्यप्येवमेवोपपद्यन्ते ॥ ३३ ॥

श्रुति भी योग की महिमा को प्रख्यात करती कहती है कि ( शरीर मे स्थिर जो पृथिवी आदि पाँच भूतो के भाग है, उन्हे धारणाओ से समुत्थित विजित होने पर, और अग्निमादि रूप योगगुण के प्रवृत्त प्राप्त होने पर, योगाग्निमय शरीर को प्राप्त योगी को रोग, जरा, मृत्यु नहीं प्राप्त होते हैं । योगयुक्त मन्त्र ब्राह्मण के द्रष्टा ऋषि के सामर्थ्य को अपने सामर्थ्य के तुल्य समझना युक्त नहीं है जिससे इतिहास, पुराण समूल हैं, इससे प्रमाण है । एव लोक प्रसिद्धि भी श्रुति आदि मूल के सम्भव हो सकने से निराश्रय के योग्य नहीं हैं । इससे मन्त्रादि द्वारा देवादि के भी शरीरित्वादि का ज्ञान सिद्ध है, और उस शरीरित्वादि से अर्थित्वादि के सम्भव होने से देवादि को भी ब्रह्मविद्या मे अधिकार है । इस प्रकार ब्रह्मविद्या मे देवादि का अधिकार होने ही पर क्रममुक्ति विषयक दर्शन ( उपासनादि के उपदेशात्मक श्रुतियों ) उपपन्न ( युक्त ) हो सकती हैं । अन्यथा देव को ज्ञान के अभाव से क्रममुक्ति नहीं सिद्ध हो सकेगी ॥ ३३ ॥

### अपशूद्राधिकरण ॥ ९ ॥

शूद्रोऽधिक्रियते वेदविद्यायामथवा नहि । अत्रैकवर्णिकदेवाद्या इव शूद्रोऽधिकारवान् । देवाः स्वयंभातवेदाः शूद्रोऽध्ययनवर्जनात् । नाधिकारी श्रुतौ स्मार्तौ त्वधिकारो न वार्यते ॥

शुगस्येत्यादि सूत्र मे शुक्-अस्य-तदनादरश्रवणात्-तदाद्रवणात्-सूच्यते-हि छ पद हैं । सक्षितार्थ है कि ( अस्य जानश्रुतेस्तस्य हसस्यानादरश्रवणात्-शुग् ( शोक ) उत्पन्ना तथा शुचा च रैक प्रति तस्य जानश्रुतेर्गमनात्तद्रैकेन शूद्रशब्देन सूच्यते नतु तस्य शूद्रत्वाच्छूद्र ऽच्यते- ) इस जानश्रुति को उस हंस के अनादर वचन के सुनने से शोक हुआ, और उस शोक ही से उसका रैक ऋषि के प्रति गमन हुआ सर्वज्ञ ऋषि उसे उस शोक को समझाने के लिए उसे शूद्रशब्द से कहा, शूद्र होने से नहीं । यहाँ छान्दोग्य श्रुति की ऐसी कथा है कि जानश्रुति राजा ने ऋषियों की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसे ज्ञानमार्ग मे प्रवृत्त कराने के लिये हंसरूप होकर रात्रि के समय उसके पास गये जहाँ वह छत पर सोया था । वहाँ उस हंस पक्ति मे अगले हस को पिछला हस ने कहा कि इस तेजस्वी राजा के पास मे नहीं जाओ, यह तेज से जला देगा । अगला हंस ने-कहा कि क्या इस समान मनुष्य को सयुग्मा, गाडीसहित रहनेवाला रैक के समान कहते हो, इस प्रकार अपनी समान मनुष्यता आदि को सुनकर उसको शोक हुआ, फिर सूत्र द्वारा रैक का पता लगाकर छ सौ गौ हार, रथ लेकर उपदेश लेने के लिये

गया । ऋषि ने उतने में सन्तुष्ट नहीं होने के कारण उपदेश नहीं दिया । राजा ने समझा कि ये विधुर हैं विवाह करना चाहते हैं, जिससे लडकी अर्पण किया और वे विद्या का उपदेश दिये इत्यादि । वेदविद्या में शूद्र अधिकारी होता है, अथवा नहीं ? ऐसा सदेह होने पर पूर्वपक्ष है कि तीन वर्ण से भिन्न देवादि जैसे अधिकारी होते हैं, वैसे ही शूद्र भी अधिकारी हैं । उत्तर पक्ष है कि देव स्वयं भासित वेदवाले होते हैं, इससे ज्ञान के अधिकारी होते हैं । किंतु वेदाध्ययन का शूद्र में अभाव रहता है अतः श्रुति में शूद्र अनधिकारी है, स्मृति में अधिकार का वारण नहीं किया जाता है ॥ १-२ ॥

### शुगस्य तदनादरवणात्तदाद्रश्रवणात्सूच्यते हि ॥ ३४ ॥

यथा मनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विद्यास्वधिकार उक्तस्तथैव द्विजात्यधिकारनियमापवादेन शूद्रस्याऽप्यधिकारः स्यादित्येतामाशङ्कां निवर्तयितुमिदमधिकरणमारभ्यते । तत्र शूद्रस्याऽप्यधिकारः स्यादिति तावत् प्राप्तम्, अर्थित्वसामर्थ्ययोः सम्भवात्, 'तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः' (तै० सं० ७।१।१६) इतिवत् 'शूद्रो विद्यायामनवक्लृप्तः' इति च निषेधाश्रवणात् । यच्च कर्मस्वनधिकारकारणं शूद्रस्यानभित्वं न तद्विद्यास्वधिकारस्यापवादकं लिङ्गम् । नह्याहवनीयादिरहितेन विद्या वेदितुं न शक्यते । भवति च लिङ्गं शूद्राधिकारभ्योपोद्वलकम्, संवर्गविद्यायां हि ज्ञानश्रुति पौत्रायणं शूद्रश्रुति शूद्रशब्देन परामृशति—'अहं हारेत्वा शूद्रं तवैव सह गोभिरस्तु' (छां० ४।२।३) इति । विदुरप्रभृतयश्च शूद्रयोनिप्रभवा अपि विशिष्टविज्ञानसम्पन्नाः स्मर्यन्ते । तस्मादधिक्रियते शूद्रो विद्यास्विति । एवं प्राप्ते ब्रूमः—न शूद्रस्याधिकारः, वेदाध्ययनाभावात् अधीतवेदो हि विदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधिक्रियते । न च शूद्रस्य वेदाध्ययनमस्ति, उपनयनपूर्वकत्वाद्देवाध्ययनस्य । उपनयनस्य च वर्णत्रयविषयत्वात् । यत्त्वर्थित्वं न तदसति सामर्थ्येऽधिकारकारणं भवति । सामर्थ्यमपि न लौकिकं केवलमधिकारकारणं भवति । शास्त्रीयेऽर्थे शास्त्रीयस्य सामर्थ्यस्योपेक्षितत्वात् । शास्त्रीयस्य च सामर्थ्यस्याध्ययननिराकरणेन निराकृतत्वात् । यच्चेदं—'शूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः'—इति तन्न्यायपूर्वकत्वाद्विद्यायामप्यनवक्लृप्तत्वं द्योतयति, न्यायस्य साधारणत्वात् । यत्पुनः संवर्गविद्यायां शूद्रशब्दश्रवणं लिङ्गं मन्यसे, न तल्लिङ्गं, न्यायाभावात् । न्यायोक्ते हि लिङ्गदर्शनं द्योतकं भवति, नचात्र न्यायोऽस्ति । कामं चायं शूद्रशब्दः संवर्गविद्यायामेवैकस्यां शूद्रमधिकुर्यात्, तद्विषयत्वात्, न सर्वासु विद्यासु, अर्थवादास्थत्वात् न क्वचिदप्ययं शूद्रमधिकर्तुमुत्सहते । शक्यते चायं शूद्रशब्दोऽधिकृतविषये योजयितुम् । कथमित्युच्यते—'कम्बर एनमेतत्सन्तं सयुग्मानमिव रैकमात्थ' छां० ४।१।३) इत्यस्माद्धसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्रुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य शुगुत्पेदे, तामृषी रैकः शूद्रशब्देनानेन सूचयांबभूवात्मनः परोक्ष-

ज्ञानताख्यापनायेति गम्यते, जातिशूद्रस्यानधिकारात् । कथं पुनः शूद्रशब्देन शुगुत्पन्ना सूच्यते इति ? उच्यते—तदाद्रवणात्, शुचमभिदुद्राव शुचा वाभिदुद्रुवे शुचा वा रैकमभिदुद्रावेति शूद्रः, अवयवार्थसम्भवान्द्रुद्व्यर्थस्य चासम्भवात् । दृश्यते चायमर्थोऽस्यामाख्यायिकायाम् ॥ ३४ ॥

जैसे मनुष्य मात्र को वेदमूलक विद्या मे अधिकार है, इस नियम को हटा कर देवादि का विद्या मे अधिकार कहा है । इसी प्रकार द्विजाति के अधिकार के नियम को हटा कर, शूद्र का भी विद्या मे अधिकार होना चाहिये, इस आशंका की निवृत्ति के लिये इस अधिकरण का आरम्भ किया जाता है । वहाँ शूद्र का भी अधिकार होना चाहिये इस प्रकार प्रथम प्राप्त होता है, क्योंकि शूद्र मे भी अर्थित्व और सामर्थ्य का सम्भव है । ( तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवकल्पः ) आहित अग्नि न होने के कारण शूद्र यज्ञ मे असमर्थ है । इस वचन के समान शूद्र विद्या मे असमर्थ है, इस प्रकार का निषेध नहीं सुना गया है । और जो शूद्र को वैदिक कर्म मे अनधिकार का कारण आहित अग्नि रहितता है, वह विद्या मे अधिकार का बाधक लिंग नहीं है । क्योंकि आहवनीय आदि अग्नि रहित से विद्या नहीं समझी जा सके, यह बात नहीं है । एव शूद्र का भी विद्या मे अधिकार को सिद्ध करने वाला लिंग ( हेतु ) है । क्योंकि संवर्ग विद्या मे श्रवणोच्छ्रुक पौत्रायण जानश्रुति को रैक ऋषि ने शूद्र शब्द से परामर्श ( सम्बोधन ) किया है कि ( हे शूद्र ! हार और गौओ के सहित इत्वा ( रथ ) तेरे ही रहे ) और शूद्रयोनि मे होने वाले विदुर आदि भी विशिष्ट विज्ञान सम्पन्न कहे जाते हैं, जिससे शूद्र भी विद्या मे अधिकारी होता है । ऐसा पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर कहते हैं कि शूद्र को वेद मूलक विद्या मे अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको वेद के अध्ययन का अभाव है । तथा जो वेद को विधिपूर्वक पढा हो, सामान्य रूप से वेदार्थ को जानता है, वही वेदार्थ के विचारादि मे अधिकारी होता है, और शूद्र को वेदो का अध्ययन नहीं है, क्योंकि वेद का अध्ययन उपनयन संस्कारपूर्वक होता है । उपनयन तीन वर्ण विषयक ही विहित है । जैसे—( वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्, शरदि वैश्यम् ) और जो अर्थित्व ( इच्छा ) है, वह भी सामर्थ्य के नहीं रहने पर अधिकार का कारण नहीं होता है । शास्त्र सम्बन्धी अर्थ मे केवल लौकिक सामर्थ्य भी अधिकार का कारण नहीं होता है, किन्तु शास्त्रीय अर्थ मे शास्त्रीय सामर्थ्य की अपेक्षा होती है और अध्ययन का निराकरण से ही शूद्र मे शास्त्रीय सामर्थ्य निराकृत हो गया है । जो यह शूद्र को यज्ञ मे असमर्थ कहा गया है, वह अनव्ययनादि न्यायपूर्वक होने से विद्या मे भी असमर्थत्व का द्योतन ( प्रकाश ) करता है, क्योंकि न्याय साधारण है, इससे यज्ञ शब्द वेदार्थ मात्र का बोधक है । और जो संवर्ग विद्या मे शूद्र शब्द का श्रवण को शूद्र का अधिकार मे लिंग मानते हो, सो न्याय के अभाव से लिंग नहीं है । क्योंकि न्याय से कथित अर्थ मे लिङ्ग का दर्शन उस अर्थ का द्योतक होता है,

यहाँ न्याय नहीं है। एवं लिंग को मानने पर निषादस्थपति न्याय से यह शूद्र शब्द एक सवर्ग विद्या में शूद्र का अधिकार को यथेष्ट सिद्ध कर सकेगा, क्योंकि सवर्ग विषयक वाक्य में शूद्र का प्रयोग है, सब विद्याओं में अधिकार को नहीं सिद्ध करेगा। और निषाद शब्द के विधि में श्रवण से वह अधिकार का साधक होता है, और यहाँ शूद्रपद के अर्थवाद में श्रवण से यह शूद्र पद किसी शूद्र को कही अधिकार में नियुक्त नहीं कर सकता। यह शूद्र शब्द विद्या में अधिकृत विषय में भी नियुक्त किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है ? इसका समाधान किया जाता है कि ( शकट युक्त रैक के तुल्य किस वराक अज्ञ इस मनुष्य के विषय में यह वचन कह रहे हो ) रैक का महान् तेज है, इसका कहाँ तेज है। इस प्रकार के हस के वचन के श्रवण से पौत्रायण जान श्रुति को शोक उत्पन्न हुआ, उस शोक को रैक ऋषि ने इस शूद्र शब्द से सूचन किया, सो अपनी परोक्षज्ञता को जनाने के लिए किया, यह यहाँ अवगत ( ज्ञात ) होता है। क्योंकि जन्मशूद्र का अनधिकार है, जिज्ञासा हुई कि शूद्र शब्द से प्रथम उत्पन्न शोक कैसे सूचित किया गया ? शूद्र शब्द में कोई शोकाथक वरुण तो नहीं है, न शूद्र शब्द शोकवाचक है, तब कहा जाता है कि तदाद्रवणात्, उस शोक को प्राप्त हुआ, वा शोक से प्राप्त ( प्रसित ) हुआ, वा शोक से रैक के पास में गया इस अर्थ में योगव्युत्पत्ति से शोक सूचित होता है रूढि वृत्ति से नहीं। क्योंकि अवयवार्थ का ही यहाँ सम्भव है, रूढि अर्थ का नहीं। यही अर्थ इस आख्यायिका में दीखता है ॥ ३४ ॥

### क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात् ॥ ३५ ॥

इतश्च न जातिशूद्रो जानश्रुतिः, यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन क्षत्रियत्व-  
मस्योत्तरत्र चैत्ररथेनाभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याहाराल्लिङ्गाद्गम्यते।  
उत्तरत्र हि संवर्गविद्यावाक्यशेषे चैत्ररथिरभिप्रतारी क्षत्रियः संकीर्त्यते—‘अथ  
ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि भूदेन परिविध्यमाणौ ब्रह्मचारी  
बिभिच्चे’ ( छां० ४।३।५ ) इति। चैत्ररथित्वं चाभिप्रतारिणः कापेययोगादव-  
गन्तव्यम्, कापेययोगो हि चित्ररथस्यावगतः ‘एतेन वै चैत्ररथं कापेया श्रया-  
जयन्’ ( ताण्ड्य ब्रा० २०।१२।५ ) इति। समानान्वयाच्च, प्रायेण समानान्वया  
याजका भवन्ति। ‘तस्माच्चैत्ररथिर्नामैकः क्षत्रपतिरजायत’ इति च क्षत्रपति-  
त्वावगमात् क्षत्रियत्वमस्यावगन्तव्यम्। तेन क्षत्रियेणाभिप्रतारिणा सह समानायां  
विद्यायां संकीर्तनं जानश्रुतेरपि क्षत्रियत्व सूचयति। समानानामेव हि प्रायेण  
समभिव्याहारा भवन्ति। क्षत्प्रेषणाद्यैश्वर्ययोगाच्च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगतिः।  
अतो न जातिशूद्रस्याधिकारः ॥ ३५ ॥

वक्ष्यमाण हेतु से भी जानश्रुति जन्म शूद्र नहीं था, जिस कारण से प्रकरण के देखने से और आगे चैत्ररथ अभिप्रतारी क्षत्रिय के साथ अध्ययन कथन रूप लिंग से



इस जान श्रुति को क्षत्रियत्व समझा जाता है। आगे संवर्ग विद्या के वाक्य शेष में चैत्ररथि अभिप्रतारी क्षत्रिय का कथन है कि ( शुनक के पुत्र कापेय और कक्षसेन के पुत्र अभिप्रतारी राजा को भोजन के लिये रसोई जब परोसी जाती थी, अर्थात् भडारी पारस करता था, तब एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा की याचना की)। अभिप्रतारी के चैत्ररथित्व को कापेय के सम्बन्ध से समझना चाहिये ( इस द्विरात्र के द्वारा कापेयो ने चैत्ररथ से यज्ञ करवाया ) इत्यादि से चित्ररथ को कापेय से सम्बन्ध ज्ञात होता है। और प्रायः समान वश वाले के समान वश वाले याजक ( ऋत्विक् पुरोहित ) होते हैं ( उस चित्ररथ से चैत्ररथि नाम वाला एक क्षत्रपति जन्मा ) इस कथन से क्षत्रपतित्व के ज्ञान से उसके क्षत्रियत्व को भी समझना चाहिये। उस क्षत्रिय अभिप्रतारी के साथ एक विद्या में जानश्रुति का भी संकीर्तन जानश्रुति के क्षत्रियत्व का सूचन करता है। क्योंकि समान पुरुष का ही प्रायः साथ कथन अध्ययन होते हैं। और रैक का अन्वेषण के लिये सारथी की प्रेरणा आदि ऐश्वर्य के सम्बन्ध से भी जानश्रुति के क्षत्रियत्व का ज्ञान होता है। इससे शूद्र जाति का विद्या में अधिकार नहीं है ॥ ३५ ॥

### संस्कारपरामर्शात्तद्भावाभिलाषाच्च ॥ ३६ ॥

इतश्च न शूद्रस्याधिकारः यद्विद्याप्रदेशेषूपनयनादयः संस्काराः परामृश्यन्ते-  
 'तं होपनिन्ये' श० ब्रा० ११।५।३।१३ ) 'अधीहि भगव इति होपससाद्' ( छां०  
 ७।१।१ ) 'ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सवे वक्ष्यतीति'  
 'ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः' ( प्र० १।१ ) इति च, 'तान्हा-  
 नुपनीयैव' ( छां० ५।१।१।७ ) इत्यपि प्रदर्शितैवोपनयनप्राप्तिर्भवति । शूद्रस्य च  
 संस्काराभावोऽभिलष्यते, 'शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिः' ( मनु० १०४ ) इत्येक-  
 जातित्वस्मरणान्त, 'न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति' ( मनु० १०।१२।६ )  
 इत्यादिभिश्च ॥ ३६ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी शूद्र का अधिकार नहीं है कि जिससे विद्या के उपदेशादि के स्थानों में उपनयनादि संस्कार परामृष्ट ( कथित-विचारित ) होते हैं कि ( आचार्य ने शिष्य का उपनयनात्मक संस्कार किया ) विद्यार्थी नारद भी मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सनत्कुमार जी के पास गये और कहा कि भगवन् ( उपदेश दो ) वेदाध्ययन परायण सगुण ब्रह्मनिष्ठ निर्गुण परब्रह्म के अन्वेषण में लगे हुये भरद्वाजादि छ ऋषि, यह पिप्पलाद हमारे जिज्ञासा के विषय सब वस्तु को कहेगे, ऐसा निश्चय करके वे लोग हाथ में लकड़ी लेते हुये भगवान् पिप्पलाद के शरण में प्राप्त हुए ) और ( उन औप-  
 मन्यवादि ब्राह्मणों को अश्वपति राजा ने उपनयन किये बिना विद्या पढाया ) यह कथन भी उपनयन की प्राप्ति दिखलाती ही है। और शूद्र के संस्कार का अभाव कहा जाता है कि ( शूद्र चौथा वर्ण एक जन्म वाला है ) इस प्रकार उपनयन संस्कार रहित होने से

शूद्र एक जाति कहा गया है। शूद्र में सस्कृत पुरुषों के कतव्य नित्य कर्मादि के अनाचरणा जन्य कुछ भी पाप नहीं लगता है, क्योंकि वह उन कर्मों के हेतु संस्कार के योग्य नहीं है, संस्कार योग्य को संस्कार के बिना और सस्कृत को उचित कर्म के त्याग से दोष के भागी होना पड़ता है इत्यादि ॥ ३६ ॥

### तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥

इतश्च न शूद्रस्याधिकारः। यत्सत्यवचनेन शूद्रत्वाभावे निर्धारिते जाबालं गौतमं उपनेतुमनुशासितुं च प्रवृत्ते 'नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधं सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगाः' ( छां० ४।४।५ ) इति श्रुतिलिङ्गात् ॥३७॥

इससे भी शूद्र का अधिकार नहीं है कि जिससे गोत्र के ज्ञान से रहित मृतपितृक जाबाल के सत्य वचन से शूद्रत्व के अभाव का निश्चय होने पर गौतम ऋषि उसके उपनयन और अभ्यापन के लिये प्रवृत्त हुए और बोले कि ( हे सोम्य ! इस प्रकार का सत्य ब्राह्मण से अन्य नहीं बोल सकता है, लकड़ी ला तेरा उपनयन करूँगा, तुम सत्य से नहीं गिरे हो ) इस श्रुति रूप लिंग से भी शूद्र का अनधिकार सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥

### श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात् स्मृतेश्च ॥ ३८ ॥

इतश्च न शूद्रस्याधिकारः यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधो भवति, वेदश्रवणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञानानुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्यते। श्रवणप्रतिषेधस्तावत् 'अथास्य वेदमुपशृण्वत्स्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रति- पूरणम्' इति, 'पद्यु ह वा एतच्छमशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्' इति च। अत एवाध्ययनप्रतिषेधः, यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतव्यं भवति स कथमश्रुतमधीयीत। भवति च वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद इति। अतएव चार्थादर्थज्ञानानुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति 'न शूद्राय मतिं दद्यात्' इति, 'द्विजातीनामध्ययनमिष्या दानम्' इति च। येषां पुनः पूर्वकृतसंस्कार- वशाद्विदुरधर्मद्वयाधप्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फलप्राप्तिः प्रतिषेद्धुं, ज्ञानस्यैकान्तिकफलत्वात्। 'श्रावयेच्चतुरो वर्णान्' इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्वर्ण्यस्याधिकारस्मरणात्। वेदपूर्वकस्तु नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम् ॥ ३८ ॥

इस अग्रिम हेतु से भी शूद्र का अधिकार नहीं है, जिससे इस शूद्र के श्रवण, अध्ययन तथा अर्थ तीनों का प्रतिषेध स्मृति से होता है, वेदश्रवण का प्रतिषेध, वेदाध्ययन का प्रतिषेध, और उसके अर्थ के ज्ञान का और अनुष्ठान का प्रतिषेध स्मृति से कहे जाते हैं। इससे इस शूद्र के ये तीनों निषिद्ध हैं। प्रथम श्रवण का प्रतिषेध है कि ( पढ़ने वालों के पास में जाकर प्रमाद से वेद को सुनने वाला इस शूद्र के दोनों कानों को सीसा और लाह से प्रायश्चित्त के लिए भर देना चाहिये ) और ( जो

यह शूद्र है, वह पद्यु-गमन कर्ता जगम इमशान है, जिससे शूद्र के समीप में वेद नहीं पढ़ना चाहिये इत्यादि। इस श्रवण का निषेध से ही अध्ययन का निषेध सिद्ध होता है, क्योंकि जिसके समीप में भी वेद अध्ययन योग्य नहीं है, वह श्रवण रहित वेद का अध्ययन कैसे करेगा ? और वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जिह्वा काटनी चाहिये। वेद को कण्ठस्थ करने पर शरीर का भेदन-छेदन करना चाहिये, ऐसी भी स्मृतियाँ हैं। इसी से शूद्र के लिए वेदार्थ का ज्ञान और अनुष्ठान अर्थात् निषिद्ध होते हैं, और शूद्र को मति ( वेदार्थ का ज्ञान ) नहीं देना चाहिये। वेद का अध्ययन, यज्ञ और दान द्विजों के धर्म है, इत्यादि भी स्मृति हैं। परन्तु विदुर, धर्मव्याध आदिको को पूर्व जन्म कृत श्रवणादि के सस्कारों से ज्ञान उत्पत्ति हुई या होती है, उनके ज्ञान के फल की प्राप्ति का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, ज्ञान का फल ऐकान्तिक अवश्यभावी अव्यभिचरित होता है। एव जिन शूद्रों को पूर्व के सस्कार से ज्ञान नहीं हो और वे साधक जिज्ञासु हों, उनके लिए ( चारों वर्णों को श्रवण कराना चाहिये ) इस महाभारत के कथनानुसार इतिहास पुराणादि के श्रवण द्वारा ज्ञान में चारों वर्णों के अधिकार का कथन है। वेदपूर्वक ज्ञान में शूद्रों का अधिकार नहीं है, यह स्थिर सिद्धान्त है।

( न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत् ।

ब्राह्मणं पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णता गतम् । म० भा० शा० १८८।१० )

सर्वएते शब्दा गुणसमुदायेषु वर्तन्ते ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यं शूद्रं ) यह महाभाष्य का वचन है। इस प्रकार पारमार्थिक रूप में अनादि कोई जाति शूद्र नहीं है और न हो सकता है। जानश्रुति प्रथम स्वभाव से शूद्र रहा हो उस आशय से रैक ऋषि ने शूद्र कहा था, और राज्य मिलने पर उसमें क्षात्र स्वभाव आया, और राज्य प्राप्ति के उत्तर काल में उस क्षत्रियत्व की अवगति से चैत्र ( चित्र अद्भुत ) रथ के साथ सम्बन्ध द्वारा लिङ्ग से व्यक्त हुआ वह स्वभाव समझा गया इत्यादि। किसी महात्मा ने भी कहा है कि—

सरल सुशुद्ध सुजान सिख, समझै गुरुवर बैन ।

सो पावै सुखसुयश अति, मुक्ती अविचल चैन ॥ ३८ ॥

### कम्पनाधिकरण ॥ १० ॥

जगत्कम्पनकृत्प्राणोऽशनिवायुरुत्तेश्वरः । अशनिर्भयहेतुत्वाद्वायुर्वा देहचालनात् ।

वेदनादमृतत्वोक्तेरीशोऽन्तर्यामिरूपतः । भयहेतुश्चालनन्तु सर्वशक्तियुतत्वतः ॥

कम्पन का हेतु रूप सुना गया प्राण, अशनि है, या वायु, अथवा ईश्वर। ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष है कि भय का हेतु होने से अशनि है, अथवा देह के चालन से वायु हो सकता है। सिद्धान्त है कि उसके ज्ञान से मुक्ति कही गई है, इससे ईश्वर है, और वही अन्तर्यामीरूप से भ्रम का हेतु है, एवं सर्वशक्ति युक्त होने से चालन भी करता है ॥ १-२ ॥

## कम्पनात् ॥ ३९ ॥

अवसितः प्राप्तिकोऽधिकारविचारः । प्रकृतामेवेदानीं वाक्यार्थविचारणां प्रवर्तयिष्यामः । 'यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्, महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति' ( का० २।६।२ ) इति । एतद्वाक्यम् 'एजृ कम्पने' इति धात्वर्थानुगमाल्लक्षितम् । अस्मिन् वाक्ये सर्वमिदं जगत्प्राणाश्रय स्पन्दते, महच्च किञ्चिद्भयकारणं वज्रशब्दितमुद्यतं, तद्विज्ञानाच्चामृतत्वप्राप्तिरिति श्रूयते । तत्र कोऽसौ प्राणः, किञ्च तद्भयानकं वज्रमित्यप्रतिपत्तेर्विचारे क्रियमाणे प्राप्तं तावत्प्रसिद्धेः पञ्चवृत्तिर्वायुः प्राण इति । प्रसिद्धेरेव चाशनिर्वज्रं स्यात् । वायोश्चेदं माहात्म्यं सङ्कीर्त्यते । कथम् ? सर्वमिदं जगत्पञ्चवृत्तौ वायौ प्राणशब्दिते प्रतिष्ठायैजति । वायुनिमित्तमेव च महद्भयानकं वज्रमुद्यम्यते । वायौ हि पर्जन्यभावेन विवर्तमाने विद्युत्स्तनयित्नुवृष्ट्यशयनयो विवर्तन्त इत्याचक्षते । वायुविज्ञानादेव चेदममृतत्वम् । तथाहि श्रुत्यन्तरम्—'वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद' इति । तस्माद्वायुरयमिह प्रतिपत्तव्य इति ।

प्रसंग से प्राप्त अधिकार का विचार अवसित ( समाप्त ) हो गया । अब इस समय ( प्रारम्भ ) ही वाक्यार्थ का विचार फिर प्रवृत्त करेगे, ( जो कुछ यह सब जगत है, वह प्राण के रहते ही चलता है, प्राण से ही निःसृत ( उत्पन्न ) हुआ । वह प्राण महाभय का हेतु उद्यत वज्र के समान है, जो इसको जानते है वे मुक्त हो जाते हैं । इस सूत्र से यह श्रुति वाक्य लक्षित ( बोधित ) हुआ है, 'एजृ कम्पने' एजृ धातु काँपने अर्थ मे, इस धातु के अर्थ का इस वाक्य मे अनुगम ( ज्ञान ) होता है, इससे यह वाक्य लक्षित हुआ है । इस वाक्य मे सुना जाता है कि यह सब जगत् प्रणाश्रित रह कर चेष्टा करता है । और कोई महान् भय का कारण वज्र शब्दार्थ उद्यत है । वहाँ वह प्राण क्या है, वह भयानक वज्र क्या है ? इसका निश्चय ज्ञान नहीं होने से विचार करने पर पाँच वृत्तिवाला प्राण प्रथम प्रसिद्धि से प्राप्त होता है । एवं प्रसिद्धि से ही अशनि वज्र होगा और वायु का ही यह माहात्म्य कहा जाता है, क्योंकि यह सब जगत् प्राणशब्दार्थ पञ्चवृत्ति वाले वायु मे स्थिति पाकर प्राण के रहते ही चलता है । वायु निमित्तक ही महा भयानक वज्र उद्यत होता है । वायु के ही मेघ विशेष रूप से विवर्तित ( परिणत ) होने पर विद्युत्, मेघ, वृष्टि और वज्र परिणत होते हैं, ऐसा कहते हैं । वायु के विज्ञान से ही यह अमृतत्व भी होता है । क्योंकि जैसी दूसरी श्रुति है कि ( वायु ही व्यष्टि है, वायु ही समष्टि है । जो इस प्रकार जानता है सो अपमृत्यु को जीत लेता है ) जिससे यहाँ प्राण शब्द का अर्थ वायु को ही समझना चाहिये ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—ब्रह्मैवेदमिह प्रतिपत्तव्यम् । कुतः ? पूर्वोत्तरालोचनात् ।

पूर्वोत्तरयोर्हि ग्रन्थभागयोर्ब्रह्मैव निर्दिश्यमानमुपलभासहे । इहैव कथमकस्मादन्तराले वायुं निर्दिश्यमानं प्रतिपद्येमहि । पूर्वत्र तावत्—

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ ( का० २।६।१ )

इति ब्रह्म निर्दिष्टं, तदेवेहापि संनिधानात् जगत्सर्वं प्राण एजतीति च लोकाश्रयत्वप्रत्यभिज्ञानान्निर्दिष्टमिति गम्यते । प्राणशब्दोऽप्ययं परमात्मन्येव प्रयुक्तः, 'प्राणस्य प्राणम्' ( बृ० ४।४।१८ ) इति दर्शनात् । एजयितृत्वमपीदं परमात्मन एवोपपद्यते न वायुमात्रस्य, तथाचोक्तम्—

न प्राणैः नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥ ( का० २।५।५ ) इति ।

उत्तरत्रापि—

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ( का० २।६।३ )

इति ब्रह्मैव निर्देह्यते न वायुः । सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधानात् । तदेवेहापि सन्निधानान्महद्भयं वज्रमुद्यतमिति च भयहेतुत्वप्रत्यभिज्ञानान्निर्दिष्टमिति गम्यते । वज्रमुद्यतमिति च भयहेत्वसामान्यान्यात्प्रयुक्तः, यथाहि वज्रमुद्यतं ममैव शिरसि निपतेद्यद्यहमस्य शासनं न कुर्यामित्यनेन भयेन जनो नियमेन राजादिशासने प्रवर्तते । एवमिदमग्निवायुसूर्यादिकं जगदस्मादेव ब्रह्मणो विभ्यन्नियमेन स्वव्यापारे प्रवर्तते इति भयानकं वज्रोपमितं ब्रह्म । तथाच ब्रह्मविषयं श्रुत्यन्तरम्—

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः ।

भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ( तै० ८।१। ) इति ।

अमृतत्वफलश्रवणादपि ब्रह्मैवेदमिति गम्यते । ब्रह्मज्ञानाद्ध्यमृतत्वप्राप्तिः, 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' ( श्वे० ६।११५ ) इति मन्त्रवर्णात् । यत्तु वायुविज्ञानात्कचिदमृतत्वमभिहितं तदापेक्षिकम् । तत्रैव प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मानमभिधाय 'अतोऽन्यदार्तम्' ( बृ० ३।४ ) इति वाय्वादेरातत्वाभिधानात् । प्रकरणादप्यत्र परमात्मनिश्चयः ।

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताश्च भव्याश्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥

( का० १।२।१४ ) इति परमात्मनः पृष्टत्वात् ॥ ३६ ॥

इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहते हैं कि यहाँ यह प्राणादि रूप ब्रह्म ही समझना चाहिये, क्योंकि पूर्वोत्तर के आलोचन से ऐसा ही सिद्ध होता है, पूर्वोत्तर के ग्रन्थ भाग में निर्दिश्यमान ( कथित ) ब्रह्म का ही ज्ञान करते हैं, तो फिर यहाँ ही

मध्य मे निहंतुक निर्दिश्यमान वायु को कैसे समझ सकते हैं। इस वाक्य से पूर्व में ( वही संसार का मूल शुक्र स्वयं प्रकाश शुद्ध है, वह ब्रह्म है, वही अमृत कहा जाता है, उसी के आश्रित सब लोक हैं, उसका उल्लघन कोई नहीं करता है ) इस प्रकार ब्रह्म निर्दिष्ट है। यहाँ भी 'प्राण के रहते सब जगत् चलता है' इस प्रकार आश्रयत्व की प्रत्यभिज्ञा से और सन्निधान से वही ब्रह्म निर्दिष्ट है, ऐसी प्रतीति होती है। एवं ( प्राणस्य प्राणम् ) प्राण का प्राण है। इस प्रकार के ब्रह्म विषयक प्रयोग देखने से यह प्राणशब्द भी परमात्मा में ही प्रयुक्त हुआ है, और यह जगत् कम्पन चेष्टा हेतुत्व भी परमात्मा को ही सिद्ध हो सकता है, वायुमात्र का नहीं। वैसे ही कहा भी है कि ( कोई मनुष्य प्राण वा अपान से नहीं जीता है, किन्तु जिसके आश्रित प्राण और अपान हैं, उस इतर से सब जीते हैं ) और आगे भी ( इसके भय से अग्नि तपती है, सूर्य तपता है, इन्द्र और वायु इसके भय से अपने कर्त्तव्य करते हैं, तथा पञ्चम मृत्यु भय से धावता है ) इस प्रकार ब्रह्म ही कहा जाता है वायु नहीं। क्योंकि वायु सहित जगत् का भय के हेतुत्व कहा गया है, वही भय हेतु सन्निधान से और भय हेतुत्व की प्रत्यभिज्ञा से यहाँ भी महद् भय उद्यत वज्ररूप निर्दिष्ट है ऐसी प्रतीति होती है। यह वज्रशब्द भी भय हेतुत्व समानता से ब्रह्म मे प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि यदि मैं इसका शासन नहीं करूँगा ( आज्ञा नहीं मानूँगा ) तो उद्यत वज्र मेरे ही शिर पर गिरेगा, इस प्रकार के भय से मनुष्य नियमपूर्वक राजा आदि के शासन मे रहता है और उसकी आज्ञा मानने मे प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार यह अग्नि, वायु, मूर्धादि रूप जगत् इस ब्रह्म से ही डरता हुआ नियमपूर्वक अपने व्यापार मे प्रवृत्त होता है इससे वज्र के समान ब्रह्म भयानक है। इसी प्रकार की ब्रह्मविषयक दूसरी श्रुति है कि ( इसके भय से वायु चलता है, सूर्य उगता है, अग्नि, इन्द्र अपने काम करते है। पञ्चम मृत्यु दौडती है ) और अमृतत्व फल के श्रवण से भी यह ब्रह्म ही है, यह समझा जाता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। उस ब्रह्मात्मा को जान करके ही अतिमृत्यु ( मोक्ष ) पाता है, मोक्ष के लिए अन्य मार्ग नहीं है। एव जो कही वायु के ज्ञान से अमृतत्व कहा गया है, वह आपेक्षिक है। क्योंकि वहाँ ही प्रकरणान्तर का करण पूर्वक परमात्मा का कथन करके ( इससे अन्य आर्त है ) इस प्रकार वायु आदि के आर्तत्व ( बिनाशित्व ) को कहा है। तथा प्रकरण से भी यहाँ परमात्मा का निश्चय होता है, क्योंकि ( धर्माधर्म इस कार्य कारण भूतभावी आदि से अन्य जिसको जानते हो उसे कहो ) इस प्रकार परमात्मा ही पूछा गया है ॥ ३९ ॥

### ज्योतिरधिकरण ॥ ११ ॥

परं ज्योतिस्तु सूर्यस्य मण्डल ब्रह्म वा भवेत् । समुत्थायोपसम्पद्युक्त्या स्याद्भिमण्डलम् ॥  
समुत्थानं त्वम्पदार्थशुद्धिर्वाक्यार्थबोधनम् । सम्पत्तिरुत्तमत्वोक्तेर्ब्रह्म स्यादक्षिसाक्षितः ॥

(शरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते) इस श्रुति मे पर ज्योति सूर्य का मण्डल है, वा ब्रह्म हो सकता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर पूर्वपक्ष है कि शरीर से निकल कर प्राप्ति के कथन से रविमण्डल हो सकता है। सिद्धान्त है कि यहाँ समुत्थान का अर्थ शरीर से निकलना नहीं है किन्तु त्व पद के अर्थ की शुद्धि विवेक ज्ञान समुत्थान है और देहाभिमान के त्यागपूर्वक वाक्यार्थ का ज्ञान ब्रह्मात्मा के एकत्व का अपरोक्ष ज्ञान ही सम्पत्ति प्राप्ति है, एव उत्तमत्व की उक्ति तथा अक्षि की साक्षिता से परं ज्योति ब्रह्म है।

### ज्योतिर्दर्शनात् ॥ ४० ॥

‘एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते’ (छां० ८।१२।३) इति श्रूयते। तत्र संशय्यते, किं ज्योतिः-शब्दं चक्षुर्विषयं तमोपहं तेजः किंवा परं ब्रह्मेति। किं तावत्प्राप्तम्। प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति। कुतः? तत्र ज्योतिःशब्दस्य रूढत्वात्। ‘ज्योतिश्चरणाभिधानात्’ (ब्र० सू० १।१।२४) इत्यत्र हि प्रकरणाज्ज्योतिःशब्दः स्वार्थ परित्यज्य ब्रह्मणि वर्तते। नचेह तद्वत्किञ्चित्स्वार्थपरित्यागो कारणं दृश्यते। तथाच नाडीखण्डे—‘अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेव रश्मिभिरूर्ध्वमाक्रमते’ (छां० ८।६।५) इति मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरभिहिता। तस्मात्प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति।

यह संप्रसाद (जीव) इस शरीर के अभिमान को छोड़कर अपने स्वरूप से अभिव्यक्त सिद्ध होकर पर ज्योति को प्राप्त करता है, यह सुना जाता है। वहाँ सशय होता है कि ज्योतिशब्द का अर्थ नेत्र का विषय तम को नाश करने वाला तेज है, अथवा परब्रह्म है? वहाँ प्रसिद्ध तेज ही ज्योतिशब्द का अर्थ है, यह पहले पहल प्राप्त होता है, क्योंकि उस तेज अर्थ में ज्योति रूढ है। (ज्योतिश्चरणाभिधानात्) यहाँ तो ब्रह्म के प्रकरणादि से ज्योतिःशब्द अपने अर्थ को त्यागकर ब्रह्म में वर्तता है। यहाँ उसके समान स्वार्थ के त्याग मे कोई कारण नहीं दीखता है और इसी प्रकार (ता वा एता हृदयस्य नाड्यः) इस नाडी खण्ड मे मुमुक्षु को आदित्य की प्राप्ति कही गई है कि (वारण काल मे बाह्य विज्ञान के लुप्त होने पर जब इस शरीर से ऊपर निकलता है, तो उस काल मे नाडियो मे मिले हुए इन सूर्य की किरणो द्वारा ऊपर जाता है सूर्य को प्राप्त करता है) इत्यादि जिससे प्रसिद्ध ही तेज ज्योति शब्द का अर्थ है।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्। कस्मात्? दर्शनात् तस्य हीह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनानुवृत्तिर्दृश्यते, ‘य आत्माऽपहतपाप्मा’ (छां० ८।७।१) इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकस्यात्मनः प्रकरणादावन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रतिज्ञानात् ‘एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि’ (छां० ८।६।३)

इति चानुसन्धानात् । 'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' ( छां० ८।१।२।१ ) इति चाशरीरतायै ज्योतिःसम्पत्तेरस्याभिधानात् ब्रह्मभावाच्चान्यत्रा-  
शरीरतानुपपत्तेः 'परं ज्योतिः' 'स उत्तमः पुरुषः' ( छां० ८।१।२।२ ) इति च  
विशेषणात् । यत्तुक्तं—मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरभिहिता—इति, नासावात्यन्तिको  
मोक्षो गत्युत्क्रान्तिसम्बन्धात् । नह्यात्यन्तिके मोक्षे गत्युत्क्रान्ती स्त इति  
वक्ष्यामः ॥ ४० ॥

ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म ही ज्योतिशब्द का अर्थ  
है, क्योंकि ब्रह्म ही का प्रकरण देखा जाता है । अर्थात् इस प्रकरण में ब्रह्म की ही  
वक्तव्य रूप से अनुवृत्ति देखी जाती है ( जो आत्मा पापरहित है ) इस प्रकार  
अपहृतपाप्मत्वादि गुणवाला आत्म का प्रकरण के आदि में अन्वेषणीय और  
विचारणीय रूप से प्रतिज्ञा की गई है उपदेश दिया गया है । एव ( इसीका मैं  
फिर तेरे लिए व्याख्यान करूंगा ) इस प्रकार पूर्व का अनुसंधान ( संबन्ध ) किया है ।  
( शरीर रहित को प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करते हैं ) इस रीति से कथित अशरीरता  
के लिये ज्योतिः सम्पत्ति के कथन से और ब्रह्मभाव के बिना अन्यत्र अशरीरता की  
असिद्धि से ( परं ज्योतिः स उत्तमः पुरुषः ) परमज्योति है, वह उत्तम पुरुष है ।  
इत्यादि विशेषण से ज्योतिशब्दार्थ ब्रह्म है एवं जो यह कहा है कि मुमुक्षु को  
आदित्य की प्राप्ति कही गई है, वह गति और उत्क्रमण के सम्बन्ध से आत्यन्तिक  
मोक्ष नहीं है, आत्यन्तिक मोक्ष में गति तथा उत्क्रान्ति नहीं होती है, वह  
आगे कहेंगे ॥ ४० ॥

### अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरण ॥ १२ ॥

वियद्वा ब्रह्म वाकाशो वै नामेति श्रुतं वियत् । अवकाशप्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वत ॥  
निर्बोद्धत्वं नियन्तृत्वं चेतन्यस्यैव तत्त्वतः । ब्रह्म स्याद्वाक्यशेषे च ब्रह्मात्मेत्यादिशब्दतः ॥

नाम रूप से आकाश में अर्थान्तरत्व भिन्नत्व के कथनादि से नाम रूप निर्वाहक  
आकाश नाम रूप से रहित ब्रह्म है, नाम रूपात्मक भूताकाश नहीं है । तो भी  
समान दृष्टि से सशय है कि वह आकाशवियत् ( भूताकाश ) है, अथवा ब्रह्म है ?  
पूर्वपक्ष है कि 'वै नाम' इत्यादि शब्द से सुना गया वियत् ही है । और अवकाश  
प्रदान द्वारा उसीको सर्वनिर्वाहकत्व है । सिद्धान्त है कि निर्वाहकत्व नियन्तृत्व रूप है,  
वह वस्तुतः चेतन का ही धर्म है । इससे नाम रूप का निर्वाहक ब्रह्म ही आकाश  
शब्द का अर्थ हो सकता है, तथा वाक्य शेष में ब्रह्म आत्मा इत्यादि शब्दों के श्रवण  
से भी आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है ।

### आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् ॥ ४१ ॥

'आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वाहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृतं स  
आत्मा' ( छां० ८।१।४।१ ) इति श्रूयते । तत्किमाकाशशब्दं परं ब्रह्म किंवा



प्रसिद्धमेव भूताकाशमिति विचारे भूतपरिग्रहो युक्तः, आकाशशब्दस्य तस्मिन् रूढत्वात्, नामरूपनिर्वहणस्य चावकाशदानद्वारेण तस्मिन् योजयितुं शक्यत्वात् । स्रष्टृत्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रह्मलिङ्गस्याश्रवणादिति ।

एवं प्राप्त इदमुच्यते—परमेव ब्रह्मेहाकाशशब्दं भवितुमर्हति, कस्मात् ? अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्, 'ते यदन्तरा तद्ब्रह्म' इति हि नामरूपाभ्यामर्थान्तरभूतमाकाशं व्यपदिशति । नच ब्रह्मणोऽन्यन्नारूपाभ्यामर्थान्तर सम्भवति, सर्वस्य विकारजातस्य नामरूपाभ्यामेव व्याकृतत्वात् । नामरूपयोरपि निर्वहणं निरङ्कुशं न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्भवति । 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छां० १६।३।२ ) इत्यादिब्रह्मकर्तृत्वश्रवणात् । ननु जीवस्यापि प्रत्यक्षं नामरूपविषयं निर्बोद्धत्वमस्ति । बाढमस्ति, अभेदस्त्वह विवक्षितः । नामरूपनिर्वहणाभिधानादेव च स्रष्टृत्वादि ब्रह्मलिङ्गमभिहितं भवति । 'तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा' ( छां० २।१।४ ) इति च ब्रह्मवादस्य लिङ्गानि । 'आकाशस्तल्लिङ्गात्' ( ब्र० १।१।२२ ) इत्यस्यैवायं प्रपञ्चः ।

( आकाश नाम रूप का धारण करने वाला है, और वे नाम रूप जिसके अन्तर्गत हैं, वह ब्रह्म है, अमृत है, आत्मा है ) यह सुना जाता है । वहाँ वह आकाश शब्द का वाच्य परब्रह्म है अथवा प्रसिद्ध ही भूताकाश आकाशशब्द का वाच्यार्थ है ? इस प्रकार विचार करने पर, आकाश शब्द के भूताकाश में रूढ होने से भूताकाश का आकाश शब्द से परिग्रहण करना युक्त ( उचित ) भासता है और अवकाशदान के द्वारा उस भूताकाश में ही नाम रूप निर्वहण ( धारण ) का सम्बन्ध करना हो सकता है । क्योंकि ( आकाशस्तल्लिङ्गात् ) इस सूत्र में वर्णित सृष्टिकर्तृत्वादि स्पष्ट ब्रह्मलिङ्ग का यहाँ अश्रवण है । ऐसा प्राप्त होने पर यह कहा जाता है कि परब्रह्म ही यहाँ आकाश शब्द के अर्थ होने योग्य है, क्योंकि भूताकाशादि से प्रकृत आकाश को अर्थान्तरत्वादि का कथन है, जिससे ( वे नाम रूप जिसके अन्तर्गत है वह ब्रह्म है ) इस प्रकार नाम रूप से अर्थान्तर स्वरूप आकाश को श्रुति कहती है, और ब्रह्म से अन्य वस्तु नाम रूप से अर्थान्तर ( भिन्न ) होने का सम्भव नहीं है । क्योंकि सब विकार समूह नामरूप से ही व्याकृत ( व्यक्त किये गये ) हैं । एव नाम रूप का निरङ्कुश ( स्वतन्त्र ) निर्वहण ( धारण नियन्त्रण ) भी ब्रह्म से अन्य में नहीं बन सकता है । क्योंकि ( इस जीवात्मा रूप से प्रविष्ट होकर नाम और रूप को मैं व्यक्त करूँगा ) इत्यादि वाक्यों में नामरूप अभिव्यक्तीकरण से ब्रह्म को कर्तृत्व सुना जाता है । शका होती है कि श्रुति के अनुसार जीव रूप से नामरूप की अभिव्यक्ति होती है, इससे जीव को भी प्रत्यक्ष नामरूप विषयक निर्वाहकता है । उत्तर है कि जीव की निर्वाहकता सत्य है, परन्तु यहाँ, 'अनेन जीव' इस जीव से, इस कथन में जीव को ब्रह्म से अभेद विवक्षित है, और ब्रह्माभिन्न रूप से जीव नामरूप का निर्वाहक है,

साक्षात् नहीं। तथा नामरूप के निर्वहण के कथन से ही सृष्टि कर्तृत्वादि ब्रह्मलिङ्ग कथित होता है। ( वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वह आत्मा है ) यह भी ब्रह्म वाचकत्व के लिङ्ग है, और वस्तुतः ( आकाशस्तस्त्रिङ्गात् ) इसी का यह विस्तार है।

### सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरण ॥ १३ ॥

स्याद्विज्ञानमयो जीवो ब्रह्म वा जीव इष्यते । आदिमध्यावसानेषु संसारप्रतिपादनात् ॥ विविच्य लोकसिद्धं जीव प्राणाद्युपाधितः । ब्रह्मत्वमन्यतोऽप्राप्तं बोध्यते ब्रह्म नेतरत् ॥

सुषुप्ति और मरणकाल में जीवात्मा से भेदपूर्वक विज्ञानात्मा का कथन से ( विज्ञानमय प्राणेषु ) यहाँ विज्ञानमयशब्द का अर्थ ब्रह्म है, जीव नहीं। ऐसे स्थल में सामान्यदृष्टि में सशय होता है कि विज्ञानमय जीव है वा ब्रह्म ? पूर्वपक्ष है कि आदि, मध्य और अन्त में उस वाक्य के अन्दर प्राण अवस्थादि रूप संसार का प्रतिपादन है, इससे विज्ञान शब्द का अर्थ संसारी जीव इष्ट है। सिद्धान्त है कि लोक से अत्यन्तसिद्ध जीव को प्राणादि उपाधि रूप संसार से विवेक द्वारा पृथक् करके उसकी ब्रह्मरूपता को श्रुति बोध कराती है, इससे लोकसिद्ध जीव का अनुवाद करके अन्य से अप्राप्त ब्रह्म का ही बोध कराती है अन्य का नहीं।

### सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥

व्यपदेशादित्यनुवर्तते । बृहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके 'कतम आत्मेति, योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः' ( बृ० ४।३।७ ) इत्युपक्रम्य भूयानात्मविषय प्रपञ्चः कृतः । तत्किं संसारिस्वरूपमात्रान्वाख्यानपरं वाक्य-मुतासंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमिति संशयः । किं तावत्प्राप्तम् ? संसारिस्वरूप-मात्रविषयमेवेति । कुतः उपक्रमोपसंहाराभ्याम् । उपक्रमे 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति शारीरलिङ्गात्, उपसंहारे च 'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बृ० ४।४।२२ ) इति तदपरित्यागात्, मध्येऽपि बुद्धान्ता-द्यवस्थोपन्यासेन तस्यैव प्रपञ्चनादिति ।

पूर्व सूत्र के 'व्यपदेशात्' इस पद की अनुवृत्ति होती है। बृहदारण्यक के षष्ठ प्रपाठक ( अध्याय ) में ( अहं बुद्धि के विषय में यह आत्मा कौन है, इस प्रकार जनक जी के प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य जी बोले कि जो यह प्राणों में विज्ञानमय है, हृदय के अन्दर ज्योति स्वरूप है, और वस्तुतः पुरुष 'पूर्ण' है, वह बुद्धि प्राणादि से भिन्न आत्मा है ) इस प्रकार आरम्भ करके आत्म विषयक विचार का बहुत विस्तार किया है। यहाँ सशय होता है कि वह विस्तृत वाक्य संसारी जीवात्मा के स्वरूप मात्र का उपदेशपरक है अथवा असंसारी स्वरूप का प्रतिपादनपरक ? विमर्श होता है कि पहले क्या प्राप्त होता है ? पूर्वपक्ष है कि संसारी स्वरूपमात्रविषयक ही

है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार से संसारी का स्वरूप ही भासता है। उपक्रम में ( जो यह विज्ञानमय प्राणो मे है ) इस प्रकार जो संसारी का चिह्न इन्द्रियादि है, उपसंहार में ( वही यह महान् अज आत्मा है, जो यह प्राणो मे विज्ञानमय है ) उस उक्त संसारिव के लिङ्ग का त्याग नहीं किया गया है और मध्य में भी बुद्धान्त आदि ( जाग्रदवस्था ) आदि अवस्थाओं के कथन से उस संसारी स्वरूप का ही प्रपञ्च किया है।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यं न शारीरमात्रान्वाख्यान-परम् । कस्मात् ? सुषुप्तावुत्क्रान्तौ च शारीराद्भेदेन परमेश्वरस्य व्यपदेशात् । सुषुप्तौ तावत् 'अयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम्' ( बृ० ४।३।२१ ) इति शारीराद्भेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्र पुरुषः शारीरः स्यात्तस्य वेदितृत्वात् बाह्याभ्यन्तरवेदनप्रमङ्गे सति तत्प्रतिषेधसंभवात् । प्राज्ञः परमेश्वरः सर्वज्ञत्वलक्षणया प्रज्ञया नित्यमवियोगात् । तथोत्क्रान्तावपि 'अयं शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वाकूढ उत्सर्जनं याति' ( बृ० ४।३।३५ ) इति जीवाद्भेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्रापि शारीरो जीवः स्याच्छरीरस्वामित्वात् । प्राज्ञस्तु स एव परमेश्वरः । तस्मात्सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन व्यपदेशात्परमेश्वर एवात्र विवक्षित इति गम्यते । यदुक्तम्—आद्यन्तमध्येषु शारीरलिङ्गात्तत्परत्वमस्य वाक्यस्य—इति । अत्र ब्रूमः । उपक्रमे तावत् 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति न संसारिस्वरूपं विवक्षितं, किं तर्हि ? अनूद्य संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्मणास्यैकतां विवक्षति, यतो 'ध्यायतीव लेलायतीव' इत्येवमाद्युत्तर-प्रन्थप्रवृत्तिः संसारिधर्मनिराकरणपरा लक्ष्यते । तथोपसंहारेऽपि यथोपक्रममेवोपसंहरति—'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति । योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु संसारी लक्ष्यते स वा एष महानज आत्मा परमेश्वर एवास्माभिः प्रतिपादित इत्यर्थः । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासात्संसारिस्वरूपविवक्षां मन्यते, स प्राचीमपि दिशं प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिशं प्रतिष्ठेत, यतो न बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेनावस्थावत्त्व संसारित्वं वा विवक्षितं, किं तर्ह्यवस्थाहितत्वमसंसारित्वं च विवक्षति । कथमेतदवगम्यते । यत् 'अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहि' इति पदे पदे पृच्छति, यच्च 'अनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुषः' ( बृ० ४।३।१४, १५ ) इति पदे पदे प्रतिवक्ति । 'अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति' ( बृ० ४।३।२२ ) इति च । तस्मादसंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेवैतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम् ।

ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि परमेश्वर का उपदेशपरक यह वाक्य है, जीव मात्र का कथनपरक नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति काल में और उत्क्रान्ति ( मरण ) काल में जीव से भेदपूर्वक परमेश्वर का कथन किया गया है । पहले सुषुप्ति में भेद का कथन है कि ( यह जीवात्मा रूप पुरुष सुषुप्ति में प्राज्ञात्मा परमात्मा के साथ एक रूप से

मिलकर बाहर वा अन्दर के किसी वस्तु को नहीं जानता है ) इस प्रकार जीव से भेदपूर्वक परमेश्वर का निर्देश श्रुति करती है । इस वाक्य में पुरुष जीव कहा गया है शरीर नहीं, क्योंकि उसी को ज्ञातृत्व हो सकता है, उसी को बाहर भीतर के ज्ञान का प्रसंग रहते, उसके प्रतिषेध का सम्भव है । प्राज्ञ परमेश्वर है, सर्वज्ञत्वरूप प्रज्ञा से उसको सदा अविद्योग ( संबन्ध ) रहता है । इसी प्रकार मरण काल में जीव से भेद पूर्वक परमेश्वर का कथन श्रुति करती है कि ( यह जीवात्मा प्रज्ञात्मा से अधिष्ठित होकर आर्त शब्द करता हुआ जाता है ) यहाँ भी शारीर जीव कहा गया है, क्योंकि वह शरीर का स्वामी है । प्राज्ञ तो वही परमेश्वर है । इस सुषुप्ति और उत्क्रान्ति में भेदपूर्वक निर्देश से परमेश्वर ही यहाँ विवक्षित है, यह यहाँ समझा जाता है । एव जो यह कहा है कि आदि अन्त और मध्य में जीव के लिङ्ग से जीवपरत्व इस वाक्य को है, यहाँ कहते हैं कि प्रथम उपक्रम में ( जो यह विज्ञानमय प्राण में है ) इस वाक्य में संसारी का स्वरूप नहीं विवक्षित है, तो क्या है कि संसारी के स्वरूप का अनुवाद करके उसका परब्रह्म के साथ एकता की विवक्षा करते हैं, जिससे बुद्धि के ध्यान काल में ध्याता के समान उसके संचलन-दीपन काल में गन्ता आदि के समान आत्मा होता है ) इत्यादि उत्तर ग्रन्थ की प्रवृत्ति संसारी धर्म के निराकरणपरक देखी जाती है । इसी प्रकार उपसंहार में भी उपक्रम के अनुसार ही उपसंहार श्रुति करती है कि ( वही यह विज्ञानमय महान् अज आत्मा है, जो प्राणों में विज्ञानमय है ) उसका अर्थ है कि जो यह विज्ञानमय प्राणों में संसारी दोखता है, वही महान् अज आत्मा परमेश्वर ही हम से प्रतिपादित किया गया है । और जो कोई मध्य में जाग्रदादि अवस्थाओं के कथन से संसारी स्वरूप की विवक्षा मानते हैं वे लोग पूर्व दिशा में भेजे गये पश्चिम दिशा में भी मानो जायेंगे । जिससे जाग्रदादि के कथन से अवस्थावत्त्व वा संसारित्व विवक्षित नहीं है, किन्तु है क्या कि अवस्थारहितत्व और असंसारित्व की विवक्षा करते हैं । यदि कहो कि यह कैसे समझा जाता है, तो कहते हैं कि जिससे ( इस विवेक के बाद मोक्ष के ही लिये कहिये, इस प्रकार जनक राजा पद २ ( वाक्य २ ) में पूछता है । और जिससे ( इस अवस्था धर्म से आत्मा अनन्वागत असृष्ट रहता है क्योंकि यह असग है ) इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी पद २ में उत्तर देते हैं, इससे समझा जाता है कि असंसारित्व की विवक्षा करते हैं । एव ( यह आत्मा पुरण्य-पाप से असृष्टः है, और उस सुषुप्ति काल में हृदय गत सब शोको से रहित जीव हो जाता है ) इससे भी असंसारी आत्मा कहा गया है । शोकादि मन के धर्म हैं आत्मा के नहीं, इससे असंसारी स्वरूप का प्रतिपादनपरक ही यह वाक्य है, ऐसा समझना चाहिये ।

**पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥**

इतश्चासंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेवैतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम् । यदस्मिन् वाक्ये पत्यादयः शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपराः संसारिस्वभावप्रति-

षेधनाश्च भवन्ति । 'सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः' इत्येवं-  
जातीयका असंसारिस्वभावप्रतिपादनपराः । 'स न साधुना कर्मणा भूयान्नो  
एवासाधुना कनीयान्' इत्येवंजातीयकाः संसारिस्वभावप्रतिषेधनाः । तस्माद्-  
संसारी परमेश्वर इहोक्त इत्यवगम्यते ॥ ४३ ॥

इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये  
प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥



इस वक्ष्यमाण हेतु से भी अससारी स्वरूप का प्रतिपादनपरक ही यह वाक्य है, ऐसा मानना चाहिये, जिससे इस वाक्य में पति आदि शब्द अससारी स्वरूप के प्रतिपादनपरक और ससारीस्वभाव के प्रतिषेधक हैं । यहाँ ( सब को स्ववश करने वाला स्वतन्त्र है, सबका नियन्ता है, सब का स्वामी है ) इस प्रकार के शब्द अससारी स्वभाव के प्रतिपादनपरक है । ( वह पुण्य कर्म से बड़ा नहीं होता है, न पाप कर्म से छोटा होता है ) इस प्रकार के शब्द ससारी स्वभाव के प्रतिषेधक हैं । इससे अससारी परमेश्वर यहाँ कहा गया है, यह समझा जाता है ॥ ४३ ॥



## प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः

[ अत्र प्रधानविषयत्वेन संदिह्यमानानामव्यक्ताजादिपदानां चिन्तनम् । ]

आनुमानिकाधिकरण ॥ १ ॥

महतः परमव्यक्तं प्रधानमथवा वपुः । प्रधानं सांख्यशास्त्रोक्ततत्त्वानां प्रत्यभिज्ञया ॥  
श्रुतार्थप्रत्यभिज्ञानात्परिशेषाच्च तद्वपुः । सूक्ष्मत्वात्कारणावस्थमव्यक्ताख्यां तदर्हति ॥

आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृ-

हीतेर्दर्शयति च ॥ १ ॥

ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणमुक्तम्—‘जन्माद्यस्य यतः’ ( ब्र०  
१।१।२ ) इति । तल्लक्षण प्रधानस्यापि समानमित्याशङ्क्य तदशब्दत्वेन निरा-  
कृतम्—‘ईक्षतेर्नाशब्दम्’ ( ब्र० १।१।५ ) इति । गतिसामान्य च वेदान्त-  
वाक्यानां ब्रह्मकारणवादं प्रति विद्यते न प्रधानकारणवादं प्रतीति प्रपञ्चित  
गतेन ग्रन्थेन । इदं त्विदानीमवशिष्टमाशङ्क्यते—यदुक्तं प्रधानस्याशब्दत्वं  
तदसिद्धं, कासुचिन्हाखासु प्रधानसमर्पणाभासानां शब्दानां श्रूयमाणत्वात् ।  
अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव महद्भिः परमर्षिभिः कपिलप्रभृतिभिः  
परिगृहीतमिति प्रसज्यते । तद्यावत्तेषां शब्दानामन्यपरत्वं न प्रतिपाद्यते ताव-  
त्सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रतिपादितमप्याकुलीभवेत्, अतस्तेषामन्य-  
परत्वं दर्शयितुं परः सन्दर्भः प्रवर्तते । आनुमानिकमप्यनुमाननिरूपितमपि  
प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुपलभ्यते । काठके हि पठ्यते—‘महतः परम-  
व्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः’ ( १।३।११ ) इति । तत्र य एव यन्नामानो यत्कमाश्च  
महदव्यक्तपुरुषाः स्मृतिसिद्धास्त एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते । तत्राव्यक्तमिति  
स्मृतिप्रसिद्धेः शब्दादिहीनत्वाच्च न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसम्भवात्  
स्मृतिप्रसिद्ध प्रधानमभिधीयतेऽतः तस्य शब्दवत्त्वादशब्दत्वमनुपपन्नम् । तदेव  
च जगतः कारण श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेत् ?

‘महतः परमव्यक्तम्’ इस वाक्य मे अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान है अथवा शरीर है,  
ऐसा सशय होने पर पूर्वपक्ष होता है कि सांख्यशास्त्र मे पठित महत्तत्त्व अव्यक्त पुरुष  
की प्रत्यभिज्ञा से अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान होगा । पूर्वश्रुत अर्थ की प्रत्यभिज्ञा से  
और विशेष मे अव्यक्त शरीर है, कारणावस्था मे प्रात शरीर भी सूक्ष्म होने से वह  
अव्यक्त नाम के योग्य होता है यह सिद्धान्त है ।

‘आनुमानिकम्-अपि-एकेषाम्-इति-चेत्-न-शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः-दर्शयति-च’, इस  
सूत्र मे नौ पद हैं । सक्षित अर्थ है कि ( महत् परमव्यक्तमित्याद्युक्तेः ) केषाञ्चिदेकेषा

शाखिनामानुमानिकमपि शब्दप्रतिपाद्यमुपलभ्यत इति चेन्न शरीरं यद्रूपके विन्यस्तं तस्यै-  
वाऽव्यक्तशब्देन गृहीतेस्तद्रूपकादिकं च दर्शयति श्रुतिरिति ) महत्तत्त्व से पर अव्यक्त  
है, इत्यादि कथन से अनुमान से कल्पित प्रधान भी श्रुति से प्रतिपादित समझा जाता  
है, कोई शाखा वाले उसका प्रतिपादन करते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि रूपक  
मे जो शरीर पढा है, उसी का यहाँ अव्यक्त शब्द से ग्रहण होता है, और वह रूपकादि  
श्रुति दिखलाती है।

ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके ( जन्माद्यस्य यत ) इससे ब्रह्म का लक्षण कहा  
गया है। वह लक्षण प्रधान का भी तुल्य है इस प्रकार आशका करके, अशब्दता  
वैदिक शब्दशून्यता से वह प्रधान निराकृत किया गया है कि ( ईक्षण के श्रवण से  
प्रधान कारण नहीं है ) और वेदान्त वाक्य का गतिसामान्य ब्रह्मकारणवाद के प्रति है,  
और प्रधान कारणवाद के प्रति गति सामान्य नहीं है, यह गत ग्रन्थ से विस्तारपूर्वक  
कहा गया है। इस समय यह फिर अवशिष्ट ( वाकी ) शंका की जाती है, ईक्षति  
अधिकरण का आक्षेप किया जाता है कि जो प्रधान को अशब्दत्व कहा है, वह असिद्ध  
है, क्योंकि किसी शाखाओ मे प्रधान के सम्यक् बोध करानेवाले कारणत्व समझानेवाले  
रूप से आभासित होते हुए शब्द सुने जाते हैं। इससे वेद सिद्ध ही प्रधान के कारणत्व  
का महान् कपिलादि परम ऋषियो ने ग्रहण किया है, ऐसी प्राप्ति होती है,  
इससे जब तक उन शब्द के प्रधान से अन्यार्थत्व का प्रतिपादन नहीं किया जाता है,  
तबतक सर्वज्ञ ब्रह्म जगत् का कारण है, यह प्रतिपादित भी ब्रह्मकारणत्व व्याकुल  
( व्यस्त-सन्दिग्ध ) सा होगा, अतः उन्हे अन्यपरत्व दर्शाने के लिये आगे का ग्रन्थ  
प्रवृत्त होता है ( आरम्भ किया जाता है ) कि, आनुमानिक ( कार्यलिङ्गक अनुमान  
से निरूपित साधित ) प्रधान भी एक शाखावाले के शब्द से कथित, प्रतिपादित,  
उपलब्ध ( प्रतीत ) होता है, इससे ब्रह्मकारणवाद के समान प्रधानकारणवाद भी वेद  
सम्मत है। कठ प्रोक्त उपनिषद् मे वाक्य पढा है कि ( महत् से पर अव्यक्त है, और  
अव्यक्त से पर ( श्रेष्ठ ) पुरुष है ) यहाँ जिस नामवाले, जिस क्रमवाले जो ही महत्-  
अव्यक्त और पुरुष साध्य स्मृति से सिद्ध हैं, वे ही यहाँ प्रत्यभिज्ञात होते हैं, उनकी यहाँ  
प्रत्यभिज्ञा होती है। यहाँ अव्यक्त इस शब्द से स्मृति मे प्रसिद्ध प्रधान कहा जाता है,  
क्योंकि उस अर्थ मे अव्यक्त शब्द की साख्य मे प्रसिद्धि है, और शब्दादि से रहित होने  
के कारण न व्यक्त है इससे अव्यक्त है ऐसी व्युत्पत्ति ( ज्ञान ) के सम्भव होने से अव्यक्त  
कहना ठीक है। इससे प्रधान को वैदिक अव्यक्त शब्द का अर्थ होने से उसको  
अशब्दत्व अयुक्त असिद्ध है, इससे अशब्द कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार प्रधान  
के अशब्द के असिद्ध होने पर ( अजामेकाम् श्वे० ४।२। हेतुः प्रकृतिरुच्यते । भ० गी०  
१३। २० ) इत्यादि श्रुति स्मृति, अनुमान और प्रसिद्धि से वह अव्यक्त नामक प्रधान  
ही जगत् का उपादान कारण है।

नैतदेवम् । न ह्येतत्काठकं वाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोर्महदव्यक्तयोरस्तित्वपरम् ।

न ह्यत्र यादृशं स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानं तादृशं प्रत्यभिज्ञायते, शब्दमात्रं ह्यत्राव्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते । स च शब्दो न व्यक्तमव्यक्तमिति यौगिकत्वादन्यस्मिन्नपि सूक्ष्मे सुदुर्लभ्ये च प्रयुज्यते, न चायं कस्मिंश्चिद्द्रवः । या तु प्रधानवादिनां रूढिः सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वेदार्थनिरूपणे कारणभावं प्रतिपद्यते । नच क्रममात्रसामान्यात्समानार्थप्रतिपत्तिर्भवत्यसति तद्रूपप्रत्यभिज्ञाने, न ह्यश्वस्थाने गां पश्यन्नश्वोऽयमित्यमूढोऽध्यवस्यति । प्रकरणनिरूपणायां चात्र न परपरिकल्पितं प्रधानं प्रतीयते, शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः । शरीरं ह्यत्र रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन परिगृह्यते । कुतः ? प्रकरणात्परिशेषाच्च । तथाह्यनन्तरातीतो ग्रन्थ आत्मशरीरादीनां रथिरथादिरूपककल्पि दर्शयति—

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्त्याहुर्मनीषिणः ॥ ( का० १।३ ३,४ ) इति । तैश्चेन्द्रियादिभिरसंयतैः संसारमधिगच्छति । संयतैस्त्वध्वः पारं तद्विष्णोः परमं पदमाप्नोतीति दर्शयित्वा, किं तदध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाङ्क्षायां तेभ्य एव प्रकृतेभ्यः इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानमध्वनः पारं विष्णोः परमं पदं दर्शयति—

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषात् परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

( का० १। ३।१०, ११ ) इति । तत्र य एवेन्द्रियादयः पूर्वस्यां रथरूपककल्पनायामश्वादिभावेन प्रकृतास्त एवेह परिगृह्यन्ते प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियापरिहाराय । तत्रेन्द्रियमनोबुद्ध्यस्तावत्पूर्वत्रेह च समानशब्दा एव, अर्थास्तु, ये शब्दादयो विषया इन्द्रियहयगोचरत्वेन निर्दिष्टाः तेषां चेन्द्रियेभ्यः परत्वम्, 'इन्द्रियाणां ग्रहत्वं, विषयाणामतिग्रहत्वम्' ( बृ० ३।२ ) इति श्रुतिप्रसिद्धेः । विषयेभ्यश्च मनसः परत्व, मनोमूलत्वाद्विषयेन्द्रियव्यवहारस्य । मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धि ह्यारुह्य भोग्यजातं भोक्तारमुपसर्पति । बुद्धेरात्मा महान् परो यः स 'आत्मानं रथिनं विद्धि' इति रथित्वेनोपक्षिप्तः । कुतः ? आत्मशब्दात् भोक्तुश्च भोगोपकरणात्परत्वोपपत्तेः । महत्त्वं चास्य स्वामित्वादुपपन्नम् ।

इस प्रकार यदि कोई कहे तो कहा जाता है कि यह प्रधान को वैदिक शब्द वाच्यत्व नहीं है, क्योंकि यह कठ श्रुति का वाक्य स्मृति प्रसिद्ध महत् और अव्यक्त



के अस्तित्व ( सत्ता ) परक ( बोधक ) नहीं है, जिसे स्वतन्त्र कारणरूप तीन गुण-वाला जैसा प्रधान साध्य स्मृति में प्रसिद्ध है, वैसा प्रधान यहाँ प्रत्यभिज्ञात ( स्मृत ) नहीं होता है। यहाँ श्रुति में अव्यक्त इस शब्द मात्र की प्रत्यभिज्ञा होती है अर्थ की नहीं। वह अव्यक्त शब्द तो न व्यक्त होने से अव्यक्त कहा जाता है। इस प्रकार यौगिक होने से प्रधान से अन्य भी सूक्ष्म दुर्ज्ञेय अर्थ में प्रयुक्त होता है, इससे यह अव्यक्त शब्द किसी अर्थ में रूढ नहीं है। और जो प्रधान वादी रूढि है, वह उनकी ही पारिभाषिकी ( सकेत जन्य ) होने से वेदार्थ के निरूपण में कारणता को नहीं प्राप्त हो सकती है। पदार्थ के स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा के बिना क्रममात्र की तुल्यता से तुल्यार्थ का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि अश्व के स्थान में गौ को देखता हुआ मोह-भ्रान्ति-रहित मनुष्य यह अश्व है ऐसा निश्चय नहीं करता है। प्रकरण को देखते विचारने पर यहाँ अन्य से परिकल्पित प्रधान नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जो शरीर रूपक ( रथ सादृश्य ) रूप से विन्यस्त ( कथित ) हुआ है उसी का यहाँ अव्यक्त शब्द से गृहीति ( ज्ञान ) होता है। शरीर ही यहाँ रथ रूपक रूप से विन्यस्त है, वही अव्यक्त शब्द से ज्ञात होता है, और इस ज्ञान में प्रकरण और परिशेष हेतु है। एवं इस ज्ञान के अनुकूल ही अनन्तर अतीत ग्रन्थ भी आत्मा और शरीरादि को रथी रथ आदि रूपक ( सादृश्य ) की कल्पना ( कल्पना ) को दिखलाता है—

( जीवात्मा को रथ का स्वामी जानो, शरीर को रथ ही जानो, बुद्धि को सारथि जानो, मन को लगाम जानो ) इन्द्रियो को अश्व, उनके विषयो को गोचर ( मार्ग ) समझो। और शरीर इन्द्रिय मन सहित जीवात्मा को विद्वान् लोग भोक्ता कहते हैं। एवं असयत ( अवश ) उन इन्द्रियादिको द्वारा यह जीव जन्मादि रूप ससार को प्राप्त करता है और सयत ( वशीभूत ) उन इन्द्रियादि द्वारा ससार मार्ग से पर पार उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, ऐसा दिखलाकर, संसार मार्ग से पर पार वह विष्णु का परमपद ( स्वरूप ) क्या है ? ऐसी आकाङ्क्षा जिज्ञासा होने पर, उन प्रकृत इन्द्रियादिको से ही परत्वेन ( पररूप से ) पर आत्मा को ही ससार मार्ग से पर पार विष्णु के परम पद को श्रुति दिखलाती है—

इन्द्रियो से, इन्द्रियो के अर्थ शब्दादि विषय पर ( श्रेष्ठ ) प्रबल है। विषयो से प्रबल मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, व्यष्टि बुद्धि से महानात्मा समष्टि बुद्धि जीवात्मा श्रेष्ठ है, उस महान् से श्रेष्ठ अव्यक्त है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुष से पर कुछ नहीं है, पुरुष ही परत्व की काष्ठा ( सीमा ) रूप है, और वही परम गति ( मुक्ति आश्रय ) स्वरूप है। वहाँ जो ही इन्द्रियादि प्रथम रथ की रूपक कल्पना में अश्वादि रूप से प्रकृत हैं, वर्णित हैं वे ही प्रकृत हान और अप्रकृत प्रक्रिया की प्रसक्ति ( प्राप्ति ) का वारण के लिए यहाँ गृहीत होते हैं, इनमें इन्द्रिय, मन और बुद्धि तो पूर्व और यहाँ उत्तर वाक्य में समान शब्द वाले ही हैं, तुल्य ( एक-एक ) शब्द से

कहे गये हैं, इन्द्रियो के गोचर ( मार्ग ) रूप से निदिष्ट ( कथित ) जो शब्दादि विषय रूप अर्थ हैं, उनको यहाँ इन्द्रियो से परत्व कहा गया है, क्योंकि इन्द्रियो को प्रहृत्व है, और विषयो को अतिग्रहृत्व है, यह बृहदारण्यक श्रुति मे प्रसिद्ध है। एव मनोमूलक विषय इन्द्रियो के व्यवहारो के होने से मन को विषयो से परत्व है, और मन से परबुद्धि है, जिससे बुद्धि मे आरूढ ( स्थिर-निश्चित ) हो करके ही भोग्य समूह भोक्ता को प्राप्त होते है, और जो बुद्धि से पर महान् आत्मा है, उस ( आत्मा को रथी जानो ) इस प्रकार रथी रूप से उपक्षिप्त ( निदिष्ट बोधित ) हुआ है। क्योंकि आत्मशब्द से आत्मा ही उपक्षिप्त ( प्राप्त ) होता है। भोक्ता को भोग के उपकरण ( साधन ) से परत्व होना युक्त भी है, और स्वामित्व से इसको महृत्व सिद्ध है।

अथवा—

मनो महान्मतिर्ब्रह्मा पूर्वबुद्धिः ख्यातिरीश्वरः ।

प्रज्ञा संविधितिश्चैव स्मृतिश्च परिपठ्यते ॥ इति स्मृतेः,

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । (श्वे० ६।१८)

इति च श्रुतेर्या प्रथमज्ञस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धिः सा सर्वासां बुद्धीनां परमा प्रतिष्ठा, सेह महानात्मेत्युच्यते। सा च पूर्वत्र बुद्धिप्रहणेनैव गृहीता सती हिरुगिहोपदिश्यते, तस्या अप्यस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्य परत्वोपपत्तेः। एतस्मिस्तु पक्षे परमात्मविषयेणैव परेण पुरुषग्रहणेन रथिन आत्मनो ग्रहणं द्रष्टव्यम्, परमार्थतः परमात्मविज्ञानात्मनोर्भेदाभावात् तदेवं शरीरमेवैकं परिशिष्यते तेषु। इतराणीन्द्रियादीनि प्रकृतान्येव परमपददिदर्शयिषया समनुकामन् परिशिष्यमाणेनेहान्येनान्यक्तशब्देन परिशिष्यमाणं प्रकृतं शरीर दर्शयतीति गम्यते। शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासंयुक्तस्य ह्यविद्यावतो भोक्तुः शरीरादीना रथादिरूपककल्पनया संसारमोक्षगतिनिरूपणेन प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिह विवक्षिता। तथा च—

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्न्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ ( का० १।३।१२ )

इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्वमुक्त्वा तदवगमार्थं योग दर्शयति—  
यच्छेद्ब्राह्मणसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेज्ज्ञान्त आत्मनि ॥

( का० २।३।१३ ) इति । एतदुक्तं भवति—वाच मनसि संयच्छेत्, वागादिबाह्येन्द्रियव्यापारमुत्सृज्य मनोमात्रेणावतिष्ठेत। मनोऽपि विषयविकल्पाम्भिसुखं विकल्पदोषदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्ध्यावध्यवसायस्वभावायां धारयेत्। तामपि बुद्धि महत्यात्मनि भोक्त्यग्न्यायां वा बुद्धौ सूक्ष्मतापादनेन नियच्छेत्, महान्तं त्वात्मानं शान्त आत्मनि प्रकरणवति परस्मिन् पुरुषे परस्यां काष्ठ्यायां

प्रतिष्ठापयेदिति । तदेवं पूर्वापरालोचनायां नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधान-  
स्यावकाशः ।

अथवा ( मनन शक्ति रूप मन, व्यापिनी शक्ति महान्, भाविनिश्चयरूप मति, जीवात्मारूप ब्रह्मा, भोग्याश्रयरूप पुर, तात्कालिकज्ञानरूप बुद्धि, कीर्तिशक्ति, नियमन-  
शक्ति, त्रैकालिकप्रज्ञा, सम्बित्, चित्ति, स्मृति, इन रूपो से समष्टि बुद्धि कही जाती है )  
इस स्मृति कथन से, और ( जो प्रथम ब्रह्मा को सिद्ध उत्पन्न करता है, और उनकी  
बुद्धि मे वेदों को प्रकट करता है ) इस श्रुति कथन से जो प्रथम उत्पन्न होने वाले  
हिरण्यगर्भ की बुद्धि है वह सब व्यष्टि बुद्धियों का परम आश्रय है, वही यहाँ महानात्मा  
कही गई है वह भी अप्रकृत नहीं है, किन्तु प्राथमिक बुद्धि के ग्रहण से ही गृहीत होती  
हुई, यहाँ पृथक् उपदिष्ट होती है । उसको भी हम लोगो की बुद्धियों से परत्व  
उपपन्न ( युक्तसिद्ध ) होता है । परन्तु इस पक्ष मे परमात्मविषयक सबसे परपुरुष के  
ग्रहण से ही रथी आत्मा का भी ग्रहण ससंज्ञना चाहिये, क्योंकि वास्तविक स्वरूप मे  
परमात्मा और विज्ञानात्मा को भेद का अभाव है । इस प्रकार पूर्वकथित उन छ  
पदार्थों मे से वह एक शरीर ही ग्रहण मे अवशिष्ट रहता है, यहाँ परम पद को दिखलाने  
की इच्छा से पूर्व प्रकृत शरीर से भिन्न इन्द्रियादिको का ही सम अनुक्रमण ( क्रम से  
ग्रहण-अनुसरण ) करनेवाला गुरु यम है । यहाँ परिशिष्ट अन्तिम अव्यक्त शब्द से परिशिष्ट  
प्रकृत शरीर को ही दिखलाते हैं, ऐसी प्रतीति होती है । और शरीर इन्द्रिय, मन, बुद्धि,  
विषय वेदना ( भोग ) से संयुक्त अविद्या वाला भोक्ता जीव के शरीरादि की रथादि  
रूपक कल्पना द्वारा संसार और मोक्ष की प्राप्ति के निरूपण से यहाँ प्रत्यगात्मा की  
ब्रह्मरूप से अवगति ( ज्ञान ) विवक्षित है । यहाँ कहते हैं कि ( सब भूतो मे गूढ  
( छिपा हुआ ) यह आत्मा प्रकाशता ( अनुभूत होता ) नहीं है, परन्तु आप्त ( शुद्ध )  
सूक्ष्म बुद्धि द्वारा सूक्ष्म दक्षियों से देखा समझा जाता है ) इस प्रकार वैष्णव परपद के  
दुर्ज्ञेयत्व को कहकर, उसके ज्ञान के लिए योग दिखलाते हैं कि ( बुद्धिमान् पुरुष वाक् का  
मन मे लय करे, मन का ज्ञान प्रकाश रूप बुद्धि मे लय करे, बुद्धि का समष्टि बुद्धि  
महान् मे लय करे, उसका शान्त स्वरूप आत्मा मे लय करे ) इत्यादि । इससे यह  
कहा गया है कि वाक् को मन मे संयत ( बद्ध ) करे । अर्थात् बागादि बाह्य इन्द्रियों  
के व्यापारो को त्यागकर मनोमात्र रूप से स्थिर होवे । फिर विषयो के विकल्प के  
लिए अभिमुख ( प्रवृत्त ) मन को भी विकल्पजन्य दोषो के दर्शन द्वारा ज्ञान शब्द से  
कथित निश्चय स्वभाववाली बुद्धि में धारण करे । फिर उस बुद्धि को भी महानात्मा  
भोक्ता मे अथवा आप्त बुद्धि में सूक्ष्मता का सम्पादन द्वारा लय करे । महानात्मा को  
प्रकरणप्राप्त परम सीमारूप शान्तात्मा पर पुरुष मे प्रतिष्ठा स्थिति लय करे । इस प्रकार  
पूर्वापर के आलोचन करने पर अन्य से कल्पित प्रधान का यहाँ अवकाश नहीं है ।

## सूक्ष्मं तु तदहत्वात् ॥ २ ॥

उक्तमेतत्प्रकरणपरिशेषाभ्यां शरीरमव्यक्तशब्दं न प्रधानमिति । इदमिदानीमाशङ्क्यते—कृतमव्यक्तशब्दाहत्वं शरीरस्य, यावता स्थूलत्वात्स्पष्टतरमिदं शरीरं व्यक्तशब्दाहमस्पष्टवचनस्त्वव्यक्तशब्द इति ।

अत उत्तरमुच्यते—सूक्ष्मं त्विह कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते सूक्ष्मस्याव्यक्तशब्दाहत्वात् । यद्यपि स्थूलमिदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दमहति, तथापि तस्य त्वारम्भकं भूतसूक्ष्ममव्यक्तशब्दमहति । प्रकृतिशब्दश्च विकारे दृष्टः, यथा 'गोभिः श्रीणीत मत्सरम्' ( ऋ० स० ६।४।६।४ ) इति । श्रुतिश्च—तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्' ( बृ० १।४।७ ) इति । इदमेव व्याकृतनामरूपविभिन्नं जगत्प्रागवस्थायां परित्यक्तव्याकृतनामरूपं बीजशक्त्यवस्थमव्यक्तशब्दयोग्यं दर्शयति ।

यह कहा गया है कि प्रकरण और शेषरूप हेतु से अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर है, प्रधान नहीं । यहाँ यह आशंका होती है कि शरीर को अव्यक्त शब्द के योग्यत्व कैसे होगा ? जब कि स्थूल होने से यह शरीर अत्यन्त स्पष्ट व्यक्त शब्दाहं है और अस्पष्ट का वाचक अव्यक्त शब्द है । उत्तर में कहा जाता है कि यहाँ कारण रूप से सूक्ष्म शरीर अव्यक्त शब्द से विवक्षित होता है, क्योंकि सूक्ष्मशरीर को अव्यक्त शब्द की योग्यता है । यद्यपि यह स्थूल शरीर स्वयं अव्यक्त शब्द के योग्य नहीं है, तथापि उसका आरम्भक भूतो का सूक्ष्माश तो अव्यक्त के योग्य है ही । यदि कहो कि कारण का वाचक शब्द कार्य को कैसे कहेगा तो कहा जाता है कि कार्य कारण में अभेद दृष्टि से कारण वाचक शब्द का विकार ( कार्य ) में प्रयोग देखा गया है । जैसे कि ( गौ के दूध से मत्सर-सोम-को मिश्रित करे ) यहाँ दूध अर्थ में गो शब्द का प्रयोग किया गया है और व्यक्त को ही कारणावस्था में श्रुति अव्यक्त कहती है कि ( पूर्वावस्था में प्रसिद्ध यह जगत् अव्याकृत था ) इससे यह व्याकृत नामरूप से भेदयुक्त जगत् को ही पूर्वावस्था में व्यक्त नामरूपरहित बीजशक्ति संस्काररूप में स्थिर को अव्यक्त शब्द योग्य श्रुति दिखलाती है ।

## तदधीनत्वादर्थवत् ॥ ३ ॥

अत्राह—यदि जगदिदमनभिव्यक्तनामरूपं बीजात्मकं प्रागवस्थमव्यक्तशब्दाहमभ्युपगम्येत, तदात्मना च शरीरस्याप्यव्यक्तशब्दाहत्वं प्रतिज्ञायेत, स एव तर्हि प्रधानकारणवाद एवं सत्यापद्येत । अस्यैव जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेनाभ्युपगमात्—इति ।

अत्रोच्यते । यदि वयं स्वतन्त्रां काञ्चित्प्रागवस्थां जगतः कारणत्वेनाभ्युपगच्छेम, प्रसञ्जयेम तदा प्रधानकारणवादम् । परमेश्वराधीना त्वियमस्माभिः

प्रागवस्था जगतोऽभ्युपगम्यते न स्वतन्त्रा । सा चावश्याभ्युपगन्तव्या, अर्थवती हि सा । नहि तथा विना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्वं सिद्धयति, शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । मुक्तानां च पुनरनुत्पत्तिः । कुतः ? विद्यया तस्या बीजशक्तेर्दाहात् । अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देशया परमेश्वराश्रया मायामयी महासुप्तिः, यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः । तदेतदव्यक्तं क्वचिदाकाशशब्दनिर्दिष्टम्—‘एतस्मिन्नु खत्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च’ ( बृ० ३।८।११ ) इति श्रुतेः । क्वचिदक्षरशब्दोदितम्—‘अक्षरात्परतः परः’ ( मु० २।१ ) इति श्रुतेः । क्वचिन्मायेति सूचितम्—‘माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्’ ( श्वे० ४।१० ) इति मन्त्रवर्णात् अव्यक्ता हि सा माया, तत्त्वान्यत्वनिरूपणस्याशक्यत्वात् । तदिदं ‘महतः परमव्यक्तम्’ इत्युक्तमव्यक्तमप्रभवत्वात्महतः, यदा हैरण्यगर्भी बुद्धिर्महान् । यदा तु जीवो महास्तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाज्जीवभावस्य महतः परमव्यक्तमित्युक्तम् । अविद्या ह्यव्यक्तम्, अविद्यावत्त्वेनैव जीवस्य सव संव्यवहारः सन्ततो वर्तते । तच्च अव्यक्तगत महतः परत्वमभेदोपचारात्तद्विकारे शरीरे परिकल्प्यते । सत्यपि शरीरवदिन्द्रियादीनां तद्विकारत्वाविशेषे शरीरस्यैवाभेदोपचारादव्यक्तशब्देन ग्रहणम्, इन्द्रियादीनां स्वशब्दैरेव गृहीतत्वात्परिशिष्टत्वाच्च शरीरस्य ।

यहाँ शंका होती है, कि यदि व्यक्त नामरूप रहित बीजात्मक पूर्वास्थायुक्त यह जगत् अव्यक्त शब्द के योग्य माना जाय, और उस बीजात्मक स्वरूप से शरीर को भी अव्यक्त शब्द योग्यत्व की प्रतिज्ञा की जाय, तो इस प्रकार सूक्ष्मावस्था के स्वीकार होने पर वही प्रधान कारणवाद प्राप्त होगा । क्योंकि इस जगत् की ही पूर्वास्था को प्रधान ( त्रिगुण की साम्यावस्था ) रूप से माना जाता है । यहाँ उत्तर कहा जाता है कि, यदि हम किसी स्वतन्त्र जगत् की पूर्वास्था को जगत् के कारण रूप से स्वीकार करे, तो प्रधान कारणवाद की प्राप्ति कर सकते हैं । परन्तु हम लोग तो परमेश्वराधीन इस जगत् की पूर्वास्था को मानते हैं, स्वतन्त्र नहीं । और वह अवस्था अवश्य मानने योग्य है, क्योंकि वह अर्थवती ( सफला ) है । उसके बिना कूटस्थ निर्विकार परमेश्वर को स्रष्टृत्व ( सृष्टि कर्तृत्व ) नहीं सिद्ध हो सकता है । शक्तिरहित उस परमात्मा की सृष्टि विषयक प्रवृत्ति की असिद्धि से स्रष्टृत्व की असिद्धि होगी और बीजशक्ति को मानने पर बन्ध मोक्ष की व्यवस्था होती है, इससे मुक्तात्माओं की फिर उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि विद्या से उस जन्म के हेतु बीजशक्ति का दाह नाश हो जाता है, जिससे जन्मादि का हेतुरूप वह बीजशक्ति अविद्या स्वरूप अव्यक्त शब्द से निर्देश के योग्य परमेश्वराश्रित लौकिक मायातुल्य महासुप्ति स्वरूपा है, जिसमें स्वरूप के ज्ञान से रहित ससारी जीव सब

मोहनिद्रा मे सोते हैं, उसके कार्यादि मे आसक्त होते और अभिमान करते हैं। अतः यह अव्यक्त कही आकाश शब्द से कहा गया है कि ( हे गार्गी ) इस अविनाशी आत्मा में आकाशादि का कारण रूप आकाश ओत-प्रोत है ) इस प्रकार श्रुति से अव्यक्त आकाश शब्दार्थ सिद्ध होता है ( पर अक्षर से पर परब्रह्म है )। यहाँ अव्यक्त अक्षर शब्द से कहा गया है, अन्यत्र भी अक्षर शब्द से कथित होता है। और कही माया इस शब्द से अव्यक्त सूचित हुआ है। ( माया को जगत् की प्रकृति ( उपादान ) रूप कारण समझे, और माया जिसके अधीन है, उस मायी को जगत् का महान् ईश्वर समझे ) इस मन्त्राक्षरो से वह सूचना होती है। और वह माया अव्यक्त है, क्योंकि वह तत्त्व ( सत्य ब्रह्म स्वरूपत्व ) और ब्रह्मान्यत्व उभयरूप में किसी रूप से निरूपण के योग्य नहीं है, शक्ति होने से ब्रह्म से अन्य नहीं है, सर्वथा अभिन्न में शक्ति शक्तिभङ्गाव नहीं हो सकने से सर्वथा अभिन्न नहीं है। वही अक्षर माया आदि शब्द का अर्थ अव्यक्त ( महत् से पर अव्यक्त है ) इस प्रकार कहा गया है। एवं यह महत् पर अव्यक्त उस अवस्था मे कहा गया है कि जब हिरण्यगर्भ की बुद्धि महत् शब्द का अर्थ है। जब जीव महत् शब्द का अर्थ है, तब भी जीवभाव के अव्यक्ताऽधीन होने से महत् से अव्यक्त है, यह कहा गया है, जिससे अविद्या ही अव्यक्त है। और अविद्यावन्ता रूप से ही जीव के सब सासारिक व्यवहार निरन्तर होते हैं। वह जो अव्यक्त मे महत् से परत्व है, उसका कार्यकारण में अभेद के व्यवहार से शरीर मे कल्पना की जाती है और शरीर के समान इन्द्रियादि को भी उस अव्यक्त के विकारत्व तुल्य होते हुए भी अभेद के उपचार व्यवहार से शरीर का ही अव्यक्त शब्द से ग्रहण होता है, अन्य का नहीं, क्योंकि इन्द्रियादि वहाँ स्ववाचक शब्दों से ही गृहीत हैं, और शरीर को ही परिशिष्टत्व है।

अन्ये तु वर्णयन्ति—द्विविधं हि शरीरं स्थूलं सूक्ष्मं च । स्थूलं यदिदमुप-  
लभ्यते । सूक्ष्मं यदुत्तरत्र वक्ष्यते—‘तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्न-  
निरूपणाभ्याम्’ ( बृ० ३।१।१ ) इति । तच्चोभयमपि शरीरमविशेषात्पूर्वत्र  
रथत्वेन संकीर्तितम्, इह तु सूक्ष्ममव्यक्तशब्देन परिगृह्यते सूक्ष्मस्याव्यक्तश-  
ब्दार्हत्वात् । तदधीनत्वाच्च बन्धमोक्षव्यवहारस्य जीवात्तस्य परत्वम्, यथाऽर्था-  
धीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्येन्द्रियेभ्यः परत्वमर्थानामिति ।

तैस्त्वेतद्वक्तव्यम्, अविशेषेण शरीरद्वयस्य पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितत्वा-  
त्समानयोः प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयोः कथं सूक्ष्ममेव शरीरमिह गृह्यते न पुनः  
स्थूलमपीति । आम्नातस्यार्थं प्रतिपत्तुं प्रभवामो नाम्नातं पर्यनुयोक्तुम्,  
आम्नात चाव्यक्तपदं सूक्ष्ममेव प्रतिपादयितुं शक्नोति नेतरद्व्यक्तत्वान्तस्येति  
चेत् ? न, एकवाक्यताधीनत्वादर्थप्रतिपत्तेः । नहीमे पूर्वोच्यते आम्नाते  
एकवाक्यतामनापद्य कञ्चिदर्थं प्रतिपादयतः, प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गात् ।  
नचाकाङ्क्षामन्तरेणैकवाक्यताप्रतिपत्तिरस्ति, तत्राविशिष्टायां शरीरद्वयस्य

ग्राह्यत्वाकाङ्क्षायां यथाकाङ्क्षं सम्बन्धेऽनभ्युपगम्यमान एववाक्यतैव बाधिता भवति कुत आम्नातस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः । नचैवं मन्तव्य-दुःशोधत्वात्सूक्ष्मस्यैव शरीरस्येह ग्रहणं, स्थूलस्य तु दृष्टबीभत्सतया सुशोधत्वादग्रहणम्-इति । यतो नैवेह शोधनं कस्यचिद्विवक्ष्यते । न ह्यत्र शोधनविधायि किञ्चिदाख्यातमस्ति, अनन्तरनिदिष्टत्वात्तु किं तद्विष्णोः परमं पदमितीदमिह विवक्ष्यते । तथाहीदमस्मात्परमिदमस्मात्परमित्युक्त्वा 'पुरुषान्न परं किञ्चित्' इत्याह । सर्वथापित्वानुमानिकनिराकरणोपपत्तेस्तथानामास्तु, न नः किञ्चिच्छद्यते ।

अन्य आचार्य उक्त दो सूत्र के अर्थ का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के शरीर है, स्थूल तो वह है जो प्रत्यक्ष उपलब्ध ( ज्ञात ) होता है, और सूक्ष्म वह है, जिसको आगे कहेंगे कि ( मृत्यु के बाद शरीरान्तर लोकान्तर में प्राप्ति के समय यह जीव भूतो के सूक्ष्मांश सूक्ष्म शरीर से सम्बद्ध हो जाता है वह प्रश्न और प्रत्युत्तर से समझा जाता है ) वह दोनों शरीर अविशेषता से प्रथम स्वरूप से संकीर्तित हुआ है । और यहाँ आगे तो सूक्ष्म को अव्यक्त शब्द के योग्य होने से सूक्ष्म ही अव्यक्त शब्द से परिगृहीत होता है । उस सूक्ष्म शरीर के अधीन जीव के बन्धमोक्ष का व्यवहार होता है, इससे उस सूक्ष्म को जीव से परत्व है, जैसे कि इन्द्रियों के व्यापारो को अर्थ के अधीन होने से इन्द्रियों से परत्व अर्थों को कहा गया है । इस रीति से सूत्रार्थ करने वाले के प्रति भाष्यकार कहते हैं कि उन्हें यह कहना चाहिये कि प्रथम अविशेष ( अभिन्न समान ) रूप से दोनों शरीरों को स्वरूप से संकीर्तितत्व होने से दोनों में प्रकृतत्व और परिशिष्टत्व भी तुल्य है, इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर ही अव्यक्तशब्द से कैसे गृहीत है, और फिर स्थूल भी क्यों नहीं गृहीत होता है । यदि आप कहो कि वेद से कथित अर्थ को समझने के लिए हम समर्थ हैं, कथित को पर्यनुयोग करने को ( आज्ञा करने को ) समर्थ नहीं है, कि तुम ऐसा नहीं रहकर अन्य स्वरूप बन जाओ । एवं कथित अव्यक्तपद तो सूक्ष्म को ही प्रतिपादन के लिए समर्थ है, अन्य को प्रतिपादन करने के लिये वह समर्थ नहीं है, क्योंकि उस स्थूल को व्यक्तत्व है । भाष्यकार कहते हैं कि यह आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कथित पद वाक्य के अर्थ की प्रतीति भी केवल पद वाक्य मात्र से ही नहीं हो जाती है, किन्तु एकार्थबोधक पदों की परस्पर की आकाक्षा से एक बुद्धि विषयत्व रूप एकवाक्यता के अधीन वाक्यार्थ का ज्ञान होता है । ये पूर्वोत्तर आम्नात ( पठित ) वाक्य एकवाक्यता को प्राप्त हुए बिना किसी अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते हैं, क्योंकि एकवाक्यता के बिना शरीर शब्द से रूढि वृत्ति द्वारा प्रकृत स्थूल शरीर के ग्रहण का हान ( त्याग ) होगा, और अप्रकृत भूतसूक्ष्मादि का अव्यक्त शब्द से ग्रहण रूप प्रक्रिया की प्राप्ति होगी । और आकाक्षा के बिना एकवाक्यता का ज्ञान नहीं होता है, और आकाक्षा से वाक्यैक वाक्यत्व के होने पर और दोनों शरीरों को तुल्य ग्राह्यत्वाकाक्षा होने पर आकाक्षा के अनुसार सम्बन्ध को नहीं मानने पर एक-

वाक्यता बाधित होगी फिर वेदार्थ का ज्ञान कैसे होगा ? ऐसा भी नहीं मानना चाहिये कि सूक्ष्म शरीर के दृशोध्य होने से अर्थात् दुर्विवेच्य होने से आत्मा के साथ एक रूप से गृहीत उस सूक्ष्म का शोधन विवेचन के लिए सूक्ष्म का ही ग्रहण है। और स्थूल शरीर तो दृष्ट बीभत्सता ( विकृतता ) से सुशोध्य है, इसके आत्मभिन्नत्व का ज्ञान सुलभ है, इसलिये अव्यक्त शब्द से स्थूल का अग्रहण है इत्यादि। इससे यहाँ किसी का शोधन विवक्षित नहीं है, क्योंकि शोधन का विधायक कोई आख्यात ( क्रियावाचक पद ) यहाँ नहीं है। किंतु अनन्तर निर्दिष्ट होने से ( वह विष्णु का परमपद क्या है ) यही यहाँ विवक्षित है। जैसे कि यह इससे पर है, यह इससे पर है, इस प्रकार इन्द्रियादि से परपुरुष को कहकर ( पुरुष से पर कुछ नहीं है ) इस विष्णु के परपद ( स्वरूप ) को श्रुति कहती है कि जिससे पर कुछ नहीं है। एव आनुमानिक के निराकरण की सिद्धि तो सर्वथा होती है, इससे वैसे व्याख्यान भी हो, उससे हमारी कुछ हानि नहीं है।

### ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥

ज्ञेयत्वेन च सांख्यैः प्रधानं स्मर्यते गुणपुरुषान्तरज्ञानात्कैवल्यमिति वदद्भिः, नहि गुणस्वरूपमज्ञात्वा गुणोभ्यः पुरुषस्यान्तरं शक्यं ज्ञातुमिति। क्वचिच्च विभूतिविशेषप्राप्तये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति। नचेदभिहाव्यक्तं ज्ञेयत्वेनोच्यते, पदमात्रं ह्यव्यक्तशब्दः. नेहाव्यक्तं ज्ञातव्यमुपासितव्यं चेति वाक्यमस्ति। नचानुपदिष्टं पदार्थज्ञानं पुरुषार्थमिति शक्यं प्रतिपत्तुम्। तस्मादपि नाव्यक्तशब्देन प्रधानमभिधीयते। अस्माकं तु रथरूपककल्पशरीरचतुसरणेन विष्णोरेव परमं पदं दर्शयितुमयमुपन्यास इत्यनवद्यम्।

त्रिगुणा रूप प्रधान से भिन्न पुरुष ज्ञान से अर्थात् प्रधान पुरुष के विवेक रूप भेद ज्ञान से मोक्ष कहने वाले सांख्यवादी प्रधान को ज्ञेय रूप से स्मरण ( चिन्तन कथन ) करते हैं, क्योंकि गुणमय प्रधान के स्वरूप को जाने बिना गुणों से पुरुष का भेद जाना नहीं जा सकता है, और कही विभूति ( अणिमादि ऐश्वर्य ) विशेष की प्राप्ति के लिए प्रधान ज्ञेय उपास्यादि है ऐसा कहते हैं। यहाँ यह अव्यक्त ज्ञेय रूप से नहीं कहा जाता है, पदमात्र ही अव्यक्त शब्द है। अव्यक्त जानने योग्य है, वा उपास्य है, ऐसा वाक्य यहाँ नहीं है। उपदिष्ट ( करने के लिए विहित ) ज्ञानध्यानादि सफल होते हैं, अनुपदिष्ट ( अविहित ) पदार्थज्ञान पुरुषार्थ रूप सफल है, ऐसा नहीं मान सकते हैं, न समझ सकते हैं। और उस ज्ञेयत्वावचन से भी यहाँ अव्यक्त से प्रधान नहीं कहा जाता है। हमारे मत में तो शरीर के ज्ञेयत्व की अनुक्ति होते हुए भी रथरूपक ( सादृश्य ) रूप से सिद्ध शरीरादि के अनुसरण ( अवलम्बन ) द्वारा विष्णु का ही परमपद को दर्शाने के लिए यह उपन्यास ( वाक्योपक्रम-रचना ) है। इससे दोषरहित सफल है।



## वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात् ॥ ५ ॥

अत्राह सांख्यः—‘ज्ञेयत्वावचनात्’ इत्यसिद्धम् ? कथम् ? श्रूयते ह्युत्तरत्रा-  
व्यक्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्ववचनम्—

अशब्दमस्पर्शमरूपमण्डयं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥

( का० २।३।१५ ) इति । अत्र हि यादृशं शब्दादिहीन प्रधानं महतः परं  
स्मृतौ निरूपितं तादृशमेव निचाय्यत्वेन निर्दिष्टं, तस्मात्प्रधानमेवेदं, तदेव  
चाव्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति ।

यहाँ सांख्यवादी कहते हैं कि, ज्ञेयत्वावचनात्, यह जो हेतु कहा गया वह असिद्ध  
है, क्योंकि उत्तर वाक्य में अव्यक्त शब्द से कथित प्रधान को ज्ञेयत्ववचन ( कथन )  
सुना जाता है कि ( शब्दस्पर्शरूपरहित, अव्यय ( अविनाशी ) तथा रसरहित,  
नित्य, गन्धरहित, अनादि, अनन्त, महत से पर, ध्रुव ( निश्चल ) जो तत्त्व है, उस  
आत्मा को जान कर मृत्यु के मुख से प्रमुक्त होता है । जैसे शब्दादिरहित प्रधान  
स्मृति में महत् से पर निरूपित है वैसे ही यहाँ भी निचाय्यत्व ( ज्ञेयत्व ) रूप से  
निर्दिष्ट है । उससे यह प्रधान ही निर्दिष्ट है, और वही अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट  
( कथित ) है ।

अत्र ब्रूमः—नेह प्रधानं निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम्, प्राज्ञो हीह परमात्मा  
निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट इति गम्यते । कुतः ? प्रकरणात् । प्राज्ञस्य हि प्रकरणं  
विततं वर्तते ‘पुरुषात्परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः’ इत्यादिनिर्देशात् ।  
‘एष सर्वेषु भूतेषु गृहोत्मान प्रकाशते’ इति च दुर्ज्ञानत्ववचनेन तस्यैव ज्ञेय-  
त्वाकाङ्क्षात् । ‘यच्छ्रेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः’ इति च तज्ज्ञानायैव वागादिसंयमस्य  
विहितत्वात्, मृत्युमुखप्रमोक्षणफलत्वाच्च । नहि प्रधानमात्रं निचाय्य मृत्युमु-  
खात्प्रमुच्यते इति साङ्ख्यैरिष्यते । चेतनात्मविज्ञानाद्धि मृत्युमुखात्प्रमुच्यते  
इति तेषामभ्युपगमः । सर्वेषु वेदान्तेषु प्राज्ञस्यैवात्मनोऽशब्दादिधर्मत्वमभिल-  
प्यते । तस्मान्न प्रधानस्यात्र ज्ञेयत्वमव्यक्तशब्दनिर्दिष्टत्वं वा ।

यहाँ सिद्धान्त कहते हैं कि यहाँ ज्ञेयत्व रूप से प्रधान नहीं निर्दिष्ट हुआ है । यहाँ  
प्राज्ञ परमात्मा ही ज्ञेयत्व रूप से निर्दिष्ट है, ऐसा यहाँ ज्ञान होता है, क्योंकि परमात्मा  
का प्रकरण है । प्राज्ञ का ही विस्तृत प्रकरण वर्तमान है कि ( पुरुष से पर कुछ नहीं  
है, वह परत्व की सीमा है पर गति है ) इत्यादि कथन से पुरुष का प्रकरण है ।  
क्योंकि ( सब भूतो में छिपा हुआ यह आत्मा नहीं प्रकाशता है ) इस प्रकार दुर्ज्ञेयत्व  
कथन से उस आत्मा ही के ज्ञेयत्व की आकाक्षा होती है । ( बुद्धिमान् वाक् को  
मन में लीन करे ) इत्यादि वचनो से उस आत्मा के ज्ञान के लिए ही वागादि का  
संयम विहित है, और मृत्यु मुख से प्रमोक्षणरूप फलवाला होने से भी यह आत्मज्ञान

का प्रकरण है। क्योंकि प्रधान मात्र को जानकर मृत्यु के मुख से मुक्त होता है, यह साध्यवादी को भी इष्ट नहीं है। चेतनात्मा के विज्ञान से ही मृत्यु के मुख से मुक्त होता है, यह उनका भी स्वीकृत सिद्धान्त है। एवं सब वेदान्त में प्राज्ञ आत्मा को ही अशब्दादि धर्मता कही जाती है। जिससे यहाँ प्रधान को न ज्ञेयत्व है, न अव्यक्त शब्द से निर्दिष्टत्व है।

### त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥

इतश्च न प्रधानस्याव्यक्तशब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा । यस्मात्त्रयाणामेव पदार्थानामग्निजीवपरमात्मनामस्मिन् ग्रन्थे कठवल्लीषु वरप्रदानसामर्थ्याद्वक्तव्यतयोपन्यासो दृश्यते, तद्विषय एव च प्रश्नः, नातोऽन्यस्य प्रश्न उपन्यासो वास्ति । तत्र तावत्—

स त्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तं श्रद्धधानाय मह्यम् ।

( का० १।१।१३ ) इत्यग्निविषयः प्रश्नः ।

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥

( का० १।१।२० ) इति जीवविषयः प्रश्नः ।

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताश्च भव्याश्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥

( का० १।२।१४ इति परमात्मविषयः । प्रतिवचनमपि—

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा । (का० १।१।१५)

इत्यग्निविषयम् ।

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥ ( का० २।१।६, ७ ) इति ।

व्यवहितं जीवविषयम् । 'न जायते म्रियते वा विपश्चित्' ( का० १।२।१८ )

इत्यादि बहुप्रपञ्चं परमात्मविषयम् । नैवं प्रधानविषयः प्रश्नोऽस्ति अपृष्टत्वाद्-  
नुपन्यसनीयत्वं तस्येति ।

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी प्रधान को अव्यक्त शब्द वाच्यत्व अथवा ज्ञेयत्व नहीं है कि जिससे इस ग्रन्थ में वरप्रदान के सामर्थ्य से कठवल्लीषु में अग्निजीव परमात्मा रूप तीन पदार्थों का ही वक्तव्य रूप से उपन्यास ( उपक्रम कथन ) दीखता है, और उन तीन पदार्थ विषयक ही प्रश्न हैं। उन तीन से अन्य का प्रश्न वा उपन्यास नहीं है। वहाँ प्रथम अग्नि विषयक प्रश्न है कि ( वह मुझे वर देने वाले आप स्वर्ग का हेतु अग्नि का स्मरण करते हो, हे मृत्युदेव ! उस अग्नि आदि विषयक श्रद्धायुक्त मेरे

लिए उस अग्नि का उपदेश करो) और जीवविषयक प्रश्न है कि ( मनुष्य के मरने पर जो यह संशय होता है कि शरीर अतिरिक्त जीवात्मा अब भी है? कोई कहते है कि मरने पर नहीं है। यह आत्मतत्त्व कैसा है? इस अर्थ को मैं आप से उपदेश पा कर समझूंगा, वरों में यह तीसरा वर है) और ( 'धर्म अधर्म कार्य कारण भूत भविष्यत् वर्तमान से अन्य जिसको आप जानते हो, उसे बहो' ) यह परमात्मविषयक प्रश्न है। एव प्रतिवचन भी अग्निविषयक है कि ( लोको का हेतु विराट् रूप से उपास्य उस अग्नि को मृत्यु ने नचिकेता के लिये कहा। और अग्निचयन के लिए जिस स्वरूप वाली जितनी इंटे होनी चाहिये यह कहा, तथा चयन का प्रकार कहा ) तथा 'हन्त इस समय, तेरे लिए यह गुप्त सनातन ब्रह्म कहूंगा' इस प्रकार ब्रह्म विषयक प्रतिज्ञा करके, और ( हे गौतम ! मरण को प्राप्त होकर जैसा होता है वह भी कहूंगा ) इस प्रकार जीव विषयक प्रतिज्ञा करके, और ब्रह्म विषयक प्रतिज्ञा से व्यवधानयुक्त जीव विषयक उत्तर है कि 'कोई देही मरण पा कर फिर शरीर ग्रहण के लिये कर्म और ज्ञान के अनुसार योनि में प्राप्त होते हैं, उनसे अन्य स्थावर में प्राप्त होते हैं और सर्वज्ञ परमात्मा जन्मता मरता नहीं है' इत्यादि वचनों से बहुत विस्तारपूर्वक परमात्मविषयक प्रतिवचन है। इस प्रकार प्रधान विषयक प्रश्न नहीं है, और अपृष्ट होने से उस प्रधान का उपन्यास होना भी योग्य नहीं है, वह अवक्तव्य है।

अत्राह—योऽयमात्मविषयः प्रश्नो 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ती'ति, कि स एवायम् 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्' इति पुनरनुकृष्यते, किवा ततोऽन्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इति। किचातः? स एवायं प्रश्न पुनरनुकृष्यत इति यद्युच्येत, तदा द्वयोरात्मविषययोः प्रश्नयोरेकतापत्तेरग्निविषय आत्मविषयश्च द्वावेव प्रश्नावित्यतो न वक्तव्यं त्रयाणां प्रश्नोपन्यासाविति। अथान्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इत्युच्यते ततो यथैव वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नकल्पनायामदोषः, एवं प्रश्नव्यतिरेकेणापि प्रधानोपन्यासकल्पनायामदोषः स्यादिति।

यहाँ शका होती है कि जो यह आत्मविषयक प्रश्न है कि 'जो यह मनुष्य के मरने पर संशय होता है' इत्यादि, क्या यही प्रश्न ( अन्यत्र धर्मात् ) इत्यादि रूप से फिर अनुकृष्ट ( सम्बद्ध ) होता है? अथवा उससे अन्य यह अपूर्व प्रश्न खडा किया जाता है। यदि कहा जाय कि इस विचार में क्या फल है? तो कहा जाता है कि इस विचार का यह फल है कि यदि कहा जाय कि वह पूर्व का ही प्रश्न यहाँ फिर अनुकृष्ट होता है, तो आत्मविषयक दोनो प्रश्नों की एकता की प्राप्ति से अग्निविषयक और आत्मविषयक दोही प्रश्न सिद्ध होते हैं, इससे तीन का प्रश्न और उपन्यास है, यह नहीं कहना होगा। और यदि यह अन्य अपूर्व प्रश्न उठाया जाता है, इस प्रकार कहा

जाता है, तो जैसे वर प्रदान के बिना प्रश्न की कल्पना में अदोष है, इसी प्रकार प्रश्न के बिना भी प्रधान के उपन्यास की कल्पना में अदोष होगा।

अत्रोच्यते । नैवं वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नं कंचित्कल्पयामः, वाक्योपक्रमसामर्थ्यात् । वरप्रदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेतः संवादरूपा वाक्यप्रवृत्तिरासमाप्तेः कठवल्लीनां लक्ष्यते । मृत्युः किल नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय त्रीन् वरान् प्रददौ, नचिकेताः किल तेषां प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं वव्रे, द्वितीयेनाग्निविद्याम्, तृतीयेनात्मविद्याम्, 'येयं प्रेते' इति 'वराणामेष वरस्तृतीयः' ( का० १।१।२० ) इति लिङ्गात् । तत्र 'यद्यन्यत्र धर्मा'दित्यन्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्येत ततो वरप्रदानव्यतिरेकेणापि प्रश्नकल्पनाद्वाक्यं बाध्येत ।

यहाँ सिद्धान्त कहा जाता है कि वाक्य के उपक्रम के सामर्थ्य से हम यहाँ वरदान के बिना किसी प्रश्न की कल्पना नहीं करते हैं। जिसके आरम्भ में वर प्रदान का वर्णन है, ऐसी मृत्यु और नचिकेता के संवाद रूप वाक्य की प्रवृत्ति कठवल्लीयों की समाप्ति पर्यन्त देखी जाती है। पिता से प्रहित (प्रेषित-भेजा गया) नचिकेता के लिए मृत्यु ने तीन वर दिए। नचिकेता ने उन तीनों वरों में से प्रथम वर द्वारा पिता की प्रसन्नता मांगी, द्वितीय वर से अग्निविद्या मांगी, तृतीय से आत्मविद्या मांगी। इसलिए 'योष्यं प्रेते' इत्यादि पूर्वक 'वरों में यह तीसरा वर है' इस हेतु से समझा जाता है। इस प्रकार के वाक्यारम्भ होते, यदि (अन्यत्र धर्माद्) इत्यादि से यह अपूर्व प्रश्न उत्थित किया जाय तो वर प्रदान के बिना भी प्रश्न की कल्पना से वाक्य बाधित होगा।

ननु प्रष्टव्यभेदादपूर्वोऽयं प्रश्नो भवितुर्महति, पूर्वो हि प्रश्नो जीवविषयः 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति नास्ती'ति विचिकित्साभिधानात्, जीवश्च धर्मादिगोचरत्वान्नान्यत्र धर्मादिति प्रश्नमर्हति । प्राज्ञस्तु धर्माद्यतीतत्वादन्यत्र धर्मादिति प्रश्नमर्हतीति । प्रश्नच्छाया च न समाना लक्ष्यते, पूर्वस्यास्तित्वनास्तित्वविषयत्वाद्दुत्तरस्य धर्माद्यतीतवस्तुविषयत्वात्, तस्मात्प्रत्यभिज्ञानाभावात्प्रश्नभेदः, न पूर्वस्यैवोत्तरानुकर्षणमिति चेत् ? न, जीवप्राज्ञयोरैकत्वाभ्युपगमात् । भवेत्प्रष्टव्यभेदात्प्रश्नभेदो यद्यन्यो जीवः प्राज्ञात्स्यात्, न त्वन्यत्वमस्ति 'तत्त्वमसी'त्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यः । इह चान्यत्र धर्मादित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिषेचनं 'न जायते म्रियते वा विपश्चित्' इति जन्ममरणप्रतिषेधेन प्रतिपाद्यमानं शारीरपरमेश्वरयोरभेदं दर्शयति । सति हि प्रसङ्गे प्रतिषेधो भागी भवति । प्रसङ्गश्च जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शाच्छारीरस्य भवति न परमेश्वरस्य ।

यहाँ शंका होती है कि जीव और ईश्वर रूप प्रष्टव्य (प्रश्न के विषय) के भेद से 'अन्यत्र धर्माद्' इत्यादि स्वरूप यह प्रश्न अपूर्व होने के योग्य है। क्योंकि जो यह सशय

होता है कि कोई कहता है कि शरीर से भिन्न है कोई कहता है कि नहीं है। इस प्रकार सहाय का कथन किया गया है, और धर्मादि के गोचर ( आश्रय-अधीन ) होने से अन्यत्र धर्माद् इस प्रश्न के योग्य जीव नहीं हो सकता है। धर्मादि से अतीत ( रहित ) होने से प्राज्ञ ( ईश्वर ) तो ( अन्यत्र धर्माद् ) इस प्रश्न के योग्य है और प्रश्नो की छाया ( कान्ति-स्वरूप ) भी तुल्य नहीं दीखती है, क्योंकि प्रथम प्रश्न मरण के बाद अस्तित्व नास्तित्व विषयक है। और उत्तर ( पीछे का ) प्रश्न धर्मादि से रहित वस्तु विषयक है। इससे पूर्व का उत्तर में प्रत्यभिज्ञा के अभाव से प्रश्न का भेद है, इससे पूर्व प्रश्न का ही उत्तर ( आगे ) अनुकर्षण नहीं है। यदि ऐसा कोई कहे तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीव और प्राज्ञ को एक मानने से दोनों प्रकार के प्रश्न एक वस्तु विषयक होने से एक हैं। प्रष्टव्य ( प्रश्न विषय ) के भेद से प्रश्न का भेद तब होता। यदि प्राज्ञ से जीव भिन्न होता। परन्तु ( तत्त्वमसि ) वही तुम हो, इत्यादि श्रुत्यन्तर से जीव को प्राज्ञ से अन्यत्व ( भेद ) नहीं है। और यहाँ भी 'अन्यत्र धर्माद्' इत्यादि प्रश्न का 'न जायते म्रियते वा विपश्चित्' इत्यादि वचन से जन्ममरणादि के प्रतिषेध द्वारा प्रतिपादित किया गया प्रतिवचन ( उत्तर ) भी जीवेश्वर के अभेद को दिखलाता है। क्योंकि प्रसंग ( प्राप्ति ) के रहते ही प्रतिषेध भागी ( युक्त ) होता है। शरीर के साथ सम्बन्ध से जन्म मरण का प्रसङ्ग जीव को होता है, परमेश्वर को जन्म मरण का प्रसङ्ग नहीं होता है।

तथा—स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति ।

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ( का० २।४।४ )  
इति स्वप्नजागरितदृशो जीवस्यैव महत्त्वविभुत्वविशेषणस्य मननेन शोक-  
विच्छेदं दर्शयन्न प्राज्ञादन्यो जीव इति दर्शयति । प्राज्ञविज्ञानाद्धि शोकविच्छेद  
इति वेदान्तसिद्धान्तः । तथाग्रे—

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ( का० २।४।१० )  
इति जीवप्राज्ञभेददृष्टिमपवदति । यथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तित्वप्रश्नस्या-  
नन्तरम् 'अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व' इत्यारभ्य मृत्युना तैस्तैः कामैः प्रलोभ्य-  
मानोऽपि नचिकेता यदा न चचाल, तदैव मृत्युरभ्युदयनिःश्रेयसविभागप्रदर्श-  
नेन विद्याविद्याविभागप्रदर्शनेन च 'विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा  
बहवोऽलोलुपन्त' (का- १।२।४) इति प्रशस्य प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन् यदुवाच—

तं दुर्दर्शं गूढमनु प्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्टं पुराणम् ।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥

( का० १।२।१२ ) इति, तेनापि जीवप्राज्ञयोरभेद एवेह विवक्षित इति गन्वते ।  
यत्प्रश्ननिमित्तां च प्रशंसां महतीं मृत्योः प्रत्यपद्यत नचिकेता यदि तं विहाय

प्रशंसानन्तरमन्यमेव प्रश्नमुपक्षिपेदस्थान एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात्, तस्मात् 'येयं प्रेते' इत्यस्यैव प्रश्नस्यैतदनुकर्षणम् 'अन्यत्र धर्मात् इति ।

इसी प्रकार 'स्वप्नावस्था और जाग्रदवस्था इन दोनों को जिस साक्षिस्वरूप आत्मा द्वारा जीव देखता है, उस महान विभु आत्मा को जानकर विद्वान् सोचता नहीं है' इस वाक्य से स्वप्न जाग्रत के द्रष्टा जीव का ही महत्त्व विभुत्व विशेषणयुक्त रूप से मनन द्वारा शोक विच्छेद को दिखलाते हुए गुरु जीव प्राज्ञ से अन्य नहीं है, यह दिखलाते हैं, क्योंकि प्राज्ञ के विज्ञान से शोक का विच्छेद होता है, यह वेदान्त का सिद्धान्त है । इसी प्रकार आगे ( जो यहाँ है, वही चेतन अन्यत्र परलोक सूर्यादि में है, वह मृत्यु से मृत्यु को पाता है जो इसमें नाना के समान देखता है ) इस वचन से जीव और प्राज्ञ में भेददृष्टि का अपवाद ( निन्दा ) करते हैं । इसी प्रकार जीव विषयक अस्तित्व नास्तित्व के प्रश्न के अनन्तर ( बाद, हे नचिकेता ! अन्य वर मागो ) इस प्रकार आरम्भ करके मृत्यु से तत्तत् कामो ( विषयो ) द्वारा लोभायमान ( प्रलोभित किया गया ) भी नचिकेता जब लुब्ध विचलित नहीं हुआ, तब मृत्यु से अभ्युदय ( स्वर्गादि ) और निःश्रेयस ( मोक्ष ) के विभाग का प्रदर्शन पूर्वक, तथा विद्या और अविद्या के विभाग का प्रदर्शन पूर्वक उसको कहा कि ( बहुत काम तुम्हें लोलुप नहीं कर सके इससे तुझ नचिकेता को विद्या-भीप्सी ( विद्यार्थी ) मानता हूँ । इस प्रकार उसकी प्रशंसा करके, उसके प्रश्न की भी प्रशंसा करते हुए मृत्यु बोले कि ( उस दुर्ज्ञेय, माया में गूढ ( छिपा हुआ ) अतएव उसमें अनुप्रविष्ट बुद्धिरूप गुहा में स्थिर शरीर में स्थिर अनादि देव को अव्यात्मयोग की प्राप्ति द्वारा समझ कर विद्वान् हर्षशोक को त्यागता है । उस कथन से जीव और प्राज्ञ का यहाँ अभेद ही विवक्षित प्रतीत होता है । और जिस प्रश्न निमित्तक महती प्रशंसा को नचिकेता ने यम से प्राप्त किया, यदि प्रशंसा के बाद उस प्रश्न को त्याग कर अन्य प्रश्न को उपक्षेप ( उपस्थित ) करेगा, तो सब प्रशंसा कुस्थान ( अपात्र ) में ही प्रसारित होगी अर्थात् अनवसर में कृत होगी । जिससे ( येयं प्रेते ) इसी प्रश्न का यह अनुकर्षण है—( अन्यत्र धर्मात् ) इत्यादि ।

यन्तु प्रश्नच्छायावैलक्षण्यमुक्तं तददूषणम्, तदीयस्यैव विशेषस्य पुनः पृच्छन्मानत्वात् । पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वं पृष्ठमुत्तरत्र तु तस्यैवासंसारित्वं पृच्छन्यत इति । यावद्ध्यविद्या न निवर्तते तावद्धर्मादिगोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते । तन्नियुक्तौ तु प्राज्ञ एव 'तत्त्वमसी'ति श्रुत्या प्रत्याग्यते । नचाविद्यावत्त्वे तदपगमे च वस्तुनः कश्चिद्विशेषोऽस्ति । यथा कश्चित्मन्तमसे पतितां काञ्चिद्रज्जुमहि मन्यमानस्ततो भीतो वेपमानः पलायते, त चापरो ब्रूयान्मा भेषीर्नायमही रज्जुरेवेति, स च तदुपश्रुत्याहिक्लृप्तं भयमुत्सृजेद्वेपथुं पलायनं च, न त्वहिबुद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुनः कश्चिद्विशेषः स्यात्, तथैवैतदपि द्रष्टव्यम् । ततश्च 'न जायते म्रियते वा' इत्येवमाद्यपि भवत्यस्तित्वप्रश्नस्य प्रतिवचनम् । सूत्रं त्वविद्याकल्पितजीवप्राज्ञभेदा-

पेक्षया योजयितव्यम् । एकत्वेऽपि ह्यात्मविषयस्य प्रश्नस्य प्रायणावस्थायाम् देहव्यतिरिक्तास्तित्वमात्रविचिकित्सनात्कर्तृत्वादिसंसारस्वभावानपोहनाच्च पूर्वस्य पर्यायस्य जीवविषयत्वमुत्प्रेक्ष्यते, उत्तरस्य तु धर्माद्यत्ययसङ्कीर्तनात्प्राज्ञविषयत्वमिति, ततश्च युक्ताग्निजीवपरमात्मकल्पना । प्रधानकल्पनायां तु न वरप्रदानं न प्रश्नो न प्रतिवचनमिति वैषम्यम् ॥ ६ ॥

जो प्रश्न की छाया में विलक्षणाता कहा है, वह दूषण नहीं है, क्योंकि पूर्वप्रश्न का ही विशेष फिर पूछा गया है । जिससे प्रथम देहादि से भिन्न आत्मा का अस्तित्व ( सत्ता ) पूछा है । और उत्तर में उसी आत्मा का असंसारित्व पूछा गया है । जिससे जब तक अविद्या नहीं निवृत्त होती है, तभी तक जीव को धर्मादि के आश्रयत्व और जीवत्व भी नहीं निवृत्त होते हैं, उस अविद्या की निवृत्ति होने पर तो जीव प्राज्ञ ही हो जाता है, यह ( तत्त्वमसि ) इत्यादि श्रुति से समझाया जाता है, एवं प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है । अविद्यावत्त्व ( अविद्या की वर्तमानता ) से और अविद्या के अपगम ( निवृत्ति ) से आत्मवस्तु को कुछ विशेष ( भेद हानिलाभ ) नहीं होता है, इससे जीव के स्वरूप ब्रह्मरूपता आगन्तुक नहीं है । जैसे सन्तमस ( व्याप्तसमान अन्धकार ) में पड़ी हुई किसी रज्जु ( रस्सी ) को सर्प मान कर और उससे डरकर काँपता हुआ कोई भागता हो, और उसको अन्य कोई कहे कि मत डरो 'यह सर्प नहीं है यह तो रज्जु ही है' तो वह भागनेवाला उस वचन को सुनकर सर्पकृत भय, कम्प और भागना रूप क्रिया इन तीनों को त्याग देता है, परन्तु सर्पज्ञान काल में और उस ज्ञान के निवृत्तिकाल में रज्जुरूप वस्तु को कुछ विशेष नहीं होता है, वैसे यहाँ भी समझना चाहिये । इस प्रकार प्रश्न की एकता से ( न जायते म्रियते वा ) न जन्मता है न मरता है, इत्यादिक भी अस्तित्व प्रश्न का उत्तर है कि जन्मादि रहित होने से आत्मा सदा एक रस रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है इत्यादि । परन्तु जीव ब्रह्म के एक होने पर ( त्रयाणाम् ) यह सूत्र कैसे संगत हो सकता है, इस आशय से कहते हैं कि अविद्या से कल्पित जीव ब्रह्म के भेद की अपेक्षा से सूत्र की योजना ( वाक्यार्थ ) करना चाहिये । आत्मविषयक प्रश्न को एकत्व होते हुए भी मरणकाल में देह से भिन्न आत्मा के अस्तित्वमात्र के संशय होने से और कर्तृत्वादि संसार धर्म की अनिवृत्ति से प्रथम पर्याय ( प्रकार ) वाला प्रश्न को जीवविषयत्व की उत्प्रेक्षा ( बुद्धि ) की जाती है । धर्मादि के अत्यय ( अतिक्रमण ) के संकीर्तन से उत्तर पर्याय ( प्रकार ) को प्राज्ञविषयत्व की उत्प्रेक्षा की जाती है । जिससे अग्नि जीव और परमात्मा की कल्पना भी युक्त है । प्रधान की कल्पना में यह विषमता है कि न प्रधान विषयक वर प्रदान है, न प्रश्न है, न प्रतिवचन है ।

महद्रुच ॥ ७ ॥

यथा महच्छब्दः साङ्ख्यैः सत्तामात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वैदि-

केऽपि प्रयोगेऽभिधत्ते, 'बुद्धेरात्मा महान् परः' ( का० १।३।१० ), 'महान्तं विभुमात्मानम्' ( का० १।२।२२ ), 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्' ( श्वे० ३।८ ) इत्येवमादावात्मशब्दप्रयोगादिभ्यो हेतुभ्यः, तथाव्यक्तशब्दोऽपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमभिधातुमर्हति । अतश्च नास्त्यानुमानिकस्य शब्दवत्त्वम् ॥ ७ ॥

जैसे साख्यवादी लोग महत् शब्द को प्रथम उत्पन्न प्रकृति का प्रथम कार्य सत्तामात्र महत्त्व अर्थ ही मे प्रयोग करते हैं, वैदिक प्रयोग मे भी महत् शब्द से उस सत्तामात्र को नहीं कहा जाता है । इसलिए ( बुद्धि से महान् विभु आत्मा को मानकर धीर नहीं सोचता है । मैं इस महान् पुरुष को जानता हूँ ) इत्यादि वाक्यो मे जैसे आत्मशब्द प्रयोगादिरूप हेतुओं से समझा जाता है, वैसे ही अव्यक्त शब्द भी वैदिक प्रयोगो में प्रधान को नहीं कह सकता है, इससे सिद्ध हुआ कि आनुमानिक प्रधान को श्रुति शब्द से प्रतिपाद्यत्व नहीं है ।

### चमसाधिकरण ॥ २ ॥

अजा हि साङ्ख्यप्रकृतिस्तेजोऽब्रह्मात्मिकाऽथवा ।  
रज आदौ लोहितादिलक्ष्येऽसौ साङ्ख्यशास्त्रगा ॥  
लोहितादिप्रत्यभिज्ञा तेजोऽब्रह्मादलक्षणात् ।  
प्रकृति गमयेच्छ्रौतीमजाकलुसिमशुत्ववत् ॥

'चमस ऊर्ध्वबुद्धः' इस श्रुति मे कथित चमस के समान ( अजामेकम् ) इत्यादि श्रुति मे विशेष के ज्ञान नहीं होने से संशय होता है कि यह अजा साख्य की त्रिगुणात्मिका स्वतन्त्र प्रकृति है अथवा श्रुति कथित तेज, जल; अन्न ( भूमि ) रूप प्रकृति का वाचक ? पूर्वपक्ष है कि लोहितादि शब्दों के लक्ष्यरूप रजोगुणादि मे पठित वह साख्यशास्त्रगत अजा शब्द है । इससे साख्य की प्रकृति अजा है । सिद्धान्त है कि छान्दोग्य मे पठित तेज आदि की महां लोहितादि शब्दो से प्रत्यभिज्ञा होती है, जिससे तेज आदिरूप श्रुति सिद्ध प्रकृति का ही अजा शब्द बोध करता है । सूर्य मे मघु के समान तेज आदि-मे अजा की कल्पना होती है ।

### चमसवदविशेषात् ॥ ८ ॥

पुनरपि प्रधानवाचशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्धमित्याह, कस्मात् ? मन्त्रवर्णात्—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बद्धीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ( श्वे० ४।५ ) इति । अत्र हि मन्त्रे लोहितशुक्लकृष्णाशब्दै रजः सत्त्वतमांस्यभिधीयन्ते । लोहितं रजो रञ्जनात्मकत्वात्, शुक्लं सत्त्वं प्रकाशात्मकत्वात्, कृष्णं तम आवरणात्मकत्वात् । तेषां साम्यावस्थाऽवयवधर्मैर्व्यपदिश्यते लोहितशुक्लकृष्णोति । न जायत इति चाजा स्यात्, 'मूलप्रकृतिरविकृतिः' इत्यभ्युपगमात् । नन्वजाशब्दश्छागायां रूढः । बाढम् । सा तु रूढिरिह नाश्रयितुं शक्या,



विद्याप्रकरणात् । सा च बह्वीः प्रजास्त्रैगुण्यान्विता जनयति, तां प्रकृतिमज एकः पुरुषो जुषमाणः प्रीयमाणः सेवमानो वानुऽश्रोते । तामेवाविद्यात्म- त्वेनोपगम्य सुखी दुःखी मूढोऽहमित्यविवेकितया संसरति, अन्यः पुनरजः पुरुष उत्पन्नविवेकज्ञानो विरक्ता जहात्येना प्रकृतिं भुक्तभोगां कृतभोगापवर्गां परित्यजति मुच्यत इत्यर्थः । तस्माच्छ्रुतिमूलैव प्रधानादिकल्पना कापि- लानामिति ।

प्रधानवादी फिर भी कहता है कि प्रधान के अशब्दत्व की असिद्धि है, क्योंकि मन्त्रवर्ण से प्रधान सिद्ध होता है कि ( समानरूपवाली बहुत प्रजा को उत्पन्न करनेवाली रजःसत्त्वतमोगुणवाली एक अजा अनादि प्रकृति को सेवन करता हुआ एक अज पुरुष उसको भजता है, उसका अनुसरण करता है, और अन्य अज जिससे भोग मिला है ऐसी उस अजा को त्याग देता है ) । इस मन्त्र में लोहित शुक्लकृष्ण शब्दों से रजःसत्त्व- तम कहे जाते हैं । उनमें रजनात्मक होने से रजोगुण लोहित है । प्रकाशात्मक होने से सत्त्वगुण शुक्ल है । आवरणात्मक होने से तमोगुण कृष्ण है, उन गुणों की साम्यावस्था अवयव के धर्मों से लोहितशुक्लकृष्ण कही जाती है, और जन्मती नहीं है इससे अजा हो सकती है । एवं ऐसा अभ्युपगम ( स्वीकार ) भी किया गया है कि ( सबका मूलरूप जो प्रकृति है, वह किसी की विकृति कार्य नहीं है ) रूढियोग से प्रबल होती है इस आशय से यंका होती है कि अजा शब्द तो बकरा अर्थ में रूढ है, फिर प्रकृति का वाचक कैसे हो सकता है ? उत्तर है कि लोक में रूढि सत्य ही है परन्तु विद्या के प्रकरण होने से यहाँ उस रूढि का आश्रयण नहीं किया जा सकता है, और वह अजा प्रकृति सुख-दुःख मोहरूप त्रैगुण्य से युक्त बहुत महदादि कार्यरूप प्रजा को उत्पन्न करती है, उस अजा प्रकृति को एक अज पुरुष जुषमाण अर्थात् उसमें प्रेमयुक्त उससे प्रसन्नरूप प्रियमाण होता हुआ अथवा उसका सेवन करता हुआ अनुशयन करता है । अविद्या को उस अजा को ही आत्मारूप से समझकर और अविवेक से 'मैं सुखी-दुःखी मूढ हूँ' इस प्रकार समझता हुआ संसार चक्र में पडता है । और जिसको विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया है, वह अन्य विरक्त अजपुरुष, भुक्तभोगी अर्थात् जो भोग और भोग का सम्पादन कर चुकी है, ऐसी इस प्रकृति को सर्वथा त्याग करता है, अर्थात् मुक्त हो जाता है । यह उक्त श्रुति का अर्थ है, जिससे कपिल- मतानुयायियों की श्रुतिमूलक ही प्रधान की कल्पना है ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—नानेन मन्त्रेण श्रुतिमत्त्वं साङ्ख्यवादस्य शक्यमाश्रयितुम् । न ह्ययं मन्त्रः स्वातन्त्र्येण कश्चिदपि वादं समर्थयितुमुत्सहते । सर्वत्रापि यथा कयाचित्कल्पनयाऽजात्वादिसम्पादनोपपत्तेः, साङ्ख्यवाद एवेहाभिप्रेत इति विशेषावधारणकारणाभावात् । चमसवत् । यथाहि 'अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः' ( बृ० २।२।३ ) इत्यस्मिन्मन्त्रे स्वातन्त्र्येणायं नामासौ चमसोऽभिप्रेत इति न

शक्यते निरूपयितुम्, सर्वत्रापि यथाकथंचिद्वर्वाग्विलत्वादिकल्पनोपपत्तेः । एवमिहाप्यविशेषोऽजामेकामित्यस्य मन्त्रस्य, नास्मिन्मन्त्रे प्रधानमेवाजाभिप्रेतेति शक्यते नियन्तुम् ।

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि इस मन्त्र से सांख्यवाद को श्रुतिमत्त्व का आश्रयण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मन्त्र स्वतन्त्रतापूर्वक किसी भी वाद का समर्थन करने के लिए उत्साह नहीं करता है । और सर्वत्र ही जिस किसी कल्पना से अजात्वादि के सम्पादन की सिद्धि हो सकती है । सांख्यवाद ही यहाँ अभिप्रेत ( अभिप्राय का विषय ) है, इस विशेष के अवधारण ( निश्चय ) के कारण अभाव से यह चमस के समान है । जैसे कि ( अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न ) जिसके नीचे बिल है, ऊपर गोल है वह यज्ञपात्र चमस है । इस मन्त्र में यह वह प्रसिद्ध चमस अभिप्रेत है, इस प्रकार स्वतन्त्रता से निरूपण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्वत्र ही जिस किसी प्रकार में अर्वाग्विलत्वादि कल्पना की सिद्धि हो सकती है । इसी प्रकार यहाँ भी अजामेकाम् इस मन्त्र को अविशेषता है । इससे इस मन्त्र में प्रधान ही अभिप्रेत है, ऐसा नियम नहीं कर सकते हैं ।

तत्र तु 'इदं तच्छिर एष ह्यर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः' इति वाक्यशेषाश्चमस-विशेषप्रतिपत्तिर्भवति, इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति, अत्र ब्रूमः—

**ज्योतिरूपक्रमा तु यथा ह्यधीयत एके ॥ ९ ॥**

परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योतिःप्रमुखा तेजोबन्धलक्षणा चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या । तुशब्दोऽवधारणार्थः । भूतत्रयलक्षणैवेयमजा विज्ञेया न गुणत्रयलक्षणा । कस्मात् ? तथा ह्येके शास्त्रिनस्तेजोबन्धानां परमेश्वरादुत्पत्तिमान्नाय तेषामेव रोहितादिरूपतामामनन्ति—'यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूप यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य' इति । तान्येवेह तेजोबन्धानि प्रत्यभिज्ञायन्ते, रोहितादिशब्दसामान्यत्, रोहितादीनाञ्च शब्दानां रूपविशेषेषु मुख्यत्वाद्भाक्तत्वाच्च गुणविषयत्वस्य । असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते । तथेहापि 'ब्रह्मवादिनो वदन्ति, किकारणं ब्रह्म' ( श्वे० १।१ ) इत्युपक्रम्य 'ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगूढाम्' ( श्वे० १।२ ) इति पारमेश्वर्याः शक्तेः समस्तजगद्विधायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात् । वाक्य-शेषेऽपि 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्' इति । 'यो योनि योनिम-धितिष्ठत्येकः' ( श्वे० ४।१०, ११ ) इति च तस्या एवावगमात् स्वतन्त्रा काचित्प्रकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणान्नायत इति शक्यते वक्तुम् । प्रकरणान्तु सैव दैवी शक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयोः प्रागवस्थानेनापि मन्त्रेणान्नायत इत्युच्यते । तस्याश्च स्वविकारविषयेण त्रैरूप्येण त्रैरूप्यमुक्तम् ।

यहाँ जिज्ञासा होती है कि उस चमस विषयक तो वचन है कि ( यह शिर ही वह

चमस रूप है कि जिसमे मुख रूप नीचे बिल है और ऊपर गोल है ऐसा यह चमस है) इस वाक्य शेष रूप वचन मे चमस विशेष का ज्ञान हो जाता है, परन्तु यहाँ इस अजा से क्या समझना चाहिये ? तो यहाँ कहते है कि ज्योति जिसमे प्रमुख ( प्रथम ) है, ऐसा तेज जल, अन्न स्वरूप और अजादि चारो प्रकार के प्राणी समूह की जो प्रकृति ( जननी ) स्वरूप है, यही अजा जानने योग्य है, वह परमेश्वर से प्रथम उत्पन्न हुई है, इससे जन्म-रहित होने से अजा नहीं कहाती है । सूत्र मे 'तु' शब्द अवधारण ( निश्चय ) अर्थ मे है, इससे अर्थ है कि तेज, जल, अन्न स्वरूप ही यह अजा जानने योग्य है । रज सत्त्वादि तीन गुण स्वरूप इसे नहीं समझना चाहिये, क्योंकि एक शाखा वाले छान्दोग्य मे तेज, जल, अन्न की परमेश्वर से उत्पत्ति कह कर, उनकी ही रोहित ( लोहित ) आदि रूपता का कथन करते हैं कि ( जो अग्नि का रक्त रूप है, वह तेज का रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है, जो अग्नि का कृष्ण ( काला ) रूप है वह अन्न का है । रोहितादि शब्दो की तुल्यता से ( अजामेकाम् ) इस श्रुति मे उनकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है, और रोहितादि शब्दो को रूप विशेषो मे मुख्यत्व है, अर्थात् रूप विशेषो के ये वाचक हैं, इससे रूप वाले तेज आदि को लक्षणा से कह सकते हैं । एवं रजनीयत्वादि गुण योग से गुण विषयत्व भाक्त ( गौण ) है । भाक्त से मुख्य वृत्ति बली होती है । और सब शाखाओ का समन्वय होने से असन्दिग्ध शाखान्तर द्वारा सन्दिग्ध शाखान्तर का निगमन ( अवबोधन ) निश्चय करना न्याययुक्त मानते हैं । शाखान्तर के समान इस श्वेताश्वतर मे भी त्रिगुण प्रधान का बोधक प्रकरण नहीं है, क्योंकि ( ब्रह्मवादी लोग कहते है कि कारण रूप ब्रह्म कौन है ) इस प्रकार आरम्भ करके लिखा है कि ( उन ब्रह्मवादी लोगो ने ध्यान रूप योग से समाहित ब्रह्म मे प्रविष्ट होकर अपने गुणो से आवृत परमात्मा के आत्मस्वरूप शक्ति को देखा । अर्थात् उन्होने योग से परमात्मा की शक्ति को समझा ) इस प्रकार समस्त जगत् को सिद्ध उत्पन्न करने वाली परमेश्वर की शक्ति का वाक्य के आरम्भ मे ज्ञान होता है । वाक्यशेष मे भी ( माया को जगत् की प्रकृति जानो, माया को स्वाधीन रखने वाले को महेश्वर जानो ) और ( जो महेश्वर एक होता हुआ भी प्रकृति के अनन्त अंश रूप सब योनियो—कारणो का अधिष्ठाता है ) इन श्रुतियो से भी उसी शक्ति का ज्ञान होता है । इससे प्रधान नाम वाली स्वतन्त्र कोई प्रकृति अजा मन्त्र से कही जाती है, यह नहीं कह सकते हैं । और प्रकरण से अव्याकृत नाम रूप वाली नाम रूप की पूर्वावस्था रूप वही दैवी ( ईश्वरीय ) शक्ति ( अजाम् ) इस मन्त्र से भी कही जाती है, इस प्रकार कहा जाता है । एवं उसके विकारो के आश्रित रहने वाली जो त्रिरूपता है, अर्थात् तेज आदि मे जो त्रिरूपता है, उससे वह भी तीन रूप वाली कही जाती है ।

कथं पुनस्तेजोब्रह्मानां त्रैरूप्येण त्रिरूपाजा प्रतिपत्तुं शक्यते, यावता न तावत्तेजोब्रह्मैवजाकृतिरस्ति, न च तेजोब्रह्मानां जातिश्रवणादजातिनिमित्तोऽप्यजाशब्दः संभवतीति । अत उत्तरं पठति—

## कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥

नायमजाकृतिनिमित्तोऽजाशब्दः, नापि यौगिकः, किं तर्हि ? कल्पनोपदेशोऽयम्, अजारूपकक्लृप्तिस्तेजोबन्नलक्षणयाश्चराचरयोनेरुपदिश्यते । यथाहि लोके यदृच्छया काचिदजा रोहितशुक्लकृष्णवर्णा स्याद्बहुवर्करा सरूपवर्करा च, तां च कश्चिदजो जुषमाणोऽनुशयीत, कश्चिन्नानां भुक्तभोगां जह्यात्, एवमियमपि तेजोबन्नलक्षणा भूतप्रकृतिस्त्रिवर्णा बहु सरूपं चराचरलक्षणं विकारजातं जनयति, अविदुषा च क्षेत्रज्ञेनोपभुज्यते, विदुषा च परित्यज्यत इति । नचेदमाशङ्कितव्यम्—एकः क्षेत्रज्ञोऽनुशेतेऽन्यो जहातीत्यतः क्षेत्रज्ञभेदः पारमार्थिकः परेषामिष्टः प्राप्नोति—इति । नहीयं क्षेत्रज्ञभेदप्रतिपिपादयिषा किन्तु बन्धमोक्षव्यवस्थाप्रतिपिपादयिषा त्वेषा । प्रसिद्ध तु भेदमनूद्य बन्धमोक्षव्यवस्था प्रतिपाद्यते, भेदस्तूपाधिनिमित्तो मिथ्याज्ञानकल्पितो न पारमार्थिकः, 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिश्रुतिभ्यः । मध्वादिवत्, यथा आदित्यस्यामधुनो मधुत्वम् ( छां० ३।१ ), वाचश्चाधेनोर्धेनुत्वम् ( बृ० ५।८ ), शुलोकादीना चानग्नीनामग्नित्वत् ( बृ० ८।१।६ ) इत्येवंजातीयकं कल्प्यते, एवमिदमनजाया अजात्वं कल्प्यत इत्यर्थः, तस्मादविरोधस्तेजोबल्लेष्वजाशब्दप्रयोगस्य ।

यहाँ जिज्ञासा होती है कि तेज, जल, अन्न की त्रिरूपता से तीन रूप वाली तेज आदि स्वरूपा ही अजा कैसे समझी जा सकती है, जब कि तेज, जल और अन्न मे अजा की आकृति ( आकार जाति ) नहीं है । और श्रुति मे इनके जन्म का श्रवण से अजाति ( अनुत्पत्ति ) निमित्तक भी ( न जायत इति अजा ) न उत्पन्न हो वह अजा, इस प्रकार भी अजा शब्द के प्रयोग का इनमे सम्भव नहीं है । इससे सूत्रकार उत्तर पढते हैं कि—श्रुति मे यह अजा शब्द बकरा की आकृति निमित्तक रूढ नहीं है, न अजन्म निमित्तक यौगिक ही है, तो क्या कल्पना से यह उपदेश है ? चराचर की योनि ( कारण ) तेज, जल, भूमि की अजासदृशता की कल्पना का उपदेश दिया जाता है, जैसे लोक मे यदृच्छा ( दैवयोग ) से कोई बकरी लाल, श्वेत, कृष्ण रङ्ग वाली हो, बहुत बच्चों वाली हो । समान रूप युक्त बच्चों वाली हो । और कोई अज बच्चा बकरा उसमे प्रेम रख कर उसको सेवन करता हुआ उसके पीछे चले । एवं कोई अज बकरा उससे दूध भोगने के बाद उसको त्याग दे । इसी प्रकार यह भी तेज, जल, अन्न स्वरूप भूतो की प्रकृति तीन वर्णों वाली है, और समान रूप वाले चराचर स्वरूप बहुत विकार समूह को उत्पन्न करती है, तथा अज्ञ क्षेत्रज्ञ जीव से भोगी जाती है, ज्ञानी से सर्वथा त्यागी जाती है । अब इस कथन से यह शंका नहीं करना कि जब एक क्षेत्रज्ञ प्रकृति का सेवन करता हुआ उसके साथ सोता है, और अन्य उसको त्यागता है, तब तो अन्यवादी का इष्ट पारमार्थिक ( सत्य ) क्षेत्रज्ञ भेद की प्राप्ति हाती है । क्योंकि यह अजारूपक कल्पना क्षेत्रज्ञ के भेदों का प्रति-

पादन की इच्छा से नहीं की गई है, किन्तु बन्धमोक्ष की व्यवस्था के प्रतिपादन की इच्छा से यह कल्पना की गई है। यदि कहा जाय कि बन्धमोक्ष की व्यवस्था के लिये भी यदि वेद से भेद का प्रतिपादन हुआ तो वह वेदप्रतिपादित अर्थ सत्य होगा तो इसका समाधान है कि वेद से यहाँ भेद का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, किन्तु अन्य प्रमाणादि से प्रसिद्ध भेद का अनुवाद करके बन्धमोक्ष को व्यवस्थामात्र का यहाँ प्रतिपादन किया जाता है। एव वह भेद उपाधि निमित्तक मिथ्याज्ञान अत्रिवेकादि से कल्पित है, सत्य नहीं है, वह ( एकदेव सब भूतो मे छिपा है, सब मे व्यापक है, सब भूतो का अन्तरात्मा है ) इत्यादि श्रुतिवचन से सिद्ध होता है। वह अजा सादृश्य को कल्पना मधु आदि की कल्पना के समान है। जैसे कि मधु से भिन्न आदित्य की उपासना के लिए मधुरूप से कल्पना की जाती है। अधेनुवाक् की धेनुत्वरूप से कल्पना होती है, अग्निभिन्नद्युलोकादि की अग्निरूप से कल्पना होती है। एवं इस प्रकार की अन्य भी कल्पना की जाती है, इसी प्रकार यह अजाभिन्न की अजारूप से कल्पना की जाती है यह सूत्र का अर्थ है। इससे तेज, जल, अन्न मे अजाशब्द के प्रयोग को किसी से विरोध नहीं है।

### संख्योपसंग्रहाधिकरण ॥ ३ ॥

पञ्च पञ्चजनाः सांख्यतत्त्वान्याहोश्रुतीरिताः। प्राणाद्याः सांख्यतत्त्वानि पञ्चविंशतिभासनात् ॥  
 न पञ्चविंशतेर्भान्मात्माकाशातिरेकतः। संज्ञाः पञ्चजनेत्येषा प्राणाद्याः संज्ञिनः श्रुताः ॥  
 श्रुतिगत ( पञ्चपञ्चजन ) शब्द से सांख्यवादी के मान्य पचीस तत्त्व की संख्या का उपसंग्रह से भी सांख्यगत पदार्थ श्रुतिसम्मत नहीं समझे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पाँच पाँचे पचीस का ही बोध नहीं होता है, क्योंकि एक तो नानाभाव है, अर्थात् पाँच-पाँचमात्र मे अनुगत धर्म नहीं है। यद्यपि इन्द्रियादि मे अनुगत धर्म है, तथापि अव्यक्त अहङ्कार पुरुषादि पाँच मे अनुगत धर्म नहीं है। और आकाश तथा आत्मा से अधिक संख्या की प्राप्ति होती है। यहाँ संशय होता है कि पञ्चपञ्चजन सांख्य कथित तत्त्व हैं, अथवा श्रुति कथित प्राणादि है ? पूर्वपक्ष है कि पचीस संख्या की प्रतीति होने से सांख्य के तत्त्व ही पञ्चपञ्चजन हैं। सिद्धान्त है कि आत्मा आकाश के अतिरिक्त कथन से पचीस का ज्ञान श्रुति मे नहीं होना है, इससे पञ्चजन यह सज्ञा है और प्राणादि संज्ञी हैं, उनकी ही यहाँ प्रतीति होती है।

### न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ११ ॥

एवं परिहृतेऽप्यजामन्त्रे पुनरन्यस्मान्मन्त्रात्सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते ।

यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः ।

तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्ब्राह्मामृतोऽमृतम् ॥ (बृ० ४।४।१७) इति ।

अस्मिन्मन्त्रे पञ्च पञ्चजना इति पञ्चसंख्याविषयाऽपरा पञ्चसंख्या श्रूयते पञ्चशब्दद्वयदर्शानात् । त एते पञ्चपञ्चकाः पञ्चविंशतिः संपद्यन्ते । तथा

पञ्चविंशतिसंख्यया यावन्तः संख्येया आकाङ्क्षन्ते तावन्त्येव च तत्त्वानि सांख्यैः संख्यायन्ते—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ ( सांख्यका० ४ )

इति । तथा श्रुतिप्रसिद्धया पञ्चविंशतिसंख्यया तेषां स्मृतिप्रसिद्धानां पञ्चविंशतितत्त्वानामुपसंग्रहात्प्राप्तं पुनः श्रुतिमत्त्वमेव प्रधानादीनाम् ।

इस पूर्ववर्णित रीति से अजापदयुक्त मन्त्र से सांख्यवाद का परिहार ( निवारण ) करने पर भी फिर भी अन्य मन्त्र के बल से सांख्यवादी प्रतिपक्षी होते हुए शका करते हैं कि ( जिस आत्मा में प्राण, चक्षुः, श्रोत्र, अन्न, मन रूप पाँच पञ्चजन नाम वाले स्थिर हैं, जिनमें अन्न विराट् रूप है और चार सूत्रात्मा रूप हैं, उनके कारणरूप आकाश ( अव्यक्त ) जिसमें स्थिर है, उस आत्मा को मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ, उसके मनन से विद्वान् मैं अमृत हूँ ) इस मन्त्र में, पञ्च 'पञ्चजना' इस प्रकार दो पञ्चशब्द के देखने से एक पञ्चसंख्याविषयक दूसरे सख्येय परक हैं, ये पाँच पञ्चक मिलकर पचीस सिद्ध होते हैं । और उस पचीस संख्या से जितनी सख्येय ( संख्यावाली ) वस्तु की आकाशा होती है उतने ही तत्त्व सांख्यवादियों से कहे और गिने जाते हैं ( सब का परमूल रूप प्रकृति ( कारण प्रधान ) किसी की विकृति ( कार्य ) नहीं है, और महत्तत्त्व, अहंकार, पाँच तन्मात्रा ये सात महदादि प्रकृति और विकृति ( कार्य—उभयस्वरूप हैं ) उनमें महत्तत्त्व प्रधान का कार्य है, और अहंकार का कारण । अहंकार तामस रूप से शब्दादि तन्मात्राओं का कारण है । सात्त्विक अहंकार ग्यारह इन्द्रियों का कारण है । पञ्चतन्मात्रार्थे पञ्चमहाभूतो के क्रम से कारण हैं, और पञ्चमहाभूत तथा ग्यारह इन्द्रियाँ केवल विकार ( कार्य ) स्वरूप हैं, किसी तत्त्वान्तर के कारण नहीं हैं, पुरुष एवं आत्मा प्रकृति-विकृति से विलक्षण ( उदासीन ) है । उक्त उस श्रुतिप्रसिद्ध पचीस संख्या से स्मृतिप्रसिद्ध उन पचीस तत्त्वों का उपसंग्रह ( ज्ञान ) होने से फिर भी प्रधानादि को श्रुतिमत्त्व ( वेदप्रतिपाद्यत्व ) ही प्राप्त होता है ।

ततो ब्रूमः—न संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्रुतिमत्त्वं प्रत्याशा कर्तव्या । कस्मात् ? नानाभावात् । नाना होतानि पञ्चविंशतिस्तत्त्वानि, नैषां पञ्चशः पञ्चशः साधारणो धर्मोऽस्ति, येन पञ्चविंशतेरन्तराले पराः पञ्च पञ्च संख्या निविशेरन्, नह्येकनिबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु द्वित्वादिकाः संख्या निविशन्ते । अथोच्येत—पञ्चविंशतिसंख्यैवेयमवयवद्वारेण लक्ष्यते, यथा 'पञ्च सप्त च वर्षाणि न वर्षं शतक्रतुः' इति, द्वादशवार्षिकीमनावृष्टि कथयन्ति तद्वन्—इति । तदपि नोपपद्यते । अयमेवास्मिन् पक्षे दोषो यल्लक्षणाश्रयणीया स्यात् । परञ्चात्र पञ्चशब्दो जनशब्देन समस्तः पञ्चजना

इति, पारिभाषिकेण स्वरेणैकपदत्वानिश्चयात् । प्रयोगान्तरे च 'पञ्चानां त्वा पञ्चजनानाम्' ( तै० १।६।१२ ) इत्यैकपदैकस्वर्यैकविभक्तिकत्वावगमात् । समस्तत्वाच्च न वीप्सा पञ्च पञ्चेति । नच पञ्चकद्वयग्रहणं पञ्चपञ्चेति । नच पञ्चसंख्याया एकस्याः पञ्चसंख्यया परया विशेषणं पञ्चपञ्चका इति, उपसर्जनस्य विशेषणेनासंयोगात् । नन्वापन्नपञ्चसंख्याका जना एव पुनः पञ्चसंख्यया विशेष्यमाणाः पञ्चविंशतिः प्रत्येष्यन्ते । यथा पञ्च पञ्चपूल्य इति पञ्चविंशतिः पूलाः प्रतीयन्ते तद्वत् । नेति ब्रूमः । युक्ते यत्पञ्चपूलीशब्दस्य समाहारामिप्रायत्वात्कतीति सत्यां भेदाकाङ्क्षायां पञ्च पञ्चपूल्य इति विशेषणम्, इह तु पञ्चजना इत्यादित एव भेदोपादानात्कतीयसत्यां भेदाकाङ्क्षायां न पञ्च पञ्चजना इति विशेषणं भवेत् । भवदपीदं विशेषणं पञ्चसंख्याया एव भवेत्, तत्र चोक्तो दोषः । तस्मात्पञ्चजना इति न पञ्चविंशति-तत्त्वाभिप्रायम् ।

उससे कहते हैं—कि संख्या के उपसंग्रह से भी प्रधानादि के श्रुतिप्रतिपाद्यत्व के प्रति आशा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि वह आशा की अकतन्व्यता नानाभाव से सिद्ध होती है । जिससे ये साख्योक्त पचीस तत्त्व नाना ( पृथक्-पृथक् ) है । इनके पञ्च-पञ्च मे इतर से व्यावृत्त साधारण धर्म नहीं हैं । यद्यपि ज्ञानकरणात्त्व, कर्मकरणात्त्व, स्थूलभूत-प्रकृतत्व तीन पचक मे साधारण मिल सकते है, तथापि साधारण धर्मयुक्त अन्य दो पञ्चक सिद्ध नहीं-होते हैं, कि जिस धर्म से पचीस के अन्तर मे अन्य पाँच-पाँच सख्या का निवेश हो । क्योंकि किसी एकनिबन्धन संग्राहक हेतु धर्म के बिना नानास्वरूप पदार्थ में द्वित्वादि सख्या का निवेश ( प्रवेश ) नहीं होता है । अर्थात् ( दो अश्वी हैं, सात ऋषि हैं, आठ वसु हैं ), जो सप्तदश हैं, इस प्रकार महासख्या मे द्वित्वादि सख्या का प्रवेश होता है, अन्यथा नहीं । यदि साख्यवादी कहे कि महासख्या के अन्दर अल्प सख्या के निवेश की यहाँ चर्चा ही नहीं है, किन्तु जैसे ( पाँच और सात वर्ष इन्द्र नहीं बरसा ) इस वाक्य से बारह वर्ष की अनावृष्टि कहते हैं, वहाँ पाँच और सात पद स्ववाच्यसंख्या का व्यापक बारह सख्या का लक्षणा से बोधक होते हैं । वैसे ही पाँच-पाँच अवयव ( एकदेश ) की संख्या द्वारा पचीस संख्या लक्षित ( लक्षणा से बोधित ) होती है, तो वह कहना भी नहीं बन सकता है, क्योंकि इस पक्ष मे प्रथम तो यही दोष है जो लक्षणा का आश्रय करना पडता है, और यहाँ उत्तर का पञ्चशब्द जन पद के साथ समस्त होकर ( मिलकर ) पञ्चजनाः यह एकपद हो गया है, और उस एकपदत्व का पारिभाषिक स्वर से निश्चय होता है । अर्थात् यहाँ पञ्चजनशब्द में ( समासस्य ) इस सूत्र से उदात्त स्वर अन्तविहित हुआ है । 'अनुदात्तं पदमेकवर्जम्' इस सूत्र से अन्त्य से भिन्न को अनुदात्त हुआ है, और इसी प्रकार के पारिभाषिक स्वर से एकपदत्व समझा जाता है । एवं ( हे आज्य पाँच पञ्चजन नामक देव के

लिए मैं तेरा ग्रहण करता हूँ) यहाँ प्रयोगान्तर में भी एकपदता, एकस्वरता, एक विभक्तिकत्वरूप समास के चिह्न-लिंग अवगत होते हैं। समस्त होने ही से पञ्च-पञ्च यह वीप्सा (व्याप्ति इच्छा अर्थ में द्वित्व) नहीं है। और पञ्च-पञ्च इस प्रकार दो पञ्चक का ग्रहण भी नहीं है, ऐसा होने से दशसंख्या की ही प्रतीति होगी। और पूर्व की एक पञ्चसंख्या का परवर्ती पञ्चसंख्या के साथ विशेषणता रूप सम्बन्ध भी नहीं है कि पाँच पञ्चक हैं। क्योंकि पञ्चजन मे जो पञ्च है, वह उपसर्जन (गौरव) है, और जन प्रधान है। उपसर्जन का विशेषण के साथ सम्बन्ध नहीं होता है, यह नियम है। यदि कहा जाय कि पञ्चत्व को प्राप्त जन अर्थात् पाँच संख्याविशिष्ट जन को फिर पाँच संख्या से अन्वय होने पर दो बार पाँच से विशिष्ट होने के कारण जनशब्द ही पचीस संख्या का बोध करायेगा, क्योंकि पञ्चजन का विशेषण होता हुआ पञ्च, पञ्चजन के विशेषण पञ्च का भी विशेषण होगा, इससे पचीस संख्या की प्रतीति होगी, जैसे कि पञ्चपूली पाँच हैं, ऐसा कहने से पचीस पूलो का बोध होता है, वहाँ कहते हैं कि (पाँच पञ्चपूली) के समान (पाँच पञ्चजन) पचीस संख्या का बोध नहीं करा सकता है, क्योंकि पञ्चपूली शब्द मे समाहार (समूह) का अभिप्राय होने से, अर्थात् समाहार अर्थ मे समास होने से समूह मे एकत्व की प्रतीति के बाद फिर आकांक्षा होती है कि पञ्चपूली कितनी है, वहाँ पञ्च विशेषण उचित है। और यहाँ पञ्चजन मे तो प्रथम से ही भेद का ग्रहण होने से कितने हैं इस प्रकार के भेद की आकांक्षा होने पर पञ्च पञ्चजन हैं, इस प्रकार विशेष्य-विशेषणभाव नहीं हो सकता है, अर्थात् पाँच जन हैं, ऐसा ज्ञान होने पर कितने हैं, ऐसी आकांक्षा ही नहीं होती है कि जिससे फिर पञ्च विशेषण का सम्बन्ध हो सके। यदि कहा जाय कि जन निराकाक्ष है, इससे उसके साथ पञ्च विशेषण का सम्बन्ध हो नहीं सकता, तो उसके विशेषण पञ्चत्व का विशेषण हो सकता है, क्योंकि पञ्चत्व कितने हैं, ऐसी आकांक्षा हो सकती है। वहाँ कहा जाता है कि इस रीति से विशेषण होता हुआ भी यह विशेषण जनगत पञ्चसंख्या ही का होगा। परन्तु इस पक्ष मे भी प्रथम दोष कहा जा चुका है कि उपसर्जन का विशेषण से सम्बन्ध नहीं होता है, प्रधान के साथ ही विशेषण सम्बद्ध होता है इत्यादि, उससे, पञ्च पञ्चजनाः, यह शब्द पचीस तत्त्व के अभिप्राय से नहीं है।

अतिरेकाच्च न पञ्चविंशतितत्त्वाभिप्रायम्। अतिरेको हि भवत्यात्माकाशाभ्यां पञ्चविंशतिसंख्यायाः। आत्मा तावदिह प्रतिष्ठां प्रत्याधारत्वेन निर्दिष्टः, यस्मिन्निति सप्तमीसूचितस्य 'तमेव मन्य आत्मानम्' इत्यात्मत्वेनालुकर्षणात्। आत्मा च चेतनः पुरुषः, स च पञ्चविंशतावन्तर्गत एवेति न तस्यैवाधारत्वमाघेयत्वं च युज्यते। अर्थान्तरपरिग्रहे च तत्त्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः प्रसज्येत। तथा 'आकाशश्च प्रतिष्ठितः' इत्याकाशस्यापि पञ्चविंशतावन्तर्गतस्य



न पृथगुपादानं न्याय्यम् । अर्थान्तरपरिग्रहे चोक्तं दूषणम् । कथं च संख्यामा-  
त्रश्रवणे सत्यश्रुतानां पञ्चविंशतितत्त्वानामुपसंग्रहः प्रतीयेत, जनशब्दस्य  
तत्त्वेष्वरूढत्वात्, अर्थान्तरोपसंग्रहेऽपि संख्योपपत्तेः । कथं तर्हि पञ्च पञ्चजना  
इति ? उच्यते—‘द्विक्संख्ये संज्ञायाम्’ ( पा० सू० २।१।५० ) इति विशेषस्म-  
रणात्संज्ञायामेव पञ्चशब्दस्य जनशब्देन समासः, ततश्च रूढत्वाभिप्रायेणैव  
केचित्पञ्चजना नाम विवक्ष्यन्ते न सांख्यतत्त्वाभिप्रायेण, ते कतीत्यस्यामाका-  
श्यां पुनः पञ्चेति प्रयुज्यते । पञ्चजना नाम ये केचित्ते च पञ्चैवेत्यर्थः ।  
सप्तर्षयः सन्ति यथा ।

संख्या की अधिकता से भी यह पद पचीस तत्त्वविषयक अभिप्राय वाला नहीं  
है, जिससे आत्मा और आकाश द्वारा पचीस संख्या से अधिक संख्या की सिद्धि हो,  
क्योंकि आत्मा तो यहाँ प्रतिष्ठा ( स्थिति ) के प्रति आधार रूप से कहा गया है,  
जिससे ( तस्मिन् ) इस सप्तमी-विभक्तियुक्त पद से सूचित का ही ( उसी आत्मा को  
मानता हूँ ) यहाँ आत्मरूप से अनुकर्षण सम्बन्ध होता है इससे आत्मा ही आधार  
रूप कहा गया है, और वह आत्मा चेतन पुरुष है, वह पचीस तत्त्व के अन्तर्गत  
ही है, इससे उसी को आधारत्व ( आश्रयत्व ) और आधेयत्व ( आश्रितत्व ) दोनों  
प्राप्त हैं, वह युक्त नहीं है । इसी प्रकार आकाश भी उसमें प्रतिष्ठित—स्थिर है, इस  
प्रकार पचीस के अन्तर्गत आकाश का भी पृथक् ग्रहण न्याय्य ( युक्त ) नहीं है, और  
उक्त आधार एव आकाश को पचीस से भिन्न अर्थान्तर स्वीकार करो तो दोष कहा  
गया है कि अधिक संख्या हो जाती है । यहाँ पचीस संख्या की सिद्धि मानने से  
संख्यामात्र के श्रवण होने पर भी अश्रुत-अपठित पचीस तत्त्वों का उपसंग्रह  
( ग्रहण ) कैसे प्रतीत हो सकता है । यदि जनशब्द से तत्त्वों का ग्रहण कहा जाय तो  
वह नहीं बन सकता है, क्योंकि जनशब्द तत्त्वों में रूढ नहीं है । यदि संख्या के बल से  
तत्त्वों का ग्रहण कहा जाय तो वह भी नहीं बन सकता है, क्योंकि अर्थान्तर के ग्रहण  
करने पर भी कथित संख्या की सिद्धि होती है । जिज्ञासा हुई की जिस अर्थान्तर के  
ग्रहण से संख्या की सिद्धि होती है, वह पदार्थान्तर पञ्चजन कैसे है ? तो कहा जाता  
है कि—( दिशा और संख्यावाचक शब्दों का सज्ञा अर्थ में उत्तर सुबन्त के साथ  
समास होता है ) समास-विधायक इस प्रकार के विशेष सूत्र में सज्ञा अर्थ में ही  
पञ्चशब्द का जन पद के साथ समास ( एकता ) है । उससे रूढ़ता के ही तात्पर्य से  
कोई पदार्थ ‘पञ्चजना.’ नाम से विवक्षित है सांख्य के तत्त्वों के अभिप्राय से कुछ भी  
विवक्षित नहीं है । वे पञ्चजन नाम वाले कितने हैं ? इस आकाशा के होने पर फिर  
इस का प्रयोग होता है कि ‘पञ्चजन’ नाम वाले जो कोई पदार्थ है, व पाँच ही  
हैं, यह अर्थ जैसे कि ‘सप्तर्षि’ नाम वाले सात हैं, इस प्रयोग में होता है, वैसे ही  
यहाँ भी पञ्चजना चाहिये ।

के पुनस्ते पञ्चजना नामेति, तदुच्यते—

प्राणादयो वाक्यशेषात् ॥ १२ ॥

‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजनाः’ इत्यत उत्तरस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय प्राणादयः पञ्च निर्दिष्टाः—‘प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्र-मन्नस्यान्न मनसो ये मनो विदुः’ इति । तेऽत्र वाक्यशेषगताः संनिधानात् पञ्चजना विवक्ष्यन्ते । कथं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः ? तत्त्वेषु वा कथं जनशब्दप्रयोगः ? समाने तु प्रसिद्धयतिक्रमे वाक्यशेषवशात् प्राणादय एव ग्रहीतव्या भवन्ति, जनसंबन्धाच्च प्राणादयो जनशब्दभाजो भवन्ति । जनवचनश्च पुरुषशब्दः प्राणेषु प्रयुक्तः ‘ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः’ ( छां० ३।१३।६ ) इत्यत्र, ‘प्राणो ह पिता प्राणो ह माता’ ( छां० ७।१५।१ ) इत्यादि च ब्राह्मणम् । समासबलाच्च समुदायस्य रूढत्वमविरुद्धम् । कथं पुनरसति पथमप्रयोगे रूढिः शक्याश्रयितुम् ? शक्योद्भिदादिवदित्याह— प्रसिद्धार्थसंनिधाने ह्यप्रसिद्धार्थः शब्दः प्रयुज्यमानः समभिव्याहारात्तद्विषयो नियम्यते, यथा ‘उद्भिदा यजेत’ ‘यूपं छिनत्ति’ ‘वेदीं करोति’ इति, तथाऽयमपि पञ्चजनशब्दः समासान्वाख्यानादवगतसंज्ञाभावः संज्ञाकाङ्क्षी वाक्यशेष-समभिव्याहृतेषु प्राणादिषु वर्तिष्यते । कैश्चित्तु देवाः पितरो गन्धर्वा असुरा रक्षांसि च पञ्च पञ्चजना व्याख्याताः । अन्यैश्च चत्वारो वर्णा निषादपञ्चमाः परिगृहीताः । क्वचिच्च ‘यत्पाञ्चजन्यया विशा’ ( ऋ० सं० ८।५।३।७ ) इति प्रजापरः प्रयोगः पञ्चजनशब्दस्य दृश्यते, तत्परिग्रहेऽपीह न कश्चिद्विरोधः । आचार्यस्तु न पञ्चविंशतेस्तत्त्वानामिह प्रतीतिरस्तीत्येवंपरतया ‘प्राणादयो वाक्यशेषात्’ इति जगाद ।

फिर वे पञ्चजन नाम वाले कौन हैं ? ऐसी आकाक्षा होने पर वे कहते हैं कि— ( जिसमे पाँच पञ्चजन है ) इसके उत्तर मन्त्र मे ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण के लिए प्राणादि पाँच कहे गये हैं कि (प्राण का भी प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का अन्न और मन मन को जो जानते हैं अर्थात् प्राणादि का साक्षी आत्मा को जो जानते हैं, वह ब्रह्म को जानते हैं ) वे वाक्यशेषगत प्राणादि यहाँ समीपता द्वारा पञ्चजन शब्द से विवक्षित हैं । यहाँ शंका होती है कि संज्ञा अर्थ मे समास होने पर भी मनुष्य जाति के पुरुष का नाम पञ्चजन शब्द है, तो फिर यहाँ प्राणादि अर्थ मे ( जनशब्द ) याने पञ्चजन शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है ? यह साख्यवादी का प्रश्न है । सिद्धान्ती का कथन है कि आपके मत मे अथवा तत्त्वो मे ही कैसे ( जनशब्द ) पञ्चजनशब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि तत्त्वों का वाचक भी पञ्चजन शब्द नहीं है, और जिस जन अर्थ मे पञ्चजनशब्द रूढ है, प्रसंग के अनुसार उसका ग्रहण ही नहीं सकता है, इससे चाहे तत्त्वो का ग्रहण करो वा प्राणादि का, प्रसिद्धि ( रूढि ) का अतिक्रमण

तुल्य होता है, अर्थात् लाक्षणिक प्रयोग मानना पड़ता है। वहाँ वाक्यशेष के बल से प्राणादिक ही ग्रहण के योग्य होते हैं, और जन (पञ्चजन) के साथ सम्बन्ध से भी प्राणादि जनशब्द (पञ्चजनशब्द) के भागी (योग्य) होते हैं। एवं जनवाचक पुरुषशब्द अन्यत्र प्राणो मे प्रयुक्त है कि (वे प्राण ही ये पाँच ब्रह्म के पुरुष हैं) यहाँ प्राणो में पुरुष शब्द का प्रयोग है। इसी प्रकार (प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है) इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थ है। समास के बल से समुदाय को जन अर्थ में रूढता अविरोध है, इससे योगादि द्वारा तत्त्वो का वाचक नहीं हो सकता है। यद्यपि अमरकोश मे (पुमासः पञ्चजनाः) यह प्रयोग है, तथापि लोक मे अति प्रसिद्धि के अभाव की दृष्टि से शंका है कि प्रथमप्रयोग के नहीं रहने पर भी रूढ कैसे मानी जा सकती है? उत्तर है कि उद्भिदादि के समान रूढि का आश्रयण स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि प्रथम पञ्चजनशब्द की लक्षणा प्राणादि मे कही गई है, तथापि अब उद्भिद् के समान रूढि कही जाती है कि प्रसिद्धार्थक शब्द के सम्बन्ध-सामीप्य रहते प्रयुक्त अप्रसिद्धार्थक शब्द-समभिव्याहार (साथ पाठ) से तद्विषयक नियमित (रूढ) होता है जैसे कि (उद्भिद् द्वारा पशु की इच्छा वाला यज्ञ से पशु की प्राप्ति करे) यहाँ संशय होता है कि उद्भिद् पद किसी विधेय गुण का वाचक है या याग का नाम है? वहाँ भूमि को उद्भेदन करने वाले खनती आदि मे प्रसिद्धि से गुणविधि के प्राप्त होने पर सिद्धान्त होता है कि—प्रसिद्धार्थक याग के साथ समानाधिकरण्यात् से याग का नाम है कि (उद्भिदानामकेन यागेन पशुं सम्पादयेत्) उद्भिद् नाम वाला याग से पशु को सिद्ध करे—प्राप्त करे। और फल का उद्भेदन—साधन होने से याग उद्भिद् कहाता है। तथा (यूप का छेदन करता है) इस वाक्य मे प्रसिद्धार्थ छेदन के साथ पाठ से अप्रसिद्धार्थक यूप शब्द का लकड़ी अर्थ समझा जाता है (वेद बना कर वेदी बनाता है) यहाँ बनाना क्रिया के सम्बन्ध से उसके योग्य स्थान का बोध होता है। वेदी के सम्बन्ध से उसके आच्छादनयोग्य दर्भमुष्टि का वेद शब्द से बोध होता है। इसी प्रकार यह पञ्चजनशब्द भी समास के अन्वाख्यान (शक्ति) से सज्ञाभाव (सज्ञात्व) को अवगत (ज्ञात—प्राप्त) होने पर सज्ञी की आकांक्षा वाला होकर वाक्यशेष मे समभिव्याहृत (पठित) प्राणो मे रहेगा। अर्थात् प्रसिद्धार्थक प्राणादिशब्द के समभिव्याहार से प्राणादिवाचकता पञ्चजनशब्द को निश्चित होती है। किसी आचार्य ने देव, पितर, गन्धर्व, असुर, राक्षस इनको पञ्चजन कहा है। अन्य किसी ने चार वर्गों और पञ्चम निषाद को पञ्चजनशब्द से ग्रहण किया है। और कही (जो पाञ्चजन्या प्रजारूप विश से इन्द्र की स्तुति के लिए शब्द हुआ) प्रजापरक पञ्चजन शब्द का प्रयोग देखा जाता है, उसका ग्रहण करने पर भी यहाँ कोई विरोध नहीं है, आचार्य तो पचीस तत्त्व की प्रतीति यहाँ नहीं है, इस अर्थ के तात्पर्य से (प्राणादयो वाक्यशेषात्) यह कहते हैं।

भवेयुस्तावत् प्राणादयः पञ्चजना माध्यन्दिनानां, येऽन्नं प्राणादिष्वाम-  
नन्ति । काष्णानां तु कथं प्राणादयः पञ्चजना भवेयुर्येऽन्नं प्राणादिषु नाऽऽम-  
नन्तीति । अत उत्तरं पठति—

### ज्योतिषैकेषामसत्यन्ने ॥ १३ ॥

असत्यपि काष्णानामन्ने ज्योतिषा तेषां पञ्चसंख्या पूर्येत । तेऽपि हि  
‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजनाः’ इत्यतः पूर्वस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणायैव  
ज्योतिरधीयते—‘तद्देवा ज्योतिषा ज्योतिः’ इति । कथं पुनरुभयेषामपि तुल्य-  
वदिदं ज्योतिः पठ्यमानं समानमन्त्रगतया पञ्चसंख्यया केषांचिद् गृह्यते  
केषांचिन्नेति ? अपेक्षाभेदादित्याह । माध्यन्दिनानां हि समानमन्त्रपठितप्राणा-  
दिपञ्चजनलाभान्नास्मिन् मन्त्रान्तरपठिते ज्योतिष्यपेक्षा भवति । तदलाभान्तु  
काष्णानां भवत्यपेक्षा अपेक्षाभेदाच्च समानेऽपि मन्त्रे ज्योतिषो ग्रहणा-  
ग्रहणे तथा समानेऽध्यनिरात्रे वचनभेदात् षोडशिनो ग्रहणाग्रहणे तद्वत् ।  
तदेवं न तावच्छ्रुतिप्रसिद्धिः काचिन् प्रधानविषयास्ति, स्मृतिन्यायप्रसिद्धी  
तु परिहरिष्येते ।

यहाँ शका होती है कि जो माध्यन्दिन शाखा वाले प्राणादि मे अन्न को पढते है,  
उनके यहाँ प्राणादि पञ्चजन हो सकते हैं, परन्तु जो कारव शाखा वाले प्राणादि मे अन्न  
को नही पढते हैं, उनको प्राणादि कैसे पञ्चजन होंगे, इस शका के होने से उत्तर कहते  
हैं कि—कारव शाखा वालो के ग्रन्थ मे अन्न के पाठ नही रहते हुए भी पठित ज्योतिः  
से उन्हें पञ्च सख्या की पूर्णता होगी । क्योंकि वे कारव शाखा वाले भी ( जिसमे पाँच  
पञ्चजन है ) इससे पूर्वमन्त्र मे ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण के लिये ही ज्योतिः का  
अध्ययन ( पाठ ) करते हैं कि ( सूर्यादि ज्योतियो की ज्योति उस ब्रह्म की उपासना  
देव करते हैं ) यहाँ शका होती है कि माध्यन्दिन शाखा वाले और कारव शाखा वाले  
दोनों की शाखा मे यह ज्योति शब्द तुल्यतायुक्त पठित है, फिर भी समान ( एक )  
मन्त्रगत पञ्च संख्या से एक शाखा मे ज्योति गृहीत होती है, और किसी अन्य की  
शाखा मे क्यो नही गृहीत होती है ? उत्तर है कि अपेक्षा ( आकाक्षा ) के भेद से यह  
भेद होता है, जिससे माध्यन्दिनो को एक मन्त्र मे पठित प्राणादि पञ्चजन के लाभ से ।  
इस मन्त्रान्तर मे पठित ज्योतिविषयक उनकी आकाक्षा नही है, और अन्न के अभाव  
द्वारा पञ्चजन के एक मन्त्र मे अलाभ ( अप्राप्ति ) से कारणो की अपेक्षा होती है ।  
और अपेक्षा के भेद से एक मन्त्र में भी ज्योति का ग्रहण तथा अग्रहण होते है जैसे कि  
एक अतिरात्र नामक याग मे भी वचन के भेद से षोडशि नामक पात्र का ग्रहण और  
अग्रहण होता है, वैसे ही यहाँ भी ज्योति के ग्रहणाग्रहण को समझना चाहिये । उसमे  
इस पूर्ववर्णित रीति से प्रधानविषयक कोई श्रुति-प्रसिद्धि नही है, यह बात पहले  
सिद्ध हुई, स्मृति और न्याय प्रसिद्धि का परिहार आगे करेगे ।

### कारणत्वाधिकरण ॥ ४ ॥

समन्वयो जगद्योनौ न युक्तो युज्यतेऽथवा । न युक्तो वेदवाक्येषु पस्परविरोधतः ॥  
सर्वाक्रमविवादेऽपि नासौ स्रष्टरि विद्यते । अव्याकृतमसत्प्रोक्त युक्तोऽसौ कारणे तन ॥  
जिस प्रकार एक वेदान्त मे ईश्वर कारणत्वेन व्यपदिष्ट ( कथित ) हुआ है, वैसे ही सर्वत्र की उक्ति से आकाशादि कार्यों मे विरोध होने पर भी ब्रह्मात्मा ईश्वर मे वेदान्त का समन्वय है । यहाँ पहले सशय होता है कि जगद्योनिविषयक पूर्वोक्त समन्वय युक्त है, अथवा अयुक्त ? पूर्व पक्ष है कि वेदवाक्यों मे विरोध होने से परस्पर विरुद्धार्थ कथन से समन्वय युक्त नहीं है । सिद्धान्त है कि सृष्टि के क्रमविषयक वेदवचन मे विरोध होने पर भी वह विरोध स्रष्टा ( सृष्टिकर्ता ) विषयक नहीं है । य'द कोई कहे कि कही असत् से सृष्टि कही गई है इससे स्रष्टा मे भी विरोध है, तो वह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ भी अव्याकृत ( अव्यक्त ) सत् कारण को ही असत् कहा गया है, इससे कारणविषयक समन्वय युक्त है ।

### कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥ १४ ॥

प्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणम् । प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानाम् । प्रतिपादितं च प्रधानस्याऽशब्दत्वम् । तत्रेदमपरमाशङ्क्यते—न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपत्तुं शक्यम् । कस्मात् ? विगानदर्शनात्, प्रतिवेदान्तं ह्यन्याऽन्या सृष्टिरूपलभ्यते क्रमादिवैचित्र्यात् । तथाहि—कचित् 'आत्मन आकाशः संभूतः' ( तै० २।१ ) इत्याकाशादिका सृष्टिरान्नायते । कचित् तेजआदिका—'तत्तेजोऽसृजत' ( छां० ६।२।३ ) इति, कचित् प्राणादिका—'स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धाम्' ( प्र० ६।४ ) इति, कचिदक्रमेणैव लोकानामुत्पत्तिरान्नायते—'स इमाँल्लोकानसृजत अम्भो मरीचीर्मरमापः' ( ए० ७० ४।१।२ ) इति, तथा कचिदसत्पूर्विका सृष्टिः पठ्यते—'असद्वा इदमग्र आसीत्ततो वै सदजायत' ( तै० २।७ ) इति, 'असदेवेदमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्' ( छां० ३।१६।१ ) इति च । कचिदसद्वादनिराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते—'तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्' इत्युपक्रम्य 'कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सजायेतेति, 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' ( छां० ६।२।१, २ ) इति, कचित्स्वयं कर्तृकैव व्याक्रिया जगतो निगद्यते—'तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत' ( बृ० १।४।७ ) इति । एवमनेकधा विप्रतिपत्तेर्वस्तुनि च विकल्पस्यानुपपत्तेर्न वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणावधारणपरता न्याय्या । स्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्यां तु कारणान्तरपरिग्रहो न्याय्य इति ।

ब्रह्म का लक्षण प्रतिपादित हो चुका, और वेदान्तवाक्यो का ब्रह्मविषयक गतिसामान्य एवं प्रधान का अशब्दत्व भी प्रतिपादित हो चुका है । वहाँ यह

दूसरी आशंका की जाती है कि ब्रह्म और जगत् के जन्मादि-कारणस्वरूप लक्षण को तथा वेदान्तवाक्यों के ब्रह्मविषयक गतिसामान्य को नहीं माना जा सकता है, अर्थात् इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि विगान ( विरुद्ध कथन ) देखा जाता है कि प्रत्येक वेदान्त में क्रमादि की विचित्रता से अन्य अन्य सृष्टि की उपलब्धि ( ज्ञान ) होती है। जैसे कही तो ( आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार जिसके आदि में आकाश होता है, ऐसी सृष्टि कही जाती है और कही ( उस ब्रह्म ने तेज को रचा ) इस प्रकार तेजपूर्वक सृष्टि कही जाती है। एवं कही ( उसने प्राण को रचा, प्राण से श्रद्धा हुई ) इस प्रकार प्राणपूर्वक सृष्टि कही गई है। तथा कही ( उस परमात्मा ने इन लोको को रचा, जलमय शरीर वाला ( अम्भ ) स्वर्ग को, सूर्यकिरणों से व्याप्त मरीचि ( अन्तरिक्ष ) को मरणाशील मनुष्यलोक को, और जलमय पाताल को रचा ) इस प्रकार क्रम के बिना ही सृष्टि कही गई है। इसी प्रकार कही असत्पूर्वक सृष्टि पढी जाती है कि ( यह सब जगत् पहले असत् ही था, उसीसे सत् उत्पन्न हुआ। अर्थात् अव्यक्त से व्यक्त हुआ ) ( यह पहले असत् ही था, वह सत् था, फिर वह सम्यक् व्यक्त हुआ ) कही असत्-वाद का निराकरण पूर्वक सत्पूर्वक प्रक्रिया ( सृष्टि ) की प्रतिज्ञा की जाती है कि ( इस कारणविषयक किसी का कथन है कि यह सब जगत् असत् कारणरूप ही था ) इस प्रकार आरम्भ करके, कहा है कि ( हे सोम्य ! इस प्रकार कैसे हो सकता है, यह पिता पुत्र से कहा कि असत् से सत् कैसे उत्पन्न होगा, इससे हे सोम्य ! यह जगत् पहले सत्स्वरूप ही था ) और कही जगत् की व्याक्रिया ( अभिव्यक्ति-सृष्टि ) अन्य कर्ता के बिना स्वकर्तृक कही जाती है कि पूर्व काल में यह जगत् अव्याकृत कारणस्वरूप ही था वह नाम से व्याकृत — व्यक्त हुआ है, इस प्रकार से अनेक प्रकार की विप्रतिपत्ति ( विरोध ) एवं वस्तु में विकल्प की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) से वेदान्तवाक्यों की जगत्कारणा-वधारणपरता न्याययुक्त नहीं है, किन्तु स्मृतिप्रसिद्धि और न्यायप्रसिद्धि से सिद्ध कारणान्तर का ही वेदान्तवाक्यों से भी परिग्रहण करना न्याययुक्त है।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—सत्यपि प्रतिवेदान्तं सृज्यमानेष्वकाशादिषु क्रमादिद्वारके विगाने न स्रष्टरि किचिद्विगानमस्ति । कुतः ? यथाव्यपदिष्टोक्तैः । यथाभूतो ह्येकस्मिन् वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वात्मैकोऽद्वितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्ट-स्तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदिश्यते । तद्यथा—‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तै० २।१ ) इति । अत्र तावज्ज्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण कामयितृ-त्ववचनेन चेतनं ब्रह्म न्यरूपयदपरप्रयोज्यत्वेनेश्वरं कारणमब्रवीत् । तद्विषयेणैव परेणात्मशब्देन शरीरादिकोशपरम्परया चान्तरानुप्रवेशनेन सर्वेषामन्तः प्रत्य-गात्मानं निरधारयत् । ‘बहु स्यां प्रजायेय’ ( तै० २।६ ) इति चात्मविषयेण बहुभवानानुशसनेन सृज्यमानानां विकाराणां स्रष्टुरभेदमभाषत, तथा ‘इदं

सर्वमसृजत यदिदं किञ्च' ( तै० २।६ ) इति समस्तजगत्सृष्टिनिर्देशेन प्राक्सृष्टेर-  
द्वितीयं स्रष्टारमाचष्टे ।

ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्रत्येक वेदान्त मे सृज्यमान ( कार्य ) आकाशादि-  
विषयक क्रमादि द्वारा विगान ( विरोध-विप्रतिपत्ति ) रहने पर भी स्रष्टा ( सृष्टिकर्ता )  
विषयक कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक वेदान्त मे स्रष्टा व्यपदिष्ट  
( कथित ) है, उसी प्रकार सब वेदान्त मे उसकी उक्ति ( कथन ) है। जिससे एक  
वेदान्त मे जिस स्वरूप वाली सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वात्मा, एक अद्वितीय वस्तु जगत् के कारण  
रूप से कही गई है, वैसी ही स्वरूप वाली अन्य वेदान्तो मे कही जाती है। ब्रह्म का  
सर्वज्ञत्वादि इस प्रकार निरूपित है कि वह सत्य, ज्ञान, अनन्त स्वरूप है। यहाँ  
पहले ज्ञान शब्द से और आगे ब्रह्मविषयक कामयितृत्व शब्द से चेतन ब्रह्म का  
निरूपण और परप्रयोज्यता के अभाव—स्वतन्त्रता से ईश्वररूप कारण का कथन  
किया गया है। उस ब्रह्मस्वरूप ईश्वरविषय का ही आगे प्रयुक्त आत्म शब्द से  
तथा शरीरादिरूप कोश-परम्परा द्वारा अन्तर मे अनुप्रवेश से सबके अन्तःकरण मे—  
अन्तर मे अन्तरात्मा का निर्धारण ( निर्णय ) किया गया है। एव ( बहुत होऊँ, उत्पन्न  
होऊँ ) इस आत्मविषयक बहुभवन के अनुद्यसन ( उपदेश ) से सृज्यमान विकारो का  
स्रष्टा ईश्वर से अभेद कहा है। इसी प्रकार ( ये जो कुछ हैं, इन सबको प्रथम रचा )  
इस समस्त जगत् की सृष्टि के कथन से सृष्टि से प्रथम अद्वितीय स्रष्टा को तैत्तिरीय  
श्रुति कहती है।

तदत्र यल्लक्षण ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातं तल्लक्षणमेवान्यत्रापि विज्ञायते—  
'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्, तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति,  
तत्तेजोऽसृजत' ( छां० ६।२।१, ३ ) इति, तथा 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र  
आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत् स ऐक्षत लोकान्नु सृजै' ( ऐ० उ० ४।१।१, २ ) इति  
च, एवंजातीयकस्य कारणस्वरूपनिरूपणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविगी-  
तार्थत्वात्। कार्यविषयं तु विगानं दृश्यते क्वचिदाकाशादिका सृष्टिः क्वचित्तेज-  
आदिकेत्येवंजातीयकम्। नच कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्ववेदा-  
न्तेष्वविगीतमधिगम्यमानमविवक्षित भवितुमर्हतीति शक्यते वक्तुम्, अति-  
प्रसङ्गात्। समाधास्यति चाचार्यः कार्यविषयमपि विगानं 'न वियदश्रुतेः' ( ब्र०  
सू० २।३।१ ) इत्यारभ्य। भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वमप्रतिपाद्यत्वात्, नह्ययं  
सृष्ट्यादिप्रपञ्चः प्रतिपिपादयिषितः। नहि तत्प्रतिबद्धः कश्चित्पुरुषार्थो दृश्यते  
श्रूयते वा, नच कल्पयितुं शक्यते, उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र ब्रह्मविषयैर्वाक्यैः  
साकमेकवाक्यताया गम्यमानत्वात्। दर्शयति च सृष्ट्यादिप्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रति-  
पत्त्यर्थताम्—'अन्नेन सोम्य शुक्लेनापोमूलमन्विच्छद्भिः सोम्य शुक्लेन तेजो-  
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्लेन सन्मूलमन्विच्छ' ( छां० ६।८।४ ) इति ।

मृदादिदृष्टान्तैश्च कार्यस्य कारणेनाभेदं वदितुं सृष्ट्यादिप्रपञ्चः श्राव्यत इति गम्यते । तथा च सम्प्रदायविदो वदन्ति—

वह ब्रह्म जिस लक्षण वाला यहाँ कारण रूप से विज्ञात हुआ है, उसी लक्षण वाला ही अन्य ( छान्दोग्य ) वेदान्त में भी विज्ञात होता ( समझा जाता ) है कि ( हे सोम्य ! यह सब जगत् पहले सत् ही था, एक ही था, अद्वितीय था । उसने आलोचन किया कि बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊँ, उसने तेज को उत्पन्न किया । इसी प्रकार ऐतरेय उपनिषद् में है कि—( यह सब जगत् पहले एक आत्मस्वरूप ही था, अन्य कुछ क्रियायुक्त नहीं था ) उसने आलोचन-विचार किया कि लोको की सृष्टि कहेँ । इस प्रकार के कारण के स्वरूप के निरूपणपरक वाक्यसमूह को अविरोधार्थता से स्रष्टा के स्वरूपादि में विरोध नहीं है, कार्यविषयक विरोध तो देखा जाता है कि कहीं आकाशपूर्वक सृष्टि का कथन है, तो कहीं तेजपूर्वक है, इस प्रकार का विरोध है । परन्तु कार्यविषयक विरोध से सब वेदान्त में अविगीत ( अविरोध ) रूप से प्रतीत होने वाला ज्ञातकारण ब्रह्म भी अवि-वक्षित होने योग्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अन्यविषयक विरोध से अन्य की अविवक्षा मानने पर स्वप्न के विषयो में विरोध से स्व द्रष्टा में अविवक्षा आदि की अतिप्रसक्ति होगी । वस्तुतः कार्यविषयक भी विरोध नहीं है, जो विरोध सा प्रतीत होता है, उसका ( न वियदध्रुते. ) इस सूत्र से आरम्भ करके आचार्य समाधान करेंगे । एव अप्रतिपादनीय होने से कार्यों को विरोधत्व हो तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि आदि का विस्तार श्रुति से प्रतिपादन की इच्छा का विषय नहीं है, जिससे सृष्टि आदि के ज्ञान बिना नहीं होने वाला और सृष्टि आदि के ज्ञान से होने वाला कोई पुरुषार्थ न देखा जाता है, न सुना ही जाता है, और न किसी पुरुषार्थ की कल्पना ही की जा सकती है । क्योंकि सृष्टिवाक्यो के उपक्रम एव उप-सहार से वहाँ ब्रह्मविषयक वाक्यो के साथ सृष्टिवाक्यो की एकवाक्यतारूप से ज्ञान होता है, इससे सृष्टिसम्बन्धी न पुरुषार्थ ( फल ) है, और न उसकी कल्पना हो सकती है । श्रुति भी सृष्टि आदि विस्तार को ब्रह्मज्ञानार्थकता दिखलाती है कि ( हे सोम्य ! अन्नरूप कार्यात्मक अन्न से जलरूप कारण को जानो, जलरूप कार्य से तेजरूप मूल को समझो, तेजरूप कार्य से सत् ब्रह्मरूप मूल को जानो ) और मृदादि दृष्टान्तो के द्वारा कार्य का कारण के साथ अभेद कहने के लिये सृष्टि आदि का प्रपञ्च सुनाया जाता है, ऐसी प्रतीति होती है । इसी प्रकार वेदान्त सम्प्रदाय के ज्ञानी कहते हैं—

मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदिताऽन्यथा ।

उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥

( माण्डू० ३।२५ ) इति । ब्रह्मप्रतिपत्तिप्रतिबद्धं तु फलं श्रूयते—‘ब्रह्मविदा-प्रोति परम्’ ( तै० २।१ ) ‘तरति शोकमात्मवित्’ ( छां० ७।१३ ) ‘तमेव



विदित्वाऽतिमृत्युमेति' ( श्वे० ३।८ ) इति च । प्रत्यक्षावगमं चेदं फलम् 'तत्त्व-  
मसि' इत्यसंसार्यात्मत्वप्रतिपत्तौ सत्यां ससार्थात्मत्वव्यावृत्तेः ।

मिट्टी, लोहा, चिनगारी आदि के दृष्टान्तो द्वारा जो अन्य-अन्य प्रकार से सृष्टि कही है, वह ब्रह्मज्ञान का हृदय मे अवतरण ( प्राप्ति ) के लिये उपायरूप है । इससे उपाय मे भेद होते हुए भी उपाय से प्राप्य ज्ञान और उसके विषय ब्रह्मात्मा मे किसी प्रकार भी भेद नहीं है, प्राप्ति के साधन-मार्गादि के भेद से ग्रामादि का भेद नहीं होता है । उक्त रीति से सृष्टिसम्बन्धी वा उसके ज्ञानसम्बन्धी कोई पुरुषार्थ फल नहीं होते हुए भी ब्रह्मज्ञान से प्रतिबद्ध ( प्राप्य ) फल सुना जाता है कि ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म को प्राप्त करता है. आत्मज्ञानी शोकरहित हो जाता है, उस आत्मा को जान करके ही अतिमृति-मुक्ति पाता है इत्यादि । ( तत्त्वमसि ) इत्यादि उपदेशो से असंसारी आत्मत्व के ज्ञान होने पर संसारी आत्मत्व की निवृत्ति से प्रत्यक्ष अवगम ( ज्ञान ) का विषय यह फल है, इससे निश्चित प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ब्रह्मज्ञान का फल है, सृष्टि आदि का नहीं ।

यत्पुनः कारणविषयं विगानं दर्शितम्—'असद्वा इदमप्र आसीत्' इत्यादि तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते—

### समाकर्षात् ॥ १५ ॥

'असद्वा इदमप्र आसीत्' ( तै० २।७ ) इति नात्रासन्निरात्मकं कारणत्वेन श्राव्यते । यतः 'असन्नेव स भवति असद् ब्रह्मेति वेद् चेत् , अस्ति ब्रह्मेति चेद्देद् सन्तमेनं ततो विदुः' इत्यसद्वादापवादेनास्तित्वलक्षणं ब्रह्मात्ममयादि-कोशपरम्परया प्रत्यगात्मानं निर्धार्य 'सोऽकामयत' इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य सप्रपञ्चां सृष्टि तस्माच्छ्रावयित्वा 'तत्सत्यमित्याचक्षते' इति चोपसंहृत्य 'तद-प्येष श्लोको भवति' इति तस्मिन्नेव प्रकृतेऽर्थे श्लोकमिममुदाहरति— 'असद्वा इदमप्र आसीत्' इति । यदि त्वसन्निरात्मकमस्मिच्छ्लोकेऽभिप्रेयेत ततोऽन्यसमाकर्षणेऽन्यस्योदाहरणादसम्बद्धं वाक्यमापद्येत । तस्मान्नामरूप-व्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः प्रसिद्ध इति तद्व्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव ब्रह्मासदिवासीदित्युपचर्यते ।

कारणविषयक विरोध जो दिखलाया गया था कि—यह पहले असत् ही था, इत्यादि । उसका परिहार (निवारण) करना चाहिये, इसलिये यहाँ कहा जाता है कि—( असत् ही यह पहले था ) इस कथन से यहाँ निरात्मक ( स्वरूपशून्य ) असत् कारणरूप से नहीं सुना जाता है, जिससे वह असत् ही होता है । यदि ब्रह्म असत् है, ऐसा जानता है, और यदि ब्रह्म है, इस प्रकार से जानता है, तो विद्वान लोग उसको सत् ब्रह्मरूप ही जानते हैं । इस प्रकार से असत्वाद का अपवाद ( निन्दा ) पूर्वक अस्तित्व लक्षण वाला ब्रह्म का अन्नमयादि कोशों को परम्परा द्वारा प्रत्यगात्मा रूप से निर्धारण ( निर्णय-निश्चय ) करके ( वह इच्छा किया ) इस प्रकार उस प्रकृत सत् ब्रह्म का ही समाकर्षण

सम्बन्ध करके और उसी से विस्तारसहित सृष्टि सुनाकर उसको सत्य कहते हैं । इस प्रकार सत्य सृष्टिवर्णन का उपसंहार करके ( इस अर्थ को कहने वाला यह श्लोक मन्त्र है ) इस प्रकार उस प्रकृत सद् ब्रह्म अर्थ में यह श्लोक उदाहरण ( दृष्टान्त ) दिया गया है कि ( यह पहले असत् ही था ) इससे यह निरात्मक असत् नहीं सुना जाता है । यदि निरात्मक असत् इस श्लोक में अभिप्रेत ( अभिप्राय का विषय ) किया गया हो, तब तो अन्य सद्ब्रह्म का समाकर्षण रहते अन्य ( असत् ) का उदाहरण से पूर्वापर वाक्य असम्बद्ध हो जायगा ! उससे नाम-रूप से व्याकृत ( व्यक्त ) वस्तुविषयक प्रायः सत् शब्द प्रसिद्ध है । उससे उस नाम-रूप के पहले व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) के अभाव की अपेक्षा से उत्पत्ति से पहले सत् ही ब्रह्म असत् के समान था । यह उपचार ( गौण व्यवहार ) किया जाता है ।

एषैव 'असदेवेदमप्र आसीत्' ( छा० ३।१६।१ ) इत्यत्रापि योजना, 'तत्सदासीत्' इति समाकर्षणात् । अत्यन्ताभावाभ्युपगमे हि तत्सदासीदिति किं समाकृष्येत । 'तद्वैक आहुरसदेवेदमप्र आसीत्' ( छा० ६।२।१ ) इत्यत्रापि न श्रुत्यन्तराभिप्रायेणायमेकीयमतोपन्यासः, क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पस्यासंभवात् । तस्माच्छ्रुतिपरिगृहीतसत्पक्षदार्ढ्यायैवायं मन्दमतिपरिकल्पितस्यासत्पक्षस्योपन्यस्य निरास इति द्रष्टव्यम् । 'तद्वेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्' ( बृ० १।१।८ ) इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्यते । 'स एष इह प्रविष्ट आनखाप्रेभ्यः' इत्यध्यक्षस्य व्याकृतकार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षणम् । निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे ह्यनन्तरेण प्रकृतावलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत । चेतनस्य चायमात्मनः शरीरेऽनुप्रवेशः श्रूयते, अनुप्रविष्टस्य चेतनत्वश्रवणात्, 'पश्यंश्चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनः' इति । अपिच यादृशमिदमद्यत्वे नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत्साध्यक्षं व्याक्रियते एवमादिसर्गोऽपीति गम्यते, दृष्टविपरीतकल्पनानुपपत्तेः । श्रुत्यन्तरमपि 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६।३।२ ) इति साध्यक्षमेव जगतो व्याक्रियां दर्शयति । व्याक्रियत इत्यपि कर्मकर्तरि लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तरि सौकर्यमपेक्ष्य द्रष्टव्यः । यथा ल्युते केदारः स्वयमेवेति सत्येव पूर्णके लवितरि । यद्वा कर्मण्येवैष लकारोऽर्थाक्षिप्तं कर्तारमपेक्ष्य द्रष्टव्यः । यथा गम्यते ग्राम इति ॥ १५ ॥

ऐसी ही योजना ( असत् ही यह पहले था ) यहाँ भी समझना चाहिये, क्योंकि ( वह सत् था ) यहाँ उसका समाकर्षण होता है । यदि अत्यन्त असत् माना जाय तो ( वह सत् था ) यहाँ किसका क्या समाकर्षण किया जायगा । ( उस सृष्टि से प्रथम संसार के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि यह पहले असत् ही था ) यहाँ भी दूसरी श्रुति के अभिप्राय से अनेक मतों का कथन नहीं है, क्योंकि क्रिया के समान वस्तु में विकल्प का असंभव है । उस श्रुति से स्वीकृत सत् ब्रह्म पक्ष की

दृढता के ही लिए मन्दमति से परिकल्पित असन् पक्ष का उपन्यास करके यह निरास ( निराकरण ) किया गया है, ऐसा समझना चाहिये । ( पूर्वकाल में यह जगत् अव्याकृत था ) यहाँ अध्यक्ष कर्ता रहित जगत् का व्याकरण नहीं कहा जाता है, क्योंकि ( वह यह आत्मा इस शरीर में नखाग्र पर्यन्त प्रविष्ट है, इस प्रकार अध्यक्ष का व्याकृत नाम-रूप में अनुप्रवेशित्व रूप से समाकर्षण है । निरक्षय व्याकरण के मानने पर अनन्तर पठित 'प्रकृतावलम्बी सः' इस सर्वनाम से कार्यानुप्रवेशी रूप से कौन समनुकृष्ट होगा, और चेतनात्मा का यह अनुप्रवेश सुना जाता है । क्योंकि अनुप्रविष्ट का चेतनत्व सुना जाता है कि ( वह देखता हुआ चक्षु ( द्रष्टा ) कहा जाता है, सुनता हुआ श्रोत्र-श्रोता कहा जाता है, मनन कर्ता हुआ मन-मन्ता कहा जाता है ) इत्यादि । और दूसरी बात है कि नाम-रूप से व्याकृत व्यक्त होता हुआ यह जगत् वर्तमान काल में जिस प्रकार साध्यक्ष ( अध्यक्ष सहित ) व्याकृत होता है, इसी प्रकार आदि सर्ग भी । वह ब्रह्म कार्यत्वरूप हेतु से अनुमान द्वारा समझा जाता है । क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्ट से विपरीत की कल्पना नहीं हो सकती है, दृष्टानुसारी ही कल्पना भी हो सकती है । दूसरी श्रुति भी कहती है कि ( इस जीवात्मा रूप से अनुप्रवेश करके मैं नाम-रूप का व्याकरण विभाग-अभिव्यक्ति मैं कहूँगा ) इस प्रकार अध्यक्षसहित ही जगत् की प्रक्रिया ( सृष्टि ) को श्रुति दिखलाती है । अध्यक्षरूप कर्ता के रहने पर भी व्याकर्ता परमेश्वर अव्याकृत नाम-रूप द्वारा स्वयं व्यक्त होता है । यह कर्म रूप कर्ता अर्थ में प्रयोग भी सुकरता-मुखसाध्यता की दृष्टि से समझना चाहिये, जैसे कि पूर्णक ( अखण्ड-समर्थ ) लविता ( काटने वाला ) के रहने पर भी केदार ( क्यारी ) स्वयं कटता है, ऐसा प्रयोग होता है, इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये । अथवा यह लकार प्रत्यय कर्म में ही है, यह अर्थ से आक्षिप्त कर्ता की अपेक्षा करते हुए कर्म में जानने योग्य है, जैसे कि ग्राम प्राप्त किया जाता है । यहाँ कर्म में प्रत्यय होने पर भी कर्ता की अपेक्षा रहती है इत्यादि ।

### बालाक्यधिकरण ॥ ५ ॥

पुरुषाणान्तु कः कर्ता प्राणजीवपरात्मसु । कर्मेति चलने प्राणो जीवोऽपूर्वं विवक्षिते ॥ १ ॥  
जगद्वाची कर्मशब्दः पुंमात्रविनिवृत्तये । तत्कर्त्ता परमात्मैव न मृषावादिता ततः ॥ २ ॥

( यो ह वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्मसंवेदितव्यः ) इस श्रुति में कर्म शब्द जगत् का वाचक है, और उस जगत् का परमात्मा कारण है, इससे जगत् के मध्यगतपुरुषो का भी परमात्मा ही कारण है । यहाँ सामान्य दृष्टि से सशय होता है कि चन्द्रादि में वर्तमान पुरुषो का कर्ता प्राण जीव और परमात्मा में से कौन है ? वहाँ पूर्व पक्ष है कि चलन अर्थ में कर्म शब्द के होने से जिस प्राण का यह चलन रूप कर्म-क्रिया है वह पुरुषो का भी कर्ता है । अथवा कर्म शब्द से अपूर्व अदृष्ट-धर्माधर्म की विवक्षा करने पर धर्माधर्म के कर्ता जीव ही पुरुषो का कर्ता होगा । सिद्धान्त है कि

क्रियते इति कर्म, इस प्रकार के उत्पन्न होने वाले सब जगत् का वाचक कर्म शब्द है क्रिया वा अदृष्ट का वाचक नहीं है, इससे केवल पुरुषमात्र के कर्तृत्व की निवृत्ति के लिए जिस का यह जगत् कार्य है, यह कहा गया है, इस प्रकार पुरुषसहित जगत् का कर्ता परमात्मा ही है। ऐसा मानने ही से सत्य के उपदेशक राजा को मृषावादिता नहीं होगी, प्राण वा जीवात्मा के उपदेश देने पर मृषावादिता होगी।

### जगद्वाचित्वात् ॥ १६ ॥

कौषीतकिब्राह्मणे बालाक्यजातशत्रुसंवादे श्रूयते—‘यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वेदितव्यः’ ( कौ० ब्रा० ४।२६ ) इति । तत्र किं जीवो वेदितव्यत्वेनोपदिश्यते उत मुख्यः प्राण उत परमात्मेति विशय । किं तावत्प्राप्तम् ?

प्राण इति । कुतः ? ‘यस्य वैतत्कर्म’ इति श्रवणात् । परिस्पन्दलक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वात्, वाक्यशेषे च ‘अथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति’ इति प्राणशब्ददर्शनात् । प्राणशब्दस्य च मुख्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात् । ये चैते पुरस्ताद्बालाकिना ‘आदित्ये पुरुषश्चन्द्रमसि पुरुषः’ इत्येवमादयः पुरुषा निर्दिष्टास्तेषामपि भवति प्राणः कर्ता प्राणावस्थाविशेषत्वादादिदेवतात्मनाम्, ‘कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते’ ( बृ० ३।६।६ ) इति श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः । जीवो वायमिह वेदितव्यतयोपदिश्यते । तस्यापि धर्माधर्मलक्षणं कर्म शक्यते श्रावयितुम् ‘यस्य वैतत्कर्म’ इति, सोऽपि भोक्तृत्वाद्भोगोपकरणभूतानामेतेषां पुरुषाणां कर्तोपपद्यते । वाक्यशेषे च जीवलिङ्गमवगम्यते । यत्कारणं वेदितव्यतयोन्यस्तस्य पुरुषाणां कर्तृवेददायोपेतं बालाकि प्रति बुबोधयिषुरजातशत्रुः सुप्तं पुरुषमामन्त्रयामन्त्रणशब्दाश्रवणात्प्राणादीनामभोक्तृत्वं प्रतिबोध्य यष्टिघातोत्थापनात्प्राणादिव्यतिरिक्तं जीवं भोक्तारं प्रतिबोधयति । तथा परस्तादपि जीवलिङ्गमवगम्यते—‘तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर्मुञ्जे यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुञ्जन्त्येवमेवैष प्रज्ञात्मैतैरात्मभिर्मुञ्जे एवमेवैत आत्मान एतमात्मानं भुञ्जन्ति’ ( कौ० ब्रा० ४।२० ) इति । प्राणभृत्त्वाच्च जीवस्योपपन्नं प्राणशब्दत्वम् । तस्माज्जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इह ग्रहणीयो न परमेश्वरः, तल्लिङ्गानवगमादिति ।

कौषीतकि ब्राह्मण में बालाका का पुत्र बालाकी नामक ब्राह्मण और अजातशत्रु नामक राजा के संवाद में सुना जाता है कि ( हे बालाके जो इन प्रसिद्ध सूर्य-चन्द्रादि पुरुषों का कर्ता है, तथा जिसका यह जगत् कार्य है वही जानने योग्य है ) वहाँ संशय होता है कि यहाँ वेदितव्य ( ज्ञेय ) रूप से जीव का उपदेश दिया जाता है, अथवा मुख्य प्राण का उपदेश दिया जाता है, अथवा परमात्मा इस उपदेश का विषय है ? विमर्श होता है कि पहले प्राप्त क्या है ? पूर्वपक्ष है कि प्राणप्राप्त है, क्योंकि जिसका

यह कर्म है, इस प्रकार सुना जाता है, और परिस्पन्द ( चलन ) रूप कर्म को प्राणा-श्रयत्व ही है। वाक्य शेष में प्राणशब्द दीखता है कि ( सुषुप्ति काल में इन्द्रियो के लीन होने पर द्रष्टा जीव इसे प्राण में एकता को प्राप्त करता है ) और प्राणशब्द की प्रसिद्धि मुख्यप्राण में है, इससे प्राण ही पुरुषो का कर्ता है। ( आदित्य में पुरुष है, चन्द्रमा में पुरुष है ) इत्यादि वचनो द्वारा जो पहले बालाकि से पुरुष निर्दिष्ट हुए हैं, उनका भी प्राण कर्ता होता है, क्योंकि आदित्यादि देवताओं को प्राण की अवस्था विशेष रूपता ही है। वह श्रुत्यन्तर की प्रसिद्धि से सिद्ध होता है। श्रुत्यन्तर की प्रसिद्धि है कि ( एक देव कौन हैं ) उत्तर है कि एक देव प्राण है, और प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही त्वद् ( परोक्ष सूत्रात्मा है इस प्रकार भी कहते हैं )। अथवा यहाँ वेदितव्य रूप से यह जीव उपदिष्ट होता है, उसके भी धर्माधर्म रूप कर्म ( जिसका यह कर्म है ) इस श्रुति से सुनाया जा सकता है। वह जीव भी भोक्ता होने से भोग के उपकरण उपकारक साधन रूप इन पुरुषो का कर्ता उपपन्न सिद्ध हो सकता है। और वाक्य शेष में जीव का लिंग अवगत ( ज्ञात ) होता है कि जिस कारण से वेदितव्य ज्ञेय रूप से कथित पुरुषो का कर्ता को समझने के लिए पास में प्राप्त बालाकि के प्रति बोध कराने की इच्छावाला अज्ञात शत्रु ने सोये हुए पुरुष को आमन्त्रित किया मधुर स्वर से पुकारा, फिर आमन्त्र के शब्द को नहीं सुनने से चलते हुए जाग्रत प्राणादि को अभोक्तृत्व समाकर कि ये प्राणादि आत्मा नहीं है। फिर लाठी के प्रहार से जागने पर प्राणादि से भिन्न भोक्ता जीव का प्रतिबोध कराया। इसी प्रकार आगे भी जीव का लिङ्ग अवगत होता है कि ( जैसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष अपने आश्रित भृत्यादि से उपहृत प्राप्त वस्तु का उपभोग करता है, और वे आश्रित लोग उससे भोग पाते हैं )। इसी प्रकार प्रज्ञात्मा जीव भी इन सूर्यादि देवतात्माओं से प्रकाशादि द्वारा भोग पाता है, और इसी प्रकार वे देवात्मा सब जीव के आश्रित हवि आदि भोग पाते हैं। इससे पहले और वाक्य शेष में कथित भोक्तृत्व जीव का लिंग है। और जीव को प्राणधारी होने से ( प्राण में एक होता है ) इत्यादि वाक्य में जीव को प्राणशब्द वाच्यत्व भी उपपन्न ( युक्त ) होता है। इससे जीव और मुख्यप्राण इन दोनों में से एक यहाँ ग्रहण के योग्य है, परमेश्वर नहीं, क्योंकि उसका लिङ्ग यहाँ अवगत नहीं होता है।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—परमेश्वर एवायमेतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात् । कस्मात् ? उपक्रमसामर्थ्यात्, इह हि बालकिरजातशत्रुणा सह 'ब्रह्म ते ब्रवाणि' इति संवेदितमुपपन्नमे, स च कतिचिदादित्याद्यधिकरणान् पुरुषानमुख्यब्रह्मदृष्टिभाज उक्त्वा तूष्णीं बभूव, तमजातशत्रुः 'मृषा वै खलु मा संवेदिष्ठा ब्रह्म ते ब्रवाणि' इत्यमुख्यब्रह्मवादितयापोद्य तत्कर्तारमन्यं वेदितव्यतयोपचिक्षेप । यदि सोऽप्य-मुख्यब्रह्मदृष्टिभाक् स्यादुपक्रमो बाध्येत, तस्मात्परमेश्वर एवायं भवितुमर्हति ।

कर्तृत्वं चैतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्र्येणावकल्पते । 'यस्य वैतत्कर्म' इत्यपि नायं परिस्पन्दलक्षणस्य धर्माधर्मलक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः, तयोरन्यतरस्याप्यप्रकृतत्वात्, असंशब्दितत्वाच्च । नापि पुरुषाणामयं निर्देशः, एतेषां पुरुषाणां कर्तेत्येव तेषां निर्दिष्टत्वात्, लिङ्गवचनविगानाच्च । नापि पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वायं निर्देशः, कर्तृशब्देनैव तयोरुपात्तत्वात् । पारिशेष्यात्प्रत्यक्षसंनिहितं जगत्सर्वनाम्नैतच्छब्देन निर्दिश्यते । क्रियत इति च तदेव जगत्कर्म । ननु जगदप्यप्रकृतमसंशब्दितं च । सत्यमेतत् । तथाप्यसति विशेषोपादाने साधारणैकार्थेन संनिधानेन संनिहितवस्तुमात्रस्यायं निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्, विशेषसंनिधानाभावात् । पूर्वत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां विशेषोपादानाद्विशेषितं जगदेवेहोपादीयत इति गम्यते । एतदुक्तं भवति । य एतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशे भूतानां कर्ता, किमनेन विशेषेण, यस्य कृत्स्नमेव जगद्विशेषितं कर्मेति ? वाशब्द एकदेशावच्छिन्नकर्तृत्वव्यावृत्त्यर्थः । ये बालाकिना ब्रह्मत्वाभिमताः पुरुषाः कीर्तितास्तेषामब्रह्मत्वख्यापनाय विशेषोपादानम् । एवं ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगतः कर्ता वेदितव्यतयोपदिश्यते । परमेश्वरश्च सर्वजगतः कर्ता सर्ववेदान्तेष्ववधारितः ॥ १६ ॥

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि यह परमेश्वर ही इन पुरुषों का कर्ता हो सकता है, क्योंकि उपक्रम के सामर्थ्य से परमेश्वर ही अवगत होता है, जिससे यहाँ बालाकि ने (तेरे लिए ब्रह्म का वर्णन करूँगा) इस प्रकार अजातशत्रु के साथ संवाद करने के लिए आरम्भ किया। और वह बालाकि आदित्यादि में रहनेवाले अमुख्य ब्रह्मदृष्टि के विषयक अनेक पुरुषों का वर्णन करके चुप हो गया। तब उसको अजातशत्रु ने (मृषा मिथ्या ही संवाद नहीं करो कि मैं तेरे लिए ब्रह्म करूँगा) इस प्रकार उस बालाकि की अमुख्य ब्रह्मवादिता का अपवाद (निन्दा) करके उन पुरुषों का कर्ता उनसे अन्य को वेदितव्य रूप से ग्रहण किया। यदि वह वेदितव्य भी अमुख्य ब्रह्मदृष्टि-भागी विषय होगा तो उपक्रम बाधित होगा, जिससे यह वेदितव्य वस्तु परमेश्वर ही होने योग्य है। और इन पुरुषों के स्वतन्त्र रूप से कर्तृत्व भी परमेश्वर के सिवाय अन्य को नहीं सिद्ध हो सकता है। (जिसका यह कर्म है) इस प्रकार का यह निर्देश भी परिस्पन्द रूप या धर्माधर्म रूप कर्म का निर्देश कथन नहीं है, क्योंकि वे दोनों या दोनों में से कोई एक यहाँ प्रकृत प्रस्तुत नहीं हैं, एवं असंशब्दित हैं, पास में किसी श्रुति वचन से निर्दिष्ट नहीं है। पुरुषों का भी यह कर्मरूप से निर्देश नहीं है, क्योंकि जो इन पुरुषों का कर्ता है, इस कथन से ही वे पुरुष निर्दिष्ट हो चुके हैं, फिर निर्देश से पुनरुक्ति होगी। लिङ्ग वचन में विरोध होने से भी बहुत पुरुष नपुंसक एक वचन एतत् शब्द से निर्दिष्ट नहीं हो सकते हैं, इसी प्रकार पुरुष विषयक जो 'करोति' धातु का अर्थ पुरुषों का उत्पादन, या उत्पादन

का फल जो पुरुषो का जन्म उसका भी यह एतत् पद से निर्देश नहीं हैं, क्योंकि क्रिया और उसके फल के बिना कर्तृत्व के असम्भव से कर्ता वाचक शब्द से ही क्रिया और क्रिया के फल गृहीत हो जाते हैं, उनके लिए पृथक् निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार परिशेषता से प्रत्यक्ष सन्निहित जगत् सर्वनाम एतत् शब्द से निर्दिष्ट होता है। यदि कहा जाय कि जगत् भी अप्रकृत और असंशब्दित है, तो यह कहना यद्यपि सत्य है, तथापि सकोच के हेतु विशेष किसी वस्तु के ग्राह्य नहीं रहने पर साधारण अर्थ के साथ सन्निधान (सम्बन्ध) से सन्निहित वस्तुमात्र का यह निर्देश है, किसी विशेष का निर्देश नहीं है इस प्रकार समझा जाता है। विशेष के अभाव की दशा में सामान्य का स्वाभाविक ज्ञान होता है, क्योंकि विशेष का सानिध्य नहीं है। एव प्रथम जगत् के एक देशरूप पुरुषो के ग्रहण से अविशेषित (सामान्य जगत् ही यहाँ गृहीत होता है, ऐसा समझा जाता है। यहाँ शंका हुई कि यदि एतत् शब्द से सम्पूर्ण जगत् का ग्रहण किया जाता है, तो पुरुषो के पृथक् ग्रहण के क्या फल हैं? इस शंका की निवृत्ति के लिए कहा जाता है कि यहाँ तात्पर्य से यह रहस्य उक्त होता है कि, जो जगत् के एक देश स्वरूप इन पुरुषो का कर्ता है, ऐसा विशेषण से क्या फल है, जिसका भेदरहित सम्पूर्ण जगत् ही कर्म है, कार्य है, वही ज्ञेय ब्रह्म है, वा शब्द एक देशावच्छिन्नकर्तृत्व (पुरुष मात्र से निरूपित कर्तृत्व) अर्थात् एक देशमात्र कर्तृत्व का निवारण के लिए है। एवं बालाकि द्वारा जो ब्रह्म रूप से अभिमत (स्वीकृत) पुरुष कहे गए थे, उन्हें अब्रह्म कथन ज्ञापन के लिए पुरुष-रूप विशेषो का ग्रहण है। इसी प्रकार ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से सामान्य विशेष द्वारा जगत् का कर्ता वेदितव्य रूप से उपदिष्ट होता है। परमेश्वर ही सब जगत् का कर्ता रूप से सब वेदान्त में अवधारित (निर्णीत) है। इससे परमेश्वर वेदितव्य हैं ॥ १६ ॥

### जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्वाख्यातम् ॥ १७ ॥

अथ यदुक्तं—वाक्यशेषगताज्जीवलिङ्गान्मुख्यप्राणलिङ्गाच्च तयोरेवान्यतर-स्येह ग्रहणं न्याय्यं न परमेश्वरस्य—इति, तत्परिहृतवर्ष्यम् । अत्रोच्यते—परिहृतं चैतत् 'नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्' (ब्र० सू० १/१३१) इत्यत्र । त्रिविधं ह्यत्रोपासनमेवं सति प्रसज्येत जीवोपासनं मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । न चैतन्न्याय्यम्, उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि ब्रह्मविषयत्वमस्य वाक्यस्यावगम्यते । तत्रोपक्रमस्य तावद्ब्रह्मविषयत्वं दर्शितम् । उपसंहारस्यापि निरतिशयफलश्रवणाद्ब्रह्मविषयत्वं दृश्यते—'सर्वान् पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वाराव्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद' इति । नन्वेवं सति प्रतर्दनवाक्यनिर्णयेनैवेद्मपि वाक्यं निर्णीयेत, न निर्णीयेत 'यस्य वैतत्कर्म' इत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्रानिर्धारितत्वात् । तस्मादत्र जीवमुख्यप्राणशङ्का

पुनरुत्पद्यमाना निवर्त्यन्ते । प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो दृष्टः 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' ( छां० ६।८।२ ) इत्यत्र । जीवलिङ्गमप्युपक्रमोपसंहारयोर्ब्रह्मविषयत्वाद्भेदाभिप्रायेण योजयितव्यम् ॥ १७ ॥

पहले जो यह कहा है कि वाक्य शेषगत जीव-लिङ्ग से और मुख्य प्राण-लिङ्ग से उन दोनों में से ही एक का यहाँ ग्रहण करना न्याययुक्त है, परमेश्वर का ग्रहण न्याययुक्त नहीं, उसका परिहार करना चाहिए । यह शका परिहृत हो चुकी है कि ( नोपासा त्रैविध्यादित्यादि ) ऐसा मानने पर यहाँ तीन प्रकार की उपासना प्राप्त होगी, जीवोपासना, मुख्यप्राणोपासना और ब्रह्मोपासना ये तीनों उपासनाएँ कर्तव्य हो जायँगी, और यह त्रैविध्य न्याययुक्त नहीं है, जिसके उपक्रम और उपसंहार से इस वाक्य को ब्रह्मविषयत्व समझा जाता है । उसमें उपक्रम का ब्रह्मविषयत्व पहले दिखलाया गया है, निरर्तशय ( सर्वोत्तम ) फल के श्रवण से उपसंहार को भी ब्रह्मविषयत्व देखा ( समझा ) जाता है कि ( जो इस प्रकार जानता है, वह सब पापों को नष्ट करके सब भूतों में श्रेष्ठता ( गुणाधिकता ) स्वराज्य ( स्वतन्त्रता ) और आधिपत्य ( स्वामिता ) को प्राप्त करता है । यदि कहा जाय कि ऐसा होने पर प्रतर्दन वाक्य के निर्णय से ही यह वाक्य भी निर्णीत हो सकता है, उस पर कहा जाता है कि उसके निर्णय से यह निर्णीत नहीं होता है । क्योंकि ( जिसका यह कर्म है ) इसका ब्रह्मविषयत्वेन वहाँ निर्णय नहीं हुआ है, और वहाँ इसका अनिर्धारण होने ही से जीव और मुख्य प्राण-विषयक शका पुनः उत्पन्न होने पर यहाँ उसकी निवृत्ति की जाती है, कि प्राण-विषयक लिङ्ग को ब्रह्म-विषयक ही जानना चाहिये, क्योंकि ( हे सोम्य मन ! जीव प्राणाश्रीन है ) इस वाक्य में ब्रह्म विषयक प्राण-शब्द देखा गया है । और उपक्रम-उपसंहार के ब्रह्मविषयक होने से जीव-विषयक लिङ्ग भी जीव ब्रह्म के अभेद अभिप्राय से ब्रह्म-विषयक सम्बन्ध के योग्य है ॥ १७ ॥

**अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ १८ ॥**

अपि च नैवात्र विवदितव्यं-जीवप्रधानं वेदं वाक्यं स्याद्ब्रह्मप्रधानं वा-  
इति । यतोऽन्यार्थं जीवपरामर्शं ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थमस्मिन् वाक्ये जैमिनिराचार्यो  
मन्यते । कस्मात् ? प्रश्नव्याख्यानाभ्याम् । प्रश्नस्तावत्सुप्रपुरुषप्रतिबोधनेन  
प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते पुनर्जीवव्यतिरिक्तविषयो दृश्यते—'कैष  
एतद्बालाके पुरुषोऽशयिष्ठ क वा एतद्भूत्कुत एतदागत' ( कौ० ब्रा० ४।१६ )  
इति । प्रतिवचनमपि 'यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन् प्राण एवैकधा  
भवति' इत्यादि, 'एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेषु देवा  
देवेषु लोकाः' ( कौ० ब्रा० ४।१६।२० ) इति च । सुषुप्तिकाले च परेण



ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति, परस्माच्च ब्रह्मणः प्राणादिकं जगज्जायत इति वेदान्तमर्यादा । तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निःसम्बोधतास्वच्छतारूपः स्वाप उपाधिजनितविशेषविज्ञानरहितं स्वरूपं यतस्तद्भ्रंशरूपमागमनं सोऽत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्यते । अपि चैवमेके शाखिनो बाजसनेयिनोऽस्मिन्नेव बालाक्यजातशत्रुसंवादे स्पष्ट विज्ञानमयशब्देन जीवमात्राय तद्व्यतिरिक्तं परमात्मानमामनन्ति—‘य एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वैष तदाभूत्कुत एतदागात्’ ( ब्र० २।१।१६ ) इति प्रश्ने प्रतिवचनेऽपि ‘य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन्बोधते’ इति । आकाशशब्दश्च परमात्मनि प्रयुक्तः ‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश’ ( छां० ८।१।१ ) इत्यत्र । ‘सर्व एव आत्मनो व्युच्चरन्ति’ इति चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युच्चरणमामनन्तः परमात्मानमेव कारणत्वेनामनन्तीति गम्यते । प्राणनिराकरणस्यापि सुषुप्तपुरुषोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरिक्तोपदेशोऽभ्युच्चयः ॥ १८ ॥

पहले अभेद के अभिप्राय से जीव के लिङ्ग को ब्रह्मसम्बन्धी कहा गया है । अब यहाँ ऐसा विवाद ही नहीं करना चाहिये कि यह वाक्य जीव प्रधान है या ब्रह्म प्रधान ? ‘जिससे जीव के परामर्श ( कथनादि ) को अन्य प्रयोजन के लिए अर्थात् ब्रह्मज्ञान के लिए’ इस वाक्य को जैमिनि आचार्य मानते हैं, क्योंकि प्रश्न और उसके व्याख्यान से यह अर्थ सिद्ध होता है । पहले सोये हुए पुरुष को जगाने के लिये प्राणादि से भिन्न जीव के प्रति बोधन ( ज्ञान ) कराने पर जीव से व्यतिरिक्त ( भिन्न ) विषयक प्रश्न दीखता है कि ( हे बालाके ! यह पुरुष कहाँ एक भाव से सोया था, और एक भाव से शयन कहाँ हुआ था, और यह आगमन कहाँ से हुआ है ? ) प्रतिवचनरूप व्याख्यान भी है कि ( जब सोया हुआ कोई स्वप्न नहीं देखता है, तब इस प्राण ( ब्रह्म ) में ही एक अभिन्न हो जाता है ) इत्यादि और ( इस आत्मा से ही सब प्राण ( इन्द्रियाँ ) अपने आश्रय के अनुसार जागने पर, गमन करते हैं, प्रकट होते हैं, प्राणों से देव, देव से लोक विषयादि प्रकट होते हैं ) इत्यादि । सुषुप्ति-काल में जीव परब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होता है, और परब्रह्म से ही प्राणादि रूप जगत् उत्पन्न होता है, यह वेदान्त की मर्यादा ( स्थिति धारणा ) है । जिससे जहाँ इस जीव को विशेष ज्ञान शून्यता ( नि सम्बोधता ) और स्वच्छता रूप स्वाप ( शयन ) होता है । तथा उपाधिजनित विशेष विज्ञान से रहित स्वरूप रहता है और जहाँ से उस स्वप्न स्वरूप से पतनरूप आगमन होता है । वही परमात्मा यहाँ वेदितव्य रूप से सुनाया गया है, ऐसी प्रतीति होती है, प्रश्न और व्याख्यान से यही समझा जाता है । प्रश्न व्याख्यान के प्रसंग में बाजसनेयी नामक एक शाखा वाले इसी बालाक्य-अजातशत्रु के संवाद में विज्ञानमय शब्द से स्पष्ट जीव का कथन करके उससे भिन्न परमात्मा का कथन करते हैं कि ( जो यह विज्ञानमय

पुरुष है, यह सुषुप्ति काल में कहाँ रहा, और कहाँ से इसका यह आगमन हुआ है) इस प्रश्न के होने पर प्रतिवचन में भी कहा है कि (यह जो हृदय के अन्दर आकाश है उसीमें सोता है) और आत्माशब्द परमात्मा में प्रयुक्त है, वही (इस हृदय में अन्तराकाश अल्प है) यहाँ प्रयुक्त हुआ है। आत्मा से ही सब प्रकट होते हैं, इस प्रकार उपाधिवाले आत्माओं का अन्य से व्युत्पन्न (अभिव्यक्ति) को करते हुए परमात्मा को ही कारणरूप से अन्य शाखा वाले भी कहते हैं, यह समझा जाता है। सुषुप्त पुरुष के उत्थापन द्वारा जो प्राण से भिन्न आत्मा का उपदेश है वही प्राण के निराकरण का भी समुच्चय रूप है। इससे यह वाक्य परमात्मा में समन्वित है, प्राणादि में नहीं ॥ १९ ॥

### वाक्यान्वयाधिकरण ॥ ६ ॥

आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तं ससारी वा परेश्वरः । संसारी पतिजायादिभोगप्रीत्यास्य सूचनात् ॥  
अमृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहृतम् । संसारिणमनूयात् परेशत्व विधीयते ॥ २ ॥

(आत्मा वा अरेद्रष्टव्यः) आत्मा ही अत्यन्त प्रिय है, इससे अरे मैत्रेयि ! आत्मा प्रत्यक्ष जानने योग्य है, यहाँ पूर्वापर वाक्य के अन्वय से परमात्मा ही द्रष्टव्य कहा गया है। तो भी सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि यहाँ द्रष्टव्य आत्मा को संसारी कहा गया है अथवा परमात्मा को। पूर्वपक्ष है कि यहाँ द्रष्टव्य रूप संसारी आत्मा कहा गया है, क्योंकि पति-जाया आदि के भोगजन्य प्रीति (सुख) से इस जीवात्मा का ही सूचन होता है, और भोगजन्य सुखों का उस वाक्य में वर्णन है ॥ १ ॥

सिद्धान्त है कि इस वाक्य को अमृतत्व से आरम्भ करके अमृतत्व ही में समाप्त किया गया है, और अमृतत्व की प्राप्ति परमात्म दर्शन के बिना हो नहीं सकती है। इससे भोग-प्रीति आदि द्वारा प्रसिद्ध संसारी का अनुवाद करके वस्तुतः सुखस्वरूप में परशेता का ही विधान करते हैं ॥ २ ॥

### वाक्यान्वयात् ॥ १९ ॥

बृहदारण्यके मैत्रेयीब्राह्मणेऽधीयते (१) — 'न वा अरे पत्युः कामाय' इत्युपक्रम्य 'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्' (बृ० ४।५।६) इति, तत्रैतद्विचिकित्स्यते—किं विज्ञानात्मैवायं द्रष्टव्यश्रोतव्यत्वादिरूपेणोपदिश्यत आहोस्वित्परमात्मेति । कुतः पुनरेषा विचिकित्सा ? प्रियसंसूचितेनात्मना भोक्त्रोपक्रमाद्विज्ञानात्मोपदेश इति प्रतिभाति, तथात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपदेशात्परमात्मोपदेश इति । किं तावत्प्राप्तम् ?

विज्ञानात्मोपदेश इति । कस्मात् ? उपक्रमसामर्थ्यात् । पतिजायापुत्रवित्ता-

दिकं हि भोग्यभूतं सर्वं जगदात्मार्थतया प्रियं भवतीति प्रियसंसूचितं भोक्तार-  
मात्मानमुपक्रम्यानन्तरमिदमात्मनो दर्शनाद्युपदिश्यमानं कस्यान्यस्यात्मनः  
स्यात् ? मध्येऽपि 'इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः  
समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति' इति प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य  
द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन द्रुबन्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं  
दर्शयति । तथा 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' इति कर्तृवचनेन शब्देनोप-  
संहरन्विज्ञानात्मानमेवेहोपदिष्टं दर्शयति । तस्मादात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानवचनं  
भोक्तृत्वत्वाद्भोग्यजातस्यौपचारिकं द्रष्टव्यमिति ।

बृहदारण्यकान्तर्गतं मैत्रेयी ब्राह्मण मे अध्ययन किया जाता ( पढा जाता ) है कि  
( अरे मैत्रेयि ! पति के काम ( काम्य-सुखादि ) के लिए स्त्री का पति प्रिय नहीं होता  
है ) इस प्रकार आरम्भ करके ( अरे मैत्रेयि ! सबके काम के लिए सब प्रिय नहीं  
होते हैं, किन्तु अपनी आत्मा के काम ( प्रयोजन ) के ही लिए सब प्रिय होते हैं, इससे  
आत्मा मुख्य प्रेम का विषय है, और उसके अग शेष उपकारक रूप से अन्य पदार्थ  
प्रिय होते हैं; इससे अरे मैत्रेयि ! प्रियतम आत्मा ही द्रष्टव्य ( दर्शन योग्य ) है और  
दर्शन के लिए वही श्रवण, मनन, निदिध्यासन ( ध्यान ) के योग्य है । एव अरे  
मैत्रेयि ! आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान से यह सब जगत विदित ( ज्ञात )  
हो जाता है । यहाँ यह संशय किया जाता है कि क्या यह विज्ञानात्मा ही द्रष्टव्य-  
श्रोतव्यादि रूप से उपदिष्ट होती है अथवा परमात्मा उपदिष्ट होता है ? यदि कहा  
जाय कि यह संशय क्यों होता है—तो कहा जाता है कि प्रिय भोग्य-वस्तु पति-जायादि  
से संसूचित अनुमित भोक्ता आत्मा से इस वाक्य का उपक्रम होने से यह वाक्य  
विज्ञानात्मा का उपदेश रूप है, ऐसी प्रतीति होती है । और इसी प्रकार आत्मा के  
विज्ञान से, सबके विज्ञान के उपदेश से परमात्मा का उपदेश है, ऐसी प्रतीति होती है  
एवं इस द्वैविध्य से सशय होता है । विमर्श है कि पहले क्या प्राप्त है ? पूर्वपक्ष है कि  
विज्ञानात्मा का उपदेश प्राप्त होता है, क्योंकि उपक्रम के सामर्थ्य से पूर्वाधिकरण के  
समान यहाँ जीवात्मा की ही प्रतीति होती है । जिससे पति, जाया, पुत्र, वित्तादि सब  
भोग्यस्वरूप जगत् आत्मार्थक होने से प्रिय होता है, इस प्रकार प्रिय भोग्यादि से  
संसूचित भोक्तात्मा का आरम्भ करके उसके अनन्तर ( बाद में ) जो यह आत्मा के  
दर्शन, श्रवणादि उपदिश्यमान हुए हैं, वे आत्मा से अन्य किसके होंगे । इससे  
जीवात्मा के दर्शनादि का ही उपदेश है । और ( यह अन्तरात्मा महान् सत्य, अनन्त-  
अपार विज्ञानघन एक रस होते हुए भी इन भूतो के द्वारा शरीरीरूप से प्रगट हो कर  
उन भूतों के नाश से उत्थित रूप से नष्ट हो जाती है, इससे मर कर स्थिर रहने वाला  
का ज्ञान नहीं होता है । इस मध्य-वाक्य में भी प्रकृत ही महान सत्य द्रष्टव्य आत्मा  
का विज्ञानात्मा रूप से भूतो से समुत्थान ( जन्म ) को कहता हुआ विज्ञानात्मा को  
ही यह द्रष्टव्यत्व याज्ञवल्क्य जी दिखलाते हैं । इसी प्रकार ( अरे ! मैत्रेयि विज्ञाता को

किससे जानेगा ?) यहाँ पर कर्ता वाचक विज्ञाता शब्द द्वारा उपसहार करते हुए मुनि विज्ञानात्मा को ही उपदिष्ट करते हैं। इससे आत्मविज्ञान से सबके विज्ञान विषयक वचन को भोग्य समूह के भोक्ता के लिए होने से औपचारिक (गोण) समझना चाहिये।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—परमात्मोपदेश एवायम् । कस्मात् ? वाक्यान्वयात् । वाक्यं हीदं पौर्वापर्येणावेद्यमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते । कथमिति ? तदुपपाद्यते—‘अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन’ इति याज्ञवल्क्यादुपश्रुत्य ‘येनाह नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहि’ इत्यमृतत्वमाशासानाया मैत्रेय्या याज्ञवल्क्य आत्मविज्ञानमिदमुपदिशति । नचान्यत्र परमात्मविज्ञानादमृतत्वमस्तोति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति । तथाचात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुच्यमानं नान्यत्र परमकारणविज्ञानान्मुख्यमवकल्पते । न चैतदौपचारिकमाश्रयितुं शक्यं, यत्कारणमात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञायानन्तरेण ग्रन्थेन तदेवोपपाद्यति—‘ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद’ इत्यादिना । यो हि ब्रह्मक्षत्रादिकं जगदात्मनोऽन्यत्र स्वातन्त्र्येण लब्धसद्भावं पश्यति ते मिथ्यादर्शिनं तदेव मिथ्यादृष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत्पराकरोतीति भेददृष्टिमपोद्य ‘इदं सर्वं यदयमात्मा’ इति सर्वस्य वस्तुजातस्यात्माव्यतिरेकमवतारयति । दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च ( बृ० ४।१।८ ) तमेवाव्यतिरेकं द्रढयति । ‘अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्वेदः’ ( बृ० ४।१।११ ) इत्यादिना च प्रकृतस्यात्मनो नामरूपकर्मप्रपञ्चकारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति । तथैवैकायन-प्रक्रियायामपि ( बृ० ४।१।१२ ) सविषयस्य सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य प्रपञ्चस्यैकायनमनन्तरमबाह्यं कृत्स्नं प्रज्ञानधनं व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति, तस्मात्परमात्मन एवायं दर्शानद्युपदेश इति गम्यते ॥ १६ ॥

इस प्रकार प्रात होने पर कहते हैं कि यह परमात्मा ही का उपदेश है, क्योंकि वाक्य के अन्वय से परमात्मा की ही प्रतीति होती है। जिससे पूर्व पर के सहित विचार्यमाण यह वाक्य परमात्मा के प्रति अन्वित (सम्बद्ध) अवयववाला लक्षित (ज्ञात) होता है, और कैसे लक्षित होता है ? उसका उपपादन (प्रतिपादन) करते हैं कि (वित्त से साध्य कर्म से मोक्ष की आशा नहीं है) इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी से सुन कर, मैत्रेयी बोली कि (जिससे मैं अमृतमुक्त नहीं होऊँगी, उससे मैं क्या कहूँगी, जो अमृत का साधन है भगवान् यदि आप जानते हो वही मेरे लिए कहिए) इस प्रकार अमृतत्व की आशा करने वाली मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी ने यह आत्मज्ञान का उपदेश किया है। और परमात्म-ज्ञान के बिना अमृतत्व नहीं प्राप्त होता है, यह श्रुति-स्मृति आदि के बहुत से वचन कहते हैं। इसी प्रकार आत्म विज्ञान से कहा गया सबका विज्ञान भी परमकारण के विज्ञान के बिना मुख्य नहीं सिद्ध हो सकता, और न सब विज्ञान को औपचारिक आश्रयण कर सकते हैं। इसी कारण आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान की

प्रतिज्ञा करने के अनन्तर ग्रन्थ के द्वारा उसी सर्वविज्ञान का प्रतिपादन सिद्ध करते हैं कि ( उसको ब्रह्मत्व जाति पराभव करती है कि जो अन्य ब्राह्मणत्व को समझता है ) इत्यादि वचन से सर्वज्ञान का उपपादन किया गया है कि जो कोई ब्रह्मक्षत्रादि रूप जगत् को आत्मा से अन्यत्र स्वतन्त्र रूप से प्राप्त सत्ता वाला देखता है, उस मिथ्यादर्शी को वही मिथ्यादृष्ट ब्रह्म क्षत्रादि रूप जगत् पराजय-पराभव करता है, श्रेय मार्ग से गिराता है । इसलिए भेद दृष्टि का अपवाद ( तिरस्कार ) करके ( जो कुछ यह है सो सब आत्मा है ) इस प्रकार सब वस्तु समूह को आत्मा से अव्यतिरेक ( अभेद ) समझाते हैं । एव दुन्दुभी आदि दृष्टान्तों द्वारा उसी अभेद को दृढ करते हैं । तथा ( इस महान् सत्यात्मा का निश्वास ऋग्वेद है ) इत्यादि वचनों से प्रकृत आत्मा की नाम-रूप-कर्म के प्रपञ्च ( विस्तार ) आकारता का व्याख्यान करते हुए ऋषि इससे इस परमात्मा का ही बोध कराते हैं । इसी प्रकार सबका एकायन ( एकाश्रय ) प्रक्रिया में भी विषय-इन्द्रिय-अन्त करण सहित प्रपञ्च ( संसार ) के बाह्याभ्यन्तर भेदरहित कृत्स्न ( पूर्ण ) प्रज्ञानघन ( निरन्तर प्रज्ञानस्वरूप ) एक सर्वाश्रय का व्याख्यान करते हुए मुनि इस सर्वाश्रय को परमात्मा समझते हैं । इससे परमात्मा के दर्शनादि का ही यह उपदेश है—ऐसा निश्चय होता है ॥ १९ ॥

यत्पुनरुक्तं—प्रियसंसूचितोपक्रमद्विज्ञानात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति, अत्र ब्रूमः—

### प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमादमरथ्यः ॥ २० ॥

अस्त्यत्र प्रतिज्ञा 'आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, इदं सर्वं यदय-मात्मा' इति च, यस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयत्येतल्लिङ्गं यत्प्रियसंसूचितस्या-त्मनो द्रष्टव्यत्वादिसङ्कीर्तनम् । यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्यः स्यात्ततः परमात्मविज्ञानेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं यत्प्रति-ज्ञातं तद्धीयेत । तस्मात्प्रतिज्ञासिद्धयर्थं विज्ञानात्मपरमात्मनोरभेदांशेनोपक्रम-णमित्याश्रमरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २० ॥

यहाँ जो कहा था कि पति, जाया आदि प्रिय से संसूचित अनुमित जीवात्मा से वाक्य के प्रारम्भ होने से जीवात्मा के दर्शनादि का ही यह उपदेश है । यहाँ कहते हैं कि यह श्रुति पठित प्रतिज्ञा है कि ( आत्मा के विज्ञात होने पर यह सब जगत् विज्ञात हो जाता है ) और ( जो यह सब जगत् है वह इस आत्मस्वरूप है ) उस प्रतिज्ञा की सिद्धि को यह लिङ्ग ( हेतु ) सूचित करना है कि जो लिङ्ग प्रिय से संसूचित जीवात्मा के द्रष्टव्यत्वादि का संकीर्तन स्वरूप है । क्योंकि यदि जीवात्मा परमात्मा से अन्य होता, तब तो परमात्मा के विज्ञान होने पर भी जीवात्मा विज्ञात नहीं होता, और ऐसा होने पर, जो प्रतिज्ञा की गई थी कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है । उस प्रतिज्ञा की हानि होती—वह प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती, इससे प्रतिज्ञा के विषय प्रतिज्ञात वस्तु भी

त्यागी जाती । इससे प्रतिज्ञा की सिद्धी के लिए जीवात्मा और परमात्मा के अभेदाश से वाक्य का उपक्रमण ( आरम्भ ) हुआ है । इस प्रकार आश्मरथ्याचार्य मानते हैं । इनके मत में भेदाभेद का स्वीकार है ॥ २० ॥

### उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमिः ॥ २१ ॥

विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातोपाधिसम्पर्कात्कलुषीभूतस्य ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात् सम्प्रसन्नस्य देहादिसङ्घातादुत्क्रमिष्यतः परमात्मैक्योपपत्तेरिदमभेदेनोपक्रमणमित्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते । श्रुतिश्चैवंभवति— 'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' ( छां० ८।२।३ ) इति । क्वचिच्च जीवाश्रयमपि नामरूपं नदीनिदर्शनेन ज्ञापयति—

यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

( मुण्ड० ३।२।८ ) इति । यथा लोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय समुद्रमुपयन्त्येवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय परं पुरुषमुपैतीति हित्तार्थः प्रतीयत दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोस्तुल्यतायै ॥ २१ ॥

देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि के सघातरूप उपाधि के सम्बन्ध से कलुषीभूत ( मलिन के समान ) और ज्ञान-ध्यानादि साधनो के अनुष्ठान से सम्प्रसन्न ( अत्यन्त स्वच्छ ) होकर देहादि सघात से उत्क्रमण करने वाले विज्ञानात्मा को मोक्ष दशा में परमात्मा के साथ एकता की सिद्धि से यह अभेद दृष्टि से आरम्भ हुआ है । इस प्रकार औडुलोमि आचार्य मानते हैं । इस प्रकार की श्रुति भी है कि ( यह सम्प्रसाद जीव इस शरीर से निकल कर अपने शुद्ध स्वरूप से सिद्ध होकर परम ज्योति को प्राप्त करता है ) और यह जीव का संसार औपाधिक होने के कारण मिथ्या है, इसको सदा परमात्मा के साथ वस्तुतः अभेद है यह बात नहीं है, किन्तु संसार दशा में स्वाभाविक भेद है, मोक्ष दशा में ही अभेद होता है, इसीसे कही श्रुति भी नदी के दृष्टान्त द्वारा जीवाश्रित भी नामरूप को समझाती है कि—

जैसे बहती हुई नदियाँ अपने आश्रित नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त ( विलय ) होती हैं, वैसे ही नामरूप से विमुक्त विद्वान् परसे, पर दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है । जैसे लोक में नदियाँ स्वाश्रय नामरूप को त्याग कर समुद्र को प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार जीव भी स्वाश्रय नामरूप को त्याग कर पर पुरुष को प्राप्त होता है, दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक की तुल्यता के लिये यहो अर्थ उस श्रुति में प्रतीत होता है ॥ २१ ॥

### अवस्थितेरिति काशकृत्स्लः ॥ २२ ॥

अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदमभेदेनोप-

क्रमणमिति काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते । तथा च ब्राह्मणम्—‘अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ ( छां० ६।३।२ ) इत्येवंजातीयकं परस्यैवात्मनो जीवभावेनावस्थानं दर्शयति । मन्त्रवर्णश्च—‘सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते’ ( तै० आ० ३।१२।७ ) इत्येवंजातीयकः । न च तेजःप्रभृतीनां सृष्टौ जीवस्य पृथक्सृष्टिः श्रुता येन परस्मादात्मनोऽन्यस्तद्विकारो जीवः स्यात् । काशकृत्स्नस्याचार्यस्याविकृतः परमेश्वरो जीवो नान्य इति मतम् । आश्मरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादन्यत्वमभिप्रेतं तथापि प्रतिज्ञासिद्धेरिति सापेक्षत्वाभिधानात् कार्यकारणभावः कियानप्यभिप्रेत इति गम्यते । औडुलोमिपक्षे पुनः स्पष्टमेवाऽवस्थान्तरापेक्षौ भेदाभेदौ गम्येते । तत्र काशकृत्स्नीयं मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते, प्रतिपिपादयिषितार्थानुसारात् ‘तत्त्वमसि’ इत्यादिश्रुतिभ्यः । एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पते, विकारोऽत्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसम्बन्धे प्रलयप्रसङ्गान्न तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत, अतश्च स्वाश्रयस्य नामरूपस्यासम्भवात्पादुपाध्याश्रयं नामरूपं जीव उपचर्यते । अतएवोत्पत्तिरपि जीवस्य कचिदग्निविस्फुलिङ्गोदाहरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयैव वेदितव्या ।

इस परमात्मा का ही इस विज्ञानात्मा रूप से भी अवस्थान ( स्थिति ) से अभेद द्वारा यह विज्ञानात्मा का उपक्रमण ( आरम्भ ) है, इस प्रकार काशकृत्स्न आचार्य मानते हैं । एव इस प्रकार का ब्राह्मण ग्रन्थ है कि ( इस जीवात्मा रूप से तेज आदि में प्रवेश करके नाम रूप का विभाग करूँ ) इस प्रकार के ब्राह्मण ग्रन्थ परमात्मा ही का जीव रूप से अवस्थान दिखलाते हैं । मन्त्र वर्ण भी है कि ( धीर सर्वज्ञ परमात्मा ही सब रूपों को विरच कर और उनके नाम द्वारा बुद्धि आदि में पैठ कर नामों के अभिवदनादि कर रहा है । एव उसको जानने वाला विद्वान् अमृत होता है ) इस प्रकार का मन्त्र जीव ब्रह्म की एकता दिखलाता है, तेज आदि की सृष्टि प्रकरण में जीव की पृथक् सृष्टि नहीं सुनी गई है कि जिससे परमात्मा से अन्य और उसका विकार जीव हो सके, इससे काशकृत्स्नाचार्य का मत है कि अविकृत परमेश्वर ही जीव है, परमेश्वर से अन्य कभी नहीं है । एव आश्मरथ्याचार्य को तो यद्यपि जीव का परमात्मा से अनन्यत्व ( अभेद ) अभिप्रेत ( इष्ट ) है, तथापि प्रतिज्ञासिद्धे, इस सापेक्षत्व के कथन से जीवेश्वर में कार्यकारणभाव है, कारण के ज्ञान से, कार्य के ज्ञान से प्रतिज्ञा की सिद्धि है, इससे अभेद के समान कुछ भेद भी अभिप्रेत है, सर्वथा अभेद नहीं तथा औडुलोमि के सिद्धान्त में तो स्पष्ट ही अवस्थान्तर की अपेक्षा वाले भेद और अभेद दोनों प्रतीत होते हैं । इन मतों में काशकृत्स्न का मत श्रुति अनुसारी प्रतीत होता है । क्योंकि ( तत्त्वमसि ) वह तू है, इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादन की इच्छा के विषय रूप, अभीष्ट जो अर्थ है, उस अर्थ के अनुसार काशकृत्स्नाऽऽचार्य का

मत है और काशकृत्स्न मत के अनुसार सत्य अभेद और कल्पित संसार के होने पर ही उस अभिन्नात्म ज्ञान से अमृत सिद्ध होता है। जीव को विकार स्वरूप मानने पर तो विकार को प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने पर विकार का प्रलय की प्राप्ति से प्रकृति के ज्ञान से विकार को अमृतत्व नहीं सिद्ध हो सकता है, इससे जीव में स्वाश्रय नाम-रूप के अभाव से उपाधि के आश्रित नाम-रूप का जीव में उपचार होता है। जीव की स्वाभाविक उत्पत्ति होने पर मोक्ष के असम्भव से ही जो कही अग्नि के विस्फुलिङ्ग ( चिनगारी ) रूप उदाहरण ( दृष्टान्त ) के द्वारा जीव की उत्पत्ति भी श्रुति में सुनाई गई है, उस उत्पत्ति को उपाधि के आश्रित ही समझना चाहिये।

यदप्युक्तं—प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन दर्शयन् विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति—इति, तत्रापीयमेव त्रिसूत्री योजयितव्या। 'प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्रमरथ्यः'। इदमत्र प्रतिज्ञातम्—'आत्मनि विदिते सर्वं विदितं भवति' 'इदं सर्वं यद्यमात्मा' ( बृह० २।४।६ ) इति च, उपपादितं च सर्वस्य नामरूपकर्मप्रपञ्चस्यैकप्रसवत्वादेकप्रलयत्वाच्च दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च कार्यकारणयोरव्यतिरेकप्रतिपादनात् तस्या एव प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयत्येतल्लिङ्गं यन्महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन कथितमित्याश्रमरथ्य आचार्यो मन्यते। अभेदे हि सत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातमवकल्पत इति। 'उत्क्रमिष्यत एवभावादित्यौडुलोमिः'। उत्क्रमिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसामर्थ्यात्संप्रसन्नस्य परेणात्मनैक्यसम्भवादिदमभेदाभिधानमित्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते। 'अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः'। अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदमभेदाभिधानमिति काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते।

यह भी जो पहले कहा था कि प्रकृत ही महान् सत्य द्रष्टव्य का विज्ञानात्मा रूप से भूतो द्वारा समुत्थान को दिखलाते हुये मुनि विज्ञानात्मा को ही यह द्रष्टव्यत्व दिखलाते हैं। वहाँ भी इन्हीं तीनों सूत्रों की योजना ( सम्बन्ध ) करनी चाहिये कि 'प्रतिज्ञासिद्धे' इत्यादि। यहाँ यह प्रतिज्ञा की गई है कि आत्मा के विदित होने से यह सब विदित ( ज्ञात ) होता है। ( जो यह सब है सो आत्म स्वरूप है ) इति। एवं नाम-रूप विस्तार का एक से प्रसव ( उत्पत्ति ) होने से तथा एक में प्रलय होने से और दुन्दुभी आदि दृष्टान्तों से कार्य कारण के अभेद प्रतिपादन के द्वारा उक्त प्रतिज्ञात वस्तु प्रतिज्ञा उपपादित भी हुई है, एवं उसी प्रतिज्ञा की सिद्धि को यह लिङ्ग भी सूचित ( प्रतिज्ञा ) करता है कि जो महान् सत्य द्रष्टव्य का विज्ञानात्मा रूप से भूतों से समुत्थान कहा गया है। इस प्रकार अश्रमरथ्याचार्य मानते हैं। क्योंकि अभेद रहते ही एक के विज्ञान से प्रतिज्ञात सर्व विज्ञान सिद्ध हो सकता है। ( उत्क्रमिष्यत. ) उत्क्रमण करने वाले ज्ञान ध्यानादि के सामर्थ्य से सम्प्रसन्न विज्ञानात्मा की परमात्मा



के साथ एकता के सम्भव से यह अभेद का कथन है, इस प्रकार औडुलोमि आचार्य मानते हैं। ( अवस्थितः ) इस परमात्मा को ही इस विज्ञानात्मा रूप से स्थिति के कारण यह अभेद का कथन युक्त है इस प्रकार काशकृत्स्नाचार्य मानते हैं।

ननुच्छेदाभिधानमेतत्—‘एनेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति’ ( बृह० २।४।१२ )—इति कथमेतदभेदाभिधानम् ? नैष दोषः। विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेतद्विनाशाभिधानं नात्मोच्छेदाभिप्रायम्। ‘अत्रैव मा भगवानममूहन्न प्रेत्य संज्ञास्ति’ इति पर्यनुयुज्य स्वयमेव श्रुत्यार्थान्तरस्य दर्शितत्वात्—‘न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्मा मात्रासंसर्गस्त्वस्य भवति’ इति। एतदुक्तं भवति—कूटस्थनित्य एवायं विज्ञानघन आत्मा नास्योच्छेदप्रसङ्गोऽस्ति, मात्राभिस्त्वस्य भूतेन्द्रिय-लक्षणाभिरविद्याकृताभिरसंसर्गो विद्यया भवति, संसर्गाभावे च तत्कृतस्य विशेषविज्ञानस्याभावान्न प्रेत्य संज्ञास्तीत्युक्तमिति। यदप्युक्तम्—‘विज्ञातारमरे केन विजानीयात्’ इति कर्तृवचनेन शब्देनोपसंहाराद्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यम्—इति, तदपि काशकृत्स्नीयेनैव दर्शनेन परिहरणीयम्।

यहाँ शंका होती है कि ( इन भूतों से समुत्थित होकर और उन भूतों के नाश के बाद यह जीवात्मा नष्ट हो जाता है। मर कर स्थिर रहने का ज्ञान नहीं रहता है ) यह उच्छेद नाश का कथन है, फिर परमात्मा के साथ अभेद का कथन कैसे हो सकता है ? उत्तर है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि यह विनाश का कथन विशेष ज्ञान का विनाश के अभिप्राय से है, आत्मा के उच्छेद के अभिप्राय से नहीं। क्योंकि ( मृत की संज्ञा ( ज्ञान ) नहीं रहती है, इस वाक्य में हे भगवन् आपने मुझे मोहित किया है ) इस प्रकार पर्यनुयोग ( आशंकामय प्रश्न ) करके श्रुति से स्वयं अर्थान्तर का प्रदर्शन कराया गया है कि ( अरे मैत्रेयि ! मैं मोह का हेतु रूप वाक्य नहीं कह रहा हूँ। अरे ! यह आत्मा निश्चय अविनाशी है, और नाशक के अभाव से अनुच्छित्ति ( नाश रहितता ) रूप धर्म वाली है। परन्तु शरीर से समुत्थान काल में इसका विषय इन्द्रियादि से सम्बन्ध नहीं है, इसलिये विशेष ज्ञान का अभाव रहता है। इससे यह कहा गया है कि कूटस्थ नित्य ही और विज्ञानघन स्वरूप ही यह आत्मा है, उसके उच्छेद का कोई प्रसङ्ग, अवसर कभी है ही नहीं, परन्तु भूतेन्द्रिय स्वरूप अविद्याकृत मात्राओं के साथ इसका विद्या से असंसर्ग ( सम्बन्धाभाव ) होता है, और संसर्ग के अभाव होने पर सम्बन्धकृत विशेष ज्ञान के भी अभाव होने के कारण कहा गया है कि मरने के बाद संज्ञा नहीं है, और पहले जो यह कहा था कि ( अरे मैत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जाना जायगा ) इस प्रकार विज्ञातारूप कर्ताके वाचक शब्द द्वारा उपसंहार होने से विज्ञानात्मा ही यहाँ द्रष्टव्य स्वरूप है, इसका भी काशकृत्स्न के सिद्धान्त विज्ञान से ही परिहार कर्तव्य है।

अपि च 'यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति' ( बृ० २।४।१३ ) इत्यारभ्याविद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणं विशेषविज्ञानं प्रपञ्चय 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्' इत्यादिना विद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणस्य विशेषविज्ञानस्याभावमभिदधाति । पुनश्च त्रिषयाभावेऽपि आत्मानं विजानीयात् इत्याशङ्क्य 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' इत्याह । ततश्च विशेषविज्ञानाभावोपपादनपरत्वाद्वाक्यस्य विज्ञानघातुरेव केवलः सन् भूतपूर्वगत्या कर्तृवचनेन तृचा निर्दिष्ट इति गम्यते । दर्शितं तु पुरस्तात् काशकृत्स्नीयस्य पक्षस्य श्रुतिमत्त्वम्, अतश्च विज्ञानात्मपरमात्मनोरविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपरचितदेहाद्युपाधिनिमित्तो भेदो न पारमार्थिक इत्येषोऽर्थः सर्वैवेदान्तवादिभिरभ्युपगन्तव्यः ।

दूसरी बात यह है कि ( जहाँ द्वैत के समान रहता है वहाँ अन्य पुरुषादि अग्य पुरुषादि को स्वप्न के समान सत्य ही देखता है ) यहाँ से आरम्भ करके अविद्या काल में उस विज्ञाता के ही दर्शनादि रूप विशेष ज्ञान का प्रपञ्च ( विस्तार ) करके ( जिस अवस्था और काल में इस विज्ञाता के सब आत्मा ही हो गये उस काल में किससे किसको देखे ) इत्यादि वचनो द्वारा उसी विज्ञानात्मा के विद्याकाल में दर्शनादिरूप विशेष ज्ञान के अभाव को कहते हैं । एव विषयो के अभाव होने पर भी आत्मा को कौन जानेगा ऐसी चका फिर से करके ( अरे मैत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जाना जायगा ) यह कहते हैं ! इससे मोक्षावस्था में विशेषज्ञानो के अभाव का प्रतिपादन परक वाक्य के होने से, मोक्ष काल में स्थिर केवल विज्ञान स्वरूप ही भूतपूर्व गति ( अज्ञानकालिक दृष्टि ) से कर्ता वाचक तृच प्रत्यय से निर्दिष्ट हुआ है, ऐसा समझा जाता है । इससे बस्तुतः कर्ता शब्द से उपसंहार नहीं है और काशकृत्स्नाचार्य के पक्ष को पहले श्रुतिमत्त्व ( श्रुति अनुसारित्व ) दिखलाया गया है । अतः इस श्रुतिमत्ता से यह अर्थ सब वेदान्तवादियों को समझना चाहिये कि विज्ञानात्मा और परमात्मा का भेद अविद्यादि से प्रत्युपस्थापित ( प्राप्त ) नामरूप से रचित देहादिरूप उपाधि निमित्तक है, इससे भेद मिथ्या है परमार्थिक सत्य नहीं ।

'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' ( छां० ६।२।१ ) 'आत्मैवेदं सर्वम्' ( छां० ७।२।२ ), 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्' ( मुण्ड० २।२।११ ), 'इदं सर्वं यदयमात्मा' ( बृ० २।४।६ ) 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' ( बृ० ३।७।२३ ), 'नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ' ( बृ० ३।८।११ ) इत्येवंरूपाभ्यः श्रुतिभ्यः, स्मृतिभ्यश्च 'वासुदेवः सर्वमिति' ( गी० ७।१६ ), 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' ( गी० १३।२ ), 'समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्' ( गी० १३।२७ ) इत्येवंरूपाभ्यः । भेददर्शनापवादाच्च 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुः' ( बृ० १।४।१० ), 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' ( बृ० ४।४।१६ ) इत्येवंजातीयकात् ।

हे सोम्य ! यहाँ संसार सृष्टि से पहले सत् एक और अद्वितीयरूप ही था । ( ये सब आत्मा ही है ), ( ये सब ब्रह्म ही हैं ), ( जो यह आत्मा है यह सब है ), ( इस आत्मा से अन्य द्रष्टा नहीं है ), ( इससे अन्य द्रष्टृ नहीं है ), इस प्रकार के स्वरूप वाली श्रुतियों से उक्त पारमार्थिक भेदों का अभाव सिद्ध होता है । एव ( सब का वासस्थान देव सर्वात्मा है ), ( हे भारत ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो ) ( सब भूतों में सम निर्विशेष रूप से वर्तमान परमेश्वर को जो देखता है वह सत्य को देखता है ) इस प्रकार की स्मृतियों से भी पारमार्थिक भेद का अभाव सिद्ध होता है । एवं ( वह परमात्मा मुझसे अन्य है, मैं परमात्मा से अन्य हूँ ) इस प्रकार जो जानता है वह नहीं जानता है, वह जैसा पशु हो वैसा है ) ( वह मृत्यु के बाद बार-बार मृत्यु को प्राप्त करता है कि जो इस आत्मा में नाना के समान देखता है ) इस प्रकार की श्रुतियों से भेददर्शन का अपवाद ( निन्दा ) से भी भेद पारमार्थिक नहीं है ।

‘स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म’ ( बृ० ४।४।२५ ) इति चात्मनि सर्वविक्रियाप्रतिषेधात्, अन्यथा च मुमुक्षूणां निरपवादविज्ञानानुपपत्तेः, सुनिश्चितार्थत्वानुपपत्तेश्च । निरपवादं हि विज्ञानं सर्वाकाङ्क्षानिर्वर्तकमात्मविषयमिष्यते, ‘वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः’ ( मुण्ड० ३।२।६ ) इति च श्रुतेः, ‘तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः’ ( ईशा० ७ ) इति च । स्थितप्रज्ञलक्षणस्मृतेश्च ( गी० २।५४ ) । स्थिते च क्षेत्रज्ञपरमात्मैकत्वविषये सम्यग्दर्शने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नाममात्रभेदात् क्षेत्रज्ञोऽयं परमात्मनो मित्रः परमात्मायं क्षेत्रज्ञाद्भिन्न इत्येवंजातीयक आत्मभेदविषयो निर्बन्धो निरर्थकः । एको ह्ययमात्मा नाममात्रभेदेन बहुधाभिधीयत इति, नहि ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायाम्’ ( तै० २।१ ) इति काञ्चिदेवैकां गुहामधिकृत्यैतदुक्तम् । नच ब्रह्मणोऽन्यो गुहायां निहितोऽस्ति, ‘तस्मिन्नु तदेवानुप्राविशत्’ ( तै० २।६ ) इति स्रष्टुरेव प्रवेशश्रवणात् । ये तु निर्बन्धं कुर्वन्ति ते वेदान्तार्थं बाधमानाः श्रेयोद्वारं सम्यग्दर्शनमेव बाधन्ते, कृतकमनित्यं च मोक्षं कल्पयन्ति, न्यायेन च न संगच्छन्त इति ।

( वह यह आत्मा महान्, अज ( जन्मरहित ) जरारहित, मृत्युरहित, नित्य मुक्त अमय ब्रह्म स्वरूप है ) इस प्रकार आत्मा में सब विकारों का निषेध से भेद सत्य नहीं है । अन्यथा भेद के सत्य रहते मुमुक्षुओं को अहं ब्रह्मास्मि ( मैं ब्रह्म हूँ ) यह ज्ञान निरपवाद ( बाधक रहित ) नहीं होगा । एवं सुनिश्चितार्थकत्व के ज्ञान में असिद्धि होगी, इससे भेद सिद्धा है । एवं भेद के अभाव से निरपवाद ही आत्मविषयक ज्ञान सर्वाकांक्षा का निवर्तक माना जाता है, आकांक्षा का निवर्तक रूप से इष्ट समझा जाता है । यह ( वेदान्त के विज्ञान से सुनिश्चित अर्थ वाले परिमुक्त होते हैं ) इस श्रुति से सिद्ध होता है । एवं ( एकत्व को देखनेवाले को उस एकत्व के दर्शन काल

मे और उस आत्मा मे कौन मोह और कौन शोक हो सकता है ) अर्थात् निश्चित ज्ञान से अज्ञानमूलक मोहादि का अभाव हो जाता है। इस श्रुति वचन से और स्थितप्रज्ञ के लक्षणरूप स्मृति से भी निरपवाद निश्चित ज्ञान से सब आकाक्षादि निवृत्त होते हैं। क्षेत्रज्ञ परमात्मा के एकत्वविषयक सम्यक् ज्ञान के निश्चितरूप से स्थिर होने पर क्षेत्रज्ञ और परमात्मा मे नाममात्र के भेद रहने से, यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा से भिन्न है या यह परमात्मा क्षेत्रज्ञ से भिन्न है इस प्रकार का आत्मभेद विषयक निर्बन्ध ( आप्रह नियम ) निरर्थक निष्प्रयोजन है। यह एक ही आत्मा नाममात्र के भेद से बहुत प्रकार से कहा जाता है। और ( सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है उसको जो बुद्धिरूप गुहा मे निहित स्थित जानता है, वह सब भोग को भोगता है ) यह कथन जीव के स्थानों से भिन्न किसी एक गुहा के अधिकार ( प्रकरण उद्देश ) करके नहीं है और ब्रह्म से अन्य गुहा में निहित नहीं है। क्योंकि ( वह ब्रह्म ही ससार एव शरीरादि को रचकर इसमे प्रवेश करता है) इस प्रकार स्रष्टा का ही प्रवेश सुना गया है, इससे सब गुहा मे एक ब्रह्म प्रविष्ट है, वही जीव है, इससे भेद का आप्रह निरर्थक है, क्योंकि भेद मिथ्या है, एव जो लोग सत्य भेद का आप्रह करते हैं, वे वेदान्तार्थ सत्य अभेद को बाधित ( निषेध ) करते हुए मोक्ष का द्वार सम्यग्दर्शन ज्ञान को बाधित ( नष्ट ) करते हैं। एवं ज्ञान को नष्ट करके कर्मजन्य कार्यरूप अनित्य मोक्ष की कल्पना करते है तथा न्यायपथ से गमन नहीं करते हैं, अर्थात् ज्ञान से अज्ञान की निवृत्तिपूर्वक नित्यमुक्त स्वरूप की अभिव्यक्तिरूप मुक्ति को नहीं मानते हैं, अत ये न्याय से संगत नहीं होते हैं।

### प्रकृत्यधिकरण ॥ ७ ॥

निमित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च वीक्षणत् । कुलालवन्निमित्तं तन्नोपादानं मृदादिवत् ॥१॥  
बहु स्यामित्युपादानभावोऽपि श्रुत ईक्षितुः । एकबुद्ध्या सर्वधीश्च तस्माद्ब्रह्मोभयात्मकम् ॥२॥

भावी ईश्वर माया शक्ति द्वारा जगत् की प्रकृति ( उपादानकरण ) भी है। ऐसा ही होने पर प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का अनुपरोध ( अबाध-अनिवारण ) है। यहाँ सशय होता है कि ब्रह्म जगत् का निमित्तकारण ही है, या उपादान भी। पूर्वपक्ष है कि वीक्षण के श्रवण से चेतन कुलालादि के समान निमित्त कारण ही है। मृदादि के समान उपादान नहीं। सिद्धान्त है कि ईक्षणकर्ता ईश्वर की उपादानता भी ( बहु-स्याम् ) इस श्रुति मे सुनी गई है, एव एक ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान सुना गया है, अत वह उपादान के बिना हो नहीं सकता, अर्थात् ब्रह्मनिमित्त और उपादान उभय ( दोनों ) कारण स्वरूप हैं।

### प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् ॥ २३ ॥

यथाभ्युदयहेतुत्वाद्धर्मो जिज्ञास्य एवं निःश्रेयसहेतुत्वाद्ब्रह्म जिज्ञास्यमित्यु-  
क्तम् , ब्रह्म च 'जन्माद्यस्य यतः' ( ब्र० १।१।२ ) इति लक्षितम् । तच्च लक्षणं  
घटरुचकादीनां मृत्सुवर्णादिवत्प्रकृतित्वे कुलालसुवर्णकारादिवन्निमित्तत्वे च

समानामित्यतो भवति विमर्शः—किमात्मकं पुनर्ब्रह्मणः कारणत्व स्यात्—इति । तत्र निमित्तकारणमेव तावत्केवलं स्यादिति प्रतिभाति । कस्मात् ? ईक्षापूर्वक-कर्तृत्वश्रवणात् । ईक्षापूर्वक हि ब्रह्मणः कर्तृत्वमवगम्यते—‘स ईक्षां चक्रे’ ( प्र० ६।३ ) ‘स प्राणमसृजत्’ ( प्र० ६।४ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । ईक्षापूर्वकं च कर्तृत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु दृष्टम् । अनेककारकपूर्विका च क्रियाफलसिद्धि-लोकं दृष्टा ।

अभ्युदय रूप स्वर्गादि के हेतु होने से जैसे धर्म जिज्ञास्य ( विचारणीय ) है । इसी प्रकार मोक्ष का हेतु होने से ब्रह्म भी जिज्ञास्य है, यह पहले कहा गया है । एव ( जन्माद्यस्य यत ) इससे ब्रह्म का लक्षण कहा गया है । वह लक्षण, घट और रुचक ( भूषण विशेष ) आदि के जैसे मिट्टी, सुवर्णादि उपादान कारण होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में जगत् प्रकृतित्व ( उपादानत्व ) दशा में, कुम्हार, सोनार के समान निमित्तत्व दशा में तुल्य है । इससे भेद ज्ञान के लिए विमर्श ( विचार से सशय ) होता है कि ब्रह्म की कारणता किस स्वरूप से हो सकती है ? वहाँ पहले भासता है कि ब्रह्म केवल निमित्तकारण ही हो सकता है, क्योंकि ईक्षण आलोचनपूर्वक कर्तृता सुनी गई है । इससे ईक्षणपूर्वक ही ब्रह्म के कर्तृत्व अवगत ज्ञात होते हैं ( वह ईक्षण क्रिया ) और ( वह प्राण की सृष्टि क्रिया ) इत्यादि श्रुतियों से उक्तार्थ ही सिद्ध होता है । लोक में भी ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व-निमित्त कारणरूप कुम्भकारादि में ही देखा गया है । अनेक कारकपूर्वक क्रियाफल की मित्रि लोक में देखी गई है । अर्थात् निमित्त और उपादान रूप भिन्न कारण से घटादि की सिद्धि देखी गई है ।

स च न्याय आदिकर्तार्यपि युक्तः संक्रमयितुम् । ईश्वरत्वप्रसिद्धेश्च । ईश्वराणां हि राजवैवस्वतादीनां निमित्तकारणत्वमेव केवलं प्रतीयते तद्वत्परमेश्वरस्यापि निमित्तकारणत्वमेव युक्तं प्रतिपत्तुम् । कार्यं चेदं जगत्सावयवमचेतनमशुद्धं च दृश्यते, कारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवितव्यं, कार्यकारणयोः सारूप्यदर्शनात् । ब्रह्म च नैवल्लक्षणमवगम्यते ‘निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्’ ( श्वे० ६।१६ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । पारिशेष्याद्ब्रह्मणोऽन्यदुपादान-कारणमशुद्ध्यादिगुणकं स्मृतिप्रसिद्धयभ्युपगन्तव्यम् । ब्रह्मकारणत्वश्रुतेर्निमित्तत्वमात्रे पर्यवसानादिति ।

यही लौकिक न्याय आदि कर्ता ईश्वर में भी संक्रम ( प्राप्ति ) कराने योग्य है । अर्थात् ईश्वर भी स्वभिन्न उपादान सहित हो कर जगत् रचता है, अकेला नहीं एवं ईश्वरत्व की प्रसिद्धि से भी ईश्वर उपादान रूप नहीं है, किन्तु केवल निमित्त रूप है । जिससे राजा और वैवस्वतमनु आदि रूप ईश्वरो को केवल निमित्त कारणत्व ही प्रतीत होता है, वैसे ही परमेश्वर का भी निमित्त कारणत्व ही समझने योग्य है । यह जगत् रूप कार्य सावयव अचेतन और अशुद्ध दीखता है । उसका उपादान कारण भी वैसा

ही होना चाहिये, क्योंकि कार्य और उपादान कारण मे समान रूपता ( तुल्यता ) देखी जाती है। ब्रह्म इस प्रकार वाला ( सावयवादि स्वरूप वाला ) अवगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ( ब्रह्म निरवयव क्रिया रहित परिणामादि रहित निर्दोष तम परिवर्जित है ) इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म मे सावयवता आदि का अभाव सिद्ध होता है। इस प्रकार ब्रह्म को जगत के सदृश नहीं हो सकने पर ब्रह्म से अन्य अशुद्धि आदि गुण वाला साख्य स्मृति मे प्रसिद्ध ही उपादान कारण परिशेषता से मानने योग्य है, और ब्रह्म के कारणत्व विषयक श्रुति का ब्रह्म के निमित्त कारणत्व मात्र में पर्यवसान (समाप्ति तात्पर्य) होने से विरोध नहीं है। उक्त परिशेष से कारणत्व की सिद्धि होती है।

एवं प्राप्ते ब्रह्मः—‘प्रकृतिश्च’ उपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तव्यं निमित्तकारणं च । न केवलं निमित्तकारणमेव । कस्मात् ? प्रतिज्ञादृष्टान्तौ श्रौतौ नोपरुध्येते । प्रतिज्ञा तावत्—‘उत तमादेशमप्राच्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्’ ( छा ६।१।२ ) इति । तत्र चैकेन विज्ञातेन सर्वमन्वद्विज्ञातमपि विज्ञातं भवतीति प्रतीयते । तच्चापादानकारणविज्ञाने सर्वविज्ञानं संभवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात्कार्यस्य, निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, लोके तद्वणः प्रासादव्यतिरेकदर्शनात् । दृष्टान्तोऽपि—‘यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्’ इत्युपादानकारणगोचर एवास्त्रायते तथा ‘एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्’ ‘एकेन नखनिष्कन्तनेन सर्वं काष्ठीयसं विज्ञातं स्यात् ( छा० ६।१।४,५,६ ) इति च । तथान्यत्रापि ‘कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’ ( मुण्ड० १।१।२ ) इति प्रतिज्ञा, ‘यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति’ ( मुण्ड० १।१।७ ) इति दृष्टान्तः, तथा ‘आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्’ इति प्रतिज्ञा, ‘स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयाद्ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः’ ( बृ० ४।१।६,८ ) इति दृष्टान्तः ।

इस प्रकार पूर्वपक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहते हैं कि प्रकृतिश्च । ब्रह्म को उपादान कारण और निमित्त कारण भी मानना चाहिये, केवल निमित्त कारण ही नहीं, क्योंकि निमित्त और उपादान उभयस्वरूप ब्रह्म को ही मानने पर प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का अनुपरोध (अबाध) होता है। अर्थात् ब्रह्म को उभय कारण मानने से श्रुति मे वर्णित प्रतिज्ञा और दृष्टान्त उपरुद्ध (वाधित) नहीं होते हैं। पहले प्रतिज्ञा है कि (तुमने क्या उस उपदेश को भी गुरु से पूछा था, कि जिस उपदेश के सुनने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, जिसके मनन से मनन रहित भी मनन के विषय हो जाता है, और जिसके विज्ञान से अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है) उस प्रतिज्ञा मे एक के विज्ञात होने से अन्य सब अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। इस अर्थ की प्रतीति

होती है वह उपादान कारण के विज्ञान से सबका विज्ञान होना सम्भव है, क्योंकि उपादान कारण से कार्य का अभेद होता है, और निमित्त कारण से अभेद तो कार्य का नहीं होता है क्योंकि प्रसाद ( महल ) को बनाने वाले तक्षा ( बढई ) को लोक मे प्रसाद से भेद देखा जाता है। दृष्टान्त भी उपादान कारण विषयक ही कहा जाता है कि ( हे सोम्य ! जैसे ज्ञात एरु मृत् पिण्ड से मिट्टी के सब कार्य विज्ञात होते हैं, क्योंकि चाक् से आरम्भ जिसका होता है, ऐसा नाम मात्र विकार कार्य है, मृत्तिका ही सत्य है ) इसी प्रकार ( एक लोहमणिसुवर्णपिण्ड से सब लोह सुवर्णमय कार्य विज्ञात होता है ) और ( एक नख निकृन्तन ( नहरनी ) का हेतु लोहपिण्ड से लोह के कार्य सब ज्ञात होते हैं ) ऐसे ही अन्यत्र भी प्रतिज्ञा है कि ( हे भगवन् किसके विज्ञात होने से यह सब जगत् विज्ञात होता है ) और दृष्टान्त है कि जैसे भूमि मे औषधियाँ होती है। इसी प्रकार प्रतिज्ञा है कि ( अरे मैत्रेयि ! आत्मा ही के दृष्ट श्रुत मत और विज्ञात होने पर यह सब विदित ( ज्ञात ) हो जाता है। अन्य दृष्टान्त है कि ( कारण से पृथक् कार्य गृहीत नहीं होता है, जैसे बजाई जाती हुई दुन्दुभी के बाह्य शब्दो का ग्रहण नहीं कर सकते हैं, परन्तु दुन्दुभि के ग्रहण से या दुन्दुभि को बजाने वाले के ग्रहण से सब दुन्दुभि के शब्द गृहीत होते हैं।

एवं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ प्रकृतित्वसाधनौ प्रत्येतव्यौ। यत् इतीयं पञ्चमी 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यत्र 'जनिकर्तुः प्रकृतिः' ( पा० सू० १।४।३० ) इति विशेषस्मरणात्प्रकृतिलक्षण एवापादाने द्रष्टव्या। निमित्तत्वं त्वधिष्ठात्रन्तराभावादधिगन्तव्यम्। यथाहि लोके मृत्सुवर्णादिकमुपादानकारणं कुलालसुवर्णकारादीनधिष्ठातृनपेक्ष्य प्रवर्तते नैवं ब्रह्मण उपादानकारणस्य समोऽन्योऽधिष्ठातापेक्ष्योऽस्ति, प्रागुत्पत्तेरेकमेवाद्वितीयमित्यवधारणान्। अधिष्ठात्रन्तराभावोऽपि प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादेवोदितो वेदितव्यः। अधिष्ठातरि ह्युपादानादन्यस्मिन्नभ्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्यासंभवात्प्रतिज्ञादृष्टान्तोपरोध एव स्यात्। तस्मादधिष्ठात्रन्तराभावादात्मनः कर्तृत्वमुपादानान्तराभावाच्च प्रकृतित्वम् ॥ २३ ॥

प्रत्येक वेदान्त मे इसी प्रकार के प्रकृतित्व ( उपादानत्व ) के साधनरूप प्रतिज्ञा और दृष्टान्त को यथासम्भव ( सभव के अनुसार ) समझना चाहिये। एव ( जिससे यह सब भूत उत्पन्न होते है ) इत्यादि अर्थ को कहने वाली श्रुति मे ( यत् ) यह पञ्चमी विभक्तियुक्त पद है, वहाँ ( जनिकर्तुः प्रकृतिः ) इस विशेष सूत्र से प्रकृति रूप उपादान अर्थ मे ही पञ्चमी विभक्ति समझनी चाहिये। इस प्रकार ब्रह्म को जगत् प्रकृतित्व होने पर भी अन्य अधिष्ठाता के अभाव से निमित्त कारणत्व भी ब्रह्म मे समझना चाहिए जिससे लोक मे मिट्टी सुवर्णादि रूप उपादान कारण, कुलाल ( कुम्भकार ) सुवर्णकारादि रूप अधिष्ठाता की अपेक्षापूर्वक कार्य सिद्धि के लिए

प्रवृत्त होता है, स्वयं नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म को उपादान कारण होने पर भी अन्य अधिष्ठाता अपेक्षित नहीं है, क्योंकि जगत् की उत्पत्ति से पहले एक ही अद्वितीय था, इस प्रकार अवधारण ( नियम ) किया गया है। ओर प्रतिज्ञा इष्टान्त के अनुरोध रूप हेतु से ही अन्य अधिष्ठाता का अभाव भी उक्त ही समझना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मस्वरूप उपादान से अन्य अधिष्ठाता का स्वीकार करने पर, फिर भी एक के विज्ञान से सबके विज्ञान का असम्भव होने से प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का बध ही होगा। इससे अन्य अधिष्ठाता के अभाव से आत्मा को ही कर्तृत्व है और अन्य उपादान के अभाव से प्रकृतित्व है। यहाँ अभिप्राय यह है कि—( तदधीनत्वादर्थवत् ) इस सूत्र में स्वतन्त्र प्रकृति का निषेधपूर्वक ईश्वराधीन जगत् के बीज शक्तिरूप प्रकृति का स्वीकार किया ही गया है। एवं ( माया तु प्रकृति विद्यात् ) इत्यादि श्रुति में स्पष्ट ही मायारूप शक्ति को प्रकृति कहा गया है, इससे परमात्मा को कूटस्थनित्यतादि का स्वीकार से परमात्मा में परिणामी उपादानता सर्वथा असम्भव है, तथापि शक्ति मान का अभेद की दृष्टि से तथा माप की भिन्न सत्ता आदि के अभावादि की दृष्टि से प्रकृतिरूप माया की उपादानता तथा परिणाम को ब्रह्म में कल्पित ब्रह्ममात्र ही मानकर यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है ॥ २३ ॥

कुतश्चात्मनः कर्तृत्वप्रकृतित्वे—

### अभिध्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥

अभिध्योपदेशश्चात्मनः कर्तृत्वप्रकृतित्वे गमयति 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति' 'तदैक्षत बहु स्यं प्रजायेय' इति च। तत्राभिध्यानपूर्विकायाः स्वातन्त्र्यप्रवृत्तेः कर्तेति गम्यते, बहु स्यामिति प्रत्यगात्मविषयत्वाद्बहुभवन-  
अभिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते ॥ २४ ॥

एव अन्य किस हेतु से आत्मा को कर्तृत्व और प्रकृतित्व है—

अभिध्या ( सृष्टि मकल्प ) में आत्मा के कर्तृत्व और प्रकृतित्व दोनों के बोध कराते है—कि ( उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ और उत्पन्न होऊँ ) वहाँ अभिध्यानपूर्वक स्वाधीन प्रवृत्ति में कर्ता है ऐसी प्रतीति होती है और बहुत होऊँ, इस प्रकार बहुभवन के अभिध्यान को प्रत्यगात्मविषयत्व से ब्रह्मात्मा प्रकृति है, यह भी समझा जाना है ॥ २४ ॥

### साक्षाच्चोभयान्नात् ॥ २५ ॥

प्रकृतित्वस्यायमभ्युच्चयः। इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म, यत्कारणं साक्षाद्ब्रह्मैव कारण-  
मुपादायोभौ प्रभवप्रलयावान्नायेते—'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव  
समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति' ( छां० १।६।१ ) इति। यद्धि यस्मात्प्रभवति यस्मिंश्च प्रलीयते तत्तस्योपादानं प्रसिद्धम्, यथा व्रीहियवादीनां पृथिवी।



साक्षादिति चोपादानान्तरानुपादान दर्शयत्याकाशादेवेति । प्रत्यस्तमयश्च नोपादानादन्यत्र कायस्य दृष्टः ॥ २५ ॥

इस सूत्र मे च शब्द से ब्रह्म के प्रकृतित्व का अभ्युच्चय ( समुच्चय ) किया गया है, अर्थात् ब्रह्म के प्रकृतित्व मे दूसरा हेतु बताया गया है कि, इस कारण से भी ब्रह्म प्रकृति है, जिस कारण से साक्षात् ब्रह्मरूप कारण का ग्रहण स्वीकार करके उत्पत्ति और प्रलय दोनो कहे जाते हैं कि ( प्रसिद्ध ये सब ही भूत आकाश ( विभु ) परमात्मा से ही समुत्पन्न होते है, और आकाश ही मे लीन होते हैं ) एव जो जिससे उत्पन्न होता है जिसमे लीन होता है, वह उसका उपादान होता है, यह प्रसिद्ध है । जैसे कि धान, जौ आदि का पृथिवी उपादान है । एवं सूत्रगत साक्षात् पद से दूसरे उपादान के अग्रहण को सूत्रकार दिखलाते वह 'आकाशादेव' इस श्रुति मे एवकार से सूचित होता है । कार्य का प्रलय भी उपादान से अन्यत्र नहीं देखा गया है, इससे लयाधार ब्रह्म उपादान कारण है ॥ २५ ॥

### आत्मकृतेः परिणामात् ॥ २६ ॥

इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म, यत्कारणं ब्रह्मप्रक्रियायाम् 'तदात्मानं स्वयमकुरुत' ( तै० २।७ ) इत्यात्मनः कर्मत्वं कर्तृत्वं च दर्शयति, आत्मानमिति कर्मत्वं, स्वयमकुरुतेति कर्तृत्वम् । कथं पुनः पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं संपादयितुम्, परिणामादिति ब्रूमः । पूर्वसिद्धोऽपि हि सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासात्मानमिति । विकारात्मना च परिणामो मृदाद्यासु प्रकृतिषूपलब्धः, स्वयमिति च विशेषणान्निमित्तान्तरानपेक्षत्वमपि प्रतीयते । परिणामादिति वा पृथक्सूत्रम् । तस्यैषोऽर्थः—इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म यत्कारणं ब्रह्मण एव विकारात्मनायं परिणामः सामानाधिकरण्यानाम्नायते 'सच्च त्यच्चाभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च' ( तै० २।६ ) इत्यादिनेति ॥२६॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी ब्रह्म प्रकृति है कि जिस कारण से ब्रह्म सम्बन्धी सृष्टि के प्रकरण मे ( वह आत्मा को स्वय संसार रूप बनाया ) इस प्रकार आत्मा को कर्मत्व और कर्तृत्व दोनो श्रुति दिखलाती है । ( आत्मानम् ) इस पद से कर्मत्व तथा 'स्वयमकुरुत' इससे कर्तृत्व यहाँ शका होती है कि क्रिया का आश्रयसिद्ध पदार्थ कर्ता होता है, और क्रियाजन्य साध्य पदार्थ कर्म होता है, वहाँ कर्ता रूप से व्यवस्थित ( निश्चित ) अत एव पूर्वसिद्ध सत्यात्मा मे क्रियाजन्यत्व रूप कर्मत्व का सम्पादन ( सिद्धि ) कैसे कर सकते हैं ? उत्तर है कि परिणाम से जिससे पूर्वसिद्ध होता हुआ भी आत्मा मायिक विकारात्मक विशेषरूप से अपनी मायामय आत्मा को परिणत कर दिया । मिट्टी आदि रूप प्रकृति मे विकार रूप से परिणाम उपलब्ध ( प्रत्यक्ष ) है और स्वयम्, इस विशेषण से अन्य निमित्त की अनपेक्षता भी प्रतीत होती है । अथवा ( परिणामात् ) यह पृथक् सूत्र है, उसका यह अर्थ है कि, इस कारण से भी ब्रह्म

प्रकृति है कि ब्रह्म का ही यह विकार ( कार्य ) रूप से परिणाम समानाधिकरणाता के द्वारा कहा जाता है कि ( वह ब्रह्म सत् प्रत्यक्ष, भूमि, जल, तेज, रूप और तत्परोक्ष वायु आकाश रूप तथा निर्वचन योग्य और निर्वचन के अयोग्य रूप हो गया ) इत्यादि से विकार को ब्रह्म के साथ समानाधिकरणाता ( एक विभक्ति वाच्य अभिन्नता ) है इससे विकार की प्रकृतिता सिद्ध होती है ॥ २६ ॥

### योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥

इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पठ्यते वेदान्तेषु कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्' ( मुण्ड० ३।१।३ ) इति, 'यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः' ( मुण्ड० १।१।६ ) इति च । योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः समधिगतो लोके 'पृथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्' इति । स्त्रीयोनेरप्यस्त्येवावयवद्वारेण गर्भं प्रत्युपादानकारणत्वम् । क्वचित्स्थानवचनोऽपि योनिशब्दो दृष्टः—योनिष्ट इन्द्र निपदे अकारि' ( ऋ० सं० १।१०।४।१ ) इति । वाक्यशेषात्त्वत्र प्रकृतिवचनता परिगृह्यते 'यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च' ( मु० १।१।७ ) इत्येवंजातीयकात् । तदेव प्रकृतिवत् ब्रह्मणः प्रसिद्धम् । यत्पुनरिदमुक्तम्—ईक्षापूर्वकं कर्तृत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु लोके दृष्टं नोपादानेषु—इत्यादि, तत्प्रत्युच्यत—न लोकत्रदिह भवितव्यम्, नह्ययमनुमानगम्योऽर्थः । शब्दगम्यत्वात्त्वस्यार्थस्य यथाशब्दमिह भवितव्यम् । शब्दश्चोक्षितुरीश्वरस्य प्रकृतिवत्त्वं प्रतिपादयतीत्यवोचाम । पुनश्चैतत्सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ॥ २७ ॥

इस हेतु से भी ब्रह्म प्रकृति है कि वेदान्तो मे ब्रह्म योनि है । इस प्रकार भी पढते हैं कि ( कर्ता नियन्तापूर्णं ब्रह्म योनि वा ब्रह्मा की योनि प्रकृति ) वा भूत योनि को धीर लोग ध्यान से देखते हैं ) यहाँ योनि शब्द प्रकृति का वाचक है यह लोक मे समधिगत ( प्रसिद्ध ) है कि ( ओषधि वनस्पति की पृथिवी योनि है ) इत्यादि । स्त्री की योनि को भी शोणित रूप अवयव द्वारा गर्भ के प्रति उपादानकारणत्व है ही । कहीं स्थान का वाचक भी योनि शब्द देखा गया है, जैसे कि ( हे इन्द्र ! तेरे निषद-स्थिति के लिए मैंने स्थान बनाया है ) परन्तु वाक्य शेष से यहाँ प्रकृति वाचकता परिगृहीत की जाती है ( जैसे मकड़ी तन्तु को रचती है और ग्रहण करती है ) इस प्रकार के वाक्य शेष है । उनसे प्रकृति का ग्रहण होता है । इस प्रकार वह ब्रह्म का प्रकृतिवत् प्रसिद्ध हुआ और जो पहले यह कहा था कि लोक मे ईक्षापूर्वक कर्तृत्व कुलालादि निमित्त कारणो मे ही देखा गया है, उपादानो मे नहीं, उसके प्रति कहा जाता है कि यहाँ लोक के समान नहीं होना चाहिए । क्योंकि लोक के उदाहरणादि द्वारा अनुमान से गम्य ( ज्ञेय ) यह अर्थ नहीं है, कुलालादि तुल्य अनुमेय यदि ईश्वर होगा, तो कुलालादि के समान तटस्थ शरीरीआदि स्वरूप ही होगा । इससे इस अर्थ को शब्द प्रमाण से गम्य ( ज्ञेय ) होने से यहाँ शब्द के अनुसार अर्थादि होना चाहिये

और शब्द ईश्वर के प्रकृतित्व का प्रतिपादन करता है, यह कहा जा चुका है। फिर भी विस्तार से इन सब अर्थों को आगे कहेंगे ॥ २७ ॥

### सर्वव्याख्यानाधिकरण ॥ ८ ॥

अण्वादेरपि हेतुत्वं श्रुतं ब्रह्मण एव वा । वटधानादिदृष्टान्तादण्वादेरपि तच्छ्रुतम् ॥ १ ॥  
शून्याण्वादिष्वेकबुद्ध्या सर्वबुद्धिर्न युज्यते । स्युर्ब्रह्मण्यपि धानाद्यास्ततो ब्रह्मैव कारणम् ॥ २ ॥

इस प्रधान कारणवाद का निराकरण से ही वेद विरुद्ध सब का निराकरण रूप व्याख्यान हो चुका है। सामान्य दृष्टि से सशय होता है कि परमाणु शून्यादि को भी श्रुति में जगत् का कारणत्व सुनाया गया है, अथवा ब्रह्म का ही कारणत्व सुनाया गया है ? पूर्वपक्ष है कि छान्दोग्य में बट बीज का दृष्टान्त जगत् के कारण को समझाने के लिये दिया गया है, और एक बट बीज को अत्यन्त पीस देने से अत्यन्त सूक्ष्मता के कारण जो कुछ नहीं दीखता है, उसी को महान् बटवृक्ष का हेतु बता कर उसी प्रकार का जगत् कारण को समझा गया है, इससे अणु कारणवाद और शून्य कारणवाद भी सिद्ध होता है, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि कुछ नहीं दीखता है, उससे कार्य होता है अणु से कार्य होता है इत्यादि। ( अणोरणीयान्-असदेवेदमग्र आसीत् ) इत्यादि श्रुति से भी अणुवादादि की सिद्धि होती है। सिद्धान्त है कि शून्य अणुवादादि में एक ज्ञान से सबका ज्ञान नहीं हो सकता है, और इन्द्रिय की अविषयता सूक्ष्मता से बट-बीजादि का दृष्टान्त ब्रह्मविषयक ही है, इससे ब्रह्म ही कारण है ॥ १-२ ॥

### एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥

‘ईक्षतेर्नाशब्दम्’ ( ब्र० सू० १।१।५ ) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः सूत्रैरेवं पुनः पुनराशङ्क्य निराकृतः, तस्य हि पक्षस्योपोद्बलकानि कानिचिल्लिङ्गाभासानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन् प्रतिभान्तीति । स च कार्यकारणानन्यत्वाभ्युपगमात्प्रत्यासन्नो वेदान्तवादस्य । देवलप्रभृतिभिश्च कैश्चिद्धर्मसूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वश्रितः, तेन तत्प्रतिषेधे यन्नोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिषेधे । तेऽपि तु ब्रह्मकारणवादपक्षस्य प्रतिपक्षत्वात्प्रतिषेद्धव्याः । तेषामप्युपोद्बलकं वैदिकं किञ्चिल्लिङ्गमापातेन मन्दमतीन् प्रतिभायादिति । अतः प्रधानमल्लनिर्बहणन्यायेनातिदिशति—एतेन प्रधानकारणवादप्रतिषेधन्यायकलापेन सर्वेऽण्वादिकारणवादा अपि प्रतिषिद्धनया व्याख्याता वेदितव्याः । तेषामपि प्रधानवदशब्दत्वाच्छब्दविरोधित्वाच्चेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पादाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्ति द्योतयति ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादकृतौ

शारीरकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य

चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥



ईक्षतेनाशब्दम्, यहाँ से आरम्भ करके सूत्रों द्वारा ही प्रधान कारणवाद की बार-बार आशंका करके सूत्रों से ही प्रधान कारणवाद निराकृत किया गया है। जिससे उस पक्ष के साधक पुष्टिकारक लिङ्गाभास (असत् लिंग) मन्दमति वालों को वेदान्तों में सामान्य दृष्टि से भासते हैं। एव कार्यकारण के अभेद के स्वीकार से वह प्रधान कारणवाद वेदान्तवाद के प्रत्यासन्न (अतिसमीपवर्ती) है। देवल आदि कितने धर्मसूत्रकारों ने अपने ग्रन्थों में प्रधान कारणवाद का आश्रयण किया है। इस कारण से प्रधान कारणवाद के प्रतिषेध में अत्यधिक यत्न किया गया है। और अणु आदि कारणवाद के निषेध में यत्न नहीं किया गया है। परन्तु वे अणु आदि कारणवाद भी ब्रह्मकारणवाद रूप पक्ष (सिद्धान्त) के प्रतिपक्षत्व (विरोधिता) से प्रतिषेध के योग्य है। जब उनका भी प्रवर्द्धक (पोषक) कोई वैदिक लिङ्ग सामान्य दृष्टि से मन्दमति वालों को भासेगा, और भास सकता है। इससे प्रधान (मुख्य) मल्ल (योद्धा) निबर्हण (निवारण-विजय) न्याय से अतिदेश करते हैं (सादृश्य रूप से निषिद्ध दिखलाते हैं) कि इस प्रधान कारणवाद के निषेध रूप न्याय समूह से सब अणु आदि कारणवादों को भी प्रतिषिद्ध रूप से व्याख्यात (निराकृत) समझना चाहिये। क्योंकि उनको भी प्रधान के समान अशब्दत्व और शब्द में विरोधित्व है (व्याख्याता व्याख्याता) यह पद का अभ्यास अध्याय की समाप्ति का द्योतक (प्रकाशक) है ॥ २८ ॥

मङ्गलं मङ्गलानां यज्जानानां ज्ञानमव्ययम् ।

सत्यं सत्यस्वरूपाणां प्राणप्राणं नमाम्यहम् ॥ १ ॥

यस्मिन् मायामनोयोगाद् विविधाः सृष्टयो भृताः ।

तं नौमि सच्चिदानन्दं स्वात्मानमभयं विभुम् ॥ २ ॥

कार्यकारणताहीनं कार्यकारणता गतम् ।

मायया न स्वरूपेण तं ब्रह्मात्मानमाश्रये ॥ ३ ॥

यस्मिन् ज्ञाते भवेज्ज्ञाते सर्वं सदसदात्मकम् ।

द्वन्द्वजालं विनश्येत् तं रामं सर्वगं भजे ॥ ४ ॥

जिज्ञासा ब्रह्मणं पुरया लक्षणं पुरयमुत्तमम् ।

समन्वयोऽतिपुरयात्मा सविशेषोऽत्र विद्यते ॥ ५ ॥

प्रकृतेः परंपारस्य प्रकृतित्वं तु मायया ।

इन्द्रो मायाभिरित्युक्ते विवर्तस्याश्रयो हरिः ॥ ६ ॥

प्रकृतिं स्वाह्यधिष्ठाय सभवामीति चोक्तिः ।

निर्विकारं सदा रामं सच्चिदानन्दलक्षणम् ॥ ७ ॥

नैदाघकिरणो वारि यथा यस्मिन्निर्दं जगत् ।

निर्मलं निर्विकारं तमात्मानं स्मराम्यहम् ॥ ८ ॥

इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये मन्वयाख्ये प्रथमोऽध्यायः ।



## अथ द्वितीयोऽध्यायः

[ द्वितीये अविरोधाख्याध्याये प्रथमपादे सांख्ययोगकाणादादिस्मृ-  
तिभिः सांख्यादिप्रयुक्ततर्कैश्च वेदान्तसमन्वयविरोधपरिहारः ]

### स्मृत्यधिकरण ॥ १ ॥

प्रथमेऽध्याये सर्वज्ञः सर्वेश्वरो जगत् उत्पत्तिकारणं मृत्सुवर्णादय इव घटरुचकादीनाम् । उत्पन्नस्य जगतो नियन्त्रत्वेन स्थितिकारणं, मायावीव मायाया । प्रसारितस्य च जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणम्, अवतिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य । स एव च सर्वेषां न आत्मेत्येतद्वेदान्तवाक्य-समन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितम् । प्रधानादिकारणवादाश्चाशब्दत्वेन निरा-कृताः । इदानीं स्वपक्षे स्मृतिन्यायविरोधपरिहारः, प्रधानादिवादानां च न्याया-भासोपबृंहितत्वं, प्रतिवेदान्तं च स्मृत्यादिप्रक्रियाया अविगीतत्वमित्यस्यार्थ-जातस्य प्रतिपादनाय द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । तत्र प्रथमं तावत्स्मृतिविरोध-मुपन्यस्य परिहरति—

नित्यानन्दस्वरूपाय निर्गुणाय समात्मने ।

सर्वाविरुद्धभानाय रामाय गुरवे नम ॥

प्रथमाध्याय मे वेदान्त वाक्यो के समन्वय के प्रतिपादन द्वारा यह प्रतिपादित हुआ है कि जैसे घट रुचकादि की उत्पत्ति के कारण मृत्तिका सुवर्णादि हैं, वैसे ही जगत् की उत्पत्ति का कारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर है और जैसे उत्पन्न मायामय वस्तु का नियन्ता रूप से मायावी उसकी स्थिति का कारण होता है वैसे उत्पन्न जगत् का नियन्ता रूप से सर्वज्ञ सर्वेश्वर उसकी स्थिति का कारण है । पृथिवी जैसे अण्डजादि चारो प्रकार के भूत ( प्राणी ) के शरीर समूह को अपने मे उपसंहार ( विलय ) का कारण है । वैसे ही प्रसारित विस्तृत जगत् का फिर अपने मे उपसंहार का कारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर है, और वही हम सब की आत्मा है । और अशब्दता से प्रधानादि कारणवाद निराकृत हो चुके है । अर्थात् ये वाद सब श्रुतिसिद्ध नहीं है, इससे उनका निराकरण किया गया है । अब इस समय अपने पक्ष ( सिद्धान्त ) मे स्मृति और न्याय के विरोधो का परिहार ( निवारण ), प्रधानादि कारणवादो की न्यायाभासजन्यता भ्रममूलकता, और प्रत्येक वेदान्त मे सृष्टि आदि प्रक्रिया की अविरोधिता ( श्रेष्ठता ) इत्यादि अर्थ समूह के प्रतिपादन के लिए दूसरे अध्याय का आरम्भ किया जाता है । उनमें भी सबसे प्रथम स्मृति विरोध का प्रदर्शन कराकर उसका निवारण करते हैं कि —

सांख्यस्मृत्यास्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये । धर्मे वेदः सावकाशः सकोचोऽनवकाशया ॥  
प्रत्यक्षश्रुतिमूलाभिर्मन्वादिस्मृतिभिः स्मृतिः । अमूला कापिली बाध्या न सकोचोऽनया तत ॥

पुरुषप्रधानादि का मोक्षोपयोगी विवेकादिमात्र के लिए प्रतिपादन करने वाली स्मृति की अनवकाशता ( निष्प्रयोजनता ) दोष की प्राप्ति से वेदान्त का ब्रह्म मे समन्वय ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रधानादि को मानने पर भी अन्य स्मृति की अनवकाशतादोष प्राप्त होता है । सामान्य दृष्टि से सशय होता है कि वेदान्त का ब्रह्मविषयक समन्वय मे साख्यस्मृति से संकोच, तदन्यविषयत्व होता है वा नहीं । पूर्वपक्ष है कि वेदवेदान्त धर्मापासनादि अर्थ मे सावकाश है इससे अनवकाश स्मृति से उसका संकोच होता है । सिद्धान्त है कि प्रत्यक्ष श्रुतिमूलक मनु आदि स्मृतियों से मूलरहित साख्यस्मृतिबाधित निषिद्ध हो जाती है, जिससे वेदान्त के ब्रह्मविषयक समन्वय का संकोच नहीं हो सकता है ॥ १-२ ॥

### स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चैन्नान्यस्मृत्यनवकाशदो- षप्रसङ्गात् ॥ १ ॥

यदुक्तं—ब्रह्मैव सर्वज्ञं जगतः कारणम्—इति, तदयुक्तम् । कुतः ? स्मृत्यनव-  
काशदोषप्रसङ्गात् । स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमर्षिप्रणीता शिष्टपरिगृहीता, अन्याश्च  
तदनुसारिण्यः स्मृतयः, एवं सत्यनवकाशाः प्रसज्येरन् । तासु ह्यचेतनं प्रधान  
स्वतन्त्रं जगतः कारणमुपनिबध्यते । मन्वादिस्मृत्यस्तावच्चदानालक्षणेनाग्नि-  
होत्रादिना धर्मजातेनापेक्षितमर्थं समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति । अस्य  
वर्णस्यास्मिन् कालेऽनेन विधानेनोपनयनम् । ईदृशाश्चाचारः इत्थं वेदाध्ययनम् ,  
समावर्तनम् , इत्थं सहधर्मचारिणीसंयोग इति । तथा पुरुषार्थाश्च वर्णाश्रम-  
धर्मान्नानाविधान् विदधति, नैवं कपिलादिस्मृतीनामनुष्ठेये विषयेऽवका-  
शोऽस्ति । मोक्षसाधनमेव हि सम्यग्दर्शनमधिकृत्य ताः प्रणीताः । यदि  
तत्राप्यनवकाशाः स्युरानर्थक्यमेवासां प्रसज्येत । तस्मात्तद्विरोधेन वेदान्ता  
व्याख्यातव्याः ।

पहले जो यह कहा गया है कि सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत् का कारण है, वह कहना  
अयुक्त ( अनुचित ) है, क्योंकि ऐसा मानने से स्मृति की अनवकाशतारूप दोष की  
प्राप्ति होती है । तन्त्र ( शास्त्र ) नाम वाली परमऋषि कपिल से प्रणीत ( रचित )  
शिष्ट पुरुषो से गृहीत स्मृति है, और उसके अनुसारी अन्य भी स्मृतियाँ हैं । इस प्रकार  
ब्रह्म को कारण मानने पर अनवकाश ( निरर्थक सिद्ध होगा ) क्योंकि उन  
स्मृतियों मे अचेतन स्वतन्त्र प्रधान जगत् का कारण स्वीकृत किया गया है । मनु  
आदि स्मृतियाँ तो विधिरूप अग्निहोत्रादिधर्म समूह से अपेक्षित अर्थ का समर्पण  
( बोध ) कराती हुई सावकाश होती हैं । इस अमुक वर्ण का इस काल मे इस विधि  
से उपनयन होना चाहिए, इस प्रकार का आचार होना चाहिए, इस प्रकार वेद का  
अध्ययन करना चाहिए, इस प्रकार समावर्तन ( गृहस्थाश्रम में प्रवेश ) होना चाहिए ।

धर्माचरण करने वाली स्त्री के साथ इस प्रकार संयोग होना चाहिए। इन सब अर्थों को मनु आदि स्मृतियाँ बोध कराती हैं। केवल विधिरूप यागादि से अपेक्षित अर्थ का ही नहीं बोध कराती हैं, किन्तु इसी प्रकार वर्णाश्रम के लौकिक धर्मरूप नाना प्रकार के पुरुषार्थों ( प्रयोजनो ) का भी विधान करती है। कपिलादि स्मृतियों में इस प्रकार से अनुष्ठेय ( कर्तव्य ) विषय ( कर्म ) में अवकाश ( सार्थकता ) नहीं है। जिससे मोक्ष का साधन सम्यग्दर्शन ( विवेकज्ञान ) को ही लक्ष्य उद्देश्य करके वे स्मृतियाँ रची गई हैं अर्थात् सम्यग्दर्शन का प्रारम्भ करके सम्यग्दर्शन के अधिकारियों के लिए रची गई हैं। यदि वहाँ भी अनवकाश होगी ( स्वतन्त्रप्रधानादि का बोध नहीं करा सकेगी ) तो इनको अनर्थकता ही प्राप्त होगी। जिनसे उन स्मृतियों के साथ अविरोधपूर्वक वेदान्त का व्याख्यान कर्तव्य है।

कथं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मेण सर्वज्ञं जगतः कारणमित्यवधारितः श्रुत्यर्थः स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गेन पुनराश्लिष्यते। भवेद्यमनाक्षेपः स्वतन्त्र-प्रज्ञानाम्, परतन्त्रप्रज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वातन्त्र्येण श्रुत्यर्थमवधारयितुमशक्नुवन्तः प्रख्यातप्रणेतृकामु स्मृतिष्ववलम्बेरन्। तद्वलेन च श्रुत्यर्थं प्रतिपित्सेरन्। अस्मत्कृते च व्याख्याने न विश्वस्युर्बहुमानास्मूर्तानां प्रणेतृषु। कपिलप्रभृतीनां चार्थं ज्ञानमप्रतिहतं स्मर्यते। श्रुतिश्च भवति—‘ऋषि प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैबिभर्ति जायमानं च पश्येत्’ ( श्वे० ५।२ ) इति। तस्मान्नैषां मतमयथार्थं शक्य सम्भावयितुम्। तर्कावष्टम्भेन चैतेऽर्थं प्रतिष्ठापयन्ति। तस्मादपि स्मृतिबलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्षेपः।

यहाँ शका होती है कि ईक्षणादि रूप हेतुओं से सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है इस वेदार्थ के अवधारित ( निर्णीत ) होने पर फिर वह अवधारित अर्थ स्मृति अनवकाशता रूप दोष के प्रसंग से आक्षिप्त कैसे हो सकता है ? अर्थात् श्रुति से विरुद्ध स्मृति अप्रमाण होती है। उसके साथ अविरोधपूर्वक वेदान्त का व्याख्यान करना चाहिए यह पूर्वपक्ष नहीं बन सकता है। ऐसी शका होने पर कहा जाता है कि स्वतन्त्र बुद्धि वालों के लिए यह आक्षेप ( पूर्वपक्ष ) नहीं हो सकता है। अर्थात् जो स्वतन्त्रतापूर्वक श्रुति के अर्थ को विचार सकते हैं, उनके लिए यह पूर्वपक्ष नहीं है। परन्तु मनुष्य प्रायः परतन्त्र बुद्धि वाले होते हैं, इससे स्वतन्त्रतापूर्वक श्रुति के अर्थ के अवधारण ( निर्णय ) करने के लिए असमर्थ होकर प्रख्यात प्रणेतृओं से रचित स्मृतियों में अवलम्बित ( श्रद्धापूर्वक प्रवृत्त ) होंगे, और उन स्मृतियों के बल से श्रुतियों के अर्थ को जानना चाहेंगे, एवं स्मृति के रचयिता में बहुमान ( आदर-प्रतिष्ठा ) होने से हमसे किए गये व्याख्यानों में विश्वास नहीं करेंगे। कपिलादि का आर्ष ( वैदिक ) अप्रतिहत ( अविनाशी ) ज्ञान कहा जाता है। और श्रुति भी है कि ( जो परमात्मा सृष्टि के आदि-काल में जाग्रमान ( उत्पन्न होते हुए ) कपिल ऋषि को उत्पन्न करता

है। और स्थिति काल में प्रसूत ( उत्पन्न ) उस ऋषि को जो ज्ञानो से पालन-पोषण करता है। उस परमात्मा को देखना चाहिए ) इससे इन कपिलादि के मत अयथार्थ है, ऐसी सम्भावना नहीं कर सकते हैं। और ये लोग तर्क का अवलम्ब लेकर प्रवानादि अर्थ का प्रतिपादनादि रूप स्थापन करते हैं, इससे भी स्मृति बल से वेदान्त व्याख्यान के योग्य हैं यह फिर आक्षेप है।

तस्य समाधिः नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गादिति । यदि स्मृत्यनवकाश-दोषप्रसङ्गेनेश्वरकारणवाद आक्षिप्येत, एवमप्यन्या ईश्वरकारणवादिन्यः स्मृत-योऽनवकाशाः प्रसज्येरन् । ता उदाहरिष्याम.—‘यत्तत्सूक्ष्ममविज्ञेयम्’ इति परं ब्रह्म प्रकृत्य ‘स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति कथ्यते’ इति चोक्त्वा ‘तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम’ इत्याह । तथान्यत्रापि ‘अव्यक्तं पुरुषं ब्रह्मन्निर्गुणं संप्रलीयते’ इत्याह ।

इस आक्षेप का समाधान है कि कपिल स्मृति के अनुसार वेदान्त का व्याख्यान ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करने से कपिल स्मृति से अन्य स्मृतियों की अनवकाशता रूप दोष की प्राप्ति होगी। यदि स्मृति के अनवकाशरूप दोष के प्रसंग से ईश्वर कारणवाद आक्षिप्त ( अनाहत-त्यक्त ) होगा तो इसी प्रकार ईश्वर को कारण कहने वाली अन्य स्मृतियाँ अनवकाशसिद्ध होगी। और इस प्रकार अनवकाश होने वाली स्मृतियों का अभी उदाहरण देगे कि ( जो वह सूक्ष्म विशेषरूप से जानने के अयोग्य है ) इस प्रकार परब्रह्म के निरूपण का आरम्भ करके ( वही प्राणियों को अन्तरात्मा है और वही क्षेत्र कहा जाता है ) इस प्रकार कहकर ( हे द्विजसत्तम ! उससे तीन गुण वाला अव्यक्त उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार कहते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थान में भी ( हे ब्रह्मन् ! निर्गुण पुरुष में अव्यक्त संप्रलीन होता है इस प्रकार कहते हैं, ये इतिहास की बातें रहीं।

अतश्च संक्षेपमिमं शृणुष्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणः ।

स सर्गकाले च करोति सर्वं संहारकाले च तद्वृत्ति भूयः ॥

इति पुराणे । भगवद्गीतासु च—

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।

( भ० गी० ७।६ ) इति । परमात्मानमेव च प्रकृत्यापस्तम्बः पठति—

तस्मात्कायाः प्रभवन्ति सर्वे स मूलं शाश्वतिकः स नित्यः । ( ध० सू० १।८।२३।२ ) इति । एवमनेकशः स्मृतिष्वपीश्वरः कारणत्वेनोपादानत्वेन च प्रकाशयते । स्मृतिबलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृतिबलेनैवोत्तरं वक्ष्यामीत्यतोऽय-मन्यस्मृत्यनवकाशदोषोपन्यासः । दर्शितं तु श्रुतीनामीश्वरकारणवादं प्रति तात्पर्यम् । विप्रतिपत्तौ च स्मृतीनामवश्यकर्तव्येऽन्यतरपरिग्रहेऽन्यतरपरित्यागे च श्रुत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणमनपेक्ष्या इतराः । तदुक्तं प्रमाणलक्षणे—



‘विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्’ ( जै० सू० १।३।३ ) इति । नचातीन्द्रियानर्थान् श्रुतिमन्तरेण कश्चिदुपलभत इति शक्यं सम्भावयितुं निमित्ताभावात् ।

पुराण मे भी कहा है कि ( इससे यह सक्षेप सुनो कि यह सब जगत् पुराण अनादि नारायण-सर्वाविष्ठानस्वरूप है और वही नारायण सृष्टिकाल मे सबको उत्पन्न करता है । और फिर प्रलयकाल मे सबको अपने मे लीन करता है ।

भगवद्गीता मे कहा है कि ( मैं ही सब जगत् का प्रभव-उत्पादक और प्रलयाधार हूँ ) और—

परमात्मा का प्रसंग करके ही आपस्तम्ब पढ़ते ( कहते ) हैं कि ( उस ईश्वर से ब्रह्मा आदि नाम वाले सब शरीर उत्पन्न होते हैं, इससे वह निमित्त कारण है, और वही सबका मूल = उपादान कारण है, और उपादान होते हुए भी शाश्वतिक सदा एक रस रहने वाला निर्विकार कूटस्थ है, अत एव नित्य अविनाशी है। इस प्रकार अनेक बार पुन. पुन. स्मृतियों मे भी निमित्त कारण रूप से और उपादान रूप से ईश्वर प्रकाशित ( उपदिष्ट ) हैं । यद्यपि श्रुति विरोध से ही अनीश्वरवादी स्मृति का निराकरण हो सकता था, तथापि स्मृतिविरोध से स्मृतिबल से प्रत्यवस्थान ( प्रतिपक्षविरोध ) करने वाले को स्मृतिबल से ही उत्तर कहूँगा, इस विचार से यह अन्य स्मृति का अनवकाशरूप दोष कहा गया है । स्मृतियों का परस्पर विरोध होते हुए भी तत्त्व निर्णय का हेतु रूप श्रुतियों का ईश्वर कारणवाद के प्रति तात्पर्य को पहले दर्शित ( प्रकट ) कराया गया है । स्मृतियों की परस्पर विप्रतिपत्ति ( विरोध ) दशा मे दोनो में से एक का त्याग अन्य का ग्रहण अवश्य कर्तव्य होने से श्रुति के अनुसारिणी ईश्वर को कारणादि मानने वाली स्मृतियाँ प्रमाण होने से ग्रहण योग्य हैं, और अन्य स्मृतियाँ अनपेक्ष्य ( त्याज्य ) अप्रमाण हैं । पूर्वमीमांसा के प्रमाण लक्षण ( अध्याय ) मे कहा है कि ( श्रुति से विरोध होने पर स्मृति अनपेक्ष ( अप्रमाण त्याज्य ) होती है, विरोध के नही रहने पर उसके मूलरूप श्रुति का अनुमान होता है ) और श्रुति के बिना धर्मादि रूप अतीन्द्रिय अर्थों को कोई जानता है ऐसी सम्भावना नही कर सकते हैं, क्योंकि श्रुति के बिना अतीन्द्रिय अर्थ के ज्ञान के निमित्त कारण का अभाव रहता है ।

शक्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेत् ? न । सिद्धेरपि सापेक्षत्वात् । धर्मानुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः । स च धर्मश्चोदनालक्षणः । ततश्च पूर्वसिद्धायाश्चोदनाया अर्थो न पश्चिमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिशङ्कितुं शक्यते । सिद्धव्यपाश्रयकल्पनायामपि बहुत्वात्सिद्धानां प्रदर्शनेन प्रकारेण स्मृतिविप्रतिपत्तौ सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्यन्निर्णयकारणमस्ति । परतन्त्रप्रज्ञस्यापि नाकस्मात्स्मृतिविशेषविषयः पक्षपातो युक्तः । कस्यचित्कचित्पक्षपाते सति पुरुषमतिवैश्वरूप्येण तत्त्वाव्यवस्थानप्रसङ्गात् । तस्मात्तस्यापि स्मृतिविप्रतिपत्त्यु-

पन्थासेन स्मृत्यनुसाराननुसारविषयविवेचनेन च सन्मार्गे प्रज्ञा संग्रहणीया । या तु श्रुतिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शयन्ती प्रदर्शिता न तथा श्रुतिविरुद्धमपि कपिलमतं श्रद्धानुं शक्यं, कपिलमिति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात् । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां प्रतर्वासुदेवनाम्नः स्मरणात् । अन्यार्थदर्शनस्य च प्राप्तिरहितस्यासाधकत्वात् । भवति चान्या मनोर्माहात्म्यं प्रख्यापयन्ती श्रुतिः— 'यद्वै किञ्च मनुरवदत्तद्भेषजम्' ( तै० सं० २२।१०।२ ) इति ।

शंका होती है कि अप्रतिहत ( अकुण्ठित ) ज्ञान होने से कपिलादि सिद्धो को श्रुति के बिना भी अतीन्द्रिय अर्थों के ज्ञान की सम्भावना की जा सकती है । वहाँ कहा जाता है कि यदि ऐसे कोई शंका करे, तो वह कहना नहीं बन सकता, क्योंकि ईश्वर से अन्य की सिद्धि भी सापेक्ष कारणजन्य होती है, जिससे धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा वाली धर्मजन्य सिद्धि होती है, और वह धर्म ( चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ) इस सूत्र के अनुसार विधिरूप लक्षण वाला पाप के सम्बन्ध से रहित होता है. इससे सिद्धि से पहले सिद्ध चोदना ( विधि ) रूप श्रुति का अर्थ पश्चात्सिद्ध पुरुष के वचन के वश से अतिशक्ति ( उल्लिखित ) नहीं किया जा सकता है । अर्थात् श्रुति के मुख्यार्थ को त्याग कर गौरावर्थाता की शंका नहीं कर सकते हैं । सिद्धों के वचन का आश्रयण करके वेदार्थ की कल्पना मानने पर भी सिद्धो के बहुत होने से और पूर्वप्रदर्शित प्रकार ( रीति ) से सिद्धि की उक्त रूप स्मृतियों को भी विप्रतिपत्ति ( विरोध ) होने पर श्रुति के आश्रयण से अन्य निर्णय का कारण नहीं है, अर्थात् श्रुतिरूप आश्रय के बिना सिद्धोक्ति मात्र तत्त्व निर्णय का कारण नहीं है, इससे श्रुति को आश्रयण करने वाले मनु आदि से श्रुति के अर्थ का निर्णय हो सकता है अन्य से नहीं । इससे परतन्त्र बुद्धि वाले को भी अकस्मात् ( निर्हेतुक ) किसी स्मृतिविशेषविषयक पक्षपात होना युक्त नहीं है, किन्तु विचारादि कर्तव्य है, क्योंकि विचारादि के बिना किसी का कही पक्षपात होने पर पुरुष की बुद्धि ही विश्वरूपता ( विचित्रता अनन्तता ) से तत्त्व का अव्यवस्थान ( अनिश्चय ) प्राप्त होगा । इससे उस परतन्त्र बुद्धि वाले को भी स्मृतियों की विप्रतिपत्ति के उपन्यास ( कथनादि ) द्वारा श्रुति के अनुसार विषय का और श्रुतिविरुद्ध विषय का विवेचनपूर्वक श्रुति के अनुसार विषय ( प्रतिपाद्यार्थ ) वाली स्मृति कथित सन्मार्ग में बुद्धि संग्रहणीय ( प्राप्त और स्थिर करने योग्य ) है ; और कपिल के ज्ञानातिशय ( ज्ञानाधिक्य ) को प्रदर्शन ( बोध ) कराने वाली जो श्रुति पहले प्रदर्शित करायी गई है, उससे श्रुतिविरुद्ध भी कपिलमत श्रद्धा के योग्य नहीं हो सकता है । क्योंकि ( कपिलम् ) यह श्रुति सामान्य मात्र है । अर्थात् श्रुतिकथित कपिल नाम समान ( एकतुल्य ) है, और कपिल नाम वाले अनेक हैं, इससे श्रुतिवर्णित साख्य का कर्ता नहीं है, उस साख्य कर्ता से अन्य सगर पुत्रो के प्रदाहक वासुदेव नामक कपिल का स्मृति में वर्णन है, इससे उनके ही ज्ञानातिशय का श्रुति में भी प्रदर्शित करायी

गया है, साध्यकर्ता का नहीं। और दूसरी बात यह है कि ( जो कपिल को ज्ञान से पोद्धता है उसको देखना चाहिये, इस श्रुति में ईश्वर के दर्शन का विधान है, उसके अङ्ग ( शेष ) रूप से कपिल और उनके ज्ञान का अनुवादमात्र है, इससे प्रमाणान्तर से प्राप्ति रहित जो अन्यार्थक दर्शन ( अनुवाद ) है, वह अर्थ का असाधक है, उससे सर्वज्ञत्वादि की सिद्धि नहीं हो सकती है। मनु को महिमा को प्रख्यात करने वाली अन्य श्रुति है कि ( मनु ने जो कुछ कहा है सो औषध है ) और—

मनुना च—

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

संपश्यन्नात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ( १२।६१ )

इति सर्वात्मत्वदर्शनं प्रशंसता कापिलं मतं निन्द्यत इति गम्यते । कपिलो हि न सर्वात्मत्वदर्शनमनुमन्यते, आत्मभेदाभ्युपगमात् । महाभारतेऽपि च 'बहवः पुरुषा ब्रह्मश्रुताहो एक एव तु' इति विचार्य 'बहवः पुरुषा राजनसांख्य-योगविचारिणाम्' इति परपक्षमुपन्यस्य तद्व्युदासेन—

बहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते ।

तथा तं पुरुषं विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम् ॥

इत्युपक्रम्य —

ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसस्थिताः ।

सर्वेषां माक्षिभूतोऽसौ न ब्राह्मः केनचित्कचित् ॥

विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः ।

एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी यथासुखम् ॥

इति सर्वात्मतैव निर्धारिता । श्रुतिश्च सर्वात्मतायां भवति—

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥

( ई० ७ ) इत्येवंविधा । अतश्च सिद्धमात्मभेदकल्पनयापि कपिलस्य तन्त्रं वेदविरुद्धं वेदानुसारिमनुवचनविरुद्धं च, न केवलं स्वतन्त्रप्रकृतिकल्पनयैवेति । वेदस्य हि निरपेक्ष स्वार्थं प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये । पुरुषवचसां तु मूलान्तरापेक्षं वक्तृस्मृतिव्यवहितं चेति विप्रकर्षः । तस्माद्वेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाशप्रसङ्गो न दोषः ॥ १ ॥

मनु ने तो—सब भूतो मे आत्मा को और आत्मा मे सब भूतो को देखता हुआ आत्मयाजी ( ब्रह्मार्पण कर्ता ) स्वयंप्रकाश मोक्षानन्द को प्राप्त करता है ।

इस रीति से सर्वात्म दर्शन की प्रशंसा करते हुए कपिल मत की निन्दा की है, ऐसी प्रतीति होती है, आत्मा मे भेद के स्वीकार से सर्वात्मत्व दर्शन ( ज्ञान ) को कपिल नहीं मानते है । और महाभारत मे भी ( हे ब्रह्मन् पुरुष आत्मा बहुत है, अथवा ए कही

है) इस प्रकार विचार कर ( हे राजन् साख्य योग के अनुसार विचार करने वालो के मत मे आत्मा बहुत है ) इस अन्य के पक्ष का कथन करके, उसका व्युदास ( निषेध ) द्वारा—

जैसे बहुत पुरुषाकार देहां की एक भूमियोनि उपादान कारण कही जाती है, वैसे ही सर्वज्ञत्वादि अधिक गुण वाला सर्वविश्वात्मक उस पुरुष को कहेंगा ।

इस प्रकार आरम्भ करके—

जो मेरी अन्तरात्मा है, और तेरी अन्तरात्मा है, ओर जो अन्य देहो मे स्थिर अन्तरात्माये है, वह पुरुष सब अन्तरात्माओ का साक्षी स्वरूप है, ( किसी से कही ग्रहणा के योग्य नहीं है ) और संसारी के सब शिर भुजा, पाद, आंख, नाक उसी के हैं । वह भूतो मे अकेला विचरता है ( प्रकाशता है और स्वतन्त्र सुखस्वरूप है ) इस प्रकार महाभारत मे भी सर्वात्मत्व ही निर्धारित किया गया है । सर्वात्माविषयक श्रुति भी है कि—

जिस ज्ञानकाल मे सब प्राणी आत्म स्वरूप ही निश्चित हो गये, उस काल मे उस विज्ञानी की एकत्वदर्शी को कौन मोह और कौन शोक रह सकता है ?

इस प्रकार की श्रुति है, इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा मे भेद की कल्पना से भी कपिल का तन्त्र ( शास्त्र ) वेद और वेदानुसारि मनुवचन से विरुद्ध है, केवल स्वतन्त्र प्रकृति की कल्पना ही से वेदादि मे विरुद्ध है ऐसी बात नहीं है । रूप के प्रकाशन मे सूर्य के समान वेद को अपने अर्थ मे निरपेक्ष ( स्वतः ) प्रमाणता है, और पुरुष के वचनो को मूलान्तरापेक्ष प्रमाणता होती है । वक्ता के स्मरण से व्यवहित प्रमाणता होती है, अर्थात् वक्ता मूलार्थ स्मरण करता है । वहाँ यदि स्मरण यथार्थ होता है, तो स्मरणजन्य वचन प्रमाण होता है, अन्यथा नहीं, इससे श्रुति की अपेक्षा स्मृति की प्रमाणता विप्रकर्ष ( दूर ) है, श्रुति स्मृति मे यही भेद है । वेद से विरुद्ध विषय मे स्मृति की अनवकाशता की प्राप्ति दोष नहीं है ॥ १ ॥

कुतश्च स्मृत्यनवकाशप्रसङ्गो न दोषः—

**इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥**

प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्मृतौ कल्पितानि महदादीनि न तानि वेदे लोके वोपलभ्यन्ते । भूतेन्द्रियाणि तावन्नोक्तवेदप्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते स्मर्तुम् । अलोकवेदप्रसिद्धत्वान्तु महदादीना षष्ठस्येवेन्द्रियार्थस्य न स्मृतिरवकल्पते । यदपि क्वचित्त्परमिव श्रवणमवभासते तदप्यतत्परं व्याख्यातम् 'आनुमानिकमप्येकेषाम्' ( ब्र० १।४।१ ) इत्यत्र । कार्यस्मृतेरप्रामाण्यात्कारणस्मृतेरप्यप्रामाण्यं युक्तमित्यभिप्रायः । तस्मादपि न स्मृत्यनवकाशप्रसङ्गो दोषः । तर्कावष्टम्भ तु 'न विलक्षणत्वात्' ( ब्र० २।१।४ ) इत्यारभ्योन्मथिष्यति ॥ २ ॥

किस हेतु से स्मृति का अनवकाशप्रसंग दोष नहीं है—

प्रधान से भिन्न प्रधान के परिणाम रूप से जो स्मृति में कल्पित हैं, वे महत्तत्वाह-कारादि लोक वा वेद में नहीं उपलब्ध (ज्ञान-प्राप्त) होते हैं। जिससे भूत और इन्द्रियाँ तो लोक और वेद में प्रसिद्धता से स्मृति में प्रतिपादित (स्मृत) हो सकते हैं। परन्तु लोक वेद में प्रसिद्धता से बाह्य षष्ठ (छठे) इन्द्रियार्थ के समान महत्तत्वादि की स्मृति नहीं हो सकती है। अर्थात् जैसे श्रोत्रादि पाँच बाह्य ज्ञानेन्द्रिय प्रसिद्ध हैं, और शब्दादि पाँच इन्द्रियार्थ प्रसिद्ध हैं। इनसे भिन्न बाह्यज्ञान इन्द्रिय और उसका विषय अप्रसिद्ध है, वैसे ही महत्तत्वादि अप्रसिद्ध हैं, उनका स्मृति से प्रतिपादन ठीक नहीं है। जो कही (महतः परमव्यक्तम्) इत्यादि वाक्य में महत्तत्वादि के प्रतिपादनपरक के समान श्रवण प्रतीत होते हैं, वे भी अन्यार्थपरक हैं, जिनके (आनुमानिकम्) इत्यादि सूत्र में व्याख्यान हो चुके हैं। इस प्रकार महत्तत्वादि कार्य-विषयक स्मृति के अप्रमाण होने से कारणरूप प्रधानविषयक स्मृति भी अप्रमाण है, इससे इसकी अप्रमाणाता युक्त है, यह इस सूत्र का अभिप्राय है। इससे भी स्मृति का अनवकाशप्रसंग दोष नहीं है, साख्य के तर्क का अवलम्बन करे तो (न विलक्षणत्वात्) इस सूत्र से आरम्भ करके खण्डन करेगे ॥ २ ॥

### योगप्रत्युत्तयधिकरण ॥ २ ॥

योगस्मृत्यास्ति संकोचो न वा योगो हि वैदिकः । तत्त्वज्ञानोपयुक्तश्च ततः संकुच्यते तथा ॥  
प्रमापि योगे तात्पर्यादतात्पर्यान्न सा प्रमा । अवैदिके प्रधानादावसंकोचस्तथाप्यत ॥

इस साख्य का खंडन से ही श्रुति से विरुद्धांश में योग का भी खण्डन हो गया। शंका होती है कि योगरूप स्मृति से वेदान्त के समन्वय का संकोच होता है कि नहीं? पूर्वपक्ष है कि योग वैदिक पदार्थ है और तत्त्वज्ञान में उपयुक्त (सहायक हेतु) है, इससे इस योग स्मृति से समन्वय संकुचित होता है। सिद्धान्त है कि योग स्मृति का योग में तात्पर्य है, इसलिए वह योगविषयक प्रमा (प्रमाण) रूप है। अवैदिक प्रधानादि में उसका तात्पर्य नहीं है, इसलिए प्रधानादि अर्थ में वह प्रमाण नहीं है, इससे उससे भी समन्वय का संकोच नहीं होता है ॥ १-२ ॥

### एतेन योगः प्रयुक्तः ॥ ३ ॥

एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टव्येत्यति-दिशति । तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणं, महदादीनि च कार्याण्यलोकवेदप्रसिद्धानि कल्पन्ते । नन्वेवं सति समानन्यायत्वात्पूर्वैषैवै-तद्गतं किमर्थं पुनरतिदिश्यते ? अस्ति ह्यत्राभ्यधिका शङ्का । सम्यग्दर्शनाभ्युपायो हि योगो वेदे विहितः 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' ( बृ० २।४।१ ) इति । 'त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम्' ( श्वे० २।८ ) इत्यादिना चासनादिकल्प-

नापुरःसरं बहुप्रपञ्चं योगविधानं श्वेताश्वतरोपनिषदि दृश्यते । लिङ्गानि च वैदिकानि योगविषयाणि सहस्रश उपलभ्यन्ते 'तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्' ( का० २.६।११ ) इति । 'विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम्' ( का० २।६।१८ ) इति चैवमादीनि । योगशास्त्रेऽपि 'अथ तत्त्वदर्शनोपायो योगः' इति सम्यग्दर्शनाभ्युपायत्वेनैव योगोऽङ्गीक्रियते । अतः संप्रतिपञ्चाथैकदेशत्वादष्टकादिस्मृतिवद्योगस्मृतिरप्यनपवदनीया भविष्यतीति । इयमप्यधिका शङ्काऽतिदेशेन निवर्त्यते, अथैकदेशसंप्रतिपत्तावप्यथैकदेशविप्रतिपत्तेः पूर्वोक्ताया दर्शनात् । सतीष्वप्यध्यात्मविषयासु बह्वीषु स्मृतिषु सांख्ययोगस्मृत्योरेव निराकरणे यत्नः कृतः । सांख्ययोगौ हि परमपुरुषार्थसाधनत्वेन लोके प्रख्यातौ, शिष्टैश्च परिगृहीतौ, लिङ्गेन च श्रौतेनोपबृंहितौ—'तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः' ( श्वे० ६।१३ ) इति । निराकरणं तु न सांख्यज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा निःश्रेयसमधिगम्यत इति ।

इस साख्य स्मृति के प्रत्याख्यान से योग स्मृति भी प्रत्याख्यात ( खण्डित ) हो गई, ऐसा समझना चाहिए । इस प्रकार यहाँ पूर्वन्याय का अतिदेश करते हैं । क्योंकि उस योग में भी श्रुति के विरोधपूर्वक स्वतन्त्र ही प्रधान रूप कारण और लोक वेद में अप्रसिद्ध महत्तत्त्वादि कार्य कल्पनिक माने जाते हैं । यहाँ शंका होती कि यदि साख्ययोग की ऐसी तुल्यता है, तो समान ( एक ) न्याय दोनों के लिए होने से पूर्वाधिकरण से ही यह गतार्थ हो चुका है, किस प्रयोजन के लिए फिर यहाँ अतिदेश किया जाता है । उत्तर है कि पूर्व की अपेक्षा यहाँ अधिक आशंका है, उसकी निवृत्त के लिए अतिदेश है, अधिक आशंका यह है कि सम्यग्दर्शन का श्रेष्ठ उपायरूप योग वेद में विहित है कि ( आत्मा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन करना चाहिये ) श्रवण मनन योग के साधन हैं और निदिध्यासन योग है । ( उर-प्रीवा-शिर ये तीनो जिसमे उन्नत ( ऊँचे ) हो ऐसे शरीर को सम सीधा स्थिर करके मन से इन्द्रियों को रोक कर विद्वान संसार सागर को तरे ) इत्यादि वचनो द्वारा आसनादि की कल्पनापूर्वक बहुत विस्तार-युक्त योग का विधान श्वेताश्वर उपनिषद् में देखा जाता है, और योग विषयक हजारों लिङ्ग ( हेतुरूप अर्थवाद ) उपलब्ध होते हैं । जैसे कि ( उस इन्द्रियों की स्थिर धारणा को योगवेत्ता योग मानते हैं ) ( उक्त इस ब्रह्मविद्या को और सम्पूर्ण योगविधि को गुरुकृपा से प्राप्त करके नचिकेता ने ब्रह्म को प्राप्त किया ) इत्यादि योग के ज्ञापक लिङ्ग हैं । और योगशास्त्र में भी ( अथ तत्त्वज्ञान का उपाय योग कहा जाता है ) । इस रीति से सम्यग्दर्शन का उपाय रूप से ही योग का स्वीकार किया जाता है, इससे संप्रतिपन्न ( अविरुद्ध प्रामाणिक ) एकदेश ( योगशा ) वाली होने से ( अष्टकाः कर्तव्याः ) अष्टका कर्तव्य है इत्यादि स्मृति के समान योगस्मृति भी अपवाद ( निन्दा निषेध ) के योग्य नहीं होगी, उससे स्वतन्त्र प्रधानादि अंश में भी स्वीकार के योग्य होना चाहिये । यह अधिक शंका अतिदेश से निवृत्त की जाती है, क्योंकि योग रूप अर्थ के एकदेश में

सम्प्रतिपत्ति होते भी अर्थ के एकदेश में पूर्वोक्त विप्रतिपत्ति ( विरुद्धता ) देखी जाती है । यद्यपि अध्यात्मविषयक बहुत स्मृतियाँ हैं तथापि उनके रहते हुए भी उनका निराकरण नहीं करके साख्य और योगस्मृति के ही निराकरण में यत्न किया गया है, जिससे साख्य और योग परम पुरुषार्थ ( मोक्ष ) के साधनरूप से लोक में प्रसिद्ध हैं । और शिष्ट ( सत्यादि धर्मपरायण ) से गृहीत ( स्वीकृत ) हैं, एवं वैदिक लिङ्ग से प्रवर्धित पुरुष हैं । वैदिक लिङ्ग है कि ( उस प्रसिद्ध सब कार्य के कारण और साख्य और योग से प्राप्त होने योग्य देव को जानकर अविद्यादि सब बन्धन से मुक्त होता है । वेद की अपेक्षा के बिना साख्य ज्ञान से या योग मार्ग से मोक्ष नहीं प्राप्त होता है इसलिये यहाँ निराकरण किया गया है ।

श्रुतिर्हि वैदिकादात्मैकत्वविज्ञानादन्यन्निःश्रेयससाधनं वारयति 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' ( श्वे ३।८ ) इति । द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च नात्मैकत्वदर्शिनः । यत्तु दर्शनमुक्तं-तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नम्-इति, वैदिकमेव तत्र ज्ञानं ध्यानं च सांख्ययोगशब्दाभ्यामभिलष्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यम् । येन त्वंशेन न विरुध्येते तेनेष्टमेव सांख्ययोगस्मृत्योः सावकाशत्वम् । तद्यथा—'अलङ्की ह्ययं पुरुषः' ( बृ० ४।३।१६ ) इत्येवमादिश्रुतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य विशुद्धत्वं निर्गुणपुरुषनिरूपणेन सांख्यैरभ्युपगम्यते । तथा च योगैरपि 'अथ परिव्राड्विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः' ( जाबा० ५ ) इत्येवमादि श्रुतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रब्रज्याद्युपदेशानुगम्यते । एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तान्यपि तर्कोपपत्तिभ्यां तत्त्वज्ञानायोपकुर्वन्तीति चेदुपकुर्वन्तु नाम । तत्त्वज्ञानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति 'नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्' ( तै० ब्रा० ३।१२।६।७ ) 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' ( बृ० ३।६।२६ ) इत्येवमादिश्रुतिभ्यः ॥ ३ ॥

वैदिक आत्म एकत्व के विज्ञान से अन्य मोक्ष साधन का श्रुति वारण ( निषेध ) करती है कि ( उस एक आत्मा को ही जानकर मृत्युमय संसार से रहित हो सकता है । मोक्ष के लिये अन्य मार्ग नहीं है ) और वे साख्य और योग दर्शन वाले द्वैतवादी हैं, आत्म एकत्ववादी नहीं है, और जो ( साख्ययोगाभिपन्नम् ) यह वैदिक लिङ्ग का दर्शन कहा है, वहाँ भी समीपता से वैदिक ज्ञान और ध्यान ही साख्य और योग शब्द से कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिये, और जितने अश में साख्य और योग श्रुति से विरुद्ध नहीं होते हैं, उतने अंशों में साख्य योग स्मृति को सावकाशत्व ( प्रभारत्न ) इष्ट है, सो सावकाशत्व इस प्रकार है कि ( यह पुरुष-आत्मा असङ्ग है ) इत्यादि श्रुतियों में जैसे आत्मा विशुद्ध प्रसिद्ध है, उसी पुरुष के प्रसिद्ध विशुद्धत्व को निर्गुण पुरुष के निरूपण से सांख्यवादी स्वीकार करते हैं । इसी प्रकार योगवादी भी ( संन्यासी कषाय ब्रह्मधारी मुण्डित परिग्रह रहित रहे ) इत्यादि श्रुति में विहित प्रसिद्ध ही निवृत्ति निष्ठत्व को

संन्यासादि के उपदेश से अनुसरण करते हैं। इस श्रुति विरोध से सब तर्कालम्बक स्मृति श्रुति विरुद्धाद्य मे प्रति वक्तव्य ( खण्डनार्ह ) हैं। वे भी यदि तर्क ( अनुमान ) और युक्ति द्वारा तत्त्व ज्ञान के लिये उपकार करते हो तो उपकार करे, उस उपकारकाश का प्रतिषेध नहीं है। परन्तु तत्त्वज्ञान तो वेदान्त वाक्यो से ही होता है, केवल तर्कादि से नहीं, यह सिद्धान्त ( वेदज्ञ से भिन्न उस विभु ब्रह्मात्मा को नहीं जानता है। उस उपनिषद् मात्र से ज्ञेय आत्मा को आप से पूछता हूँ ) इत्यादि श्रुति कथनो से सिद्ध होता है ॥ ३ ॥

### विलक्षणत्वाधिकरण ॥ ३ ॥

वैलक्षण्याख्यतर्केण बाध्यतेऽथ न बाध्यते। बाध्यते साम्यनियमात्कार्यकारणवस्तुनोः।  
 मृद्घटादौ समत्वेऽपि दृष्टं वृश्चिककेशयोः। स्वकारणेन वैषम्यं तर्काभासो न बाधकः ॥  
 ( अस्य जगतो ब्रह्म वैलक्षण्याख्ये तद् ब्रह्मप्रकृतिकम्, वैलक्षण्यं च शब्दाद्गम्यते ) इस जगत् मे ब्रह्म से विलक्षणता है, इसलिए यह ब्रह्म रूप प्रकृति वाला नहीं है, और वह विलक्षता श्रुति से प्रतीत होती है। यह पूर्वपक्षरूप सूत्र है। सशय होता है कि ब्रह्म और जगत् मे विलक्षणता नामक तर्क ( अनुमान हेतु ) से समन्वय बाधित होता है, अथवा नहीं। पूर्वपक्ष है कि उपादान कारण और कार्य मे समता का नियम है, इससे समन्वय बाधित होता है। सिद्धान्त है कि मिट्टी घटादिरूप कारण और कार्य मे समता होते हुए भी वृश्चिक ( बिच्छू ) और केश को अपने कारण के साथ विलक्षणता देखी जाती है, अर्थात् जड गोबर से चेतन बिच्छू उत्पन्न होता है, चेतन शरीर से जड केश उत्पन्न होता है, इससे तर्काभास ( असत्तर्क ) समन्वय का बाधक नहीं है ॥१-२॥

### न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात् ॥ ४ ॥

ब्रह्मास्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्याक्षेपः स्मृतिनिमित्तः परिहृतः। तर्कनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिह्रियते। कुतः पुनरस्मिन्नवधारित आगमार्थे तर्कनिमित्तस्याक्षेपस्यावकाशः। ननु धर्म इव ब्रह्मण्यध्यनपेक्ष आगमो भवितुमर्हति। भवेदयमवष्टम्भो यदि प्रमाणान्तरानवगाह्य आगममात्रप्रमेयोऽयमर्थः स्यादनुष्ठेयरूप इव धर्मः। परिनिष्पन्नरूपं तु ब्रह्मावगम्यते। परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तराणामस्त्यवकाशो यथा पृथिव्यादिषु। यथा च श्रुतीनां परस्परविरोधे सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरविरोधेऽपि तद्वशेनैव श्रुतिर्नीयते। दृष्टसाम्येन चादृष्टमर्थं समर्थयन्ती युक्तिरनुभवस्य संनिष्कृष्यते। विप्रकृष्यते तु श्रुतिरैतिहासमात्रेण स्वार्थाभिधानात्। अनुभवावसानं च ब्रह्मविज्ञानमविद्याया निवर्तकं मोक्षसाधनं च दृष्टफलतयेष्यते।

इस जगत् का ब्रह्म निमित्त कारण है, और प्रकृति ( उपादान कारण ) भी ब्रह्म ही है, इस पक्ष के स्मृति निमित्तक आक्षेप का परिहार ( निवारण ) किया गया। अब



इस समय तर्क निमित्तक ( तर्कजन्य ) आक्षेप का परिहार किया जाता है । यहाँ शका होती है कि स्वतः प्रमाणरूप वेद से अवधारित ( निश्चित ) इस वेदार्थ में पुनः तर्क निमित्तक आक्षेप का अवकाश किससे हो सकता है कि जिसका परिहार किया जाता है । यदि कहा जाय कि तर्क भी वेदार्थ का निर्णय में सहायक माना गया है, अतः तर्क से आक्षेप भी हो सकता है, तथापि आशंका होती है कि शक्ति तात्पर्यादि का ज्ञान के लिये तर्क की अपेक्षा होने पर भी जैसे धर्म में वेद तर्कादि की अपेक्षा बिना स्वतः प्रमाण है, वैसे ही ब्रह्म में भी अनपेक्ष प्रमाण होने योग्य है । इस शका का पूर्वपक्षसाधक उत्तर है कि यह धर्म का अवष्टम्भ ( दृष्टान्त ) तब होता है कि जब यह ब्रह्म स्वरूप वेदार्थ भी प्रमाणान्तर से अग्राह्य वेदमात्र से प्रमेय और धर्म के समान अनुष्ठेय ( साध्य ) स्वरूप होता, परन्तु ऐसा है नहो, क्योंकि परिनिष्पन्न ( सिद्ध ) स्वरूप ब्रह्म वेद से जाना जाता है, और सिद्ध वस्तु पृथिवी आदि के समान सिद्ध ब्रह्म में प्रमाणान्तर का भी अवकाश है । जैसे श्रुतियों का परस्पर विरोध होने पर एक प्रधान श्रुति के अनुसार दूसरी अप्रधान अर्थवादादि श्रुतियाँ प्राप्त की जाती हैं, निरवकाश श्रुति के अनुसार सावकाश श्रुतियों का अर्थ किया जाता है, वैसे ही प्रमाणान्तर से विरोध होने पर भी उस प्रमाणान्तरवश से उसके अनुसार ही श्रुति प्राप्त होगी । दृष्ट अनुभूत अर्थ की समता ( दृष्टान्त ) से अदृष्ट अर्थ का समर्थन ( प्रतिपादन ) करती हुई युक्ति अनुभव के निकटवर्ती है, उससे शीघ्र अनुभव होता है । ऐतिह्य ( परम्पराश्रुत ) मात्र से अपने अर्थ को परोक्षरूप से कहने से श्रुति अनुभव से दूर सिद्ध होती है । और अविद्या का नाशक मोक्ष का साधन ब्रह्म विज्ञान दृष्टफलता से अनुभव रूप अवसान ( सीमा ) वाला इष्ट माना जाता है, क्योंकि अनुभव के बिना परोक्ष ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति आदि नहीं हो सकती है ।

श्रुतिरपि 'श्रोतव्यो मन्तव्यः' इति श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधती तर्क-  
मप्यत्रादर्थव्यं दर्शयति । अतस्तर्कनिमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते 'न विलक्षणत्वा-  
दस्य' इति । यदुक्तं—चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिः—इति । तन्नोपपद्यते ।  
कस्मात् ? विलक्षणत्वादस्य विकारस्य प्रकृत्याः । इदं हि ब्रह्मकार्यत्वेनाभिप्रेय-  
माणं जगत् ब्रह्मविलक्षणमचेतनमशुद्धं च दृश्यते । ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतनं  
शुद्धं च श्रूयते । नच विलक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावो दृष्टः । नहि रुचकादयो  
विकारा मृत्प्रकृतिका भवन्ति शरावादयो वा सुवर्णप्रकृतिकाः । मृद्वैव तु मृद-  
न्विता विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन च सुवर्णान्विताः । तथेदमपि जगदचेतनं  
सुखदुःखमोहान्वितं सदचेतनस्यैव सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य कार्यं  
भवितुमर्हतीति न विलक्षणस्य ब्रह्मणः । ब्रह्मविलक्षणत्वं चास्य जगतोऽशुद्ध-  
चेतनत्वदर्शनादवगन्तव्यम् । अशुद्धं हि जगत्सुखदुःखमोहात्मकतया प्रीतिपरि-  
तापविषादादिहेतुत्वात्स्वर्गनरकाद्युच्चावचप्रपञ्चत्वाच्च । अचेतनं चेदं जगत्,

चेतनं प्रति कार्यकारणभावेनोपकरणभावोपगमात् । नहि साम्ये सत्युपकार्योप-  
कारकभावो भवति नहि प्रदीपौ परस्परस्योपकुरुतः ।

‘श्रोतव्यो मन्तव्यः’ आत्मा श्रवण और मनन योग्य है । इस प्रकार की यह श्रुति भी श्रवण से भिन्न रूप से मनन का विधान करती हुई तर्क को भी आदरार्हं दिखलाती है, क्योंकि मनन तर्क विशेषरूप ही है । इस प्रकार तर्क का प्रवेश होने से तर्क निमित्तक पुनः आक्षेप किया जाता है कि ( न विलक्षणत्वादस्य ) इति । जो पहले कहा है कि चेतन ब्रह्म जगत् का प्रकृतिरूप कारण है, यह नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस जगत् रूप विकार ( कार्य ) को ब्रह्मस्वरूप प्रकृति से विलक्षणत्व है । जिससे ब्रह्म के कार्यरूप अभिप्रेत स्वीकृत यह जगत् ब्रह्म से विलक्षण अचेतन और अशुद्ध दीखता है । जगत् से विलक्षण ब्रह्म चेतन और शुद्ध सुना जाता है, और विलक्षणता के रहते प्रकृति विकारभाव नहीं देखा गया है । रुचिकादि भूषणरूप विकार मृत्तिका प्रकृति वाले नहीं होते हैं, अथवा शरावादि सुवर्ण प्रकृति ( उपादान ) वाले नहीं होते हैं । मृत्तिकायुक्त विकार मृत्तिका से किये जाते हैं । सुवर्णयुक्त विकार सुवर्ण से किये जाते हैं । उसी प्रकार अचेतन सुखदुःख मोहयुक्त होता हुआ यह जगत् भी सुखदुःख मोहात्मक अचेतन ही कारण का कार्य होने योग्य है, और जगत् से विलक्षण ब्रह्म का कार्य होने योग्य जगत् नहीं है । इस जगत् की ब्रह्म से विलक्षणता को जगत् मे अशुद्धि अचेतनत्व के दर्शन से समझना चाहिये । और प्रीति ( सुख ) परिताप ( शोक ) विषाद ( भ्रम ) और रागद्वेषादि के हेतु होने से तथा स्वर्गनरकादिरूप उच्चावच ( अनेक प्रकार के ) विस्तार रूप होने से, यह जगत् सुखदुःख मोहात्मक त्रिगुणात्मक है ब्रह्मात्मक नहीं है । सुखदुःख मोहात्मक ( त्रिगुणस्वरूप ) होने से यह जगत् अशुद्ध है और चेतन के प्रति कार्यकरण ( शरीर इन्द्रिय ) भाव से साधनभाव के उपगम ( प्राप्ति ) से यह जगत् अचेतन है, क्योंकि समता होने पर उपकार्य उपकारक भाव नहीं हो सकता है । यहाँ चेतन उपकार्य ( भोगादि उपकार के योग्य ) है, और शरीरादि अचेतन भोगादि मे उपकारक हैं, यदि दोनो ब्रह्म स्वरूप हो तो यह व्यवस्था नहीं बन सकती है, क्योंकि दो प्रदीप परस्पर उपकार नहीं करते हैं ।

ननु चेतनमपि कार्यकारणं स्वामिभृत्यन्यायेन भोक्तरूपकरिष्यति । न । स्वामिभृत्यथोरप्यचेतनांशस्यैव चेतनं प्रत्युपकारकत्वात् । यो ह्येकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्ध्याः चेतनभागः स एवान्यस्य चेतनस्योपकरोति ननु स्वयमेव चेतनश्चेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा । निरतिशया ह्यकर्तारश्चेतना इति साङ्ख्या मन्यन्ते । तस्माद्चेतनं कार्यकरणम् । नच काष्ठलोष्टादीनां चेतनत्वे किञ्चित्प्रमाणमस्ति । प्रसिद्धश्चायं चेतनाचेतनविभागो लोके । तस्माद्ब्रह्मविलक्षणत्वाच्चेदं जगत्तत्प्रकृतिकम् ।

यदि कहा जाय कि चेतन भी शरीर और इन्द्रिय स्वामी और भृत्य की रीति से

भोक्ता के उपकार करेगे, तो यह कहना नहीं बन सकता है, क्योंकि स्वामी और भृत्य मे भी अचेतन शरीरादि अश को ही चेतन के प्रति उपकारकत्व होता है। जिससे एक चेतन का जो बुद्धि आदि रूप अचेतन भागरूप परिग्रह ( परिवार ) रहता है, वही अन्य चेतन का उपकार करता है, स्वयं एक चेतन ही दूसरे चेतन का उपकार या अपकार नहीं करता है, क्योंकि साख्यवादी मानते हैं कि अतिशय ( उत्कर्षता ) से रहित अकर्ता अनन्त चेतन हैं और उस उपकारकता से शरीर इन्द्रिय अचेतन हैं, काठ, लोष्ठ आदि की चेतनता मे कोई प्रमाण नहीं है। एव यह चेतन और अचेतन का विभाग लोक मे प्रसिद्ध है। इससे ब्रह्म की विलक्षणता से सिद्ध होता है कि यह जगत् ब्रह्म प्रकृति वाला नहीं है।

योऽपि कश्चिदाचक्षीत श्रुत्या जगतश्चेतनप्रकृतिकतां तद्बलेनैव समस्तं जगच्चेतनमवगमयिष्यामि, प्रकृतिरूपस्य विकारेऽन्वयदर्शनात्। अविभावनं तु चैतन्यस्य परिणामविशेषाद्बुद्धिर्भवति। यथा स्पष्टचैतन्यानामप्यात्मनां स्वाप-मूर्च्छाद्यवस्थासु चैतन्यं न विभाव्यत एवं काष्ठलोष्टादीनामपि चैतन्यं न विभावयिष्यते। एतस्मादेव च विभावितत्वाविभावितत्वकृताद्विशेषाद्द्रुपादिभावाभावाभ्यां च कार्यकरणानामात्मनां च चेतनत्वाविशेषेऽपि गुणप्रधानभावो न विरोत्स्यते। यथा च पार्थिवत्वाविशेषेऽपि मांससूपौदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनो विशेषात्परस्परुपकारित्वं भवत्येवमिहापि भविष्यति। प्रविभागप्रसिद्धिरप्यत एव न विरोत्स्यत इति।

जो कोई कहे कि जगत् की चेतन प्रकृतिता को सुनकर उस बल से ही समस्त जगत् को चेतन समझूंगा, और सिद्ध करूँगा। क्योंकि प्रकृति के स्वरूप का विकार मे सम्बन्ध देखा जाता है, और जगत् मे चेतनता की अनभिव्यक्ति अप्रतीति तो परिणाम विशेष से हो सकती है। अर्थात् सर्वत्र चेतनता के तुल्य रहते हुए भी अन्तःकरण से अन्य मे चेतनता की अप्रतीति परिणाम की विलक्षणता से होती है। जैसे कि स्पष्ट चेतनता वाले आत्माओ की भी चेतनता, सुषुप्ति, मूर्च्छादि अवस्थाओ मे नहीं प्रतीति होती है। इसी प्रकार काष्ठ लोष्ठ आदि की चेतनता भी नहीं प्रतीत होगी। चेतनता के इस व्यक्तत्व अव्यक्तत्व कृत विशेष (भेद) से, तथा रूपादि के भव और अभाव से देहेन्द्रियो का और आत्माओ को चेतनत्व के तुल्य होने पर भी गुणप्रधान भाव विरुद्ध नहीं होगा। और मांस, सूप ( दाल ) और ओदन ( भात ) आदि मे पार्थिवत्व ( पृथिवी कार्यत्व ) के तुल्य रहते हुए भी प्रत्येक के स्वरूपवर्ती विशेषो से परस्पर उपकारित्व होता है। इसी प्रकार यहाँ चेतनमय ससार मे भी परस्पर उपकारित्व होगा। एवं इस चैतन्य की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति से ही जड चेतन का प्रविभाग की प्रसिद्धि विरुद्ध नहीं होगी।

तेनापि कथंचिच्चेतनाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिह्रियेत। शुद्धचशुद्धित्व-लक्षणं तु विलक्षणत्वं नैव परिह्रियते। नचेतरदपि विलक्षणत्वं परिह्रितुं शक्यत

इत्याह—तथात्वं च शब्दादिति । अनवगम्यमानमेव हीदं लोके समस्तस्य वस्तुनश्चेतनत्वं चेतनप्रकृतिकत्वश्रवणाच्छब्दशरणतया केवलयोत्प्रेक्ष्यते, तच्च शब्देनैव विरुध्यते । यतः शब्दादपि तथात्वमवगम्यते । तथात्वमिति प्रकृतिविलक्षणत्वं कथयति । शब्द एव 'विज्ञानं चाविज्ञानं च' ( तै० २।६ ) इति कस्यचिद्विभागस्याचेतनतां श्रावयञ्चेतनाद्ब्रह्मणो विलक्षणमचेतनं जगच्छ्रावयति ॥ ४ ॥

इस प्रकार कहने वाले से भी चेतनत्व अचेतनत्वरूप विलक्षणात्वं किसी प्रकार परिहृत ( निवारित ) हो सकता है, परन्तु शुद्धित्व अशुद्धित्व रूप विलक्षत्वं तो उससे भी परिहृत नहीं होता है । वस्तुतः इतरत् ( चेतनत्व अचेतनत्व ) रूप विलक्षणात्वं का भी परिहार नहीं किया जा सकता, इस आशय से कहते हैं कि ( तथात्वं च शब्दादिति ) लोक मे समस्त पदार्थ चेतन नहीं प्रतीत होते है, इससे यह समस्त वस्तु के चेतनत्व सर्वथा अनवगम्यमान ( अज्ञात ) ही है । वह भी श्रुति मे चेतन प्रकृतिजन्यता के श्रवण से और केवल श्रुतिरूप शब्द की शरणाता ( आश्रयता ) से जगत् मे चेतनता की उत्प्रेक्षा ( कल्पना ) की जाती है, सो भी शब्द ( श्रुति ) के साथ ही विरोधी सिद्ध होती है, जिससे शब्द से तथात्व समझा जाता है, तथात्व इस शब्द से प्रकृति विलक्षणात्वं को कहते हैं । एवं ( विज्ञानं चाविज्ञानं च ) विज्ञान ( चेतन ) और अविज्ञान ( जड ) स्वरूप सत्य ब्रह्म हुआ, यह शब्द ( श्रुति ) ही किसी विभाग की अचेतनता को सुनाता हुआ चेतन ब्रह्म से विलक्षण अचेतन जगत् का श्रवण करता है ।

ननु चेतनत्वमपि क्वचिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्रूयते, यथा 'मृदब्रवीत्' 'आपोऽब्रुवन्' ( श० प० ब्रा० ६।१।३।१।४ ) इति, 'तत्तेज ऐक्षत' 'ता आप ऐक्षन्त' ( छां० ६।२।३, ४ ) इति चैवमाद्या भूतविषया चेतनत्वश्रुतिः, इन्द्रियविषयापि 'ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः' ( बृ० ६।१।७ ) इति, 'ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति' ! ( बृ० १।३।२ ) इत्येवमाद्येन्द्रियविषयेति । अत उत्तरं पठति—

उक्तार्थ मे शका होती है कि यद्यपि अविज्ञान शब्द से ब्रह्मजन्य जगत् को ब्रह्म से विलक्षण अचेतन श्रुति कहती है, परन्तु कही श्रुति ही मे अचेतनरूप से स्वीकृत भूत और इन्द्रियो को चेतनत्व भी सुना जाता है, जैसे कि ( मृत्तिका बोली, जल बोला ) ( वह तेज देखा, जल देखा ) इत्यादि रूप की भूत विषयक चेतनता बोधक श्रुतियाँ हैं । इन्द्रिय विषयक भी हैं कि ( प्रसिद्ध ये प्राण-इन्द्रिय सब अपनी-अपनी श्रेष्ठता के लिये विवाद करते हुए ब्रह्मा के पास मे गये ) ( वे प्राणरूप देवो ने वाणी से कहा कि तुम हमारे लिये उद्गान-उद्गातृकर्म करो ) इस प्रकार की इन्द्रिय विषयक श्रुति है, इससे उक्त चेतनाचेतन का विभाग गौण है, ऐसी शंका उपस्थित हुई है इससे अब साध्यवाद का उत्तर पढते हैं कि—

## अभिमानीव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् ॥ ५ ॥

तुशब्द आशङ्कामपनुदति । न खलु मृद्व्रवीदित्येवंजातीयक्या श्रुत्या भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशङ्कनीयम्, यतोऽभिमानीव्यपदेश एषः । मृदाद्यभिमानीन्यो बागाद्यभिमानीन्यश्च चेतना देवता वदनसंबन्धादिषु चेतनोचितेषु व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रियमात्रम् । कस्मात् ? विशेषानुगतिभ्याम् । विशेषो हि भोक्तृणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभागलक्षणः प्रागभिहितः । सर्वचेतनतायां चासौ नोपपद्येत । अपि च कौषीतकिनः प्राणसंवादे करणमात्राशङ्काविनिवृत्तयेऽधिष्ठातृचेतनपरिग्रहाय देवताशब्देन विशिषन्ति— 'एता ह वै देवता अहंश्रेयसे विवदमाना' इति । 'ता वा एताः सर्वा देवताः प्राणो निःश्रेयसं विदित्वा' ( २।१४ ) इति च ।

सूत्रगत तु शब्द शका का निवारण करता है कि ( मृत्तिका बोली ) इत्यादि श्रुतियो से भूत और इन्द्रियो का चेतनत्व को शका नहीं करनी चाहिये, जिससे यह भूतेन्द्रिय के वस्तुतः चेतनरूप अभिमानी अधिष्ठातृ देवो का निर्देश ( कथन ) है । अर्थात् मृत्तिकादि के अभिमानी और वाक् आदि के अभिमानी देव सब, वदन ( कथन ) और सबदन ( विवाद ) आदि रूप चेतन के योग्य व्यवहारो मे कर्तारूप से कहे जाते हैं, केवल जड भूतेन्द्रियमात्र नहीं कहे जाते हैं । क्योंकि विशेष और अनुगति से ऐसा ही सिद्ध होता है । जिससे भोक्ताओ और भूतेन्द्रियो का चेतन अचेतन का प्रविभाग स्वरूप विशेष ( भेद ) पहले कहा गया है, और सबकी चेतनता दशा मे वह प्रविभागरूप विशेष नहीं सिद्ध हो सकेगा । दूसरी बात है कि कौषीतकी शाखा वाले प्राणो के सवाद के प्रकरण मे करण ( इन्द्रिय ) मात्र की आशका की निवृत्ति के लिये, और अधिष्ठाता चेतन देवो का परिग्रहण ( ज्ञान ) के लिये प्राणो को देवता विशेषणयुक्त पढते हैं कि ( ये प्राणादि देवता सब अपनी श्रेष्ठता के लिये विवाद करते हुये ब्रह्मा के पास गये ) । और ( विवादयुक्त ये सब देव प्राण मे निःश्रेयस श्रेष्ठता जानकर प्राण के अधीन हुए ) ।

अनुगताश्च सर्वत्राभिमानीन्यश्चेतना देवता मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणादिभ्योऽवगम्यन्ते । 'अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्' ( ऐ० आ० २।४।२।४ ) इत्येवमादिका च श्रुतिः करणेष्वनुग्राहिकां देवतामनुगतां दर्शयति । प्राणसंवादाद्यशेषे च 'ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचुः' ( छां० ५।१।७ ) इति श्रेष्ठत्वनिर्धारणाय प्रजापतिगमनं, तद्वचनाच्चैकेकोत्क्रमणेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राणश्रेष्ठ्यप्रतिपत्तिः । 'तस्मै बलिहरणम्' ( बृ० ६।१।१३ ) इति चैवंजातीयकोऽस्मदादिष्विव व्यवहारोऽनुगम्यमानोऽभिमानीव्यपदेशं द्रढयति । 'तत्तेज ऐक्षत' इत्यपि परस्या एव देवताया अधिष्ठात्र्याः स्वविकारेष्वनुगताया इयमीक्षा व्यपदिश्यत इति द्रष्टव्यम् । तस्माद्विलक्षणमेवेदं ब्रह्मणो जगत्, विलक्षणत्वाच्च न ब्रह्मप्रकृतिकमित्याक्षिपे प्रतिविधत्ते ॥ ५ ॥

इस विशेषण रूप विशेष से भी अभिमानी देव का उक्त श्रुतियो मे कथन है । और मन्त्र अर्थवाद इतिहास पुराणादि से सब मे अनुगत (व्यापक) अभिमानी चेतन देव अवगत ( प्रतीत ) होते हैं, क्योंकि ( अग्निदेव वाक् होकर मुख मे प्रवेश किया ) इस प्रकार की श्रुति कारणो मे इन्द्रियो के अनुग्राहक देवता को अनुगत दिखलाती है । प्राण संवाद के वाक्य शेष में (वे प्राण प्रजापति रूप पिता के पास मे जाकर बोले) इस प्रकार श्रेष्ठता का निर्धारण के लिए प्रजापति के पास जाना, और प्रजापति के वचन से एक-एक के उत्क्रमण के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक से प्राण की श्रेष्ठता का निश्चय ज्ञान, और ( उस प्राण के लिए बलिहरण उपहार भेट ले जाना ) इस प्रकार का जो हम लोगो के समान व्यवहार प्रतीत होता है, वह अभिमानी के व्यपदेश को दृढ करता है और ( वह तेज विचार किया ) यह भी ईक्षणादि अपने विकारो मे अनुगत अधिष्ठाता परदेव का ही कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिये । इससे यह जगत् ब्रह्म से विलक्षण ही है, और विलक्षण होने से ब्रह्मरूप प्रकृति वाला नहीं है ।

दृश्यते तु ॥ ६ ॥

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । यदुक्तं विलक्षणत्वान्नेदं जगद्ब्रह्मप्रकृतिकम्-इति । नायमेकान्तः । दृश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीनामुत्पत्तिः, अचेतनत्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो वृश्चिकादीनाम् । नन्वचेतनान्येव पुरुषादिशरीराण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि, अचेतनान्येव च वृश्चिकादिशरीराण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्याणीति । उच्यते । एवमपि किञ्चिदचेतनं चेतनस्यायतनभावमुपगच्छति किञ्चिन्नेत्यस्त्येव वैलक्षण्यम् । महान्नायं पारिणामिकः स्वभावविप्रकर्षः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वरूपादिभेदात् । तथा गोमयादीनां वृश्चिकादीनां च । अत्यन्तसारूप्ये च प्रकृतिविकारभाव एव प्रलीयेत ।

इस उक्त रीति से ब्रह्म प्रकृतिता के आक्षिप्त ( खरिडत ) होने पर उसका प्रति-विधान ( समाधान ) करते हैं कि—तु शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति ( निवारण ) करता है कि जो यह कहा है कि विलक्षणता से यह जगत् ब्रह्मरूप प्रकृति वाला नहीं है । वहाँ कहा जाता है कि यह एकान्त ( व्यापक नियम ) नहीं है कि सदृश ही मे प्रकृति विकृतिभाव होता है, जिससे लोक मे चेतनरूप से प्रसिद्ध पुरुषादि से विलक्षण केशनखादि की उत्पत्ति देखी जाती है और अचेतन रूप से प्रसिद्ध गोमय ( गोबर ) आदि से चेतन बिच्छू आदि की उत्पत्ति देखी जाती है । यहाँ शका होती है कि अचेतन ही पुरुष आदि के शरीरादि अचेतन केश नखादि के कारण होते हैं, और अचेतन ही बिच्छू आदि के शरीर अचेतन गोमयादि के कार्य होते हैं । वहाँ उत्तर कहा जाता है कि ऐसा होने पर भी कोई अचेतन चेतन के आश्रयत्व रूप आयतनत्व को प्राप्त करता है, कोई चेतन के आयतन को नहीं प्राप्त करता है, इस प्रकार की विलक्षणता है ही ।

और स्वरूपादि के भेद से पुरुषादि को और केशनत्वादि को यह महान् परिणामकृत स्वभाव का विप्रकर्ष है ( अर्थात् परिणामात्मक स्वभाव का भेद है ) इसी प्रकार गोमयादि और वृश्चिकादि को भी परिणामात्मक स्वभाव की विलक्षणता दूरता है । क्योंकि अत्यन्त सदृशता में तो प्रकृति विकारभाव हो नष्ट हो जायगा ।

अथोच्येत—अस्ति कश्चित्पार्थिवत्वादिस्वभावः पुरुषादीनां केशनत्वादिष्वनुवर्तमानो गोमयादीनां वृश्चिकादिषु—इति । ब्रह्मणोऽपि तर्हि सत्तालक्षणः स्वभाव आकाशादिष्वनुवर्तमानो दृश्यते । विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता किणशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्यानुवर्तनं विलक्षणत्वमभिप्रेयत उत यस्य कस्यचिदथ चैतन्यस्येति वक्तव्यम् । प्रथमे विकल्पे समस्त-प्रकृतिविकारोच्छेदप्रसङ्गः । नह्यसत्यतिशये प्रकृतिविकार इति भवति । द्वितीये चासिद्धत्वम्, दृश्यते हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वभाव आकाशादिष्वनुवर्तमान इत्युक्तम् । तृतीये तु दृष्टान्ताभावः, किं हि यच्चैतन्येनानन्वितं तद्ब्रह्मप्रकृतिकं दृष्टमिति ब्रह्मवादिनां प्रत्युदाह्रियेत, समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वाभ्युपगमात् । आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव, चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृति-श्चेत्यागमतात्पर्यस्य प्रसाधितत्वात् ।

यदि कोई कहे कि जैसे पुरुषादि शरीरो के कुछ पार्थिवत्वादि स्वभाव केशनत्वादि में अनुवर्तमान हैं, इसी प्रकार गोमयादि के कुछ स्वभाव पार्थिवत्वादि वृश्चिकादि में अनुगत होकर वर्तमान हैं, तो उनसे कहा जाता है कि ब्रह्म का सत्तारूप स्वभाव आकाशादि में अनुवर्तमान दीखता है और विलक्षणता रूप कारण से जगत के ब्रह्म-प्रकृतित्व को दोषयुक्त कहने वाले को क्या सम्पूर्ण ब्रह्म के स्वभाव की अननुवृत्ति ( अगमन-अप्राप्ति ) रूप विलक्षणत्व अभिप्रेत ( अभिप्राय का विषय ) है, अथवा जिस किसी स्वभाव की अननुवृत्ति, अथवा चेतनता की अनुवृत्ति, यहाँ प्रथम पक्ष में ब्रह्म के सब स्वभावो की अनुवृत्ति के अभाव से यदि ब्रह्म के जगत प्रकृतित्व को दोषयुक्त कहा जायगा तो समस्त प्रकृति विकार का उच्छेद अभाव की प्राप्ति होगी, अर्थात् ऐसे कार्य कारण कहीं मिलेंगे ही नहीं । क्योंकि अतिशय ( कुछ भी विलक्षणता ) के नहीं रहने पर यह प्रकृति है, यह विकार है, इस प्रकार के व्यवहारादि नहीं हो सकते हैं, और दूसरे विकल्प में असिद्धता है । क्योंकि सत्ता रूप ब्रह्म के स्वभाव की आकाशादि में अनुवृत्ति है, यह पहले कहा गया है और सत्ता की अनुवृत्ति दीखने पर ब्रह्म के किसी भी स्वभाव की अनुवृत्ति नहीं होने से जगत् ब्रह्म से विलक्षण है, यह सिद्ध नहीं हो सकता है । एव ब्रह्म की चेतनता जगत् में नहीं है इससे जगत् ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है, इस तृतीय कल्प में दृष्टान्त का अभाव है, क्योंकि वेदान्त में सब कार्य ही ब्रह्मप्रकृतिक हैं, इससे चैतन्य से अयुक्त कौन ऐसी वस्तु है कि जो ब्रह्मवादी के प्रति उदाहरण दिया जायगा कि अमुक वस्तु चैतन्य से अयुक्त होने से

ब्रह्मप्रकृतिक नहीं है, वैसे ही जगत् भी ब्रह्मप्रकृतिक नहीं है, जब समस्त वस्तु समूह ही ब्रह्मप्रकृतिक माना गया है, तो सब पक्ष है, दृष्टान्त भिन्न होना चाहिये वह असिद्ध है। माया अनादि है वह भी दृष्टान्त नहीं हो सकता है। प्रत्येक कल्प में आगम से विरोध तो प्रसिद्ध ही है, क्योंकि चेतन ब्रह्म जगत् का निमित्त कारण और प्रकृति है, इस आगम ( शास्त्र ) का तात्पर्य को पहले प्रतिपादन किया है।

यत्तूक्तं—परिनिष्पन्नत्वाद्ब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि सम्भवेयुः—इति । तदपि मनोरथमात्रम् । रूपाद्यभावाद्धि नायमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरः । लिङ्गाद्यभावाच्च नानुमानादीनाम् । आगमात्रसमधिगम्य एव त्वयमर्थो धर्मवत् । तथाच श्रुतिः—‘नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ’ ( का० १।२।६ ) इति । ‘को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्’ ‘इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव’ ( ऋ० सं० १।३० ६ ) इति चैते ऋचौ सिद्धानामपीश्वराणां दुर्बोधतां जगत्कारणस्य दर्शयतः । स्मृतिरपि भवति—‘अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्’ इति । अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते’ ( गी० २।२५ ) इति च ।

जो यह कहा है कि सिद्ध वस्तु होने से ब्रह्म में प्रमाणान्तर भी प्रवृत्त हो सकेगे, इससे प्रमाणान्तर की सम्भावना है, वह भी मनोरथमात्र है, क्योंकि रूपादि के अभाव से यह ब्रह्मात्मरूप अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। लिङ्गादि के अभाव से अनुमानादि का विषय भी नहीं है, किन्तु धर्म के समान आगममात्र से सम्यक् जानने योग्य यह अर्थ है। इसी प्रकार श्रुति कहती है कि ( हे प्रेष्ठ ! यह ब्रह्मात्मविषयक मति-ज्ञान, केवल तर्क से प्राप्ति संपादन के योग्य या निवारण के योग्य नहीं है, किन्तु नास्तिक कुतर्की से अन्य आचार्य से कथित यह मति सुन्दर अनुभव के लिए होती है ) ( यह विविध प्रकार की सृष्टि जिससे हुई है सर्वत्र व्याप्त है। उसको तत्त्वतः साक्षात् कौन जानता है, या कौन कहा है, या कौन उसका प्रवचन कर सकता है ) यह दोनों ऋग मन्त्र सिद्ध अणिमादि ऐश्वर्य वालो के लिए भी जगत् कारण की दुर्बोधता को दिखलाते हैं और इस अर्थ को कहने वाली स्मृति भी है कि ( जो पदार्थ निश्चित अचित्त हैं उन्हें तर्क से किसी के साथ योजना के लिए नहीं यत्न करे, किन्तु गुरुशास्त्र से असंग्रह समझे ) ( यह आत्मा अव्यक्त-अचिन्त्य और अविकार्य कहा जाता है। अर्थात् सब इन्द्रियो का अविषय होने से अव्यक्त है, और अव्यक्त होने से अचिन्त्य ( अनुमान का अविषय ) है और निरवयव होने से विकाररहित कहा जाता है।

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ ( गी० १०।२ )

इति चैवंजातीयका । यदपि—श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधच्छब्द एव तर्कमप्यादर्तव्यं दर्शयति—इत्युक्तम् । नानेन मिषेण शुष्कतर्कस्यात्रात्मलाभः सम्भवति, श्रुत्यनुगृहीत एव ह्यत्र तर्कोऽनुभवाङ्गत्वेनाश्रीयते । स्वप्नान्तबुद्धान्त-



योरुभयोरितरेतरव्यभिचारादात्मनोऽनन्वागतत्वं, संप्रसादे च प्रपञ्चपरित्यागेन सदात्मना सम्पत्तेर्निष्प्रपञ्चसदात्मत्वं, प्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रभवत्वात्कार्यकारणानन्यत्वन्यायेन ब्रह्माव्यतिरेक इत्येवंजातीयकः । 'तर्कप्रतिष्ठानात्' ( ब्र० २।-१।११ ) इति च केवलस्य तर्कस्य विप्रलम्भकत्वं दर्शयिष्यति । योऽपि चेतनकारणश्रवणबलेनैव समस्तस्य जगतश्चेतनतामुत्प्रेक्षेत तस्यापि 'विज्ञानं चाविज्ञानं च' इति चेतनाचेतनविभागश्रवणं विभावनाविभावनाभ्यां चैतन्यस्य शक्यत एव योजयितुम् । परस्यैव त्विदमपि विभागश्रवणं न युज्यते । कथम् ? परमकारणस्य ह्यत्र समस्तजगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते 'विज्ञानं चाविज्ञानं चाभवत्' इति । तत्र यथा चेतनस्याचेतनभावो नोपपद्यते विलक्षणत्वात्, एवमचेतनस्यापि चेतनभावो नोपपद्यते । प्रत्युक्तत्वात् विलक्षणत्वस्य यथाश्रुत्येव चेतनं कारणं ग्रहीतव्यं भवति ॥ ६ ॥

मेरे जन्म या प्रभाव को देवगण या महर्षि लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं देव और महर्षियो का सर्वथा कारण हूँ ) इस प्रकार की अन्य भी स्मृतियाँ हैं ! और जो यह कहा था कि श्रवण से भिन्न मनन का विधान करता हुआ शब्द ही तर्क को भी आदर योग्य दिखलाता है, वहाँ कहा जाता है कि इस मनन विधि के मिष ( व्याज ) से श्रुति की अपेक्षा रहित शुष्क तर्क का यहाँ आत्मलाभ ( स्वरूप सिद्धि ) नहीं हो सकता है । श्रुति से अनुगृहीत श्रुति के अनुकूल ही तर्क का यहाँ अनुभव के अङ्गरूप से आश्रयण किया जाता है कि स्वप्न और जाग्रत् अवस्थाओं को परस्पर व्यभिचार ( सह वृत्तित्व के अभाव ) होने से सब अवस्था में अव्यभिचारी आत्मा को उन अवस्थाओं से अनन्वागतत्व ( असङ्गतत्व ) है और सुषुप्ति में सब प्रपञ्च के त्याग से सत्स्वरूपता की प्राप्ति होती है, इसीसे उस काल में निष्प्रपञ्च सदात्मता ( सत्स्वरूपता ) की सिद्धि होती है । प्रपञ्च के ब्रह्मजन्य होने से तथा कार्यकारण की अनन्यता ( अभेद ) रूप न्याय से प्रपञ्च को ब्रह्म से अभेद है, इस प्रकार के तर्कों का आश्रयण किया जाता है । केवल तर्क को ( तर्कप्रतिष्ठानात् ) इससे विप्रलम्भकत्व ( भ्रामकत्व ) दिखलायगे और जो कोई चेतन कारण के श्रवणरूप बल से ही जगत् की चेतनता की उत्प्रेक्षा कल्पना करते हैं, उनके मत में भी चेतनता की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति से ( विज्ञानं चाविज्ञानं च ) यह चेतन और अचेतन का विभाग श्रवण की योजना की जा सकती है । परन्तु यह विभाग श्रवण पर भी ( अन्य ) साख्यवादी के ही मत में युक्त नहीं होता है, क्योंकि ( सत्य ब्रह्म ही विज्ञान और अविज्ञान स्वरूप हुआ ) इस प्रकार परम कारण को ही समस्त जगत् रूपसे स्थिति सुनाई जाती है, वहाँ विलक्षणता से जैसे चेतन को अचेतनत्व नहीं सिद्ध हो सकता, इसी प्रकार अचेतन प्रधान को चेतनत्व भी नहीं सिद्ध हो सकता है । व्यभिचारादि से विलक्षणत्व हेतु के प्रत्याख्यात होने से श्रुति के अनुसार ही चेतन कारण ग्रहण योग्य है ॥ ६ ॥

## असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् ॥ ७ ॥

यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद्विपरीतस्याचेतनस्याशुद्धस्य शब्दादिमतश्च कार्यस्य कारणमिष्येत, असत्तर्हि कार्यं प्रागुत्पत्तेरिति प्रसज्येत, अनिष्टं चैतत्सत्कार्यवादिनस्तचेति चेत् ? नैष दोषः । प्रतिषेधमात्रत्वात् । प्रतिषेधमात्रं हीदं नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति, नह्ययं प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं कार्यस्य प्रतिषेद्धुं शक्नोति । कथम् ? यथैव हीदानीमपीदं कार्यं कारणात्मना सदेवं प्रागुत्पत्तेरपीति गम्यते । नहीदानीमपीदं काय कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेवास्ति, 'सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद' ( बृ० २।४।६ ) इत्यादिश्रवणात् । कारणात्मना तु सत्त्वं कार्यस्य प्रागुत्पत्तेरविशिष्टम् । ननु शब्दादिहीनं ब्रह्म जगतः कारणम् । बाढम् । नतु शब्दादिमत्कार्यं कारणात्मना हीनं प्रागुत्पत्तेरिदानीं वास्ति, तेन न शक्यते वक्तुं प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यमिति । विस्तरेण चैतत्कार्यकारणानन्यत्ववादे वक्ष्यामः ॥ ७ ॥

पूर्वोक्त अर्थ में शका होती है कि यदि शब्दादिरहित और शुद्ध चेतन ब्रह्म को उससे विपरीत शब्दादि वाला अचेतन अशुद्ध कार्य का कारण इष्ट माना जायगा, तो उत्पत्ति से पूर्वकाल में कार्य असत् प्राप्त होगा, उत्पत्ति से प्रथम कार्य की सत्ता नहीं सिद्ध होगी, और सत् कार्यवादी तेरे लिए अनिष्ट है । इस शका का उत्तर है कि यह पूर्वकाल में कार्य की असत्ता की प्राप्ति दोष नहीं है, क्योंकि यह कथन सत् का प्रतिषेध मात्र है, और जिसलिए यह सत् का प्रतिषेध मात्र है, इसीलिए इस प्रतिषेध का प्रतिषेध योग्य विषय नहीं है, अर्थात् सत् उसीको कहते हैं कि जिसका कभी निषेध नहीं हो और जब कार्य को सृष्टिकाल में सत् मान लिया, उसकी सत्ता अनुभूत हो चुकी, तो उसका अभाव कभी नहीं हो सकता है, उत्पत्ति से पूर्वकाल में भी उसकी सत्ता रहती है । भगवान् कहते हैं कि ( असत् का कभी भाव नहीं होता है, और सत् का कभी अभाव नहीं होता है, इस प्रकार इस सत् प्रतिषेध का विषय के नहीं होने से यह प्रतिषेध उत्पत्ति से पूर्वकाल में भी कार्य के सत्त्व का प्रतिषेध नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही यह कार्य स्वरूप से असत् वाच्यारम्भण नामध्येयमात्र होते हुए भी कारण स्वरूप से सत् है वैसे ही उत्पत्ति से पूर्व काल में भी कारण स्वरूप से सत् रहता है, ऐसी प्रतीति रूप अनुमान होता है । यह कार्य रूप जगत् इस वर्तमान काल में कारण रूपता के बिना स्वतन्त्र सत् नहीं है, उसका सब पराभय करता है कि जो आत्मा से अन्य सबको जानता है ) इत्यादि से कारण स्वरूपता के बिना स्वतन्त्रकार्य का अभाव सिद्ध होता है । और कारणरूप से कार्य की सत्ता तो वर्तमान के अविशिष्ट ( तुल्य ) ही उत्पत्ति से प्रथम भी रहती है, अर्थात् वर्तमान काल में पार्थिव पदार्थ घटपटादि की सत्ता पृथिवी स्वरूप है, पृथिवी की सत्ता स्वकारण जल स्वरूप है, जल की सत्ता स्वकारण तेज स्वरूप है, तेज की सत्ता

स्वकारण वायु स्वरूप है, वायु की सत्ता स्वकारण आकाश स्वरूप है, आकाश की सत्ता बीजशक्ति रूप माया विशिष्ट सत् शब्द का मुख्यार्थ ईश्वर परब्रह्म स्वरूप है, इस प्रकार परम मूलकारण की ही सत्ता साक्षात् परम्परा से सब मे वर्तमान है। शंका होती है कि उक्त रीति से मूल कारणरूप ब्रह्म शब्दादि से रहित है, और शब्दादियुक्त जगत् का कारण है, इससे उत्पत्तियुक्त जगत् की असत्ता ही सिद्ध होती है। उत्तर है कि शब्दादिरहित ब्रह्म जगत् का कारण यह कहना सत्य है, परन्तु शब्दादियुक्त कार्यरूप यह जगत् उत्पत्ति से पूर्व या वर्तमान काल मे कभी भी उस ब्रह्मस्वरूप कारणरूपता से रहित नहीं रहता है, जिससे उत्पत्ति से पहले कार्य असत् रहता है, यह नहीं कह सकते हैं। और कार्य कारण के अनन्यत्व (अभेद) वाद मे इस तत्त्व को विस्तार से कहेगे ॥ ७ ॥

### अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गादसमञ्जसम् ॥ ८ ॥

अत्राह—यदि स्थौल्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छिन्नत्वाशुद्ध्यादिधर्मकं कार्यं ब्रह्मकारणमभ्युपगम्येत तदपीतौ प्रलये प्रतिसंसृज्यमान कार्यं कारणाविभागमापद्यमानं कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेदित्यपीतौ कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्येवाशुद्ध्यादिरूपप्रसङ्गात्सर्वज्ञं ब्रह्म जगत्कारणमित्यसमञ्जसमिदमौपनिषदं दर्शनम् । अपि च समस्तस्य विभागस्याविभागप्राप्तेः पुनरुत्पत्तौ नियमकारणाभावाद्भोक्तृभोग्यादिविभागेनोत्पत्तिर्न प्राप्नोतीत्यसमञ्जसम् । अपि च भोक्तृणां परेण ब्रह्मणाऽविभागं गतानां कर्मादिनिमित्तप्रलयेऽपि पुनरुत्पत्तावभ्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गादसमञ्जसम् । अथैदं जगदपीतावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेत, एवमप्यपीतिश्च न सम्भवति, कारणाव्यतिरिक्तं च कार्यं न सम्भवतीत्यसमञ्जसमेवेति ॥ ८ ॥

यहाँ कोई पूर्वपक्षी कहता है कि यदि स्थूलता, सावयवता, अचेतनता, परिच्छिन्नता, अशुद्धि आदि धर्म वाला कार्य को ब्रह्मरूप कारण ( उपादान ) वाला माना जायगा, तो प्रलयकाल मे उस कार्य को अपीति ( कारण मे विलय ) होने पर, कारण मे प्रति संसृज्यमान ( मिला हुआ ) कारण के साथ अविभाग ( अभेद ) को प्राप्त वह कार्य अपने धर्मों से कारण को भी दूषित करेगा, इस प्रकार प्रलयकाल मे कारण रूप ब्रह्म का भी कार्य के समान अशुद्धि आदि की प्राप्ति से सर्वज्ञ ब्रह्म जगत् का कारण है, इस प्रकार का यह औपनिषद ( उपनिषद से ज्ञेय ) दर्शन ( ज्ञान सिद्धान्त ) असमञ्जस ( अनुचित-अयुक्त ) है। और दूसरी बात यह है कि समस्त विभाग ( कार्य ) को प्रलय मे एक ब्रह्म के साथ अविभाग ( अभेद ) की प्राप्ति से फिर उत्पत्ति करने मे नियम कारण के अभाव से भोक्ता भोग्यादि के विभाग पूर्वक उत्पत्ति नहीं प्राप्त होती है, इस प्रकार भी असमञ्जस है और प्रलय मे परब्रह्म के साथ अविभाग ( एकता )

को प्राप्त भोक्ताओं की कर्मादि निमित्त कारण के प्रलय होने पर भी फिर उत्पत्ति मानने पर मुक्तों की भी फिर उत्पत्ति की प्राप्ति से असमञ्जस है। एव यदि प्रलयकाल में भी यह जगत् परब्रह्म से विभक्त (भिन्न) स्थिर वर्तमान रहे, तो इस प्रकार मानने पर भी प्रलय का सम्भव नहीं होता है, और कारण से अभिन्न कार्य का सम्भव नहीं होता है इस प्रकार असमञ्जस ही है ॥ ८ ॥

अत्रोच्यते—

न तु दृष्टान्तभावात् ॥ ९ ॥

नैवास्मदीये दर्शने किञ्चिदसामञ्जस्यमस्ति। यत्तावदभिहितं—कारणमपिगच्छत्कार्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेत्—इति, तद्दूषणम्। कस्मात्? दृष्टान्तभावात्। सन्ति हि दृष्टान्ता यथा कारणमपिगच्छत्कार्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण न दूषयति। तद्यथा शरावादयो मृत्प्रकृतिका विकारा विभागावस्थायामुच्चावचमध्यमप्रभेदाः पुनः प्रकृतिमपिगच्छन्तो न तामात्मीयेन धर्मेण संसृजन्ति। रुचकाद्यश्च सुवर्णविकारा अपीतौ न सुवर्णमात्मीयेन धर्मेण संसृजति। त्वत्पक्षस्य तु न कश्चिद्दृष्टान्तोऽस्ति। अपीतिरेव हि न सम्भवेद्यदि कारणे कार्यं स्वधर्मेणैवावतिष्ठेत्। अनन्यत्वेऽपि कार्यकारणयोः कार्यस्य कारणात्मत्वं नतु कारणस्य कार्यात्मत्वम् ‘आरम्भणशब्दादिभ्यः’ इति वक्ष्यामः (ब्र० सू० २।१।१।१४)। अत्यल्पं चेदमुच्यते—कार्यमपीतावात्मीयेन धर्मेण कारणं संसृजेत्—इति। स्थितावपि समानोऽयं प्रसङ्गः, कार्यकारणयोरनन्यत्वाभ्युपगमात्। ‘इदं सर्वं यदयमात्मा’ (बृ० २।४।६), ‘आत्मैवेदं सर्वम्’ (छां० ७।२।१२), ‘ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्’ (मु० २।२।११), ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ (छां० ३।१।४।१) इत्येवमाद्याभिर्हि श्रुतिभिरविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कार्यस्य कारणानन्यत्वं श्राव्यते। तत्र यः परिहारः—कार्यस्य तद्धर्माणां चाविद्याध्यारोपितत्वान्न तैः कारणं संसृज्यत—इति, अपीतावपि स समानः।

इस शंका के होने पर यहाँ उत्तर कहा जाता है कि—हमारे दर्शन में कुछ भी असमञ्जस नहीं है। पहले जो यह कहा है कि कारण में अपिगच्छत् (लीन होता हुआ) कार्य कारण को भी अपने धर्म से दूषित करेगा वह दूषण नहीं है, क्योंकि अदूषकता में दृष्टान्त की सत्ता है। जिससे दृष्टान्त है कि कारण में लीन होता हुआ हुआ भी कार्य जिस प्रकार अपने धर्म से कारण को दूषित नहीं करता है। वे दृष्टान्त इस प्रकार के हैं कि जैसे शरावादि मृत्तिका के कार्य रूप विकार विभागावस्थारूप स्थिति काल में छोटे मध्यम अभेद वाले होते हुए भी फिर अपने कारण में लीन होते हुए उस कारण को अपने धर्म से संसृष्ट युक्त नहीं करते हैं। इसी प्रकार रुचकादि सुवर्ण के विकार भी लीन होने पर अपने धर्म विशिष्टरूप से सुवर्ण की संसृष्टि उत्पत्ति नहीं करते हैं। एवं पृथिवी के विकार रूप चार प्रकार के भूत (प्राणी) समूह की संसृष्टि नहीं करती

है। लय होने पर भी कार्य कारण को विकृत करता है, इस तुम्हारे पक्ष का कोई दृष्टान्त नहीं। यदि कार्य अपने धर्म सहित कारण में अवस्थित वर्तमान रहेगा तब तो प्रलय का ही असम्भव होगा। यद्यपि कार्य कारण को अनन्यत्व (अभेद) है इससे एक स्वरूपता है, तथापि कार्य को कारण स्वरूपत्व है, और कारण को कार्य स्वरूपत्व नहीं है, इससे सत्कार्य वाद में कार्य का दोष कारण में नहीं प्राप्त होता है, इस अर्थ को (आरम्भण) इत्यादि सूत्र में कहेंगे। और यह अत्यन्त अल्प दूषण कहा जा रहा है कि प्रलय में कार्य अपने धर्म से कारण को संसृष्ट करेगा, क्योंकि स्थिति काल में भी कार्य कारण की अनन्यता के स्वीकार से यह दोष का प्रसंग (सबन्ध) तुल्य है। और (जो कुछ यह दृश्य जगत है वह सब आत्मा ही है, आत्मा ही सब जगत स्वरूप है, अमृत स्वरूप ब्रह्म ही पूर्व है, यह सब अवश्य ब्रह्म स्वरूप है) इस प्रकार के अर्थ वाली श्रुतियों से सामान्य रूप से तीनों काल में कार्य के कारण से अनन्यत्व (अभेद) का श्रवण कराया जाता है। वहाँ दोष का जो परिहार (निवारणोपाय) है कि कार्य और धर्मों को अविद्या माया में अध्यारोपित (अध्यस्त मिथ्या) होने से उनसे कारण संसृष्ट नहीं होता है, वही परिहार प्रलय में भी तुल्य है।

अस्ति चायमपरो दृष्टान्तो यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुत्वात्, एवं परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यते इति। यथा च स्वप्नदृशकः स्वप्नदर्शनमायया न संस्पृश्यते प्रबोधसंप्रसादयोरनन्वागतत्वात्, एवमवस्थात्रयसादयेकोऽव्यभिचार्यवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते। मायामात्रं ह्येतद्यत्परमात्मनोऽवस्थात्रयात्मनावभासनं रज्ज्वा इव सर्पादिभावेनेति। अत्रोक्तं वेदान्तार्थसंप्रदायविद्विराचार्यैः—

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ।

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ॥ (गौडपा० कारि० १।१६) इति । तत्र यदुक्तम्—अपीतौ कारणस्यापि कार्यस्येव स्थौल्यादिदोषप्रसङ्ग—इति, एतदयुक्तम् । यत्पुनरेतदुक्तं—समस्तस्य विभागस्याविभागप्राप्तेः पुनर्विभागो-त्पत्तौ नियमकारणं नोपपद्यत—इति । अयमप्यदोषः, दृष्टान्तभावादेव । यथा—हि सुषुप्तिसमाध्यादावपि सत्यां स्वाभाविक्यामविभागप्राप्तौ मिथ्याज्ञानस्यानपोदितत्वात्पूर्ववत्पुनः प्रबोधे विभागो भवत्येवमिहापि भविष्यति । श्रुति-श्चात्र भवति—‘इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तत्तदा भवन्ति’ (छां० ६।६।२, ३) इति । यथा ह्यवि-भानोऽपि परमात्मनि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धो विभागव्यवहारः स्वप्नवद्व्याहृतः स्थितो दृश्यते, एवमपीतावपि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धैव विभागशक्तिरनुमास्यते । एतेन मुक्तानां पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः प्रत्युक्तः, सम्यग्ज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्यापोदित-

त्वात् । यः पुनरयमन्तेऽपरो विकल्प उत्प्रेक्षितः—अथेदं जगदपीतावपि विभक्त-  
मेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेत—इति, सोऽप्यनभ्युपगमादेव प्रतिषिद्धिः तस्मात्समञ्जस-  
भिदमौपनिषदं दर्शनम् ॥ ६ ॥

यह दूसरा दृष्टान्त भी है कि जैसे अवस्तु ( मिथ्या ) होने से, स्वय प्रसारित ( फैलाई ) माया से मायावी संस्पृष्ट ( लिप्त ) नहीं होता है, तीनों काल में उससे असंग रहता है, इसी प्रकार परमात्मा भी ससाररूप माया से तीनों काल में सस्पृष्ट नहीं होता है। जैसे एक स्वप्न द्रष्टा स्वप्न दर्शनरूप माया से सस्पृष्ट नहीं होता है, क्योंकि जाग्रत और सुषुप्ति में उस स्वप्न दर्शन से अनन्वागत ( असंग ) रहता है, इसी प्रकार तीनों अवस्था के अव्यभिचारी ( व्यापक ) एक साक्षी व्यभिचारी ( परिच्छिन्न ) तीन अवस्थाओं से संस्पृष्ट नहीं होता है। और जैसे रज्जु की सर्पादिरूप से प्रतीति होती है, वैसे ही जो यह परमात्मा की अवस्थान्नय ( तीन अवस्था ) रूप से प्रतीति है वह माया मात्र ( मिथ्या ) है। यहाँ वेदान्तार्थ के सम्प्रदाय को जानने वाले आचार्य ने कहा है कि—

( अनादि माया मोह से सोया हुआ जीव जब जागता है मोह को नष्ट करता है। तब जन्म निद्रा स्वप्न और द्वैतरहित स्वरूप को समझता है ) इस उक्त रीति से परमात्मा में अवस्थाओं के असम्बन्ध होते हुए भी जो पहले कहा है कि प्रलय में कार्य के समान कारण को भी स्थूलता आदि दोष की प्राप्ति होगी, वह कथन अयुक्त है। और फिर जो यह कहा है कि प्रलयकाल में समस्त विभाग के अविभाग की प्राप्ति से फिर विभाग पूर्वक उत्पत्ति में नियम का कारण नहीं सिद्ध होता है। यहाँ कहा जाता है कि दृष्टान्त के रहने से ही यह भी दोष नहीं है, क्योंकि जैसे सुषुप्ति समाधि आदि अवस्थाओं में स्वाभाविक अविभाग की प्राप्ति होने पर भी मिथ्या ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति नहीं होने के कारण जागने पर फिर पूर्व के समान प्रविभाग होता है, इसी प्रकार यहाँ भी सृष्टिकाल में प्रविभाग होगा। सुषुप्ति में एक होने पर भी अज्ञान के रहने से प्रविभाग होता है इस अर्थ में श्रुति प्रमाण है कि ( ये सब प्रजा सुषुप्ति काल में सत् ब्रह्म में सम्प्राप्त होकर भी, यह नहीं जानती है कि सत् में प्राप्त हूँ ) इस कारण से वे जीव यहाँ सुषुप्ति से पहले जो बाघ, सिंह, वृक, वराह, कीट, पतङ्ग, दंश, मशक जो जो रहते हैं, सुषुप्ति से जागने पर फिर तत्तद्रूप ही विभक्त होते हैं। जैसे सुषुप्ति में सब कार्यों का परमात्मा में अविभाग होने पर भी अज्ञान मिथ्याज्ञान से प्रतिबद्ध ( सिद्ध सम्मिलित ) विभाग का व्यवहार स्वप्न के समान अव्याहृत ( अविनष्ट ) स्थित दीखता है, इसी प्रकार प्रलय में भी मिथ्या ज्ञान सहित ही विभाग शक्ति अनुमित्त होगी, अर्थात्—अनुमान से समझी जायगी। और उक्त अज्ञान के अभाव से मुक्तों के फिर उत्पत्ति का प्रसंग खंडित हो जाता है, क्योंकि सम्यक् आत्मज्ञान से मिथ्याज्ञान समूल नष्ट हो जाता है। तथा अन्त में जो फिर यह अन्य विकल्प ( पक्ष ) उत्प्रेक्षित ( कल्पित सिद्ध ) किया गया है कि

यदि यह जगत प्रलय मे भी परब्रह्म से विभक्त ही अवस्थित रहेगा इत्यादि । तो वह अस्वीकार से ही प्रतिषिद्ध है । इससे यह औपनिषद् दर्शन समग्रस ( युक्त ) उचित है ।

### स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥

स्वपक्षे चेतै प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःस्युः । कथमित्युच्यते ? यत्तावदभिहितं-विलक्षणत्वान्नेदं जगद्ब्रह्मप्रकृतिकम्-इति, प्रधानप्रकृतिकतायामपि समानमेतत्, शब्दादिहीनात्प्रधानाच्छब्दादिमतो जगत उत्पत्त्यभ्युपगमात् । अतएव च विलक्षणकार्योत्पत्त्यभ्युपगमात्समानः प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यवादप्रसङ्गः । तथाऽपीतौ कार्यस्य कारणविभागाभ्युपगमात्तद्वत्प्रसङ्गोऽपि समानः । तथा मृदितसर्वविशेषेषु विकारेष्वपीतावविभागात्मतां गतेष्विदमस्य पुरुषस्योपादानमिदमस्येति प्राक्प्रलयात्प्रतिपुरुषं ये नियता भेदा न ते तथैव पुनरुत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते कारणाभावात् । विनैव च कारणेन नियमेऽभ्युपगम्यमाने कारणाभावसाम्यान्मुक्तानामपि पुनर्बन्धप्रसङ्गः । अथ केचिद्भेदा अपीतावविभागमापद्यन्ते केचिन्नेति चेत्, ये नापद्यन्ते तेषां प्रधानकार्यत्वं न प्राप्नोतीत्येवमेते दोषाः साधारणत्वान्नान्यतरस्मिन्पक्षे चोदयितव्या भवन्तीत्यदोषतामेवैषां द्रढयति, अवश्याश्रयितव्यत्वात् ॥ १० ॥

वेदान्त के समन्वय मे साध्यवादी से पूर्व बर्णित ये दोष प्रतिवादी के अपने पक्ष में साधारण ( तुल्य ) अभिव्यक्त होंगे । कैसे होंगे वह कहा जाना है कि जो पहले प्रतिवादी ने कहा है कि विलक्षण होने से यह जगत् ब्रह्मात्मक प्रकृति वाला नहीं है, जगत् की प्रधानात्मक प्रकृति जन्यता मे भी यह विलक्षणत्व तुल्य है, क्योंकि शब्दादि रहित प्रधान से शब्दादि वाला जगत की उत्पत्ति को प्रतिवादी ने स्वीकार किया है । और इस विलक्षण कार्य की उत्पत्ति के स्वीकार से ही उत्पत्ति से पहले असत्कार्यवाद की प्राप्ति भी तुल्य ही है । तथा प्रलय मे कार्य का कारण से अविभाग मानने से कार्य के समान प्रधान को रूपादिमत्ता रूप तद्वत्प्रसङ्ग दोष भी तुल्य ही है । इसी प्रकार प्रलय मे विनष्ट सब विशेष वाले विकारो के अविभागता ( प्रधान मे एकता ) प्राप्त होने पर यह कर्मादि इस पुरुष का उपादान ( उपादेय भोग्य ) है, यह अमुक का भोग्य है इस प्रकार जो प्रलय से पहले नियमित भेद रहते है, प्रत्येक पुरुष के भोग साधनादि विभक्त रहते हैं, प्रलय के बाद फिर उत्पत्ति मे वैसे ही नियम के कारण के अभाव से वैसा ही नियम युक्त भेद नहीं किये जा सकते हैं । एवं यदि कारण के बिना ही भोग भोग्यादि का नियम माना जाय तो कारणभाव की तुल्यता से मुक्तो को भी फिर बन्ध का प्रसङ्ग होगा । यदि बन्ध मोक्ष की व्यवस्था के लिये मानो कि प्रलय मे भी मुक्तो के संघातादि रूप कोई विशेष प्रधान मे अविभाग पाते हैं ( लीन होते हैं ) और कोई विशेष ( बद्ध जीवो के संघात ) नहीं लीन होते हैं, तो जो भेद प्रलय में भी प्रधान के साथ अभिन्न नहीं होते हैं उन्हे पुरुष के समान प्रधान के कार्यत्व भी नहीं प्राप्त होता है ।

इस प्रकार इन दोषो के साधारण होने से किसी एक पक्ष मे शका के योग्य नहीं है, इससे इनकी अदोषता को सूत्रकार दृढ करते हैं, क्योंकि वे अवश्य आश्रयणीय मन्तव्य है।

### तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः ॥

तर्काप्रतिष्ठानात् अपि-अन्यथा-अनुमेयम् इति-चेत्-एवम्-अपि-अविमोक्षप्रसङ्गः । इस प्रकार इस सूत्र मे नव पद हैं । सधितार्थ है कि ( केवलस्य तर्कस्याप्रतिष्ठितत्वादपि तेन समन्वयो नाऽऽशङ्कितव्यो भवति, यदि अन्यथा अन्य प्रकारेण समन्वये दोषादिकं किञ्चिदनुमेयं मन्यसे तर्होवमपि नाप्रतिष्ठादोषाद्विमुक्तिः सिद्धयतीति ) श्रुति सद्दिचारादिरहित तर्क के निःसीमस्थितिरहित होने से उस तर्क द्वारा समन्वय शका के योग्य नहीं है। यदि तर्क से नहीं किसी अन्य प्रकार से किसी ऋषि मुनि के वचनादि से समन्वय मे किसी दोषादि को अनुमेय मानते हो तो भी अप्रतिष्ठा दोष से छुटकारा नहीं है। ऋषि आदि के वचनादि भी प्रतिष्ठा रहित हैं, महाभारत मे लिखा है कि ( नैको मुनिर्यस्य वच-प्रमाणम् ) इससे प्रतिष्ठारहित मुनिवचनादि से ससारबन्धन से भी अविमोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे मुमुक्षु को श्रुति सद्दिचार सत्सङ्गादि का शरण लेना चाहिये ।

इतश्च नागमगम्येऽर्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम्, यस्मान्निरागमाः पुरुषोत्प्रेक्षामात्रनिबन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता भवन्ति उत्प्रेक्षया निरङ्कुशत्वात् । तथाहि कैश्चिदभियुक्तैर्यत्नेनोत्प्रेक्षितास्तर्का अभियुक्ततरैरन्यैराभास्यमाना दृश्यन्ते । तैरप्युत्प्रेक्षिताः सन्तस्ततोऽन्यैराभास्यन्त इति न प्रतिष्ठितत्वं तर्काणां शक्यमाश्रयितुं, पुरुषमतिवैरूप्यात् । अथ कस्यचित्प्रसिद्धमाहात्म्यस्य कपिलस्य चान्यस्य वा संमतस्तर्कः प्रतिष्ठित इत्याश्रीयेत, एवमप्यप्रतिष्ठितत्वमेव । प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामपि तीर्थकराणां कपिलकणभुक्प्रभृतीनां परस्पर-विप्रतिपत्तिदर्शनात् । अथोच्येत अन्यथा वयमनुमास्यामहे यथा नाप्रतिष्ठादोषो भविष्यति, नहि प्रतिष्ठितस्तर्क एव नास्तीति शक्यते वक्तुम्, एतदपि हि तर्काणामप्रतिष्ठितत्वं तर्केणैव प्रतिष्ठाप्यते । केषांचित्तर्काणामप्रतिष्ठितत्वदर्शने-नान्येषामपि तज्जातीयकानां तर्काणामप्रतिष्ठितत्वप्रकल्पनात् । सर्वतर्कप्रतिष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः । अतीतवर्तमानाध्वसाम्येन ह्यनागतेऽप्यध्वनि सुखदुःखप्राप्तिपरिहाराय प्रवर्तमानो लोको दृश्यते । श्रुत्यर्थविप्रतिपत्तौ चार्था-भासनिराकरणेन सम्यगर्थनिर्धारणं तर्केणैव वाक्यवृत्तिनिरूपणरूपेण क्रियते ।

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी आगममात्र से ज्ञेय अर्थ मे केवल तर्क से प्रत्यवस्थान ( प्रतिपक्ष-विरोध ) नहीं करना चाहिये कि जिससे आगमरहित पुरुष की उत्प्रेक्षा ( उत्कृष्ट दृष्टि-कल्पनाशक्ति ) मात्र निमित्तक तर्क अप्रतिष्ठित ( स्थिति रहित ) होते हैं । क्योंकि उत्प्रेक्षा को निरङ्कुश स्वतन्त्रता है । जैसे कि सावधान किसी तार्किक विद्वान् से यत्नपूर्वक उत्प्रेक्षित ( कल्पित ) तर्क उनसे कुशल विद्वान् द्वारा आभास ( असत् ) ठहराया गया देखा जाता है, इसी प्रकार उन कुशलो से कल्पित तर्क उनसे



भी कुशल विद्वान् द्वारा आभास किया जाता है, इससे तर्क की स्थिति का आश्रयण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तर्क का हेतु पुष्प की बुद्धि में विविधरूपता होती है। यदि किसी प्रसिद्ध महिमा वाले कपिल वा अन्य किसी के समस्त तर्क को प्रतिष्ठित माना जाय, तो ऐसा मानने पर भी तर्क की स्थिरता नहीं है। क्योंकि प्रसिद्ध महिमा वाले माने गये शास्त्रकर्ता कपिल कणाद आदि का परस्पर विरोध देखा जाता है। यदि कोई कहे कि हम अन्य प्रकार से अनुमान करेंगे जिससे अप्रतिष्ठा दोष नहीं प्राप्त होगा। प्रतिष्ठित तर्क ही नहीं है, यह तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यह तर्क के अप्रतिष्ठितत्व भी तर्क से ही स्थिर सिद्ध किया जाता है, और कितने तर्कों को अप्रतिष्ठितत्व युक्त देखने से उनके सजातीयता युक्त अन्य तर्कों में भी अप्रतिष्ठितत्व की कल्पना होती है। परन्तु सब तर्कों की अप्रतिष्ठा होने पर तो लोक के सब व्यवहारों का उच्छेद (नाश) प्राप्त होगा। क्योंकि भूत और वर्तमान अथवा (काल वा मार्ग) की समता से भावी काल और मार्ग में मुबदुःख की प्राप्ति और निवारण के लिये प्रवृत्त लोग देखे जाते हैं। अर्थात् भूत वर्तमान विषय व्यवहार के समान अनुमान से भावी विषय व्यवहार को समझ कर उसमें प्रवृत्त होते देखे जाते हैं, तर्क के सर्वथा अप्रतिष्ठित होने पर यह व्यवहार नहीं होगा। और श्रुतियों के अर्थ में विरोध होने पर अर्थाभास (मिथ्या अर्थ) का निराकरण पूर्वक सत्यार्थ का निर्धारण निश्चय वाक्य की वृत्ति (शक्ति तात्पर्य) का निरूपण रूप पूर्वोत्तर मीमांसात्मक तर्क से ही किया जाता है।

मनु भी कुछ तर्क प्रतिष्ठित है ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि—

मनुरपि चैवं मन्यते—

प्रत्यक्षमनुमान च शास्त्रं च विविधागमम् ।

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ इति ।

आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥ (१२।१०५, १०६)

इति च ब्रुवन् । अयमेव तर्कस्यालङ्कारो यदप्रतिष्ठितत्वं नाम । एवं हि सावद्यतर्कपरित्यागेन निरवद्यस्तर्कः प्रतिपत्तव्यो भवति । नहि पूर्वजो मूढ आसीदित्यात्मनापि मूढेन भवितव्यमिति किञ्चिदस्ति प्रमाणम् । तस्मान्न तर्कप्रतिष्ठानं दोष-इति चेत् ? एवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः । यद्यपि क्वचिद्विषये तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वमुपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावद्विषये प्रसज्यत एवाप्रतिष्ठितत्वदोषादविमोक्षस्तर्कस्य । नहीदमतिगम्भीरं भावयाथात्म्यं मुक्तिनिबन्धनमागममन्तरणोत्प्रेक्षितमपि शक्यम् । रूपाद्यभावाद्धि नायमर्थः प्रत्यक्षगोचरः, लिङ्गाद्यभावाच्च नानुमानादीनामिति चावोचाम ।

धर्म की शुद्धि (अधर्म से विवेक पूर्वक ज्ञान) चाहने वाले को प्रत्यक्ष अनुमान और

विविध प्रकार के धर्म शास्त्रादि रूप आगमात्मक शास्त्र ये तीनों सुविदित ज्ञात करना चाहिये । आर्ष ऋषि दृष्ट वेद और धर्म का उपदेश रूप धर्मशास्त्र को जो तदनुकूल तर्क द्वारा विचारता है वही शुद्ध धर्म को जानता है, अन्य नहीं ।

ऐसा कहते हुए मनु तर्क को स्वीकार करते हैं और तर्क को जो अप्रतिष्ठितत्व है वही सतर्क के लिये अलंकार ( भूषण ) है । पूर्वोत्तर पक्ष से तर्क शोभा पाता है, और तर्क के अप्रतिष्ठित होने ही से दोषयुक्त तर्कों का परित्याग करके निर्दोष तर्क प्राप्त करने योग्य होता है । पूर्वज मूढ थे इससे अपने भी मूढ होना चाहिये इसमें कोई प्रमाण नहीं है । इससे तर्काप्रतिष्ठान रूप दोष नहीं है, इस प्रकार यदि कोई कहे, तो भी प्रकृत में अप्रतिष्ठितत्व से अविमोक्ष का प्रसङ्ग है ही । यद्यपि किसी विषय में तर्क को प्रतिष्ठितत्व दीखता है, तथापि प्रकृत समन्वय विषय में तर्क को अप्रतिष्ठितत्व दोष से अविमोक्ष ही प्राप्त होता है । क्योंकि अतिगम्भीर यह भाव ( जगत्कारण ) का यथार्थ अद्वैत मुक्ति का अवलम्बन स्वरूप वस्तु आगम के बिना कल्पना से तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता है, जिससे रूपादि के अभाव से यह अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, और लिङ्गादि के अभाव से अनुमानादि का भी विषय नहीं है—यह पहले कह चुके हैं ।

अपिच सम्यग्ज्ञानान्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनामभ्युपगमः । तच्च सम्यग्ज्ञानमेकरूपं वस्तुतन्त्रत्वात् । एकरूपेण ह्यवस्थितो योऽर्थः स परमार्थः । लोके तद्विषयं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमित्युच्यते, यथाग्निरुष्ण इति । तत्रैवं सति सम्यग्ज्ञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिरनुपपन्ना । तर्कज्ञानानां त्वन्योन्यविरोधात्प्रसिद्धा विप्रतिपत्तिः । यद्धि केनचित्कार्तिकेणोद्देव सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपादितं तदपरेण व्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितं ततोऽपरेण व्युत्थाप्यत इति च प्रसिद्धं लोके । कथमेकरूपानवस्थितविषयं तर्कप्रभवं सम्यग्ज्ञानं भवेत् । नच प्रधानवादी तर्कविदामुत्तम इति सर्वैस्तार्किकैः परिगृहीतो येन तदीयं मतं सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपद्येमहि । नच शक्यन्तेऽतीतानागतवर्तमानास्तार्किका एकस्मिन्देशे काले च समाहर्तुं येन तन्मतिरेकरूपैकार्थविषया सम्यग्ज्ञानितिरिति स्यात् । वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थविषयत्वोपपत्तेस्तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वमतीतानागतवर्तमानैः सर्वैरपि तार्किकैरपह्नोतुमशक्यम् । अतः सिद्धमस्यैवौपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानत्वम् । अतोऽन्यत्र सम्यग्ज्ञानत्वानुपपत्तेः संसाराविमोक्ष एव प्रसज्येत । अत आगमवशेनागमानुसारितर्कवशेन च चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेति स्थितम् ॥ ११ ॥

दूसरी बात यह है कि सम्यक् ज्ञान से मोक्ष होता है, यह सब मोक्षवादियों का अभ्युपगम ( सिद्धान्त ) है, और ज्ञान के वस्तु तन्त्र होने से वह सम्यक् ज्ञान है जो एक वस्तु विषयक सबका ज्ञान एक स्वरूप वाला है, और एक स्वरूप से सदा स्थिर जो पदार्थ

है, वह परमार्थ सत्य है। लोक में उस परमार्थ विषयक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसे सदा उष्ण रहने वाली अग्नि का उष्ण ऐसा ज्ञान सम्यक् ज्ञान है। इस प्रकार एक स्वरूप वाला पदार्थ का एक स्वरूप वाला ज्ञान के यथार्थ होने पर उस यथार्थ ज्ञान में पुरुषों की विप्रतिपत्ति ( विरोध ) अयुक्त है। तर्कजन्य ज्ञान वालों को तथा उनके ज्ञानों को तो परस्पर विरोध से विप्रतिपत्ति ( विपक्षिता ) प्रसिद्ध है। जिससे जिस ज्ञान को किसी एक तार्किक ने प्रतिपादन किया कि यही ज्ञान सम्यक् ज्ञान है, उसको अन्य तार्किक व्युत्थापित बाधित करता है। इससे वह व्युत्थापित बाधित निषिद्ध होता है, फिर उससे प्रतिष्ठापित ( प्रतिपादित ) ज्ञान अन्य किसी से निषिद्ध होता है यह लोक में प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनवस्थित ( अनिश्चित ) विषय वाला तर्क-जन्य ज्ञान सम्यक् ज्ञान कैसे होगा ? और प्रधानवादी सब तर्कवेत्ताओं में उत्तम हैं इस प्रकार भी सब तार्किकों से प्रधानवादी नहीं स्वीकृत है, कि जिससे उनका मत सम्यक् ज्ञान स्वरूप है, इस प्रकार हम समझें। एव भूतभावी वर्तमान सब तार्किक एक देश एक काल में साथ मिल नहीं सकते कि जिससे एक अर्थ विषयक एक स्वरूप वाली उनकी मति ( बुद्धि ज्ञान ) सम्यग्मति है ऐसा निश्चय हो सके। और वेद को तो नित्यत्व और विज्ञानोत्पत्ति के हेतुत्व होने पर व्यवस्थित अर्थ विषयत्व की सिद्धि से वेदजन्य ज्ञान के यथार्थता का भूतभावी वर्तमान सब तार्किकों से भी अपह्नव ( अपलाप निवारण ) नहीं किया जा सकता है। इससे इस औपनिषद ज्ञान को ही सम्यग् ज्ञानत्व सिद्ध हुआ, और इससे अन्य ज्ञान में सम्यक् ज्ञानत्व की असिद्धि से संसार से अविमोक्ष की प्राप्ति होगी। इस नित्य आगम के बल से तथा आगमानुसारी तर्कों के बल से चेतन ब्रह्म जगत् का कारण और प्रकृति है यह स्थित हुआ ॥ ११ ॥

सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि परमाणु आदि कारणवादी मतों से समन्वय का बाध होता है, अथवा नहीं ? पूर्वपक्ष है कि जिससे न्यून परिमाण वाले तन्तुओं से जन्य उनसे बड़ा पट देखा जाता है, इससे मतों द्वारा समन्वय का बाध होता है अर्थात् विभु ब्रह्म से जगत् नहीं होता है किन्तु परमाणु आदि से होता है। सिद्धान्त है कि श्रुति सतर्कों के बल से शिष्टों की इष्ट स्मृति भी छोड़ दी गई है, तो शिष्ट त्यक्त को त्यागने में कौन ऐसी बात है कि जिससे वह नहीं छोड़ा जा सके। इससे बाध नहीं होता है और विवर्तनकार्य में कारण की न्यूनता का नियम नहीं है।

### शिष्टापरिग्रहाधिकरण ॥ ४ ॥

बाधोस्ति परमाण्वादिमतैर्नो वा यतः पटः । न्यूनतन्तुभिरारब्धो दृष्टोऽतो बाध्यते मतैः ॥  
शिष्टेष्टापि स्मृतित्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किमु । नातो बाधा विवर्ते तु न्यूनत्वनिधमो नहि ॥

### एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२ ॥

वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वाद्गुरुतरतर्कबलोपेतत्वाद्देदानुसारिभिश्च  
कैश्चिच्छिष्टैः केनचिद्देशेन परिगृहीतत्वात्प्रधानकारणवादं तावद्व्यपाश्रित्य

यस्तर्कनिमित्त आक्षेपो वेदान्तवाक्येषूद्भाषितः स परिहृतः । इदानीमण्वादिवादव्यपाश्रयेणापि कैश्चिन्मन्दमतिभिर्वेदान्तवाक्येषु पुनस्तर्कनिमित्त आक्षेप आशङ्क्यते इत्यतः प्रधानमल्लनिर्बहणन्यायेनातिदिशति । परिगृह्यन्त इति परिग्रहाः न परिग्रहा अपरिग्रहाः शिष्टानामपरिग्रहाः शिष्टापरिग्रहाः, एतेन प्रकृतेन प्रधानकारणवादनिराकरणकारणेन, शिष्टैर्मनुव्यासप्रभृतिभिः केनचिदंशेनापरिगृहीता येऽण्वादिकारणवादास्तेऽपि प्रतिषद्धितया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः । तुल्यत्वान्निराकरणकारणस्य नात्र पुनराशङ्कितव्यं किञ्चिदस्ति । तुल्यमत्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तर्कानवगाह्यत्वं तर्कस्य चाप्रतिष्ठितत्वमन्यथानुमानेऽप्यविमोक्षआगमविरोधश्चेत्येवंजातीयकं निराकरणकारणम् ॥१२॥

वैदिक दर्शन के समीप होने से अर्थात् सत्कार्यत्व आत्मासङ्गत्वादि अंश मे वेदान्त से सम्मिलित होने से और गम्भीर प्रबल तर्कों से युक्त होने से तथा वेदानुसारी किसी-किसी शिष्टो द्वारा किसी अंश मे परिगृहीत होने से प्रथम प्रधान कारणवाद का आश्रयण करके जो तर्कनिमित्तक आक्षेप वेदान्त वाक्यो मे प्रकट किया गया था वह परिहृत ( निवारित ) हो चुका । अब इस समय अणु आदि वाद का आश्रयण करके भी किसी मन्दमति से फिर तर्कनिमित्तक आक्षेप वेदान्त वाक्यो मे आशंका से किया जाता है । इससे प्रधानमल्लनिर्बहणन्याय से अतिदेश करते हैं कि, जो परिगृहीत हो ( स्वीकृत हो ) वे परिग्रह करते हैं, उनसे भिन्न अपरिग्रह कहाते हैं, शिष्टो के अपरिग्रह शिष्टापरिग्रह है । और इस प्रकृत, प्रधानकारणवाद के निराकरण के कारण से, शिष्टमनु व्यास आदि द्वारा किसी अंश से भी ग्रहण के अविषय जो परमाणु आदि कारणवाद हैं वे भी प्रतिषिद्धरूप से व्याख्यात निराकृत हो गये ऐसा समझना चाहिये । निराकरण के कारण के तुल्य होने से यहाँ फिर कुछ समन्वय मे शंका योग्य नहीं है । यहाँ भी परमगम्भीर जगत कारण को तर्क से अप्राह्यत्व तुल्य है, और तर्क को अप्रतिष्ठितत्व है । अनुमान करने पर भी अविमोक्ष और आगम विरोध है, इस प्रकार के यहाँ भी निराकरण के कारण हैं ॥ १२ ॥

### भोक्त्रापत्यधिकरण ॥ ५ ॥

अद्वैतं बाध्यते वा नो भोक्तृभोग्यविशेषतः । प्रत्यक्षादिप्रमासिद्धो भेदोऽसावन्यबाधकः ॥१॥ तरङ्गफेनभेदेऽपि समुद्रेऽभेद इष्यते । भोक्तृभोग्याविभेदेऽपि ब्रह्माद्वैत तथास्तु तत् ॥२॥

उक्त अद्वैतवाद मे शंका होती है कि भोक्ता भोग्यादि रूप सब जगत यदि ब्रह्म से अभिन्न है, तो भोक्ता से अभिन्नब्रह्म भोक्तृरूपता की प्राप्ति द्वारा भोग्य को भी भोक्तृरूपता की प्राप्ति होती है, क्योंकि तदभिन्नाऽभिन्न को तदभिन्नत्व की प्राप्ति स्वाभाविक है । उत्तर है कि यह दोष नहीं है, लोक के समान यह भेद रहेगा । गन्ध से अभिन्न भूमि के रूपादि भूमि से अभिन्न होते हुए भी गन्ध से अभिन्न नहीं होते हैं, तथा भूमि भी गन्ध से अभिन्न होती हुई भी गन्धस्वरूप नहीं होती है, ऐसे ही ब्रह्म और भोग्य भोक्ता नहीं होंगे

कल्पित भेद रहेगा । यहाँ सशय होता है कि भोक्ता भोग्य के भेद से अद्वैत बाधित होता है, अथवा नहीं ? पूर्वपक्ष है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध भेद अद्वैत का बाधक है । सिद्धान्त है कि जैसे समुद्र के फेनतरङ्गादि का परस्पर भेद होते हुए भी समुद्र में अभेद माना जाता है, वैसे ही भोक्ता भोग्य का विभेद होते हुए भी ब्रह्म का सबके साथ अभेद भी है, इससे अभेद का बाधक नहीं होता है ॥ १-२ ॥

### भोक्तापत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत् ॥ १३ ॥

अन्यथा पुनर्ब्रह्मकारणवादस्तर्कबलेनैवाक्षिप्यते । यद्यपि श्रुतिः प्रमाणं स्वविषये भवति तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेऽन्यपरा भवितुमर्हति, यथा मन्त्रार्थवादौ । तर्कोऽपि हि स्वविषयादन्यत्राप्रतिष्ठितः स्यात् यथा धर्माधर्मयोः । किमतः ? यद्येवम्, अत इदमयुक्तं यत्प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थबाधनं श्रुतेः । कथं पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धोऽर्थः श्रुत्या बाध्यत इति ? अत्रोच्यते—प्रसिद्धो ह्ययं भोक्तृभोग्यविभागो लोके-भोक्ता चेतनः शारीरो भोग्याः शब्दादयो विषया-इति, यथा भोक्ता देवदत्तो भोग्य ओदन इति, तस्य च विभागस्याभावः प्रसज्येत यदि भोक्ता भोग्यभावमापद्येत, भोग्यं वा भोक्तृभावमापद्येत । तयोश्चेत्तरेतरभावापत्तिः परमकारणाद्ब्रह्मणोऽनन्यत्वात्प्रसज्येत । नचास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनं युक्तम् । यथा त्वद्यत्वे भोक्तृभोग्ययोर्विभागो दृष्टस्तथातीतानागतयोरपि कल्पयितव्यः । तस्मात्प्रसिद्धस्यास्य भोक्तृभोग्यविभागस्याभावप्रसङ्गाद्युक्तमिदं ब्रह्मकारणतावधारणम् ।

फिर भी ब्रह्म कारणवाद का तर्क के बल द्वारा ही अन्य प्रकार से आक्षेप किया जाता है । यद्यपि श्रुति अपने विषय में प्रमाण है कि जो विषय प्रमाणान्तर के अयोग्य हैं, तथापि प्रमाणान्तर के विषय भूमि जलादि में प्रमाणान्तर से अभेदरूप विषय का जहाँ अपहरण ( बाध ) होता है, वहाँ अपहरण होने पर श्रुति अन्यार्थपरक हो जाती है, जैसे कि मन्त्र और अर्थवाद अन्यार्थपरक होते हैं, अर्थात् जैसे ( आदित्यो यूप ) इत्यादि वाक्य यूप के स्तुति परक गौणार्थक है वैसे ही ब्रह्माद्वैतता का बोधक श्रुति भी गौणार्थक स्तावकमात्र है । जिससे तर्क भी अपने विषय भेदादि से अन्यत्र अप्रतिष्ठित हो सकता है, जैसे कि धर्माधर्म में तर्क अप्रतिष्ठित होता है । शका होती है कि यदि इस प्रकार श्रुति के समान तर्क भी अपने विषय में प्रतिष्ठित है, तो इससे क्या फल हुआ ? पूर्वपक्षी समाधान करता है कि इससे यह हुआ कि प्रमाणान्तर से प्रसिद्ध द्वैतादि अर्थ का जो श्रुति से बाधन किया जाता है वह अयुक्त है, यदि कहीं कि प्रमाणान्तर से प्रसिद्ध अर्थ का श्रुति से बाध कैसे किया जाता है, तो यहाँ कहा जाता है कि भोक्ता और भोग्य वस्तु का विभाग भेद यह लोक में प्रसिद्ध है भोक्ता चेतन जीव है, भोग्य शब्दादि विषय हैं, जैसे कि भोक्ता देवदत्त है, और भोग्य ( खाने योग्य )

ओदन ( भात ) है इत्यादि । इस विभाग का अभाव प्राप्त होगा कि यदि भोक्ता भोग्य रूपता को प्राप्त हो, वा भोग्य भोक्ता रूपता को प्राप्त हो । और परम कारण ब्रह्म के साथ इन भोक्ता भोग्य पदार्थों की अनन्यता ( एकता ) से इनको परस्पर भी इतरेतरभाव ( अभेद ) की प्राप्ति प्रसक्त ( प्राप्त ) होगा, इससे भेद बाधित होगा, और इस प्रसिद्ध विभाग ( भेद का बाध ) होना युक्त नहीं है । जिस प्रकार अभी वर्तमान काल में भोक्ता और भोग्य का भेद प्रसिद्ध है यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसी प्रकार भूत भावी काल में भी कल्पना योग्य अनुमान से ज्ञेय है, इससे अनादि अविनाशी और प्रसिद्ध इस भोक्ता भोग्य के विभाग के अभाव के प्रसंग से यह ब्रह्म कारणता का अवधारण अयुक्त है ।

इति चेत् कश्चिच्चोदयेत्तं प्रतिब्रूयात्—स्याल्लोकवदिति । उपपद्यत एवायमस्मत्पक्षेऽपि विभाग' एवं लोके दृष्टत्वात् । तथाहि—समुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनवीचीतरङ्गबुद्बुदादीनामितरेतरविभागः इतरेतरसंश्लेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते । न च समुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनतरङ्गादीनामितरेतरभावापत्तिर्भवति, न च तेषामितरेतरभावानापत्तावपि समुद्रात्मनोऽन्यत्वं भवति, एवमिहापि । न च भोक्तृभोग्ययोरितरेतरभावापत्तिः, न च परस्माद्ब्रह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति । यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्' ( तै० २।६ ) इति स्रष्टुरेवाविकृतस्य कार्यानुप्रवेशेन भोक्तृत्वश्रवणात्, तथापि कार्यमनुप्रविष्टस्यास्त्युपाधिनिमित्तो विभाग आकाशस्येव घटाद्युपाधिनिमित्त इत्यतः परमकारणाद्ब्रह्मणोऽनन्यत्वेऽप्युपपद्यते भोक्तृभोग्यलक्षणो विभागः समुद्रतरङ्गादिन्यायेनेत्युक्तम् ॥ १३ ॥

इस उक्त रीति से यदि कोई शका करे, तो उसके प्रति कहना चाहिये कि यह विभाग लोकवत् होगा । अर्थात् यह विभाग हमारे पक्ष में भी उपपन्न ( सिद्ध ) होता है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है । जैसे कि जल स्वरूप समुद्र से उसके विकार फेनवीची तरङ्ग बुद्बुदादि को अनन्यत्व ( अभेद ) होते हुए भी परस्पर विभाग और संश्लेष ( सम्बन्ध ) रूप व्यवहार उपलब्ध होता है ( देखा जाता है ) और जलात्मक समुद्र से उसके विकार फेनतरङ्गादि को अभिन्न होते हुए भी परस्पर इतरेतरभाव ( अभेद ) की प्राप्ति नहीं होती है, तथा उनको इतरेतरभाव ( अभेद ) की असिद्धि होते भी समुद्र से अन्यत्व ( भेद ) उनको नहीं होता है । इसी प्रकार यहाँ भी भोक्ता और भोग्य को इतरेतरभाव की प्राप्ति नहीं होगी, परब्रह्म से अन्यत्व ( भेद ) भी नहीं होगा । यद्यपि भोक्ता ब्रह्म का विकार नहीं है, क्योंकि ( वह परब्रह्म स्वरूप आत्मा इस जगत् को रचकर इसमें अनुप्रवेश किया ) इस कथन से अविकृत स्रष्टा का ही कार्य में अनुप्रवेश द्वारा भोक्तृत्व सुना जाता है । तथापि कार्य में अनुप्रवेशनिमित्तक विभाग है, जैसे कि घटादि उपाधि निमित्तक आकाश का विभाग होता है, वैसा यह भोक्ता का विभाग है ।

इससे परम कारण ब्रह्म से अनन्य होने पर भी समुद्र तरङ्गादि न्याय से भोक्ता भोग्य स्वरूप विभाग उपपन्न ( सिद्ध ) होता है, यह कहा गया है ॥ १३ ॥

### आरम्भणाधिकरण ॥ ६ ॥

भेदाभेदौ तात्त्विकौ स्तो यदि वा व्यवहारिकौ । समुद्रादाविव तयोर्बाधाभावेन तात्त्विकौ ॥ बाधितौ श्रुतियुक्तिभ्यां तावेतौ व्यावहारिकौ । कार्यस्य कारणाभेदादद्वैतं ब्रह्म तात्त्विकम् ॥

सामान्य दृष्टि से सशय होता है कि पूर्वोक्त कारणरूप से अभेद विकाररूप से भेद ये दोनो तात्त्विक ( सत्य ) है कि व्यावहारिक हैं—अर्थात् मिथ्या है ? पूर्वपक्ष है कि किसी पदार्थ के बाध से उसके मिथ्यात्व समझा जाता है और प्रकृत में समुद्र उसके विकार में भेदाभेद के समान कारणरूप ब्रह्म जगतरूप विकार के भेदाभेद का बाध नहीं होता है, कारणरूप से अभेद और कार्यरूप से भेद सत्य ही भासता है, इससे भेदाभेद सत्य ही हैं । सिद्धान्त है कि यद्यपि प्रत्यक्ष दृष्टान्तादि से भेदाभेद अबाधित प्रतीत होते हैं, तथापि सर्वथा अद्वैत बोधक श्रुति और भेदाभेद के विरोधादिरूप युक्ति से ये भेदाभेद बाधित है, इससे व्यावहारिक भेदाभेद हैं । और कार्य को प्रकृतिरूप कारण के साथ अभेद होने से अद्वैत ब्रह्म ही सत्य है ॥ १-२ ॥

### तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥

अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्यलक्षणं विभागं स्याल्लोकवदिति परिहारोऽभिहितः, न त्वयं विभागः परमार्थतोऽस्ति यस्मात्तयोः कार्यकारणयोरनन्यत्वमवगम्यते । कार्यमाकाशादिक बहुप्रपञ्चं जगत्, कारणं परं ब्रह्म, तस्मात्कारणात्परमार्थतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते । कुतः ? आरम्भणशब्दादिभ्यः । आरम्भणशब्दस्तावत् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय दृष्टान्तापेक्षायामुच्यते—‘यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्’ ( छां० ६।१।१ ) इति ।

आरम्भण शब्दादि से कार्य जगत् को कारण ब्रह्म से सर्वथा अभेद है, यह कथनमात्र मिथ्या भेद है । और मिथ्या ही भेद की दृष्टि से पहले समुद्र का दृष्टान्त दिया गया है । इस व्यावहारिक भोक्ता और भोग्यरूप विभाग का स्वीकार करके ( लोकवत् व्यवहार होगा ) यह परिहार ( शका का उत्तर ) कहा गया है । परन्तु यह भोक्ता और भोग्य का विभाग परमार्थरूप से नहीं है, जिससे कार्यकारण ( जगत् ब्रह्म ) का अनन्यत्व ( अभेद ) अवगत होता है समझा जाता है । वहाँ आकाशादिक बहुत विस्तारयुक्त जगत् का कार्य है और परब्रह्म कारण है, उस कारण से परमार्थरूप से अनन्यत्व ( अभेद ) और ब्रह्म के बिना कार्य जगत् का अभाव समझा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है । क्योंकि आरम्भण शब्दादि से ऐसा ही ज्ञान होता है । पहले आरम्भण शब्द इस प्रकार है कि एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा करके दृष्टान्त की

अपेक्षा होने पर कहा जाता है कि ( हे सोम्य ) जैसे ज्ञात एक मृत्पिण्ड से सब मृत्तिका के विकार विज्ञात होते हैं क्योंकि वाक् से जन्य नाममात्र ही विकार है मृत्तिका ही सत्य है ।

एतदुक्तं भवति—एकेन मृत्पिण्डेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्वं मृन्मयं घटशरावोदञ्चनादिकं मृदात्मकत्वाविशेषाद्विज्ञातं भवेत्, यतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वाचैव केवलमस्तीत्यारभ्यते—विकारो घटः शराव उदञ्चनं च—इति, नतु वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति, नामधेयमात्रं ह्येतदनुत्तं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति । एष ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः । तत्र श्रुताद्वाचारम्भणशब्दाद्दार्ष्टान्तिकेऽपि ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्यजातस्याभाव इति गम्यते । पुनश्च तेजोबन्धानां ब्रह्मकार्यतामुक्त्वा तेजोबन्धकार्याणां तेजोबन्धव्यतिरेकेणाभावं ब्रवीति—‘अपागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्’ ( छां० ६।४।१ ) इत्यादिना । आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात् ‘ऐतदात्म्यमिदं सर्वं, तत्सत्यं स आत्मा, तत्त्वमसि’ ( छां० ६।७ ), ‘इदं सर्वं यदयमात्मा’ ( बृ० २।४।६ ), ‘ब्रह्मैवेदं सर्वम्’ ( मु० २।२।११ ), आत्मैवेदं सर्वम्’ ( छां० ७।२।१२ ), ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ ( बृ० ४।४।१६ ) इत्येवमाद्यप्यात्मैकत्वप्रतिपादनपरं वचनजातमुदाहर्तव्यम् । न चान्यथैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं संपद्यते । तस्माद्यथा घटकरकाद्याकाशाना महाकाशानन्यत्वं, यथाच मृगतृष्णिकोदकादीनामूषरादिभ्योऽनन्यत्वं दृष्टनष्टस्वरूपत्वात्स्वरूपेणानुपाख्यत्वात्, एवमस्य भोग्यभोक्तादिप्रपञ्चजातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेणाभाव इति ।

इससे यह कहा गया है कि परमार्थरूप से मृदाऽऽत्मक ( मिट्टी स्वरूप ) एक मृत्तिका के पिण्ड के विज्ञात होने से मृत्तिका के विकार घट शराव उदञ्चनादि सब मृत्तिकारूपता की अविशेषता ( तुल्यता ) से ज्ञात हो जाते हैं, कि ये सब मिट्टीमात्र हैं । जिससे वाक से आरम्भमाण ( जन्य ) नामधेय ( नाम ) मात्र विकार वाक् से ही केवल है इस प्रकार आरब्ध जन्य होते हैं कि विकार रूप घट शराव उदञ्चन हैं, और वस्तु वृत्त ( स्वभाव चरित्र ) से विकार नामक कोई पदार्थ नहीं है, यह नाम ध्येय मात्र मिथ्या है । विकारो मे भी मृत्तिका इस शब्द का अर्थ ही सत्य है, यह श्रुति मे ब्रह्म का दृष्टान्त कहा गया है । वहाँ सुना गया वाचारम्भण शब्द से दार्ष्टान्तिक मे ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म के बिना कार्य समूह का अभाव प्रतीत होता है, फिर भी तेज जल अन्न को ब्रह्म के कार्य स्वरूप कह कर, तेज जल और अन्न के कार्यों का तेज जल और अन्न के बिना अभाव को श्रुति कहती है कि ( अग्नि के धर्म अग्नित्व अग्नि से गया अग्नित्व नहीं रहा । क्योंकि विकार नामधेय मात्र है, वाचारम्भण है । तेज जल अन्न ये तीन कारण रूप ही सत्य हैं इत्यादि । ( आरम्भण शब्दादिभ्यः ) इस सूत्रगत आदि शब्द से ( इस परम सूक्ष्म कारण स्वरूप सब जगत है । और वही कारण



सत्य है वह आत्मा है वही तुम हो। यह सब जो कुछ है वह आत्मा है। ब्रह्म ही सब जगत्स्वरूप है। आत्मा ही सब स्वरूप है। इसमें नाना कुछ नहीं है ) इत्यादिक भी आत्मा के एकत्व के प्रतिपादन परक वचनसमूह उदाहरण के योग्य हैं, अन्यथा ( उक्त एकता के बिना ) एक के विज्ञान से सबका विज्ञान नहीं सिद्ध हो सकता है उससे जैसे घट कमण्डलु आदि के आकाश को महाकाश से अनन्यत्व ( अभेद ) रहता है। जैसे मृगवृष्णिका के उदकादि ( ऊषरादि में मिथ्या भासने वाले जलादि ) को ऊषरादि से अभेद रहता है। क्योंकि वे दृष्ट प्रातिभासिक और नष्ट ( अनित्य ) स्वरूप वाले होते हैं, और इसीसे अपने स्वरूप से सत्तादि शून्य अनिर्वाच्य होते हैं, इसमें उन्हें ऊषरादि अनन्यता रहती है। इसी प्रकार इस भोग्य भोक्तादि रूप प्रपञ्च समूह का ब्रह्म के स्वरूप से अतिरिक्त अभाव है।

नन्वनेकात्मकं ब्रह्म, यथा वृक्षोऽनेकशाखा एवमनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्तं ब्रह्म, अत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव। यथा वृक्ष इत्येकत्वं शाखा इति नानात्वम्। यथा च समुद्रात्मनैकत्वं फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वम्। यथा च मृदात्मनैकत्वं घटशरावाद्यात्मना नानात्वम्। तत्रैकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति। नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयौ लौकिकवैदिकव्यवहारौ सेत्स्यत इति। एवञ्च मृदादिदृष्टान्ता अनुरूपा भविष्यन्तीति। नैवं स्यात्, 'मृत्तिकत्येव सत्यम्' इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणान्। वाचारम्भणशब्देन च विकारजातस्यानृतत्वाभिधानान्। दार्ष्टान्तिकेऽपि 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वं, तत्सत्यम्' इति च परमकारणस्यैकस्य सत्यत्वावधारणात्, 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति च शरीरस्य ब्रह्मभावोपदेशात्। स्वयं प्रसिद्धं ह्येतच्छरीरस्य ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते न यत्नान्तरप्रसाध्यम्। अतश्चेदं शास्त्रीयं ब्रह्मात्मत्वमवगम्यमानं स्वाभाविकस्य शरीरात्मत्वस्य बाधकं संपद्यते, रज्ज्वादिबुद्ध्य इव सर्पादिबुद्धीनाम्। बाधिते च शरीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तः स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति, यत्प्रसिद्धये नानात्वांशोऽपरो ब्रह्मणः कल्पेत्। दर्शयति च—'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्' ( बृ० ४।५।१५ ) इत्यादिना ब्रह्मात्मत्वदर्शिन प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफललक्षणस्य व्यवहारस्याभावम्।

यहाँ शंका होती है कि एक कारण स्वरूप अद्वैत ब्रह्म सत्य है और अन्य सब मिथ्या है ऐसी स्थिति नहीं है किन्तु ब्रह्म अनेकात्मक अनेक स्वरूप है और अनेक स्वरूप से सत्य है, क्योंकि जैसे वृक्ष अनेक शाखा वाला होता है, इसी प्रकार अनेक शक्तियों द्वारा जो अनन्त परिणाम भेदादि रूप प्रवृत्ति उन प्रवृत्तियों से युक्त ब्रह्म है, इससे ब्रह्म में एकत्व और नानात्व दोनों सत्य ही है और वृक्ष स्वरूप से वृक्ष में एकता है और शाखा इत्याकारक स्वरूप से नानात्व है। जैसे समुद्र स्वरूप से एकत्व है, फेन

तरगादि रूप से नानात्व है। और जैसे मृत्तिका रूप से एकत्व है, घट शराबादि रूप से नानात्व है। वहाँ ब्रह्म के एकत्वाश कारण स्वरूप है, नानात्वाश कार्य स्वरूप उक्त दृष्टान्तों के समान है वहाँ एकत्वाश के सहित ब्रह्म के ज्ञान से मोक्षरूप व्यवहार सिद्ध होगा। और नानात्वाश से कर्म को आश्रयण करने वाले लौकिक वैदिक व्यवहार सिद्ध होंगे। इसी प्रकार मृदादि दृष्टान्त भी दार्ष्टान्तिक के अनुरूप (तुल्य) होगा। उत्तर है कि इस प्रकार नहीं हो सकता है, क्योंकि मृत्तिका ही सत्य है इस प्रकार प्रकृति मात्र की सत्यता का अवधारण (नियम) दृष्टान्त में किया गया है। और वाचारम्भण शब्द से विकार समूह की अनृतता (मिथ्यात्व) कही गई है। दार्ष्टान्तिक में भी (एतादात्मस्वरूप ही यह सब है। और जिस स्वरूप वाला सब है वह सत्य है) इस प्रकार एक परम कारण की ही सत्यता का अवधारण किया गया है। और (हे श्वेतकेतो! वह आत्मा है और तुम उस आत्म के स्वरूप हो) इस प्रकार जीव को ब्रह्मभाव का उपदेश दिया गया है। संसार और भेद सत्य हो तो यह उपदेश नहीं बन सकता है, और यह उपदिष्ट एकता कर्मादि साध्य नहीं है किन्तु यह जीव के स्वयं प्रसिद्ध ब्रह्मात्मत्व का उपदेश दिया जाता है, और इस स्वतः सिद्ध ब्रह्मात्म के उपदेश होने से ही यह शास्त्रीय (शास्त्रगम्य) ब्रह्मात्मा की एकता अवगत (अनुभूत) होने पर स्वाभाविक (प्राकृतिक) जीवात्मता का बाधक सिद्ध होता है। जैसे कि रज्जु आदि के ज्ञान रज्जु आदि में कल्पित सर्पादि ज्ञान के बाधक होते हैं, वैसे यहाँ बाधक सिद्ध होता है, और जीवात्मत्व के बाधित होने पर उसके आश्रित रहन वाला वह स्वाभाविक समस्त व्यवहार बाधित होता है, जिसकी सिद्धि के लिये ब्रह्म के एकत्व से अन्य नानात्वाश की कल्पना करनी पड़ती। जैसे (जिस काल में इस ज्ञानी का सब आत्मा ही हो गया उस काल में किससे किसको देखें) इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्मात्मा के ज्ञानी के प्रतिक्रिया कारक फल स्वरूप सब व्यवहारों का अभाव दिखलाया जाता है।

न चायं व्यवहाराभावोऽवस्थाविशेषनिबद्धोऽभिधीयत इति युक्तं वक्तुम् , 'तच्चवमसि' इति ब्रह्मात्मभावस्यानवस्थाविशेषनिबन्धनत्वात्। तस्करदृष्टान्तेन चानृताभिसन्धस्य बन्धनं सन्धाभिसन्धस्य च मोक्षं दर्शयन्नेकत्वमेवैकं पारमार्थिकं दर्शयति (छां० ६।१६) मिथ्याज्ञानविजृम्भितं च नानात्वम्। उभयसत्यतायां हि कथं व्यवहारगोचरोऽपि जन्तुरनृताभिसन्ध इत्युच्यते। 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' (बृ० ४।४।१६) इति च भेद-दृष्टिमपवदज्ञेतदेव दर्शयति। न चास्मिन्दर्शने ज्ञानान्मोक्ष इत्युपपद्यते, सम्यग्ज्ञानापनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेनानभ्युपगमात्। उभयसत्यतायां हि कथमेकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानमपनुद्यत इत्युच्यते।

यह व्यवहार का अभाव मोक्षादि अवस्थाविशेष सम्बन्धी कहा जाता है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, (वह ब्रह्म तू है) इस प्रकार उपदिष्ट ब्रह्मात्मभाव को जिससे

अवस्थाविशेष सम्बन्धित्व नही है, किन्तु नित्य सिद्ध ब्रह्मरूपता का उपदेश है, इससे भेदरूप संसार मिथ्या सिद्ध होता है। और चोर के दृष्टान्त से मिथ्याभाषी असत्यासक्त का बन्धन और सत्यभाषी सत्यासक्त का मोक्ष दिखलाता हुआ गुरु एक एकत्व को ही पारमार्थिक सत्य दिखलाता है, और मिथ्याज्ञान के कार्य विस्ताररूप नानात्व को दिख जाता है। यदि भेद और अभेद एक और नाना दोनों स्वरूप ब्रह्म में सत्यता हो तो नानात्व व्यवहार का गोचर ( आश्रय ) भी जन्तु ( प्राणी ) अनृतभाषी असत्य का प्रेमी कैसे कहा जा सकता है। और ( वह मृत्यु से मृत्यु को पाता है, जो इस ब्रह्मात्मा में नाना के समान देखता है ) इस प्रकार भेद का अपवाद ( निन्दानिषेध ) करता हुआ गुरु इस एक पारमार्थिक को ही दिखलाता है। इस भेदाभेद के सत्यता दर्शनपक्ष में ज्ञान से मोक्ष नही सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सम्यक् ज्ञान से विनाश के योग्य संसार के कारणरूप कोई मिथ्याज्ञान इस दर्शन में नही माना गया है। और एकत्व नानात्व दोनों की सत्यता दशा में एकत्व के ज्ञान से नानात्व ज्ञाननिवृत्त विनष्ट किया जाता है, यह कैसे कहा जा सकता है, और एकत्वमात्र के सत्य होने पर एकत्वज्ञान से नानात्व ज्ञान की निवृत्ति कही जा सकती है, क्योंकि वह मिथ्या है।

नन्वेकत्वैकान्ताभ्युपगमे नानात्वाभावात्प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहृन्त्येर्त्रिविषयत्वात्, स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि। तथा त्रिधिप्रतिषेधशास्त्रमपि भेदोपेक्षत्वात्तदभावे व्याहृन्त्येत। मोक्षशास्त्रस्यापि शिष्यशास्त्रादिभेदोपेक्षत्वात्तदभावे व्याघातः स्यात्। कथं चानृतेन मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्यात्मैकत्वस्य सत्यत्वमुपपद्येतेति। अत्रोच्यते। नैष दोषः सर्वव्यवहाराणामेव प्राग्ब्रह्मात्मताविज्ञादात्सत्यत्वोपपत्तेः स्वप्नव्यवहारस्येव प्राक्प्रबोधात्। यावद्धि न सत्यात्मैकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु विकारेष्वनृतत्वबुद्धिर्न कस्यचिदुत्पद्यते, विकारानेव त्वहं ममेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा, तस्मात्प्राग्ब्रह्मात्मताप्रतिबोधादुपपन्नः सर्वो लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः। यथा सुप्रस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्ने उच्चावचान्भावान् पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञानं भवति प्राक्प्रबोधात्, न च प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काले भवति, तद्वन्। कथं त्वसत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्तिरुपपद्येत, नहि रञ्जुसर्पेण दृष्टो भ्रियते, नापि मृगतृष्णिकाम्भसा पानावगाहनादिप्रयोजनं क्रियत इति। नैषः दोषः। शङ्काविषादिनिमित्तमरणादिकार्योपलब्धेः। स्वप्नदर्शनावस्थस्य च सर्पदर्शानोदकस्नानादिकार्यदर्शानात्। तत्कार्यमप्यनृतमेवेति चेद्ब्रूयात्। अत्र ब्रूमः। यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्य सर्पदर्शानोदकस्नानादिकार्यमनृतं तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलं, प्रतिबुद्धस्याप्यबाध्यमानत्वात्। नहि स्वप्नादुत्थितः स्वप्नदृष्टं सर्पदर्शानोदकस्नानादिकार्यं मिथ्येति मन्यमानस्तदवग-

तिमपि मिथ्येति मन्यते कश्चित् । एतेन स्वप्नदृशोऽवगत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्यः ।

यहाँ शंका होती है कि एकत्व का एकान्त ( नियत कैवल्य ) मानने पर, अर्थात् केवल एकत्व को ही मानने पर नानात्व ( भेद ) के अभाव से निर्विषयता के कारण प्रत्यक्षादि लौकिक भेद विषयक प्रमाण व्याहत ( अप्रमाण ) हो जायेगे, जैसे कि स्थाणु आदि में पुरुषादि के ज्ञान अप्रमाण होते हैं, वैसे ही प्रत्यक्षादि सब हो जायेगे, और इसी प्रकार भेद सापेक्ष होने से विधि प्रतिषेध रूप शास्त्र भी एकत्व एकान्त पक्ष में अप्रमाण होंगे । और शिष्य शासिता ( उपदेश पात्र गुरु ) आदि रूप भेद सापेक्ष होने से उस भेद के अभाव होने पर मोक्ष शास्त्र का भी व्याघात ( बाध ) होगा । यदि कल्पित शास्त्र गुरु शिष्यादि और कल्पित उनके भेदों को मानकर उन शास्त्रों को कल्पित प्रमाणाता को माना जाय तो भी अनृत ( कल्पित मिथ्या ) मोक्षशास्त्र से प्रतिपादित आत्मा की एकता को सत्यत्व कैसे सिद्ध होगा ? अप्रमाणजन्य ज्ञान के अप्रमाण होने से उसका विषय एकत्व भी मिथ्या ही सिद्ध होगा । और भेदाभेद दोनों को सत्य मानने से यह दोष नहीं प्राप्त होता है । यहाँ उत्तर कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि जागने से पहले स्वप्न के व्यवहार जैसे सत्य रहते, वैसे ही ब्रह्मात्मता के विज्ञान से पहले सब व्यवहारों को भी सत्यत्व की सिद्धि रहती है । क्योंकि जबतक सत्य एकात्मत्व का ज्ञान नहीं होता है, तबतक प्रमाण प्रमेय फलस्वरूप विकारों में किसी को मिथ्यात्व बुद्धि नहीं उत्पन्न होती है । किन्तु विकारों को ही अविद्या से सब प्राणी आत्मरूप से और आत्मसम्बन्धी रूप में भेदा इस प्रकार स्वाभाविक ब्रह्मता को त्याग कर समझता है । उससे ब्रह्मात्मता के ज्ञान से पहले लौकिक और वैदिक सब व्यवहार उपपन्न सिद्ध होता है, जैसे सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में अनेक प्रकार के पदार्थों को देखता हुआ साधारण मनुष्य को जागने से पहले प्रत्यक्षरूप से अभिमत ( स्वीकृत ) वह स्वप्न कालिक ज्ञान निश्चित ही होता है, उस स्वप्नकाल में उस ज्ञानविषयक प्रत्यक्षाभास ( असत्प्रत्यक्ष ) का अभिप्राय ( आशय-निश्चय ) उसको नहीं होता है, वैसे ही व्यवहार काल में आत्मैकत्व ज्ञान से पहले व्यावहारिक ज्ञान में असत्यता बुद्धि नहीं होती है । फिर शंका होती है कि व्यावहारिक प्रमाण से व्यवहार की सिद्धि होने पर भी असत्य वेदान्त वाक्य से सत्य ब्रह्मात्मत्व का ज्ञान कैसे सिद्ध होगा ? क्योंकि रज्जु में कल्पित सर्प से डसा हुआ नहीं मरता है, न भ्रमवृष्ट्या के जल से पान खानादि प्रयोजन किया जाता है, उत्तर है कि यह भी दोष नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वेदान्त वाक्य से जन्य वृत्तिरूप ज्ञान भी सत्य अविनाशी नहीं है । यदि मान भी लो, तो भी असत्य से भी सत्य उत्पन्न होता है, क्योंकि शंका भ्रम के विषय कल्पित विषादि निमित्त कारण से मरणादिरूप कार्य की उपलब्धि होती है इससे असत्य से सत्य नहीं उत्पन्न होता है यह नियम नहीं है । और स्वप्न का दर्शनरूप अवस्था वाला को भी मिथ्या सर्प और जल से सर्प दंशन और

उदक स्नानादि कार्यं देखा जाता है। इससे असत् से भी कार्य होता है। यदि कहा जाय कि वह कार्य भी असत्य ही होता है, असत्य से सत्य कार्य नहीं हो सकता, तो उसका उत्तर है कि यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्था वाले के सर्पदंश उदक स्नानादि कार्यं मिथ्या ( तात्कालिक प्रातिभासिक ) होते हैं, तथापि उनकी अवगति-अनुभूति उनकी अपेक्षा सत्य होती है, क्योंकि जागने पर भी वह अबाधित रहती है। इसीमे स्वप्न से उठा जाया हुआ कोई भी पुरुष स्वप्न मे देखे गये सर्पदंश उदक स्नानादि कार्यों को मिथ्या मानता हुआ भी उनकी अवगति ( ज्ञान ) को मिथ्या नहीं मानता है। इस स्वप्नद्रष्टा के ज्ञान के अबाध से देहमात्र आत्मवाद दूषित समझना चाहिये, क्योंकि यदि देहमात्र आत्मा हो तो स्वप्न का ज्ञान स्वप्नकालिक कल्पित देह का धर्म होगा। इससे जाग्रत देह को उस ज्ञान का अनुसंधान नहीं होगा। इसलिए सब व्यभिचारी देह मे जाग्रत स्वप्नकालिक आत्मा देहो से भिन्न एक है।

तथा च श्रुतिः—

यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति ।

समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने ॥ ( छां० ५।२।६ )

इत्यसत्येन स्वप्नदर्शनेन सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपत्तिं दर्शयति । तथा प्रत्यक्षदर्शनेषु केषुचिदरिष्टेषु जातेषु 'न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात्' इत्युक्त्वा 'अथ स्वप्नाः पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एन हन्ति' इत्यादिना तेनासत्येनैव स्वप्नदर्शनेन सत्यं मरणं सूच्यत इति दर्शयति । प्रसिद्धं चेदं लोकेऽन्वयव्यतिरेककुशलानामीदृशेन स्वप्नदर्शनेन साध्वागमं सूच्यते ईदृशेनासाध्वागमः इति । तथाऽकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिर्दृष्टा रेखानृताक्षरप्रतिपत्तेः । अपि चान्त्यमिदं प्रमाणमात्मैकत्वस्य प्रतिपादकं नातः परं किञ्चिदाकाङ्क्ष्यमस्ति । यथाहि लोके यजेतेत्युक्ते किं केन कथमित्याकाङ्क्ष्यते नैवं 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्माऽस्मि' इत्युक्ते किञ्चिदन्वयाकाङ्क्ष्यमस्ति, सर्वात्मैकत्वविषयत्वावगतेः । सति ह्यन्यस्मिन्नवशिष्यमाणेऽर्थे आकाङ्क्षा स्यात्, न त्वात्मैकत्वव्यतिरेकेणावशिष्यमाणोऽन्योऽर्थोऽस्ति य आकाङ्क्षयेत् । न चेयमवगतिर्नोत्पद्यत इति शक्यं वक्तुम्, 'तद्वास्य विजज्ञौ' ( छां० ६।१।६।३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । अवगतिसाधनानां च श्रवणादीनां वेदानुवचनादीनां च विधानात् । न चेयमवगतिरनर्थिका भ्रान्तिर्वेति शक्यं वक्तुम्, अविद्यानिवृत्तिफलदर्शनात्, बाधकज्ञानान्तराभावाच्च । प्राक्चात्मैकत्वावगतेरव्याहृतः सर्वः सत्यानृतव्यवहारो लौकिको वैदिकश्चेत्ययोचाम । तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते आत्मैकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्य बाधितत्वान्मानेकात्मकब्रह्मकल्पनावकाशोऽस्ति ।

असत्य से भी सत्य को उत्पत्ति होती है इस अर्थ को श्रुति कहती है कि ( सकाम कर्मों के अनुष्ठान काल मे यदि स्वप्न में स्त्री को देखता है, तो उस स्वप्न निदर्शन निमित्तक उस कर्म मे समृद्धि सफलता समझना चाहिये ) इस प्रकार असत्य स्वप्नदर्शन

से सत्य समृद्धि ( सम्पत्ति ) को दिखलाती है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानो मे किसी अरिष्ट ( मरण के चिह्न, अशुभ ) के उत्पन्न होने पर ( यह चिरकाल तक नहीं जीवित रहेगा इस प्रकार समझना चाहिये ) ऐसे कह कर ( इसके बाद स्वप्न कहे जाते है कि यदि स्वप्न मे काले दातो से युक्त काला पुरुष देखता है, तो वह इसकी हिंसा करता है ) इत्यादि वचनो द्वारा उस असत्य स्वप्नदर्शन से ही सत्य मरण सूचित होता है, यह श्रुति प्रदर्शित करती है और अन्वयव्यतिरेक के विचारादि मे कुशलो को इस लोक मे भी प्रसिद्ध है कि ऐसे स्वप्न के दर्शन से साधु ( सज्जन शुभ ) का आगमन प्राप्ति सूचित होता है, और ऐसे स्वप्न के दर्शन से असज्जन अशुभ का आगमन सूचित होता है। इसी प्रकार रेखा ( लिपि लेख ) रूप मिथ्या अक्षर के ज्ञान से अकारादि सत्य अक्षर का ज्ञान देखा जाता है। दूसरी बात यह है कि आत्मा की एकता का प्रतिपादक यह वेदान्तरूप प्रमाण अन्तिम है, इस को नानात्वाश से कोई जरूरत नहीं है, अतः इसके बाद कुछ भी आकाङ्क्षणीय नहीं रहता है। जैसे कि लोक मे 'यज्ञ से इष्ट को प्राप्त करे' इस प्रकार कहने पर किस इष्ट फल को प्राप्त करे, किस साधन से प्राप्त करे, किस प्रकार प्राप्त करे इस प्रकार की आकाङ्क्षा की जाती है। इसी प्रकार ( वह तू है, मैं ब्रह्म हूँ ) इस उपदेश को अधिकारी के प्रति कहने से कुछ भी आकाङ्क्षणीय नहीं रहता है, क्योंकि सर्वात्मा के एकत्व विषयत्व इस अवगति ( ज्ञान ) को है। अन्य अर्थ के अवशेष रहने पर कोई आकाङ्क्षा हो सकती थी, परन्तु आत्म एकत्व से भिन्न अवशिष्ट अन्य अर्थ है नहीं कि जो आकाङ्क्षित हो सके। यदि कही कि प्रत्यक्षादि के विरोध से यह ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, तो यह नहीं कह सकते हो, क्योंकि ( उस आत्मतत्त्व को पिता के वाक्य से श्वेतकेतु ने जाना ) इत्यादि श्रुतियो से ज्ञान की उत्पत्ति कही गई है। और ज्ञान के साधन श्रवणादि का तथा वेदानुबचनादि का विधान किया गया है, इससे ज्ञान के साधन सामग्री के रहने पर ज्ञान अवश्य उत्पन्न होता है, अनधिकारी को ज्ञान नहीं होता है, उससे उसको आकाङ्क्षा भले ही हो सकती है कि मैं कैसे ब्रह्म हूँ इत्यादि। एवं यह अवगति सर्वान्त मे होने से अनर्थक है वा भ्रान्ति स्वरूप है यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति समकालिक अविद्या की निवृत्तिरूप फल देखा जाता है, इससे सार्थक है और बाधकान्तर के अदर्शन से भ्रम नहीं है। इस आत्मएकत्व के ज्ञान से पूर्वकाल मे सब सत्य और मिथ्या के लौकिक और वैदिक व्यवहार अव्याहृत ( अबाधित ) रहते हैं, यह पहिले कह चुके हैं, इसलिए अन्तिम प्रमाण से आत्मा की एकता के प्रतिपादित होने पर समस्त पूर्वकालिक भेदव्यवहार के बाधित होने से अनेकात्मक ब्रह्म की कल्पना का अवकाश ( अवसर ) नहीं है।

ननु मृदादिदृष्टान्तप्रणयनात्परिणामद्ब्रह्म शास्त्रस्याभिमतमिति गम्यते परिणामिनो हि मृदाद्योऽर्था लोके समधिगता इति। नेत्युच्यते, 'स वा एष

महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म' ( बृ० ४।४।२५ ) 'स एष नेति नेत्यात्मा' ( बृ० ३।६।२६ ), 'अस्थूलमनणु' ( बृ० ३।८।८ ) इत्याद्याभ्यः सर्व-विक्रियाप्रतिषेधश्रुतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात् । नह्येकस्य ब्रह्मणः परिणामधर्मत्वं तद्रहितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तुम् । स्थितिगतित्वत्स्यादिति चेत् । न । कूटस्थस्येति विशेषणात् । नहि नहि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिगतित्वदनेकधर्माश्रयत्वं सम्भवति । कूटस्थं च ( नित्यं ) ब्रह्म सर्वविक्रियाप्रतिषेधादित्यवोचाम । नच यथा ब्रह्मण आत्मैकत्वदर्शनं मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणामित्वदर्शनमपि स्वतन्त्रमेव कस्मैचित्फलायाभिप्रेयेत, प्रमाणाभावात् कूटस्थब्रह्मात्मत्वविज्ञानादेव हि फलं दर्शयति शास्त्रम्—'स एष नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्य 'अभयं वै जनक प्राप्नोऽसि' ( बृ० ४।२।४ ) इत्येवंजातीयकम् ।

यहाँ शका होती है कि मृत्तिकादि दृष्टान्त की रचना से परिणाम वाला ब्रह्म शास्त्र का अभिमत है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि परिणामी ही मृत्तिका आदि पदार्थ लोक में समन्वित ( उपलब्ध ) होते हैं । उत्तर है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं ( वह यह आत्मा महान् अजन्मा जरा मरणरहित नित्यमुक्त अभय ब्रह्म है । आत्मा बाह्य किसी दृश्य रूप नहीं है, स्थूल नहीं है, अणु नहीं है इत्यादि सब विकारो के निषेध रूप श्रुतियों से ब्रह्म को कूटस्थ नित्यत्व अवगत होता है । एव एक ही ब्रह्म को परिणाम रूप धर्म वाला और उससे रहित कूटस्थ स्वरूप नहीं समझ सकते हैं । शका होती है कि जैसे एक ही मनुष्यादि में काल भेद से स्थिति और गति होती है, वैसे ही ब्रह्म में काल भेद से परिणाम और कूटस्थता दोनों हो सकते हैं । उसका समाधान है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म का कूटस्थ नित्य विशेषण है, विशेषण के अभाव दशा में विशेषणाभावनिमित्तक विशिष्टाभाव हो जायगा । अर्थात् अभि का उष्ण विशेष स्वरूप के समान ब्रह्म का नित्य कूटस्थ स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है, इससे कूटस्थ ब्रह्म को स्थिति गति के समान अनेक धर्म के आश्रयत्व का सम्भव नहीं है । सब विकार का श्रुति में निषेध से नित्य शाश्वत कूटस्थ ब्रह्म है, यह पहिले कहा जा चुका है । एव जैसे ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता का ज्ञान मोक्ष का साधन है । इस प्रकार जगत् रूप से ब्रह्म के परिणामित्व का ज्ञान भी किसी फल के लिए स्वतन्त्र ही नहीं अभिप्रेत होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है । जिससे कूटस्थ ब्रह्मरूपता के विज्ञान से ही शास्त्र फल दिखलाता है कि ( नेति नेति जो कहा गया वह यह आत्मा है ) इस प्रकार आरम्भ करके कहा है कि ( हे जनक निश्चित अभय को प्राप्त हुए हो ) इस प्रकार के शास्त्र हैं ।

तत्रैतत्सिद्धं भवति—ब्रह्मप्रकरणे सर्वधर्मविशेषरहितब्रह्मदर्शनादेव फल-सिद्धौ सत्यां यत्तत्राफलं श्रूयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि तद्ब्रह्मदर्शनोपायत्वेनैव विनियुज्यते, फलवत्संनिधावफलं तदङ्गमितिवत्, न तु स्वतन्त्रं

फलाय कल्प्यत इति । नहि परिणामवस्त्वविज्ञानात्परिणामवस्त्वभात्मनः फलं स्यादिति वक्तुं युक्तं, कूटस्थनित्यत्वान्मोक्षस्य । ननु कूटस्थब्रह्मात्मवादिन एकत्वैकान्त्यादीश्रीशिशितव्याभावे ईश्वरकारणप्रतिज्ञाविरोध इति चेत् । न । अविद्यात्मकनामरूपबीजव्याकरणापेक्षत्वात्सर्वज्ञत्वस्य 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' ( तै० २।१ ) इत्यादिवाक्येभ्यो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपात्सर्वज्ञात्सर्वशक्तेरीश्वराज्जगज्जनिस्थितिप्रलयाः, नाचेतनात्प्रधानादन्यस्माद्वैत्येषोऽर्थः प्रतिज्ञातः 'जन्माद्यस्य यत्.' ( ब्र० सू० १।१।४ ) इति । सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव न तद्विरुद्धोऽर्थः पुनरिहोच्यते ।

शास्त्र मे यह सिद्ध होता है कि सब धर्म और विशेष रहित ब्रह्म के दर्शन से फल की सिद्धि होने पर भी जो उस ब्रह्म के प्रकरण मे फलरहित ब्रह्म के जगत् रूप से परिणामादि सुने जाते हैं, वह ब्रह्मज्ञान के उपाय रूप से ही विनियुक्त (सम्बद्ध सफल) होते हैं, जैसे कि फलवान् याग के समीप मे फलरहित प्रयाजादि सफल के अंग होते हैं, उन्ही के समान यहाँ भी समझना चाहिए । इससे ब्रह्म के परिणामादि वा उसका ज्ञान स्वतन्त्र फल के लिए नहीं समर्थ होता है, जिससे ब्रह्म के परिणामवत्ता के विज्ञान से आत्मा की परिणामवत्तारूप फल की प्राप्ति होगी, यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि मोक्ष को कूटस्थ नित्यता है, यह ( ब्रह्मविदाप्नोति परम् ) इत्यादि से सिद्ध होता है । यहाँ शका होती है कि कूटस्थ ब्रह्मात्मवादी के मत मे एकत्व के नित्य होने से ईशिता ( नियन्ता ) और ईशितव्य ( नियम्य ) के अभाव होने पर ईश्वररूप कारण की जो प्रथम प्रतिज्ञा की गई है, उससे विरोध होता है । यदि ऐसी शका हो तो कहा जाता है कि विरोध नहीं है, क्योंकि अविद्यारूप माया शक्ति स्वरूप, चिदात्मा मे लीन, नामरूपात्मक बीज के व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) सृष्टि की अपेक्षा से कल्पित ईश्वरत्व सर्वज्ञत्वादि हैं, और स्वरूप नित्य एकत्वादि हैं । ( उस इस मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थ से प्रतिपाद्य आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ) इत्यादि से सिद्ध होता है कि नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वरूप वाला सर्वज्ञ सर्वशक्तियुक्त ईश्वर से जगत् के जन्मस्थिति और प्रलय होते हैं । अचेतन प्रधान वा अन्य से जगत् के जन्मादि नहीं होते हैं, यह अर्थ ( जन्माद्यस्यत. ) इस सूत्र से प्रतिज्ञात हुआ है ( निश्चित प्रतिज्ञा का विषय हुआ है ), वह प्रतिज्ञा उसी अवस्था वाली वैसी ही है । फिर यहाँ उससे विरुद्ध अर्थ नहीं कहा जाता है ।

कथं नोच्यतेऽत्यन्तमात्मन एकत्वमद्वितीयत्वं च ब्रुवता ? शृणु यथा नोच्यते—सर्वज्ञस्येश्वरस्यात्मभूत इवाविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये संसारप्रपञ्चबीजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्मृत्योरभिलष्येते, ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ ईश्वरः 'आकाशो वै नाम नामरूप-



योर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म' ( छां० ८।१।१ ) इति श्रुतेः । 'नामरूपे व्याकरवाणि' ( छां० ६।३।२ ), 'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्त्यदास्ते' ( तै० आ० ३।१।२७ ), 'एकं बीजं बहुधा य. करोति' ( श्वे० ६।१२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । एवमविद्याकृतनामरूपोपाध्यनुरोधीश्वरो भवति, व्योमेव घटकरकाद्युपाध्यनुरोधि । स च स्वात्मभूतानेव घटाकाशस्थानीयानविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकार्यकरणसंघातानुरोधिनो जीवाख्यान्विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमेवेश्वरस्येश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च न परमार्थतो विद्ययापास्तसर्वोपाधिस्वरूपे आत्मनीशित्रीशितव्यसर्वज्ञत्वादिव्यवहार उपपद्यते । तथाचोक्तम्—'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' ( छां० ७।२।४।१ ) इति, 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत्' ( बृ० ४।५।१५ ) इत्यादि च । एवं परमार्थावस्थाया सर्वव्यवहाराभावं वदन्ति वेदान्ताः सर्वे ।

शका होती है कि आत्मा के अत्यन्त एकत्व और अद्वितीयत्व ( द्वैत भेद रहितत्व ) को यहाँ कहते हुए पूर्व प्रतिज्ञा से विरोध को कैसे नहीं कहते हो ? उत्तर है कि जिस प्रकार विरुद्ध नहीं कहा जा रहा है वह सुनो —सर्वज्ञ ईश्वर के आत्मस्वरूप के समान अविद्या से कल्पित ( सिद्ध ) सत्यासत्यरूप से अनिवचनीय संसार विस्तार के बीजस्वरूप नाम और रूप ही सर्वज्ञ ईश्वर की मायारूप शक्ति और प्रकृति इस शब्द से श्रुति और स्मृति में कहे जाते हैं, उन नाम और रूप दोनों से अन्य सर्वज्ञ ईश्वर है, क्योंकि ( आकाश परमात्मा नाम और रूप का निर्वाह पालनादि करने वाला है, वे नाम रूप जिसके अन्दर हैं, वह ब्रह्म परमात्मा है । ( नाम रूप की अभिव्यक्ति-विभाग कहें ) यह जो परमात्मा सब रूपों को रचकर और नामकरण करके बुद्ध आदि उपाधिवाला होकर नामों का कथन करता हुआ वर्तमान है । एक मायारूप बीज को जो बहुत प्रकार से करता है ) इत्यादि श्रुतियों से ईश्वर को नाम रूप से अन्यत्व सिद्ध होता है । इस प्रकार अविद्याकृत नाम रूप के अनुरोधी ( अनुसारी ) ईश्वर होता है, जैसे घट कमण्डलु आदि उपाधि के अनुरोधी आकाश होता है । और वह ईश्वर घटाकाशतुल्य, अविद्याजन्य नामरूपकृत कार्यकरण ( शरीरेन्द्रिय ) के अनुरोधी स्वात्मरूप ही जीवनामक विज्ञानात्माओं के प्रति व्यवहार के विषय में अनुशासन करता है, जिससे इस प्रकार अविद्यात्मक उपाधिकृत परिच्छेद ( मिथ्याभेद ) की अपेक्षाजन्य ही ईश्वर का ईश्वरत्व है और सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व भी भेद सापेक्ष हैं, एवं विद्या से विनष्ट सर्वोपाधि वाला स्वरूपयुक्त आत्मा में परमार्थ स्वरूप से ईशिता ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार नहीं सिद्ध होते हैं । उसी प्रकार परमार्थरूप द्वैत के अभाव को श्रुति में कहा है कि ( जिस स्वरूप में न अन्य को देखता है, न सुनता है, न जानता है वह ब्रह्म है । ) और ( जिस काल वा अवस्था में इस ज्ञानी का सब

आत्मा ही हो गया, उस काल में किसको देखे ) इत्यादि । इस प्रकार परमार्थ अवस्था में सब वेदान्त सब व्यवहार के अभाव को कहते हैं ।

तथैश्वरीगीतास्वपि—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

आनेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ ( गी० ५।१४-१५ )

इति परमार्थावस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवहाराभावः प्रदर्शयते । व्यवहारावस्थायां तूक्तः श्रुतावपीश्वरादिव्यवहारः 'एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय' ( बृ० ४।४।२२ ) इति । तथाचैश्वरीगीतास्वपि—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ( गी० १८।६१ ) इति ।

सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह । व्यवहाराभिप्रायेण तु स्याल्लोकवदिति महासमुद्रस्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति । अप्रत्याख्यायैव कार्यप्रपञ्चं परिणामप्रक्रियां चाश्रयति सगुणेषूपसनेषूपयोक्षयत इति ॥ १४ ॥

इस प्रकार भगवद्गीता में भी परमार्थ अवस्था में ईशिता ईशितव्य आदि व्यवहारों के अभाव का प्रदर्शन कराया गया है कि ( लोक के कर्तृत्व को और कर्तृत्वाधीन लोक के साध्य कर्मों को और कर्माधीन कर्म फल के सयोग को परमात्मा नहीं रचता है किन्तु अविद्या माया रूप स्वभाव करता कराता हुआ प्रवृत्त होता है । परमात्मा किसी भक्त के पाप का भी ग्रहण ( नाश ) नहीं करता है, न समर्पित पुण्य का स्वीकार करता है, किन्तु अज्ञान से ज्ञान के आवृत रहने के कारण जीव मोहित होते हैं कि परमात्मा सब कर्ता है, इत्यादि । व्यवहार अवस्था में श्रुति में भी ईश्वरादि का व्यवहार कहा है कि ( यह परमात्मा सब का ईश्वर नियन्ता है, यह प्राणियों का अधिष्ठाता है, यह प्राणियों का पालनकर्ता है, और यह लोको का असंभेद विवेक पृथक्ता के लिए विधरण कर्ता सेतु है ) । इसी प्रकार भगवद्गीता में भी है कि ( हे अर्जुन देहाभिमान से देहरूप यन्त्र पर आरूढ सब प्राणी को अपनी माया से भ्रमण कराते हुए ईश्वर सब प्राणी के हृदय देश में अन्तर्यामी रूप से स्थिर रहते हैं ) और सूत्रकार भी परमार्थ के अभिप्राय से ( तदनन्यत्वम् ) कार्य को कारण से अभेद है इस प्रकार कहते हैं, और व्यवहार के अभिप्राय से तो ( स्याल्लोकवत् ) लोक के समान विभाग होगा । इस प्रकार महासमुद्र के तुल्य ब्रह्म को कहते हैं, और सगुण उपासनाओं में उपयोग होगा इस दृष्टि से कार्यप्रपञ्च का प्रत्याख्यान ( निषेध ) नहीं करके और परिणाम की प्रक्रिया का आश्रयण करते हैं ॥ १४ ॥

## भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥

इतश्च कारणादनन्यत्वं कार्यस्य, यत्कारणं भाव एव कारणस्य कार्यमुपलभ्यते, नाभावे । तद्यथा सत्यां मृदि घट उपलभ्यते सत्सु च तन्तुपु पट उपलभ्यते । नच नियमेनान्यभावेऽन्यस्योपलब्धिर्दृष्टा, नह्यश्चो गोरन्यः सन् गोर्भाव एवोपलभ्यते । नच कुलालभाव एव घट उपलभ्यते, सत्यपि निमित्त-नैमित्तिकभावेऽन्यत्वात् । नन्वन्यस्य भावेऽप्यन्यस्योपलब्धिनियता दृश्यते, यथाग्निभावे एव धूमस्येति । नेत्युच्यते । उद्वापितेऽप्यग्नौ गोपालघुटिकादिधारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वान् । अथ धूमं कयाचिदवस्थया विशिष्यादीदृशो धूमो नामत्यग्नौ भवतीति । नैवमपि कश्चिद्दोषः, तद्भावानुरक्तां हि बुद्धि कार्य-कारणयोरनन्यत्वे हेतुं वयं वदामः । न चासावग्निधूमयोर्विद्यते । भावाच्चोपलब्धेरिति वा मूढम् । न केवलं शब्दादेव कार्यकारणयोरनन्यत्वं प्रत्यक्षोपलब्धिभावाच्च तयोरनन्यत्वमित्यर्थः । भवति हि प्रत्यक्षोपलब्धिः कार्यकारणयोरनन्यत्वे । तद्यथा—तन्तुसस्थाने पटे तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्यं नैवोपलभ्यते केवन्नास्तु तन्तव आनानवितानवन्तः प्रत्यक्षमुपलभ्यन्ते, तथा तन्तुष्वंशवोऽशुपु तदवयवा ! अनया प्रत्यक्षोपलब्ध्या लोहितशुक्लकृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो वायुमात्रमाकाशमात्रं चेत्यनुमेयम् ( छां० ६।४ ), ततः परं ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं, तत्र सर्वप्रमाणानां निष्ठामवोचाम ॥ १५ ॥

इस वक्ष्यमाण कारण हेतु से भी कार्य को कारण से अनन्यत्व ( अभेद ) है कि जिस कारण से भाव ( सत्ता ) रहने का कार्य उपलब्ध होता है कारण के अभाव रहते कार्य नहीं उपलब्ध होता है, जैसे मृत्तिका के रहते ही घट उपलब्ध होता है, तन्तुओं के रहते पट उपलब्ध होता है । अन्य पदार्थ की सत्ता रहते ही नियम से उससे अन्य की उपलब्धि नहीं देखी गई है, गौ से अन्य होता हुआ अश्व गौ के रहते ही नियम से नहीं उपलब्ध होता है । और निमित्त नैमित्तिक भाव के रहते भी अन्यत्व से कुलाल के भाव रहते ही घट नहीं उपलब्ध होता है । यद्यपि सूत्र का भावार्थ है कि उपादान कारण की उपलब्धि ( ज्ञान ) के रहते ही उपादेय कार्य की उपलब्धि होती है, इससे अनन्यता है और ऐसा नियम घूमाम्नि मे नहीं है पर्वतादि मे अग्नि के ज्ञान बिना भी धूम का ज्ञान होता है, तथापि सूत्राक्षर के अनुसार शंका होती है कि अन्य के भाव रहते हुए भी अन्य की नियतोपलब्धि देखी जाती है, जैसे कि अग्नि की सत्ता रहते हुए ही धूम की उपलब्धि होती है । उत्तर है कि अग्नि के रहते ही धूम उपलब्ध होता है यह नियम नहीं है, क्योंकि अग्नि के उद्वापित ( शान्त-निवृत्त ) होने पर भी गोपाल की घुटिका ( छुठना ) आदि द्वारा गृहीत धूम देखा जाता है, अर्थात् किसी पात्र मे धूम को भर कर और उसके मुख को घुटिका आदि से दबा कर रखने से अग्नि के बुझ जाने पर भी वह धूम उपलब्ध होता है । यदि

धूम को किसी अविच्छिन्न मूलरेखा आदि रूप अवस्थात्मक विशेषण युक्त कहे कि ऐसा धूम अग्नि के रहते ही उपलब्ध होता है तो ऐसा विशेषण देने पर भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि तद्भाव ( कारण-भाव-कारणरूपता ) से अनुरक्त ( मिश्रित ) कार्य की बुद्धि को हम कार्यकारण की अनन्यता में हेतु कहते हैं। ऐसी बुद्धि मृदुघटः ( मृत्तिकात्मक घट है ) इत्यादि होती है, अग्निर्धूमः ( अग्निस्वरूप धूम है ) इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, इससे हेतु में व्यभिचार दोष नहीं है, क्योंकि अग्नि धूम में वह बुद्धि नहीं है। अथवा ( भावाच्चोपलब्धे ) ऐसा सूत्र है, अर्थ है कि केवल शब्द ( श्रुति ) से ही कार्य कारण का अभेद नहीं है, किन्तु प्रत्यक्ष उपलब्धि के भाव ( सत्ता ) से भी कार्य कारण का अभेद है, जिससे कार्यकारण का अभेदविषयक प्रत्यक्षज्ञान होता है। जैसे तन्तुओं के सस्थान ( आकार सन्निवेश ) रचना विशेषरूप पट में तन्तु के बिना तन्तु से भिन्न पट नामक कार्य नहीं उपलब्ध होता है किन्तु आतान वितान ( दीर्घता विस्तार ) तानी भरनी वाले केवल तन्तु ही प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार तन्तुओं में अंशु ( सूक्ष्मांश ) और अंशुओं में भी उनके अवयव उपलब्ध होते हैं। इस प्रत्यक्ष उपलब्धि से तत्तत्कार्य में कारण मात्र को जान कर फिर श्रुति के अनुसार अनुमान से लोहित शुक्र और कृष्ण इन तीन रूप को जान कर उनसे आगे वायुमात्र और आकाशमात्र क्रम से अनुमेय हैं, इससे पर एक ही अद्वितीय परब्रह्म शेष रहता है, उसी में सब प्रमाणों की निष्ठा को सब वेदान्त के तात्पर्य को कह चुके हैं ॥ १५ ॥

### सत्त्वाच्चावरस्य ॥ १६ ॥

इतश्च कारणात्कार्यस्यानन्यत्वं यत्कारणं प्रागुत्पत्तेः कारणात्मनैव कारणे सत्त्वमवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूयते । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' ( छां० ६।२।१ ), 'आत्मा वा इदमेक एवमग्र आसीत्' ( ऐ० आ० २।४।१।१ ) इत्यादौ विदंशब्द-गृहीतस्य कार्यस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात् । यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते न तत्तत् उत्पद्यते, यथा सिकताभ्यस्तैलम्, तस्मात्प्रागुत्पत्तेरनन्यत्वादुत्पन्न-मप्यनन्यदेव कारणात्कार्यमित्यवगम्यते । यथाच कारणं ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरत्येवं कार्यमपि जगत्त्रिषु सत्त्वं न व्यभिचरति । एकं च पुनः सत्त्वमतोऽप्यनन्यत्वं कारणात्कार्यस्य ॥ १६ ॥

इस वक्ष्यमाण कारण से भी कार्य का कारण से अभेद है कि जिस कारण से उत्पत्ति से पूर्वकाल में कारण स्वरूप से हो अवरकालीन ( पाश्चात्कालिक ) कार्य का सत्त्व सुना जाता है कि ( हे सोम्य ! यह जगत् उत्पत्ति से पहिले सत्त्वरूप ही था । यह जगत् पूर्वकाल में एक आत्मस्वरूप ही था ) इत्यादि श्रुतियों में इद शब्द से गृहीत कार्य को कारण के साथ सामानाधिकरण्य ( अभेदता ) से कारणरूप से सत्त्व सुना जाता है, और सत्त्व की सिद्धि होती है, क्योंकि जो जिस रूप से जहाँ नहीं है, वह उससे उत्पन्न भी नहीं होता है। जैसे कि सिकता से तेल नहीं होता है। जिससे उत्पत्ति

से पूर्वकाल मे कार्य को कारण से अभिन्न होने से उत्पन्न भी कार्य कारण से अभिन्न ही रहता है, ऐसा निश्चय होता है। एव जैसे कारणरूप ब्रह्म तीनों काल मे सत्ता से व्यभिचरित नहीं होता है, इसी प्रकार कार्यरूप जगत भी तीनों काल मे सत्ता से व्यभिचरित ( रहित ) नहीं होता है। वह सत्त्व एक है, इससे भी कार्य को कारण से अभेद है, अर्थात् एक मूल कारण की ही सर्वत्र सत्ता है, उस रूप से सत्य है, अन्य स्वरूप से असत् है इत्यादि ॥ १६ ॥

### असन्नपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात् ॥ १७ ॥

ननु क्वचिदसत्त्वमपि प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति श्रुतिः—‘असदेवेदमग्र आसीत्’ ( छां० ३।१६।१ ) इति, ‘असद्वा इदमग्र आसीत्’ ( तै० २।७।१ ) इति च । तस्मादसद्व्यपदेशान्न प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमिति चेत् । नेति ब्रम् । न ह्ययमत्यन्तासत्त्वाभिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्यासद्व्यपदेशः, किं तर्हि ? व्याकृतनामरूपत्वाद्धर्मादव्याकृतनामरूपत्वं धर्मान्तरं तेन धर्मान्तरेणायमसद्व्यपदेशः प्रागुत्पत्तेः रात एव कार्यस्य कारणरूपेणानन्यस्य । कथमेतदवगम्यते ? वाक्यशेषात्, यदुपक्रमे संदिग्धार्थं वाक्यं तच्छेषान्निश्चीयते । इह च तावत् ‘असदेवेदमग्र आसीत्’ इत्यसच्छब्देनोपक्रमे निर्दिष्टं यत्तदेव पुनस्तच्छब्देन परामृश्य सदिति विशिनष्टि ‘तत्सदासीत्’ इति । असत्तश्च पूर्वापरकालासम्बन्धादासीच्छब्दानुपपत्तेश्च । ‘असद्वा इदमग्र आसीत्’ इत्यापि ‘तदात्मानं स्वयमकुरुत’ इति वाक्यशेषे विशेषणान्नात्यन्तासत्त्वम् । तस्माद्धर्मान्तरेणैवायमसद्व्यपदेशः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य । नामरूपव्याकृत हि वस्तु सच्छब्दाद्द्वै लोके प्रसिद्धम् । अतः प्राङ्नामरूपव्याकरणादसदिवासीदित्युपचर्यते ॥ १७ ॥

पूर्वोक्तार्थं मे शका होती है कि कही उत्पत्ति से पूर्वकाल मे कार्य की असत्ता को भी श्रुति कहती है कि ( यह जगत उत्पत्ति से पूर्वकाल मे असत् ही था । निश्चित असद् रूप यह पहिले था ) इत्यादि । उस श्रुति के असत् कथन से सिद्ध होता है कि उत्पत्ति से पहिले कार्य का सत्त्व नहीं था, ऐसी यदि शका हो तो कहते हैं कि उक्त श्रुति से असत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि उस श्रुति मे उत्पत्ति से पहिले कार्य का असत्त्व कथन कार्य की अत्यन्त असत्ता के अभिप्राय से नहीं है । तो किस अभिप्राय से है ? इसका समाधान है कि व्याकृत (व्यक्तकृत) नाम रूपत्वात्मक धर्म से अव्याकृत नाम रूपत्व धर्मान्तर ( अन्य धर्म ) है, उस धर्मान्तर की दृष्टि से कारणरूप से सत्य ही और कारण से अभिन्न ही कार्य को उत्पत्ति से पहिले असत् कहा गया है । यदि कही कि यह अभिप्राय कैसे समझा जाता है । तो कहते हैं कि वाक्यशेष से क्योंकि जो वाक्य उपक्रम मे ( आरम्भ मे ) सन्दिग्ध अर्थ वाला रहता है, वह उसके शेष ( अङ्ग ) रूप वाक्य से निश्चितार्थक होता है । और यहाँ पहिले ( यह उत्पत्ति से पूर्व काल मे असत् ही था ) इस प्रकार आरम्भ मे जो असत् शब्द से निर्दिष्ट-कथित

है उसी का फिर तत् शब्द से परामर्श ( सम्बन्धस्मरण ) करके ( वह सत् था ) तत्सदासीत् इस प्रकार उस असत् का सत् विशेषण श्रुति कहती है, इससे असत् का उक्त अभिप्राय समझा जाता है। एव असत् स्वरूप रहित को पूर्वापर काल के साथ असम्बन्ध होने से असत् था इस शब्द की भी असिद्धि से उक्त तात्पर्य समझा जाता है। ( निश्चित असत् रूप यह पहिले था ) यहाँ भी ( उस परमात्मा ने स्वयं अपने को जगत् रूप से किया ) इस वाक्य शेष में अपने आत्मा को जगत् रूप कृतता विशेषण में असत् शब्द का अत्यन्त असत्यता अर्थ नहीं है। इससे यह असत् का व्यपदेश धर्मान्तर ( अव्यक्तता ) की दृष्टि से ही है कि उत्पत्ति से पहिले कार्य असत् था। क्योंकि नाम रूप से व्याकृत ( व्यक्त ) ही वस्तु लोक में सत् शब्द के योग्य प्रसिद्ध है, इससे नाम रूप के व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) से पूर्व असत् के समान जगत् था इस प्रकार उपचार ( गौण व्यवहार ) किया जाता है ॥ १७ ॥

### युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥

युक्तेश्च प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमनन्यत्व च कारणादवगम्यते, शब्दान्तराच्च । युक्तिस्तावद्वर्ण्यते—दधिघटरुचकार्थिभि प्रतिनियतानि कारणानि क्षीरमृत्तिकासुवर्णादीन्युपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते । नहि दध्यर्थिभिर्मृत्तिकोपादीयते न घटार्थिभिः क्षीरं नदसत्कार्यवादे नोपपद्यते ॥अविशिष्टे हि प्रागुत्पत्तेः सर्वत्र सर्वस्यासत्त्वे कस्मात्क्षीरादेव दध्युत्पद्यते न मृत्तिकायाः, मृत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते न क्षीरात् । अथाविशिष्टेऽपि प्रागसत्त्वे क्षीरे एव दध्नः कश्चिदतिशयो न मृत्तिकायां, मृत्तिकायामेव च घटस्य कश्चिदतिशयो न क्षीर इत्युच्येत, तर्ह्यतिशयवत्त्वात्प्रागवस्थाया असत्कार्यवादहानिः सत्कार्यवादसिद्धिश्च । शक्तिश्च कारणस्य कार्यनियमार्था कल्प्यमाना नान्याऽसती वा कार्य नियच्छेत्, असत्त्वाविशेषादन्यत्वाविशेषाच्च । तस्मात्कारणस्यात्मभूता शक्तिः शक्तेश्चात्मभूतं कार्यम् । अपि च कार्यकारणयोर्द्रव्यगुणादीनां चाश्वमहिषवज्रेदबुद्ध्यभावात्तादात्म्यमभ्युपगन्तव्यम् ।

युक्ति से भी उत्पत्ति से पूर्वकाल में कार्य का सत्त्व और कारण से अनन्यत्व ( अभेद ) समझा जाता है, ऐसे ही शब्दान्तर ( अन्य श्रुतियों ) से पता चलता है। वहाँ पहिले युक्ति का वर्णन किया जाता है कि दधि, घट, रुचक आदि की इच्छा वालों से दूध मृत्तिका सुवर्णादिरूप प्रतिनियत कारणों का ग्रहण लोक में किया जाता है, इससे कार्यार्थियों द्वारा नियत ही कारण उपादीयमान ( गृहीत ) देखे जाते हैं। दधि की इच्छा वालों से दधि के लिए मृत्तिका नहीं गृहीत होती है, घट की इच्छा वाले दूध का ग्रहण नहीं करते हैं। यह नियम असत्कार्यवाद में नहीं सिद्ध होगा। और उत्पत्ति से पूर्व सब कार्य का सर्वत्र असत्त्व के अविशिष्य ( तल्य ) रहते, दूध से ही क्यों दधि उत्पन्न होता है, मृत्तिका से क्यों नहीं? और मृत्तिका से ही क्यों

घट उत्पन्न होता है, दूध से घट क्यों नहीं उत्पन्न होता है। यदि कार्यासिद्धादी कहे कि उत्पत्ति से पहिले कार्य की असत्ता के सर्वत्र तुल्य रहते हुए भी दूध में ही दधि का कोई अतिशय शक्ति विशेष रहता है, मृत्तिका में दधि का अतिशय नहीं रहता है। और और मृत्तिका में ही घट का कोई अतिशय रहता है, दूध में घट का अतिशय नहीं रहता है। वहाँ कहा जाता है कि यदि वह अतिशय का धर्म है, तो उत्पत्ति से कार्य की पूर्वास्था को अतिशयरूप धर्मवाली होने से असत्कार्यवाद की हानि होगी, और सत्कार्यवाद की सिद्धि होगी। क्योंकि धर्मों के बिना पहिले धर्म रह नहीं सकता है। एवं यदि उस अतिशय को कारण का धर्म मानो, तो कारण को कार्य नियमार्थक कल्पित शक्ति भी कार्य कारण से अन्य वा असत् होने पर असत्त्व अन्यत्व के तुल्य होने से कार्य का नियम नहीं करेगा, अर्थात् दधि की शक्ति दूध में है, और दूध से अन्य है, तो दूध से अन्य घट पटादि के समान दधि का नियामक नहीं होगी, और यदि असत् है तो नृ-वृद्धादि के समान नियामक नहीं होगी। इससे कारण की आत्मस्वरूप शक्ति है, और शक्ति का आत्मस्वरूप कार्य है। अर्थात् कारणरूप से लौन कार्य ही अभिव्यक्ति का नियामक शक्ति है, जिससे सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। और दूसरी बात है कि कार्य और कारण में, तथा द्रव्य और गुणादि में अश्व और महिष के समान इनके भेद की बुद्धि के अभाव से इनका तादात्म्य (अभेद) मानने योग्य है। यदि कोई कहे कि कार्य कारणों को तादात्म्य नहीं है किन्तु भेद है तो भी अश्व महिष तुल्य भेद बुद्धि नहीं होने में कारण यह है कि कार्य कारण का समवाय नामक नित्य सम्बन्ध है। इसी प्रकार गुण क्रिया आदि को गुणी आदि के साथ समवाय सम्बन्ध है, अश्व महिष का समवाय नहीं है।

समवायकल्पनायामपि समवायस्य समवायिभिः सम्बन्धेऽभ्युपगम्यमाने तस्य तस्यान्योन्यः सम्बन्धः कल्पयितव्य इत्यनवस्थाप्रसङ्गः, अनभ्युपगम्यमाने च विच्छेदप्रसङ्गः। अथ समवाय स्वयं सम्बन्धरूपत्वादनपेक्ष्यैवापरं सम्बन्धं सम्बन्धते, संयोगोऽपि तर्हि स्वयं सम्बन्धरूपत्वादनपेक्ष्यैव समवायं सम्बन्धते, तादात्म्यप्रतीतेऽत्र द्रव्यगुणादीनां समवायकल्पनानर्थक्यम्। कथं च कार्यमवयविद्रव्यं कारणेष्ववयवद्रव्येषु वर्तमानं वर्तेत, किं समस्तेष्ववयवेषु वर्तेतोत प्रत्यवयवम्। यदि तावत्समस्तेषु वर्तेत ततोऽवयव्यनुपलब्धिः प्रसज्येत, समस्तावयवसंनिकर्षस्याशक्यत्वात्। नहि बहुत्वं समस्तेष्ववयवेषु वर्तमानं व्यस्ताश्रयग्रहणेन गृह्यते। अथावयवशः समस्तेषु वर्तेत, तदाप्यारम्भकावयवव्यतिरेकेणावयविनोऽवयवाः कल्पेरन् यैरारम्भकेष्ववयवशोऽवयवी वर्तेत। कोशावयवव्यतिरिक्तैर्हवयवैरसिः कोशं व्याप्नोति। अनवस्था चैवं प्रसज्येत, तेषु तेष्ववयवेषु वर्तयितुमन्येषामवयवाना कल्पनीयत्वात्। अथ प्रत्यवयवं वर्तेत तदैकत्र व्यापारेऽन्यत्राव्यापारः स्यात्, नहि देवदत्तः सुप्ते संनिधीय-

मानस्तदहरेव पाटलिपुत्रेऽपि सनिधीयते युगपदनेकत्र वृत्तावनेकत्वप्रसङ्गः स्यात् देवदत्तयज्ञदत्तयोरिव स्रुमपाटलिपुत्रनिवासिनोः । गोत्वाद्दिवत्प्रत्येकं परिसमाप्तेर्न दोष इति चेत् । न । तथा प्रतीत्यभावात् । यदि गोत्वाद्दिवत्प्रत्येकं परिसमाप्तोऽवयवी स्याद्यथा गोत्वं प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्षं गृह्यते एवमवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्षं गृह्यते, नचैवं नियतं गृह्यते । प्रत्येकपरिसमाप्तौ चावयविनः कार्येणाधिकारात्तस्य चैकत्वाच्छृङ्गेणापि स्तनकार्यं कुर्यादुरसा च पृष्ठकार्यम् । नचैवं दृश्यते ।

समवाय की कल्पना करने पर भी उस समवाय का समवायी ( समवाय वाले ) कार्यादि के साथ समवाय सम्बन्ध के स्वीकार करने पर तत्तत् समवायो को अन्य-अन्य समवाय सम्बन्ध कल्पना से मानना होगा । तब अनवस्था की प्राप्ति होगी और समवाय का सम्बन्ध को नहीं मानने पर विच्छेद / कार्यकारण द्रव्यगुणादि मे सम्बन्धाभाव ) की प्राप्ति होगी । स्वयं सम्बन्धरहित समवाय अन्य की सम्बद्ध बुद्धि नहीं करा सकेगा । यदि कहो कि सम्बन्ध स्वरूप होने से दूसरे सम्बन्ध की अपेक्षा के बिना ही समवाय समवायी से सम्बन्ध वाला होता है, अपनी अन्य की सम्बद्ध विशिष्ट बुद्धि करता है, तो संयोग भी स्वयं सम्बन्ध रूप होने से सम्बन्धान्तर रूप समवाय की अपेक्षा के बिना ही संयोगी से सम्बद्ध होगा, और विशिष्ट बुद्धि करायेगा । द्रव्यगुणादि का तादात्म्य की प्रतीति से समवाय की कल्पना अनर्थक है । और समवाय को मानने पर भी अवयव द्रव्य रूप कारणो मे वर्तमान अवयवी कार्यरूप द्रव्य किस प्रकार से वर्तता रहता है, क्या समस्त अवयवो मे रहता है । अथवा प्रत्येक अवयव मे ? यदि समस्त अवयवो मे रहेगा, तो अवयवी की अनुपलब्धि प्राप्त होगी, क्योंकि समस्त अवयवो के साथ इन्द्रियो का सम्बन्ध नहीं हो सकता है, जैसे कि समस्त आश्रय में वर्तमान बहुत्व त्रि-त्वादि का व्यस्त ( पृथक् एक ) आश्रय के ग्रहण से नहीं ग्रहण होता है । यदि कहो कि समस्त अवयवो मे अवयवी अवयवो द्वारा वर्तता है । अर्थात् किसी अवयव मे अवयवी का ऊर्वाश रहता है, किसी मे मध्याश किसी मे नीचे का अंश रहता है, इसी प्रकार बाह्याश अन्ताशादि रूप से अवयवो सब अवयवो मे रहता है वहाँ सब अवयव के ज्ञान बिना भी सन्मुख बाह्याश के ज्ञान से अवयवी का ज्ञान होता है । तो कहा जाता है कि अंश भी अवयव को ही कहते हैं, इससे इस प्रकार मानने पर अवयवी के आरम्भक अवयवों से भिन्न अवयवी के अवयव कल्पित होंगे कि जिनके द्वारा आरम्भक अवयवो मे अवयवी अवयवश. ( अंशश. ) रहेगा । जैसे कि कोश के अवयवों से भिन्न अवयवो द्वारा ही तरवार कोश को व्याप्त करता है, वैसे ही यहाँ भी होगा, और इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी । क्योंकि तत्तत् अवयवो मे अवयवी के रहने के लिये अन्य अन्य अवयवो की कल्पना करनी पड़ेगी और यदि प्रत्येक अवयव में अवयवी रहेगा, तो प्रत्येक अवयव मे भिन्न-भिन्न अवयवी के होने से एक तन्तु मे जिस समय एक पट



रहेगा, उसी समय वह पट दूसरे तन्तु में नहीं रहेगा, इससे एक तन्तु में पटके कोई स्थिति आकर्षणादि रूप व्यापार होने पर अन्य तन्तु में पट का व्यापार नहीं होगा, क्योंकि सूत्र में वर्तमान देवदत्त उसी दिन पटना में वर्तमान नहीं रहता है, और एक काल में अनेक तन्तु में पट के रहने पर अनेक पट की प्रसक्ति है, जैसे कि सूत्र और पटना के निवासी देवदत्त यज्ञदत्त में अनेकता रहती है। यदि कहो कि जैसे गोत्व जाति एक काल में अनेक व्यक्ति में रहती है तथा प्रत्येक व्यक्ति में परिसमाप्त ( पूर्ण ) रहती है, तो भी उममें भेद की प्राप्ति नहीं होती है, वैसे ही अवयवी की प्रत्येक अवयव में परिसमाप्ति से भेद के प्रसंगादिरूप दोष नहीं हैं, तो यह कहना नहीं बन सकता है, क्योंकि गोत्व के समान अवयवी की प्रतीति का अभाव है। यदि गोत्वादि के समान प्रत्येक अवयव में अवयवी परिसमाप्त हो तो जैसे गोत्व जाति प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्यक्ष गृहीत होती है, इसी प्रकार अवयवी भी प्रत्येक अवयवों में प्रत्यक्ष गृहीत होता, परन्तु इस गोत्व के समान अवयवों में व्यक्ति नियम से नहीं गृहीत होता है। और यदि प्रत्येक अवयव में अवयवी की परिसमाप्ति पूर्णता हो तो अवयवी को कार्य के साथ अविकार ( सम्बन्ध ) होने से और प्रत्येक अवयव में परिसमाप्त होने पर भी गोत्व के समान उस अवयवी के एक होने से गौ अपने सींग से भी स्तन का कार्य करने लगेगी, उर से पीठ का कार्य करेगी, ऐसा होना चाहिये, परन्तु ऐसा होता हुआ देखा नहीं जाता है।

प्रागुत्पत्तेश्च कार्यस्यासत्त्वं उत्पत्तिकर्तृका निरात्मिका च स्यात् ।  
 उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, सा लकर्तृकैव भवितुमर्हति गत्यादिवत्, क्रिया च  
 नाम स्यादकर्तृका चेति विप्रतिषिध्येत । घटस्य चोत्पत्तिरुच्यमाना न घट-  
 कर्तृका किं तर्ह्यन्यकर्तृकेति कल्प्या स्यात् । तथा कपालादीनामप्युत्पत्तिरुच्य-  
 मानान्यकर्तृकैव कल्प्येत, तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्ते कुलादीना-  
 कारणान्युत्पद्यन्त इत्युक्तं स्यात् । नच लोके घटोत्पत्तिरित्युक्ते कुलादीना-  
 मप्युत्पद्यमानता प्रतीयते, उत्पन्नताप्रतीतेश्च । अथ स्वकारणसत्तासम्बन्ध  
 एवोत्पत्तिरात्मलाभश्च कार्यस्येति चेत्, कथमलब्धात्मकं सम्बन्धेतेति वक्त-  
 व्यम् । सतोर्हि द्वयोः सम्बन्धः संभवति न सदसत्तोरसतोर्वा । अभावस्य च  
 निरुपाख्यत्वात्प्रागुत्पत्तेरिति मर्यादाकरणमनुपपन्नम्, सतां हि लोके चैत्रगृहा-  
 दीना मर्यादा दृष्टा नाभावस्य । नहि वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव प्राक्पूर्ववर्मणोऽ-  
 भिषेकादित्येवंजातीयकेन मर्यादाकरणेन निरुपाख्यो वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव  
 भविष्यतीति वा विशेष्यते । यदि च वन्ध्यापुत्रोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्वम-  
 भविष्यत्तत इदमप्युपापत्स्यत कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्वं भविष्यतीति ।  
 वयं तु पश्यामो वन्ध्यापुत्रस्य कार्याभावस्य चाभावत्वाविशेषाद्यथा वन्ध्यापुत्रः  
 कारकव्यापारादूर्ध्वं न भविष्यत्येवं कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्वं न  
 भविष्यतीति ।

कहते हैं कि उत्पत्ति क्रिया है, सब क्रिया कर्ता से जन्य होती है वहाँ यदि उत्पत्ति से पहिले कार्य की असत्ता है तो उत्पत्तिरूप क्रिया कर्ता के बिना और निरात्मक होगी, उत्पत्ति प्रसिद्धि क्रिया है, वह गति आदि के समान सकर्तृक ही होने योग्य है। क्रिया भी नाम हो और वह कर्ता रहित हो यह विरुद्ध है, और कही गई घट की उत्पत्ति घट कर्तृक नहीं है, किन्तु अन्य कर्तृक है, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। इसी प्रकार कही गई कपालादि की उत्पत्ति भी कपालादि से अन्यकर्तृक ही कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसा होने पर घट उत्पन्न होता है ऐसा कहने से कुलालादि कारण उत्पन्न होते हैं ऐसा विरुद्ध कथन सिद्ध होगा। परन्तु लोक मे घटोत्पत्ति इस प्रकार कहने पर कुलालादि की उत्पद्यमानता उत्पत्ति नहीं प्रतीति होती है। और पहिले की उत्पन्नता कुलादि मे प्रतीत होती है। अर्थात् कुलालादि में वर्तमान उत्पत्ति क्रिया की आश्रयता नहीं भासती है, किन्तु सिद्धता कारण तो भासती है। यदि कही कि अपने कारण के साथ और सत्ता के साथ कार्य का सम्बन्ध होना ही कार्य की उत्पत्ति है, और उसका आत्मलाभ (स्वरूप की सिद्धि) है। वहाँ कहा जाता है कि पहिले आत्मलाभ रहित अलब्ध आत्मा वाला कार्य कारण के साथ वा सत्ता के साथ कैसे सम्बन्ध वाला होगा यह कहना चाहिये, क्योंकि दो विद्यमान सत् पदार्थों का सम्बन्ध सभव होता है, एक सत् और एक असत् का वा दो असत् का सम्बन्ध नहीं होता है, और अभाव (असत्) के निरूपाख्य (वचन धर्मादि के अयोग्य) होने से उत्पत्ति से पूर्व असत् कार्य रहता है यह मर्यादा करना भी अयुक्त है क्योंकि निरूपाख्य असत् का काल के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है, लोक मे सत् गृह धेनादि की ही काल देशादि कृत मर्यादा देखी गई है, अभाव (असत्) की मर्यादा (सीमा) नहीं देखी गई है। पूर्णवर्मा के राज्याभिषेक से पहिले बन्ध्या का पुत्र राजा हुआ था इस प्रकार की मर्यादा के करने के द्वारा निरूपाख्य बन्ध्या पुत्र राजा हुआ वा होता है वा होगा इस प्रकार का भेद नहीं किया जाता है। और यदि बन्ध्या का पुत्र भी कारक के व्यापार के बाद होता तो यह भी उपपन्न (सिद्ध) होता कि कार्याभाव (असत्कार्य) भी कारक व्यापार के बाद उत्पन्न होता है। और हम तो देखते हैं कि बन्ध्यापुत्र और कार्य का अभाव (असत् कार्य) दोनों के तुल्य होने से जैसे बन्ध्या पुत्र कारक व्यापार के बाद मे नहीं हो सकता है, इसी प्रकार कार्याभाव (असत्कार्य) भी कारक के व्यापार के बाद मे नहीं हो सकता है, क्योंकि (नासतो विद्यते भावः) असत् का भाव नहीं होता है, यह भगवद्वचन भी है।

नन्वेवं सति कारकव्यापारोऽनर्थकः प्रसज्येत। यथैव हि प्राक्सिद्धत्वात्कारणस्य स्वरूपसिद्धये न कश्चिद्व्याप्रियन्ते, एवं प्राक्सिद्धत्वात्तदनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूपसिद्धयेऽपि न कश्चिद्व्याप्रियेत, व्याप्रियते च, अतः कारकव्यापारार्थवत्त्वाय मन्यामहे प्रागुत्पत्तेरभावः कार्यस्येति। नैष दोषः, यतः कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः कारकव्यापारस्यार्थवत्त्वमुपपद्यते। कार्याका-

रोऽपि कारणस्यऽत्मभूत एवानात्मभूतस्यानारभ्यत्वादित्यभाणि । नच विषदृशानमात्रेण वस्त्वन्यत्वं भवति । नहि देवदत्तः सकोचितहस्तपादः प्रसारितहस्तपादश्च विशेषेण दृश्यमानोऽपि वस्त्वन्यत्वं गच्छति, स एवेति प्रत्यभिज्ञानात् । तथा प्रतिदिनमनेकसंस्थानानामपि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्व भवति, मम पिता मम भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात् ।

यहाँ घका होनी है कि कारक व्यापार से पहिले भी यदि कार्य के उपादान कारण मे सत्ता है तो कारक का व्यापार अनर्थक प्राप्त होता है । जिसे पूर्वसिद्ध कारण के स्वरूप की सिद्धि के लिये कोई भी व्यापार ( क्रिया ) नहीं करता है । इसी प्रकार पूर्व काल मे ही सिद्ध होने से और पूर्व से सिद्ध कारण से अनन्य ( अभिन्न ) होने से कार्य के स्वरूप की सिद्धि के लिये कोई व्यापार नहीं करेगा, न करना चाहिये, परन्तु लोग कार्य सिद्धि के लिये व्यापार करते हैं, इससे कारक के व्यापारो की सार्थकता के लिये मानते हैं कि उत्पत्ति से पूर्व काल मे कार्य का अभाव रहता है ( कार्य की असत्ता रहती है ) । उत्तर है कि सत्कार्यवाद मे यह कारक व्यापार की अनर्थकता की प्राप्ति रूप दोष नहीं है । जिसे कारण को कार्याकार से व्यवस्थित ( व्यक्त-सिद्ध ) करता हुआ कारक व्यापार को सार्थकता उपपन्न ( सिद्ध ) होती है । अर्थात् उत्पत्ति से पहिले तिल मे तैल के समान मृत्तिकादि मे घटादि भी वर्तमान रहते है, परन्तु अव्यक्त रहते है कारण रूप से रहते है, वहाँ जैसे तिल के पीडन मे तैल व्यक्त होता है, इसी प्रकार तत्तत् कार्याचित व्यापार से तत्तत् कार्य व्यक्त होते हैं इत्यादि । और वह कार्याकार रूप अभिव्यक्ति भी कारण का आत्मस्वरूप ही होती है, अर्थात् घट की अभिव्यक्ति भी मृत्तिका स्वरूप ही है, क्योंकि कारण का अनात्म स्वरूप ( असत् कार्य ) आरम्भ के योग्य नहीं है, यह कहा जा चुका है, इससे अभिव्यक्ति सहित कार्य कारण स्वरूप है । यहाँ अभिव्यक्ति को भी सत् मानने पर तदर्थक व्यापार की अनर्थकता की शका होने पर अनिर्वचनीय मायामात्र अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति सिद्ध होती है, वह माया परम कारण की शक्ति अनादि अचिन्त्य है, इससे अनवस्था आदि की शका उचित नहीं है । और कार्य मे व्यक्ताव्यक्त अवस्था के भेद होने पर भी कार्य के स्वरूप मे भेद नहीं होता है क्योंकि अवस्था विशेष के दर्शन मात्र से वस्तु मे अन्यत्व ( भेद ) की प्रतीति नहीं होती है । सकृचित हाथ, पैर वाला और फैलाये हुये हाथ पैर वाला देवदत्त यद्यपि विशेष ( भिन्न ) रूप वाला दीखता है तथापि वस्तु का भेद नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वह वही है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है । इसी प्रकार प्रतिदिन अनेक सम्थान (आकार) वाले भी पिता आदि को वस्तु अन्यत्व नहीं होता है, क्योंकि मेरा पिता, मेरा भ्राता, मेरा पुत्र है इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती है ।

जन्मोच्छेदानन्तरितत्वात्तत्र युक्तं नान्यत्रेति चेत् । न । क्षीरादीनामपि दध्याद्याकारसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात् । अदृश्यमानानामपि वटधानादीनां समान-जातीयावयवान्तरोपचितानामङ्कुरादिभावेन दर्शनगोचरतापत्तौ जन्मसंज्ञा,

तेषामेवावयवानामपचयवशाददर्शनापत्तावुच्छेदसंज्ञा । तत्रेदृग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्चेदसतः सत्त्वापत्तिस्तथा सति गर्भवासिन उत्तानशायिनश्च भेदप्रसङ्गः । तथा च बाल्ययौवनस्थाविरेष्वपि भेदप्रसङ्गः, पित्रादिव्यवहारलोपप्रसङ्गश्च । एतेन क्षणभङ्गवादः प्रतिवादितव्यः । यस्य पुनः प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यं तस्य निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात्, अभावस्य विषयत्वानुपपत्तेराकाशस्य हननप्रयोजनखङ्गाद्यनेकायुधप्रसक्तिवत् । समवायिकारणविषयः कारकव्यापारः स्यादिति चेत् । न । अन्यविषयेण कारकव्यापारेणान्यनिष्पत्तेरतिप्रसङ्गात् । समवायिकारणस्यैवात्मातिशयः कार्यमिति चेत् । न । सत्कार्यतापत्तेः । तस्मात्क्षीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादिभावेनावतिष्ठमानानि कार्यार्यां लभन्त इति न कारणादन्यत्कार्यं वर्षशतेनापि शक्यं निश्चेतुम् । तथा मूलकारणमेवान्त्यात्कार्यात्तेन तेन कार्यकारेण नटवत्सर्वव्यवहारास्पदत्वं प्रातिपद्यते । एवं युक्तेः कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सत्त्वमनन्यत्वं च कारणादवगम्यते ।

यहाँ संका होती है कि पिता, भ्राता आदि के जन्म, मरण ( नाश ) के व्यवधान रहित होने से वहाँ प्रत्यभिज्ञा से भेद का अभाव एकता युक्त है । परन्तु दार्ष्टान्तिक कार्य कारण मे दूध के नाश से दधि होता है, तिल के नाश से तैल होता है, इससे कारण का नाश और कार्य की उत्पत्ति से अन्तरित ( व्यवहित ) कार्य कारण हो जाते हैं, इसीसे इनका अभेद भी नहीं हो सकता है । वहाँ कहा जाता है कि कारण का नाश नहीं होता है, क्योंकि दूध आदि का ही दधि आदि के आकार से सम्यक् स्थिति सन्निवेश का प्रत्यक्ष होता है । और समान जाति वाले अवयवान्तर से वृद्धि को प्राप्त अदृश्य बट बीजादि को अंकुरादि रूप से दर्शन की विषमता की प्राप्ति होने पर उनकी जन्म संज्ञा होती है । और उन्ही अवयवो के अपचयक्षय के वश से जब अदर्शनता की प्राप्ति होती है तब नाश संज्ञा होती है । वस्तुतः वहाँ भी बट बीजादि का कार्य मे अन्वय है, कारण का नाश और असत् कार्य की उत्पत्ति वहाँ भी नहीं है, अवयव के उपचय, अपचयमात्र से जन्मनाश का नाममात्र होता है । वहाँ इस प्रकार के जन्म और विनाश से अन्तरित ( व्यवहित ) होने से यदि असत् कार्य की सत्ता की प्राप्ति हो, और सत् कारण को विनाश रूप असत्ता की प्राप्ति हो, तो ऐसा होने पर गर्भ मे रहने वाला और जन्म के बाद बाहर उत्तान सोने वाला बच्चा मे भी भेद की प्राप्ति होगी । इसी प्रकार बाल्य, यौवन और स्थाविर ( वृद्धत्व ) मे भी भेद की प्राप्ति होगी, और ऐसा होने पर पिता आदि व्यवहार का लोप ( अभाव ) प्राप्त होगा । इस प्रकार कारण की कार्य में अन्वय द्वारा कार्य के नित्यत्व के साधन से क्षणभङ्गवाद को प्रत्याख्यात समझना चाहिये । जिसके मत मे उत्पत्ति से पूर्व काल मे कार्य असत् है, उसके मत मे कर्ता आदि रूप कारक का व्यापार ( उत्पादनक्रिया ) निर्विषय होगा, क्योंकि अभाव ( असत् कार्य ) को कारक व्यापार विषयत्व इस प्रकार अनुपपन्न है कि जैसे आकाश

को हनन रूप प्रयोजन के लिये खड़ादि अनेक आयुष की प्रसक्ति ( प्राप्ति ) अनुपपन्न होती है। यदि असत्कार्यवादी कहे कि कार्य के समवायी कारण विषयक कारक का व्यापार होगा, इससे निर्विषय नहीं होगा, तो यह कहना नहीं बन सकता है। क्योंकि अन्य ( समवायी ) विषयक व्यापार से अन्य ( कार्य ) की निष्पत्ति ( सिद्धि ) मानने से अतिप्रसक्ति होगी ( कार्य से अन्य की भी उत्पत्ति प्राप्त होगी )। यदि कहे कि समवायी कारण को ही स्वरूप का अतिशय रूप कार्य है, इस लिए तद्विषयक व्यापार से कार्यसिद्ध होता है, और अतिव्याप्ति नहीं होती है, तो सत्कार्यवाद की प्राप्ति होगी। यतः दूध आदि रूप द्रव्य ही दधि आदि रूप से स्थिर होकर कार्य सज्ञा का लाभ करते हैं, इस लिए कारण से अन्य कार्य को सौ वर्ष द्वारा भी निश्चय नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मूल कारण ही अन्त्य कारण तक तत्तत् कार्य रूप से नट के समान सब व्यवहार का आश्रयत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार युक्ति से उत्पत्ति से पूर्व काल में कार्य का सत्त्व को और कारण से अभेद को समझा जाता है।

शब्दान्तराच्चैतदवगम्यते । पूर्वसूत्रेऽसद्व्यपदेशिनः शब्दस्योऽहृतत्वात्त-  
तोऽन्य. सद्व्यपदेशो शब्दः शब्दान्तरम्—‘सदेव सोम्येदमग्र आसीत्, एकमे-  
वाद्वितीयम्’ इत्यादि । ‘तद्वैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्’ इति चासत्पक्षमुप-  
क्षिप्य ‘कथमसतः सज्जायेत’ इत्याक्षिप्य ‘सदेव सोम्येदमग्र आसीत्’ ( छां०  
६।२।१ ) इत्यवधारयति । तत्रेदंशब्दान्यस्य कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सच्छब्द-  
वाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रूयमाणत्वात्सत्त्वानन्यत्वे प्रसिध्यतः ।  
यदितु प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यं स्यात्पश्चाच्चोत्पद्यमानं कारणे समवेयात्तदान्यत्कारणा-  
त्स्यात्, तत्र ‘येनाश्रुतं श्रुतं भवति’ ( छां० ६।१।३ ) इतीयं प्रतिज्ञा पीड्यते ।  
सत्त्वानन्यत्वावगतेस्त्वियं प्रतिज्ञा समर्थ्यते ॥ १८ ॥

शब्दान्तर से भी यह समझा जाता है। पूर्वसूत्र में असत् व्यपदेशी ( उत्पत्ति से प्रथम कार्य को असत् कहने वाला ) शब्द का उदाहरण दिया गया है, उससे अन्य सत् व्यपदेशी शब्द शब्दान्तर है कि ( हे सोम्य ! यह जगत् पहले सत्य और एक ही था । द्वैत रहित था ) इत्यादि । और ( कोई कहते हैं कि यह प्रसिद्ध जगत् प्रथम असत् ही था ) इस प्रकार असत् पक्ष का उत्थान करके ( असत् से सत् कैसे उत्पन्न होगा ) इस प्रकार उस पक्ष का आक्षेप करके ( हे सोम्य ! यह प्रथम सत् ही था ) इस प्रकार अवधारण करते हैं। वहाँ ‘इदम्’ शब्द का वाच्यार्थ कार्य की उत्पत्ति से प्रथम सत् शब्द का वाच्यार्थ कारण के साथ सामानाधिकरणता के श्रूयमाण होने से कार्य को सत्त्व और अभेद सिद्ध करता है। और यदि उत्पत्ति से प्रथम कार्य असत् हो और पीछे उत्पन्न होकर कारण में समवेत ( समवाय से सम्बद्ध ) हो तो कारण से अन्य कार्य होगा। फिर उस अवस्था में ( जिस कारण के श्रुत होने से अश्रुत भी कार्य श्रुत होता है ) यह प्रतिज्ञा बाधित होगी। कार्य के सत्त्व और कारण से अनन्यत्व की अवगति से तो यह प्रतिज्ञा समर्थित ( सिद्ध ) होती है ॥ १८ ॥

## पटवच्च ॥ १९ ॥

यथा च संवेष्टितः पटो न व्यक्तं गृह्यते किमयं पटः किं वान्यद्द्रव्यमिति, स एव प्रसारितो यत्संवेष्टितं द्रव्यं तत्पट एवेति प्रसारणेनाभिव्यक्तो गृह्यते । यथाच संवेष्टनसमये पट इति गृह्यमाणोऽपि न विशिष्टायामविस्तरो गृह्यते, स एव प्रसारणसमये विशिष्टायामविस्तारो गृह्यते न संवेष्टितरूपादन्योऽयं भिन्नः पट इति । एवं तन्त्वाधिकारणावस्थं पटादिकार्यमस्पष्टं सत् तुरीवेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिभिर्व्यक्तं स्पष्टं गृह्यते । अतः संवेष्टितप्रसारितपटन्यायेनैवानन्यत्कारणात्कार्यमित्यर्थः ॥ १६ ॥

जैसे संवेष्टित (समेटकर बल्लान्तर से बाँधा हुआ) पट व्यक्त प्रत्यक्ष नहीं गृहीत ज्ञात होता है कि यह पट है, वा अन्य द्रव्य है । और वही बन्धन खोल कर फैलाने से अभिव्यक्त प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि जो संवेष्टित द्रव्य था वह यह फैलाया हुआ पट ही है ? और जैसे संवेष्टन के समय पट इस प्रकार से ज्ञात होनेपर भी भिन्न दीर्घता और विस्तार ( लम्बाई आदि ) वाला नहीं गृहीत होता है और फैलाने के समय में वही विशेष दीर्घतायुक्त विस्तारयुक्त गृहीत होता है । एवं यह नहीं गृहीत होता कि संवेष्टित रूप वाला से अन्य यह भिन्न ( दूसरा ) पट है । इसी प्रकार तन्तु आदि रूप कारणावस्था वाला पटादि रूप कार्य अस्पष्ट ( व्यक्त ) होता हुआ तुरीवेमकुविन्दादि रूप कारक के व्यापारादि से व्यक्त होकर स्पष्ट गृहीत होता है, इससे संवेष्टित प्रसारित पट के समान ही कारण से कार्य अभिन्न है—यह सूत्र का अर्थ है ॥ १९ ॥

## यथा च प्राणादि ॥ २० ॥

यथा च लोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारणमात्ररूपेण वर्तमानेषु जीवनमात्रं कार्यं निर्वर्त्यते नाकुञ्चनप्रसारणादिकं कार्यान्तरम् । तेष्वेव प्राणभेदेषु पुनः प्रवृत्तेषु जीवनादधिकमाकुञ्चनप्रसारणादिकमपि कार्यान्तरं निर्वर्त्यते । न च प्राणभेदानां प्रभेदवतः प्राणादन्यत्वं, समीरणस्वभावविशेषात् । एवं कार्यस्य कारणादनन्यत्वम् । अतश्च कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्मकार्यत्वात्तदनन्यत्वाच्च सिद्धैषा श्रौती प्रतिज्ञा 'येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्' ( छां० ६।१।१ ) इति ॥ २० ॥

और जैसे लोक में प्राण अपान आदि प्राण भेदों के प्राणायाम से निरुद्ध होने पर, कारणमात्र रूप से उन प्राणापानादि के वर्तमान रहने पर जीवनमात्र रूप कार्य सिद्ध होता है, आकुञ्चन प्रसारण ( अङ्गों को समेटना फैलाना ) आदि रूप अन्य कार्य नहीं होता है । उन्हीं प्राणों के निरोध के बाद फिर प्रवृत्त व्यापारयुक्त होने पर जीवन से अधिक आकुञ्चन प्रसारणादिक भी अन्य कार्य सिद्ध होते हैं । और फिर भिन्न रूप से प्रवृत्त होने पर भी उन भिन्न प्राणों को निरुद्ध अवस्था में सब प्रभेद वाला एक प्राण

से अन्यत्व ( भेद ) नहीं रहता है, क्योंकि दोनो अवस्था मे समीरण ( वायु ) स्वभाव तुल्य है। इसी प्रकार कार्य को कारण से अनन्यता है। और इसी से सम्पूर्ण जगत् के ब्रह्म कार्यत्व और ब्रह्मानन्यत्व से यह श्रुति की प्रतिज्ञा सिद्ध हुई कि ( जिससे अश्रुत श्रुत होता है, अमत मत होता है, और अविज्ञात विज्ञात होता है ॥ २० ॥

### इतरव्यपदेशाधिकरण ॥ ७ ॥

हिताक्रियादि स्यान्नो वा जीवाभेद प्रपश्यतः ।

जीवाहितक्रिया स्वार्था स्यादेषा नहि युज्यते ॥ १ ॥

अवस्तु जीवसंसारस्तेन नास्ति मम च्छितिः ।

इति पश्यत ईशस्य न हिताहितभागता ॥ २ ॥

सशय है कि जीव से अपने अभेद को जानने वाले ईश्वर मे दुःखमय ससार की रचना से हित का अकरण और अहित का करता रूप अनौचित्य दोष की प्राप्ति होती है अथवा नहीं होती है। पूर्वपक्ष है कि जीव के लिए की गई अहित क्रिया अभिन्नता से स्वार्थक होगी, ऐसी यह क्रिया युक्त नहीं है। सिद्धान्त है कि माया अविद्यामय मिथ्या जीव का ससार है, इससे मेरी कोई क्षति (हानि) नहीं है इस प्रकार जानने वाला ईश्वर को हिताहित दोष की भागिता नहीं है। भाव है कि रागद्वेषादि के बिना ईश्वर साधारण कारण है, हिताहित के विशेष हेतु जीव के ही अविद्या काम कर्मादि हैं और औपाधिक भेद है इससे ईश्वर दोष का आश्रय नहीं होता है ॥ १-२ ॥

### इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥

अन्यथा पुनश्चेतनकारणवाद आक्षिप्यते । चेतनाद्धि जगत्प्रक्रियायामाश्रीय-  
माणायां हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते । कुतः ? इतरव्यपदेशात् । इतरस्य  
शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति श्रुतिः—‘स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकृतो’ इति  
प्रतिबोधनात् । यद्वा इतरस्य च ब्रह्मणः शारीरात्मत्वं व्यपदिशति ‘तत्सृष्ट्वा तदे-  
वानुप्राविशत् ( तै० २।६ ), इति स्रष्टुरेवाविकृतस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशेन  
शारीरात्मत्वप्रदर्शनात् । ‘अनेन जीवेवात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’  
( छान्द० ६।३।२ ) इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपदिशन्ती न ब्रह्मणो  
भिन्नः शारीर इति दर्शयति । तस्माच्चद्ब्रह्मणः स्रष्टृत्वं तच्छारीरस्यैवेति । अतः  
स स्वतन्त्रः कर्ता सन् हितमेवात्मनः सौमनस्यकरं कुर्यान्नाहितं जन्ममरणजरा-  
रोगाद्यनेकानर्थजालम् ।

जीव का जीवसे इतर ( भिन्न ) ब्रह्म रूप से श्रुति मे निर्देश से ब्रह्मकृत जीव का अहित आत्मकृत ही सिद्ध होता है, वहाँ अपने लिए हित का अकरणादि दोष प्राप्त है। इससे सर्वात्मा चेतन ब्रह्म जगत् का कारण नहीं है, यह पूर्वपक्ष सूत्र है।

अन्य प्रकार से फिर चेतन कारणवाद का आक्षेप किया जाता है कि चेतन से जगत् की सृष्टि को स्वीकार करने पर हिताकरणादि दोष प्राप्त होंगे, क्योंकि इतर का

इतर रूप से व्यपदेश है। अर्थात् इतर जीव का ब्रह्म स्वरूप को श्रुति कहती है कि ( वह ब्रह्म आत्मा है और इवेतकेतो ! तुम वही हो )। इस प्रकार प्रतिबोधन से जीव को ब्रह्मरूप श्रुति कहती है। अथवा इतर ब्रह्म का जीव स्वरूपत्व को कहती है कि ( वह ब्रह्म सृष्टि करके उसमें प्रवेश किया ) इस प्रकार अविद्युत सृष्टिकर्ता ब्रह्म का ही कार्य में अनुप्रवेश द्वारा जीवात्मा का दर्शन होता है। और ( इस जीवात्मा रूप से अनुप्रवेश करके नाम और रूप का व्याकरण विभाग करूँ ) इस प्रकार जीव को आत्मशब्द से कहती हुई परादेवता जीवब्रह्म से भिन्न नहीं है यह दिखलाती है। अतः जो ब्रह्म को सृष्टि का कर्तृत्व है वह जीव का ही है। इससे वह जीव स्वतन्त्र कर्ता होकर अपना हित ही मन को प्रसन्न करने वाला सुख का हेतु कार्य करेगा, और अपना अहित रूप, जन्म-मरण, जरा-रोग आदि अनेक अनर्थ समूह को नहीं करेगा।

नहि कश्चिदपरतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्वानुप्रविशति । न च स्वय-  
मत्यन्तनिर्मलः सन्नत्यन्तमलिन देहमात्मत्वेनोपेयात् , कृतमपि कथञ्चिद्यद्दुःख-  
करं तदिच्छया जह्यात् , सुखकरं चोपाददीत , स्मरेच्च मयेदं जगद्विम्बं विचित्रं  
विरचितमिति , सर्वो हि लोकः स्पष्टं कार्यं कृत्वा स्मरति मयेदं कृतमिति । यथा-  
च मायावी स्वयं प्रसारितां मायाभिच्छयानायासेनैवोपसंहरति , एवं शारीरोऽ-  
पीमां सृष्टिमुपसंहरेत् , स्वकीयमपि तावच्छरीर शारीरो न शक्नोत्यनायासेनोप-  
संहर्तुम् । एव हितक्रियाद्यदर्शनादन्याय्या चेतनाज्जगत्प्रक्रियेति गम्यते ॥ २१ ॥

कोई अपरतन्त्र ( स्वतन्त्र ) अपने लिए बन्धन गृह बना कर उसमें प्रवेश नहीं करता है, और स्वयं अत्यन्त निर्मल होते हुए अत्यन्त मलिन देह को आत्मरूप से नहीं प्राप्त करेगा। किसी प्रकार प्राप्त करने पर भी जो दुःखकर है, उसको इच्छा के अनुसार त्याग देगा और सुखकारक का इच्छा के अनुसार ग्रहण करेगा, एवं स्मरण करेगा कि इस विचित्र जगत रूप विम्ब ( मण्डल-विस्तार ) को मैंने बनाया है। क्योंकि सब लोग कार्य करके स्पष्ट ( स्फुट ) स्मरण करते हैं कि हमने यह कार्य किया है। जैसे मायावी स्वयं प्रसारित माया को इच्छा से अनायास ही उपसंहार ( निवृत्ति ) करता है, इसी प्रकार यह जीव भी इस सृष्टि का उपसंहार करता है। यह जीव अपने शरीर का भी अनायास से सहज में उपसंहार नहीं कर सकता है। इस प्रकार हित क्रियादि के नहीं देखने से चेतन से जगत् की सृष्टि अन्याय है, ऐसी प्रतीति होती है ॥ २१ ॥

**अधिकं तु भेदनिर्देशात् ॥ २२ ॥**

तुशब्दः पक्षं व्यवर्तयति । यत्सर्वज्ञं सर्वशक्ति ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं  
शारीरादधिकमन्यत् , तद्वयं जगतः स्रष्टुं ब्रम् । न तस्मिन् हिताकरणादयो  
दोषाः प्रसज्यन्ते, नहि तस्य हितं किञ्चित्कर्तव्यमस्त्यहितं वा परिहर्तव्यं,  
नित्यमुक्तस्वभावत्वात् । नच तस्य ज्ञानप्रतिबन्धः शक्तिप्रतिबन्धो वा क्वचिद्-  
ध्यस्ति, सर्वज्ञत्वात्सर्वशक्तित्वाच्च । शारीरस्त्वेनैवविधस्तस्मिन्प्रसज्यन्ते हिता-



कारणादयो दोषाः, न तु तं वयं जगत. स्रष्टारं ब्रूमः । कुत एतत् ? भेदनिर्देशात्, 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मतव्यो निदिध्यासितव्यः' ( बृ० २।४।५ ), 'सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः' ( छां० ८।७।१ ), 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' ( छां० ६।८।१ ), 'शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वाखुडः' ( बृ० ४।३।३५ ) इत्येवंजातीयकः कर्तृकर्मादिभेदनिर्देशो जीवादधिकं ब्रह्म दर्शयति ।

तु शब्द पूर्वपक्ष का निवारण करता है कि जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिवाला, नित्यशुद्ध नित्यबुद्ध नित्यमुक्त स्वभाववाला जीव से अधिक ( अन्य ) ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जगत का स्रष्टा ( कर्ता ) कहते हैं । जिस ब्रह्म में हिताकरणादि दोष नहीं प्राप्त होते हैं, उस ब्रह्म को कुछ हित कर्तव्य नहीं है, और अहित परिहर्तव्य ( त्यागाहं ) नहीं है । जिससे उसको नित्यमुक्त स्वभावता है । एवं उसके ज्ञान का प्रतिबन्ध ( निरोध ) वा शक्ति का प्रतिबन्ध कही नहीं है, सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्त्व से उक्त प्रतिबन्धाभाव है । जीवात्मा तो इस प्रकार का नहीं है । उसमें हिताकरणादि दोष प्राप्त होते हैं । परन्तु हम उस जीव को जगत का स्रष्टा ( सृष्टिकर्ता ) नहीं कहते हैं कि जिससे दोष हो । यदि कहो कि स्रष्टा जीव से भिन्न है, तो यह कैसे सिद्ध होता है ? इसका उत्तर है कि भेद के निर्देश से यह सिद्ध होता है ( अरे मैत्रेय ! आत्मा दर्शन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन ( ध्यान ) के योग्य है, अतः उसके दर्शनादि करना चाहिए ) ( वह आत्मा अन्वेष्टव्य खोज के योग्य और विजिज्ञातव्य विचारादि के योग्य है । हे सोम्य ! उस सृष्टिमि काल में यह जीव सत् ब्रह्म के साथ मिल जाता है ) ( मरण काल में जीवात्मा परमात्मा से अधिष्ठित होकर आर्त शब्द करता हुआ जाता है ) इस प्रकार के कर्ता कर्मादि भेद का निर्देश जीव से अधिक ब्रह्म को दर्शाता है ।

नन्वभेदनिर्देशोऽपि दर्शितः 'तत्त्वमसि' इत्येवंजातीयकः, कथं भेदाभेदौ विरुद्धौ संभवेयाताम् । नैष दोषः । आकाशघटाकाशन्यायेनोभयसंभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात् । अपिच यदा तत्त्वमसीत्येवंजातीयकेनाभेदनिर्देशेनाभेदः प्रतिबोधितो भवत्यपगत भवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च स्रष्टृत्वं, समस्तस्य मिथ्याज्ञानविजृम्भितस्य भेदव्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बोधितत्वात् । तत्र कुत एव सृष्टिः कुतो वा हिताकरणादयो दोषाः । अविद्याप्रत्युपस्थापितानामरूपकृतकार्यकरणसंघातोपाध्यविवेककृता हि भ्रान्तिहिताकरणादिलक्षणः संसारो न तु परमार्थतोऽस्तीत्यसकृदवोचाम जन्ममरणच्छेदनभेदनाद्यभिमानवत् । अबाधिते तु भेदव्यवहारे 'सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः' इत्येवंजातीयकेन भेदनिर्देशेनावगम्यमान ब्रह्मणोऽधिकत्वं हिताकरणादिदोषप्रसक्ति निरुणद्धि ॥ २२ ॥

यहाँ शंका होती है कि वह तू है । इस प्रकार का अभेद निर्देश भी दिखलाया गया है वहाँ विरुद्ध भेद और अभेद कैसे सम्भव हो सकते हैं ? उत्तर है कि यह दोष

नही है। क्योंकि महाकाश और घटाकाश के न्याय ( दृष्टान्त ) से भेद और अभेद दोनों के सम्भव का तत्त्व स्थानों में प्रतिपादन किया गया है। दूसरी बात है कि जब ( वह तू है ) इस प्रकार के अभेद निर्देश से अभेद प्रतिबोधित अनुभूत होता है, तब जीव का ससर्गत्व और ब्रह्म का स्रष्टृत्व निवृत्त हो जाता है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान का विस्तार कार्यरूप समस्त भेद व्यवहार का सम्यग् ज्ञान से बोध हो जाता है, फिर उस अवस्था में किससे सृष्टि हो सकती है, और किससे हिताकरणादि दोष हो सकते हैं? क्योंकि अविद्या से प्रत्युपस्थापित ( प्रकटित ) नाम रूप से किये गये शरीर इन्द्रिय का समूह रूप उपाधि के अद्वैत कृतभ्रान्ति ( मिथ्याज्ञान ) ही हिताकरणादि स्वरूप संसार है, परमार्थ से संसार नहीं है। यह अनेक बार कह चुके हैं कि आत्मा में जन्म मरण छेदन भेदनादि के मिथ्या अभिमान के समान ही सब संसार है। और अज्ञान काल में भेद व्यवहार के अबाधित रहते ( वह आत्मा अन्वेषण योग्य है, विजिज्ञास्य योग्य है ) इस प्रकार के भेद निर्देश से अवगत का अधिकत्व हिताकरणादि दोष की प्रसक्ति का निरोध करता है ॥ २२ ॥

### अद्मदिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥

यथा च लोके पृथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यश्मनां केचिन्महार्हाः मणयो वज्रवैडूर्यादयोऽन्ये मध्यमवीर्याः सूर्यकान्तादयोऽन्ये प्रहीणाः श्वायसप्रक्षेपणार्हाः पाषाणा इत्यनेकविधं वैचित्र्यं दृश्यते । यथा चैकपृथिवीव्यपाश्रयाणामपि बीजानां बहुविधं पत्रपुष्पफलगन्धरसादिवैचित्र्यं चन्दनकिपाकादिषूपलक्ष्यते । यथा चैकस्याप्यन्नरसस्य लोहितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति । एवमेकस्यापि ब्रह्मणो जीवप्राज्ञपृथक्त्वं कार्यवैचित्र्यं चोपपद्यत इत्यतस्तदनुपपत्तिः परपरिकल्पितदोषानुपपत्तिरित्यर्थः । श्रुतेश्च प्रामाण्याद्विकारस्य च वाचारम्भणमात्रत्वात् । स्वप्नदृश्यभाववैचित्र्यवञ्चेत्यभ्युच्चयः ॥ २३ ॥

और जैसे लोक में पृथिवीत्व सामान्य ( जाति ) से अन्वित ( युक्त ) भी पत्थरो में कोई महाश्रेष्ठ होरा वैडूर्यादि बहुमूल्य मणि हैं, उनसे अन्य सूर्यकान्तादि मध्यम वीर्य ( तेज ) वाले हैं। उनसे अन्य अत्यन्त हीन कुत्ते कौबो पर फेंकने योग्य पत्थर हैं। इस प्रकार पत्थर में अनेक प्रकार की विचित्रता देखी जाती है। एव जैसे एक पृथिवी में बोये गये बीजों के बहुत प्रकार की पत्र-पुष्प, फल, गन्ध, रस आदि की विचित्रता चन्दन और तार आदि में देखी जाती है। और जैसे एक ही अन्नरस के रुधिरादि और केशलोमादि विचित्र कार्य होते हैं। इसी प्रकार एक ही ब्रह्म के जीव और प्राज्ञ ( ईश्वर ) रूप पृथक्त्व और कार्य विचित्रत्व उपपन्न ( सिद्ध ) होते हैं। इससे उसकी अनुपपत्ति है, अर्थात् प्रतिवादी से कल्पित दोष की अनुपपत्ति है, यह सूत्र का अर्थ है। सूत्र में चकार से इस अर्थ का अभ्युच्चय ( समुच्चय-सम्बन्ध ) किया गया है कि जीवगत

दोष वाला अभिन्नता से ब्रह्म है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म मे दोषवत्ता श्रुति से बाधित है, और श्रुति की प्रमाणाता से ही विकार वाचारम्भणमात्र है और स्वप्न काल मे एक स्वप्नद्रष्टा मे पदार्थ की विचित्रता के समान एक ब्रह्म जगत् की विचित्रता है ॥ २३ ॥

### उपसंहारदर्शनाधिकरण ॥ ८ ॥

न सम्भवेत्संभवेद्वा शृष्टिरेकाद्वितीयतः । नानाजातीयकार्याणां क्रमाज्जन्म न सम्भवि ।  
अद्वैतं तत्त्वतो ब्रह्म तन्नाविद्यासहायवत् । नानाकार्यकरं कार्यक्रमोऽविद्यास्थशक्तिभिः ॥

शका होती है कि एक अद्वैत ब्रह्म जगत् कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि लोक में कार्य के लिए अनेक निमित्त उपादान सहाय का कारणो का उपसहार ( संमेलन-सग्रह ) देखा जाता है, उत्तर है कि जैसे अकेला दूध कुछ देर मे विकृत होकर अन्यस्वरूप हो जाता है, ऐसे माया विशिष्ट एक ब्रह्म जगत् का कारण होता है । सामान्य दृष्टि से संशय है कि एक अद्वितीय ब्रह्म से सृष्टि का असम्भव अथवा सम्भव है ? पूर्वपक्ष है कि नाना प्रकार के कारणो के क्रम से नाना प्रकार के कार्य क्रम से होते हैं, इससे भेद क्रमादिरहित एक ब्रह्म से नाना प्रकार के कार्यों का क्रम से जन्म का सम्भव नहीं है । सिद्धान्त है कि तत्त्वतः ब्रह्म अद्वैत है, परन्तु वह अविद्यात्मक मायारूप सहायक वाला होकर नाना कार्य को करने वाला होता है, और अविद्या मे स्थिर अनन्त वासनादि रूप शक्तियो से कार्यों का क्रम होता है ॥ २ ॥

### उपसंहारदर्शनाच्चेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥

चेतनं ब्रह्मैकमद्वितीयं जगत्तः कारणमिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते । कस्मात् ?  
उपसंहारदर्शनात् । इह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो मृहण्डचक्र-  
सूत्राद्यनेककारकोपसंहारेण संगृहीतसाधनाः सन्तस्तत्तत्कार्यं कुर्वाणा दृश्यन्ते ।  
ब्रह्म चासहायं तवाभिप्रेतं तस्य साधनान्तरानुपसंग्रहे सति कथं स्रष्टृत्वमुपपद्यते ।  
तस्मान्न ब्रह्म जगत्कारणमिति चेत् ?

नैष दोषः । यतः क्षीरवद्द्रव्यम्बभावविशेषादुपपद्यते । यथा हि लोके क्षीरं  
जलं वा स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमतेऽनपेक्ष्य बाह्यं साधनं तथेहापि  
भविष्यति । ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन परिणममानमपेक्षत एव बाह्यं साधन-  
मौष्ण्यादिर्कं कथमुच्यते क्षीरवद्धीति । नैष दोषः । स्वयमपि हि क्षीरं यां  
च परिणाममात्रामनुभवति तावत्येव त्वार्यते त्वौष्ण्यादिना दधिभावाय ।  
यदि च स्वयं दधिभावशीलता न स्यान्नैवौष्ण्यादिनापि बलाद्दधिभावमापद्यते ।  
नहि वायुराकाशो वौष्ण्यादिना बलाद्दधिभावमापद्यते । साधनसामग्र्या च  
तस्य पूर्णता सम्पाद्यते । परिपूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म न तस्यान्येन केनचित्पूर्णता  
सम्पादयितव्या । श्रुतिश्च भवति—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परास्य शक्तिर्विधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

( श्लो० ६।२ ) इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्क्षीरादिव-  
द्विचित्रपरिणाम उपपद्यते ॥ २४ ॥

चेतन एक अद्वितीय ब्रह्म जगत् का कारण है, यह जो प्रथम कहा है, वह उपपन्न ( सिद्ध ) नहीं हो सकता है, क्योंकि लोक में उपसंहार देखा जाता है । जिससे इस लोक में कुलालादि रूप घटादि के कर्ता मिट्टी दरड चक्र सूत्र आदि रूप अनेक कारण के उपसंहार ( संग्रह समेलन ) द्वारा संगृहीत साधन वाले होकर तत्तत् कार्यों को करते हुए देखे जाते हैं । ब्रह्म अद्वैतवादी के मत में असहाय अभिप्रेत स्वीकृत है, तो उस ब्रह्म को साधनान्तर के उपसंग्रह नहीं रहते स्वष्टृत्व कैसे सिद्ध होगा ? इससे ब्रह्म जगत् का कारण नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं कि यह दोष नहीं है । क्योंकि दूध के समान द्रव्य के स्वभाव विशेष से कार्य सिद्ध होगा । जैसे लोक में दूध वा जल स्वयं ही बाह्यसाधन की अपेक्षा के बिना दधिरूप से और हिमरूप से परिणत होता है, वैसे यहाँ ब्रह्म में भी कार्य होगा ? शंका होती है कि दधि आदि रूप से परिणत होता हुआ दूध आदि भी बाह्यसाधन उष्णता आदि की अपेक्षा करता ही है, फिर कैसे कहा जाता है कि क्षीर के समान होगा । तो कहते हैं कि यह दोष नहीं है । क्योंकि दूध स्वयं ही जिस और जितनी परिणाम की मात्रा ( परिमाण ) को अनुभव करता ( प्राप्त होता ) है, उष्णता आदि से भी उतनी ही परिणाम मात्रा प्राप्त होती है । परन्तु उन उष्णतादिको से दधिरूपता में त्वरा ( शीघ्रता ) की जाती है । और यदि दूध में स्वयं दधि रूप होने का स्वभाव न हो तो उष्णादि से भी बलात्कार दधि रूपता नहीं प्राप्त की जा सकती है । जैसे वायु वा आकाश उष्णता से बलात्कारपूर्वक दधिरूप से नहीं प्राप्त किया जाता है । इस प्रकार दधि आदि कार्य के लिए दूध आदि में स्वयं शक्ति है, तथापि साधनसामग्री से उष्णादि से उस कारण कि पूर्णता सिद्ध की जाती है कि जिससे कार्य सुन्दर होता है, और ब्रह्म तो अपने कार्य के लिए परिपूर्ण शक्ति वाला है इससे उसकी पूर्णता अन्य किसी से सपादन के योग्य नहीं है । श्रुति भी है कि ( उस ईश्वर के शरीर और इन्द्रिय नहीं है, न उसके समान ही कोई है न उससे अधिक है, और उसकी अनेक प्रकार की परा उत्तम शक्ति सुनी जाती है । एवं स्वाभाविक ज्ञानक्रिया तथा स्वाभाविक बल क्रिया सुनी जाती है । ( अर्थात् उसके तुल्यादि श्रुति में नहीं देखे सुने जाते हैं, परन्तु सृष्टि आदि की परिपूर्ण शक्ति सुनी जाती है ) इससे एक ब्रह्म का भी विचित्र शक्ति के सम्बन्ध से दूध के समान विचित्र परिणाम सिद्ध होता है ॥ २४ ॥

देवादिवदपि लोके ॥ २५ ॥

स्यादेतत् , उपपद्यते क्षीरादीनामचेतनानामनपेक्षयापि बाह्यं साधनं दध्या-

दिभावः, दृष्टान्तात्, चेतनाः पुनः कुन्नालादयः साधनसामग्रीमपेक्ष्यैव तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते, कथं ब्रह्म चेतनं मदसहायं प्रवर्ततेति । देवादिवदिति ब्रूमः । यथा लोके देवाः पितर ऋषय इत्येवमादयो महाप्रभावाश्चेतना अपि सन्तोऽनपेक्ष्यैव किञ्चिद्बाह्य साधनमैश्वर्यविशेषयोगादभिध्यानमात्रेण स्वत एव बहूनि नानासंस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि च निमिमाणा उपलभ्यन्ते मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणप्रामाण्यात् । तन्तुनाभश्च स्वत एव तन्तून् सृजति, बलाका चान्तरेणैव शुक्रं गर्भं धत्ते पद्मिनी चानपेक्ष्य किञ्चित्प्रस्थान-साधनं सरोन्तरात्सरोन्तरं प्रतिष्ठते एवं चेतनमपि ब्रह्मानपेक्ष्य बाह्यं साधनं स्वत एव जगत्सृजति । स यदि ब्रूयाद्य एने देवादयो ब्रह्मणो दृष्टान्ता उपात्तास्ते दार्ष्टान्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति, शरीरमेव ह्यचेतनं देवादीनां शरीरान्तरादिविभूत्युत्पादेन उपादानं न तु चेतन आत्मा, तन्तुनाभस्य च क्षुद्रतरजन्तुभक्षणालाला कठिनतामापद्यमाना तन्तुर्भवति । बलाका च स्तनयित्नुवरश्रवणाद्गर्भं धत्ते । पद्मिनी च चेतनप्रयुक्ता सत्यचेतनेनैव शरीरेण सरोन्तरात्सरोन्तरमुपसर्पति वल्लीव वृक्षं, नतु स्वयमेवाचेतना सरोन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते, तस्मान्नैते ब्रह्मणो दृष्टान्ता इति । त प्रति ब्रूयान्नाय दोषः कुन्नालादि-दृष्टान्तवैलक्षण्यमात्रस्य विवक्षितत्वादिति । यथा हि कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुलालादयः कार्यारम्भे बाह्य साधनमपेक्षन्ते न देवादयः, तथा ब्रह्म चेतनमपि न बाह्यं साधनमपेक्षिष्यत इत्येतावद्द्वयं देवाद्युदाहरणेन विवक्ष्यामः । तस्माद्यथैकस्य सामर्थ्यं दृष्टं तथा सर्वेषामेव भवितुमर्हतीति नास्त्येकान्त इत्यभिप्रायः ।

यह क्षीर का दृष्टान्त अचेतन कारण के लिए ठीक है । और अचेतन क्षीरादि को बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना दधि आदि रूपता की प्राप्ति उपपन्न हो सकती है, क्योंकि यह ऐसा देखा जाता है । परन्तु चेतन कुलालादि तो साधन सामग्री की अपेक्षा करके ही तत्तत् कार्यों के लिए प्रवृत्त होते हुए देखे जाते हैं । तो फिर चेतन होता हुआ ब्रह्म सहाय रहित होकर कार्य के लिए कैसे प्रवृत्त होगा ? उत्तर है कि देवादि के समान सहाय रहित होते हुए भी कार्य के लिए प्रवृत्त होगा । जैसे कि ( लोकयते ज्ञायतेऽनेनेति लोक शास्त्रम् ) जिससे अर्थ का ज्ञान हो उस शास्त्र को लोक कहते हैं । उस शास्त्रादि रूप लोक में देव पितर ऋषि इत्यादि महाप्रभाव वाले चेतन भी होते बाह्य किसी साधन की अपेक्षा किए बिना ही ऐश्वर्यविशेष के सम्बन्ध से और केवल अभिध्यान ( सकल्प ) द्वारा स्वयं आप ही नाना आकार वाले बहुत शरीर और प्रसाद ( सहल ) और रथादि का निर्माण करने वाले मन्त्र अर्थवाद इतिहास और पुराणादि की प्रमाणात् से उपलब्ध ज्ञात होते हैं । और मकड़ा किसी साधन के बिना स्वयं तन्तु को रचता है, बलाका शुक्र ( वीर्य ) के बिना गर्भ का धारण करती है, पद्मिनी किसी गमन साधन की अपेक्षा किये

बिना एक तालाव से अन्य तालाव मे जाती है इसी प्रकार चेतन भी ब्रह्म बाह्य साधन की अपेक्षा किये बिना स्वत आप ही जगत की सृष्टि करेगा । यहाँ पूर्वपक्षी यदि कहे कि जो ये देवादि ब्रह्म के दृष्टान्त उपात्त ( गृहीत ) हुए हैं, वे दार्ष्टान्तिक ब्रह्म के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि उन देवादि के अचेतन शरीर ही शरीरान्तरादि रूप विभूति के उत्पादन मे उपादान का कारण होता है, चेतन आत्मा उपादान कारण नहीं होता है । और तन्तुनाभ ( मकडा ) क्षुद्र प्राणी का भक्षण करता है उससे जन्म उसका लार कठिनता को प्राप्त करके तन्तु होता है । बलाका मेघ के शब्द को सुनकर गर्भ धारण करती है, और पद्मिनी चेतन से प्रयुक्त ( प्रेरित ) होकर अचेतन शरीर से ही एक तालाव से दूसरे तालाव मे जाती है, जैसे कि लता एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाती है । अचेतना पद्मिनी स्वयं दूसरे तालाव मे गमनार्थक व्यापार नहीं करती है । इसलिये ये ब्रह्म के दृष्टान्त नहीं हैं । इस प्रकार कहनेवाले पूर्वपक्षी के प्रति कहना चाहिये कि यह दोष नहीं है । क्योंकि कुलालादि दृष्टान्त से विलक्षणता देवादि दृष्टान्त मे विवक्षित है कि जैसे कुलालादि और देवादि का चेतनत्व तुल्य है तो भी कुलालादि कार्य के आरम्भ मे ब्रह्म साधन की अपेक्षा करते है, और देवादि बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं करते हैं, इस प्रकार देवादि के समान चेतन ब्रह्म भी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं करेगा । यह इतना ही अर्थ हम देवादि के उदाहरण द्वारा कहना चाहते हैं । इससे जैसा एक का सामर्थ्य देखा गया है वैसा ही सब का होना चाहिए यह नियम नहीं है, यह तात्पर्य है ॥ २६ ॥

### कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरण ॥ ९ ॥

न युक्तो युज्यते वास्य परिणामो न युज्यते । कात्स्न्याद्ब्रह्मानित्यताप्तेरज्ञान्सावयवं भवेत् ॥  
मायाभिर्बहु रूपत्वं न कात्स्न्यान्नापि भागतः । युक्तोऽनवयवस्यापि परिणामोऽत्र मायिकः ॥

निरवयव ब्रह्म का क्षीर तुल्य परिणाम मानने पर ब्रह्म स्वरूप मात्र की अनित्य जगत रूपता की प्राप्ति होगी, अवयव द्वारा परिणाम मानने पर ब्रह्म को निरवयव कहने वाली श्रुति से विरोध होगा । यहाँ सशय है कि ब्रह्म का परिणाम होना अयुक्त है, अथवा युक्त ? पूर्वपक्ष है कि सपूर्ण ब्रह्म के परिणाम से अनित्यता की प्राप्ति होगी, और अंश के परिणाम होने पर ब्रह्म सावयव होगा, इससे ब्रह्म का परिणाम युक्त नहीं है । सिद्धान्त है कि ब्रह्म को मायाशक्ति से बहु रूपत्व है न कृत्स्न स्वरूप से और न भाग ( अंश ) है । और यहाँ निरवयव का भी मायिक परिणाम युक्त है ।

### कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥

चेतनमेकमद्वितीयं ब्रह्म क्षीरादिवहेवादिविज्ञानपेद्य बाह्यसाधनं स्वयं परिणममान जगतः कारणमिति स्थितम् , शास्त्रार्थपरिशुद्धये तु पुनराक्षिपति—  
कृत्स्नप्रसक्तिः, कृत्स्नस्य ब्रह्मणः कार्यरूपेण परिणामः प्राप्नोति, निरवयवत्वान् ।  
यदि ब्रह्म पृथिव्यादिवत्सावयवमभविष्यत्ततोऽस्यैकदेशः पर्यणस्यदेकदेशश्चा-  
वास्थास्यत् , निरवयवं तु ब्रह्म श्रुतिभ्योऽवगम्यते—'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं

निरवद्यं निरञ्जनम्' (श्वे० ६।१६), 'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः' (मु० २।१।२), 'इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव' (बृ० २।४।१२), 'स एष नेति नेत्यात्मा' (बृ० ३।६।२६), 'अस्थूलमनणु' (बृ० ३।८।८) इत्याद्याभ्यः सर्वविशेषप्रतिषेधिनीभ्यः । ततश्चैकदेशपरिणामासम्भवात्कृत्स्नपरिणामप्रसक्तौ सत्यां मूलोच्छेदः प्रसज्येत । द्रष्टव्यतोपदेशानर्थक्यं चापन्नमयन्नदृष्टत्वात्कार्यस्य, तद्व्यतिरिक्तस्य च ब्रह्मणोऽसम्भवात्, अजत्वादिशब्दकोपश्च । अथैतद्वापपरिजिहीर्षया सावयवमेव ब्रह्माभ्युपगम्येत, तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दा उदाहृतास्ते प्रकुप्येयुः । सावयवत्वे चानित्यत्वप्रसङ्ग इति सर्वथायं पक्षो न घटयितुं शक्यत इत्याक्षिपति ॥ २६ ॥

एक अद्वैत चेतन ब्रह्म क्षीरादि और देवादि के समान बाह्य साधन की अपेक्षा किये बिना स्वय परिणत होता हुआ जगत् का कारण है, यह स्थित ( निश्चित ) हो चुका है । यहाँ इस शास्त्रार्थ की परिशुद्धि ( परिणाम का निराकरण पूर्वक वितर्क की दृढता ) आदि के लिए फिर आक्षेप करते हैं कि कृत्स्न ब्रह्म की कार्यरूपता की प्राप्ति होगी । अर्थात् ब्रह्म के निरवयव होने से परिणाम मानने पर सम्पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का कार्यरूप से परिणाम प्राप्त होता है । क्योंकि यदि ब्रह्म पृथिवी आदि के समान सावयव साश होता, तो इस ब्रह्म का एकदेश कुछ अवयव जगत रूप परिणामरूपता को प्राप्त होता, और एकदेश कुछ अवयव परिणाम रहित स्थिर रहता । परन्तु श्रुतियो से तो निरवयव ब्रह्म अबगत ( ज्ञात ) होता है कि ( निरवयव निष्क्रिय शान्त निर्दोष निर्मल ब्रह्म है । दिव्य आकार रहित बाहर भीतर एकरस वर्तमान अजन्मा ही वह पुरुष आत्मा है । यह परब्रह्म महा सत्यस्वरूप अनन्त अपार निरन्तर विज्ञान स्वरूप है । यह नहीं वह नहीं इस प्रकार अनात्मा के निषेध से ज्ञेय यह आत्मा है । ब्रह्मात्मा स्थूल अणु से भिन्न है ) सब भेद के प्रतिषेधक श्रुतियो से निरवयव ही आत्मा ब्रह्म समझा जाता है । इससे ब्रह्म के एकदेश के परिणाम के असम्भव से कृत्स्न, सम्पूर्ण, ब्रह्म के परिणाम की प्राप्ति होने पर मूलोच्छेद ( ब्रह्म का विनाश ) की प्राप्ति होगी और ब्रह्म की द्रष्टव्यता का उपदेश की अनर्थकता ( निष्प्रयोजनता ) सिद्ध होगी । क्योंकि कार्यरूपता को प्राप्त ब्रह्म यन्न के बिना ही दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) है, और उस कार्य से भिन्न ब्रह्म का असम्भव ( अभाव ) है और ब्रह्म का परिणामरूप से जन्म मानने पर ब्रह्म के अजत्व ( जन्म रहितत्व ) आदि के बोधक जो शब्द ( श्रुति ) हैं, उनसे विरोध होगा, उनका बाध होगा । और यदि इस दोष का परिहार की इच्छा से सावयव ही ब्रह्म को मानो, तो भी जो निरवयवत्व के प्रतिपादक शब्द प्रथम उदाहृत हुए हैं उदाहरणरूप कहे गये हैं, वे सब प्रकृत विरुद्ध होंगे । और सावयवत्व होने पर अनित्यता की प्राप्ति होगी इससे यह पक्ष सर्वथा संघटित युक्त नहीं हो सकता है । इस प्रकार पूर्वपक्षी आक्षेप करता है ॥ २६ ॥

## श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ॥ २७ ॥

तुशब्देनाक्षेपं परिहरति । न खल्वस्मत्पक्षे कश्चिदपि दोषोऽस्ति । न तावत्कृत्स्नप्रसक्तिरस्ति । कुतः ? श्रुतेः । यथैव हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः श्रूयत एवं विकारव्यतिरेकेणापि ब्रह्मणोऽवस्थानं श्रूयते, प्रकृतिविकारयार्भेदेन व्यपदेशात् 'सेयं देवतैक्षत हन्ताहभिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छां० ६।३।२ ) इति,

तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः ।

पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥

( छां० ३।१।६ ) इति चैवंजातीयकात् । तथा हृदयायतनत्ववचनात्सत्सम्पत्तिवचनाच्च । यदि च कृत्स्नं ब्रह्म कार्यभावेनोपयुक्तं स्यात् 'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति' ( छां० ६।८।१ ) इति सुषुप्तिगतं विशेषणमनुपपन्नं स्यात्, विकृतेन ब्रह्मणा नित्यं सम्पन्नत्वादविकृतस्य च ब्रह्मणोऽभावात्, तथेन्द्रियगोचरत्वप्रतिषेधाद्ब्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रियगोचरत्वोपपत्तेः, तस्मादस्त्यविकृतं ब्रह्मा । न च निरवयवत्वशब्दकोपोऽस्ति, श्रूयमाणत्वादेव निरवयवत्वस्याप्यभ्युपगम्यमानत्वात् । शब्दमूलं च ब्रह्म शब्दप्रमाणकं नेन्द्रियादिप्रमाणकं तद्यथाशब्दमभ्युपगन्तव्यम् । शब्दश्चोभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्यकृत्स्नप्रसक्तिरनिरवयवत्वं च । लौकिकानामपि मणिमन्त्रौग्धिप्रभृतीनां देशकालनिमित्तवैचित्र्यवशाच्छक्तयो विरुद्धानेकार्यविषया दृश्यन्ते, ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तर्केणावगन्तुं शक्यन्तेऽस्य वस्तुन एतावत्य एतत्सहाया एतद्विषया एतत्प्रयोजनाश्च शक्तय इति । किमुताचिन्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणो रूपं विना शब्देन न निरूप्येत ।

सूत्रगत 'तु' शब्द से आक्षेप का परिहार करते हैं कि हमारे पक्ष में कोई भी दोष नहीं है, यह निश्चित बात है । वहाँ प्रथम सम्पूर्ण ब्रह्म को कार्यरूपता की प्राप्ति रूप दोष नहीं है, क्योंकि श्रुति से दोषरहित ब्रह्म समझा जाता है, जिससे जिस प्रकार ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति सुनी जाती है, इसी प्रकार विकार के बिना ब्रह्म की अवस्थिति सुनी जाती है, क्योंकि प्रकृति और विकार का भेदपूर्वक व्यपदेश ( व्यवहार कथन ) किया गया है कि ( उस परब्रह्म देव ने सोचा विचारा कि मैं इस समय इस जीवात्मा रूप से इन तेज आदि रूप तीनों देवों में अनुप्रवेश करके नाम रूप का विस्तार करूँगा । उतनी इसकी महिमा है, पुरुष उससे बहुत बड़ा है । इसके एक पादरूप सब भूत हैं, इसके त्रिपाद अमृत स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप में स्थित है ) इस प्रकार के व्यपदेश से प्रकृति और विकार का भेद कहा गया है । इसी प्रकार ब्रह्म को हृदयरूप आयतन वाला कहा गया है । और सुषुप्ति में सत् की सम्पत्ति कही गई है । इससे भी विकार से भिन्न ब्रह्म सिद्ध होता है । और यदि सम्पूर्ण ब्रह्म कार्यरूप से उपयुक्त ( समास )



हो गया हो तो ( हे सोम्य ! उस सुषुप्ति काल में जीवात्मा सत ब्रह्म के साथ एक होता है ) इस प्रकार सुषुप्तिगत विशेषण अनुपपन्न होगा, क्योंकि विकृत ब्रह्म के साथ नित्य ( सदा ) सम्पन्न ( मिलित ) रहने से और विकाररहित ब्रह्म के अभाव से सुषुप्ति में सम्पन्न होना उपपन्न ( सिद्ध ) नहीं हो सकता है । और इसी प्रकार ब्रह्म को इन्द्रिय विषयता का प्रतिषेध है, और विकार की इन्द्रिय विषयता सिद्ध है, जिससे विकार से अन्य अविकृत ब्रह्म है । और निरवयवत्व शब्द का भी बाध (विरोध) नहीं है, क्योंकि श्रुति में श्रूयमाण होने ही से निरवयवत्व का भी स्वीकार किया जाता है । और शब्द-मूलक ब्रह्म है । अर्थात् शब्दप्रमाणक ( शब्द प्रमाण से ज्ञेय ) है । इन्द्रिय प्रमाणक ब्रह्म नहीं है । इन्द्रियो से नहीं जाना जाता है, इससे शब्द के अनुसार ब्रह्म स्वीकार के योग्य है । शब्दरूप प्रमाण, ब्रह्म के अकृत्स्न प्रसक्ति ( सम्पूर्ण ब्रह्म की विकारता की अप्रप्ति ) और निरवयवत्व इन दोनों का प्रतिपादन करता है । लौकिक मणि मन्त्र औषधादि की भी देश-काल और निमित्त की विचित्रतावश से विरुद्ध अनेक कार्य-विषयक शक्तियाँ देखी जाती है । यहाँ वे शक्तियाँ भी प्राथमिक उपदेश के बिना केवल तर्क से नहीं समझी जा सकती हैं कि इस वस्तु की इतनी इस सहायकवाली एतद्विषयक और इस प्रयोगवाली शक्तियाँ हैं । ऐसा होने पर यदि अचिन्त्य प्रभाव वाला ब्रह्म का रूप ( स्वरूप ) श्रुति के बिना नहीं निरूपित हो सके तो इसमें आश्चर्य क्या है और क्या कहना है ?

तथाचाहुः पौराणिकाः—

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् ।

प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥ इति ॥

तस्माच्छब्दमूल एवातीन्द्रियार्थयाथात्म्याधिगमः ।

ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः प्रत्याययितुं निरवयवं च ब्रह्म परिणमते नच कृत्स्नमिति । यदि निरवयवं ब्रह्म स्यान्नैव परिणमेत । कृत्स्नमेव वा परिणमेत । अथ केनचिद्रूपेण परिणमेत केनचिच्चावतिष्ठेतेति रूप-भेदकल्पनात्सावयवमेव प्रसज्येत । क्रियाविषये हि 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति' 'नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति' इत्येवजातीयकायां विरोधप्रतीतावपि विकल्पा-श्रयणं विरोधपरिहारकारणं भवति पुरुषतन्त्रत्वाच्चानुष्ठानस्य । इह तु विकल्पा-श्रयणेनापि न विरोधपरिहारः सम्भवत्यपुरुषतन्त्रत्वाद्ब्रह्मस्तुनः तस्माद्दुर्घट-मेतदिति ।

इसी प्रकार पौराणिक भी कहते हैं कि जो पदार्थ अचिन्त्य हैं, उनको तर्क से निषेध नहीं करे । जो प्रकृतियों प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु स्वभावो, से पर विलक्षण है, वही शास्त्र से ज्ञेय अचिन्त्य का स्वरूप है । इससे शब्दमूलक ही अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान ( यथार्थ अनुभव ) होता है, अन्यथा नहीं । यहाँ शका होती है कि शब्द भी

विरुद्ध अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता है कि निरवयव ब्रह्म परिणत विकृत होता है, परन्तु सम्पूर्ण नहीं परिणत होता है, इत्यादि। क्योंकि शब्दजन्य बोध में भी योग्यता कारण होता है, अयोग्य अर्थ का शब्द से भी नहीं ज्ञान होता है। इससे यदि निरवयव ब्रह्म होगा, तो परिणत ( परिणामी ) नहीं होगा, अथवा सम्पूर्ण परिणत होगा। यदि किसी रूप से परिणत होगा, और किसी रूप से स्थिर रहेगा तो सावयव ही प्रसक्त होगा, रूपभेद की कल्पना से अवयव वाला सिद्ध होगा। एक ब्रह्म में सावयवता निरवयवता का विकल्प मान नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रिया के विषय में ( अतिरात्र याग में षोडशियात्र का ग्रहण करे। अतिरात्र में षोडशिका का ग्रहण नहीं करे ) इस प्रकार के विरोध की प्रतीति होने पर विकल्प का आश्रयण विरोध के परिहार का कारण होता है, जिससे अनुष्ठान ( कर्म ) पुरुष के अधीन है और यहाँ विकल्प आश्रयण से भी विरोध परिहार का सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तु में पुरुषाधीनता नहीं है। इसलिये ब्रह्म का कारणत्व दुर्घट है।

नैष दोषः। अविद्याकल्पितरूपभेदाभ्युपगमात्। नह्यविद्याकल्पितेन रूपभेदेन सावयवं वस्तु संपद्यते। नहि तिमिरोपहतनयनेनानेक इव चन्द्रमा दृश्यमानोऽनेक एव भवति। अविद्याकल्पितेन च नामरूपलक्षणोऽन्येन रूपभेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयेन ब्रह्म परिणामादिसर्वव्यवहारारूपदत्वं प्रतिपद्यते। परिमार्थिकेन च रूपेण सर्वव्यवहारातीतमपरिणतमवतिष्ठते। वाचारम्भणमात्रत्वाच्चाविद्याकल्पितस्य नामरूपभेदस्येति न निरवयवत्वं ब्रह्मणः कुप्यति। नचेय परिणामश्रुतिः परिणामप्रतिपादनार्था, तत्प्रतिपत्तौ फलानवगमात्। सर्वव्यवहारहीनब्रह्मात्मभावप्रतिपादनार्था त्वेषा, तत्प्रतिपत्तौ फलानवगमात्। 'स एष नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्याह—'अभयं वै जनकं प्राप्नोऽसि' ( बृ० ४।२।४ ) इति। तस्मादस्मत्पक्षे न कश्चिदपि दोषप्रसङ्गोऽस्ति ॥ २७ ॥

शंका का उत्तर है कि यह दुर्घटता रूप दोष नहीं है। क्योंकि अविद्या कल्पित ( सिद्ध ) ब्रह्म के रूपभेद का स्वीकार किया जाता है। अविद्या कल्पित रूपभेद से ब्रह्मस्वरूपवस्तु वस्तुतः सावयव नहीं सिद्ध होती है, जिससे तिमिररूप दोष से उपहत दूषित नेत्र से अनेक के समान दीखता हुआ भी चन्द्रमा वस्तुतः अनेक ही नहीं हो जाता है। और अविद्या से परिकल्पित तत्त्व अन्यत्व ( सत्त्व असत्त्व ) रूप से अनिर्वचनीय व्याकृत अव्याकृत स्वरूप नामरूपात्मक रूपभेद से परिणामादि सब व्यवहारों के आश्रयत्व को ब्रह्म प्राप्त होता है। एवं पारमार्थिक स्वरूप से सब व्यवहारों से रहित परिणामरहित स्थिर रहता है, और अविद्या से परिकल्पित नामरूपात्मक भेद के वाचारम्भण मात्र होने से ब्रह्म का निरवयवत्व विरुद्ध नहीं होता है। जो यह परिणाम विषयक श्रुति है, वह परिणाम का निरूपण के लिए नहीं है, किन्तु अविद्यादि से सिद्ध सृष्टि का

अनुवाद रूप है। क्योंकि उसके ज्ञान में किसी फल का अवगम (अनुभव) नहीं होता है, अर्थात् परिणाम के ज्ञान से फल की प्राप्ति नहीं होती है। अतः यह श्रुति सब व्यवहार से रहित ब्रह्मात्मभाव का प्रतिपादन के लिए है, जिससे उस ब्रह्मात्मभाव के ज्ञान में फल का अवगम (अनुभव लाभ) होता है (वह आत्मा यह नहीं वह नहीं) इस प्रकार आरम्भ करके (हे जनक ! तुम निश्चय अभय ब्रह्म को प्राप्त हो) इससे हमारे पक्ष में कोई दोष का प्रसङ्ग नहीं है ॥ २७ ॥

### आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥

अपि च नैवात्र विवदितव्यं कथमेकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूपानुपमर्देनैवानेकाकारा सृष्टिः स्यादिति. यत् आत्मन्यप्येकस्मिन् स्वप्नदृशि स्वरूपानुपमर्देनैवानेकाकारा सृष्टिः पठ्यते—‘न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः मृजते’ (बृ० ४।३।१०) इत्यादिना। लोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वरूपानुपमर्देनैव विचित्रा हस्त्यश्वादिस्मृष्टयो दृश्यन्ते, तथेकस्मिन्नपि ब्रह्मणि स्वरूपानुपमर्देनैवानेकाकारा सृष्टिर्भविष्यतीति ॥ २८ ॥

दूसरी बात यह है कि इस अर्थ विषयक विवाद कभी नहीं करना चाहिये कि एक ब्रह्म में स्वरूप के उपमर्द (नाश) के हुए बिना ही अनेक आकार वाली सृष्टि कैसे होगी ? इत्यादि। जिससे स्वप्नद्रष्टा एक आत्मा में भी स्वरूप के नाश हुए बिना ही अनेक आकार वाली सृष्टि पढी जाती है कि (उस स्वप्न में रथ-रथ जुटने वाले अश्वादि और मार्ग नहीं रहते हैं किन्तु स्वप्नद्रष्टा रथादि की सृष्टि करता है) इत्यादि श्रुतियों से आत्मा में सृष्टि पढी गई है और लोक में भी देव आदि में और मायावी आदि में स्वरूप के नाश हुए बिना ही विचित्र हस्ती अश्व आदि की सृष्टि देखी जाती है। इसी प्रकार एक ब्रह्म में भी स्वरूप के नाश हुए बिना ही अनेक आकार वाली सृष्टि होगी ॥ २८ ॥

### स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९ ॥

परेषामप्येषः समान' स्वपक्षे दोषः, प्रधानवादिनोऽपि हि निरवयवमपरिच्छिन्नं शब्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य करणमिति स्वपक्षः, तत्रापि कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवत्वात्प्रधानस्य प्राप्नोति निरवयवत्वाभ्युपगमकोपो वा। ननु नैव तैर्निरवयवं प्रधानमभ्युपगम्यते, सत्त्वरजस्तमांसि हि त्रयो गुणा नित्यास्तेषां साम्यावस्था प्रधानं तैरेवावयवैस्तत्सावयवमिति। नैवंजातीयकेन सावयवत्वेन प्रकृतो दोषः परिहर्तुं पार्यते यतः सत्त्वरजस्तमसामप्येकैकस्य समान निरवयवत्वम्, एकैकमेव चैतद्रथानुगृहीतं सजातीयस्य प्रपञ्चस्योपादानमिति समानत्वात्स्वपक्षदोषप्रसङ्गस्य। तर्काप्रतिष्ठानात्सावयवत्वमेवेति चेत्? एवमप्यनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गः। अथ शक्तय एव कार्यवैचित्र्यसूचिता अवयवा इत्यभिप्रायः, तास्तु ब्रह्मवादिनोऽप्यविशिष्टाः, तथापुनवादिनोऽप्यगुरवन्तरेण संयुज्यमानो निरवयवत्वाद्यदि कात्स्न्येन संयुज्येत ततः

प्रथमानुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसङ्गः । अथैकदेशेन संयुज्येत तथापि निरवयवत्वाभ्युपगमकोप इति स्वपक्षेऽपि समान एष दोषः । समानत्वाच्च नान्यतरस्मिन्नेव पक्षे उपपत्तेरन्यो भवति । परिहृतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोषः ॥ २६ ॥

परवादियो के अपने पक्ष में भी यह पूर्वोक्त दोष तुल्य है, क्योंकि प्रधानवादी का भी अपना पक्ष है कि निरवयव अपरिच्छिन्न ( विभु ) शब्दादिरहित प्रधान, सावयव परिच्छिन्न शब्दादि वाले कार्यों का कारण है । वहाँ भी प्रधान के निरवयव होने से सम्पूर्ण प्रधान को कार्यरूपता की प्राप्ति होती है । अथवा प्रधान की निरवयवता के स्वीकार का बाध होता है । यहाँ शंका होती है कि प्रधानवादी तो प्रधान को निरवयव ही नहीं मानते हैं, जिससे सत्त्व, रजः और तम' ये तीन नित्य गुण हैं, और उन गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान है, वह उन गुणों से ही सावयव है । उत्तर है कि इस प्रकार सावयवता से प्रकृत दोष का परिहार नहीं किया जा सकता है, जिससे सत्त्व, रज तम में भी प्रत्येक को निरवयवत्व तुल्य है । और इतर दो गुण से अनुगृहीत सहकृत होकर एक ही गुण सजातीय प्रपञ्च का उपादान है । इससे स्वपक्ष में उक्त दोष का प्रसंग की समानता है । यदि कहो कि गुणों में निरवयवत्व के साधक तर्कों के अप्रतिष्ठित होने से गुणों की सावयवता ही है, इससे एकदेश द्वारा परिणाम होगा और एकदेश स्थिर रहेंगे सम्पूर्ण को कार्यरूपता की प्राप्तिरूप दोष नहीं होगा, तो इस प्रकार मानने पर अनित्यत्वादि दोष की प्राप्ति होगी, अर्थात् सावयव होने पर अनित्य होंगे और मूलकारण नहीं हो सकेंगे । यदि कहो कि गुणों के अवयव नहीं हैं कि जिससे अनित्यत्वादि दोष हो किन्तु कार्य की विचित्रता से सूचित ( अनुमित ) शक्तियाँ ही अवयव हैं ऐसा अभिप्राय है, तो वे शक्तियाँ तो ब्रह्मवादी को भी तुल्य हैं, शक्ति से ब्रह्म सावयव तुल्य होता है । इसी प्रकार अणुवादी के अणु भी दूसरे अणु के साथ संयुक्त होता हुआ निरवयवता के कारण यदि सम्पूर्ण रूप से संयुक्त होगा, तो प्रथमा ( पृथुत्व अधिक परिमाण ) की अनुपपत्ति असिद्धि से कार्यों में अणुमात्रता की प्राप्ति होगी । और यदि एकदेश द्वारा संयुक्त होगा तो भी सावयवता की प्राप्ति से निरवयवत्व स्वीकार का बोध होगा । इस प्रकार स्वपक्ष में भी समान ही यह दोष है । और समान होने से दोनों में से किसी एक पक्ष में उपक्षेप ( फेकने ) के योग्य दोष नहीं होता है । और ब्रह्मवादी तो अपने पक्ष में दोष का परिहार कर चुके हैं ॥ २९ ॥

### सर्वोपेताधिकरण ॥ १० ॥

नाशरीरस्य मायाऽस्ति यदि वाऽस्ति न विद्यते ।

ये हि मायाविनो लोके ते सर्वेऽपि शरीरिणः ॥ १ ॥

बाह्यहेतुमृते यद्ब्रह्ममायया कार्यकारिता ।

ऋतेऽपि देहे मायैवं ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः ॥ २ ॥

शास्त्र के देखने से सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वशक्तियुक्त है तो भी संशय होता कि शरीरादिरहित परमात्मा की माया शक्ति है अथवा नहीं ? पूर्वपक्ष है कि

परमात्मा मे माया शक्ति नहीं है, क्योंकि लोक मे जो मायावी होते है, वे सब शरीरी होते हैं, और परमात्मा शरीरी नहीं है। सिद्धान्त है कि जैसे बाह्य साधन के बिना मायावी देवादि मे कार्य को कर्तृता होती है, जैसे ही ब्रह्म मे देह के बिना श्रुति प्रमाण से माया सिद्ध होती है ॥ १२ ॥

### सर्वोपेता च तद्दर्शनात् ॥ ३० ॥

एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्यते विचित्रो विकारप्रपञ्च इत्युक्तम्, तत्पुनः कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुक्त परं ब्रह्मेति, तदुच्यते—सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। सर्वशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यभ्युपगन्तव्यम्। कुनः? तद्दर्शनात्। तथाहि दर्शयति श्रुतिः सर्वशक्तियोगं परस्या देवतायाः—‘सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर’ ( छ्वा० ३।१।४।१ ), ‘सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः’ ( छ्वा० ८।७।१ ), ‘य सर्वज्ञः सर्ववित्’ ( मुण्ड० १।१।६ ) ‘एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः’ ( बृ० ३।८।६ ) इत्येवजातीयका ॥ ३० ॥

एक ब्रह्म का भी विचित्र शक्ति के सम्बन्ध से विचित्र विकार का विस्तार सिद्ध होता है, यह प्रथम कहा गया है। वहाँ शका होती है कि विचित्र शक्ति युक्त ब्रह्म है, वह कैसे अवगत ( ज्ञात ) होता है। इसका समाधान है कि वह सर्वशक्ति से युक्त है, वह शास्त्र के देखने से ज्ञात होता है। अर्थात् सर्वशक्तियुक्त परा ( उत्तमा ) देवता रूप परमात्मा है, इस प्रकार समझना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही देवता शास्त्र के देखने से ज्ञात होता है, इस प्रकार ही परदेवता के सर्वशक्ति सम्बन्ध को श्रुति दिखाती है कि ( परमात्मा सर्व कर्म वाला सर्व जगत् का कर्ता है। और दोषरहित सब काम इच्छावाला है, सर्वसुखद गन्ध और रस वाला है, और इस सब जगत् को सर्वथा व्याप्त किया है। तथा वागादि इन्द्रिय शून्य और निष्काम है। सत्यकाम और सत्य सकल्प वाला है जो सर्वज्ञ सर्ववेत्ता है। हे गागि ! इसी अविनाशी परमात्मा के शासन मे सूर्य और चन्द्रमा विशेष वारण युक्त वर्तमान हैं। इस प्रकार की श्रुतियाँ परमात्मा मे सर्वशक्ति दिखाती है ॥ ३० ॥

### विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम् ॥ ३१ ॥

स्यादेतत्, विकरणां परां देवतां शास्त्रिणः शक्यम्—‘अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनाः’ ( बृ० ३।६।८ ) इत्येवजातीयकम्, कथं सा सर्वशक्तियुक्तापि सती कार्याय प्रभवेत्, देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त आध्यात्मिक-कार्यकरणसम्पन्ना एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते, कथं च ‘नेति नेति’ ( बृ० ३।६।२६ ) इति प्रतिषिद्धसर्वविशेषाया देवतायाः सर्वशक्तियोगः सम्भवेदिति चेत् !

यदत्र वक्तव्यं तत्पुरस्तादेवोक्तम् । श्रुत्यवगाह्यमेवेदमतिगम्भीरं ब्रह्म न तर्कावगाह्यम् । न च यथैकस्य सामर्थ्यं दृष्टं तथान्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्तीति प्रतिषिद्धसर्वविशेषस्यापि ब्रह्मणः सर्वशक्तियोगः सम्भवतीत्येवमदप्यविद्याकल्पितरूपभेदोपन्यासेनोक्तमेव । तथा च शास्त्रम्— ‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः’ ( श्वे० ३।१६ ) इत्यकरणस्यापि ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्ययोगं दर्शयति ॥ ३१ ॥

शका होती है कि पूर्व कथित रीति से परमात्मा को यह सर्वशक्तियुक्तत्व ही, वह भी करण रहित परा देवता का उपदेश शास्त्र करता है कि ( वह नेत्ररहित, श्रोत्ररहित, वाक् और मन रहित है ) इत्यादि । वहाँ सशय होता है कि सर्वशक्तियुक्त होते हुए भी वह देवता कार्य के लिए कैसे समर्थ होगा ? क्योंकि चेतन देवादि सर्वशक्तियुक्त होते हुए भी आध्यात्मिक ( अपने ) कार्य करण ( शरीरेन्द्रिय ) से सम्पन्न युक्त हो करके ही तत्तत् कार्यों के लिए समर्थ समझे जाते हैं और नेति-नेति इस श्रुति से जिसके सब विशेष भेदादि निषिद्ध है, उस देवता को सर्वशक्ति का सम्बन्ध कैसे सम्भव हो सकता है ? यदि ऐसा कोई कहे । तो उसका उत्तर है कि जो इस विषय के वक्तव्य का उत्तर है, वह प्रथम ही कहा जा चुका है कि यह अति गम्भीर ब्रह्म तत्त्व श्रुति से अवगाहन ( अन्वेषण-थाह पाने-योग्य-समझने योग्य ) है, केवल तर्क से समझने योग्य नहीं है । और जैसा एक किसी का सामर्थ्य देखा गया है, वैसा ही अन्य का भी सामर्थ्य होना चाहिये, यह नियम नहीं है । इससे प्रतिषिद्ध सर्व विशेष वाला ब्रह्म को भी सर्व शक्ति के साथ सम्बन्ध का सम्भव है, वह भी अविद्या कल्पित रूप भेद के कथन से ही यह कहा जा चुका ही है और इसी प्रकार शास्त्र भी करण रहित भी ब्रह्म का सर्व सामर्थ्य के साथ सम्बन्ध दिखाता है कि ( हाथ रहित ग्रहण कर्ता, पैर रहित वेग से गमन कर्ता, नेत्र रहित द्रष्टा, कान रहित श्रोता परमात्मा है ) । इत्यादि ॥ ३१ ॥

### प्रयोजनवन्वाधिकरण ॥ ११ ॥

तुसोऽस्त्रष्टाऽथवा स्रष्टा न स्रष्टा फलवाञ्छने ।  
 अतृप्तः स्याद्वाञ्छायामुन्मत्तनरतुह्यता ॥  
 लीलाश्वासवृथाचेष्टा अनुद्दिश्य फलं यतः ।  
 अनुन्मत्तैर्विरच्यन्ते तस्मात्तृप्तस्तथा सृजेत् ॥

लोक मे प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, इससे संशय होता है कि नित्यतृप्त ईश्वर जगत का स्रष्टा है, अथवा अन्नष्टा है । पूर्व पक्ष है कि ईश्वर स्रष्टा ( सृष्टि कर्ता ) नहीं है, क्योंकि यदि सृष्टि की इच्छा होगी और उस इच्छा से सृष्टि करे तो अतृप्त सिद्ध होगा, और फलेच्छा के बिना प्रवृत्त होने पर ईश्वर मे उन्मत्ततुह्यता सिद्ध होगी । सिद्धान्त है कि लीला ( क्रीडा ), श्वास-प्रश्वास और व्यर्थ चेष्टा जिससे फल के

उद्देश के बिना उन्माद रहितो से भी स्वाभाविक की जाती है। इससे तृत ईश्वर भी लीला आदि के समान मृष्टि करेगा ॥ १-२ ॥

### न प्रयोजनवत्त्वात् ॥ ३२ ॥

अन्यथा पुनश्चेतनकर्तृत्वं जगत् आक्षिपति, न खलु चेतनः परमात्मेदं जगद्विम्बं विरचयितुमर्हति । कुतः ? प्रयोजनवत्त्वात् प्रवृत्तीनाम् । चेतनो हि लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुषः प्रवर्तमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्प्रवृत्तिमात्मप्रयोजनानुपयोगिनीमारभमाणो दृष्टः किमुत गुरुतरसंरम्भाम् । भवति च लोकप्रसिद्धयनुवादिनी श्रुतिः—‘न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति’ ( बृ० २ ४।४ ) इति । गुरुतरसंरम्भा चेयं प्रवृत्तिर्यदुच्चावचप्रपञ्चं जगद्विम्बं विरचयितव्यम् । यदीयमपि प्रवृत्तिश्चेतनस्य परमात्मन आत्मप्रयोजनोपयोगिनी परिकल्प्येत परितृप्तत्व परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत, प्रयोजनाभावे वा प्रवृत्त्यभावाऽपि स्यात् । अथ चेतनोऽपि सन्नन्मत्तो बुद्धयपराधादन्तरेणैवात्मप्रयोजन प्रवर्तमानो दृष्टस्तथा परमात्मापि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत । तथा सति सर्वज्ञत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत, तस्मादश्लिष्टा चेतनात्सृष्टिरिति ॥ ३२ ॥

चेतन की कर्तृता का पूर्वपक्षी फिर अन्य प्रकार से आक्षेप करता है कि चेतन परमात्मा इस जगत् के विस्तार को विरचने-बनाने के योग्य नहीं है। क्योंकि प्रवृत्तियों को प्रयोजनवत्ता होती है। अर्थात् प्रवृत्ति प्रयोजनवाली होती है, जिससे बुद्धि विवेकपूर्वक कर्म करने वाले कर्म में प्रवृत्त होते हुए चेतन पुरुष लोक में, मन्दोपक्रमा, अल्प आरम्भ वाली, अनायास साध्य भी अपने प्रयोजन ( फल ) में अनुपयोगी प्रवृत्ति को आरम्भ करते हुए नहीं देखे गये हैं। फिर अति गुरु महान् आरम्भ वाली प्रवृत्ति को बुद्धिपूर्वक कार्य कर्ता नहीं आरम्भ करते हैं, इसमें कहना ही क्या है। और इस लोक-प्रसिद्धि का अनुवाद करने वाली श्रुति भी है कि ( अरे मैत्रेयि ! सब के काम प्रयोजन के लिये सब नहीं प्रिय होते हैं किन्तु अपने ही काम के लिये सब प्रिय होते हैं ) और जो अनेक प्रकार के प्रपञ्च युक्त जगत् के विस्तार को विरचित-सिद्ध करना है। यह प्रवृत्ति तो अत्यन्त गुरु संरभ वाली ( अत्यन्त प्रयत्न से साध्य ) है। यदि ऐसी कल्पना की जाय कि यह प्रवृत्ति भी चेतन परमात्मा के अपने प्रयोजन में उपयोग वाली होती है तो परमात्मा का तृप्तत्व बाधित होगा। अथवा प्रयोजन का अभाव होने पर प्रवृत्ति का अभाव भी होगा और जैसे उन्मत्त चेतन भी बुद्धि के अपराध अविवेक रूप दोष से अपने प्रयोजन के बिना भी प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है, वैसे ही परमात्मा भी प्रयोजन के बिना प्रवृत्त होगा, इस प्रकार यदि कहे, तो ऐसा होने पर श्रुति में सुनी

गई परमात्मा की सर्वज्ञता बाधित होगी । अतः चेतन से सृष्टि होना अयुक्त है ॥ ३२ ॥

### लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् ॥ ३३ ॥

तुशब्देनाक्षेपं परिहरति । यथा लोके कस्यचिदाप्तैषणस्य राज्ञो राजामा-  
त्यस्य वा व्यतिरिक्तं किञ्चित्प्रयोजनमभिसन्धाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः  
क्रीडाविहारेषु भवन्ति, यथा चोच्छ्वासप्रश्वासादयोऽनभिसन्धाय बाह्यं किञ्चित्प्र-  
योजनं स्वभावादेव सम्भवन्ति, एवमीश्वरस्याप्यनपेक्ष्य किञ्चित्प्रयोजनान्तरं  
स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति । न हीश्वरस्य प्रयोजनान्तरं  
निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा सम्भवति, नच स्वभावः पर्यनुयोक्तुं शक्यते ।  
यद्यप्यस्माकमियं जगद्विम्बरचना गुरुतरसंरम्भेवाभाति तथापि परमेश्वरस्य  
लीलैव केवलेयं, अपरिमितशक्तित्वात् । यदि नाम लोके लीलास्वपि किञ्चित्-  
त्सूक्ष्मं प्रयोजनमुत्प्रेक्ष्येत तथापि नेवात्र किञ्चित्प्रयोजनमुत्प्रेक्षितं शक्यते,  
आप्तकामश्रुतेः । नाप्यप्रवृत्तिरुन्मत्तप्रवृत्तिर्वा, सृष्टिश्रुतेः, सर्वज्ञत्वश्रुतेश्च । नचेयं  
परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः, अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वात्, ब्रह्मात्म-  
भावप्रतिपादनपरत्वाच्चेत्येतदपि नैव विस्मर्तव्यम् ॥ ३१ ॥

तु शब्द से आक्षेप का परिहार करते हैं कि जैसे लोक में प्राप्त पूर्ण कामना वाले  
किसी राजा की वा राजा के मन्त्री की भिन्न किसी प्रयोजन के अनुसंधान ( चिन्तन )  
के बिना ही क्रीडा रूप विहार के स्थान में केवल लीला रूप प्रवृत्तियाँ होती हैं । और  
बाह्य किसी प्रयोजन के अनुसंधान-चिन्तन के बिना ही उच्छ्वास-प्रश्वासादि जैसे स्वभाव  
( प्रारब्ध ) से होते हैं । इसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजन की अपेक्षा किये बिना माया  
रूप स्वभाव से ही केवल लीला रूप प्रवृत्ति होगी । क्योंकि न्याय वा श्रुति से विचार्य-  
माया ईश्वर के प्रयोजनान्तर नहीं सिद्ध होते हैं, इससे प्रयोजनान्तर का सम्भव नहीं है ।  
और स्वभाव के ऊपर पर्यनुयोग आज्ञा नहीं की जा सकती है । न कहा जा सकता है  
कि ऐसा स्वभाव क्यों है ? और यद्यपि हमें यह जगत् विस्तार की रचना गुरुतर संरम्भ  
( अति कठिन आरम्भ ) वाली के समान भासती है, तथापि परमेश्वर की तो यह केवल  
लीला मात्र ही है, क्योंकि वह अपरिमित शक्ति वाला है । यदि लोक में प्रसिद्ध  
लीलाओं में भी किसी सूक्ष्म प्रयोजन की उत्प्रेक्षा ( संभावना कल्पना ) की जाय, तो भी  
ईश्वरविषयक आप्तकाम श्रुति से यहाँ किसी भी प्रयोजन की उत्प्रेक्षा नहीं की जा  
सकती है और सृष्टि की श्रुति से अप्रवृत्ति भी नहीं कही जा सकती है । सर्वज्ञत्व  
श्रुति से उन्मत्त प्रवृत्ति भी नहीं कही जा सकती है और यह सृष्टिविषयक श्रुति  
परमार्थ विषयक नहीं है । क्योंकि यह अविद्या से कल्पित नाम और रूप के व्यवहार-  
विषयक है, और ब्रह्मात्मभाव के प्रतिपादनपरक है, इस तत्त्व को भी नहीं भूलना  
चाहिये ॥ ३३ ॥



## वैषम्यनैर्घृण्याधिकरण ॥ १२ ॥

वैषम्याद्यापतेन्नो वा सुखदुःखे नृभेदतः ।  
सृजन्निवषम ईश' स्यान्निर्युणश्चोपसंहरन् ॥  
प्राण्यनुष्ठितधर्मादिमपेक्षेशः प्रवर्तते ।  
नातो वैषम्यनैर्घृण्ये संमारस्तु न चादिमान् ॥

प्राणियों के कर्मवासनादि के अनुसार सृष्टि करने से ईश्वर में विषमता-राग, द्वेषादि नहीं है, न निर्घृणता ( निर्दयता-क्रूरता ) है, ऐसा ही शास्त्र भी दिखाता है। सामान्य दृष्टि से सशय होता है कि विषमता आदि दोष ईश्वर में प्राप्त होता है, अथवा नहीं ? पूर्वपक्ष है कि मनुष्यों के भेद से तथा अनेक योनि आदि के भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार के सुख-दुःखादि को रचना हुआ ईश्वर विषम होगा, और सब का उपसंहार-प्रलय करने से क्रूर भी होगा। सिद्धान्त है कि प्राणियों के अनुष्ठित ( आचरित ) धर्मादि की अपेक्षापूर्वक ही ईश्वर प्रवृत्त होता है। इससे विषमता निर्घृणता नहीं है। यदि कहो कि सबसे प्रथम वाली सृष्टि में विषम रचना से विषमता है, तो वह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ससार आदि वाला नहीं है—अनादि है ॥ १-२ ॥

## वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दर्शयति ॥ ३४ ॥

पुनश्च जगज्जन्मादिहेतुत्वमीश्वरस्याक्षिप्यते स्थूणानिखननन्यायेन प्रतिज्ञात-स्यार्थस्य दृढीकरणाय । नेश्वरो जगत् कारणमुपपद्यते । कुतः ? वैषम्यनैर्घृण्य-प्रसङ्गात् । कांश्चिदत्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन्, कांश्चिदत्यन्तदुःखभाजः पश्वादीन्, कांश्चिन्मध्यमभोगभाजो मनुष्यादीनित्येवं विषमां सृष्टिं निर्माणा-स्येश्वरस्य पृथग्जनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः श्रुतिस्मृत्यवधारितस्वच्छत्वादीश्वरस्व-भावविलोपः प्रसज्येत । तथा खलजनैरपि जुगुप्सित निर्घृणत्वमतिक्रूरत्वं दुःख-योगविधानात्सर्वप्रजोपसंहाराच्च प्रसज्येत । तस्माद्वैषम्यनैर्घृण्यप्रसङ्गात्त्रेश्वरः कारणमिति ।

स्थूणानिखनन न्याय से प्रतिज्ञात ईश्वर कारणतावाद को दृढ करने के लिए फिर ईश्वर के जगत् के जन्मादिहेतुत्व का आक्षेप करते हैं कि ईश्वर जगत् का कारण नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कारण होने पर विषमता-क्रूरता की प्राप्ति होती है। जिससे ईश्वर किसी देवादि को अत्यन्त सुखोपभोक्ता करता है। किसी पशु आदि को अत्यन्त दुःखोपभोक्ता करता है। किसी मनुष्य आदि को मध्यम भोगभागी करता है। इससे इस प्रकार की विषमसृष्टि का निर्माण ( रचना ) करते हुए ईश्वर को पृथग्जन ( पामर-नीच ) के समान राग-द्वेष की उपपत्ति ( सिद्धि ) से श्रुति-स्मृति से अवधारित ( निर्णीत-निश्चित ) स्वच्छत्वादि रूप ईश्वर-स्वभाव का विलोप ( अभाव ) प्राप्त होगा। इसी प्रकार दुःख सम्बन्ध का विधान ( साधन ) और सब प्रजा का उपसंहार—नाश से

खल जनो से भी निन्दित निर्घृणत्व-अतिक्रूरत्व प्राप्त होगा । जिससे-वैषम्य—नैर्घृण्य की प्राप्ति से-ईश्वर कारण नहीं है ।

एव प्राप्ते ब्रूमः । वैषम्यनैर्घृण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते । कस्मात् ? सापेक्षत्वात् । यदि हि निरपेक्षः केवल ईश्वरो विषमां सृष्टिं निर्मिमीते स्यातामेतौ दोषौ वैषम्यं नैर्घृण्यं च, न तु निरपेक्षस्य निर्मातृत्वमस्ति, सापेक्षो हीश्वरो विषमां सृष्टिं निर्मिमीते । किमपेक्षत इति चेत् ? धर्माधर्मावपेक्षत इति वदामः । अतः सृज्यमानप्राणिधर्माधर्मापेक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमीश्वरस्यापराधः । ईश्वरस्तु पर्जन्यवद् द्रष्टव्यः । यथाहि पर्जन्यो व्रीहियवादिस्त्रौ साधारणं कारणं भवति, व्रीहियवादिवैषम्ये तु तत्तद्बीजगतान्येवासाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरो देवमनुष्यादिस्त्रौ साधारणं कारणं भवति, देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तद्बीजगतान्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्त्येवमीश्वरः सापेक्षत्वात् वैषम्यनैर्घृण्याभ्यां दुष्यति । कथं पुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीचमध्यमोत्तमं संसारं निर्मिमीत इति । तथा दर्शयति श्रुतिः—‘एष ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमघो निनीषते’ ( कौ० ब्रा० ३।८ ) इति । ‘पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन’ ( बृ० ३।२।१३ ) इति च । स्मृतिरपि प्राणिकर्मविशेषातेक्षमेवेश्वरस्यानुग्रहीतृत्वं निग्रहीतृत्वं च दर्शयति—‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्’ ( भ० गी० ४।११ ) इत्येवंजातीयका ॥ ३४ ॥

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि विषमता-निर्घृणता ईश्वर को नहीं प्राप्त होती है । क्योंकि ईश्वर को सापेक्षता है । यदि कर्मादि निरपेक्ष केवल ईश्वर विषम सृष्टि का निर्माण करता, तो ये वैषम्य और नैर्घृण्यरूप दोनो दोष होते, परन्तु निरपेक्ष ईश्वर को निर्माणकर्तृत्व नहीं है, सापेक्ष ही ईश्वर विषमसृष्टि का निर्माण करता है । यदि कहो कि ईश्वर किसकी अपेक्षा करता है ? तो उत्तर है कि धर्म और अधर्म की । इससे सृज्यमान ( रचे जाते हुए ) प्राणियों के धर्माधर्म की अपेक्षा से विषम सृष्टि होती है, यह ईश्वर का अपराध नहीं है । सृष्टि में ईश्वर पर्जन्य ( मेघ ) के समान साधारण कारण है ऐसा समझना चाहिए कि व्रीहि-यव आदि की सृष्टि में जैसे मेघ साधारण कारण होता है और व्रीहि-यवादि की विषमता में तो तत्तद् बीजगत असाधारण विशेष सामर्थ्य ही कारण होते हैं, इसी प्रकार देव-मनुष्यादि की सृष्टि में ईश्वर साधारण कारण होता है । देवादि की विषमता में तो तत्तद् जीवगत असाधारण कर्म ही कारण होते हैं । इस प्रकार सापेक्ष होने से वैषम्य और नैर्घृण्य से ईश्वर दूषित नहीं होता है । यदि कहो कि कैसे समझा जा सकता है कि धर्मादि सापेक्ष ईश्वर नीच मध्यम और उत्तम संसार की रचना करता है ? तो कहा जाता है कि श्रुति ही इस अर्थ को दिखाती है कि ( यह परमात्मा ही जिसको इन लोकों से ऊपर प्राप्त कराना चाहता है, उसको साधु पुण्य कर्म करवाता है ।

और जिसको नीचे प्राप्त कराना चाहता है, उसको असाधु पाप कर्म करवाता है । पुण्य कर्म से पुण्यात्मा पवित्र होता है, पाप कर्म से पापात्मा होता है ) स्मृति भी प्राणी के कर्म विशेष की अपेक्षापूर्वक ही ईश्वर के अनुग्रहकर्तृत्व और निग्रह ( दण्ड ) कर्तृत्व को दिखाती है कि ( जो जिस प्रकार मुझे प्राप्त होते भजते हैं । मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ उनके भजनानुसार अनुग्रहादि करता हूँ ) इत्यादि ॥ ३४ ॥

### न कर्माविभागदिति चेन्नानादित्वात् ॥ ३५ ॥

‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्’ ( छां० ६।२१ ) इति प्राक्तत्त्वेरविभागावधारणान्नास्ति कर्म यदपेक्ष्य विषमा सृष्टिः स्यात् । सृष्ट्युत्तरकाल हि शरीरादिविभागापेक्षं कर्म, कर्मापेक्षश्च शरीरादिविभाग इतीतरेतराश्रयत्वं प्रसवयेत् । अतो विभागादूर्ध्वं कर्मापेक्ष ईश्वरः प्रवर्ततां नाम. प्राग्विभागाद्वैविध्यनिमित्तस्य कर्मणोऽभावात्तुल्यैवाद्या सृष्टिः प्राप्नोतीति चेत् ?

नैव दोषः । अनादित्वात्संसारस्य । भवेदेष दोषो यद्यादिमान् संसारः स्यात् । अनादौ तु संसारे बीजाङ्कुरवद्धेतुहेतुमद्भावेन कर्मणः सर्गवैषम्यस्य च प्रवृत्तिर्न विरुध्यते ॥ ३५ ॥

( हे सोम्य ! यह संसार सृष्टि के पूर्वकाल में सत् स्वरूप एक द्वैत रहित ही था ) इस प्रकार सृष्टि से प्रथम अविभाग ( अभेद ) के अवधारण-निश्चय से कर्म ही नहीं है कि जिसकी अपेक्षा से विषमसृष्टि होगी जिससे सृष्टि के उत्तर काल में शरीरादि विभाग की अपेक्षापूर्वक कर्म होता है और कर्म की अपेक्षापूर्वक शरीरादि का विभाग होता है, इससे इतरेतराश्रयता प्राप्त होगी । इससे विभाग के बाद कर्मापेक्ष ईश्वर भले ही प्रवृत्त हो सकते हैं, परन्तु विभाग से पूर्व विचित्रता के निमित्त कर्म के अभाव में तुल्य ही आद्य ( पहिली ) सृष्टि प्राप्त होती है । इस प्रकार यदि कोई दोष कहे तो कहते हैं कि यह दोष नहीं है क्योंकि संसार को अनादित्व है । यह उक्त दोष तब होता कि यदि आदि बाला संसार होता । और अनादि संसार में तो बीज अकुर के समान हेतु-हेतुमद्भाव ( कारण-कारणवद्भाव ) से कर्म और विषमसृष्टि की प्रवृत्ति में कोई विरोध नहीं होता है ॥ ३५ ॥

कथ पुनरवगम्यतेऽनादिरेष संसार इति । अत उत्तरं पठति—

### उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥

उपपद्यते च संसारस्यानादित्वम् । आदिमत्त्वे हि संसारस्याकस्मादुद्भू-  
तेर्मुक्तानामपि पुनः संसारोद्भूतिप्रसङ्गः अकृताभ्यागमप्रसङ्गश्च, सुखदुःखादि-  
वैषम्यस्य निर्निमित्तत्वात् । न चेश्वरो वैषम्यहेतुरित्युक्तम् । नचाविद्या केवला  
वैषम्यस्य कारणम्, एकरूपत्वात् । रागादिक्लेशासनाक्षिप्तकर्मापेक्षा त्वविद्या

वैषम्यकरी स्यात् । न च कमान्तरेण शरीरं सम्भवति, न च शरीरमन्तरेण कर्म सम्भवतीतीतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गः । अनादित्वे तु बीजाङ्कुरन्यायेनोपपत्तेर्न कश्चिद्दोषो भवति । उपलभ्यते च संसारस्यानादित्वं श्रुतिस्मृत्यां । श्रुतौ तावत् 'अनेन जीवेनात्मना' ( छां० ६।३।२ ) इति सर्गप्रमुखे शारीरमात्मानं जीवशब्देन प्राणधारणनिमित्तेनाभिलषन्ननादिः संसार इति दर्शयति । आदिमन्त्रे तु प्रागनवधारितप्राणः सन् कथं प्राणधारणनिमित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखेऽभिलष्येत । न च धारयिष्यतीत्यतोऽभिलष्येत, अनागताद्धि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलवान् भवति, अभिनिष्पन्नत्वान् । 'सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्' ( ऋ० सं० १०।१६०।३ ) इति च मन्त्रवर्णः पूर्वकल्पसद्भावं दर्शयति । स्मृतावप्यनादित्वं संसारस्योपलभ्यते—'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा' । ( गी० १५।३ ) इति । पुराणे चातीतानामनागतानां च कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम् ॥ ३६ ॥

यह ससार अनादि है, यह कैसे समझा जाता है इस प्रकार की फिर भी जिज्ञासा हुई, इसके उत्तर में कहते हैं कि—

संसार की अनादिता युक्ति से सिद्ध होती है । जिससे संसार के आदि वाला होने पर अकस्माद्बुद्धभूति ( निष्कारण उत्पत्ति ) होने से मुक्तो का भी फिर जन्मादि संसार उत्पन्न होगा, अर्थात् मुक्त को ससार की प्राप्ति होगी, और अकृत का अभ्यागम (प्राप्ति) रूप दोष का प्रसंग (सम्बन्ध) होगा । क्योंकि ससार की प्रथमोत्पत्ति-काल में सुख-दुःखादि की विषमता को निर्हेतुकत्व होगा । क्योंकि साधारण कारण होने से ईश्वर विषमता का कारण नहीं है यह प्रथम कहा गया है । केवल अविद्या भी एकरूप होने से विषमता का कारण नहीं है । किन्तु राग, द्वेष, मोह, रूप क्लेश की वासनाओं से आक्षिप्त (प्राप्त) धर्माधर्मादि की अपेक्षा वाली क्लेश कर्म सहित अविद्या तो विषमता करने वाली होती है, इससे अविद्या माया के सहायक क्लेश-कर्मादि का प्रवाह अनादि है । सृष्टि के सादि होने पर प्रथम के कर्म के बिना शरीर नहीं हो सकता है, और शरीर के बिना कर्म का सम्भव भी नहीं है । इससे इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष की प्राप्ति होती है । और ससार के अनादित्व होने पर तो बीजाङ्कुर न्याय से कर्म-शरीर दोनों की उत्पत्ति (सिद्धि) होती है, इससे अकृताभ्यागम अन्योन्याश्रय कई दोष नहीं प्राप्त होता है । और श्रुति-स्मृति में संसार की अनादिता उपलब्ध (जात) होती है । श्रुति में उपलब्ध होती है कि (इस जीवात्मा रूप से तेज आदि में पैठकर नामरूप का व्याकरण कर्त्त) इस प्रकार सृष्टि के प्रमुख (आरम्भ) में शरीर आत्मा को प्राण-धारणनिमित्तक जीवशब्द से कहता हुआ परमात्मा ससार अनादि है, इस अर्थ को दिखाता है । संसार के आदि वाला होने पर तो प्रथम अगृहीत प्राण वाला होता हुआ जीव सृष्टि के आरम्भकाल में प्राणधारण-निमित्तक जीवशब्द से

कैसे कहा जा सकता है। यदि कहा जाय कि आगे प्राण का धारण करेगा इससे जीवशब्द से कहा जा सकता है, उसका उत्तर है कि अनागत ( भावी ) सम्बन्ध से अतीत सम्बन्ध, अभिनिष्पन्न ( सिद्ध ) होने से बली होता है। और ( परमात्मा ने सूर्य और चन्द्रमा को पूर्वसमान ही रचा ) यह मन्त्र वर्ण भी पूर्वकल्प के सद्भाव को दिखाता है। स्मृति में भी ससार की अनादिता उपलब्ध होती है कि ( इस ससार वृक्ष का रूप गुह आदि के बिना उपलब्ध-ज्ञात नहीं होता है कि यह सत्य है वा मिथ्या इत्यादि। और ज्ञान के बिना इसक आदि और अन्त भी नहीं उपलब्ध होते हैं, न मध्य काल में सम्प्रतिष्ठा-स्थिति उपलब्ध होती है ) इत्यादि। और पुराणों में अतीत-अनागत कल्पों का परिमाण नहीं है, यह स्थापित किया है ॥ ३६ ॥

### सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरण ॥ १३ ॥

नास्ति प्रकृतिता यद्वा निर्गुणस्यास्ति नास्ति सा ।  
 मृदादेः सगुणस्यैव प्रकृतित्वोपलम्भनात् ॥ १ ॥  
 भ्रमाधिष्ठानताऽस्माभिः प्रकृतित्वमुपेयते ।  
 निर्गुणेष्वस्ति जात्यादौ सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः ॥ २ ॥

जगत की कारणाता के योग्य सब धर्म की उपपत्ति से ब्रह्म जगत का कारण है। यहाँ सशय है कि निर्गुण ब्रह्म को प्रकृतिता नहीं है, अथवा है ? पूर्वपक्ष है कि सगुण मृत्तिका आदि के ही प्रकृतित्व के उपलम्भ से निर्गुण ब्रह्म प्रकृति नहीं है। सिद्धान्त है कि हम भ्रम की अधिष्ठानता को प्रकृतिता मानते हैं, वह निर्गुण जाति गुण आदि में भी है, इससे ब्रह्म प्रकृति है ॥ १-२ ॥

### सर्वधर्मोपपत्तेश्च ॥ ७ ॥

चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थे परैरुपक्षिप्ता-  
 विलक्षणत्वादीन् दोषान् पर्यहार्षादाचार्यः, इदानीं परपक्षप्रतिषेधप्रधानं प्रकरणं  
 प्रारिप्समानः स्वपक्षपरिग्रहप्रधानं प्रकरणमुपसंहरति । यस्मादस्मिन् ब्रह्मणि  
 कारणे परिगृह्यमाणे प्रदक्षिणेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा उपपद्यन्ते 'सर्वज्ञं  
 सर्वशक्तिं महामायं च ब्रह्म' इति, तस्मादनतिशङ्कनीयमिदमौपनिषदं  
 दर्शनमिति ॥ ३७ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यशङ्करभगवत्पूज्यपादकृतौ शारीरक-  
 मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १ ॥



चेतन ब्रह्म कारण है और प्रकृति है, इस अवधारित वेदार्थ में अन्य से आक्षिप्त  
 ( कल्पित ) विलक्षणत्वादि दोषों का परिहार आचार्य सूत्रकार ने किया है। इस समय

परपक्ष का प्रतिषेध जिसमे प्रधान है ऐसे प्रकरण के आरम्भ की इच्छा वाले आचार्य स्वपक्ष का परिग्रह जिसमे प्रधान है उस प्रकरण का उपसंहार करते हैं कि जिमसे इस ब्रह्म रूप कारण के परिग्रह ( स्वीकार ) करने पर पूर्व-प्रदर्शित रीति से कारण के सब धर्म उपपन्न ( सिद्ध ) होते है कि ( सर्वज्ञ, सर्वशक्तियुक्त और महामाया वाला ब्रह्म है ) इत्यादि, इससे यह उपनिषद् से ज्ञेय दर्शन शका द्वारा अतिक्रमण के योग्य नहीं है ।

सिद्ध शुद्धगुणोपेत सगुणो निर्गुणोऽथवा ।

कारण वै परो देवो देवाना देव ईश्वर ॥ १ ॥

सर्वशक्तिसमायोगान्मायागुणव्यपाश्रयात् ।

कारण सगुणो देवो निर्गुण साक्षिता गत ॥ २ ॥

नास्ति स्वरूपभेदोऽत्र माया भेदकरी मृषा ।

तृषा त्यक्त्वा भजन्नीश निर्गुणत्वाय कल्पते ॥ ३ ॥

आद्यन्तादिविनिर्मुक्तं सवेषा शरण परम् ।

वन्दे त परमात्मानमात्मान सर्वदेहिनाम् ॥ ४ ॥

इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्त ।



## द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः

[ अत्र पादे सांख्यादिमतानां दुष्टत्वप्रदर्शनम् ]

रचनानुपपत्त्यधिकरण ॥ १ ॥

प्रधानं जगतो हेतुर्न वा सर्वे घटादयः।

अन्विताः सुखदुःखाद्यैर्यतो हेतुरतो भवेत् ॥ १ ॥

न हेतुर्योग्यरचनाप्रवृत्त्यादेरसम्भवात्।

सुखाद्या अन्तरा बाह्या घटाद्यास्तु कुतोऽन्वयः ॥ २ ॥

जड अनुमान-सिद्ध प्रधान मात्र से जगत् की रचना की असिद्धि से प्रधान जगत का कारण नहीं है। यहाँ प्रथम संशय होता है कि त्रिगुण की साम्यावस्था रूप प्रधान जगत का हेतु है, अथवा नहीं? पूर्वपक्ष है कि सब घटादिपदार्थ सुख-दुःख और मोह से समन्वित (युक्त) हैं, जिससे सुख-दुःख मोहात्मक है इससे त्रिगुणरूप सुख-दुःख-मोहात्मक प्रधान इनका हेतु है। भाव है कि रूप-कुल-शीलादि-सम्पन्न स्त्री अपने स्वामी के लिये सुखरूप होती है, सपत्नी के लिए दुःखरूप होती है। कामी पुत्रपान्तर भी उसे चाहते हैं, परन्तु उन्हें नहीं मिलने से उनके मोह का हेतु होती है। इसी प्रकार ससार के सब पदार्थ जिसके सुख के हेतु हैं उसके लिए सुखरूप हैं, जिसके दुःख के हेतु है, उसके लिए दुःखरूप हैं, जिसके चिन्ता-अविवेक-मोह के हेतु है, उसके लिए मोहरूप है। और उपादान कारण के गुण कार्य में अन्वित होते हैं, इससे सुख-दुःख और मोह से समन्वित सब जगत सुख-दुःख मोहात्मक प्रधानजन्य है इससे प्रधान हेतु है। (शब्दस्पर्शविहीनं तं रूपादिभिरसंयुतम्। त्रिगुणं तज्जगद्योनिरनादिप्रभवाप्ययम्) विष्णु पु० ॥ शब्दादि से रहित रूपादि से असंयुक्त वह त्रिगुण-प्रधान जगत् का उपादान है और आदि-उत्पत्ति-नाश-से रहित है। सिद्धान्त है कि प्रधान स्वतन्त्र हेतु नहीं है, क्योंकि जड प्रधान से चेतन तो होने योग्य कर्मादिक के अनुसार रचना तो दूर रही देश-कालादि के अनुसार रचना आदि के लिए प्रवृत्ति आदि का भी असम्भव है। और घटादि बाह्य पदार्थ वा शरीरादि अध्यात्म पदार्थ स्त्री-पुत्रादि, सुख-दुःख और मोह के हेतु-निमित्त कारण भले ही है परन्तु सुखादि स्वरूप नहीं है, क्योंकि सुखादि शरीर के अन्तर्वर्ती-अन्तःकरण के धर्मरूप से प्रसिद्ध हैं और घटादि बाह्य पदार्थ हैं तो इन घटादिको को देश-भिन्न होने से सुखादि के साथ अन्वय भी कैसे हो सकता है? ॥ १-२ ॥

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ॥ १ ॥

यद्यपीदं वेदान्तवाक्यानामैदंपर्यं निरूपयितुं शास्त्रं प्रवृत्तं न तर्कशास्त्रवत्के-  
वलाभिर्युक्तिभिः कञ्चित्सिद्धान्तं साधयितुं वा प्रवृत्तम्, तथापि वेदान्तवाक्यानि

व्याचक्षाणैः सम्यग्दर्शनप्रतिपक्षभूतानि सांख्यादिदर्शनानि निराकरणीयानीति तदर्थः परः पादः प्रवर्तते । वेदान्तार्थनिर्णयस्य च सम्यग्दर्शनार्थत्वात्तन्निर्णयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथमं कृतं तद्ध-यभ्यर्हित परपक्षप्रत्याख्यानादिति । ननु मुमुक्षुणां मोक्षसाधनत्वेन सम्यग्दर्शननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कर्तुं युक्तं किं परपक्षनिराकरणेन परद्वेषकरणेन । बाढमेवम्, तथापि महाजनपरिगृहीतानि महान्ति सांख्यादितन्त्राणि सम्यग्दर्शनापदेशेन प्रवृत्तान्युपलभ्य भवेत्केषांचिन्मन्दमतीनामेतान्यपि सम्यग्दर्शनायोपादेयानीत्यपेक्षा । तथा युक्तिगाढत्वसम्भवेन सर्वज्ञभाषितत्वाच्च श्रद्धा च तेषु इत्यतस्तदासारतोपपादनाय प्रयत्यते । ननु 'ईक्षतेर्नाशब्दम्' ( ब्र० सू० १।१५ ), 'कामाच्च नानुमानापेक्षा' ( ब्र० सू० १।१।१८ ) 'एतेन सर्वे व्याख्याताः' ( ब्र० सू० १।१।२८ ) इति च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेपः कृतः, किं पुनः कृतकरणेनेति । तदुच्यते । सांख्यादयः स्वपक्षस्थापनाय वेदान्तवाक्यान्यप्युदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येनैव योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यद्व्याख्यानं तद्व्याख्यानाभासं न सम्यग्गव्याख्यानमित्येतावत्पूर्वं कृतम् । इह तु वाक्यनिरपेक्षं स्वतन्त्रस्तद्युक्तिप्रतिषेधः क्रियते इत्येष विशेषः ।

इस पर पक्ष प्रतिषेध रूप पाद के आरम्भ में ही यका होती है कि यद्यपि यह दर्शन शास्त्र वेदान्त-वाक्यों के ऐदम्पर्य ( तात्पर्य ) के निरूपण के लिए प्रवृत्त हुआ है । तर्क-शास्त्र के समान केवल युक्तियों से किसी सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए वा दूषित ठहराने के लिए नहीं प्रवृत्त हुआ है । वहाँ तात्पर्य के निश्चयादि प्रथम हो चुके हैं । इससे व्यर्थ इस पाद का आरम्भ भासता है, तथापि स्वपक्ष की स्थिरता, उसमें श्रद्धा आदि के लिए वेदान्त वाक्यों के व्याख्यानकर्तृओं का सम्यक् ज्ञान के प्रतिपक्ष ( विरोधी ) रूप साख्यादि दर्शनो का निराकरण भी कर्तव्य होता है । उसके लिए यह पर—दूसरा प्रवृत्त ( आरब्ध ) हुआ है । और वेदान्त के अर्थ के निर्णय को सम्यग् दर्शनार्थक होने से उसके निर्णय द्वारा अपने पक्ष का स्थापन प्रथम किया गया है । क्योंकि परपक्ष के प्रत्याख्यान से वह अभ्यर्हित ( पूज्य श्रेष्ठ ) है । शका होते हैं कि मुमुक्षुओं के मोक्ष के साधन रूप होने से सम्यग् दर्शन के निरूपण के लिए केवल स्वपक्ष का स्थापन करना ही युक्त है, परपक्ष का निराकरण रूप पर के साथ द्वेष करने का क्या फल है ? उत्तर है कि यह कहना सत्य है, तो भी महाजनो से परिगृहीत महान् साख्यादि शास्त्रों के सम्यग् दर्शन के अपदेश ( व्याज ) से प्रवृत्त होने से उन्हें प्राप्त करके देखकर किसी मन्दमति को अपेक्षा ( विचार ) हो सकती है कि ये भी सम्यग् दर्शन के लिए उपादेय हैं । इसी प्रकार युक्ति की दृढता के सम्भव से सर्वज्ञजन से भाषितत्व ( कथितत्व ) की कल्पना द्वारा उन दर्शनों में श्रद्धा भी हो सकती है, इससे उनकी असारता का प्रतिपादन के लिए यत्न किया जाता है । फिर शङ्का होती है कि ( ईक्षतेर्नाशब्दम् ) इत्यादि सूत्र द्वारा पूर्व



ही साख्यादि पक्षो का प्रतिक्षेप ( निराकरण ) किया गया है, फिर यह कृत-प्रतिक्षेप के करने से क्या फल है? ऐसी शङ्का होने पर पुनः प्रतिक्षेप करने का फल कहा जाता है कि साख्यादिवादियो ने अपने पक्षो की स्थापना के लिए वेदान्त वाक्यो का उदाहरण देकर और स्वपक्ष के अनुसार से ही उन वाक्यो की योजना ( सम्बन्ध ) करते हुए उनका व्याख्यान किया है और करते हैं। उनका जो यह व्याख्यान है, वह व्याख्यानाभास ( असद्व्याख्यान ) है, इतने अर्थ का प्रदर्शन प्रथम कराया गया है। यहाँ वाक्य की अपेक्षा किए बिना स्वतन्त्र उनकी पक्तियो का निषेध किया जाता है यह विशेष (भेद) है।

तत्र सांख्या मन्यन्ते—यथा घटशरावादयो भेदा मृदात्मनान्वीयमाना मृदात्मकसामान्यपूर्वका लोके दृष्टा तथा सर्व एव बाह्याध्यात्मिका भेदाः सुखदुःखमोहात्मतयान्वीयमाना सुखदुःखमोहात्मकसामान्यपूर्वका भवितुमर्हन्ति । यत्तत्सुखदुःखमोहात्मकं सामान्यं तत्रिगुणं प्रधानं मृद्वदचेतनं चेतनस्य पुरुषस्यार्थं साधयितुं स्वभावेनैव विचित्रेण विकारात्मना विवर्तत इति । तथा परिमाणादिभिरपि लिङ्गस्तदेव प्रधानमनुमिमते ।

तत्र वदामः । यदि दृष्टान्तवनेनैवैतन्निरूप्येत नाचेतन लोके चेतनानधिष्ठित स्वतन्त्रं किञ्चिद्विशिष्टपुरुषाथनिवर्तनसमर्थान्विकारान्विरचयद् दृष्टम् । गेहप्रासादशयनासनविहारभूम्यादयो हि लोके प्रज्ञावद्भिः शिल्पिभिर्यथाकालं सुखदुःखप्राप्तिपरिहारयोग्या रचिता दृश्यन्ते, तथेदं जगदखिलं पृथिव्यादि नानाकर्मफलोपभोगयोग्य बाह्यम्, आध्यात्मिकं च शरीरादि नानाजात्यन्वितं प्रतिनियतावयवविन्यासमनेककर्मफलानुभवाधिष्ठानं दृश्यमानं प्रज्ञावद्भिः सम्भाविततमैः शिल्पिभिर्मनसाप्यालोचयितुमशक्यं सत् कथमचेतनं प्रधानं रचयेत् । लोष्टपाषाणादिष्वदृष्टत्वात् । मृदादिष्वपि कुम्भकाराद्यधिष्ठितेषु विशिष्टाकारा रचना दृश्यते, तद्वत्प्रधानस्यापि चेतनान्तराधिष्ठितत्वप्रसङ्गः । न च मृदाद्युपादानस्वरूपव्यपाश्रयेणैव धर्मेण मूलकारणमवधारणीयं, न बाह्यकुम्भकारादिव्यपाश्रयेणेति किञ्चिन्नियामकमस्ति । न चं सति किञ्चिद्विरुध्यते, प्रत्युत श्रुतिरनुगृह्यते चेतनकारणसमर्पणात् । अतो रचनानुपपत्तेश्च हेतोर्नाचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति । अन्वयाद्यनुपपत्तेश्चेति चशब्देन हेतोरसिद्धि समुच्चिनोति । नहि बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुखदुःखमोहात्मकतयान्वय उपपद्यते । सुखादीनां चान्तरत्वप्रतीतेः, शब्दादीनां चातद्रूपत्वप्रतीतेः, तन्निमित्तत्वप्रतीतेश्च । शब्दाद्यविशेषोऽपि च भावनाविशेषात्सुखादिविशेषोपलब्धेः । तथा परिमितानां भेदाना मूलाङ्गुरादीनां संसर्गपूर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात्संसर्गपूर्वकत्वमनुमिमानस्य सत्त्वरजस्तमसामपि संसर्गपूर्वत्वप्रसङ्गः परिमितत्वाविशेषात् । कार्यकारणभावस्तु प्रेक्षापूर्वकनिर्मितानां शयनासनादीना दृष्ट इति न कार्यकारणभावाद्बाह्याध्यात्मिकानां भेदानामचेतनपूर्वकत्वं कल्पयितुम् ॥ १ ॥

साख्यवादी मानते है कि जैसे घट-शरावादि रूप भेद ( विकार-कार्य ) मृत्तिका के स्वरूप से अन्वित हैं, वे मृत्तिकारूप सामान्य ( साधारण ) कारणपूर्वक लोक मे देखे गये हैं, इसी प्रकार बाह्य घटादि और आध्यात्मिक शरीरादिरूप भेद ( विकार ) भी सुख-दुःख-मोहस्वरूपता से अन्वित हैं। जिसके सुख के हेतु जो पदार्थ हैं, उसके लिए सुख रूप है, जिसके दुःख के हेतु हैं, उसके लिए दुःखरूप हैं, जिसके चिन्ता-शोकादि के हेतु हैं, उसके लिए मोहरूप हैं। इस प्रकार सब पदार्थ सुखादि से समन्वित हैं इससे सुख-दुःख-मोहात्मक साधारण कारणपूर्वक होने योग्य हैं। जो वह सुख-दुःख मोहस्वरूप सामान्य साधारण कारण है, वही त्रिगुणप्रधान है, और वह मृत्तिका के समान अचेतन है। वह चेतन पुरुष के भोग और अपवर्ग रूप अर्थ ( प्रयोजन ) को सिद्ध करने के लिए विचित्र स्वभाव से ही विचित्र कार्य विकार रूप से प्रवृत्त व्यक्त होता है। इसी प्रकार परिणामादि लिङ्गो से उस प्रधान का ही अनुमान करते है कि महदादिभ्यो के परिमाण ( परिमित ) होने से उसका कारण अव्यक्त प्रधान है, जैसे परिमित घट की अपेक्षा घटरूप से अव्यक्त मृत्पिण्ड घट का कारण होता है और कारण की शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति सिद्धि होती है। इससे सब कार्य की शक्ति वाला प्रधान है, जैसे तैल की शक्ति वाला तिल तैल का कारण होता है। अनन्त स्वरूप वाले कार्य का सृष्टिकाल मे कारण से विभाग होता है, प्रलय मे सब कार्य का कारण से अविभाग होता है, इससे इस विभाग और अविभाग से भी अव्यक्त प्रधान कारणरूप सिद्ध है, जैसे सुवर्ण भूषणो का कारण होता है। वहाँ कहते है कि दृष्टान्तो के बल से ही इस प्रधान का निरूपण किया जाता हो, तो चेतन से अनधिष्ठित स्वतन्त्र अचेतन किसी विशिष्ट ( श्रेष्ठ ) पुरुषार्थ ( प्रयोजन ) के साधन मे समर्थ विकारो को रचता हुआ लोक मे नहीं देखा गया है। गृह, महल, शय्या, आसन, क्रीडा के स्थानादि जो समय के अनुसार सुख-प्राप्ति और दुःख के निवारण के योग्य होते है वे लोक मे बुद्धिमान् शिल्पियो से ही रचे हुए देखे जाते हैं। इसी प्रकार जो यह नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्म-सुख, दुःख, फल और उसके साधनरूप उपभोगयोग्य पदार्थात्मक पृथिवी आदि रूप सम्पूर्ण बाह्य जगत् है और अनेक कर्मफल-भोगो के अधिष्ठान आश्रयरूप जो प्रत्यक्ष दृश्यमान नानाजातियुक्त प्रतिनियत ( असाधारण ) अवयव विन्यास ( रचना ) वाले आध्यात्मिक शरीरादि रूप जगत् है, वह सम्भाविततम ( अत्यन्त श्रेष्ठ ) बुद्धिमान् शिल्पियो के मन से भी चिन्तन के अयोग्य होता हुआ अचेतन प्रधान से कैसे रचा जायगा ? क्योंकि अचेतन लोष्ट-पाषाणादि मे रचनाकर्तृत्व नहीं देखा जाता है। कुम्भकारादि से अधिष्ठित मृदादि मे ही विशिष्ट आकारवाली रचना देखी जाती है इससे प्रधान को भी मृत्तिकादि के समान कार्य के करने मे चेतनान्तर से अधिष्ठितत्व का प्रसङ्ग ( अवसर ) प्राप्त होता है। मृत्तिका आदि कार्य-समन्वित उपादान कारणस्वरूप का आश्रयण करके उसके आश्रित रहने वाले धर्म द्वारा ही मूल कारण का अवधारण करना चाहिये, और बाह्य कुम्भकारादि के आश्रयण द्वारा उसके समान

अधिष्ठाता चेतन कर्ता का अवधारण नहीं करना चाहिये, इसमें कोई नियामक हेतु नहीं है। और कुलालादि के समान मूल कारण प्रधान का चेतन अधिष्ठाता मानने पर कुछ विरुद्ध भी नहीं होता है कि जिसके भय से चेतन अधिष्ठाता नहीं माना जाय, उलटा चेतन अधिष्ठाता को मानने पर श्रुति अनुगृहीत होती है, क्योंकि वह चेतन कारण का समर्पण-बोधन कराती है। इससे और रचना की अनुपपत्तिरूप हेतु से अचेतन जगत् का कारण अनुमान के योग्य नहीं है, और जिस अन्वयादिरूप हेतु से प्रधान का अनुमान सख्यवादी करते हैं, उस अन्वयादि की अनुपपत्ति से भी प्रधान का अनुमान नहीं हो सकता है, इस प्रकार च शब्द से हेतु की असिद्धि का समुच्चय (सम्बन्ध) सूत्रकार करते हैं कि, बाह्य और आध्यात्मिक विकारो को सुख-दुःख-मोहात्मकता रूप से समन्वय नहीं सिद्ध हो सकता है। क्योंकि सुखादि को आन्तरत्व प्रतीति होती है। और शब्दादि को तद्रूपत्व की प्रतीति नहीं होती है, किन्तु अतद्रूपत्व की प्रतीति होती है। तथा उस सुखादि के निमित्तत्व की प्रतीति शब्दादि में होती है निमित्त-नैमित्तिक का भेद लोक में प्रसिद्ध है। शब्दादि के सुखादि स्वरूप नहीं होने से तथा सुखादि के निमित्त मात्र होने ही से शब्दादि के एकतुल्य रहते हुए भी प्राणी की भावना वासना के भेद से सुखादि विशेष कार्य की उपलब्धि होती है। अन्यथा सबको एक सी उपलब्धि होनी चाहिए। इसी प्रकार मूल-अकुरादि रूप परिमित विकारो को संसर्गपूर्वकत्व देख कर बाह्य आध्यात्मिक सब विकारो को परिमितत्व हेतु से संसर्ग-पूर्वकत्व का अनुमान करने वाले को सत्त्व, रज और तमोगुण को भी संसर्गपूर्वकत्व प्राप्त होता है, क्योंकि इनमें भी अंकुरादि के समान ही परिमितत्व है। और विचारपूर्वक निर्मित शय्या-आसनादि का भी कार्य-कारण भाव देखा गया है। इससे कार्य-कारण भाव से बाह्य आध्यात्मिक विकारो की अचेतनपूर्वकता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इससे चेतनाधिष्ठित मायाजन्य संसार है ॥ १ ॥

### प्रवृत्तेश्च ॥ २ ॥

आस्तां तावदियं रचना, तत्सिद्धयर्था या प्रवृत्तिः साम्यावस्थानात्प्रच्युतिः सत्त्वरजस्तमसामङ्गाङ्गिभावरूपापत्तिर्विशिष्टकार्याभिमुखप्रवृत्तित्ता सापि नाचेतनस्य प्रधानस्य स्वतन्त्रस्योपपद्यते मृदादिष्वदर्शनाद्रथादिषु च। नहि मृदादयो रथादयो वा स्वयमचेतनाः सन्तश्चेतनैः कुलालादिभिरश्वादिभिर्वा-धिष्ठिता विशिष्टकार्याभिमुखप्रवृत्तयो दृश्यन्ते, दृष्टाच्चादृष्टसिद्धिः, अतः प्रवृत्त्यनुपपत्तेरपि हेतोर्नाचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति। ननु चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्य न दृष्टा। सत्यमेतत्, तथापि चेतनसंयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा। न त्वचेतनसंयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा। किं पुनरत्र युक्तम्? यस्मिन्प्रवृत्तिर्दृष्टा तस्य सोत यत्संप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति। ननु यस्मिन्हश्यते प्रवृत्तिस्तस्यैव सेति युक्तमुभयोः प्रत्यक्षत्वान्, नतु प्रवृत्त्याश्रयत्वेन

केवलश्चेतनो रथादिवत्प्रत्यक्षः । प्रवृत्त्याश्रयदेहादिसयुक्तस्यैव तु चेतनस्य सद्भावसिद्धिः केवलाचेतनरथादिवैलक्षण्यं जीवद्देहस्य दृष्टमिति । अतएव च प्रत्यक्षे देहे सति दर्शनादसति चादर्शनाद्देहस्यैव चैतन्यमपीति लोकायतिकाः प्रतिपन्नाः । तस्मादचेतनस्यैव प्रवृत्तिरिति । तदभिधीयते । न ब्रूमो यस्मिन्नचेतने प्रवृत्तिर्दृश्यते न तस्य सेति, भवतु तस्यैव सा, सा तु चेतनाद्भवतीति ब्रूमः । तद्भावे भावात्तदभावे चाभावान् । यथा काष्ठादिव्यपाश्रयापि दाहप्रकाशलक्षणा विक्रियाऽनुपलभ्यमानापि च केवले ज्वलने ज्वलनादेव भवति, तत्संयोगे दर्शनात्तद्वियोगे चादर्शनात्तद्वत् । लोकायतिकानामपि चेतन एव देहोऽचेतनानां रथादीनां प्रवर्तको दृष्ट इत्यविप्रतिषिद्धं चेतनस्य प्रवर्तकत्वम् ।

इस रचना की बात को तो रहने दो, उस रचना की सिद्धि के लिए जो प्रलय-कालिक त्रिगुण के साम्यावस्थान ( स्थिति ) से प्रच्युति ( वैषम्यप्राप्ति ), उसके बाद सत्त्व-रज और तमो गुण को अङ्गाङ्गिभाव ( शेषशेषिभाव ) रूपता की प्राप्ति, और उसके बाद विशिष्ट ( विशेषतायुक्त ) कार्यों के अभिमुख ( कार्यों के उत्पादन ) में प्रवृत्तिरूप प्रवृत्ति है, वह भी स्वतन्त्र अचेतन प्रधान को नहीं सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अचेतन मृत्तिकादि में और रथादि में स्वतन्त्र प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है । और जिससे अचेतन मृत्तिकादि वा रथादि स्वयं अचेतन होते हुए, चेतन कुलालादि वा अश्वदि से अनधिष्ठित होकर विशिष्ट कार्य के अभिमुख प्रवृत्ति वाले नहीं देखे जाते हैं, और दृष्ट हेतु से अदृष्ट साध्य की सिद्धि होती है तथा प्रत्यक्षदृष्टः दृष्टान्त से अदृष्ट की सिद्धि मानी जाती है । अदृष्ट प्रधान दृष्ट-दृष्टान्त सदृश ही सिद्ध हो सकता है । इसलिए प्रवृत्ति की असिद्धिरूप हेतु से भी अचेतन जगत् का कारण अनुमान के योग्य नहीं है । यहाँ साख्यवादी शंका करते हैं कि केवल अचेतन की प्रवृत्ति जैसे नहीं देखी गई है, वैसे ही केवल चेतन की भी प्रवृत्ति नहीं देखी गई है और प्रवृत्ति देखी जाती है तो किसकी मानी जाय ? सिद्धान्ती कहते हैं कि केवल चेतन की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है यह कथन सत्य ही है, तो भी चेतनसयुक्त रथादि अचेतन की प्रवृत्ति देखी गई है, इससे चेतनसंयुक्त जड में प्रवृत्ति मानने योग्य है । इस वेदान्त के सिद्धान्त का साख्यवादी खण्डन करते हैं कि अचेतनसयुक्त चेतन की प्रवृत्ति तो नहीं देखी गई है किन्तु सब प्रवृत्ति अचेतन के आश्रित ही देखी जाती है, अचेतन सम्बन्ध से भी चेतनाश्रित नहीं देखी जाती है, जिससे जगत् की सृष्टि चेतन से नहीं होती है । इस प्रकार उभय पक्ष के प्राप्त होने पर विमर्श होता है कि यहाँ युक्त क्या है ? अर्थात् अचेतन के संयोग से ( प्रवृत्ति होने से ) चेतन की प्रवृत्ति समझी जाय; या जिसमें प्रवृत्ति देखी जाती है उसी की समझी जाय ( इससे जिसमें प्रवृत्ति देखी गई उसी की वह प्रवृत्ति है, वा जिसके सम्बन्ध से हुई उसकी प्रवृत्ति है ) साख्यवादी कहते हैं कि जिसमें प्रवृत्ति दीखती है, उसी की वह है ऐसा मानना उचित है । क्योंकि प्रवृत्ति और उसका

आश्रय दोनो प्रत्यक्ष है। केवल चेतन तो रथादि के समान प्रवृत्ति के आश्रय रूप से प्रत्यक्ष नहीं है, और अप्रत्यक्ष होते भी प्रवृत्ति के आश्रय देहादि से सयुक्त ही चेतन के सद्भाव ( सत्ता ) की सिद्धि होनी है। क्योंकि केवल अचेतन रथादि से बिलक्षणता जावित देह को देखो जाती है। और इस अप्रत्यक्षता से रथादि से बिलक्षणता से ही प्रत्यक्ष देह के रहते प्रवृत्ति चेतनता दीखती है। और देह के नहीं रहने पर प्रवृत्ति चेतनता नहीं दीखती है इससे देह का ही चेतनता धर्म है, इस प्रकार लोकायतिक निश्चय किये हैं। उससे अचेतन की ही प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति विषय में अब सिद्धान्त कहा जाता है कि हम यह नहीं कहते हैं कि जिस अचेतन में प्रवृत्ति देखी गई है, उसकी वह प्रवृत्ति नहीं है, वह प्रवृत्ति उसी को ही, परन्तु वह प्रवृत्ति चेतन से होती है। यह हम कहते हैं, क्योंकि चेतन की सत्ता रहते प्रवृत्ति की सत्ता रहती है, चेतन की सत्ता के अभाव होने पर प्रवृत्ति का अभाव होता है, जैसे कि काष्ठादि के आश्रित मी दाह प्रकाशरूप विकार (कार्य) होते हैं, और केवल अग्नि में उपलब्ध नहीं भी होते हैं, तो भी अग्नि से ही होते हैं। क्योंकि अग्नि के सयोग रहते दाहादि देखे जाते हैं। और अग्नि के वियोग होने पर काष्ठादि में दाहादि नहीं देखे जाते हैं। इसी प्रकार चेतन सयोग से अचेतन में प्रवृत्ति दीखती है, सयोग के अभाव से प्रवृत्ति का अभाव होता है। लोकायत ( चार्वाक ) के मत में भी चेतन ही देह अचेतन रथादि का प्रवर्तक देखी मानी गई है। इससे चेतन का प्रवर्तकत्व धर्म सबसे अविरुद्ध है।

ननु तव देहादिसंयुक्तस्थाप्यात्मनो विज्ञानस्वरूपमात्रव्यतिरेकेण प्रवृत्त्यनुपपत्तेरनुपपन्नं प्रवर्तकत्वमिति चेत् । न । अयस्कान्तवद्रूपादिवच्च प्रवृत्तिरहितस्यापि प्रवर्तकत्वोपपत्तेः । यथाऽयस्कान्तो मणिः स्वयं प्रवृत्तिरहितोऽप्ययसः प्रवर्तको भवति, यथा वा रूपादयो विषयाः स्वयं प्रवृत्तिरहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति, एवं प्रवृत्तिरहितोऽपीश्वरः सर्वगतः सर्वात्मा सर्वज्ञः सर्वशक्तिश्च सन् सर्वं प्रवर्तयेदित्युपपन्नम् । एकत्वात्प्रवर्त्याभावे प्रवर्तकत्वानुपपत्तिरिति चेत् । न । अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेनासकृत्प्रत्युक्तत्वात् । तस्मात्सभवति प्रवृत्तिः सर्वज्ञकारणत्वे न त्वचेतनकारणत्वे ॥ २ ॥

यहाँ शङ्का होती है जो प्रवर्तक होता है वह स्वयं भी प्रवृत्ति वाला होता है। और तुम्हारे मत में तो देह से सयुक्त आत्मा को भी विज्ञानस्वरूपमात्र से भिन्न प्रवृत्ति की अस्तित्व में उस निर्विकार निर्गुण आत्मा का प्रवर्तकत्व अनुपपन्न है। यदि ऐसी शङ्का हो तो कहा जाता है कि प्रवर्तकत्व अनुपपन्न नहीं है, क्योंकि चुम्बक के समान और रूपादि के समान स्वयं प्रवृत्तिरहित को भी प्रवर्तकत्व की सिद्धि होती है। जैसे चुम्बक रूप मणि स्वयं प्रवृत्तिरहित होते भी लोहा का प्रवर्तक होता है। अथवा जैसे रूपादि विषय स्वयं प्रवृत्तिरहित भी नेत्रादि के प्रवर्तक होते हैं। इसी प्रकार प्रवृत्तिरहित भी ईश्वर सर्वगत ( व्यापक ) सर्वात्मा, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् होता हुआ सबको प्रवृत्त

करे, यह युक्त है। यदि कहो कि सर्वात्मास्वरूप एक होने के कारण प्रवर्त्य ( प्रवृत्ति योग्य ) के अभाव रहने पर प्रवर्तकत्व की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) है। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या से प्रकटित नाम-रूपाऽऽत्मक माया के साथ आवेश ( सम्बन्ध ) के वश से उसमें कल्पित भेदादि सिद्ध होते हैं, इस प्रकार उक्त अनुपपत्ति का अनेक बार निराकरण हो चुका है। उससे सर्वज्ञ-कारणत्व पक्ष में प्रवृत्ति का सम्भव है। और अचेतन-कारणत्व पक्ष में असम्भव है ॥ २ ॥

### पयोम्बुवच्चेत्त्रापि ॥ ३ ॥

स्यादेतत् , यथा क्षीरमचेतनं स्वभावेनैव वत्सविवृद्धयर्थं प्रवर्तते, यथा च जलमचेतनं स्वभावेनैव लोकोपकाराय स्यन्दत् एवं प्रधानमचेतनं स्वभावेनैव पुरुषार्थसिद्धये प्रवतिष्यत इति ।

नैतत्साधूच्यते । यतस्तत्रापि पयोम्बुनोश्चेतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्तिरित्यनुमिमीमहे, उभयवादिप्रसिद्धे रथादावचेतने केवले प्रवृत्त्यदर्शनात् । शास्त्रं च 'योऽप्सु तिष्ठन्नद्भ्योऽन्तरो योऽपोऽन्तरो यमयति' ( बृ० ३।७।४ ) 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यदन्ते' ( बृ० ३।८।६ ) इत्येवंजातीयकं समस्तस्य लोकपरिस्थन्दितस्येश्वराधिष्ठिततां श्रावयति, तस्मात्साध्यपक्षनिक्षिप्तत्वात्पयोम्बुवदित्यनुपन्यासः । चेतनायाश्च घेन्वा स्नेहेच्छया पयसः प्रवर्तकत्वोपपत्तेः, वत्सचोषणेन च पयस आकृष्यमाणत्वात् । न चाम्बुनोऽप्यत्यन्तमनपेक्षा, निम्नभूम्याद्यपेक्षत्वात्स्यन्दनस्य । चेतनापेक्षत्वं तु सर्वत्रोपदर्शितम् । 'उपसंहारदर्शान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि' ( ब्र० सू० २।१।२४ ) इत्यत्र तु बाह्यनिमित्तनिरपेक्षमपि स्वाश्रयं कार्यं भवतीत्येतल्लोकदृष्ट्या निर्दर्शितम् । शास्त्रदृष्ट्या तु पुनः सर्वत्रैवेश्वरापेक्षत्वमापद्यमानं न पराणुद्यते ॥ ३ ॥

फिर शंका होती है कि इस अचेतन-कारणत्व पक्ष में भी यह रचना प्रवृत्ति आदि कथञ्चित् सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि अचेतन क्षीर स्वभाव से ही वत्स की वृद्धि के लिए प्रवृत्त होता है। और जैसे अचेतन जल स्वभाव से ही नदियों में लोक के उपकार के लिए बहता है। इसी प्रकार अचेतन प्रधान स्वभाव से ही पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होगा। सिद्धान्ती कहते हैं, कि यह वचन ठीक सुन्दर नहीं कहा जा रहा है, जिससे वहाँ भी पय-जल में भी चेतन से अधिष्ठित ही पय और जल की प्रवृत्ति का अनुमान हम लोग करते हैं। क्योंकि दोनों वादी को प्रसिद्ध केवल चेतनानधिष्ठित अचेतन रथादि में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है ( जो जलो में रहता हुआ जल का अन्तरात्मा है, जो अन्तरात्मा होकर जल-देव का भी नियन्त्रण करता है ) ( हे गार्गि ! इसी अक्षर परमात्मा के अनुशासन में रह कर पूर्व के तरफ अन्य नदियाँ बहती हैं ) इत्यादि शास्त्र भी समस्त लोक परिस्पन्दित- ( व्यवहार-क्रिया ) को

ईश्वररूप अधिष्ठाता की अधीनता का श्रवण कराता है, जिससे दूध जल की प्रवृत्ति भी साध्यवाला पक्ष में प्राप्त होने से पक्ष की तुल्यता से हेतु का व्यभिचार के लिए यह उपन्यास ( दृष्टान्त ) नहीं है कि जलादि के समान स्वभाव से प्रधान प्रवृत्त होगा, चेतन अधिष्ठाता की आवश्यकता नहीं है। अन्तर्यामी तो सर्वत्र प्रवर्तक है ही, दूध का प्रवर्तकत्व तो चेतन धेनु की स्नेहजन्य इच्छा द्वारा है। और वत्स के चोषण से भी दूध के आकृष्यमाण ( आकृष्ट ) होने से दूध में प्रवृत्ति होती है। जल को भी प्रवृत्ति में अन्य की अत्यन्त अनपेक्षा ( स्वतन्त्रता ) नहीं है। क्योंकि जल के स्पन्दन ( बहना ) रूप प्रवृत्ति को नीची भूमि आदि की अपेक्षा होती ही है, और अनुमान तथा शास्त्र से प्रथम उपदर्शित कराया गया है, दर्शाया गया है कि प्रवृत्ति में सर्वत्र चेतन की अपेक्षा है ( उपसहारदर्शनात् ) इत्यादि सूत्र में तो लोकदृष्टि से इतना अर्थ दर्शाया गया है कि बाह्य साधन की अपेक्षा बिना भी दूध में स्वाश्रय कार्य परिणाम होता है। और शास्त्रदृष्टि से तो सर्वत्र ईश्वर को अपेक्षा है, उस प्राप्त ईश्वरापेक्षा का निषेध नहीं किया जाता है। इससे पूर्वापर सूत्र में विरोध नहीं है ॥ ३ ॥

### व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् ॥ ४ ॥

साङ्ख्यानानां त्रयो गुणाः साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानम्, न तु तद्व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तकं निवर्तकं वा किञ्चिद्बाह्यमपेक्ष्यमवस्थितमस्ति, पुरुषस्तूदासीनो न प्रवर्तको न निवर्तक इत्यतोऽनपेक्षं प्रधानम्, अनपेक्षत्वाच्च कदाचित्प्रधानं महदाद्याकारेण परिणमते कदाचिन्न परिणमत इत्येतदयुक्तम् ईश्वरस्य तु सर्वज्ञत्वात्सर्वशक्तित्वान्महामायात्वाच्च प्रवृत्त्यप्रवृत्ती न विरुध्यते ॥ ४ ॥

सांख्यवादियों के मत में समरूप से वर्तमान स्थिर तीन गुण प्रधान कहा जाता है, उससे भिन्न ईश्वर वा धर्माधर्मादिरूप कर्म उस प्रधान का प्रवर्तक वा निवर्तक बाह्य कोई अपेक्षणीय स्थिर वस्तु नहीं है, कर्म है तो भी वह प्रधान स्वरूप ही है, सदा रहने वाला नहीं है। और पुरुष उदासीन है, इससे प्रवर्तक वा निवर्तक नहीं है। इस हेतु से प्रधान सर्वत्र अनपेक्ष है, सृष्टि आदि के लिए प्रवृत्ति आदि में प्रधान को किसी सहायकादि की अपेक्षा नहीं है। कर्म प्रवृत्ति में प्रतिबन्धक को भले ही दूर करते है, प्रवृत्ति में नहीं अपेक्षित है। इस प्रकार अनपेक्ष होते भी प्रधान कभी महदादि कार्य रूप से प्रवृत्त होता है, परिणत होता है। और कभी नहीं परिणत होता है, यह अयुक्त है, अर्थात् आगन्तुक किसी वस्तु की अपेक्षारहित प्रधान की सदा साम्य रूप से स्थिति वा सदा प्रवृत्ति प्राप्त होती है, और ऐसा होता नहीं है, इससे प्रधान कारणवाद अयुक्त है और ईश्वर को तो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्त्व महामायायुक्तत्व होने से प्रवृत्ति अप्रवृत्ति भी कर्मादि की अपेक्षापूर्वक सिद्ध होते हैं, विरुद्ध नहीं होते हैं ॥ ४ ॥

### अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् ॥ ५ ॥

स्यादेतत् । यथा तृणपल्लवोदकादि निमित्तान्तरनिरपेक्षं स्वभावादेव क्षीराद्याकारेण परिणमत एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यत इति । कथं च निमित्तान्तरनिरपेक्षं तृणादीति गम्यते ? निमित्तान्तरानुपलम्भात् । यदि हि किञ्चिन्निमित्तमुपलभेमहि ततो यथाकामं तेन तृणाद्युपादाय क्षीरं संपादयेमहि, नतु संपादयामहे । तस्मात्स्वाभाविकस्तृणादेः परिणामस्तथा प्रधानस्यापि स्यादिति ।

अत्रोच्यते—भवेत्तृणादिवत्स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामो यदि तृणादेरपि स्वाभाविकः परिणामोऽभ्युपगम्येत, न त्वभ्युपगम्यते, निमित्तान्तरुपलब्धेः । कथं निमित्तान्तरुपलब्धिः ? अन्यत्राभावात्, धेनवैव ह्युपभुक्तं तृणादि क्षीरीभवति न प्रहीणमनडुदाद्युपभुक्तं वा । यदि हि निर्निमित्तमेतत्स्याद्वेनुशरीरसम्बन्धादन्यत्रापि तृणादि क्षीरीभवेत् । न च यथाकामं मानुषैर्न शक्यं सम्पादयितुमित्येतावता निर्निमित्तं भवति । भवति हि किञ्चित्कार्यं मानुषसम्पाद्यं किञ्चिद्दैवसम्पाद्यम् । मनुष्या अपि शक्नुवन्त्येवोचितेनोपायेन तृणाद्युपादाय क्षीरं सम्पादयितुम्, प्रभूतं हि क्षीरं कामयमानाः प्रभूतं घासं धेनुं चारयन्ति, ततश्च प्रभूतं क्षीरं लभन्ते । तस्मान्न तृणादिवत्स्वाभाविकः प्रधानस्य परिणामः ॥ ५ ॥

फिर भी प्रधानवादी शंका करते हैं कि यह प्रधान भी किसी प्रकार कारण हो सकता है कि जैसे तृण-पल्लव जलादि निमित्तान्तर की अपेक्षा के बिना स्वभाव से ही दूध आदि रूप से परिणत होते हैं, इसी प्रकार प्रधान भी महत् आदि रूप से परिणाम को प्राप्त हो सकता है । तृणादि निमित्तान्तर की अपेक्षा किए बिना क्षीरादिरूप से परिणत होते हैं, यह कैसे समझा जाता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर साख्यवादी कहते हैं कि निमित्तान्तर के अनुपलम्भ ( अप्राप्ति ) से ऐसा समझा जाता है । क्योंकि यदि किसी निमित्त को प्राप्त करते तो तृणादि को लेकर उस निमित्त से इच्छा के अनुसार क्षीर का सम्पादन ( उत्पादन ) करते । परन्तु इच्छा के अनुसार नहीं सम्पादन करते हैं, इससे स्वाभाविक तृणादि का परिणाम होता है, इसी प्रकार प्रधान का भी स्वाभाविक परिणाम होगा । यहाँ उत्तर कहा जाता है कि तृणादि के समान प्रधान का भी स्वाभाविक परिणाम होता कि यदि तृणादि का भी स्वाभाविक परिणाम अभ्युपगत होता । परन्तु तृणादि का स्वाभाविक परिणाम नहीं अभ्युपगत ( ज्ञात ) होता है, क्योंकि निमित्तान्तर की उपलब्धि ( ज्ञान ) होती है । यदि कहे कि निमित्तान्तर की उपलब्धि कैसे होती है, तो कहा जाता है, गो आदि से खाये गये तृणादि से अन्य तृणादि में दूधरूप परिणाम के अभाव से समझा जाता है कि गो आदि में कोई निमित्त है कि जिससे दूधरूप परिणाम होता है । जिससे धेनु गौ से ही उपभुक्त तृणादि दूधरूप से



परिणत होता है। और प्रहीण (नष्ट) वा अन्य पशु से उपभुक्त तृणादि क्षीररूप से नहीं परिणत होता है। यदि यह दूध बिना निमित्त के होता, तो धेनु के शरीर-सम्बन्ध से अन्यत्र भी तृणादि दूध बन जाता है। और मनुष्य इच्छा के अनुसार दूध का सम्पादन नहीं कर सकते, इससे निर्निमित्त दूध नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई कार्य मनुष्य से सम्पादन-योग्य होते है। और कोई दैव ( ईश्वर ) से ही सम्पादन योग्य होते हैं। और मनुष्य भी तृणादि लेकर उचित उपाय से क्षीर का सम्पादन के लिए समर्थ हो ही सकते हैं। जिससे बहुत दूध की इच्छा वाले बहुत घास धेनु को खिलाते हैं, उससे बहुत अधिक क्षीर का लाभ करते हैं। उससे तृणादि के समान प्रधान का स्वाभाविक परिणाम नहीं है ॥ ५ ॥

### अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात् ॥ ६ ॥

स्वाभाविकी प्रधानप्रवृत्तिर्न भवतीति स्थापितम्, अथापि नाम भवतः श्रद्धामनुरुध्यमानाः स्वाभाविकीमेव प्रधानस्य प्रवृत्तिमभ्युपगच्छेम तथापि दोषोऽनुषङ्ग्येतैव। कुतः? अर्थाभावात्। यदि तावत्स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिर्न किञ्चिदन्यदिहापेक्षत इत्युच्यते ततो यथैव सहकारि किञ्चिन्नापेक्षत एव प्रयोजनमपि किञ्चिन्नापेक्षित्यते इत्यतः प्रवानं पुरुषस्यार्थं साधयितुं प्रवर्तत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत। स यदि ब्रूयात्सहकार्येव केवलं नापेक्षते न प्रयोजनमपीति, तथापि प्रधानप्रवृत्तेः प्रयोजनं विवेक्तव्यं भोगो वा स्यादपवर्गो बोभयं वेति। भोगश्चेत्कीदृशोऽनाघेयातिशयस्य पुरुषस्य भोगो भवेत्, अनिमोक्षप्रसङ्गश्च। अपवर्गश्चेत्प्रागपि प्रवृत्तेरपवर्गस्य सिद्धत्वात्प्रवृत्तिरनर्थिका स्यात्, शब्दाद्यनुपलब्धिप्रसङ्गश्च। उभयार्थताभ्युपगमेऽपि भोक्तव्यानां प्रधानमात्राणामानन्त्यादनिर्मोक्षप्रसङ्ग एव। न चोत्सुक्यनिवृत्त्यर्था प्रवृत्तिः, नहि प्रधानस्याचेतनस्योत्सुक्यं सम्भवति। न च पुरुषस्य निर्मलस्य निष्कलस्योत्सुक्यम्। दृक्शक्तिसर्गशक्तिवैयर्थ्यभयाच्चेत्प्रवृत्तिः तर्हि दृक्शक्त्यनुच्छेदवत्सर्गशक्त्यनुच्छेदात्संसारानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रसङ्ग एव। तस्मात्प्रधानस्य पुरुषार्था प्रवृत्तिरित्येतदयुक्तम् ॥ ६ ॥

प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है, यह स्थापित ( निश्चित ) किया जा चुका है। उसके बाद भी यदि आप साध्यवादी की प्रधान के स्वाभाविक परिणाम-विषयक श्रद्धा-प्रेमादि का अनुरोध ( अनुसरण ) करते हुए प्रधान की स्वाभाविकी ही प्रवृत्ति मान लें, तो भी दोष की प्राप्ति होती ही है। क्योंकि अर्थ ( प्रयोजन ) के अभाव से दोष रहता है। अर्थात् यदि प्रधान की स्वाभाविकी प्रवृत्ति होती है, इसीसे इस प्रवृत्ति में प्रधान प्रथम किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, यह कहा जाता है। तो कहा जा सकता है कि जैसे ही प्रधान प्रवृत्ति में किसी सहकारी की अपेक्षा नहीं करता है। इसी प्रकार किसी प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं करेगा। इससे यह दोष होगा कि प्रधान पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है यह साध्य की प्रतिज्ञा नष्ट हो

जायगी । वे साख्यवादी यदि कहे कि केवल सहकारी की ही अपेक्षा प्रधान नहीं करता है, प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं करता है, यह बात नहीं है, प्रयोजन को अपेक्षा करना है, इससे प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती है। तो भी कहा जाता है कि प्रधान की प्रवृत्ति के प्रयोजन ( फल ) का विवेक-विचार कर्तव्य है कि वह प्रयोजन भोग हो सकता है, अथवा मोक्ष हो सकता है, अथवा भोग-मोक्ष दोनों प्रयोजन हैं । यदि भोग प्रयोजन कहा जाय तो सुखादिरूप अतिशय ( विशेष गुण ) का जिसमें आधान ( स्थापनादि ) नहीं किया जा सकता, उस पुरुष को भोग कैसा होगा, यह विवेक कर्तव्य है और भोगमात्र के लिये प्रवृत्ति के होने पर मोक्ष का अभाव प्राप्त होगा । यदि प्रवृत्ति का प्रयोजन मोक्ष कहा जाय तो प्रवृत्ति से प्रथम भी मोक्ष के सिद्ध होने से प्रवृत्ति अनर्थक सिद्ध होगी । और शब्दादि की अनुपलब्धि प्राप्त होगी । और उभयार्थक प्रवृत्ति मानने पर भी भोग के योग्य प्रधान के कार्यरूप मात्रा ( विषयो ) के अनन्त होने से अनिमोक्ष की प्राप्ति होगी ही । और उत्सुकता ( इच्छा विशेष ) की निवृत्ति के लिए भी प्रधान की प्रवृत्ति को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अचेतन प्रधान को उत्सुकता का सम्भव नहीं है । और निर्मल निष्कल ( निरवयव ) प्राणादिरहित पुरुष में भी औत्सुक्य नहीं हो सकता है । और पुरुष की दृक्शक्ति और प्रधान की सर्गशक्ति की व्यर्थता के भय से यदि प्रधान की प्रवृत्ति मानी जाय तो दृक्शक्ति और सर्गशक्ति के अनुच्छेद से ससार का भी अनुच्छेद ( अविनाश ) से मोक्षाभाव की ही प्राप्ति होगी । इससे प्रधान की पुरुष-प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति है, यह कथन अयुक्त है ॥ ६ ॥

### पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥

स्यादेतत् । यथा कश्चित्पुरुषो दृक्शक्तिसम्पन्नः प्रवृत्तिशक्तिविहीनः पञ्चपरं पुरुषं प्रवृत्तिशक्तिसंपन्नं दृक्शक्तिविहीनमन्धमधिष्ठाय प्रवर्तयति, यथा वाऽयस्स्कान्तोऽश्मा (१) स्वयमप्रवर्तमानोऽप्ययः प्रवर्तयति, एव पुरुषः प्रधानं प्रवर्तयिष्यतीति दृष्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम् ।

अत्रोच्यते—तथापि नैव दोषान्निर्मोक्षोऽस्ति । अभ्युपेतहानं तावद्दोष आपतति प्रधानस्य स्वतन्त्रस्य प्रवृत्त्यभ्युपगमात्, पुरुषस्य च प्रवर्तकत्वानभ्युपगमात् । कथं चोदासीनः पुरुषः प्रधानं प्रवर्तयेत् । पञ्चरपि ह्यन्धं पुरुषं वागादिभिः प्रवर्तयति, नैवं पुरुषस्य कश्चिदपि प्रवर्तनव्यापारोऽस्ति, निष्क्रियत्वान्निर्गुणत्वाच्च । नाप्ययस्कान्तवत्सन्निधिमात्रेण प्रवर्तयेत्, संनिधिनित्यत्वेन प्रवृत्तिनित्यत्वप्रसङ्गात् । अयस्कान्तस्य त्वनित्यसंनिधेरस्ति स्वव्यापारः संनिधिः, परिमार्जनाद्यपेक्षा चास्यास्तीत्यनुपन्यासः पुरुषाश्मवदिति । तथा प्रधानस्याचैतन्यात्पुरुषस्य चौदासीन्यात्तृतीयस्य च तयोः संबन्धयितुरभावात्संबन्धानुपपत्तिः । योग्यतानिमित्ते च सम्बन्धे योग्यतानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रसङ्गः पूर्ववच्चेहाप्यर्थाभावो विकल्पयितव्यः । परमात्मनस्तु स्वरूपव्यपाश्रयमौदासीन्यं मायाव्यपाश्रयं च प्रवर्तकत्वमित्यस्त्यतिशयः ॥ ७ ॥

फिर भी साख्यान्यायी शका करता है कि यह प्रधान की प्रवृत्ति आदि कथञ्चित् हो सकती है कि जैसे कोई पुरुष दृष्टिशक्ति से सम्पन्न हो, नेत्र अच्छे हो, परन्तु प्रवृत्ति ( गमन ) शक्ति से विहीन पङ्गु हो । और दूसरा कोई पुरुष प्रवृत्ति शक्ति से सम्पन्न हो परन्तु दृष्टिहीन-अन्ध हो तो वह पङ्गु अन्धे के कान्धे पर स्थिर होकर उसे गमनादि में प्रवृत्त कराता है । अथवा जैसे चुम्बक पत्थर स्वयं प्रवृत्ति के बिना भी लोहे को प्रवृत्त करता है, इसी प्रकार पुरुष स्वयं प्रवृत्तिरहित भी प्रधान को प्रवृत्त करायेगा । इस प्रकार दृष्टान्तरूप हेतु से फिर पूर्वपक्ष होता है । यहाँ उत्तर दिया जाता है कि इस दृष्टान्त को स्वीकार करने पर भी दोष से छुटकारा नहीं है । क्योंकि प्रथम तो स्वीकृत सिद्धान्त का हान ( त्याग ) रूप दोष प्राप्त होता है जिससे स्वतन्त्र प्रधान की प्रवृत्ति स्वीकृत है, और पुरुष का प्रवर्तकत्व अस्वीकृत है । पङ्गु-अन्ध के दृष्टान्त से इन दोनों स्वीकृति का त्याग होगा । और उदासीन पुरुष प्रधान को प्रवृत्त भी किस प्रकार करायेगा, पङ्गु भी अन्ध पुरुष को वाक् आदि से कुछ कहकर प्रवृत्त कराता है । इस पुरुष के निर्गुण और निष्क्रिय होने से इस प्रकार का प्रवर्तना ( प्रवृत्ति का हेतु ) रूप कोई भी व्यापार पुरुष का नहीं है । चुम्बक के समान सन्निधिमान्त्र से भी पुरुष प्रवृत्ति नहीं करा सकता है, क्योंकि सन्निधि के नित्य होने से प्रवृत्ति की नित्यता प्राप्त होगी । अनित्य सन्निधिवाला चुम्बक का तो सन्निधिरूप ही अपना व्यापार है । इस चुम्बक को परिमार्जन, सम्मुख स्थापनादि की अपेक्षा भी है । इससे वह परिमार्जनादि द्वारा लोहे की प्रवृत्ति का हेतु हो सकता है, पुरुष में कोई व्यापार नहीं है । इससे प्रवृत्ति का हेतु हो नहीं सकता है, इससे पुरुषाश्मवत् यह दृष्टान्त यहाँ उपयुक्त नहीं है । इसी प्रकार प्रधान के अचेतन होने से और पुरुष के उदासीन होने से और उन दोनों का सम्बन्ध कराने वाले तृतीय पदार्थ के अभाव से सम्बन्ध की अनुपपत्ति है । सबध के योग्यता-निमित्तक स्वाभाविक सम्बन्ध को मानने पर योग्यता की अनिवृत्ति से अनिमोक्ष का प्रसङ्ग होता है, क्योंकि द्रष्टृत्व दृश्यत्वरूप योग्यता नित्य है तन्निमित्तक सम्बन्ध के नित्य होने से मोक्ष नहीं हो सकता है । स्वतन्त्र प्रधान प्रवृत्ति-पक्ष को प्रथम जैसे फलाभाव से दूषित ठहराया गया है, वैसे ही यहाँ पुरुषाधीन प्रवृत्ति-पक्ष में भी अर्थाभाव का विकल्प कर्तव्य है, इस प्रवृत्ति से भोग फल होता है, या मोक्ष होता है, इत्यादि । सब प्रकार से प्रयोजन के अभाव से प्रवृत्ति निरर्थक है इत्यादि । परमात्मा को तो स्वरूपाश्रित उदासीनता है । मायानिमित्तक प्रवर्तकत्व है, यह अतिशय श्रेष्ठता है ॥ ७ ॥

### अङ्गित्वानुपपत्तेश्च ॥ ८ ॥

इत्थं न प्रधानस्य प्रवृत्तिरवकल्पते, यद्धि सत्त्वरजस्तमसामन्योन्यगुण-  
प्रधानभावमुत्सृज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था, तस्याम-

वस्थायामनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाशभयात्परस्परं प्रत्यङ्गाङ्गिभावानुपपत्तेः ।  
बाह्यस्य च कस्यचित्क्षोभयितुरभावाद् गुणवैषम्यनिमित्तो महदाद्युत्पादो न  
स्यात् ॥ ८ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी प्रधान की प्रवृत्ति नहीं सिद्ध हो सकती है कि जिससे सत्त्व, रजः और तमोगुण का जो परस्पर गुणप्रधान भाव है, उसे त्याग कर समतारूप से स्वरूपमात्र से जो स्थिति है वह प्रधानावस्था है। वहाँ उस निर्विकार अवस्था में गुणों की परस्पर निरपेक्ष स्थितिरूप उस अवस्था के होने से विषमता से स्वरूपनाश के भय से गुणों को परस्पर के प्रति अङ्गाङ्गिभाव की अनुपत्ति से, प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, और बाह्य किसी क्षोभक हेतु के अभाव से गुण की विषमता-निमित्तक महद् आदि की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है ॥ ८ ॥

### अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात् ॥ ९ ॥

अथापि स्यादन्यथा वयमनुमिमीमहे यथा नायमनन्तरो दोषः प्रसज्येत ।  
न ह्यनपेक्षस्वभावा कूटस्थाश्चास्माभिर्गुणा अभ्युपगम्यन्ते प्रमाणाभावात् ।  
कार्यवशेन तु गुणानां स्वभावोऽभ्युपगम्यते, यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते  
तथा तथैषां स्वभावोऽभ्युपगम्यते, चलं गुणवृत्तमिति चास्त्यभ्युपगमः । तस्मा-  
त्साम्यावस्थायामपि वैषम्योपगमयोग्या एव गुणा अवतिष्ठन्ते इति । एवमपि  
प्रधानस्य ज्ञशक्तिवियोगाद्रचनानुपपत्त्यादयः पूर्वोक्ता दोषास्तदवस्था एव ।  
ज्ञशक्तिमपि त्वनुमिमानः प्रतिवादित्वान्निवर्तेत, चेतनमेकमनेकप्रपञ्चस्य जगत  
उपादानमिति ब्रह्मवादप्रसङ्गात् । वैषम्योपगमयोग्या अपि गुणाः साम्यावस्थायाम्  
निमित्ताभावाच्चैव वैषम्यं भजेरन्, भजमाना वा निमित्ताभावाविशेषात्सर्वदेव  
वैषम्यं भजेरन्निति प्रसज्यत एवायमनन्तरोऽपि दोषः ॥ ९ ॥

अथापि ( उक्त रीति से साम्यावस्थापन्न निरपेक्ष गुणों में अङ्गाङ्गिभाव नहीं होने पर भी ) वक्ष्यमाण रीति से स्यात् ( अङ्गाङ्गिभाव होगा ) वह रीति क्या है कि हम अन्यथा अनुमान करेगे कि जिस प्रकार से यह अनन्तरोक्त दोष नहीं प्राप्त होगा, अर्थात् निरपेक्ष गुणों के अनुमान से उनमें अङ्गाङ्गिभाव नहीं होता है। इससे निरपेक्ष से अन्यथा सापेक्ष का अनुमान करेगे क्योंकि निरपेक्ष स्वभाव वाले और कूटस्थ गुण को हम लोग नहीं मानते हैं। जिससे वैसे गुण में प्रमाण का अभाव है, और प्रयोजन के वश से गुणों का स्वभाव माना जाता है, इससे जिस जिस प्रकार से कार्य की उत्पत्ति सिद्ध हो सकेगी, उस-उस प्रकार से इन गुणों का स्वभाव माना जाता है और गुणों का स्वभाव चल ( स्थिति रहित ) है, यह स्वीकार किया गया है। जिससे साम्यावस्था में भी विषमता की प्राप्ति के योग्य ही गुण रहते हैं। इस प्रकार पूर्व पत्र होने पर कहते हैं कि इस प्रकार अनुमान करने पर भी प्रधान को ज्ञातृत्व शक्ति के अभाव से,

प्रधानावस्था मे बुद्धिरूपता के भी वियोग से रचना की अनुपपत्ति आदि रूप पूर्वोक्त दोष ज्यों का त्यों वर्तमान ही है । कार्यानुपपत्ति से प्रधान मे ज्ञातृत्व शक्ति का अनुमान करता हुआ प्रतिवादी प्रतिवादित्व से रहित हो जायगा, क्योंकि एक चेतन अनेक प्रपञ्चरूप जगत् का उपादान है, यह ब्रह्मवाद है, जगत् का एक उपादानरूप प्रधान मे ज्ञान-ज्ञातृत्वादि मान लेने पर नाममात्र का भेद रहेगा और शेष ब्रह्मवाद की ही प्राप्ति हो जायगी और साम्यावस्था मे विषमता की प्राप्ति के योग्य भी गुण, विषमता के निमित्त के अभाव से विषमता को नहीं प्राप्त होंगे । अथवा विषमता को प्राप्त होंगे भी तो निमित्ताभाव की अविशेषता ( तुल्यता ) से सर्वदा ही विषमतायुक्त रहेगे, इस प्रकार अन्यथा अनुमान करने पर भी यह अनन्तरोक्त दोष प्राप्त होता ही है ॥ ९ ॥

### विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् ॥ १० ॥

परस्परविरुद्धाद्यं सांख्यानमभ्युपगमः । क्वचित्सत्तेन्द्रियान्यनुकामन्ति, क्वचिदेकादश, तथा क्वचिन्महत्तन्मात्रसर्गमुपदिशन्ति, क्वचिदहङ्कारात्, तथा क्वचिन्त्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति क्वचिदेकमिति । प्रसिद्ध एव तु श्रुत्येश्वर-कारणवादिन्या विरोधस्तदनुवर्तिन्या च स्मृत्या । तस्मादप्यसमञ्जसं सांख्यानं दर्शनमिति ।

और सांख्यो का अभ्युपगम ( सिद्धान्त-मत ) परस्पर विरुद्ध है, क्योंकि कही मात इन्द्रिय मानते हैं कि त्वक् मात्र ही ज्ञानेन्द्रिय है, वही अनेक शब्दादि के ज्ञान का कारण है और पाँच कर्मेन्द्रिय हैं और एक मन है, इस प्रकार सात इन्द्रियाँ हैं । कही ग्यारह इन्द्रिय मानते हैं कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन है । इसी प्रकार कही महत्त्व से तन्मात्राओ की सृष्टि का उपदेश करते हैं, और कही अहङ्कार से तन्मात्रा की सृष्टि कहते हैं । इसी प्रकार कहीं बुद्धि, अहकार और मनरूप तीन अन्त करण का वर्णन करते हैं, कही एक बुद्धि का ही वर्णन करते हैं और एक ईश्वरवादिनी श्रुति तथा उस श्रुति की अनुवर्तिनी ( अनुसारिणी ) स्मृति से तो विरोध प्रसिद्ध ही है । इससे भी सांख्यो का दर्शन ( आलोकन विचार ) अयुक्त है ।

अत्राह । नन्वौपनिषदानामप्यसमञ्जसमेव दर्शनं तप्यतापकयोर्जात्यन्तर-भावानभ्युपगमात् । एकं हि ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वस्य प्रपञ्चस्य कारणमभ्युपगच्छ-तामेकस्यैवात्मनो विशेषौ तप्यतापकौ न जात्यन्तरभूतावित्यभ्युपगन्तव्यं स्यात् । यदि चैतौ तप्यतापकावेकस्यात्मनो विशेषौ स्यातां स ताभ्यां तप्यता-पकाभ्यां न निर्मुच्यत इति तापोपशान्तये सम्यग्दर्शनमुपदिशच्छास्त्रमनर्थकं स्यात् । न ह्यौष्यप्रकाशधर्मकस्य प्रदीपस्य तदवस्थस्यैव ताभ्यां निर्मोक्ष उपपद्यते । योऽपि जलतरङ्गवीचीफेनाद्युपन्यासः, तत्रापि जलात्मन एकस्य वीच्यादयो विशेषा आविर्भावतिरोभावरूपेण नित्या एवेति समानो जलात्मनो

बीच्यादिभिरनिर्मोक्षः । प्रसिद्धश्चायं तप्यतापकयोर्जात्यन्तरभावो लोकं । तथाहि—अर्थी चाथश्चान्योन्यभिन्नौ लक्ष्येते, यद्यर्थिनः स्वतोऽन्योऽर्थो न स्यात्, यस्यार्थिनो यद्विषयमर्थित्वं स तस्यार्थो नित्यसिद्ध एवेति तस्य तद्विषयमर्थित्वं न स्यात्, यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्योऽर्थो नित्यसिद्ध एवेति न तस्य तद्विषयमर्थित्वं भवति, अप्राप्ते ह्यर्थेऽर्थिनोऽर्थित्वं स्यादिति । तथार्थस्याप्यर्थित्वं न स्यात्, यदि स्यात्स्वार्थत्वमेव स्यात्, न चैतदस्ति । संबन्धिशब्दौ ह्येतावर्थी चार्थश्चेति द्वयोश्च संबन्धिनोः संबन्धः स्यान्नैकस्यैव । तस्माद्भिन्नावेतावर्थार्थिनौ, तथानर्थानर्थिनावपि । अर्थिनोऽनुकूलोऽर्थः प्रति-कूलोऽनर्थस्ताभ्यामेकपर्यायेणोभाभ्यां संबध्यते, तत्रार्थस्याल्पीयस्त्वाद्भूयस्त्वाच्चानर्थस्योभावप्यर्थानर्थावनर्थ एवेति तापकः स उच्यते, तप्यस्तु पुरुषो य एकः पर्यायेणोभाभ्यां संबध्यत इति तयोस्तप्यतापकयोरेकात्मतायां मोक्षानुपपत्तिः । जात्यन्तरभावे तु तत्संयोगहेतुपरिहारात्स्यादपि कदाचिन्मोक्षोपपत्तिरिति ।

यहाँ साख्यवादी शका करते हैं कि उपनिषद् को प्रमाण मानने वालो का दर्शन भी अयुक्त है, क्योंकि त्रिविध ताप से तम ( दु खी ) होने वाला तप्य जीव और उसको तापक दु ख देने वाला ससार के जात्यन्तर भाव ( विलक्षणता-भेद ) के अस्वीकार से अयुक्तता है । जिससे एक ब्रह्म सर्वात्मक ( सबका आत्मा ) और सब प्रपञ्च का कारण है इस प्रकार मानने वालो के मत मे एक आत्मा ही के विशेष स्वरूप तप्य और तापक हैं, जात्यन्तर स्वरूप नहीं हैं । इस प्रकार उस मत मे मानना होगा । और यदि ये तप्य और तापक एक आत्मा के विशेष स्वरूप होंगे, तो वह आत्मा उन तप्य और तापको से कभी निर्मुक्त-रहित नहीं हो सकता है । इससे ताप की निवृत्ति के लिए सम्यग्दर्शन ( ज्ञान ) का उपदेश देनेवाला शास्त्र अनर्थक होगा, क्योंकि उष्णता और प्रकाशरूप धर्म वाले प्रदीप को प्रदीप रूप से स्थिर रहते, कभी उष्णता और प्रकाश से निर्मोक्ष नहीं हो सकता है, वैसे ही आत्मा कभी तप्य-तापक से निर्मुक्त नहीं हो सकता है । और जो जलतरङ्ग-बीची-फेनादि का दृष्टान्त है, वहाँ भी एक जल स्वरूप के बीची आदि विशेष स्वरूप हैं, वह भी प्रकट गुणस्वरूप से नित्य ही है, इससे जल के स्वरूप को भी बीची आदि से अनिमोक्ष दीप के समान ही है । और लोक मे यह तप्य-तापक का जात्यन्तर भाव ( भेद ) प्रसिद्ध है, उसे नहीं मानने से लोक से विरोध है और उस भेद को प्रसिद्धि इस प्रकार है कि तप्य अर्थी और तापक अर्थ परस्पर भिन्न दीखते हैं । यदि अर्थी ( अर्थच्छुक ) से अर्थ स्वतः स्वरूप से भिन्न नहीं हो, तो जिस अर्थी को जिस विषयक अथित्व ( इच्छा ) है, वह अर्थ उस अर्थी को नित्य सिद्ध ही है । इससे उसको उस अर्थविषयक अथित्व नहीं होगा । जैसे प्रकाशस्वरूप प्रदीप को प्रकाशनामक अर्थ नित्यसिद्ध ही है, इससे

प्रदीप को प्रकाशविषयक अर्थत्व नहीं होता है। क्योंकि अप्राप्त-अर्थविषयक अर्थों को अर्थत्व ( काम ) होता है। इसी प्रकार अर्थ को भी अर्थत्व नहीं होगा, यदि होगा भी तो स्वार्थत्व ही होगा, और यह स्वार्थत्व है नहीं। क्योंकि अर्थों और अर्थ ये दोनों सम्बन्धी के वाचक शब्द हैं, केवल स्वरूपवाचक नहीं है। और दो सम्बन्धी को सम्बन्ध होगा, एक को ही सम्बन्ध नहीं हो सकता है। इससे ये अर्थ अर्थों भिन्न हैं। इसी प्रकार अनर्थ और अनर्थों भी भिन्न है। अर्थों के अनुकूल इच्छा के विषय वस्तु को अर्थ कहते हैं, अर्थों के प्रतिकूल अनर्थ होता है। वहाँ एक प्राणी को क्रम से दोनों के साथ सम्बन्ध होता है। उनमें अर्थों की अल्पता से अनर्थों की अधिकता से अर्थ और अनर्थ दोनों अनर्थ ही हैं। उपाजन रक्षणादिरूप अनर्थ-क्लेश के मध्य में प्राप्त होने से अर्थ भी अनर्थरूप हो जाता है। और इस प्रकार वह अर्थ भी तापक कहा जाता है और तप्य पुरुष है कि जो एक पुरुष अर्थ-अनर्थ दोनों के साथ क्रम से सम्बन्ध वाला होता है। वहाँ तप्य-तापक दोनों को एक ब्रह्मस्वरूपता होने पर मोक्ष की अनुपपत्ति है। तप्य-तापक का जात्यन्तर भाव ( भेद ) रहने पर तो उस ताप का हेतुरूप संयोग के कारण अविवेक का परिहाररूप विवेक से कभी मोक्ष की सिद्धि हो सकती है। अर्थात् बुद्धिगत मोक्ष का पुरुष में उपचार हो सकता है, यो तो नित्यमुक्तस्वरूप पुरुष है ॥

अत्रोच्यते । न एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्तेः । भवेदेष दोषो यद्ये-  
कात्मतायां तप्यतापकान्योन्यस्य विषयविषयिभावं प्रतिपद्येयाताम् न त्वेतद्-  
स्त्येकत्वादेव । न ह्यग्निरेकः सन्स्वमात्मानं दहति प्रकाशयति वा सत्यप्यौ-  
ष्ण्यप्रकाशादिधर्मभेदे परिणामित्वे च, किमु कूटस्थे ब्रह्मण्येकस्मिन्स्तप्यताप-  
कभावः संभवेत् । क पुनरयं तप्यतापकभावः स्यादिति ? उच्यते—किं न  
पश्यसि कर्मभूतो जीवद्देहस्तप्यस्तापकः सवितेति । ननु तप्तिर्नाम दुःखं सा  
चेतयितुर्नाचेतनस्य देहस्य, यदि हि देहस्यैव तप्तिः स्यात्सा देहनाशे स्वयमेव  
नश्यतीति तन्नाशाय साधनं नैषितव्यं स्यादिति । उच्यते । देहाभावंऽपि  
केवलस्य चेतनस्य तप्तिर्न दृष्टा । न च त्वयापि तप्तिर्नाम विक्रिया चेतयितुः  
केवलस्येष्यते । नापि देहचेतनयोः संहतत्वम्, अशुद्ध्यदिदोषप्रसङ्गात् । न  
च तप्तेरेव तप्तिमभ्युपगच्छसि कथं तवापि तप्यतापकभावः । सत्त्वं तप्यं  
तापकं रज इति चेत् । न । ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वानुपपत्तेः । सत्त्वानुराधि-  
त्वाच्चेतनोऽपि तप्यत इत्यापततीवशब्दप्रयोगात् । न चेत्तप्यते नेवशब्दो  
दोषाय । नहि ङुण्डुभः सर्प इवेत्येतावता सविषो भवति सर्पो वा ङुण्डुभ  
इवेत्येतावता निर्विषो भवति । अतश्चाविद्याकृतोऽयं तप्यतापकभावो न पार-  
माथिक इत्यभ्युपगन्तव्यमिति, नैवं सति ममापि किञ्चिद् दुष्यति । अथ  
पारमार्थिकमेव चेतनस्य तप्यत्वमभ्युपगच्छसि तवैव सुतरामनिर्मोक्षः प्रस-

ज्येत, नित्यत्वाभ्युपगमाच्च तापकस्य । तप्यतापकशक्त्योर्नित्यत्वेऽपि सनिमित्तसंयोगापेक्षत्वात्तप्तेः संयोगनिमित्तादर्शननिवृत्तावात्यन्तिकः संयोगोपरमः, ततश्चात्यन्तिको मोक्ष उपपन्न इति चेत् । न । अदर्शनस्य तमसो नित्यत्वाभ्युपगमात् । गुणानां चोद्भवाभिभवयोरनियतत्वादनियतः संयोगनिमित्तोपरम इति वियोगस्याप्यनियतत्वात्सांख्यस्यैवानिमोक्षोऽपरिहार्यः स्यात् । औपनिषदस्य त्वात्मैकत्वाभ्युपगमादेकस्य च विषयविषयिभावानुपपत्तेर्विकारभेदस्य च वाचारम्भणमात्रत्वश्रवणादनिर्मोक्षशङ्का स्वप्नेऽपि नोपजायते । व्यवहारे तु यत्र यथा दृष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तथैव स इति न चोदयितव्यः परिहर्तव्यो वा भवति ॥ १० ॥

इस शंका का उत्तर यहाँ कहा जाता है, कि पारमार्थिक स्वरूप में एकता से ही वस्तुतः तप्य-तापकभाव की अनुपपत्ति से यह दोष नहीं है, यह दोष तब होता कि जब एकस्वरूपता में तप्य और तापक परस्पर के विषयविषयिभाव को प्राप्त होते, परन्तु एकत्व से ही परमार्थ एकस्वरूपता में वह तप्य-तापकादिभाव है नहीं । उष्णता और प्रकाशादि धर्मभेद के रहते तथा परिणामित्व रहते भी एक होती हुई अग्नि अपनी आत्मा को न दग्ध करती—जलाती है, न प्रकाशित करती ही है, फिर कूटस्थ एक ब्रह्म में तप्य-तापकभाव का सम्भव कैसे हो सकता है । यदि कहो कि एक आत्मा में तप्य-तापकभाव नहीं है, तो यह तप्य-तापकभाव कहाँ है ? तो कहा जाता है कि व्यवहार में जहाँ देखा जाता है, वहाँ है, इससे क्या प्रत्यक्ष ही नहीं देखते हो कि ताप का कर्मस्वरूप जीवित देह तप्य है, और सूर्य तापक है । यहाँ शंका होती है कि दुःख का तप्ति ( ताप ) नाम है, वह ताप चेतयिता ( चेतन ) का धर्म है, अचेतन देह का नहीं । यदि देह को ही ताप होता, तो देह के नाश से वह ताप स्वयं नष्ट होता है । इससे उस ताप के नाश के लिए साधन का अन्वेषण स्वीकार नहीं करना होगा । उत्तर कहा जाता है कि देह के अभाव रहते भी केवल चेतन का ताप नहीं देखा गया है । केवल चेतन का तापरूप विकार सांख्यवादी को भी इष्ट नहीं है, इससे चेतनमात्र का विकार नहीं माना जाता है । देह चेतन के सघात का धर्म ताप माना जाय वह भी नहीं हो सकता है । क्योंकि अशुद्धि-सगादि दोष के प्रसंग से चेतन और देह को सहतत्त्व भी नहीं है । ताप के ही ताप को भी नहीं मानते हो, तो तुम्हारे मत में भी तप्य-तापक भाव कैसे है । यदि कहो कि सत्त्वगुण तप्य है, और रजोगुण तापक है, तो भी उनके साथ चेतन पुरुष के सहतत्त्व की अनुपपत्ति से पुरुष में बन्धन का अभाव है । इससे मोक्ष का उपदेशरूप शांति का आरम्भ नहीं होना चाहिये । यदि कहो कि सत्त्वगुण के अनुरोधी होने से स्वच्छता द्वारा तप्यसत्त्व में प्रतिबिम्बित होने से और अद्विवेक से असंग चेतन भी तांपयुक्त के ( इव ) समान होता है । इससे अद्विवेक की निवृत्ति के लिए शांति सार्थक है । ती कहाँ जाता है कि इव शब्द के प्रयोग से यह



प्राप्त ( सिद्ध ) होता है कि पुरुष परमार्थरूप से तापयुक्त नहीं होता है । जब आत्मा-तम नहीं होता है, तभी इव शब्द दोष के लिए नहीं है । अन्यथा दोष के लिए मिथ्या हो जायगा, और आत्मा में तापरूप दोष की प्राप्ति होगी । परन्तु इव का सत्य प्रयोग रहते ऐसा होना नहीं है, क्योंकि ड्रुण्डुभ ( राजिल नाम सर्पंतुल्य प्राणी ) सर्प के समान है ऐसा कहने से वह सविष सत्य सर्प नहीं होता है, वा सर्प ड्रुण्डुभ के समान है, ऐसा कहने से सर्प विषरहित नहीं सिद्ध होता है । इससे यहाँ भी पुरुष तपते हुए के समान होता है, ऐसा कहने से वास्तविक ताप नहीं सिद्ध होने से 'यह तप्यतापकभाव अविद्याकृत है पारमार्थिक नहीं है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए और ऐसा मानने पर मेरा भी कुछ दूषित नहीं होता है, किन्तु इष्ट सिद्ध होता है । यदि सत्यकार्यवादी हो कर तप्यतापकभाव को मिथ्या मानने पर सिद्धान्त-त्याग के भय से चेतन के पारमार्थिक ही तप्यत्व को मानोगे, तो तुझे अत्यन्त मोक्षाभाव की प्राप्ति होगी क्योंकि तापक रजोगुण को भी नित्य मानते हो, इससे नित्य ही ताप भी होगा । यदि कहो कि तप्यतापक शक्ति, सत्त्वानुसारी पुरुष और रजोगुण के नित्य होते भी, ताप को संयोग के निमित्त अविवेक सहित संयोग ( बुद्धि-पुरुष का सम्बन्ध ) की अपेक्षा होने में अर्थात् संयोगपूर्वक ताप की सिद्धि होने से, संयोग के निमित्त अदर्शन ( अविवेक ) की विवेक से निवृत्ति होने पर संयोग का अत्यन्ताभाव होता है, इससे आत्यन्तिक मोक्ष सिद्ध होता है । वहाँ कहा जाता है कि अदर्शनरूप तमोगुण को नित्य मानने से विवेक से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है । यदि कहो कि तम की निवृत्ति नहीं होने पर भी, विवेक से वह स्वकार्य में उपरत होता है इससे संयोगाभाव से मुक्ति होती है, तो कहा जाता है कि गुणों के उद्भव, अभिभव ( उत्पत्ति-लय ) के अनियतरूप होने से संयोग के निमित्त की उपरति भी अनियत है इससे वियोग को भी अनियत होने से साध्यवादी को अनिमोक्ष अनिवार्य होगा । अर्थात् मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकेगी । उपनिषत् मत में तो एकत्व के स्वीकार से, और एक को विषयविषयिभाव की असिद्धि से और विकार-भेद को वाचारम्भणमात्र सुनने से अनिमोक्ष की शका स्वप्न में भी नहीं होती है । व्यवहार में जहाँ जैसा तप्य-तापकभाव देखा गया है वहाँ वह वैसा ही है । उसकी तत्त्वज्ञान से निवृत्ति होती है । इससे यहाँ शका-समाधान का अवसर नहीं है ॥

## महद्दीर्घाधिकरण ॥ २ ॥

नास्ति कणाददृष्टान्तं किं वास्त्यसदृशोद्भवे । नास्ति शुक्लं पटं शुक्लात्तन्तोरेव हि जायते ॥  
अणु ब्रह्मणुक्तमुत्पन्नमनणोः परिमण्डलात् । अदीर्घाद् ब्रह्मणुकादीर्घं त्र्यणुक्तं तन्निदर्शनम् ॥

ल्लस्वद्व्यणुक से महत्त्र्यणुक के समान और परिमण्डल ( परम अणु ) से दीर्घ-द्व्यणुक के समान चेतन ब्रह्म से विलक्षण जगत् की उत्पत्ति हो सकती है । वहाँ संशय है कि कारण के असदृश कार्य की उत्पत्ति में कणादमुनि-सम्मत कोई दृष्टान्त है अथवा नहीं है । पूर्वपक्ष है कि जिससे शुक्ल तन्तु से ही शुक्ल पट होता है, इससे दृष्टान्त नहीं है ।

मिद्धान्त है कि अणुभिन्न परिमण्डल से अणु उत्पन्न होता है और अदीर्घद्वयणुक से दीर्घद्वयणुक उत्पन्न होता है। इससे दृष्टान्त है। यद्यपि साख्यमत के निराकरण के बाद परमाणुवाद का निराकरण करना चाहिए, तथा स्वमत-स्थापन पूर्वपाद में ही करना चाहिए तथापि प्रधान के गुण-सुखादि के जगत् में अनन्वय से प्रधान जगत् का कारण नहीं है, यह प्रथम कहा गया है, वैसे ही ब्रह्म गुण चैतन्य का जगत् में अन्वय नहीं होने से ब्रह्म भी कारण नहीं होगा इत्यादि प्रसंग से, तथा स्वमत-स्थापनयुक्त परमतनिषेधात्मक इस पाद के होने से स्वमत स्थापन किया गया है ॥ १-२ ॥

प्रधानकारणवादो निराकृतः। परमाणुकारणवाद इदानीं निराकर्तव्यः। तत्रादौ तावद्योऽणुवादिना ब्रह्मवादिनि दोष उत्प्रेक्ष्यते स प्रतिसमाधीयते। तत्रायं वैशेषिकाणामभ्युपगमः—कारणद्रव्यसमवायिनो गुणाः कार्यद्रव्ये समानजातीय गुणान्तरमारभन्ते, शुक्लेभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्लस्य पटस्य प्रसवदर्शनात्तद्विपर्ययादर्शनाच्च। तस्माच्चेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वेऽभ्युपगम्यमाने कार्येऽपि जगति चैतन्यं समवेथात्, तद्दर्शनात् न चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं भवितुमर्हति—इति। इममभ्युपगमं तदीयैव प्रक्रियया व्यभिचारयति—

प्रधान कारणवाद निराकृत हो चुका। अब इस समय परमाणु कारणवाद का निराकरण कर्तव्य है। यहाँ आदि (प्रारम्भ) में प्रथम जो अणुवादी से ब्रह्मवादी में दोष की उत्प्रेक्षा (कल्पना) की जाती है, उस दोष का प्रतिसमाधान (निवारण) किया जाता है। वहाँ वैशेषिक (विशेषपदार्थवादी) परमाणुवादियों का यह अभ्युपगम (स्वीकृत सिद्धान्त) है कि कारण द्रव्य में समवायी (समवाय सम्बन्ध से वर्तमान) गुण कार्य द्रव्य में अपने समान जाति वाले गुणान्तर का आरम्भ करते हैं। क्योंकि शुक्ल तन्तुओं से शुक्ल पट की उत्पत्ति देखी जाती है, और उसके विपर्यय (उलटा विपरीत) नील-गीतादि की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। इससे चेतन ब्रह्म को जगत् का कारण मानने पर कार्यरूप जगत् में भी चैतन्य को समवाय सम्बन्ध से वर्तमान होना चाहिये। वह जगत् में समवेत चैतन्य देखा नहीं जाता है, उस चेतना के अदर्शन से ही निश्चय होता है कि चेतन ब्रह्म जगत् का उपादान कारण होने योग्य नहीं है, परमाणुवादी के इस अभ्युपगम (स्वीकृति) को, उनकी ही प्रक्रिया से व्यभिचारसहित (नियम व्याप्तिरहित) सूत्रकार ठहराते हैं कि—

### महदीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् ॥ ११ ॥

एषा तेषां प्रक्रिया। परमाणवः किल कश्चित्कालमनारब्धकार्या यथायोगं रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्च तिष्ठन्ति, ते च पश्चाद्दृष्टादिपुरःसराः संयोगसचिवाश्च सन्तो व्यणुकादिक्रमेण कृत्स्नं कार्यजातमारभन्ते, कारणगुणाश्च कार्ये गुणान्तरम्। यदा द्वौ परमाणू व्यणुकमारभेते तदा परमाणुगता

रूपादिगुणविशेषाः शुक्लादयो द्व्यणुके शुक्लादीनपरानारभन्ते । परमाणुगुणविशेषस्तु पारिमाण्डल्यं न द्व्यणुके पारिमाण्डल्यमपरमारभते, द्व्यणुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युपगमात् । अणुत्वह्रस्वत्वे हि द्व्यणुकवर्तिनी परिमाणो वर्णयन्ति । यदापि द्वे द्व्यणुके चतुरणुकमारभेते तदापि समानं द्व्यणुकसमवायिनां शुक्लादीनामारम्भकत्वम् । अणुत्वह्रस्वत्वे तु द्व्यणुकसमवायिनी अपि नैवारभेते, चतुरणुकस्य महत्त्वदीर्घत्वपरिमाणयोगाभ्युपगमात् । यदापि बहवः परमाणवो बहूनि वा द्व्यणुकानि द्व्यणुकसहितो वा परमाणुः कार्यमारभते तदापि समानैषा योजना । तदेवं यथा परमाणोः परिमण्डलात्सतोऽणु ह्रस्वं च द्व्यणुकं जायते महद्दीर्घं च त्र्यणुकादि न परिमण्डलम्, यथा वा द्व्यणुकादणोर्ह्रस्वाच्च सतो महद्दीर्घं च त्र्यणुकं जायते नाणु नो ह्रस्वम्, एवं चेतनाद् ब्रह्मणोऽचेतनं जगज्जनिष्यत इत्यभ्युपगमे किं तत्र चिद्ब्रह्मम् ।

उन अणुवादियो की यह वक्ष्यमाण प्रक्रिया ( पदार्थ-प्रतिपादन की रीति ) है कि कुछ समय प्रलयावधि तक कार्य के आरम्भ से रहित परमाणु यथायोग्य रूपादि वाले और पारिमाण्डल्य परिमाण वाले स्थिर रहते हैं, अर्थात् पृथिवी के परमाणु रूप-रस-गन्ध-स्पर्शवाले रहते हैं, जल के परमाणु गन्धरहित रूपादि वाले रहते हैं, तेज के परमाणु रूप और स्पर्श वाले रहते हैं, वायु के परमाणु केवल स्पर्श वाले रहते हैं और परमाणुमात्रवृत्ति परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते हैं, परमाणु को परिमण्डल कहते हैं । प्रलय की अवधि के बीतने पर सृष्टि के आरम्भ-काल में फिर वे परमाणु अदृष्ट दिक्-कालादिपूर्वक सयोगसहित होकर द्व्यणुक ( दो परमाणुजन्य कार्य ) आदि की सृष्टि के क्रम से सम्पूर्ण कार्यसमूह का आरम्भ करते हैं । कारण के रूपादि गुण कार्य में स्वसजातीय गुणान्तर का आरम्भ करते हैं । जिस समय दो परमाणु अदृष्टयुक्त आत्मा के सयोग से द्व्यणुक का आरम्भ करते हैं, उसी समय परमाणुगत शुक्लादि-स्वरूप रूपादिगुण विशेष द्व्यणुक में अन्य शुक्लादि विशेष गुणों का आरम्भ करते हैं । परन्तु परमाणु के गुणविशेष रूप पारिमाण्डल्य द्व्यणुक में दूसरा पारिमाण्डल्य का आरम्भ नहीं करता है, क्योंकि द्व्यणुक का पारिमाण्डल्य से अन्य परिमाण के साथ सम्बन्ध माना गया है । जिससे अणुत्व और ह्रस्वत्वरूप द्व्यणुकवृत्ति परिमाणो का अणुवादी वर्णन करते हैं । जिस समय दो-दो द्व्यणुक, अर्थात् द्वित्ववाले दो द्व्यणुक याने चार द्व्यणुक जब चतुरणुक का आरम्भ करते हैं । तब भी द्व्यणुको में समवाय सम्बन्ध से वर्तमान शुक्लादियो का आरम्भकत्व तुल्य है, वे भी सजातीय गुणान्तर का आरम्भ करते हैं । परन्तु द्व्यणुको में समवेत भी अणुत्व और ह्रस्वत्व स्वसजातीय गुण का आरम्भ नहीं करते हैं, क्योंकि चतुरणुक का महत्त्व और दीर्घत्व रूप परिमाणान्तर के साथ सम्बन्ध माना गया है और जिस समय रहित परमाणु वा बहुत द्व्यणुक वा द्व्यणुकसहित परमाणु कार्य का आरम्भ करते हैं,

तत्र भी यह योजना तुल्य है। अर्थात् वहाँ भी कारण के शुक्लादिगुण कार्य में शुक्लादि का आरम्भ करते हैं, परन्तु कारणगत परिमाण परिमाणान्तर का आरम्भ नहीं करना है, किन्तु कारणगत बहुत्व सख्या में परिमाण का आरम्भ होता है, यह प्रक्रिया पूर्व के तुल्य है। वहाँ इस पूर्ववर्णित रीति से जैसे परमाणु के परिमण्डल रूप होते भी अणु-ह्रस्वस्वरूप द्व्यणुक उससे उत्पन्न होता है, और महत् तथा दीर्घ द्व्यणुकादि होते हैं, परिमण्डल नहीं होता है। अथवा जैसे अणु और ह्रस्व द्व्यणुक के होते भी उससे महान् और दीर्घ द्व्यणुक उत्पन्न होता है, न अणु होता है, न ह्रस्व होता है। इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत् उत्पन्न होगा इस प्रकार मानने पर तेरा क्या नष्ट होता है कि जिससे इस का निषेध करते हो।

अथ मन्यसे—विरोधिना परिमाणान्तरेणाक्रान्तं कार्यद्रव्यं द्व्यणुकादीत्यतो नारम्भकाणि कारणगतानि पारिमण्डल्यादीनीत्यभ्युपगच्छामि, न तु चेतनाविरोधिना गुणान्तरेण जगत आक्रान्तत्वमस्ति, येन कारणगता चेतना कार्ये चेतनान्तरं नारभेत, न ह्यचेतना नाम चेतनाविरोधी कश्चिद्गुणोऽस्ति, चेतनाप्रतिषेधमात्रत्वात्, तस्मात्पारिमाण्डल्यादिवैषम्यात्प्राप्नोति चेतनाया आरम्भकत्वम्—इति। मैवं मंस्थाः। यथा कारणे विद्यमानानामपि पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वमेवं चैतन्यस्यापीत्यस्यांशस्य समानत्वात्। न च परिमाणान्तराक्रान्तत्वं पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वे कारणं, प्राक्परिमाणान्तरारम्भात्पारिमाण्डल्यादीनामारम्भकत्वोपपत्तेः, आरब्धमपि कार्यद्रव्यं प्राग्गुणारम्भात्क्षणमात्रमगुणं तिष्ठतीत्यभ्युपगमात्। न च परिमाणान्तरारम्भे व्यप्राणि पारिमाण्डल्यादीनीत्यतः स्वसमानजातीयं परिमाणान्तरं नारभन्ते परिमाणान्तरस्यान्यहेतुत्वाभ्युपगमात्। 'कारणबहुत्वात्कारणमहत्त्वात्प्रचयविशेषाच्च महत्' (वै० सू० ७।१।६) 'तद्विपरीतमणु' (७।१।१०) 'एतेन दीर्घत्वह्रस्वत्वे व्याख्याते' (७।१।१७) इति हि काणभुजानि सूत्राणि। न च संनिधानविशेषात्कुतश्चित्कारणबहुत्वादीन्येवारभन्ते न पारिमाण्डल्यादीनीत्युच्येत, द्रव्यान्तरे गुणान्तरे वाऽऽरभ्यमाणे सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वाश्रयसमवायाविशेषात्, तस्मात्स्वभावादेव पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वं, तथा चेतनाया अपीति द्रष्टव्यम्। संयोगाच्च द्रव्यादीनां विलक्षणानामुत्पत्तिदर्शनात्समानजातीयोत्पत्तिव्यभिचारः। द्रव्ये प्रकृते गुणोदाहरणमयुक्तमिति चेत्। न। दृष्टान्तेन विलक्षणारम्भमात्रस्य विवक्षितत्वात्। न च द्रव्यस्य द्रव्यमेवोदाहृतव्यं गुणस्य वा गुण एवेति कश्चिन्नियमे हेतुरस्ति। सूत्रकारोऽपि भवतां द्रव्यस्य गुणमुदाहृत्वा—'प्रत्यक्षाप्रत्यक्षानामप्रत्यक्षत्वात्संयोगस्य पञ्चात्मकं न विद्यते' (वै० सू० ४।२।२) इति, यथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोर्भूम्याकाशयोः समवयनसंयोगोऽप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेषु पञ्चसु भूतेषु समवयनच्छरीरमप्रत्यक्षं स्यात्, प्रत्यक्षं हि

शरीरम् । तस्मान्न पाञ्चभौतिकमिति । एतदुक्तं भवति—गुणश्च संयोगो द्रव्यं शरीरम् । ‘दृश्यते तु’ ( ब्र० सू० २।१।६ ) इति चात्रापि विलक्षणोत्पत्तिः प्रपञ्चता । नन्वेवं सति तेनैवैतद्गतम् । नेति ब्रूमः, तत्साख्यं प्रत्युक्तम्, एतत्तु वैशेषिक प्रति । नन्वतिदेशोऽपि समानन्यायतया कृतः ‘एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता’ ब्र० सू० २।१।१२) इति । सत्यमेतत् । तस्यैव त्वयं वैशेषिक-प्रक्रियारम्भे तत्प्रक्रियानुगतेन निदर्शनेन प्रपञ्चः कृतः ॥ ११ ॥

यदि मानते हो कि विरोधी परिमाणान्तर से कार्यं द्रव्यं द्व्यणुकादि आक्रान्त ( अभिव्याप्त ) है, इससे कारणगत पारिमाण्डल्यादि परिमाण के आरम्भक नहीं होते हैं, यह मैं मानता हूँ । और चेतना ( चेतनता ) से विरोधी गुणान्तर से तो जगत् अभिव्याप्त नहीं है कि जिससे कारणगत चेतना कार्यं मे चेतनान्तर का आरम्भ नहीं कर सके, यदि कहो कि अचेतना चेतना का विरोधी है, तो वह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अचेतना नामक चेतना का विरोधी कोई गुण नहीं है, चेतना का प्रतिषेधमात्र अचेतना है । उससे पारिमाण्डल्यादि से विषमता के कारण चेतना को आरम्भकत्व की प्राप्ति होती है । यहाँ कहा जाता है कि ऐसा नहीं मानो, क्योंकि जैसे कारण मे विद्यमान भी पारिमाण्डल्यादि को अनारम्भकत्व है, इसी प्रकार चैतन्य को भी अनारम्भकत्व है, इतने अश की दोनों मे तुल्यता है । कार्यं को परिमाणान्तर से आश्रितत्व, पारिमाण्डल्यादि के अनारम्भकत्व मे कारण नहीं है, क्योंकि परिमाणान्तर के आरम्भ से पूर्वकाल मे पारिमाण्डल्यादि को आरम्भकत्व की उपपत्ति सिद्धि हो सकती है, जिससे आरब्ध ( उत्पन्न ) भी कार्यं रूप द्रव्य गुण की उत्पत्ति से पूर्वकाल मे एक क्षणमात्र गुणरहित रहता है, यह वैशेषिक का अभ्युपगम ( सिद्धान्त ) है, और यह भी नहीं कह सकते कि परिमाणान्तर के आरम्भ मे पारिमाण्डल्यादि व्यग्र ( लगे ) रहते हैं, इससे स्वसजातीय परिमाणान्तर का आरम्भ नहीं करते हैं, क्योंकि परिमाणान्तर के हेतुत्व अन्य को माना गया है कि ( कारणरूप द्व्यणुक के बहुत्व से त्र्यणुक मे महत्त्व होता है, मृत्तिका-तन्तु आदि के महत्त्व से घट-पटादि मे महत्त्व होता है, तूलादि मे प्रचय ( संयोग ) विशेष से महत्त्व होता है । और उस महत्त्व से विपरीत द्व्यणुकगत अणुत्व है वह परमाणुगत द्वित्व सख्या से होता है । इसी प्रकार महत्त्व के कारण ही महत्त्व के समान दीर्घत्व का कारण है, और अणुत्व के कारण ही अणुत्व के समान ह्रस्वत्व का कारण है । इससे महत्त्व-अणुत्व के व्याख्यान से दीर्घत्व-ह्रस्वत्व का व्याख्यान भी समझना चाहिये । ये कणाद ऋषि के सूत्रार्थ हैं । और यह भी नहीं कह सकते हो कि किसी सामीप्य विशेष से कारणगत बहुत्वादिक ही अणुत्व-महत्त्वादि का आरम्भ करते हैं, और समोपता के अभाव से पारिमाण्डल्यादि स्वसजातीय परिमाणान्तर का आरम्भ नहीं करते हैं, क्योंकि द्रव्यान्तर वा गुणान्तर के आरम्भकाल मे सभी कारण के गुणो का अपने आश्रय मे समवाय सम्बन्ध तुल्य ही रहता है । उससे स्वभाव

से ही पारिमाण्डल्यादि को अनारम्भकत्व है, इसी प्रकार चेतना के अनारम्भकत्व को भी समझना चाहिये। और अवयवादि का सयोगरूप कारण से भी द्रव्यादिरूप विलक्षण कार्य की उत्पत्ति देखने से कारण से स्वसमानजातीय की उत्पत्ति का व्यभिचार है—नियम नहीं है। यदि कहो कि द्रव्य के प्रकृत प्रस्तुत रहते, गुण का उदाहरण देना अयुक्त है, तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि इस दृष्टान्त से विलक्षण का आरम्भ मात्र विवक्षित है कि सयोगरूप गुण से द्रव्य के समान चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत् की उत्पत्ति हो सकती है। और द्रव्य का द्रव्य ही उदाहरण देना चाहिये, गुण का गुण ही उदाहरण होना चाहिये ऐसे नियम में कोई हेतु नहीं है। और आप के सूत्रकार ने भी द्रव्य का गुण उदाहरण दिया है कि ( प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के संयोग का अप्रत्यक्ष होने से शरीर पाचभौतिक नहीं है किन्तु केवल पार्थिव है, इससे प्रत्यक्ष है ) अर्थात् जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमि और आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला संयोग अप्रत्यक्ष होता है, इसी प्रकार प्रत्यक्षाप्रत्यक्षस्वरूप पाचभूतो में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला शरीर भी अप्रत्यक्ष होगा, और शरीर प्रत्यक्ष ही है, उससे पाञ्चभौतिक नहीं है। इससे यह कहा गया है कि सयोग गुण है और शरीर द्रव्य है, और शरीर के उदाहरणरूप सयोग को सूत्रकार ने कहा है इससे द्रव्य का द्रव्य ही उदाहरण होता है यह नियम नहीं है। ( दृश्यते तु ) इस सूत्र के भाष्य में भी विलक्षण की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि कहो कि ऐसा होने पर उसी से यह गतार्थ है, तो कहा जाता है कि गतार्थ नहीं है, क्योंकि वह साध्यो के प्रति कहा गया है, और यह वैशेषिक के प्रति कहा गया है। यदि कहो कि समान-न्यायता से अतिदेश भी प्रथम किया गया है ( इससे शिष्टो से अपरिगृहीत भी प्रत्याख्यातरूप से व्याख्यात हो गये ) तो यह कहना सत्य है, परन्तु उसी अतिदेश का वैशेषिक प्रक्रिया के आरम्भ में उस प्रक्रिया में अनुगत दृष्टान्त से यह प्रपञ्च-विस्तार किया गया है।

### परमाणुजगदकारणत्वाधिकरण ॥ ३ ॥

जनयन्ति जगन्नो वा संयुक्ताः परमाणवः । आद्यकर्मजसंयोगाद् द्व्यणुकादिक्रमाज्जनिः ॥  
सनिमित्तानिमित्तादिविकल्पेष्व्वाद्यकर्मणः । असम्भवादसंयोगे जनयन्ति न ते जगत् ॥२॥

प्रलयकालिक परमाणुओं में सहेतुक वा निहेतुक दोनो प्रकार से कर्म नहीं हो सकते हैं, और कर्म के अभाव से संयोग का भी अभाव सिद्ध होता है, इससे सृष्टि का अभाव सिद्ध होता है। यहाँ संशय है कि परस्पर संयुक्त परमाणु जगत् की सृष्टि करते हैं, अथवा नहीं करते हैं, पूर्वपक्ष है कि जीवों के कर्मानुसार ईश्वर की इच्छा से परमाणुओं में आद्य कर्म होता है, उससे जन्य संयोग द्वारा द्व्यणुकादि-क्रम से ससार की उत्पत्ति होती है। सिद्धान्त है कि ईश्वरादि साधारण कारण हैं, जीव के कर्मों का भी परमाणु के साथ सम्बन्ध नहीं है, प्रलय-काल में अन्य भी कोई कर्म के हेतु हैं नहीं, इससे कारणजन्य कर्म नहीं हो सकता है, और अहेतुक कर्म मानें तो प्रलयाभाव की

प्राप्ति होगी, इस प्रकार आद्यकर्म के असम्भव से संयोग के नहीं सिद्ध हो सकने से परमाणु जगत् को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं ॥ १-२ ॥

### उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥ १२ ॥

इदानीं परमाणुकारणवादं निराकरोति । स च वाद इत्थं समुत्तिष्ठति । पटादीनि हि लोके सावयवानि द्रव्याणि स्वानुगतैरेव संयोगसचिवैस्तन्त्वादिभिर्द्रव्यैरारभ्यमाणानि दृष्टानि, तत्सामान्येन यावत्किञ्चित्सावयवं तत्सर्वं स्वानुगतैरेव संयोगसचिवैस्तैर्द्रव्यैरारब्धमिति गम्यते । स चायमवयवावयविविभागो यतो निवर्तते सोऽपकर्षपर्यन्तगतः परमाणुः, सर्वं चेदं जगद्गिरिसमुद्रादिकं सावयव, सावयवत्वाच्चाद्यन्तवत्, न चाकारणेन कार्येण भवितव्यमित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति कणभुगभिप्रायः । तानीमानि चत्वारि भूतानि भूम्युदकतेजःपवनाख्यानि सावयवान्युपलभ्य चतुर्विधाः परमाणवः परिकल्प्यन्ते । तेषां चापकर्षपर्यन्तगतत्वेन परतो विभागासम्भवाद्धिनश्यतां पृथिव्यादीनां परमाणुपर्यन्तो विभागो भवति स प्रलयकालः । तत्सर्गाकाले च वायवीयेष्वणुष्वदृष्टापेक्षं कर्मोत्पद्यते, तत् कर्म स्वाश्रयमण्वन्तरेण संयुनक्ति, ततो द्रव्यणुकादिक्रमेण वायुरुत्पद्यते, एवमग्निरेवमापं एवं पृथिवी, एवमेव शरीरं सेन्द्रियमिति । एवं सर्वमिदं जगदणुभ्यः सम्भवति, अणुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो द्रव्यणुकादिगतानि रूपादीनि सम्भवन्ति तन्तुपटन्यायेनेति काणादा मन्यन्ते ।

साध्य का निराकरण के बाद प्रासङ्गिक कथा करके अब इस समय सूत्रकार परमाणु-कारणवाद का निराकरण करते हैं । और वह वाद इस प्रकार समुपस्थित ( अनुमित सिद्ध ) होता है कि जिससे लोक में पटादि सावयव द्रव्य, अपने में अनुगत प्रविष्ट और संयोगसहित तन्तु आदि द्रव्यों से ही आरम्भमाण ( विरचित ) देखे जाते हैं । इससे उनकी समानता द्वारा यह समझा जाता है कि जो कुछ पृथिवी आदि सावयव वस्तु हैं वे सब ही स्वस्वरूप में अनुगत ( प्रविष्ट ) और संयोगसहित तत्तत् अवयवरूप द्रव्यों से ही आरब्ध ( जन्य ) हैं, प्रकृति वा ब्रह्म वा अन्य अभावादि से नहीं जन्य है । वह अवयव अवयवी का विभाग जिससे निवृत्त हो जाता है, अर्थात् परमसूक्ष्म स्वरूप जिसमें सावयवता का अनुमान नहीं किया जा सकता है, वह अपकर्ष ( न्यून परिमाण ) के पर्यन्त ( अवसान ) को गत ( प्राप्त ) पदार्थपरमाणु है । गिरि, समुद्रादि रूप यह सब जगत् सावयव हैं, सावयव होने से सब जगत् आदि-अन्त ( उत्पत्ति-नाश ) वाला पटादि के समान है । कारणरहित स्वाभाविक कार्य नहीं हो सकता है । इससे नित्यमूल-कारणरूप परमाणु हैं यह कणाद ऋषि का अभिप्राय है । और उन सावयव, भूमि, जल, तेज, पवन, नामवाले इन चार भूतों को समझ कर, इनके चार प्रकार के परमाणु-परिकल्पित-अनुमित होते हैं । न्यूनता की सीमागत

होने से उनके आगे विभाग के असम्भव से नाश होनेवाले पृथिवी आदि का भी परमाणु पर्यन्त ही अवयवों का विभाग होता है, और वह परमाणु-पर्यन्त विभाग ही प्रलयकाल है। फिर सृष्टिकाल में वायु के परम अणुओं में अदृष्ट सापेक्ष-कर्म उत्पन्न होता है। वह कर्म अपने आश्रय अणु परमाणु को दूसरे परमाणु से संयुक्त करता है, तब द्व्यणुकादि-क्रम से वायु उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अग्नि उत्पन्न होती है, जल उत्पन्न होता है, इसी प्रकार पृथिवी उत्पन्न होती है, तथा ऐसे ही इन्द्रिय-शरीर उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार यह सब जगत् अणुओं से होता है। और परमाणुगत रूपादि से द्व्यणुकादिगत रूपादि सब होते हैं, तन्तु से पट और तन्तु के रूपादि से पट के रूपादि की रीति से ही परमाणु से जगत् होता है, इस प्रकार कणाद ऋषि के अनुयायी मानते हैं।

तत्रेमभिधीयते । विभागावस्थानां तावदणानां संयोगः कर्मापेक्षोऽभ्युपगन्तव्यः, कर्मवतां तन्त्वादीनां संयोगदर्शानात्, कर्मणश्च कार्यत्वात्त्रिमित्तं किमप्यभ्युपगन्तव्यम् । अनभ्युपगमे निमित्ताभावान्नाणुष्वद्यं कर्म स्यात्, अभ्युपगमेऽपि यदि प्रयत्नोऽभिघातादिर्वा यथादृष्टं किमपि कर्मणो निमित्तमभ्युपगम्येत तस्यासम्भवात्त्रैवाणुष्वद्यं कर्म स्यात्, नहि तस्यामवस्थायामात्मगुणः प्रयत्नः सम्भवति शरीराभावात् । शरीरप्रतिष्ठे हि मनस्यात्मनः संयोगे सत्यात्मगुणः प्रयत्नो जायते । एतेनाभिघाताद्यपि दृष्टं निमित्तं प्रत्याख्यातव्यम् । सर्गोत्तरकालं हि तत्सर्वं नाद्यस्य कर्मणो निमित्तं सम्भवति । अथादृष्टमाद्यस्य कर्मणो निमित्तमित्युच्येत तत्पुनरात्मसमवायि वा स्यादणुसमवायि वा ? उभयथापि नादृष्टनिमित्तमणुषु कर्मावकल्पेत, अदृष्टस्याचेतनत्वात् । न ह्यचेतनं चेतनेनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं प्रवर्तते प्रवर्तयति वेति साङ्ख्यप्रक्रियायामभिहितम् । आत्मनश्चानुत्पन्नचेतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनत्वात् । आत्मसमवायित्वाभ्युपगमाच्च नादृष्टमणुषु कर्मणो निमित्तं स्यादसम्बन्धात् । अदृष्टवता पुरुषेणास्त्यणानां सम्बन्ध इति चेत् । सम्बन्धसातत्यात् प्रवृत्तिसातत्यप्रसङ्गो नियमकान्तराभावात् । तदेवं नियतस्य कस्यचित्कर्मनिमित्तस्याभावान्नाणुष्वद्यं कर्म स्यात्, कर्माभावात्त्रिबन्धनः संयोगो न स्यात्, संयोगाभावाच्च तन्निबन्धनं द्व्यणुकादि कार्यजातं न स्यात् । संयोगश्चाणोरण्वन्तरेण सर्वात्मना वा स्यादेकदेशेन वा ? सर्वात्मना चेदुपचयानुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसङ्गो दृष्टविपर्ययप्रसङ्गश्च, प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण संयोगस्य दृष्टत्वात् । एकदेशेन चेत्सावयवत्वप्रसङ्गः । परमाणूनां कल्पिताः प्रदेशाः स्युरिति चेत् । कल्पितानामवस्तुत्वादवस्त्वैव संयोग इति वस्तुनः कार्यस्यासमवायिकारणं न स्यात्, असति चासमवायिकारणे द्व्यणुकादिकार्यद्रव्यं नोत्पद्येत । यथा चादिसर्गो निमित्ताभावात्संयोगोत्पत्त्यर्थं कर्म नाराणानां सम्भवत्येवं महाप्रलयेऽपि विभागोत्पत्त्यर्थं कर्म नैवाणानां सम्भवेत् । नहि तत्रापि किञ्चिन्नियतं



तन्निमित्तं दृष्टमस्ति । अदृष्टमपि भोगप्रसिद्धयर्थं न प्रलयप्रसिद्धयर्थमित्यतो निमित्ताभावान्न स्यादणुनां संयोगोत्पत्त्यर्थं विभागोत्पत्त्यर्थं वा कर्म, अतश्च संयोगविभागाभावात्तदायत्तयोः सर्गप्रलययोरभावः प्रसज्येत । तस्मादनुपपन्नोऽयं परमाणुकारणवादः ॥ १२ ॥

वहाँ यह कहा जाता है कि कर्म ( क्रिया ) वाले तन्तुओं के संयोग को देखने से द्विभागावस्था वाले प्रलयकालिक परमाणुओं के संग्रोग को भी कर्मापेक्ष ( कर्मजन्य ) स्वीकार करना होगा । और कर्म को भी कार्यरूप होने से कर्म का भी कोई निमित्त मानना होगा, कर्म के निमित्त को नहीं मानने पर निमित्त के अभाव से आद्य ( आदि काल में होने वाला ) कर्म नहीं हो सकेगा । परमाणुओं में आद्य क्रिया नहीं होगी । कर्म के निमित्त को मानने पर भी व्यवहार में जैसा देखा जाता है, उसके अनुसार प्रयत्न वा अभिघातादि कोई कर्म का निमित्त मानना होगा । परन्तु उसके असम्भव से अणुओं में आद्य कर्म नहीं सिद्ध हो सकता है । क्योंकि उस समय शरीर के अभाव से आत्मा के गुणरूप प्रयत्न का सम्भव नहीं है, जिससे शरीर में स्थिर मन में आत्मा के संयोग होने पर आत्मा का गुणरूप प्रयत्न उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं । इस प्रयत्न के असम्भव से ही अभिघातादि रूप भी कर्म के दृष्ट निमित्त प्रलयावस्था में प्रत्याख्यान के योग्य है, सृष्टि के उत्तरकाल में होने वाले वे सब आद्य कर्म का निमित्तरूप नहीं हो सकते हैं । और आद्य कर्म का निमित्त यदि अदृष्ट को कहा जाय । वहाँ भी समझना होगा कि वह कर्म का निमित्त अदृष्ट आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहता है अथवा परमाणुओं में समवेत् रहता है । और इन दोनों प्रकार से भी परमाणुओं में अदृष्टनिमित्तक कर्म नहीं सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि अदृष्ट अचेतन है । और चेतन अधिष्ठातारहित अचेतन स्वतन्त्र प्रवृत्त नहीं हो सकता है । न प्रवृत्त करा सकता है । और सृष्टि से प्रथम वैशेषिक मत में आत्मा भी अचेतन है । इससे वह अधिष्ठाता नहीं हो सकता है, चेतन अधिष्ठाता-रहित अचेतन की अप्रवृत्ति का कथन साध्य की प्रक्रिया में किया गया है । और उस अवस्था में चेतनता की उत्पत्ति से रहित अदृष्ट सहित भी उस आत्मा को अचेतनत्व रहता है, इसमें उसको अधिष्ठातृत्व नहीं हो सकता है । और अदृष्ट को आत्मा में समवेत् मानने से भी अदृष्ट के साथ परमाणुओं का सम्बन्ध के अभाव से अदृष्ट परमाणुओं के कर्म का निमित्त नहीं हो सकता है । यदि कहो कि अदृष्ट वाला पुरुष आत्मा के साथ परमाणु का सम्बन्ध है । इसी से कर्म होगा, तो किसी नियामक के अभाव से सम्बन्ध की सदा स्थिति से प्रवृत्ति की भी सदा प्राप्ति होगी । उससे इस प्रकार नियत किसी कर्मनिमित्त के अभाव से परमाणुओं में आद्य कर्म नहीं होगा । और कर्म के अभाव से कर्मनिमित्तक संयोग नहीं होगा, और संयोग के अभाव से संयोग-निमित्तक द्रव्यणुकादि कार्यसमूह नहीं होंगे । ईश्वर भी सदा रहने वाला है, वह विशेष नियामक नहीं है । भाव है कि वायु से रेतीली भूमि में रेत के समान परमाणुओं में

कथञ्चित् कर्म द्वारा संयोग होगा भी तो संयोगमात्र से अनन्त वैचित्र्ययुक्त संसार नहीं हो सकता है । इससे इस अनन्त विचित्रता आदि के लिये अनन्त मायिक शक्ति सर्वात्मा ईश्वर मे मानना ही होगा, उसी से स्वप्न-सृष्टि के समान जाग्रत्-सृष्टि भी परमाणु आदि के बिना ही सिद्ध हो सकती है । इससे परमाणु और उनके संयोगादि की कल्पना निष्प्रामाणिक और निष्प्रयोजन है । और कथञ्चित् संयोग होने पर भी एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ वह संयोग सर्वस्वरूप से होगा वा एकदेश से होगा । यदि सर्वस्वरूप से व्याप्त होकर संयोग होगा, तो एक परमाणु दूसरे मे प्रविष्ट होकर तद्रूप ही हो जायगा, इसके कार्य मे प्रचय ( पृथुत्व ) की असिद्धि से सब कार्य को अणु-मात्रता की प्राप्ति होगी । और संयोग जैसा देखा जाता है, उससे विपरीतता की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि अवयव वाले द्रव्य को अवयव वाला द्रव्यान्तर के साथ संयोग देखा जाता है । वह एक देश से संयोग देखा जाता है । सर्वस्वरूप से संयोग मानने पर उससे विरोध होगा । और यदि परमाणु के संयोग को एकदेश द्वारा मानो तो परमाणु को सावयवता की प्राप्ति होगी । यदि दिशा के भेद से परमाणु मे कल्पित अवयव होंगे ऐसा मानो, तो कल्पित के अवस्तु मिथ्या होने से मिथ्या अवयवों का संयोग भी मिथ्या ही होगा । इससे वस्तु रूप कार्य का असमवायी कारणरूप नहीं होगा, और असमवायी कारणरूप संयोग के असत् होने पर—नहीं रहने पर द्व्यणुकारिरूप कार्य द्रव्य नहीं उत्पन्न होंगे । और जैसे सृष्टि मे निमित्त के नहीं रहने से संयोग की उत्पत्ति के लिये परमाणुओं के कर्म नहीं हो सकते । इसी प्रकार महाप्रलय मे भी परमाणुओं के विभाग की उत्पत्ति के लिए भी कर्म का सम्भव नहीं हो सकता है । क्योंकि उस प्रलय मे भी अनन्त परमाणुओं का वियोग के लिए कोई नियत उसका निमित्त दृष्ट नहीं है । और अदृष्ट ( धर्माधर्म ) भी जीव के भोग की प्रसिद्धि ( प्राप्ति ) के लिए होता है । प्रलय की प्रसिद्धि के लिए नहीं होता है । इस प्रकार निमित्त के अभाव से परमाणुओं के संयोग की उत्पत्ति के लिए वा विभाग की उत्पत्ति के लिये कर्म नहीं होगा । और इसी से संयोग और विभाग का अभाव होने से तदधीन सृष्टि और प्रलय का भी अभाव प्राप्त होगा, उससे यह परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १२ ॥

### समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥

समवायाभ्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृतेनागुणादनिराकरणेन सम्बन्धते ।  
 द्वाभ्यां चाणुभ्यां त्र्यणुकमुत्पद्यमानमत्यन्तभिन्नमणुभ्यामणवोः समवैतीत्यभ्यु-  
 पगम्यते भवता, न चैवमभ्युपगच्छता शक्यतेऽणुकारणता समर्थयितुम् ।  
 कुतः ? साम्यादनवस्थितेः । यथैव ह्यणुभ्यामत्यन्तभिन्नं सद् द्व्यणुकं समवायल-  
 क्षणेन सम्बन्धेन ताभ्यां सम्बन्धते, एवं समवायोऽपि समवायिभ्योऽत्यन्तभिन्नः  
 सन् समवायलक्षणेनान्येनैव सम्बन्धेन समवायिभिः सम्बन्धेतात्यन्तभेदसाम्यात्,  
 तत्र तस्य तस्यान्योन्यः सम्बन्धः कल्पयितव्य इत्यनवस्थैव प्रसज्येत ।

नन्विह प्रत्ययप्राह्यः समवायो नित्यसम्बद्ध एव समवायिभिर्गृह्यते नासम्बद्धः सम्बन्धान्तरापेक्षो वा, ततश्च न तस्यान्यः सम्बन्धः कल्पयितव्यो येनानवस्था प्रसज्येतेति । नेत्युच्यते । संयोगोऽप्येवं सति संयोगिभिर्नित्यसम्बद्ध एवेति समवायवन्नान्यं सम्बन्धमपेक्षेत । अथार्थान्तरत्वात् संयोगः सम्बन्धान्तरमपेक्षते, समवायोऽपि तर्ह्यर्थान्तरत्वात्सम्बन्धान्तरमपेक्षेत । न च गुणत्वाद् संयोगः सम्बन्धान्तरमपेक्षते न समवायोऽगुणत्वादिति युज्यते वक्तुम्, अपेक्षाकारणस्य तुल्यत्वात्, गुणपरिभाषायाश्चातन्त्रत्वान्, तस्मादर्थान्तरं समवायमभ्युपगच्छतः प्रसज्येतैवानवस्था । प्रसज्यमानायां चानवस्थायामेकासिद्धौ सर्वासिद्धेर्द्वीभ्यामगुणभ्यां द्व्यणुकं नैवोत्पद्येत । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १३ ॥

समवाय सम्बन्ध के स्वीकार से भी उस अणुकारणवाद का अभाव ( असम्भव ) है । इस सूत्र मे पूर्व सूत्र से 'तदभाव' इस पद का सम्बन्ध होता है, उसका प्रकृत अणुवादनिराकरण के साथ सम्बन्ध होता है कि समवाय के स्वीकार से अनवस्था दोष की प्राप्ति से भी यह बाद नहीं सिद्ध हो सकता है । क्योंकि आप अणुवादी सब मानते हो कि दो परमाणुओ से उत्पन्न हुआ द्व्यणुक परमाणुओ से अत्यन्त भिन्न होता हुआ दोनो परमाणु मे समवाय सम्बन्ध से रहता है । और इस प्रकार मानने वालो से अणुकारणता का समर्थन ( प्रतिपादन ) नहीं किया जा सकता है । क्योंकि समता से अनवस्था की प्राप्ति होती है । जिससे जैसे ही दो परमाणु से अत्यन्त भिन्न होता हुआ द्व्यणुक समवायरूप सम्बन्ध से दोनो परमाणु के साथ सम्बन्ध वाला होता है । इसी प्रकार समवाय भी अपने आश्रय समवायियो से अत्यन्त भिन्न होता हुआ अन्य समवाय रूप सम्बन्ध द्वारा ही समवायी परमाणुओ से सम्बन्ध वाला होगा, क्योंकि द्व्यणुक और समवाय दोनो को परमाणुओ से अत्यन्त भेद तुल्य है । उससे तत्तत् समवायो के अन्य २ समवाय की कल्पना करना होगा, इस प्रकार अनवस्था ही की प्राप्ति होगी । यदि कहो कि इस तन्नु मे पट है । इस पट मे रूप है, इत्यादि प्रतीति से ग्राह्य अर्थात् ऐसे ज्ञानों का विषय रूप समवाय, अपने समवायी आश्रय से नित्य सम्बद्ध ही गृहीत ( ज्ञात ) होता है, सम्बन्धरहित वा सम्बन्धान्तर की अपेक्षा वाला नहीं गृहीत होता है । उससे उस समवाय का अन्य-अन्य सम्बन्ध की कल्पना नहीं करनी पडती है, कि जिससे अनवस्था की प्राप्ति हो । यहाँ कहा जाता है कि ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि ऐसा होने पर संयोग भी संयोगियो के साथ नित्य सम्बद्ध ही रहता है, इससे वह भी समवाय के समान सम्बन्धान्तर की अपेक्षा नहीं करेगा । और यदि संयोगी से अर्थान्तर होने से संयोग सम्बन्धान्तर की अपेक्षा करता है, तो समवाय भी समवायी से अर्थान्तर होने से सम्बन्धान्तर की अपेक्षा करेगा । यह भी कहना युक्त नहीं हो सकता है कि गुण होने से संयोग सम्बन्धान्तर की अपेक्षा करता है, और समवाय सम्बन्धान्तर की अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि यह अणुण ( गुणभिन्न ) है । जिससे भिन्नतारूप अपेक्षा का कारण संयोग

और समवाय दोनो मे तुल्य है । और गुण की परिभाषा ( संकेत ) इस सम्बन्ध मे अतन्त्र ( अहेतु ) है जिससे कर्मादि का भी समवाय माना जाता है । उससे समवाय को अर्थान्तर मानने वाले को अनवस्था की प्राप्ति होती ही है । और अनवस्था की प्राप्ति होने पर एक समवाय की असिद्धि से सब समवाय के अधीन सिद्ध होने वाले परमाणु के सयोग द्व्यणुकादि सबकी असिद्धि से दो परमाणु से द्व्यणुक नही उत्पन्न हो सकता है । उससे भी परमाणु-कारणवाद अनुपपन्न है ॥ १३ ॥

### नित्यमेव च भावात् ॥ १४ ॥

अपि चाणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिस्वभावा बोभयस्वभावा वाऽनु-  
भयस्वभावा वाऽभ्युपगम्यन्ते गत्यन्तराभावात् , चतुर्धापि नोपपद्यते । प्रवृत्ति-  
स्वभावत्वे नित्यमेव प्रवृत्तेर्भावात्प्रलयाभावप्रसङ्गः । निवृत्तिस्वभावत्वेऽपि  
नित्यमेव निवृत्तेर्भावात्सर्गाभावप्रसङ्गः । उभयस्वभावत्व च विराधादसमञ्जसम् ।  
अनुभयस्वभावत्वे तु निमित्तवशात्प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभ्युपगम्यमानयोरदृष्टादे-  
र्निमित्तस्य नित्यसन्निधानान्नित्यप्रवृत्तिप्रसङ्गात् , अतन्त्रत्वेऽप्यदृष्टादेर्नित्या-  
प्रवृत्तिप्रसङ्गात् , तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १४ ॥

और यह भी विचारार्थ विषय है कि परमाणु प्रवृत्ति स्वभाव वाले हैं, वा निवृत्ति स्वभाव वाले हैं, अथवा प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनो स्वभाव वाले हैं, यद्वा अनुभय स्वभाव वाले, दोनो स्वभाव से रहित हैं । परन्तु अदृष्ट कालादि निमित्त के अधीन प्रवृत्ति वाले हैं । ये चार के सिवा अन्य गति मार्ग प्रकार नही है । और इन चारो प्रकार से परमाणु-कारणवाद उपपन्न नही होता है, क्योंकि प्रवृत्ति स्वभाव के रहने पर नित्य ही प्रवृत्ति के भाव से प्रलय का अभाव प्राप्त होता है । निवृत्ति-स्वभावत्व होने पर नित्य ही निवृत्ति के भाव से सृष्टि का अभाव प्राप्त होता है । और उभय स्वभाव तो विरोध से ही अयुक्त है । और अनुभयस्वभावत्व होने पर तो निमित्त के वश से प्रवृत्ति-निवृत्ति को मानने पर अदृष्टादि निमित्त के नित्य सन्निधान से नित्य प्रवृत्ति का प्रसंग होता है । और अदृष्टादि सन्निहित होते भी यदि प्रवृत्ति मे तन्त्र ( हेतु ) नही हो तो भी नित्य अप्रवृत्ति की प्राप्ति होती है, जिससे भी परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १४ ॥

### रूपादिमत्त्वाच्च विपर्ययो दर्शनात् ॥ १५ ॥

सावयवानां द्रव्याणामवयवशो विभज्यमानानां यतः परो विभागो न सम्भ-  
वति ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवश्चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूतभौतिक-  
स्यास्मिका नित्याश्चेति यद् वैशेषिका अभ्युपगच्छन्ति स तेषामभ्युपगमो निरा-  
लम्बन एव, यतो रूपादिमत्त्वात्परमाणूनामणुत्वनित्यत्वविपर्ययः प्रसज्येत ,  
परमकारणापेक्षया स्थूलत्वमनित्यत्वं च तेषामभिप्रेतविपरीतमापद्येतेत्यर्थः ।  
कुतः ? एवं लोके दृष्टत्वात् । यद्धि लोके रूपादिमद्वस्तु तत्स्वकारणापेक्षया  
स्थूलमनित्यं च दृष्टम् , तद्यथा पटस्तन्तूनपेक्ष्य स्थूलोऽनित्यश्च भवति, तन्त्व-

श्रान्शूनपेक्ष्य स्थूला अनित्याश्च भवन्ति, तथा चामी परमाणवो रूपादिमन्त-  
स्तरभ्युपगम्यन्ते, तस्मात्तेऽपि कारणवन्तस्तदपेक्षया स्थूला अनित्याश्च प्राप्नु-  
वन्ति । यच्च नित्यत्वे कारणं तैरुक्तम्—‘सदकारणवन्नित्यम्’ ( वै० सू० ४।१।१ )  
इति, तदप्येवं सत्यगुणु न सम्भवति, उक्तेन प्रकारेणारूनामपि कारणवत्त्वोपपत्तेः ।

अवयव द्वारा विभक्त ( विभागयुक्त ) होते हुए अवयव वाले द्रव्यो का जिससे पर-  
आगे विभाग नहीं हो सकता है । वे ही चार प्रकार के रूपादि वाले परमाणु हैं, जो  
चार प्रकार के रूपादि वाले भूत-भौतिक पदार्थों के आरम्भक-उत्पादक और नित्य हैं,  
इस प्रकार जो वैशेषिक मानते हैं, वह उनका मानना निराधार-विषय-प्रमाणादि रहित  
मिथ्या ही है । जिससे परमाणुओं को रूपादिमत्ता से घटादि के समान अणुत्व और  
नित्यत्व के विपर्यय की प्राप्ति होगी, परम कारण की अपेक्षा से स्थूलत्व और अनित्यत्व  
भी उन परमाणु को अभिप्रेत से विपरीत प्राप्त होगा यह अर्थ है । क्योंकि ऐसा ही लोक  
मे देखा जाता है । जिससे लोक मे जो रूपादिवाली वस्तु हैं, वे अपने कारण की  
अपेक्षा स्थूल और अनित्य देखी गई है उससे जैसे पट तन्तुओं की अपेक्षा मे स्थूल  
और अनित्य होता है, और तन्तु भी अणुओं की अपेक्षा से स्थूल और अनित्य  
होते हैं । इसी प्रकार ये परमाणु भी रूपादिवाले उन वैशेषिकों से माने जाते हैं, जिससे  
वे परमाणु भी कारण वाले और उसकी अपेक्षा से स्थूल तथा अनित्य प्राप्त होते हैं ।  
और जो उन लोगो ने नित्यत्व मे कारण कहा है कि ( कारणरहित सत्तावाला भाव-  
वस्तु नित्य है । प्रागभाव कारणरहित है परन्तु अभाव है, इससे उसमे लक्षण की अति-  
व्याप्ति तो नहीं होती है, परन्तु इस पूर्व में कही रीति से परमाणुओं के भी कारणवत्त्व  
की सिद्धि से परमाणुओं मे सदकारणवत्त्व का सम्भव नहीं होता है ।

यदपि नित्यत्वे द्वितीयं कारणमुक्तम्—‘अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधा-  
भावः’ ( वै० ४।१।४ ) इति, तदपि नावश्यं परमाणूनां नित्यत्वं साधयति, असति  
हि यस्मिन्कस्मिन्नित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन नवः समासो नोपपद्यते, न  
पुनः परमाणुनित्यत्वमेवापेक्ष्यते, तच्चास्त्येव नित्यं परमकारणं ब्रह्म । न च  
शब्दार्थव्यवहारमात्रेण कस्यचिदर्थस्य प्रसिद्धिर्भवति, प्रमाणान्तरसिद्धयोः  
शब्दार्थयोर्व्यवहारावतारान् । यदपि नित्यत्वे तृतीयं कारणमुक्तम्—‘अविद्या च’  
( वै० ४।१।५ ) इति, तद्यद्येवं विव्रीयते सतां परिदृश्यमानकार्याणां कारणानां  
प्रत्यक्षेणाग्रहणमविद्या—इति, ततो द्व्यणुकनित्यताऽप्यापद्येत । अथाद्रव्यत्वे  
सतीति विशेष्येत तथाप्यकारणवत्त्वमेव नित्यतानिमित्तमापद्येत, तस्य च प्रागे-  
वोक्तत्वात् ‘अविद्या च’ इति पुनरुक्तं स्यात् । अथापि कारणविभागात्कारण-  
विनाशाच्चान्यस्य तृतीयस्य विनाशहेतोरसम्भवोऽविद्या सा परमाणूनां  
नित्यत्वं ख्यापयतीति व्याख्यायेत, नावश्यं विनश्यद्वस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्या  
विनष्टमर्हतीति नियमोऽस्ति, संयोगसचिवे ह्यनेकस्मिन् द्रव्ये द्रव्यान्तर-  
स्थारम्भकेऽभ्युपगम्यमान एतदेवं स्यात् । यदा त्वपास्तविशेषं सामान्यात्मकं

कारणं विशेषवदवस्थान्तरमापद्यमानमारम्भकमभ्युपगम्यते, तथा घृतकाठिन्य-  
विलयनवन्मूर्त्यवस्थाविलयनेनापि विनाश उपपद्यते । तस्माद्रूपादिमत्त्वात्स्या-  
दभिप्रेतविपर्ययः परमाणूनाम्, तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १५ ॥

जो नित्यत्व मे दूसरा कारण कहा है कि ( अनित्यम्—इस प्रयोग-प्रतीति से ही विशेष नित्य के प्रतिषेध का अभाव सिद्ध होता है, क्योंकि नित्य के बिना नित्य को प्रतिषेधरूप अनित्य भी नहीं सिद्ध हो सकता है ) वह कारण का कथन भी परमाणु की नित्यता को अवश्य निश्चित रूप से नहीं साधता है, क्योंकि जिस किसी नित्य वस्तु के नहीं रहने पर नित्य शब्द के साथ न शब्द का समास नहीं सिद्ध हो सकेगा, इससे समास के लिये किसी नित्य की अपेक्षा है, परन्तु वहाँ परमाणु का ही नित्यत्व अपेक्षित नहीं होता है । और वह अपेक्षित नित्य परम कारणरूप ब्रह्म है ही, इससे परमाणु की नित्यता के बिना नव् समास की उपपत्ति नहीं है । और प्रमाणान्तर के बिना शब्दार्थ के व्यवहारमात्र से किसी अर्थ की प्रसिद्धि ( सत्यता ) नहीं होती है, किन्तु प्रमाणान्तर मे सिद्ध शब्द और अर्थ मे सत्य व्यवहार सिद्ध होता है, प्रमाण के बिना मिथ्या भी नित्यत्वादि के व्यवहार होते हैं । और जो परमाणु के नित्यत्व मे तृतीय कारण कहा है कि ( अविद्या भी नित्यत्व मे हेतु है ) उसका यदि ऐसा विवरण-व्याख्यान किया जाय कि परिदृश्यमान ( प्रत्यक्ष ) कार्य वाले वाले वर्तमान कारणों का प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्रहण-अविद्या है, तो द्व्यणुक मे भी नित्यता की प्राप्ति होगी, वह भी प्रत्यक्ष से अग्राह्य है, और प्रत्यक्ष कार्य वाला है । और यदि द्व्यणुक मे अतिव्याप्ति का वारण के लिये अद्रव्य होते, अर्थात् आरम्भक द्रव्य से रहित होते, ऐसा विशेषण दिया जाय, तो भी अकारणवत्ता ही नित्यता का निमित्त सिद्ध होगा, उसका प्रथम ही कथन हो चुका है, यह सूत्र व्यर्थ होगा, और पुनरुक्त ( कथित का कथन ) हो जायगा । और यदि व्याख्यान किया जाय कि कारण के विभाग और कारण के विनाश से कार्य का नाश होता है, निरवयव कारणरहित परमाणुओं का इन दोनों से तो नाश नहीं हो सकता है, और इनसे अन्य किसी तृतीय हेतु से नाश कहा जाय, तो तृतीय विनाश-हेतु का असम्भवरूप अविद्या है, अर्थात् द्रव्य के नाश के दो ही कारण हैं, तीसरा है नहीं, इससे वह तीसरा का असम्भव परमाणु के नित्यत्व का प्रबोध कराता है, वहाँ कहा जाता है कि अवश्य विनष्ट होनेवाली वस्तु दो ही हेतुओं से विनाश के योग्य होती है, यह नियम नहीं है, अर्थात् कार्यारम्भ माना जाय तो यह नियम हो सकता है, किन्तु तन्तु मे तन्तु से अत्यन्त भिन्न पट के आरम्भ मे कोई प्रमाण नहीं है, इससे कारण ही किसी विशेषावस्था को प्राप्त होकर कार्य कहाता है, फिर अवस्थान्तर की प्राप्ति से कार्य का नाश कहा जाता है, इससे सयोगसहित अनेक तन्तु आदिरूप द्रव्य मे पटादिरूप द्रव्यान्तर के आरम्भ को मानने पर तो यह नियम इस प्रकार हो सकता है कि दो ही हेतु से कार्य का नाश होता है । और जब परिणामवाद मे विशेषावस्थादि से रहित

सामान्य स्वरूपवाला कारण विशेषवाला अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ आरम्भक होता है, यह मानते हैं, तब तो घृतादि की कठिनता का विलय के समान मूर्ति अवस्था के विलय से भी विनाश सिद्ध होता है। उससे परमाणुओं को रूपादिमान होने से अभिप्रेत नित्यत्व का विपर्यय होगा, अवयव-विभाग बिना भी अवस्थान्तर की प्राप्ति रूप विनाश होगा, उससे भी परमाणु-कारणवाद अनुपपन्न है ॥ १५ ॥

### उभयथा च दोषात् ॥ १६ ॥

गन्धरसरूपस्पर्शगुणा स्थूला पृथिवी, रूपरसस्पर्शगुणाः सूक्ष्मा आपः, रूपस्पर्शगुणं सूक्ष्मतरं तेजः, स्पर्शगुणः सूक्ष्मतमो वायुरित्येवमेतानि चत्वारि भूतान्युपचितापचितगुणानि स्थूलसूक्ष्मसूक्ष्मतरसूक्ष्मतमतारतम्योपेतानि च लोके लक्ष्यन्ते, तद्वत्परमाणवोऽप्युपचितापचितगुणा. कल्पयेन्न वा ? उभयथापि च दोषानुषङ्गोऽपरिहार्य एव स्यात्। कल्प्यमाने तावदुपचितपाचितगुणत्व उपचितगुणानां मूर्त्युपचयादपरमाणुत्वप्रसङ्ग । न चान्तरेणापि मूर्त्युपचय गुणापचयो भवतोत्युच्येत, कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मूर्त्युपचयदर्शनात् । अकल्प्यमाने तूपचितापचितगुणत्वे परमाणुत्वसाम्यप्रसिद्धये यदि तावत्सर्व एकैकगुणा एव कल्पयेरंस्ततस्तेजसि स्पर्शस्योपलब्धिर्न स्यात् अप्सु रूपस्पर्शयोः पृथिव्यां च रसरूपस्पर्शानां, कारणगुणपूर्वकत्वात्कार्यगुणानाम् । अथ सर्वे चतुर्गुणा एव कल्पयेन्, ततोऽस्वपि गन्धस्योपलब्धिः स्यात्, तेजसि गन्धरसयोः, वायौ गन्धरूपरसानाम् । न चैवं दृश्यते । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १६ ॥

गन्ध, रस, रूप और स्पर्श गुणवाली पृथिवी स्थूल है। रूप, रस और स्पर्श गुणवाला जल सूक्ष्म है। रूप और स्पर्श गुणवाला तेज सूक्ष्मतर है। स्पर्श गुणवाला वायु सूक्ष्मतम है। इस प्रकार उपचित ( समृद्ध-अधिक ) और अपचित ( अल्प ) गुणवाले ये चारो भूत स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतमतारूप तारतम्ययुक्त लोक में देखे जाते हैं, इसी प्रकार इनके परमाणु भी उपचित-अपचित गुणवाले कल्पित होंगे, वा नहीं होंगे, दोष तो दोनों प्रकार से अनिवार्य ही है, प्रथम उपचितापचित-गुणत्व की परमाणुओं में कल्पना करने पर उपचित गुणवालो को मूर्ति के उपचय ( स्वरूप की स्थूलता ) से अपरमाणुत्व की प्राप्ति होगी। यदि कहो कि मूर्ति के उपचय के बिना ही गुण का उपचय होता है, तो वह नहीं कह सकते, क्योंकि कार्यरूप भूतो में गुण का उपचय होने पर मूर्ति का भी उपचय देखा जाता है। और उपचित-अपचित गुणत्व की कल्पना परमाणुओं में नहीं करने पर परमाणुत्व-रूप समता की प्रसिद्धि के लिये यदि सब परमाणु को एक एक गुणवाला ही कल्पना करो-मानो, तो तेज में स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी। इसी प्रकार जल में रूप और स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी, भूमि में रूप, रस और स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी। क्योंकि कारण के गुण दैक कार्य के गुणों की

उत्पत्ति मानी गई है। और यदि सब परमाणु को चार चार गुणो से युक्त कल्पना करो, तो जल मे भी गन्ध की उपलब्धि होनी चाहिये। तेज मे गन्ध और रस की उपलब्धि होनी चाहिये। और वायु मे रूप, गन्ध तथा रस की उपलब्धि होनी चाहिये। परन्तु ऐसा देखा नही जाता है, उससे भी परमाणु-कारणवाद अनुपपन्न है ॥ १६ ॥

### अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥

प्रधानकारणवादो वेदविद्धिरपि कैश्चिन्मन्वादिभिः सत्कार्यत्वाद्यंशोपजीवनाभिप्रायेणोपनिबद्धः। अयं तु परमाणुकारणवादो न कैश्चिदपि शिष्टैः केनचिदप्यंशेन परिगृहीत इत्यत्यन्तमेवानादरणीयो वेदवादिभिः।

अपि च वैशेषिकास्तन्त्रार्थभूतान्षट्पदार्थान्द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाख्यानत्यन्तभिन्नान् भिन्नलक्षणानभ्युपगच्छन्ति, यथा मनुष्योऽश्वः शश इति। तथात्वं चाभ्युपगम्य तद्विरुद्धं द्रव्याधीनत्व शेषाणामभ्युपगच्छन्ति। तन्नोपपद्यते। कथम्? यथा हि लोके शशकुशपलाशप्रभृतीनामत्यन्तभिन्नानां सतां नेतरेतराधीनत्वं भवति, एवं द्रव्यादीनामत्यन्तभिन्नत्वान्नैव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितुमर्हति।

मनु आदि कितने वेद-वेत्ताओ ने भी सत्कार्यत्वादि वैदिक सिद्धान्ताश का उपजीवन (स्वीकार आश्रयण) के अभिप्राय से प्रधान कारणवाद का उपनिबन्ध (लेख) किया है। अर्थात् सत्कार्यत्व आत्मा के असङ्गत्व-वद्रूपत्व-नित्यमुक्तत्वादि आदि अश मे प्रधान-कारणवादी वेद का आश्रय लेते हैं, इससे वेद-वेत्ताओ ने उन अशो मे प्रधान कारणवाद का कथन किया है। परन्तु यह परमाणु-कारणवाद तो किसी भी शिष्ट से किसी अश द्वारा भी गृहीत-स्वीकृत नहीं हुआ है, इस कारण से यह वेदवादियो से अन्यन्त ही अनादरणीय है।

दूसरी बात है कि वैशेषिकवादी लोग अपने तन्त्र (शास्त्र) से प्रतिपाद्य पदार्थ स्वरूप ६ पदार्थ को मानते है। अर्थात् द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नाम वाले अत्यन्त भिन्न और भिन्न लक्षण वाले ६ पदार्थ को मानते हैं। वहा गुण-क्रियावत्त्व वा समवायिकारणता द्रव्य का लक्षण कहते हैं। द्रव्य कर्म से भिन्न होते सामान्य (जाति) मत्ता गुण का लक्षण कहते हैं। सयोग-विभाग के निरपेक्ष कारण को कर्म कहते हैं। नित्यानेकानुगत को सामान्य (जाति) कहते हैं, नित्य द्रव्यवृत्ति विशेष को मानते है, और नित्य सम्बन्ध को समवाय कहते हैं, इन ६ पदार्थों के भेद को इस प्रकार से मानते हैं कि जैसे मनुष्य, अश्व और शश का परस्पर भेद रहता है। तथात्व (अत्यन्तभिन्नत्व) मानकर फिर उससे विरुद्ध द्रव्याधीनत्व द्रव्य से अन्य सबको मानते हैं। अत अत्यन्त भिन्न को द्रव्याधीनत्व सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे लोक मे, अत्यन्त भिन्न रूप से वर्तमान शश, कुश, पलाशादि को परस्पर अधीनत्व नहीं होता है।



इसी प्रकार द्रव्यादि का अत्यन्त भिन्नत्व होने से गुणादि का द्रव्याधीनत्व होना योग्य नहीं है ।

अथ भवति द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां, ततो द्रव्यभावे भावाद् द्रव्याभावे चाऽभावाद् द्रव्यमेव मंस्थानादिभेदादनेकशब्दप्रत्ययभागभवति । यथा देवदत्त एक एव सन्नत्रस्थान्तरयोगादनेकशब्दप्रत्ययभागभवति तद्वन् । तथा सति साङ्ख्यसिद्धान्तप्रसङ्गः स्वसिद्धान्तविरोधश्चापद्येयाताम् । नन्वभेरन्यस्यापि सतो धूमस्याग्न्यधीनत्वं दृश्यते । सत्यं दृश्यते, भेदप्रतीतेस्तु तत्राग्निधूमयो-रन्यत्वं निश्चीयते, इह तु शुक्लः कम्बलो रोहिणी धेनुनीलमुत्पलमिति द्रव्यस्यैव तस्य तस्य तेन तेन विशेषेण प्रतीयमानत्वाच्चैव द्रव्यगुणयोरग्निधूमयोरिव भेदप्रतीतिरस्ति, तस्माद् द्रव्यात्मकता गुणस्य । एतेन कर्मसामान्यविशेषसम-वायानां द्रव्यात्मकता व्याख्याता । गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यगुणयोरयुत-सिद्धत्वादिति यदुच्यते, तत्पुनरयुतसिद्धत्वमपृथग्देशत्वं वा स्यादपृथक्कालत्वं वाऽपृथक्स्वभावत्वं वा, सर्वथापि नोपपद्यते । अपृथग्देशत्वे तावत्स्वाभ्युपगमो विरुध्येत । कथम् ? तन्त्वारब्धो हि पटस्तन्तुदेशोऽभ्युपगम्यते न पटदेशः, पटस्य तु गुणाः शुक्लत्वादयः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुदेशाः । तथा चाह—‘द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्’ ( वै० १।१।१० ) इति । तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कार्यद्रव्यं पटमारभन्ते, तन्तुगताश्च गुणाः शुक्लादयः कार्यद्रव्ये पटे शुक्लादिगुणान्तरमारभन्त इति हि तेऽभ्युपगच्छन्ति । सोऽभ्यु-पगमो द्रव्यगुणयोरपृथग्देशत्वेऽभ्युपगम्यमाने बाध्येत । अथापृथक्कालत्वमयुत-सिद्धत्वमुच्येत, स्वयदक्षिणयोरपि गोविषाणयोरयुतसिद्धत्वं प्रसज्येत । तथाऽ-पृथक्स्वभावत्वे त्वयुतसिद्धत्वे न द्रव्यगुणयोरान्यभेदः सम्भवति, तस्य तादा-त्म्येनैव प्रतीयमानत्वात् ।

यदि गुणादि को द्रव्याधीनत्व होता है । उससे द्रव्य का भाव ( सत्ता ) रहते उनका भाव होता है, और द्रव्य के अभाव होने पर उनका अभाव होता है तो इससे सिद्ध होता है कि कल्पित भेदवाला वस्तुतः द्रव्य ही सस्थान ( आकार-सन्निवेश ) आदि के भेद से अनेक शब्द और प्रत्यय का भागी विषय होता है । जैसे देवदत्त एक होता हुआ भी अवस्थान्तर के सम्बन्ध से अनेक शब्द और प्रत्यय का भागी होता है, वैसे ही द्रव्य भी अनेक शब्द-प्रत्यय का भागी होता है । परन्तु ऐसा होने पर साध्य ( वेदान्त ) का ही प्रसंग प्राप्त होगा । और वैशेषिक को अपने सिद्धान्त से विरोध प्राप्त होगा । शका ह्येती है कि अग्नि से अन्य धूम को भी अग्नि के अधीनत्व देखा जाता है, ऐसे गुणादि को द्रव्याधीनत्व हो सकता है । उत्तर है कि धूम का अधीनत्व सत्य ही देखा जाता है । परन्तु वहाँ भेद की प्रतीति से अग्नि और धूम में अन्यत्व ( भेद ) का निश्चय किया जाता है । और यहाँ तो शुक्ल कम्बल है । लाल गौ है । नील कमल है, इत्यादि वाक्यों में

तत्तत् विशेष रूप से प्रतीति का विषय होने से द्रव्य और गुण को अभि और घूम के समान भेद की प्रतीति नहीं होती है, उससे गुण को द्रव्यरूपता है। इसी से कर्म-सामान्य, विशेष और समवाय की भी द्रव्यात्मकता व्याख्यात हो गई। द्रव्य और गुणादि के अयुतसिद्धत्व से जो गुणादि को द्रव्याधीनत्व कहने हे कि गुणादि द्रव्य से अभिन्न नहीं है, किन्तु द्रव्यसे अयुतसिद्ध हैं, इससे द्रव्य के अधोन हैं। वहाँ वह अयुतसिद्धत्व, अपृथग्देशत्व है, वा अपृथक्कालत्व है, वा अपृथग् भावत्व है, सर्वथा ही यह सिद्ध नहीं होता है, द्रव्य और गुणादि को यदि अपृथक् सिद्ध माने तो अपने अभ्युपगम से विरोध होगा। क्योंकि तन्तु से आरब्ध (जन्य) पट को तन्तु देश में मानते हैं पट देश वाला पट को नहीं माना जाता है। और पट के शुक्लादि गुण तो पट देश वाले पटवृत्ति माने जाते हैं, तन्तुवृत्ति नहीं माने जाते हैं, इससे पृथग्देशत्व ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि (अवयव द्रव्य अवयवी द्रव्य का आरम्भ करते हैं, अवयव के गुण अवयवी के गुणान्तर को आरम्भ करते हैं) तन्तु कारण द्रव्य है, वह कार्य द्रव्य पट का आरम्भ करते हैं। और तन्तु के शुक्लादि गुण का द्रव्य रूप पट में शुक्लादि गुणान्तर का आरम्भ करते हैं। इस प्रकार वे लोग मानते हैं। द्रव्य और गुण को अपृथग्देशत्व मानने पर वह अभ्युपगम बाधित हो जायगा। और यदि अपृथक्कालत्व अयुतसिद्धत्व कहे। तो गौ के बाँये दहिने सींग को भी अयुतसिद्धत्व प्राप्त होगा, इसी प्रकार अपृथक् स्वभावत्व यदि अयुतसिद्धत्व हो, तो द्रव्य और गुण का स्वरूप भेद नहीं सम्भव होता है, स्वरूप को ही स्वभाव की कहते हैं। इस प्रकार जिस गुण को तादात्म्य (द्रव्य के साथ अभिन्न) रूप से ही प्रतीत होने से द्रव्य गुण का भेद सम्भव नहीं है।

युतसिद्धयोः सम्बन्धः संयोगोऽयुतसिद्धयोस्तु समवाय इत्ययमभ्युपगमो मृषैव तेषां, प्राक्सिद्धस्य कार्यात्कारणस्यायुतसिद्धत्वानुपपत्तेः। अथान्यतरापेक्ष एवायमभ्युपगमः स्यादयुतसिद्धस्य कार्यस्य कारणेन सम्बन्धः समवाय इति। एवमपि प्रागसिद्धस्यालब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणेन सम्बन्धो नोपपद्यते द्वायत्तत्वात्सम्बन्धस्य। सिद्धं भूत्वा सम्बन्धयत इति चेत्, प्राकारणसम्बन्धात् कार्यस्य सिद्धावभ्युपगम्यमानायाभ्युतसिद्धयभावात् 'कार्यकारणयोः संयोग-विभागौ न विद्येते' इतीदं दुरुक्तं स्यात्। यथा चोत्पन्नमात्रस्याक्रियस्य कार्य-द्रव्यस्य विभुभिराकाशादिभिर्द्रव्यान्तरैः सम्बन्धः संयोग एवाभ्युपगम्यते न समवायः, एवं कारणद्रव्येणापि सम्बन्धः संयोग एव स्यान्न समवायः। नापि संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धस्य सम्बन्धिष्यतिरेकेणास्तित्वे किञ्चित्प्रमाण-मस्ति। सम्बन्धिष्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्ययदर्शानात्तयोर-स्तित्वमिति चेत्। न। एकत्वेऽपि स्वरूपबाह्यरूपापेक्षयानेकशब्दप्रत्ययदर्श-नात्। यथैकोऽपि सन् देवदत्तो लोके स्वरूपं सम्बन्धिरूपं चापेक्षयानेकशब्द-प्रत्ययभागवति—मनुष्यो ब्राह्मणः श्रोत्रियो बालो वा स्थविरः पिता पुत्रः

पौत्रो भ्राता जामाता-इति, यथा चैकापि सती रेखा स्थानान्यत्वेन निविशमानै-  
कदशशतसहस्रादिशब्दप्रत्ययभेदमनुभवति, तथासम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिशब्द-  
प्रत्ययव्यतिरेकेण सयोगसमवायशब्दप्रत्ययार्हत्वं न व्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वेन,  
इत्युपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धैरभावो वस्त्वन्तरस्य । नापि सम्बन्धिविषयत्वे  
सम्बन्धशब्दप्रत्यययोः सततभावप्रसङ्गः, स्वरूपबाह्यरूपापेक्षयेत्युक्तोत्तरत्वात् ।  
तथाऽण्वात्ममनसामप्रदेशत्वान्न सयोगः सम्भवति, प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता  
द्रव्यान्तरेण संयोगदर्शनात् । कल्पिताः प्रदेशा अण्वात्ममनसां भविष्यन्तीति  
चेत् । न । अविद्यमानार्थकल्पनायां मवार्थसिद्धिप्रसङ्गात्, इयानेवाविद्यमानो  
विरुद्धोऽविरुद्धोऽवार्थः कल्पनीयो न ततोऽधिक इति नियमहेत्वभावात्, कल्प-  
नायाश्च स्वायत्तत्वात्प्रभूतत्वसम्भवाच्च । न च वैशेषिकैः कल्पितेभ्यः षड्भ्यः  
पदार्थेभ्योऽन्येऽधिकाः शतं सहस्रं वार्था न कल्पयितव्या इति निवारको  
हेतुरस्ति, तस्माद्यस्मै यस्मै यद्यद्रोचते तत्तत्सिद्धयेत् ।

युत सिद्ध ( पृथक्सिद्ध ) पदार्थों का सम्बन्ध सयोग है । और अयुतसिद्ध का  
सम्बन्ध समवाय है । यह भी उनका सिद्धान्त मिथ्या ही है, क्योंकि कार्य से पूर्व काल  
मे सिद्ध कारण को अयुत सिद्धत्व की अनुपपत्ति है । अर्थात् कार्य के योग बिना कारण  
की असिद्धि नहीं है । और यदि ऐसा कहो कि कार्य-कारण दोनों की अपेक्षा से अयुत-  
सिद्धि नहीं मानी जाती है किन्तु अन्यतर ( एक ) कार्य की अपेक्षा से मानी जाती है ।  
और कार्य कारण के साथ युक्त हुए बिना असिद्ध है । इससे अयुत सिद्ध कार्य का कारण  
के साथ समवाय सम्बन्ध हो सकता है । तो इस प्रकार भी प्रथम असिद्ध अलब्धात्मा  
वाला कार्य का कारण के साथ सम्बन्ध नहीं सिद्ध हो सकता है । क्योंकि सम्बन्ध दो के  
अधीन होता है । यदि कहो कि कार्य प्रथम सिद्ध होकर फिर कारण से सम्बन्ध वाला  
होता है, तो कारण-सम्बन्ध से प्रथम कार्य की सिद्धि मानने पर अयुतसिद्धि के अभाव से  
( कार्य और कारण का सयोग और विभाग नहीं होता है ) यह कथन दुस्त हो जायगा  
और जैसे उत्पन्नमात्र क्रियारहित कार्य द्रव्य का विभु द्रव्यान्तररूप आकाशादि के  
साथ सयोग सम्बन्ध हो माना जाता है, समवाय नहीं माना जाता है, इसी प्रकार सिद्ध  
कार्य का कारण द्रव्य के साथ भी संयोग ही सम्बन्ध होगा समवाय नहीं होगा । और  
संयोग वा समवाय सम्बन्ध की सम्बन्धी से पृथक् अस्तित्व सत्ता मे कोई प्रमाण भी  
नहीं है । यदि कहो कि सम्बन्धी के वाचक शब्द और सम्बन्धी का ज्ञान उस से भिन्न  
संयोग, समवाय, शब्द और ज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव से उन दोनों सम्बन्धों का अस्तित्व  
सिद्ध होता है, तो वह कहना ठीक नहीं, क्योंकि एकत्व होते भी स्वरूप और बाह्यहृदय  
की अपेक्षा से अनेक शब्द प्रत्यय का अनुभव होता है, जैसे लोक मे एक भी होताहुआ  
देवदत्त स्वरूप और सम्बन्धी रूप की अपेक्षा करके अनेक शब्द और प्रत्ययों का भागी  
होता है) स्वरूप से मनुष्य सामान्य होते भी जाति से ब्राह्मण, विद्या से श्रोत्रिय, अवस्था

से बाल युवा, वृद्ध और अन्य की अपेक्षा से पिता, पुत्र, भ्राता, जामाता इत्यादि शब्द और प्रत्यय का भागी होता है। और जैसे एक भी होती हुई रेखा (लेख लिपी) स्थान की अन्यता से (भेद से) तत्तत् स्थानो मे निवेशित-योजित होने पर एक, दश, शत (सौ) और सहस्रादि शब्द और प्रत्यय के भेद का अनुभव करती है। अनुभव का विषय होती है। इसी प्रकार सम्बन्धियों को ही सम्बन्धिवाचक शब्द और सम्बन्धिविषयक ज्ञान से भिन्न संयोग समवाय शब्द और ज्ञान के योग्यत्व होता है, भिन्न वस्तु के अस्तित्व से संयोग, समवाय, शब्द और ज्ञान नहीं होते हैं। इस प्रकार उपलब्धि (भिन्नज्ञान) रूप लिङ्ग से प्राप्त वस्त्वन्तर रूप संयोगादि की भिन्न रूप से अनुपलब्धि से वस्त्वन्तर का अभाव है। अर्थात् सम्बन्धी ही संयोगादि प्रत्यय का भी विषय होता है इससे संयोगादि सम्बन्धी से भिन्न वस्तु नहीं है। यदि कहो कि सम्बन्धिमात्रविषयक सम्बन्ध शब्द और प्रत्यय हो तो सम्बन्धी के स्वरूप रहते स्वरूप के शब्द-प्रत्यय के समान सम्बन्ध के शब्द-प्रत्यय भी सदा होना चाहिए, तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि स्वरूप और बाह्यरूप की अपेक्षा से अनेक प्रकार के शब्द और प्रत्यय होते हैं, यह प्रथम ही प्रत्युत्तर कहा जा चुका है। इसी प्रकार परमाणु आत्मा और मन को अप्रदेशवाला (निरवयव) होने से इनके संयोग का सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रदेश वाले द्रव्य का प्रदेश वाले द्रव्यान्तर के साथ संयोग देखा जाता है। यदि कहो कि परमाणु आत्मा और मन के भी कल्पित अवयव हो सकेगे, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविद्यमान अर्थ की कल्पना से सिद्धि हो, तो, सब अर्थ की कल्पना से सिद्धि की प्राप्ति होगी, जिससे इतना ही अविद्यमान विरुद्ध वा अविरुद्ध अर्थ कल्पना के योग्य हैं, इससे अधिक कल्पना के योग्य नहीं है, इस नियम मे हेतु का अभाव है, तथा कल्पना स्वाधीन है। कल्पना के प्रभूतत्व (बहुलत्व) निरवधित्व का सम्भव है। और वैशेषिको से कल्पित ६ पदार्थों से अन्य अधिक सौ वा सहस्र पदार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिये, इस प्रकार निवारक कोई हेतु नहीं है। इसलिए जिस-जिस को जो-जो रचता है वा रचिकर होगा, वह सब कल्पना से सिद्ध होगा।

अन्यो वा व्यसनी मुक्तानपि पुनरुत्पत्ति कल्पयेत्, कस्तयोर्निवारकः स्यात्। किचान्यत् द्वाभ्यां परमाणुभ्या निरवयवाभ्या सावयवस्य द्व्यणुकस्याकाशेनेव संश्लेषानुपपत्तिः, न ह्याकाशस्य पृथिव्यादीनां च जतुकाष्ठवत्संश्लेषोऽस्ति। कार्यकारणद्रव्ययोराश्रिताश्रयभावोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यवश्य कल्प्यः समवाय इति चेत्। न। इतरेतराश्रयत्वात्। कार्यकारणयोर्हि भेदसिद्धावाश्रिताश्रयभावसिद्धिराश्रिताश्रयभावसिद्धौ च तयोर्भेदसिद्धिः कुण्डबदरवदितीतरेतराश्रयता स्यात्। न हि कार्यकारणयोर्भेद आश्रिताश्रयभावो वा वेदान्तवादिभिरभ्युपगम्यते, कारणस्यैव संस्थानमात्रं कार्यमित्यभ्युपगमात्। किचान्यत् परमाणूनां परिच्छिन्नत्वाद्यावत्यो दिशः षडष्टौ दश वा तावद्भिरवयवैः सावयवास्ते स्युः

सात्रयवत्वादनित्याश्चेति नित्यत्वनिरवयवत्वाभ्युपगमो बाधयेत । यांस्त्वं दिग्भेद-  
भेदिनोऽवयवान्कल्पयसि त एव मम परमाणव इति चेत् । न । स्थूलसूक्ष्मतार-  
तम्यक्रमेणापरमकारणाद्विनाशापपत्तेः । यथा पृथिवी द्युणुकाद्यपेक्षया स्थूलतमा  
वस्तुभूतापि विनश्यति, ततः सूक्ष्म सूक्ष्मतरं च पृथिव्येकजातीयकं विनश्यति  
तता द्व्यणुक, तथा परमाणवोऽपि पृथिव्येकजातीयकत्वाद्दिनश्येयुः । विनश्य-  
न्तोऽवयवविभागेनैव विनश्यन्तीति चेत् । नायं दोषः । यतो घृतकाठिन्य-  
विलयनवदपि विनाशोपपत्तिमवोचाम । यथा हि घृतसुवर्णादीनामविभज्यमा-  
नावयवानामप्यग्निसंयोगाद् द्रवभावापत्त्या काठिन्यविनाशो भविष्यति, तथा  
कार्यारम्भोऽपि नावयवसंयोगेनैव केवलेन भवति, क्षीरजलादीनामन्तरेणाप्य-  
वयवसंयोगान्तरं दधिहिमादिकार्यारम्भदर्शनात्, तदेवमसारतरतर्कमदृग्धत्वा-  
दीश्वरकारणश्रुतिविरुद्धत्वाच्छ्रुतिप्रवणैश्च शिष्टैर्मन्वादिभिरपरिगृहीतत्वाद्यन्त-  
मेवानपेक्षास्मिन्परमाणुकारणवादे कार्या श्रेयोर्थिभिरिति वाक्यशेषः ॥ १७ ॥

कोई कृपालु कल्पना करेगा कि प्राणियों के दुख से पूर्ण बहुत दुख वाला यह  
ससार ही नहीं हो । अन्य व्यसनी कामी मुक्तों को भी पुनः उत्पत्ति की कल्पना करेगा,  
यहाँ उन दोनों का निवारक कौन होगा । दूसरा दूषण यह है कि जैसे निरवयव आकाश  
के साथ द्व्यणुक का संश्लेष नहीं होता है वैसे ही निरवयव दो परमाणु के साथ भी  
सावयव द्व्यणुक के संश्लेष ( सप्रह ) की अनुपपत्ति होगी कि जिस संश्लेष से द्व्यणुक के  
आकर्षण से परमाणु का आकर्षण होता है । क्योंकि निरवयव आकाश और सावयव  
पृथिवी आदि को जतु, लाक्षा, और काठ के समान संश्लेष नहीं है । यदि कहो कि  
कार्यकारणरूप द्रव्य को सम्बन्ध के बिना आश्रित आश्रयभाव नहीं हो सकता है,  
इससे समवाय अवश्य कल्पना के योग्य है, तो यह भी नहीं कह सकते हो । क्योंकि अन्यो-  
न्याश्रय की प्राप्ति होती है, जिससे प्रथम कार्यकारण का भेद सिद्ध हो, तो आश्रिताश्रय-  
भाव सिद्ध हो और आश्रिताश्रयभाव सिद्ध हो तो उस कार्यकारण को कुण्ड बेंर  
के समान भेद सिद्ध हो, इस प्रकार अन्योन्याश्रयता होगी । वेदान्तवादी लोग तो कारण  
का ही आकारान्तर मात्र कार्य है, इस प्रकार मानने से कार्यकारण के भेद को वा  
आश्रित आश्रयभाव को नहीं मानते हैं । अन्य भी दूषण हैं कि परमाणुओं को  
घटादि के समान परिच्छिन्न होने से जितनी छ. वा आठ वा दश दिशाये हैं, उतने  
अवयवों से वे परमाणु सावयव होंगे, अर्थात् उतने अवयवों द्वारा ही उन दिशाओं के  
साथ सम्बन्ध वाले होंगे और सावयव होने से अनित्य होंगे, इससे नित्यत्व निरवयवत्व  
का अभ्युपगम बाधित होगा । यदि कहो कि दिशाओं के भेद वाले जिन परमाणु के  
अवयवों को तुम कल्पना करते हो, वे ही मेरे मत में परमाणु है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं,  
क्योंकि स्थूल सूक्ष्म के तारतम्य के क्रम से अपरिच्छिन्न मूल कारण पर्यन्त के विनाश की  
सिद्धि होती है अर्थात् स्थूल-सूक्ष्म का न्यूनाधिक भाव होते भी स्थूल के नाशपूर्वक क्रम से  
सब सूक्ष्म का भी नाश होता है, मूल कारण का ही नाश नहीं होता है, और परमाणु

मूल कारण नहीं हैं क्योंकि परिच्छिन्नत्व, पृथिवीत्वादि से उसमें भी कार्यत्वादि का अनुमान होता है। जैसे कि द्व्यणुकादि की अपेक्षा से अत्यन्त स्थूल वस्तुस्वरूप भी पृथिवी नष्ट होती है, उसके बाद में सूक्ष्म और सूक्ष्मतर भी पृथिवी का एक जातीयता वाला नष्ट होता है, उसके बाद द्व्यणुक तुम्हारे मत में नष्ट होता है, इसी प्रकार परमाणु भी पृथिवी की एक जातीयकता से विनष्ट होंगे, यदि कहो कि विनष्ट होने वाले भी अवयव के विभाग से ही विनष्ट होते हैं और परम सूक्ष्म परमाणु में अवयव विभाग की सम्भावना है नहीं तो उनका कैसे नाश होगा, तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, परमाणु का नाश अशक्य नहीं है, जिससे अवयव विभाग के बिना भी घृत काठिन्य के विलयन के समान भी नाश की सिद्धि को कह चुके हैं, इससे जैसे घृत सुवर्णादि के अवयव विभाग नहीं होने पर भी अग्नि सयोग के द्वारा द्रव भाव की प्राप्ति से कठिनता का विनाश होता है, इसी प्रकार परमाणु को भी परम कारण भाव की प्राप्ति से मूर्ति आदि का विनाश होगा। इसी प्रकार कार्य का आरम्भ भी केवल ( मुख्य ) अवयव संयोग से ही नहीं होता है, क्योंकि क्षीर जलादि के अन्य अवयव संयोग के बिना भी दधि हिमादि कार्यों का आरम्भ देखा जाता है, इस पूर्व बर्णित रीति से अत्यन्त असार तक से सम्प्रस्थित होने से तथा ईश्वर कारणवादी श्रुतियों से विरुद्ध होने से और श्रुति परायण शिष्ट मनु आदि से अपरिगृहीत होने से श्रेयः के अर्थियों, इच्छुको को इस परमाणु कारणवाद में अत्यन्त ही अनपेक्षा कर्तव्य है ऐसा यहाँ वाक्य शेष है ॥ १७ ॥

### समुदायाधिकरण ॥ ४ ॥

समुदायाद्युभौ युक्तावयुक्तौ वाऽणुहेतुकः। एकोऽपरः स्कन्धहेतुरित्येवं युज्यते द्वयम् ॥१॥  
स्थिरचेतनराहित्यात्स्वयं चाचेतनत्वतः। न स्कन्धानामणूनां वा समुदायोऽत्र युज्यते ॥२॥

परमाणु और स्कन्ध उभय हेतुक बाह्यान्तर समुदाय में उस समुदायत्व की असिद्धि है, क्योंकि समुदाय का कोई योग्य हेतु नहीं है। यहाँ संशय है कि अणु हेतुक एक बाह्य समुदाय और स्कन्ध हेतुक दूसरा अन्तर समुदाय इस प्रकार के दो समुदाय युक्त हैं, अथवा युक्त नहीं हैं, पूर्वपक्ष है कि जब दो प्रकार के कारण हैं, तो दोनों समुदाय भी युक्त हैं। सिद्धान्त है कि संघ और संघी से भिन्न स्थिर चेतन के अभाव से और सघ-सघी के स्वयं अचेतन होने से स्कन्ध वा परमाणु का समुदाय ( सघ ) यहाँ नहीं युक्त हो सकता है ॥ १-२ ॥

### समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ १८ ॥

वैशेषिकराद्धान्तो दुर्युक्तियोगाद्वेदविरोधाच्छिष्टापरिग्रहाच्च नापेक्षितव्य इत्युक्तम्, सोऽर्धवैनाशिक इति वैनाशिकत्वसाम्यात्सर्ववैनाशिकराद्धान्तो नतरामपेक्षितव्य इतीदमिदानीमुपपादयामः। स च बहुप्रकारः प्रतिपत्तिभेदाद्विनेयभेदाद्वा। तत्रैते त्रयो वादिनो भवन्ति-केचित्सर्वास्तित्ववादिनः, केचिद्विज्ञानास्तित्वमात्रवादिनः, अन्ये पुनः सर्वशून्यत्ववादिन इति। तत्र ये सर्वास्ति-

त्ववादिनो बाह्यमान्तरं च वस्त्वभ्युपगच्छन्ति भूतं भौतिकं च चित्तं चैतत्तं च, तांस्तावत्प्रतिब्रूमः । तत्र भूतं पृथिवीधात्वादयः । भौतिकं रूपाद्यश्चक्षुराद्यश्च । चतुष्टये च पृथिव्यादिपरमाणवः खरस्नेहोष्णोरणस्वभावास्ते पृथिव्यादिभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकाः पञ्च स्कन्धाः । तेऽप्यध्यात्मं सर्वव्यवहारास्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते ( सर्वद० सं० पृ० २३ पं० १० ) ।

तत्रेदमभिधीयते—योऽयमुभयहेतुक उभयप्रकारः समुदायः परेषामभिप्रेतोऽणुहेतुकश्च भूतभौतिकसंहतिरूपः स्कन्धहेतुकश्च पञ्चस्कन्धीरूपः, तस्मिन्नुभयहेतुकेऽपि समुदायेऽभिप्रेयमाणे तदप्राप्तिः समुदायभावानुपपत्तिरित्यर्थः । कुतः ? समुदायिनामचेतनत्वात् । चित्ताभिष्वलनस्य च समुदायसिद्धयधीनत्वात्, अन्यस्य च कस्यचिच्चेतनस्य भोक्तुः प्रशासितुर्वा स्थिरस्य संहन्तुरनभ्युपगमात् निरपेक्षप्रवृत्त्यभ्युपगमे च प्रवृत्त्यनुपरमप्रसङ्गात्, आशयस्याप्यन्यत्वानन्यत्वाभ्यामनिरूप्यत्वात् । क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निर्व्यापारत्वात्प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । तस्मात्समुदायानुपपत्तिः, समुदायानुपपत्तौ च तदाश्रया लोकयात्रा लुप्येत ॥ १८ ॥

दुर्युक्ति के सम्बन्ध से वेद विरोध से और शिष्टापरिग्रह से वैशेषिक सिद्धान्त ग्रहण के योग्य नहीं है, यह कहा गया है । परिमाण भेद से देहादि का शीघ्र नाश मानने से वह अर्द्ध वैनाशिक है, इससे वैनाशिकत्व की समता से स्मृत सर्व वैनाशिक का सिद्धान्त अत्यन्त अनपेक्षणीय है इस अर्थ का इस समय उपपादन सिद्ध करते हैं । वह सर्व वैनाशिक कालादि के भेद द्वारा प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) के भेद से वा शिष्य के भेद से बहुत प्रकार का है । उसमें ये तीन वादी होते हैं, कोई सबको अस्तित्ववादी होते हैं, कोई विज्ञान का अस्तित्वमात्रवादी होते हैं । उन दोनों से अन्य सर्वशून्यवादी होते हैं । उनमें जो सर्वास्तित्ववादी बाह्य भूत भौतिक वस्तु को और आन्तर चित्त चैत ( कामादि ) वस्तु को मानते हैं, प्रथम उनके प्रति कहते हैं, उनका प्रतिषेध करते हैं, उनमें पृथिवीरूप महाभूतादि भूत हैं, और रूपादि नेत्रादि भौतिक हैं । खर ( कठिन ) स्नेह ( स्निग्ध ) उष्ण और ईरण ( चलन ) स्वभाव वाले चार प्रकार के पृथिवी आदि के परमाणु हैं, वे पृथिवी आदिभाव से संहत होते हैं । अर्थात् समूहरूप होकर परमाणु ही पृथिवी आदि महाभूतरूपता को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार वे लोग मानते हैं । इसी प्रकार रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार नाम वाले पाँच स्कन्ध हैं, इनमें त्रिषय सहित इन्द्रियरूप स्कन्ध है । अहम् इस बुद्धि का प्रवाह विज्ञान स्कन्ध है, सुखादि का अनुभव वेदना स्कन्ध है । नाम सहित सविकल्पक ज्ञान संज्ञा स्कन्ध है और राग-द्वेष धर्माधर्म संस्कार स्कन्ध हैं, उनमें विज्ञान स्कन्ध को चित्त और आत्मा कहते हैं । अन्य को चैत कहते हैं । ये पाँचो स्कन्ध भी आत्म-सम्बन्धी अध्यात्म सब व्यवहार के आश्रयरूप से संहत होते ( मिलते ) हैं, ऐसा मानते

हैं। यहाँ यह कहा जाता है कि जो यह उभय हेतुक और उभय प्रकार वाला समुदाय अन्य को अभिप्रेत स्वीकृत है, जो समुदायअणुहेतुक ( परमाणु जन्य ) तो भूत भौतिक सहति ( समूह ) रूप है, और स्कन्ध हेतुक पाँचो स्कन्ध का समाहार रूप है, उस उभय हेतुक समुदाय के अभिप्रेत होने पर भी उसकी अप्राप्ति होगी, समुदाय की अप्राप्ति होगी, अर्थात् समुदाय भाव की अनुपपत्ति होगी, यह सूत्रार्थ है। क्योंकि समुदाय जिनका होता है उनको अचेतनता है, सृष्टि के आदि काल में परमाणु और स्कन्ध सब चेतनता रहित रहते हैं, और चित्त के अभिज्वलन ( विज्ञान ) को भी समुदाय की सिद्धि का अधीनत्व है, अन्य स्थिर चेतन भोक्ता वा प्रशासिता ( ईश्वर ) रूप सघातकर्ता का स्वीकार नहीं किया जाता है और यदि कर्ता की अपेक्षा के बिना अणु और स्कन्ध में प्रवृत्ति माने तो प्रवृत्ति का कभी अभाव नहीं होगा और प्रवृत्ति के अनुपरम से मोक्षाभाव की प्राप्ति होगी। यदि कहो कि आलयविज्ञान का सन्तान अहमहम् इस रूप से विज्ञानधारारूप आशय सघातकर्ता होगा, तो वह सन्तान भी सन्तानी से अन्यत्व और अनन्यत्वरूप से निरूपण के अयोग्य है, क्योंकि सन्तान को सन्तानी से भिन्न और स्थिर मानने पर नामान्तर से वेदान्त-सम्मत आत्मा का स्वीकार प्राप्त होगा और क्षणिक को स्वीकार करने पर उसे उत्पत्ति-नाश के अतिरिक्त व्यापाररहित होने के कारण उससे प्रवृत्ति की अनुपपत्ति है, उस प्रवृत्ति की अनुपपत्ति से समुदाय की अनुपपत्ति है और समुदाय की अनुपपत्ति होने पर समुदाय के आश्रित होने वाली लोकयात्रा ( उपाय व्यवहार ) लुप्त हो जायगी।

**इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् ॥ १९ ॥**

यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चिच्चेतनः संहन्ता स्थिरो नाभ्युपगम्यते, तथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते लोकयात्रा। तस्यां चोपपद्यमानायां न किञ्चिदपरमपेक्षितव्यमस्ति। ते चाविद्यादयोऽविद्या संस्कारो विज्ञानं नाम रूपं षडायतनं स्पर्शो वेदना नृष्णा उपादानं भवो जातिर्जरा मरणं शोकः परिदेवना दुःखं दुर्मनस्तेत्येवंजातीयका इतरेतरहेतुकाः सौगते समये क्वचित्संक्षिप्ता निर्दिष्टा, क्वचित्प्रपञ्चिताः, सर्वेषामप्ययमविद्यादिकलापोऽप्रत्याख्येयः। तदेवमविद्यादिकलापे परस्परनिमित्तनैमित्तिकभावेन घटीयन्त्रवदनिशामावर्तमानेऽर्थाक्षिप्त उपपन्नः सङ्घात इति चेत्।

तत्र। कस्मात् ? उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्। भवेदुपपन्नः संघातो यदि संघातस्य किञ्चिन्निमित्तमवगम्येत, न त्ववगम्यते। यत इतरेतरप्रत्ययत्वेऽप्यविद्यादीनां पूर्वम्पूर्वमुत्तरोत्तरस्योत्पत्तिमात्रनिमित्तं भवद्भवेन्न तु सङ्घातोत्पत्तेः किञ्चिन्निमित्तं सम्भवति। नन्वविद्यादिभिरर्थादाक्षिप्यते सङ्घात इत्युक्तम्। अत्रोच्यते। यदि तावदयमभिप्रायः—अविद्यादयः सङ्घातमन्तरेणात्मानमलभमाना अपेक्षन्ते सङ्घातम्—इति, ततस्तस्य सङ्घातस्य निमित्तं वक्तव्यम्, तच्च



नित्येष्वप्यणुष्वभ्युपगम्यमानेष्वश्रयाश्रयिभूषु च भोक्तृषु सत्सु न सम्भव-  
तीत्युक्तं त्रैलोक्येषु क्षीयमानेषु, किमङ्ग पुनः क्षणिकेष्वप्यणुषु भोक्तृरहितेषु  
श्रयाश्रयिशून्येषु वाभ्युपगम्यमानेषु सम्भवेत् । अथायमभिप्रायः—अविद्याद्य  
एव सङ्घातस्य निमित्तम्—इति, कथं तमेवाश्रित्यात्मानं लभमानास्तस्यैव  
निमित्तं स्युः । अथ मन्यसे—सङ्घाता एवानादो संसारे सन्तत्यानुवर्तन्ते  
तदाश्रयाश्चाविद्याद्य—इति, तदपि सङ्घातात्सङ्घातान्तरमुत्पद्यमानम् नियमेन  
वा सदृशमेवोत्पद्येत, अनियमेन वा सदृशं त्रिसदृशं वोत्पद्येत, नियमाभ्युपगमे  
मनुष्यपुद्गलस्य देवतिर्यग्योनिकारकप्राप्त्यभावः प्राप्नुयात्, अनियमाभ्युपग-  
मेऽपि मनुष्यपुद्गलः कदाचित्क्षणेन हस्ती भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा भवेदिति  
प्राप्नुयात्, उभयमप्यभ्युपगमविरुद्धम् । अपि च यद्भोगार्थः सङ्घातः स्यात्स  
नास्ति स्थिरो भोक्तेति तवाभ्युपगमः, ततश्च भोगो भोगार्थ एव स नान्येन  
प्राथनीयः, तथा मोक्षो मोक्षार्थ एवेति मुमुक्षुणा नान्येन भवितव्यम् । अन्येन  
चेत्प्राथ्येतोभय भोगमोक्षकालावस्थायिना तेन भवितव्यम्, अवस्थायित्वे  
क्षणिकत्वाभ्युपगमविरोधः । तस्मादितरेतरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां  
यदि भवेद्भवतु नाम न तु सङ्घातः सिद्धेत् भोक्तृभावादित्यभिप्रायः ॥ १६ ॥

यका है कि यद्यपि भोक्ता वा प्रशासिता किसी चेतन स्थिर सघातकर्ता का  
स्वीकार नहीं किया जाता है, तथापि अविद्यादि को ही परस्पर प्रत्यय ( कारण ) होने  
से लोकयात्रा सिद्ध होती है, अर्थात् अविद्यादि के ही घटीयन्त्र की तरह । बीजाङ्कुर  
की भाँति वर्तमान रहने से सघात की भी अर्थात् सिद्धि होती है और सब व्यवहार की  
सिद्धि होती है । इस प्रकार जिस लोकयात्रा व्यवहार के सिद्ध होने पर अन्य कुछ  
अपेक्षितव्य ( प्रयोजन के लिए आकाक्षित ) नहीं रहता है, वे अविद्यादि ये हैं कि  
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश और विज्ञान इन छ से उत्पन्न होने वाले देहो मे  
अह ममादि बुद्धि तथा क्षणिक मे स्थिर बुद्धि अविद्या है, राग-द्वेष मोह संस्कार है,  
उससे वस्तु का विज्ञान होता है, जो गर्भ मे ही आद्य विज्ञानरूप होता है, उससे पृथिवी  
आदि चार होते है, वे ही नाम के आश्रय होने से नाम हैं, उनसे शुक्रादिरूप होते है,  
नामरूप से मिश्रित इन्द्रिय षडायतन है । अर्थात् विज्ञान चार भूत और रूप ये षडायतन  
हैं, नामरूप और इन्द्रियो का परस्पर सयोग स्पर्श है । उससे सुख दुःखादि रूप वेदना  
होती है, फिर विषय की तृष्णा होती है, उससे प्रवृत्ति रूप उपादान होता है उससे  
जन्मादि का हेतुरूप भव धर्माधर्म होते है, उससे जाति ( जन्म ) होती है जो पाँच  
स्कन्ध का समुदाय है । स्कन्धो का परिपाक जरा है, उनका विनाश मरण है । मरण-  
काल मे स्नेहजन्य शोक होता है, उससे हा पुत्र इत्यादि प्रलापरूप परिवेदना होती है ।  
अनिष्ट का अनुभव दुःख है, मानस दुःख दुर्मनस्ता है । इस प्रकार के मानापमानादि  
भी क्लेश है, सो सब परस्पर हेतुक है । बुद्ध सिद्धान्त मे कही संक्षिप्तरूप से

निर्दिष्ट हैं, कही प्रपञ्चित ( विस्तारयुक्त ) निर्दिष्ट हैं। ये अविद्यादि केवल बुद्धो के ही नहीं सम्मत हैं किन्तु यह अविद्या आदि का सघात सब वादियों से प्रत्याख्यान के योग्य नहीं है। जिससे इस प्रकार अविद्यादि समूह के परस्पर निमित्त नैमित्तिक ( कारण कार्य ) भाव से घटीयन्त्र की तरह निरन्तर वर्तमान रहने पर अर्थ ( प्रयोजन ) से आक्षिप्त सघात उनसे ही उपपन्न होता है। सघात के बिना अविद्यादि का कार्य नहीं हो सकता, इससे अविद्या आदि सघात का आक्षेप ( प्राप्ति ) करते हैं। इस प्रकार यदि शका हो तो कहा जाता है कि यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि अविद्यादि को इस प्रकार परस्पर उत्पत्तिमात्र का निमित्तत्व सिद्ध होता है, सघात का निमित्तत्व नहीं सिद्ध होता है। और सघात तब उपपन्न होता, कि जब कोई सघात का निमित्त अवगत ( ज्ञात-प्राप्त ) होता। परन्तु सघात का निमित्त तो नहीं अवगत होता है, जिससे अविद्यादि का परस्पर प्रत्ययत्व ( कारणत्व ) होने पर भी पूर्व-पूर्व उत्तर-उत्तर की उत्पत्तिमात्र का निमित्त होता हुआ परस्पर कारण होगा। परन्तु तो भी सघात की उत्पत्ति का कोई निमित्त नहीं सिद्ध होता है। यदि कही कि अविद्यादि से अर्थत सघात आक्षिप्त होता है, यह कहा जा चुका है, तो इस विषय में कहा जाता है कि यहाँ आक्षेप शब्द का क्या अर्थ है ? यदि आक्षेप का यह अभिप्राय ( अर्थ ) हो कि अविद्यादि सघात के बिना अपने स्वरूप के लाभ ( प्राप्ति ) में असमर्थ होते हुए सघात की अपेक्षा करते हैं, सघात का गमक बोधक होते हैं, स्वकारणरूप से सघात का अनुमान कराते हैं, तो उस सघात का निमित्त कहना चाहिये। परन्तु वह सघात का निमित्त परमाणुओं को नित्य मानने पर और भोक्ताओं को आश्रय आश्रयिस्वरूप ( अदृष्टाश्रय ) होने पर भी ज्ञान के अभाव-मात्र से सम्भव ( सिद्ध ) नहीं हो सकता है, यह वैशेषिक परीक्षा में कहा गया है। फिर आश्रयाश्रयिरहित वा भोक्तारहित क्षणिक परमाणु को मानने पर हे अङ्ग ! वह निमित्त क्या सम्भव होगा और यदि यह अभिप्राय हो कि अविद्या आदिक ही सघात के निमित्त हैं, तो सघात का ही आश्रयण करके आत्मलाभ करने वाले सिद्ध होने वाले अविद्यादि सघात के ही निमित्त कैसे होंगे और यदि ऐसा मानते हो कि अनादि ससार में अनन्त सघात ही सन्तति ( प्रवाह ) रूप से अनुवर्तमान हैं और उनके आश्रित अविद्यादि है, तो वह भी सघात से उत्पन्न होने वाला अन्य सघात नियम से या तो सदृश ही उत्पन्न होगा अथवा अनियम से सदृश वा विसदृश उत्पन्न होगा। वहाँ नियम मानने पर मनुष्य पुद्गल ( देह ) को देव तिर्यग् योनि और नरक समूह में प्राप्ति का अभाव प्राप्त होगा। अनियम मानने पर भी मनुष्य शरीर कभी क्षण में हाथी होकर अथवा देव होकर फिर मनुष्य होगा, ऐसा प्राप्त होता है। यह दोनों बात सिद्धान्त से विरुद्ध है। दूसरी बात है कि जिसके भोग के लिए सघात होगा, वह स्थिर भोक्ता नहीं है, यह तेरा सिद्धान्त है। जिससे भोग भोगार्थक ही है, अन्य से प्रार्थनीय ( अन्य की इच्छा का विषय ) नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष भी मोक्षार्थक ही है, अन्य मुमुक्षु होने के योग्य नहीं है। यदि भोग और मोक्ष दोनों

अन्य से प्राथित हो, अन्य की प्रार्थना के विषय हो, याचित हो, तो उस याचना करने वाले को भोग और मोक्ष काल में अवस्थायी स्थितिशील होना चाहिये। अवस्थायित्व होने पर क्षणिकत्वाभ्युपगम से विरोध होता है जिससे यदि अविद्यादि को परस्परोत्पत्तिमात्र का निमित्तत्व होता हो, तो हो सकता है, परन्तु सघात नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि स्थिर भोक्ता का अभाव है, यह अभिप्राय है ॥ १९ ॥

### उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् ॥ २० ॥

उक्तमेतदविद्यादीनामुत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वान्न सङ्घातसिद्धिरस्तीति, तदपि तूत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वं न सम्भवतीतीदमिदानीमुपपाद्यते। क्षणभङ्गवादिनोऽयमभ्युपगमः उत्तरस्मिन्क्षण उत्पद्यमाने पूर्वः क्षणो निरुध्यत-इति। न चैवमभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः क्षणयोर्हेतुफलभावः शक्यते सम्पादयितुम्, निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्याभावप्रस्तत्वाद्दुत्तरक्षणहेतुत्वानुपपत्तेः। अथ भावभूतः परिनिष्पन्नावस्थः पूर्वक्षण उत्तरक्षणस्य हेतुरित्यभिप्रायस्तथापि नोपपद्यते, भावभूतस्य पुनर्व्यापारकल्पनायां क्षणान्तरसम्बन्धप्रसङ्गात्। अथ भाव एवास्य व्यापार इत्यभिप्रायस्तथापि नैवोपपद्यते, हेतुस्वभावानुपपत्तस्य फलस्योत्पत्त्यसम्भवात्। स्वभावोपरागाभ्युपगमे च हेतुस्वभावस्य फलकालावस्थायित्वे सति क्षणभङ्गाभ्युपगमत्यागप्रसङ्गः। विनैव वा स्वभावोपरागेण हेतुफलभावमभ्युपगच्छतः सर्वत्र तत्प्राप्तेरतिप्रसङ्गः। अपि चोत्पादनरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपमेव वा स्यातामवस्थान्तरं वा वस्त्वन्तरमेव वा सर्वथापि नोपपद्यते। यदि तावद्वस्तुनः स्वरूपमेवोत्पादनरोधौ स्यातां ततो वस्तुशब्द उत्पादनरोधशब्दौ च पर्यायाः प्राप्नुयुः। अथास्ति कश्चिद्विशेष इति मन्येत, उत्पादनरोधशब्दाभ्यां मध्यवर्तिनो वस्तुन आद्यन्तारख्ये अवस्थे अभिलष्येते इति, एवमप्याद्यन्तमध्यक्षणत्रयसम्बन्धित्वाद्द्वस्तुनः क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिः। अथात्यन्तव्यतिरिक्तावेवोत्पादनरोधौ वस्तुनः स्यातामश्वमहिषवत्, ततो वस्तु उत्पादनरोधाभ्यामसंस्पृष्टमिति वस्तुनः शाश्वतत्वप्रसङ्गः। यदि च दर्शनादर्शने वस्तुन उत्पादनरोधौ स्याताम्, एवमपि द्रष्टृधर्मौ तौ न वस्तुधर्माविति वस्तुनः शाश्वतत्वप्रसङ्ग एव। तस्मादप्यसङ्गतं सौगतं मतम् ॥ २० ॥

प्रथम यह कहा गया है कि अविद्यादि की परस्पर उत्पत्तिमात्र का निमित्त होने से संघात की सिद्धि नहीं है। अब इस समय यह सिद्ध किया जाता है कि वह उत्पत्तिमात्र का निमित्तत्व भी असम्भव है। क्षणभङ्गवादियों का यह अभ्युपगम ( सिद्धान्त ) है कि उत्तर क्षण ( क्षणिक पदार्थ ) के उत्पद्यमान ( उत्पत्ति ) काल में पूर्वकालिक क्षणिक पदार्थ निरुद्ध ( नष्ट ) हो जाता है। इस प्रकार मानने वाले से पूर्वोत्तर-कालिक क्षणिक पदार्थों में हेतुफलभाव ( कारणता कार्यता ) नहीं सम्पादन ( सिद्ध ) किया जा सकता है। क्योंकि निरुध्यमान ( नष्ट होता हुआ ) वा निरुद्ध ( विनष्ट )

पूर्वकाल के क्षणिक पदार्थ को अभाव से ग्रस्त होने से, उत्तर के क्षणिक कार्य के हेतुत्व की अनुपपत्ति है। यदि यह अभिप्राय हो कि भावभूत (सत्स्वरूप) परिनिष्पन्न (सिद्ध) अवस्था वाला पूर्व का क्षणिक पदार्थ उत्तर के क्षणिक का हेतु है, तो भी नहीं सिद्ध हो सकता है। क्योंकि भावभूत के फिर व्यापारान्तर की कल्पना करने पर क्षणान्तर के साथ सम्बन्ध का प्रसंग होगा। यदि यह अभिप्राय हो, कि पूर्वकालिक क्षणिक पदार्थ का भाव (उत्पत्ति) ही इसका व्यापार है, तो भी क्षणिक को कारणत्व नहीं उपपन्न होता है, क्योंकि हेतु के स्वभाव से अनुपरक्त फल (कार्य) की उत्पत्ति का असम्भव है, घटादि मृत्तिका स्वभाव से उपरक्त युक्त ही देखे जाते हैं। यदि हेतु के स्वभाव का कार्य में उपराग (सम्बन्ध) मानो, तो हेतु स्वभाव के फलकाल में अवस्थायित्व होने पर क्षणभंग अभ्युपगम के त्याग का प्रसंग होगा। अथवा कारण के स्वभाव के उपराग के बिना ही हेतुफलभाव को मानने वाले को सर्वत्र ही उस हेतुफलभाव की प्राप्ति से अतिव्याप्ति होगी। अर्थात् स्वभाव के उपराग मानने पर तो जिस कार्य में जिसके स्वभाव का उपराग हो वह उसका हेतु है, यह नियम होता है। स्वभावोपराग के बिना यह नियम नहीं होगा। क्षणभगवाद में प्रसिद्ध उत्पत्ति और विनाश चाहे वस्तु के स्वरूप ही हो, या अवस्थान्तर हो या वस्तवन्तर (भिन्न वस्तु) ही हो, परन्तु सर्वथा उपपन्न (सिद्ध) नहीं होते हैं। क्योंकि यदि वस्तु के स्वरूप ही उत्पत्ति विनाश हो, तो वस्तुवाचक शब्द और उत्पत्ति विनाश शब्द पर्याय (एकार्थक) प्राप्त होंगे। यदि माने कि कुछ विशेष (भेद) है, अर्थ में एकता नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाश शब्द से मध्यवर्ती वस्तु की आदि और अन्त नाम वाली दो अवस्थायें कही जाती हैं, तो ऐसा मानने पर भी आदि, अन्त और मध्यरूप तीन क्षण के सम्बन्धित्व से वस्तु के क्षणिकत्वाभ्युपगम की हानि होगी। यदि वस्तु से अत्यन्त भिन्न ही वस्तु के उत्पत्ति विनाश अथवा महिषादि के समान होंगे, तो उनसे वस्तु असृष्ट (असंग) सिद्ध होगा, उत्पत्ति विनाश से रहित वस्तु सिद्ध होगा, इससे वस्तु को नित्यत्व की प्राप्ति होगी। यदि वस्तु का दर्शन वस्तु की उत्पत्ति है और वस्तु का अदर्शन विनाश है, ऐसा मानो तो भी वे दर्शन और अदर्शन द्रष्टा के धर्म हैं, वस्तु के नहीं। इससे वस्तु की नित्यता का ही प्रसंग होगा, इससे भी सौगत मत (बुद्धमत) असंगत है।

### असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ २१ ॥

क्षणभङ्गवादे पूर्वक्षणो निरोधग्रस्तत्वान्नोत्तरस्य क्षणस्य हेतुर्भवतीत्युक्तम् । अथासत्येव हेतौ फलोत्पत्तिं ब्रूयात् , ततः प्रतिज्ञोपरोधः स्यात् , चतुर्विधान्हेतून्प्रतीत्य चित्तचैत्ता उत्पद्यन्त इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत, निर्हेतुकार्यां चोत्पत्तावप्रतिबन्धात्सर्वं सर्वत्रोत्पद्येत । अथोत्तरक्षणोत्पत्तिर्यावत्तावदवतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्रूयात्ततो यौगपद्यं हेतुफलयोः स्यात् , तथापि प्रतिज्ञोपरोध एव स्यात् , क्षणिकाः सर्वे संस्कारा इतीयं प्रतिज्ञोपरुध्येत् ॥ २१ ॥

क्षणभगवाद मे पूर्व का क्षणिक पदार्थ विनाश से ग्रस्त होने से उत्तर के क्षणिक का हेतु नहीं होता है यह कहा गया है । और यदि हेतु की असत्ता रहते ही फल की उत्पत्ति कहे, तो प्रतिज्ञा का त्याग बाध होगा, क्योंकि विषय, करण, सहकारी और सस्काररूप चार प्रकार के हेतु को प्रतीत्य ( प्राप्त करके ) चित्त और चैत ( विज्ञान और सुख दुःख कामादि ) उत्पन्न होते हैं, यह प्रतिज्ञा नष्ट हो जायगी, यहाँ शब्दादि विषय और इन्द्रियरूप विज्ञान के कारण प्रसिद्ध ही हैं, रूप के विज्ञान मे आलोक सहकारी होता है, अव्यवहित पूर्व प्रत्यय को सस्कार कहते हैं, ये सब विज्ञान के हेतु हैं, विज्ञानादि द्वारा सुखादि के भी हेतु है, चित्तमय होने से सुखादि को चैत कहते हैं । निर्हेतुक उत्पत्ति मानने पर प्रतिबन्ध के अभाव से सब कार्य सर्वत्र उत्पन्न होगा । यदि कहे कि उत्तर क्षणिक कार्य की उत्पत्ति काल तक पूर्व का क्षणिक कार्य स्थिर रहता है, तो हेतुफल को यौगपद्य सह-वृत्तित्व होगा, तथापि प्रतिज्ञा का उपरोध नाश ही होगा, क्योंकि सब सस्कार ( उत्पत्ति नाश वाले पदार्थ ) क्षणिक है यह प्रतिज्ञा उपरुद्ध ( बद्ध ) हो जायगी ॥ २१ ॥

### प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्याननिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात् ॥ २२ ॥

अपि च वैनाशिकाः कल्पयन्ति बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृतं क्षणिकं चेति । तदपि च त्रयं प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्याननिरोधावाकाशं चेत्याचक्षते । त्रयमपि चैतदवस्त्वभावमात्रं निरुपाख्यमिति मन्यन्ते । बुद्धिपूर्वकः किल विनाशो भावानां प्रतिसंख्याननिरोधो नाम भाष्यते, तद्विपरीतोऽप्रतिसंख्याननिरोधः, आवरणाभावमात्रमाकाशमिति । तेषामाकाशं परस्तात्प्रत्याख्यास्यति, निरोधद्वयमिदानीं प्रत्याचष्टे । प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्याननिरोधयोरप्राप्तिः असम्भव इत्यर्थः । कस्मात् ? अविच्छेदात् । एतौ हि प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्याननिरोधौ सन्तानगोचरौ वा स्यातां भावगोचरौ वा ? न तावत्सन्तानगोचरौ सम्भवतः, सर्वेष्वपि सन्तानेषु सन्तानिनामविच्छिन्नेन हेतुफलभावेन सन्तानविच्छेदस्यासम्भवात् । नापि भावगोचरौ सम्भवतः नहि भावानां निरन्वयो निरुपाख्यो विनाशः सम्भवति, सर्वास्वप्यवस्थासु प्रत्यभिज्ञानबलेनान्वयविच्छेददर्शनात् । अस्पष्टप्रत्यभिज्ञानास्वप्यवस्थासु क्वचिद् दृष्टेनान्वयविच्छेदेनान्यत्रापि तदनुमानात् । तस्मात्परपरिकल्पितस्य निरोधद्वयस्यानुपपत्तिः ॥ २२ ॥

और भी वैनाशिक कल्पना करते हैं कि बुद्धि से बोध्य ( सब प्रमेय पदार्थ ) तीन तुच्छ से अन्य संस्कृत ( उत्पाद्य-कार्य ) स्वरूप है और क्षणिक है । और तीन तुच्छ भी प्रतिसंख्याननिरोध, अप्रतिसंख्याननिरोध और आकाशरूप है, इस प्रकार वे कहते हैं । ये तीनों भी अवस्तु है, अभावमात्र हैं, निरुपाख्य ( नि स्वरूप ) हैं, ऐसा मानते हैं । बुद्धिपूर्वक भावो ( पदार्थों ) के विनाश का प्रतिसंख्याननिरोध नाम कहते हैं । अर्थात् मैं इस सत वर्तमान वस्तु को असत् नष्ट कर दूँ, ऐसी भाव की विरोधी बुद्धि को

प्रतिसंख्या कहते हैं और उस बुद्धि से होने वाले नाश को प्रतिसंख्यानिरोध कहते हैं, उससे विपरीत अबुद्धिपूर्वक नाश अप्रतिसंख्यानिरोध है। आवरण का अभावमात्र आकाश है, ऐसा मानते हैं। उनमें आकाश का प्रत्याख्यान आगे सूत्रकार करेगे, दोनों निरोधों का अभी प्रत्याख्यान करते हैं कि प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या निरोध की अप्राप्ति है, अर्थात् असम्भव है यह अर्थ है। क्योंकि भाव का विच्छेद नाश नहीं हो सकता है। जिससे ये प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्यारूप निरोध सन्तान (प्रवाह) गोचर (विषयक) होंगे, वा भाव (सन्तानी) गोचर होंगे, वहाँ प्रथम सन्तान गोचर तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सब सन्तानों में सन्तानियों के अविच्छिन्न हेतुफलभाव से सन्तान के विच्छेद का असम्भव है। भाव है कि हेतुफलभाव का प्रवाह सन्तान है, उसमें सन्तानी हेतुफल के नाश से ही सन्तान का नाश हो सकता है, परन्तु सन्तानी का नाश नहीं हो सकता है। क्योंकि अर्थ क्रियाकारित्व ही इस मत में सत्त्व है, जो सन्तानी किसी को उत्पन्न किये बिना नष्ट होगा, उसकी असत्ता प्राप्त होगी उससे अवश्य अन्य उत्पन्न करके ही सन्तानी नष्ट होता है, इससे सन्तान का विच्छेद नहीं हो सकता है और भाव गोचर भी दोनों निरोध नहीं हो सकते हैं, जिससे भावों का निरन्वय निरुपाध्य विनाश सम्भव नहीं है। अर्थात् मृत्तिका के नाश से मृत्तिका के सम्बन्ध से रहित घट की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि घटादि कार्य में मृत्तिकादि अन्वित भासते हैं, इससे कारण का निरन्वय नाश अत्यन्त अभाव नहीं होता है, जिससे मृत्तिका की चूर्णों पिण्ड, घटादि सब अवस्थाओं में मृत्तिका की प्रत्यभिज्ञा बल से (यह मृत्तिकात्मक ही है, ऐसा अनुभव बल से) अनुभव के सामर्थ्य से कार्य में अन्वयी कारण का अविच्छेद देखा जाता है। जहाँ कहीं बीजाकुरादि अवस्थाओं में कारण की कार्य में स्पष्ट प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है कि बीज ही अकुररूप हुआ है इत्यादि, वहाँ कहीं देखे गये अन्वयी कारण के अविच्छेद से अनुमान द्वारा वह अविच्छेद समझा जाता है, अर्थात् मृत्तिका सुवर्णादि का कार्य में अन्वय देखने से अन्य अदृष्ट स्थान में भी अन्वय का अनुमान होता है। इससे अन्य से परिकल्पित दोनों निरोधों की अनुपपत्ति है ॥ २२ ॥

### उभयथा च दोषात् ॥ २३ ॥

योऽयमविद्यादिनिरोधः प्रतिसंख्यानिरोधान्तःपाती परपरिकल्पितः, स सम्यग्ज्ञानाद्वा सपरिकरात्स्यात्स्वयमेव वा। पूर्वस्मिन्विकल्पे निर्हेतुकविनाशाभ्युपगमहानिप्रसङ्गः। उत्तरस्मिन्स्तु मार्गोपदेशानर्थक्यप्रसङ्गः। एवमुभयथापि दोषप्रसङ्गादसमञ्जसमिदं दर्शनम् ॥ २३ ॥

प्रतिसंख्यानिरोध के अन्तर्गत जो यह अविद्यादि का निरोध पर से परिकल्पित है, सो यमनियमादिरूप परिकर (परिवार-साधन समूह) सहित सम्यक् ज्ञान से होता है अथवा स्वयम् ही होता है। यदि प्रथम विकल्प (पक्ष) को माने कि साधन

सामग्रीसहित ज्ञान से निरोध होता है, तो निर्हेतुक विनाश के स्वीकार की हानि का प्रसङ्ग होगा और दूसरे पक्ष में अविद्यादि के नाश के लिये मार्ग साधनोपदेश की अनर्थकता का प्रसङ्ग होगा। इस प्रकार दोनों प्रकार से दोष के प्रसङ्ग (सम्बन्ध) से यह दर्शन अयुक्त है ॥ २३ ॥

### आकाशे चाविशेषात् ॥ २४ ॥

यच्च तेषामेवाभिप्रेत निरोधद्वयमाकाशं च निरुपाख्यमिति, तत्र निरोध-द्वयस्य निरुपाख्यत्वं पुरस्तान्निराकृतम्, आकाशस्येदानीं निराक्रियते। आकाशे चायुक्तो निरुपाख्यत्वाभ्युपगमः, प्रतिसख्याऽप्रतिसङ्ख्याननिरोधयोरिव वस्तुत्वप्रतिपत्तेरविशेषात्। आगमप्रामाण्यात्तावत् 'आत्मन आकाशः सम्भूतः' (तै० २।१) इत्यादिश्रुतिभ्य आकाशस्य च वस्तुत्वप्रसिद्धिः। विप्रतिपन्नान्प्रति तु शब्दगुणानुमेयत्वं वक्तव्यं, गन्धादीनां गुणानां पृथिव्यादिवस्त्वाश्रयत्वदर्शनात्। अपि चावरणाभावमात्रमाकाशमिच्छतामेकस्मिन्सुपर्णे पतत्यावरणस्य विद्यमानत्वात्सुपर्णान्तरस्योत्पित्सतोऽनवकाशत्वप्रसङ्गः। यत्रावरणाभावस्तत्र पतिष्यतीति चेत्, येनावरणाभावो विशेष्यते तत्तर्हि वस्तुभूतमेवाकाशं स्यात्, नावरणाभावमात्रम्। अपि चावरणाभावमात्रमाकाशं मन्यमानस्य सौगतस्य स्वाभ्युपगमविरोधः प्रसज्येत। सौगते हि समये 'पृथिवी भगवन् किसन्निश्रया' इत्यस्मिन्प्रतिवचनप्रवाहे पृथिव्यादीनामन्ते 'वायुः किसन्निश्रयः' इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं भवति 'वायुराकाशसन्निश्रयः' इति, तदाकाशस्यावस्तुत्वे न समञ्जसं स्यात्। तस्मादप्ययुक्तमाकाशस्यावस्तुत्वम्। अपि च निरोधद्वयमाकाशं च त्रयमप्येतन्निरुपाख्यमवस्तु नित्यं चेति विप्रतिषिद्धम्। न ह्यवस्तुनो नित्यत्वमनित्यत्वं वा सम्भवति, वस्त्वाश्रयत्वाद्धर्मधर्मिव्यवहारस्य। धर्मधर्मिभावे हि घटादिवद्वस्तुत्वमेव स्यान्न निरुपाख्यत्वम् ॥ २४ ॥

और जो उन वैनाशिकों का ही अभिप्रेत स्वीकृत है कि दो निरोध और आकाश निरुपाख्य हैं, उनमें दोनों निरोधों के निरुपाख्यत्व का प्रथम निराकरण किया गया है। आकाश के निरुपाख्यत्व का इस समय निराकरण किया जाता है कि आकाश में भी निरुपाख्यत्व का स्वीकार अयुक्त है, क्योंकि प्रतिसख्याननिरोध और अप्रतिसख्याननिरोध में वस्तुत्व प्रतीति के समान आकाश में भी वस्तुत्व की प्रतीति की अविशेषता (तुल्यता) है। प्रथम तो आगम की प्रामाण्यता से वस्तुत्व की प्रतीति है, क्योंकि (आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ) इत्यादि कहने वाली श्रुतियों से आकाश के वस्तुत्व की प्रसिद्धि (ज्ञान) होती है। आगम की प्रामाण्यता में विप्रतिपन्नो (विरोधियों) के प्रति तो शब्दरूप गुण से अनुमान के योग्य आकाश को कहना होगा, क्योंकि गन्धादि गुणों को पृथिवी आदि वस्तु के आश्रितत्व देखा जाता है, वैसे ही शब्द जिसके आश्रित है वह आकाश वस्तु है अवस्तु निरुपाख्य नहीं है। गुण होने से शब्द निराश्रय नहीं

है। श्रोत्रग्राह्य होने से पृथिवी आदि का गुण शब्द नहीं है इत्यादि। और दूसरी बात है कि जो आवरण का अभावमात्र आकाश को मानते हैं, उनके मत में एक पक्षी के आकाश में उड़ने पर उससे आवरण की वर्तमानता से उड़ने की इच्छा वाले दूसरे पक्षी को अनवकाशता की प्राप्ति होगी। अर्थात् मूर्तद्रव्यशून्यता को निरावरण कहा जाता है, एक पक्षी के उड़ने पर मूर्तद्रव्यशून्यता के अभाव से मानो आकाश का ही अभाव हो गया दूसरे पक्षी को उड़ने के लिए अवकाश नहीं मिलेगा। यदि कहे कि जहाँ आवरण का अभाव है, वहाँ दूसरा पक्षी उड़ेगा, तो जिस देश विशेष का आवरण के अभाव के विशेषणरूप से कथन करते हो, वही वस्तुस्वरूप आकाश सिद्ध होगा कि जिसमें पक्षी के उड़ने पर भी आवरण का अभाव रहता है, आवरणाभाव का अधिकरण आवरणाभावमात्र नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि आकाश को आवरणाभावमात्र मानने वाले सौगन्ध को अपने अभ्युपगम से भी विरोध प्राप्त होगा। जिससे सौगन्ध मत में (हे भगवन् ! पृथिवी किस सम्यक् निश्चय आश्रय वाली है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर के प्रवाह में पृथिवी आदि के अन्त में (वायु किस सम्यक् आश्रय वाला है) इस प्रश्न का उत्तर है कि वायु आकाशरूप सम्यक् आश्रय वाला है। यह उत्तर आकाश के अवस्तुत्व होने पर समञ्जस (युक्त) नहीं हो सकता है, इससे भी आकाश को अवस्तुत्व अयुक्त है। दो निरोध तथा आकाश ये तीनों निरुपाख्य अवस्तु और नित्य हैं। यह कथन विरुद्ध है, जिससे अवस्तु को नित्यत्व वा अनित्यत्व का सम्भव नहीं है। क्योंकि धर्म-धर्मि व्यवहार को वस्तु का आश्रयत्व होता है। इसमें धर्म-धर्मिभाव के रहने पर घटादि के समान निरोध और आकाश को वस्तुत्व ही होगा, निरुपाख्यत्व नहीं होगा ॥ २४ ॥

### अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥

अपि च वैनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकतामभ्युपयन्नुपलब्धुरपि क्षणिकतामभ्युपेयात्। न च सा सम्भवति। अनुस्मृतेः। अनुभवमुपलब्धिमनृतपद्यमानं स्मरणमेवानुस्मृतिः सा चोपलब्ध्येकर्तृका सती सम्भवति, पुरुषान्तरोपलब्धिष्विषये पुरुषान्तरस्य स्मृत्यदर्शनात्। कथं ह्यहमदोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति च पूर्वोत्तरदर्शिन्येकस्मिन्नसति प्रत्ययः स्यात्। अपि च दर्शनस्मरणयोः कर्तृयेकस्मिन्प्रत्यक्षः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्धोऽहमदोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति। यदि हि तयोर्भिन्नः कर्ता स्यात्ततोऽहं स्मराम्यद्राक्षीदन्य इति प्रतीयात्, नत्वेवं प्रत्येति कश्चित्। यत्रैवं प्रत्ययस्तत्र दर्शनस्मरणयोर्भिन्नमेव कर्तारं सर्वलोकोऽवगच्छति, स्मराम्यहमसावदोऽद्राक्षीदिति। इह त्वहमदोऽद्राक्षमिति दर्शनस्मरणयोर्वैनाशिकोऽप्यात्मानमेवैकं कर्तारमवगच्छति, न नाहमित्यात्मनो दर्शनं निर्वृत्तं निहनुते यथाग्निरनुष्णोऽप्रकाश इति वा। तत्रैवं सत्येकस्य दर्शनस्मरणक्षणद्वयसंबन्धे क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिरपरिहार्यो वैना-



शिकस्य स्यात्, तथाऽनन्तरामनन्तरामात्मन एव प्रतिपत्तिं प्रत्यभिज्ञानन्नेक-  
कर्तृकामोत्तमादुच्छ्वासादतीनाश्च प्रतिपत्तीरा जन्मन आत्मैककर्तृकाः प्रतिसं-  
धानः कथं क्षणभङ्गवादी वैनाशिको नपत्रपेन ।

और भी सब वस्तु की क्षणिकता को मानता हुआ वैनाशिक उपलब्धा ( ज्ञाता )  
की भी क्षणिकता को मानेगा । परन्तु वह ज्ञाता की क्षणिकता अनुस्मृति से सम्भव  
( होने योग्य ) नहीं है । जिससे प्रमाणजन्य अनुभवरूप उपलब्धि के बाद उत्पन्न होने  
वाला स्मरण ही अनुस्मृति है, सो उपलब्धि के साथ एक कर्ता वाली होती हुई उत्पन्न  
होती है । क्योंकि पुरुषान्तर की उपलब्धि के विषय में उससे अन्य पुरुष की स्मृति नहीं  
देखी जाती है । क्षणिक आत्मवाद में पूर्वोत्तर द्रष्टा के एक नहीं रहने पर मैंने  
उसको देखा था, और अब इसको देखता हूँ, यह ज्ञान कैसे हो सकेगा । अर्थात् भिन्न-  
कालिक दो ज्ञान का अनुसंधान क्षणिकवाद में नहीं हो सकेगा । दर्शन तथा  
स्मरण का एक कर्ता में प्रत्यक्षरूप प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सब लोक को प्रसिद्ध है कि मैंने उसको  
देखा था और इसको देखता हूँ इत्यादि । इससे जो पूर्वकाल में देखा था वही पूर्व का  
का स्मरणकर्ता है, वर्तमान का दर्शनकर्ता है और स्मरण दर्शन का भी प्रत्यभिज्ञा  
ज्ञान वाला है । यदि दर्शन और स्मरण का भिन्न कर्ता होता तो मैं स्मरणकर्ता हूँ,  
अन्य किसी ने देखा था, ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, परन्तु इस प्रकार कोई नहीं  
समझता है । जहाँ इस प्रकार का ज्ञान होता है, वहाँ दर्शन और स्मरण के  
भिन्न कर्ता को ही सब लोग समझते हैं कि मैं स्मरण करता हूँ कि इसने उसको देखा  
था । यहाँ तो मैंने उसको देखा था, इस प्रकार वैनाशिक भी दर्शन और स्मरण  
का कर्ता एक आत्मा ही को समझता है । मैंने नहीं देखा था इस प्रकार अपने  
निवृत्त ( सिद्ध ) पूर्व दर्शन का अपलाप निषेध नहीं करता है । जैसे कि अग्नि उष्ण नहीं  
है वा प्रकाशरहित है, ऐसा अपलाप नहीं करता है । इस प्रकार द्रष्टा स्मरणकर्ता के  
एक होने पर एक आत्मा का दर्शन स्मरण लक्षण वाले दो क्षण के साथ सम्बन्ध  
होने पर वैनाशिक के क्षणिकत्वाभ्युपगम की हानि अपरिहार्य होगी । इसी प्रकार  
वर्तमानकाल से अन्तिम श्वास मरणपर्यन्त एककर्तृक अनन्तर-अनन्तर वर्तमान अपनी  
प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) को प्रत्यभिज्ञापूर्वक जानता हुआ तथा जन्म से लेकर वर्तमान  
काल तक आत्मा ही एक जिनका कर्ता है, ऐसी अतीत प्रतिपत्तियों का प्रतिसंधान  
स्मरणादि करता हुआ क्षणभंगवादी वैनाशिक लज्जित कैसे नहीं होगा ।

स यदि ब्रूयात्—सादृश्यादेतत्संपत्स्यतइति । तं प्रतिब्रूयात्, तेनेदं सदृश-  
मिति द्वयायत्तत्वात्सादृश्यस्य क्षणभङ्गवादिनः सदृशयोर्द्वयोर्वस्तुनोर्गहीतुरेक-  
स्याभावात् सादृश्यनिमित्तं प्रतिसन्धानमिति मिथ्याप्रलाप एव स्यात्, स्याच्चे-  
त्पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः सादृश्यस्य प्रहीतैकः तथासत्येकस्य क्षणद्वयावस्थानात्क्ष-  
णिकत्वप्रतिज्ञा पीड्येत । तेनेदं सदृशमिति प्रत्ययान्तरमेवेदं न पूर्वोत्तरक्षणद्वय-

ग्रहणनिमित्तमिति चेत् । न । तेनेदमिति भिन्नपदार्थोपादानात् । प्रत्ययान्तर-  
मेव चेत्सादृश्यविषयं स्यात्तेनेदं सदृशमिति वाक्यप्रयोगोऽनर्थकः स्यात्,  
सादृश्यमित्येव प्रयोगः प्राप्नुयात् । यदा हि लोकप्रसिद्धः पदार्थः परीक्षकैर्न  
परिगृह्यते तदा स्वपक्षसिद्धिः परपक्षदोषो बोभयमप्युच्यमानं परीक्षकाणामा-  
त्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धिसन्तानमारोहति । एवमेवैषोऽर्थ इति निश्चितं यत्त-  
देव वक्तव्यम्, ततोऽन्यदुच्यमानं बहुप्रलापित्वमात्मनः केवलं प्रख्यापयेत् ।  
न चायं सादृश्यात्संबन्धवहारो युक्तः, तद्भावावगमात्तत्सदृशभावानवगमाच्च ।  
भवेदपि कदाचिद्वाह्यवस्तुनि विप्रलम्भसंभवात्तदेवेदं स्यात्तत्सदृशं वेति सन्देहः,  
उपलब्धरि तु सन्देहोऽपि न कदाचिद्भवति—स एवाहं स्यां तत्सदृशो वा—इति ।  
य एवाह पूर्वोद्युरद्राक्षं स एवाहमद्य स्मरामीति निश्चितात्तद्भावोपलम्भात् ।  
तस्मादप्यनुपपन्नो वैनाशिकसमयः ॥ २५ ॥

यदि वह कहे कि सदृशता से यह आत्मा मे प्रत्यभिज्ञान होता है, जैसे दीप, दीप-  
शिखा आदि मे होता है, तो उसके प्रति कहना चाहिये कि, उसके सदृश वह है, इस  
प्रकार सादृश्य दो के अधीन होता है । क्षणभगवादी को दो सदृश वस्तु के एक ग्राहक  
( ज्ञाता ) के अभाव से सादृश्यनिमित्तक प्रतिसंधान है । यह मिथ्या प्रलाप ही होगा  
और यदि पूर्वोत्तरक्षण वृत्ति वस्तु की सदृशता का ग्रहीता अनुसंधान करने वाला एक  
होगा तो ऐसा होने पर एक को दो क्षण मे स्थिति से क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा पीडित  
नष्ट होगी । यदि कहो कि उसके सदृश यह है, ऐसा ज्ञान भी पूर्वोत्तर दो क्षण दो वस्तु  
का ग्रहण निमित्तक नहीं है कि जिससे स्थिरता की प्राप्ति हो, किन्तु सदृश ज्ञान से  
ज्ञानान्तर ही यह ज्ञान अपने आकार को ही बाहर के सदृश ग्रहण करता हुआ  
क्षणान्तर का असम्बन्धी विकल्परूप है । वहाँ कहा जाता है कि यह कहना ठीक नहीं  
है, क्योंकि उसके साथ यह सदृश है इस ज्ञान मे ज्ञान का स्वरूपमात्र नहीं भासता  
है ( उस-यह-सदृश ) इन पदार्थों का इस ज्ञान मे विषयरूप से ग्रहण होता है ।  
तत्ता, इदन्ता, सदृशता तीनों भासते हैं । यदि प्रत्ययान्तर ही सादृश्य विषयक हो, और  
वस्तु की सदृशता को वह नहीं ग्रहण करता हो, स्वरूप का ग्रहण करता हो, तो उसके  
सदृश यह ऐसा वाक्य का प्रयोग अनर्थक होगा, सादृश्य है, इतना ही प्रयोग प्राप्त  
होगा । जब लोक प्रसिद्ध सादृश्यादि पदार्थ परीक्षको से नहीं गृहीत ( स्वीकृत )  
होगा, अर्थात् स्थिरात्मता के भय से यदि ( तेन इदं सदृशम् ) उससे यह सदृश है ।  
इस ज्ञान से प्रकाशित तीन पदार्थ को नहीं मानेगे, किन्तु क्षणिक विज्ञानमात्र ही को  
मानेगे, तो परस्पर की वार्ता के अनभिज्ञ उन क्षणिकपरीक्षको के बुद्धि सन्तान ( प्रवाह )  
मे स्वपक्ष सिद्धि वा परपक्ष दोष दोनों कहे गये भी आरूढ ( निश्चित ) नहीं होंगे । इसी  
प्रकार अपना दोष और परपक्ष की सिद्धि दोनों कहने पर भी अपने बुद्धि संतान में  
मथार्थरूप से नहीं आरूढ होंगे । अर्थात् प्रसिद्ध पदार्थ को माने बिना दृष्टान्तादि के

अभाव से कथित भी स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोष परीक्षको के या अपने बुद्धि संतान मे यथार्थरूप से नही निश्चित होंगे । इसलिए प्रमाण से जो निश्चित हो कि यह अर्थ ऐसा है, उस प्रमाण से निश्चित को ही कहना चाहिये । उस प्रमाण निश्चित से अन्य कुछ भी कथित वस्तु केवल अपने प्रलापित्व ( अनर्थक भाषित्व ) को ही प्रख्यात कराता है । और आत्मा मे जो यह प्रत्यभिज्ञारूप सोऽहम्, इत्यादि सम्यक् व्यवहार (शब्द प्रयोग) है, सो सादृश्य से होना युक्त नही है, क्योंकि मैं वह हूँ, इस प्रकार तद्भाव, भूत, वर्तमान काल मे ऐक्यभाव का ज्ञान होता है, ओर उसके सदृश हूँ इस प्रकार सदृशता का ज्ञान नही होता है । बाह्य वस्तु मे विप्रलम्भ ( विसवाद ) के सम्भव से कभी संदेह हो सकता है कि वही यह है वा उसके सदृश अन्य है, उपलब्धा ज्ञाता मे तो कभी संदेह भी नही होता है कि मैं वही हूँ वा उसके सदृश हूँ । क्योंकि जो मैंने पूर्वकाल मे पूर्वदिन मे देखा था वही मैं आज स्मरण करता हूँ इस प्रकार निश्चित तद्गुणता एकता की उपलब्धि होती है । अतः वैनाशिक का सिद्धान्त अनुपपन्न है ॥ २५ ॥

### नासतोऽदृष्टत्वात् ॥ २६ ॥

इतश्चानुपपन्नो वैनाशिकसमयः, यतः स्थिरमनुयायि कारणमनभ्युपगच्छ-  
तामभावाद्भावोत्पत्तिरित्येतदापद्यते । दर्शयन्ति चाभावाद्भावोत्पत्तिम्—‘नानु-  
पमृद्य प्रादुर्भावात्’ इति । विनष्टाद्धि किल बीजादङ्कुर उत्पद्यते, तथा विनष्टा-  
त्क्षीराद्धि, मृत्पिण्डाच्च घटः । कूटस्थाच्चेत्कारणात्कार्यमुत्पद्येताविशेषात्सर्वं  
सर्वत उत्पद्येत । तस्मादभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्योऽङ्कुरादीनामुत्पद्यमानत्वाद-  
भावाद्भावोत्पत्तिरिति मन्यन्ते । तत्रेदमुच्यते—‘नासतोऽदृष्टत्वात्’ इति । नाभा-  
वाद्भाव उत्पद्यते, यद्यभावाद्भाव उत्पद्येताभावत्वाविशेषात्कारणविशेषाभ्युपग-  
मोऽनर्थकः स्यात् । नहि बीजादीनामुपमृदितानां योऽभावस्तस्याभावस्य  
शशविषाणादीनां च निःस्वभावत्वाविशेषाद्भावत्वे कश्चिद्विशेषोऽस्ति, येन  
बीजादेवाङ्कुरो जायते क्षीरादेव दधीत्येवंजातीयकः कारणविशेषाभ्युपगमोऽर्थ-  
वान्स्यात् । निर्विशेषस्य त्वभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे शशविषाणादिभ्योऽप्य-  
ङ्कुरादयो जायेरन्, न चैवं दृश्यते । यदि पुनरभावस्यापि विशेषोऽभ्युपगम्येतो-  
त्पलादीनामिव नीलत्वादित्ततो विशेषवत्त्वादेवाभावस्य भावत्वमुत्पलादिव-  
त्प्रसज्येत, नाप्यभावः कस्यचिदुत्पत्तिहेतुः स्यात्, अभावत्वादेव शशविषाणा-  
दिवत् । अभावाच्च भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्वं कार्यं स्यात्, न चैवं दृश्यते ।  
सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनैवोपलभ्यमानत्वात् । न च  
मृदन्विताः शरावादयो भावास्तन्त्वादिविकाराः केनचिदभ्युपगम्यन्ते । मृद्विका-  
रानेव तु मृदन्वितान्भावांल्लोकः प्रत्येति ।

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी वैनाशिक सिद्धान्त अनुपपन्न है कि जिससे स्थिर अनुयायी  
( कार्यान्वयी ) कारण को नही मानने वालो के मत मे अभाव से भाव की उत्पत्ति

होती है, यह प्रसंग प्राप्त होता है। वे लोग स्वयं अभाव से भाव की उत्पत्ति दशति है कि कारण का उपमर्द नाश हुए बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है इससे विनष्ट बीज से ही अंकुर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार विनष्ट दूध से दधि होता है और विनष्ट मृत्पिण्ड से घट होता है। यदि कूटस्थ ( नाशरहित ) कारण से कार्य उत्पन्न हो, तो अविशेषता से सब से सब उत्पन्न होने लगेगा। अर्थात् नित्य कार्योंत्पादन में विशेषता बिना समर्थ होने से एक कारण सब कार्य को उत्पन्न कर देगा और विनष्ट से उत्पन्न होने पर तो कारण को विनष्टकरता हुआ ही एक कार्य उत्पन्न होता है इससे अन्य कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि कारण को स्थिर माने और सहकारी के अधीन क्रम से कार्यों की उत्पत्ति मानें तो सहकारी को सहकारी की अपेक्षा होने पर अनवस्था की प्राप्ति होगी इत्यादि। उससे अभाव ( ध्वंस ) से ग्रस्त ( विनष्ट ) बीजादि से अंकुरादि की उत्पत्ति होने से अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार वैनाशिक मानते हैं। वहाँ यह कहा जाता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि अभावमात्र से उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। अर्थात् अभाव से भाव नहीं उत्पन्न होता है और यदि अभाव से भाव उत्पन्न हो तो अभावत्व के अविशेष ( सामान्य ) होने से बीज के अभाव को सर्वत्र तुल्य रहने से सर्वत्र अंकुर की उत्पत्ति होगी ही फिर अंकुर के लिए कारणविशेष का स्वीकार सप्रह अनर्थक होगा। क्योंकि नष्ट हो गये जो बीजादि उनका जो अभाव, उस अभाव को और शशशृङ्गादि को निःस्वभावत्व ( स्वरूप रहितत्व ) के तुल्य होने से अभावत्व में कोई विशेष ( भेद ) नहीं है, कि जिससे बीज से ही अंकुर उत्पन्न होता है और क्षीर से ही दधि होता है, इस प्रकार के कारणविशेष का स्वीकार सार्थक हो। निर्विशेष अभाव को कारणत्व ( कारण स्वरूप ) मानने पर शशशृङ्गादि से भी कार्य उत्पन्न होंगे, ऐसा देखा नहीं जाता है, जैसे कमल के नीलत्व, रक्तत्वादि विशेष ( भेद ) होते हैं, वैसे ही अभाव का भी विशेष मानो, तो विशेष वाला होने ही से अभाव को भी कमल आदि के समान भावत्व की प्राप्ति होगी। विशेषरहित अभाव, अभावत्व से ही शशशृङ्गादि के समान किसी की उत्पत्ति का हेतु नहीं हो सकता है। अभाव से यदि भाव की उत्पत्ति होती, तो सब कार्य अभाव से अन्वित ( युक्त ) ही होता, ऐसा देखा नहीं जाता है। सब वस्तु अपने-अपने भाव स्वरूप से ही उपलब्ध होते हैं और भावरूप से उपलब्ध होने से भावान्वित कार्य अभाव का विकार ( कार्य ) नहीं हो सकते। क्योंकि मृत्तिका से अन्वित घट, शराव आदि भावरूप पदार्थ, भावरूप तन्तु आदि के विकार हैं, ऐसे भी किसी से नहीं माने जाते हैं, फिर अभाव के विकार कैसे माने जा सकते हैं। मृत्तिका से अन्वित भावों को मृत्तिका के कार्य ही लोग समझते हैं, अभावादि के नहीं।

यत्तूक्तं-स्वरूपोपमर्दमन्तरेण कस्यचित्कूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्वानुपपत्ते-  
रभावाद्भावोत्पत्तिर्भावितुमर्हति-इति। तद् दुरुक्तम्, स्थिरस्वभावानामेव सुवर्णा-

दीनां प्रत्यभिज्ञायमानानां रुचकादिकार्यकारणभावदर्शनात् , येष्वपि बीजादिषु स्वरूपोपमर्दो लक्ष्यते तेष्वपि नाऽसावुपमृद्यमाना पूर्वावस्थोत्तरावस्थायाः कारणमभ्युपगम्यते, अनुपमृद्यमानानामेवानुयायिनां बीजाद्यवयवानामङ्कुरादिकारणभावाभ्युपगमात् , तस्मादसद्भ्यः शशविषाणादिभ्यः सदुत्पत्त्यदर्शनात् सद्भ्यश्च सुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्तिदर्शनादनुपपन्नोऽयमभावाद् भावोत्पत्त्यभ्युपगमः । अपि च चतुर्भिश्चित्तचैत्ता उत्पद्यन्ते, परमाणुभ्यश्च भूतभौतिकलक्षणः समुदाय उत्पद्यत इत्यभ्युपगम्य पुनरभावाद्भावोत्पत्ति कल्पयद्भिर्भ्युपगतमपहुवानैवैनाशिकैः सर्वो लोक आकुलीक्रियते ॥ २६ ॥

जो यह कहा है कि स्वरूप नाश के बिना किसी कूटस्थ वस्तु को कारणत्व की अनुपपत्ति से अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होने योग्य है, यह कथन अयुक्त है । क्योंकि स्थिर स्वभाव वाले प्रत्यभिज्ञायमान ( वही है ऐसी प्रतीति का विषय ) सुवर्णादि को ही रुचकादि कार्यों का कारण रूप देखा जाता है, और सहकारी अग्नि आदि की समीपता के अनुसार क्रम से कार्य के हेतु प्रत्यक्ष दीखते हैं, इससे अनवस्था आदि दोष नहीं हैं । और जिन बीज आदि को स्वरूप का नाश दीखता है, उनमें भी विनष्ट होती हुई वह पूर्वावस्था ( बीजरूपता ) उत्तरावस्था ( अंकुररूपता ) का कारण नहीं मानी जाती है । किन्तु बिनाशरहित कार्य में अनुगत होने वाले बीज आदि के अवयवों को ही अङ्कुरादि के कारण स्वरूप माना जाता है । जिससे असत् शशशृङ्ग आदि से सत् की उत्पत्ति को नहीं देखने से तथा सत् सुवर्णादि से सत् की उत्पत्ति देखने से, यह अभाव से भाव की उत्पत्ति का अभ्युपगम ( स्वीकार ) अनुपपन्न ( अयुक्त ) है । और चार हेतुओं से चित्त और चैत् उत्पन्न होते हैं और परमाणुओं से भूत भौतिक स्वरूप समुदाय उत्पन्न होता है, इस प्रकार मान कर फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति की कल्पना करने वाले और स्वीकृत का अपलाप करने वाले वैनाशिकों से सब लोक व्याकुल किया जाता है ।

### उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ २७ ॥

यदि चाभावाद्भावोत्पत्तिरभ्युपगम्येत, एवंसत्युदासीनानामनीहमानानामपि जनानामभिमतसिद्धिः स्यात् , अभावस्य सुलभत्वात् । कृषीवलस्य क्षेत्रकर्मण्यप्रयतमानस्यापि सस्यनिष्पत्तिः, स्यात् , कुलालस्य च मृत्संस्क्रियायामप्रयतमानस्याप्यमत्रोत्पत्तिः, तन्तुवायस्यापि तन्तूनतन्वानस्यापि तन्वानस्येव वस्त्रलाभः । स्वर्गापवर्गयोश्च न कश्चित्कथंचित्समीहेत । न चैतद्युज्यतेऽभ्युपगम्यते वा केनचित् । तस्मादप्यनुपपन्नोऽयमभावाद्भावोत्पत्त्यभ्युपगमः ॥ २७ ॥

और यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति स्वीकार करे, तो ऐसा होने पर उदासीन चेष्टारहित जनो के भी अभिमत ( इष्ट ) कार्यों की सिद्धि होगी । क्योंकि अभाव रूप साधन सबको सर्वत्र सुलभ है । खेती कर्म वाले कृषक ( किसान ) को खेती कर्म में यत्न नहीं करने पर भी सस्य ( फल-अन्न ) की सिद्धि होगी । और मृत्तिका के संस्कार से

यत्नरहित कुम्हार को भी अमत्र ( घटादि रूप पात्र ) की उत्पत्ति होगी । और जुलाहे को भी तन्तुओ के ताना भरना नहीं करने पर भी ताना भरना करने वाले के समान वस्त्र का लाभ होगा । और स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई किसी प्रकार चेष्टा नहीं करेगा । अभाव से ही स्वर्गादि की प्राप्ति समझेगा । परन्तु यह युक्त उचित नहीं हो सकता है, या ऐसा किसी से स्वीकार भी नहीं किया जाता है । अतः यह अभाव से भाव की उत्पत्ति का अभ्युपगम अनुपपन्न है ॥ २७ ॥

### अभावाधिकरण ॥ ५ ॥

विज्ञानस्कन्धमात्रत्वं युज्यते वा न युज्यते । युज्यते स्वप्नदृष्टान्ताद् बुध्यैव व्यवहारतः ॥१॥  
अवाधात्स्वप्नवैषम्यं बाह्यार्थस्तूपलभ्यते । बहिर्वदिति तेष्युक्तिर्नातो धीरर्थरूपभाक् ॥ २ ॥

योगाचार नामक बुद्धमत में बुद्धि से भिन्न बाह्य अर्थ का अभाव कहते हैं परन्तु बाह्य अर्थ का अभाव नहीं है, यह बाह्य अर्थ की उपलब्धि से सिद्ध होता है ॥ प्रथम पंच स्कन्ध का वर्णन हुआ है, तदन्तरगत विज्ञान स्कन्धमात्रता ही सब बाह्याभ्यन्तर प्रपञ्च की युक्त हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है, यह सशय है । पूर्वपक्ष है कि स्वप्न के दृष्टान्त से बुद्धिमात्रता ही सब को युक्त हो सकती है, और स्वप्न के व्यवहार सदृश ही बुद्धि से ही जाग्रत के सब व्यवहार होने के कारण व्यवहार का भी लोप नहीं होता है । स्वप्न के व्यवहार का बाध होता है जाग्रत के व्यवहार का बाध नहीं होता है, इससे जाग्रत को स्वप्न से विषमता है, और बुद्धि से भिन्न बाहर के अर्थ उपलब्ध होते हैं, इससे इनका अभाव नहीं है, तुम भी कहते हो, कि बुद्धि बाहर के सदृश भासती है, इससे उपमान रूप से तुम्हारी उक्ति में भी बाहर के अर्थ भासते हैं इससे असत पदार्थ उपमान उपमेयादि भी नहीं हो सकते हैं । इससे बुद्धि अर्थरूपता को धारण करने वाली नहीं है ॥ वेदान्त में मायाशक्ति सहित अखंड ब्रह्म बाह्याभ्यन्तर जगत का कारण है, और जगत कारण रूप से सत और स्व रूप से असत है, तो भी व्यवहार में बाह्य अर्थ उपलब्धि के अनुसार बाहर है स्थिर है, स्वप्न के अर्थ इससे विपरीत हैं, और योगाचार का मत इस वेदान्त सिद्धान्त से विपरीत है ॥ १-२ ॥

### नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥

एवं बाह्यार्थवादमाश्रित्य समुदायाप्राप्त्यादिषु दूषणेषुद्भावितेषु विज्ञानवादी बौद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठते । केषांचित्किल विनेयानां बाह्ये वस्तुन्यभिनिवेश-मालक्ष्य तदनुरोधेन बाह्यार्थवादप्रक्रियेयं विरचिता, नासौ सुगताभिप्रायः, तस्य तु विज्ञानैकस्कन्धवाद एवाभिप्रेतः । तस्मिञ्च विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढेन रूपेणान्तःस्थ एव प्रमाणप्रमेयफलव्यवहारः सर्व उपपद्यते । सत्यपि बाह्येऽर्थे बुध्यारोहमन्तरेण प्रमाणादिव्यवहारानवतारात् । कथं पुनरवगम्यतेऽन्तःस्थ एवायं सर्वव्यवहारो न विज्ञानव्यतिरिक्तो बाह्येऽर्थोऽस्तीति, तदसंभवादि-त्याह । स हि बाह्येऽर्थोऽभ्युपगम्यमानः परमाणवो वा स्युस्तत्समूहा वा स्तम्भा-

दयः स्युः । तत्र न तावत्परमाणवः स्तम्भादिप्रत्ययपरिच्छेद्या भवितुमर्हन्ति परमाण्वाभासज्ञानानुपपत्तेः । नापि तत्समूहाः स्तम्भादयः, तेषां परमाणुभ्योऽन्यत्वानन्यत्वाभ्यां निरूपयितुमशक्यत्वात् । एवं जात्यादीनपि प्रत्याचक्षीत । अपि चानुभवमात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य योऽय प्रतिविषयं पक्षपातः स्तम्भज्ञानं कुड्यज्ञानं घटज्ञानं पटज्ञानमिति, नासौ ज्ञानगतविशेष-मन्तरेणोपपद्यत इत्यवश्यं विषयसारूप्यं ज्ञानस्याङ्गीकर्तव्यम् । अङ्गीकृते च तस्मिन्विषयाकारस्य ज्ञानेनैवावरुद्धत्वादपार्थिका बाह्यार्थसद्भावकल्पना । अपि च सहोपलम्भनियमादभेदो विषयविज्ञानयोरपतति, न ह्यनयोरेकस्यानुपलम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽस्ति, नचैतत्स्वभावविवेके युक्तं प्रतिबन्धकारणाभावात्, तस्मादप्यर्थाभावः । स्वप्नादिवच्चेदं द्रष्टव्यम् । यथाहि स्वप्नमायामरीच्युदक-गन्धर्वनगरादिप्रत्यया विनैव बाह्येनार्थेन ग्राह्यग्राहकाकारा भवन्ति, एवं जागरितगोचरा अपि स्तम्भादिप्रत्यया भवितुमर्हन्तीत्यवगम्यते, प्रत्ययत्वाविशेषात् । कथं पुनरसति बाह्यार्थे प्रत्ययवैचित्र्यमुपपद्यते, वासनावैचित्र्यादित्याह । अनादौ हि संसारे बीजाङ्कुरवद्विज्ञानानां वासनानां चान्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन वैचित्र्यं न विप्रतिषिध्यते । अपि चान्वयव्यतिरेकाभ्यां वासनानिमित्तमेव ज्ञानवैचित्र्यमित्यवगम्यते, स्वप्नादिष्वन्तरेणाप्यर्थं वासनानिमित्तस्य ज्ञानवैचित्र्यस्योभाभ्यामप्यावाभ्यामभ्युपगम्यमानत्वात् अन्तरेण तु वासनामर्थनिमित्तस्य ज्ञानवैचित्र्यस्य मयानभ्युपगम्यमानत्वात्, तस्मादप्यभावो बाह्यार्थस्येति ।

इस पूर्व की रीति से बाह्य अर्थवाद का आश्रयण करके समुदाय की अप्राप्ति आदि रूप दोषो को उद्भावित (प्रकटित) करने पर, विज्ञानवादी बौद्ध अब इस समय प्रतिवादी रूप से उपस्थित होता है कि कितने शिष्यों का बाह्य वस्तु मे ही अभिनिवेश (आग्रह) देख कर उनके अनुरोध (अनुवर्तन) से उनकी इष्ट सिद्धि के लिए यह बाह्यार्थवाद की प्रक्रिया विरचित हुई है । वस्तुतः यह सुगत (बुद्ध) का अभिप्राय नहीं है, उस सुगत को तो विज्ञान रूप एक स्कन्धवाद ही अभिप्रेत है । और उस विज्ञानवाद मे बाह्यार्थ के बिना ही बुद्धि मे आरूढ (स्थिर) रूप से अन्तर मे स्थिर ही प्रमाण प्रमेय और फल इन सबका व्यवहार उपपन्न सिद्ध होता है । अर्थात् विज्ञान ही अवभासन शक्ति रूप से प्रमाण होता है, कल्पित वस्तु रूप से प्रमेय होता है, अवभास रूप से प्रमाण का फल होता है, शक्ति का आश्रय रूप ले प्रमाता होता है इससे सब व्यवहार सिद्ध होता है । क्योंकि बाह्य अर्थ के रहने पर भी उन्हें बुद्धि मे आरूढ (प्राप्त स्थिर) हुए बिना प्रमाणादि का व्यवहार नहीं होता है । अर्थात् बुद्धि मे आरूढ ही बाह्यार्थ प्रमेय होता है, तब उसके अधीन प्रमाणादि का व्यवहार होता है । अन्यथा व्यवहार का अवतार (जन्म) नहीं होता है । यदि कोई कहे कि यह कैसे समझा जाता है कि अन्तरस्थही यह सब व्यवहार है, और विज्ञान से भिन्न बाह्य अर्थ नहीं है, तो कहते हैं कि बाह्य अर्थ को असम्भव से समझा जाता है । जिससे माना गया हुआ वह बाह्य

अर्थ परमाणु स्वरूप ही होगा, अथवा परमाणुओं के समूह स्तम्भादि स्वरूप होगा । उनमें प्रथम परमाणु स्तम्भादि ज्ञान के परिच्छेद्य ( विषय ) होने योग्य नहीं है, क्योंकि परमाणु का आभास ही जिसमें ऐसा परमाणु के आकार वाले ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, परमाणु अतीन्द्रिय हैं, इससे परमाणु रूप से स्तम्भादि का इन्द्रियजन्य ज्ञान अनुपपन्न है । परमाणुओं के समूहरूप भी स्तम्भादि नहीं हैं, क्योंकि परमाणु से भिन्न रूप से वा अभिन्न रूप से उन समूहों का निरूपण करना अशक्य है, क्योंकि परमाणु से अभिन्न होंगे तो परमाणु रूप ही होंगे, इससे प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगे, और कथञ्चित् प्रतीति भी होगी तो उसे परमाणु आकारवाली होना चाहिए । और परमाणु से अत्यन्त भिन्न होने पर शोऽश्व के समान परमाणु और उसके समूह में अत्यन्त विलक्षणता होने से तादात्म्य नहीं होगा । और इसी प्रकार विज्ञानवादी जाति आदि का भी प्रत्याख्यान करेगा कि जाति आदि का धर्मी से अत्यन्त अभेद वा अत्यन्त भेद मानने पर धर्म-धर्मी भाव नहीं हो सकता है । इससे जाति आदि नहीं हैं । और पदार्थ का अनुभव-मात्र रूप से साधारण स्वरूप वाले जायमान ( उत्पन्न ) ज्ञान का जो यह प्रत्येक विषय में, स्तम्भज्ञान, कुड्यज्ञान, घटज्ञान, पटज्ञान, इस प्रकार का पक्षपात ( विषययुक्त व्यवहार ) होता है, वह ज्ञानगत विशेष के बिना उपपन्न नहीं हो सकता है । इससे ज्ञान की विषयस्वरूपता को अवश्य अङ्गीकार ( स्वीकार ) करना होगा, और उस ज्ञान में विषयाकार को अङ्गीकार करने पर, विषयाकार ज्ञान से ही विषय के अवरुद्ध आच्छादित होने से बाह्यार्थ के सद्भाव ( सत्ता ) की कल्पना निरर्थक है । और साथ ही ज्ञान के नियम से भी क्षणिक विषय और विज्ञान को अभेद, प्राप्त, सिद्ध होता है, जिससे इन दोनों में से एक का अनुपलम्भ ( अज्ञान ) रहते अन्य का उपलम्भ नहीं होना है । और विषय और विज्ञान के स्वभाव ( स्वरूप ) का भेद रहते ऐसा होना युक्त नहीं है, क्योंकि प्रतिबन्ध कारण का अभाव है । इस प्रकार भिन्न भिन्न विषय और विज्ञान की प्रतीति में प्रतिबन्धक के नहीं रहते भी साथ उपलब्धि के नियम से भी बाह्य अर्थ का अभाव है । और इस जाग्रत कालिक विज्ञान को स्वप्न आदि ज्ञान के समान बाह्य विषयादि से रहित समझना चाहिये कि जैसे स्वप्न, माया, मरीचिजल, गन्धर्वनगर, आदि के ज्ञान बाह्य अर्थ के बिना ही ग्राह्यग्राहक ( विषय ज्ञान ) आकार वाले होते हैं, इसी प्रकार ज्ञानत्व की तुल्यता से जाग्रत्कालिक भी स्तम्भादि के ज्ञान बाह्यार्थ के बिना ही होने के योग्य हैं ऐसा समझा जाता है । यदि कोई कहे कि बाह्यार्थ के नहीं रहने पर ज्ञान की विचित्रता कैसे सिद्ध होती है, तो विज्ञानवादी कहता है कि वासना की विचित्रता से ज्ञान में विचित्रता होती है । जिससे अनादि संसार में बीज और अंकुर के समान विज्ञानों और वासनाओं का परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर विचित्रता प्रतिषिद्ध नहीं होती है । और दूसरी बात है कि वासना निमित्तक ही ज्ञान की विचित्रता अन्वय व्यतिरेक द्वारा भी अवगत ( अनुभूत )



होती है। क्योंकि स्वप्नादि में अर्थ के बिना भी वासना निमित्तक ज्ञान की विचित्रता को वादी प्रतिवादी दोनों मानते हैं, इससे वह दोनों से स्वीकृत है। और वासना के बिना अर्थनिमित्तक ज्ञान की विचित्रता को मैं नहीं मानता हूँ, इससे वह हम से अस्वीकृत है, इससे भी बाह्य अर्थ का अभाव है ॥

एवं प्राप्ते ब्रूमः—‘नाभाव उपलब्धेः’ इति । न खल्वभावो बाह्यस्यार्थस्या-  
ध्यवसातुं शक्यते । कस्मात् ? उपलब्धेः । उपलभ्यते हि प्रतिप्रत्ययं  
बाह्योऽर्थः स्तम्भः कुड्यं घटः पट इति, न चोपलभ्यमानस्यैवाभावो भवितुम-  
र्हति । यथा हि कश्चिद्बुद्धानो भुजिसाध्यायां तृप्तौ स्वयमनुभूयमानायामेवं  
ब्रूयान्नाहं भुञ्जे न वा तृप्यामीति, तद्वदिन्द्रियसनिकर्षेण स्वयमुपलभमान एव  
बाह्यमर्थं नाहमुपलभे न च सोऽस्तीति ब्रुवन्कथमुपादेयवचनः स्यात् । ननु  
नाहमेवं ब्रवीमि न कंचिदर्थमुपलभ इति, किं तूपलब्धिष्यतिरिक्तं नोपलभ  
इति ब्रवीमि । बाढमेवं ब्रवीषि निरङ्कुशत्वात्ते तुण्डस्य, न तु युक्त्युपेतं ब्रवीषि,  
यत उपलब्धिष्यतिरेकोऽपि बलादर्थस्याभ्युपगन्तव्य उपलब्धेरेव । नहि कश्चि-  
दुपलब्धिमेव स्तम्भः कुड्यं चेत्युपलभते, उपलब्धिष्यतिरेवैव तु स्तम्भकुड्या-  
दीन्सर्वे लौकिका उपलभन्ते । अतश्चैवमेव सर्वे लौकिका उपलभन्ते यत्प्रत्या-  
चक्षाणा अपि बाह्यार्थमेव व्याचक्षते यदन्तर्ज्ञेयरूपं तद्बहिर्वदवभासत इति ।  
तेऽपि सर्वलोकप्रसिद्धां बहिरवभासमानां संविदं प्रतिलभमानाः प्रत्याख्यातु-  
कामाश्च बाह्यमर्थं बहिर्वदिति वत्कारं कुर्वन्ति, इतरथा हि कस्माद्बहिर्वदिति  
ब्रूयुः । नहि विष्णुमित्रो वन्ध्यापुत्रवदवभासत इति कश्चिदाचक्षीत । तस्माद्य-  
थानुभवं तत्त्वमभ्युपगच्छद्भिर्वहिरैवावभासत इति युक्तमभ्युपगन्तुं न तु बहि-  
र्वदवभासत इति ।

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि ( नाभाव उपलब्धेः ) इति । बाह्य अर्थ के  
अभाव का अध्यवसाय निश्चय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाह्यार्थ की उपलब्धि  
से बाह्यार्थ सिद्ध होता है, जिससे प्रत्येक ज्ञान में स्तम्भ, कुड्य, घट, पट इत्यादि  
बाह्यार्थ उपलब्ध ज्ञात होता है, और उपलभ्यमान का ही अभाव होने योग्य नहीं है ।  
और जैसे कोई भोजन करता हुआ और भोजन से साध्य ( जन्य ) तृप्ति को स्वयं  
अनुभव करता हुआ अर्थात् अनुभूत तृप्ति के वर्तमान रहते भी इस प्रकार कहे कि मैं  
भोजन नहीं करता हूँ, वा तृप्त नहीं होता हूँ । इसी प्रकार इन्द्रियों के सम्बन्ध द्वारा  
बाह्यार्थ को स्वयं जानता अनुभव करता हुआ ही मैं बाह्य अर्थ को नहीं जानता हूँ,  
और वह बाह्य अर्थ नहीं है, इस प्रकार कहता हुआ वह किस प्रकार से उपादेय ( ग्राह्य )  
वचन वाला होगा । और यदि वह कहे कि मैं इस प्रकार नहीं कहता हूँ कि मैं किसी  
अर्थ को नहीं जानता हूँ, किन्तु यह कहता हूँ कि ज्ञान से भिन्न अर्थ को नहीं जानता हूँ ।  
तो उससे कहा जाता है कि तुम इस प्रकार सत्य कहते हो, क्योंकि तेरा तुण्ड ( मुख )

निरंकुश ( स्वतन्त्र ) है, परन्तु युक्तियुक्त नहीं कहते हो, जिससे उपलब्धि से ही अर्थ का उपलब्धि से व्यतिरेक ( भेद ) भी बलात् ( अवश्य ) अवगम करने योग्य है, समझने लायक है। क्योंकि कोई भी ज्ञान को ही स्तम्भ कुड्य नहीं समझता है, किन्तु सब लौकिक पुरुष ज्ञान के विषय रूप से ही स्तम्भ कुड्यादि को जानते हैं। और इस वक्ष्यमाण हेतु से भी इसी प्रकार ज्ञान के विषय रूप से ही बाह्य अर्थ को सब लौकिक पुरुष जानते हैं कि जिससे बाह्य अर्थ का प्रत्याख्यान ( निषेध ) करने वाले भी बाह्य अर्थ का ही व्याख्यान करते हैं कि जो अन्तर में ज्ञेय रूप वस्तु विज्ञान है, सो बाहर घटपटादि के समान भासता है इत्यादि ) वे प्रत्याख्यान करने वाले भी सर्वलोक प्रसिद्ध बाहर प्रकाशमान संविद ( उपलब्धि ) को जानते हुए और उसके प्रत्याख्यान के लिए इच्छा भी करते हुए बाह्य अर्थ को बहिर्वत् इस प्रकार कहते हुए वत्कार करते हैं, निषेध के लिए बाह्यार्थ विज्ञान को बाह्य सदृश कहते हैं। अन्यथा यदि सर्व लोक प्रसिद्ध बाह्य बुद्धि का अनुभव उन्हें नहीं होता, तो बहिर्वद् इस प्रकार किस हेतु से कहते। क्योंकि विष्णुमित्र बन्ध्यापुत्र के समान भासता है, ऐसा कोई नहीं कहता है, इसलिए अनुभव के अनुसार तत्त्व ( पदार्थ ) को मानने वालों को बाहर ही पदार्थ भासता है ऐसा मानना स्वीकार करना युक्त है, बाहर के समान भासता है, ऐसा मानना युक्त नहीं है।

ननु बाह्यस्यार्थस्यासंभवाद्बहिर्वद्वभासत इत्यध्यवसितम् । नायं साधु-  
रध्यवसायो यतः प्रमाणप्रवृत्त्यप्रवृत्तिपूर्वकौ संभवासंभवावधार्येते न पुनः संभ-  
वासंभवपूर्विके प्रमाणप्रवृत्त्यप्रवृत्ती । यद्धि प्रत्यक्षादीनामन्यतमेनापि प्रमाणो-  
नोपलभ्यते तत्संभवति, यत्तु न केनचिदपि प्रमाणेनोपलभ्यते तन्न संभवति ।  
इह तु यथास्वं सर्वैरेव प्रमाणैर्बाह्योऽर्थ उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरे-  
कादिविकल्पैर्न संभवतीत्युच्येतोपलब्धेरेव । न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्विषय-  
नाशो भवति, असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्तेः, बहिरुपलब्धेश्च विषयस्य ।  
अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि प्रत्ययविषययोरुपायोपेयभावहेतुक इत्यभ्युप-  
गन्तव्यम् । अपि च घटज्ञानं पटज्ञानमिति विशेषणयोरेव घटपटयोर्भेदो न  
विशेष्यस्य ज्ञानस्य, यथा शुक्लो गौः कृष्णो गौरिति शौक्ल्यकाष्ण्ययोरेव भेदो न  
गोत्वस्य, द्वाभ्यां च भेद एकस्य सिद्धो भवत्येकस्माच्च द्वयोः, तस्मादर्थज्ञानयो-  
र्भेदः । तथा घटदर्शनं घटस्मरणमित्यत्रापि प्रतिपत्तव्यम्, अत्रापि हि विशेष्य-  
योरेव दर्शनस्मरणयोर्भेदो न विशेषणस्य घटस्य । यथा क्षीरगन्धः क्षीररस  
इति विशेष्ययोरेव गन्धरसयोर्भेदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तद्वत् । अपि च  
द्वयोर्विज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः स्वसंवेदनेनैवोपक्षिणयोरितरेतरग्राह्यग्राहकत्वा-  
नुपपत्तिः, ततश्च विज्ञानभेदप्रतिज्ञा क्षणिकत्वादिधर्मप्रतिज्ञा स्वलक्षणसामान्य-  
लक्षणवास्यवासकत्वाविद्योपप्लवसदसद्धर्मबन्धमोक्षादिप्रतिज्ञाश्च स्वशास्त्रगता-  
स्ता हीयेरन् । किंचान्यत्, विज्ञानं विज्ञानमित्यभ्युपगच्छता बाह्योऽर्थः स्तम्भः  
कुड्यमित्येवंजातीयकः कस्मान्नाभ्युपगम्यत इति वक्तव्यम् । विज्ञानमनुभूयत

इति चेत् । बाह्योऽप्यर्थोऽनुभूयत एवेति युक्तमभ्युपगन्तुम् । अथ विज्ञानं प्रकाशात्मकत्वात्प्रदीपवत्स्वयमेवानुभूयते न तथा बाह्योऽप्यर्थ इति चेत् । अत्यन्तविरुद्धां स्वात्मनि क्रियामभ्युपगच्छस्यग्निरात्मानं दहतीतिवत्, अविरुद्धं तु लोकप्रसिद्धं स्वात्मव्यतिरिक्तेन विज्ञानेन बाह्योऽर्थोऽनुभूयत इति नेच्छस्यहो पाण्डित्यं महद्दर्शितम् । न चार्थाव्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयमेवानुभूयते, स्वात्मनि क्रियाविरोधादेव ।

यदि कहे कि बाह्य अर्थ का असम्भव से, बाहर के समान विज्ञान भासता है यह निश्चय किया गया है । तो कहा जाता है कि यह अध्यवसाय साधु ( चारु-मुन्दर ) नहीं है जिससे प्रमाण की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति पूर्वक प्रमाणाधीन पदार्थ के सम्भव ( सत्यत्व ) और असम्भव ( असत्यत्व ) अवधारित ( निश्चित ) किए जाते हैं । पदार्थ के सम्भव असम्भव पूर्वक प्रमाण की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति अवधारित नहीं होती है । प्रत्यक्षादि प्रमाणों में किसी एक प्रमाण से भी जो उपलब्ध ( ज्ञात ) होता है वह सत्य है जो किसी प्रमाण से भी नहीं उपलब्ध होता है उसका सम्भव ( सत्ता ) नहीं है । यहा बाह्य देश में तो अपने अपने स्वरूप के अनुसार सभी प्रमाणों से उपलभ्यमान बाह्य पदार्थ हैं, स्वकारण से व्यतिरेक अव्यतिरेक ( भेदाभेद ) आदि विकल्पों के द्वारा उनका सम्भव नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है, उपलब्धि से ही ऐसा नहीं कहा जा सकता है । ज्ञान की विषयसरूपता से विषय का नाश नहीं होता है, विषय के नहीं रहने पर ज्ञान में विषय सरूपता की अनुपपत्ति में विषयाकार ज्ञान का विषय हेतु है, उसके नहीं रहते तदाकार ज्ञान ही नहीं हो सकता और विषय की बाहर उपलब्धि होती है, इससे विषय अन्तर्वर्ती विज्ञान रूप नहीं हो सकता है । जिससे ज्ञान और विषय का भेद अनुभव सिद्ध है इसीसे ज्ञान और विषय के साथ उपलब्धि का नियम भी उपाय उपेय भाव हेतुक है, ऐसा समझना चाहिये, अभेद हेतुक है ऐसा नहीं समझना चाहिये । दूसरी बात है कि घटज्ञान-पटज्ञान, यहाँ विशेषण घट पट का ही भेद है, विशेष्य ज्ञान का भेद नहीं है, जैसे कि शुक्ल गौ-कृष्ण गौ, यहाँ शुक्लता कृष्णता का भेद है, गोत्व का भेद नहीं है । दो से एक का भेद सिद्ध होता है, तथा एक से दो का भेद सिद्ध होता है, इससे अर्थ और ज्ञान का भेद है । इसी प्रकार घटदर्शन-घटस्मरण, यहाँ भी समझना चाहिये कि यहाँ भी विशेष्य दर्शन और स्मरण का ही भेद है, विशेषण घट का भेद नहीं है । जैसे कि क्षीरगन्ध-क्षीररस, यहाँ विशेष्य गन्ध और रस का ही भेद है, विशेषण क्षीर का भेद नहीं है, ऐसा समझना चाहिये । और पूर्वोत्तरकाल में वर्तमान दो विज्ञानों को स्वप्रकाश होने से स्वमात्र के संवेदन से ही क्षणिकत्व के कारण उपक्षीण नष्ट होने से परस्पर ग्राह्यत्व ग्राहकत्व की अनुपपत्ति है, ग्राह्य ग्राहक भाव स्वीकृत भी नहीं है । इससे पूर्वोत्तर कालिक विज्ञान के भेद की प्रतिज्ञा स्थायी ज्ञाता बिना नहीं बन सकती है । इसी प्रकार साध्यहेतु दृष्टादि के ज्ञान के बिना क्षणिकत्वादि धर्म की प्रतिज्ञा नहीं बन सकती है । और सबसे व्यावृत्त व्यक्ति मात्रत्व रूप स्वलक्षण की, और

अनेकानुगत अतद् व्यावृत्त रूप सामान्य की, उत्तरज्ञान रूप वास्य और ूर्वज्ञान रूप वासक की, अविद्या का उपप्लव ( सम्बन्ध ) से सत और असत धर्म की, अज्ञान से बन्ध की, और ज्ञान से मोक्ष की इत्यादि अनेक के ज्ञानाधीन होनेवाली स्वशास्त्रगत प्रतिज्ञाएँ नहीं सिद्ध हो सकती हैं । इससे ये सब प्रतिज्ञाएँ नष्ट होगी, अतः ग्राहकादि का भेद मानना चाहिये । भेद मे अन्य कारण है कि विज्ञान मात्र ही विषय रहित विज्ञान है, इस प्रकार मानने वाला, स्तम्भ कुड्य इत्यादि रीति से भिन्न भासने वाले बाह्य पदार्थों को किस हेतु से नहीं मानता है यह उसे कहना चाहिये । यदि कहे कि विज्ञान अनुभूत होता है, इससे विज्ञान को मानते हैं, तो कहा जाता है कि बाह्य अर्थ भी अनुभूत ही होते हैं, इससे उनका भी स्वीकार करना युक्त है । यदि कहे कि प्रदीप के समान प्रकाशात्मक होने से विज्ञान स्वयम् अनुभूत होता है, बाह्य अर्थ वैसे अनुभूत नहीं होता है । तो उससे कहा जाता है कि अग्नि अपने को जलाती है । इसके समान अत्यन्त विरुद्ध आत्मा मे प्रकाश क्रिया मानते ह । अविरुद्ध तथा लोकप्रसिद्ध, वस्तुस्वरूप से भिन्न विज्ञान से बाह्य अर्थ अनुभूत होता है इस वचन को नहीं मानना चाहते हो । इससे आश्चर्य स्वरूप महत् पाण्डित्य को तुमने प्रदर्शित किया है । स्वात्मा मे क्रिया के विरोध से ही अर्थ से अभिन्न भी विज्ञान स्वय ही नहीं अनुभूत होता है ।

ननु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरिक्तग्राह्यत्वे तदप्यन्येन ग्राह्यं तदप्यन्येनेत्य-  
नवस्थां प्राप्नोति । अपि च प्रदीपवदवभासात्मकत्वाज्ज्ञानस्य ज्ञानान्तरं  
कल्पयतः समत्वादवभास्यावभासकभावानुपपत्तेः कल्पनानर्थक्यमिति ।  
तदुभयमप्यसत् । विज्ञानग्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणो ग्रहणाकाङ्क्षानुत्पादाद-  
नवस्थाशङ्कानुपपत्तेः, साक्षिप्रत्यययोश्च स्वभाववैषम्यादुपलब्धुपलभ्यभावोपपत्तेः,  
स्वयंसिद्धस्य च साक्षिणोऽप्रत्याख्येयत्वात् । किचान्यत् प्रदीपवद्विज्ञानमवभास-  
कान्तरनिरपेक्षं स्वयमेव प्रथत इति ब्रुवता प्रमाणागम्यं विज्ञानमनवगन्तुकमि-  
त्युक्तं स्यात्, शिलाधनमभ्यस्थप्रदीपसहस्रप्रथनवत् । बाढमेवम्, अनुभवरूप-  
त्वात्तु विज्ञानस्येष्टो नः पक्षस्त्वयाऽनुज्ञायत इति चेत् । न । अन्यस्यावगन्तुश्चक्षुः-  
साधनस्य प्रदीपादिप्रथनदर्शनात्, अतो विज्ञानस्याप्यवभास्यत्वाविशेषात्स-  
त्येवान्यस्मिन्नवगन्तरि प्रथनं प्रदीपवदित्यवगम्यते । साक्षिणोऽवगन्तुश्च  
स्वयंसिद्धतामुपक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञानमित्येष एव मम पक्षस्त्वया  
वाचोयुक्त्यन्तरेणाश्रित इति चेत् । न, विज्ञानस्योत्पत्तिप्रध्वंसानेकत्वाद्विशेष-  
वत्त्वाभ्युपगमात् । अतः प्रदीपवद्विज्ञानस्यापि व्यतिरिक्तावगम्यत्वमस्माभिः  
प्रसाधितम् ॥ २८ ॥

यदि कहे कि विज्ञान स्वयं नहीं अनुभूत होगा तो अन्य से ग्राह्यत्व ( अनुभूतत्व ) होने पर वह अन्य भी किसी अन्य से ग्राह्य होगा, फिर वह भी किसी अन्य से ग्राह्य होगा, तो अनवस्था की प्राप्ति होगी । दूसरी बात है कि प्रदीप के समान ज्ञान को अवभास ( प्रकाश ) स्वरूप होने से ज्ञान विषयक ज्ञानान्तर की कल्पना करने वालों के ज्ञानों

की समता से अवभास्य अवभासक भाव की असिद्धि से कल्पना में अनर्थकता होगी, तो कहा जाता है कि अनवस्था और समता से अनर्थकता रूप दोनों ही दोष शका असत् हैं, नहीं है। क्योंकि विज्ञान के साक्षी को विज्ञान के ग्रहण मात्र होने पर ग्रहण की आकाङ्क्षा की अनुत्पत्ति से अनवस्था शका की अनुत्पत्ति है। साक्षी और ज्ञान को स्वभाव को विषमता से, उपलब्धा ( ज्ञाता ) और उपलभ्य ( ज्ञेय ) भाव की उत्पत्ति ( सिद्धि ) है। स्वयं सिद्ध नित्य साक्षी प्रत्याख्यान का विषय नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि प्रदीप के समान विज्ञान अन्य अवभासक की अपेक्षा के बिना ही स्वयं प्रकाशता है इस प्रकार कहनेवाले में यह कथन सिद्ध होगा कि विज्ञान प्रमाण से अगम्य है और अवगन्ता रहित है। इस प्रकार प्रमाण प्रमाता से रहित होने से शिलाघन ( संघात ) के मध्यस्थ दीप सहस्र के प्रकाशो के तुल्य है, अर्थात् असत् है। यदि कहो कि इस प्रकार से विज्ञान को प्रमाण प्रमाता शून्य होना सत्य ही है। प्रमाता आदि के बिना भी स्वयं अनुभव रूप होने से वह सत्य है। इस विज्ञान रूप को शिलादीप प्रथम तुल्य प्रमाणादि रहित मानने वाले तुमने हमारे इष्ट पक्ष का स्वीकार किया है, तो कहा जाता है कि यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि चक्षु आदि साधन वाला दीप से अन्य अवगन्ता ( ज्ञाता ) को प्रदीपादि प्रकाश का दर्शन ज्ञान होता। प्रदीप को पदीप का दर्शन नहीं होता है। इस उत्पत्ति नाशवाले विज्ञान को भी अवभास्यत्व की तुल्यता से अन्य अवगन्ता साक्षी के रहते ही दीप के समान प्रकाश होता है, ऐसी प्रतीति होती है। यदि कहो कि अवगन्ता साक्षी की स्वयं-सिद्धता का उपक्षेप ( अगीकार ) करते हुए तुमने विज्ञान स्वयं प्रकाशता है, इस मेरे ही पक्ष का वाक् सम्बन्धी अन्य युक्ति ( योजना ) से आश्रयण किया है। अर्थात् शब्दान्तर से मेरे ही पक्ष को तुमने माना है, तो ऐसा कहना भी नहीं बन सकता है। क्योंकि तुम विज्ञान को उत्पत्तिव्यस अनेकत्वादि विशेष ( भेद ) वाला मानते हो। इसीसे प्रदीप के समान भिन्न से अवभास्यत्व को हमने सिद्ध किया है। अर्थात् वृत्तिरूप विज्ञान को क्षणिक नहीं मानकर भी उसकी उत्पत्ति को हम भी मानते हैं, उसका प्रकाशक साक्षी प्रसाधित किया गया है ॥ २८ ॥

### वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् ॥ २९ ॥

यदुक्तं—बाह्यार्थापलापिना स्वप्नादिप्रत्ययवज्जागरितगोचरा अपि स्तम्भादि-  
प्रत्यया विनैव बाह्योनार्थेन भवेयुः प्रत्ययत्वाविशेषात्—इति, तत्प्रतिवक्तव्यम् ।  
अत्रोच्यते । न स्वप्नादिप्रत्ययवज्जाग्रत्प्रत्यया भवितुमर्हन्ति । कस्मात् ?  
वैधर्म्यात् । वैधर्म्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः । किं पुनर्वैधर्म्यम् ? बाधाबा-  
धाविति ब्रूमः । बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो  
महाजनसमागम—इति, न ह्यस्ति मम महाजनसमागमो निद्रागतानं तु मे मनो  
बभूव तेनैष भ्रान्तिरुद्धभूवेति । एवं मायादिष्वपि भवति यथायथं बाधः । न

चैवं जागरितोपलब्धं वस्तु स्तम्भादिकं कस्यांचिदप्यवस्थायां बाध्यते । अपि च स्मृतिरेषा यत्स्वप्नदर्शनम्, उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्, स्मृत्युपलब्धोश्च प्रत्यक्षमन्तरं स्वयमनुभूयतेऽर्थविप्रयोगसंप्रयोगात्मकमिष्टं पुत्रं स्मरामि नोपलभे उपलब्धुमिच्छामीति । तत्रैवंसति न शक्यते वक्तु मिथ्या जागरितोपलब्धिरूपलब्धित्वात्स्वप्नोपलब्धिवदित्युभयोरन्तरं स्वयमनुभवता । न च स्वानुभवापलापः प्राज्ञमानिभिर्युक्तः कर्तुम् । अपि चानुभवविरोधप्रसङ्गाज्जागरितप्रत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्तुमशक्नुवता स्वप्नप्रत्ययसाधर्म्याद् वक्तुमिष्यते । नहि यो यस्य स्वतो धर्मो न संभवति सोऽन्यस्य साधर्म्यात्तस्य संभविष्यति । न ह्यग्निरूष्णोऽनुभूयमान उदकसाधर्म्याच्छीतो भविष्यति । दर्शित तु वैधर्म्यं स्वप्नजागरितयोः ॥ २६ ॥

बाह्य अर्थ का अपलाप करने वाले ( अभाव कहने वाले ) ने जो कहा है कि स्वप्नादि ज्ञान के समान, जाग्रत काल के भी स्तम्भादि के ज्ञान, ज्ञानरूपता की अवशेषता ( तुल्यता ) से बाह्य अर्थ के विना ही होंगे, उसका प्रत्युत्तर कहना चाहिये, इससे यहाँ कहा जाता है कि स्वप्नादि ज्ञान के समान जाग्रत के ज्ञान होने योग्य नहीं हैं । क्योंकि दोनो में वैधर्म्य ( विरोधी धर्मवत्ता ) है, जिससे जाग्रत स्वप्न को वैधर्म्य होता ही है । यदि कहो कि वैधर्म्य क्या है तो कहते हैं कि बाध और अबाध वैधर्म्य है । जिससे स्वप्न से जागे हुए को स्वप्न में उपलब्ध ( ज्ञात ) वस्तु बाधित होती है कि मुझे स्वप्न में महाजन का समागम मिथ्या उपलब्ध ( ज्ञात-प्राप्त ) हुआ था, मुझे महाजन का समागम नहीं है, किन्तु निद्रा से ग्लान ( क्षीण ) मेरा मन हुआ था, इससे यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई थी । इसी प्रकार माया आदि में भी यथायोग्य बाध होता है । जाग्रत काल में उपलब्ध स्तम्भादि वस्तु किसी अवस्था में इस प्रकार बाधित नहीं होती है । और जो यह स्वप्न दर्शन है, वह सस्कार जन्य होने से स्मृति तुल्य है, जाग्रत का ज्ञान उपलब्धि ( प्रमाणजन्य ) है । स्मृति और उपलब्धि में अर्थ का विप्रयोग और सप्रयोग स्वरूप अन्तर ( भेद ) प्रत्यक्ष स्वयं अनुभव किया जाता है कि इष्ट पुत्र का स्मरण करता हूँ, उपलम्भ नहीं करता हूँ, उपलम्भ करना चाहता हूँ इत्यादि । वहाँ जाग्रत स्वप्न का इस प्रकार भेद होते और उन दोनो के भेद को स्वयं अनुभव करते हुए पुरुष नहीं कह सकते कि जागरित काल की उपलब्धि, उपलब्धि होने से स्वप्नोपलब्धि के समान मिथ्या है । क्योंकि प्राज्ञमानी ( परिण्डित मानी ) लोगो से अपने अनुभव का अपलाप करना युक्त नहीं है । दूसरी बात है कि अनुभव के साथ विरोध के भय से विरोध की प्राप्ति से, जागरित ज्ञानो की निरालम्बनता ( विषयशून्यता ) स्वतः नहीं कह सकने पर स्वप्न ज्ञान की तुल्यता से कहना चाहते हैं, यदि जाग्रत ज्ञान को निरालम्बनता प्रत्यक्ष होती-तो दृष्टान्त की जरूरत नहीं होती । जिससे अग्नि को दृष्टान्त से उष्ण नहीं सिद्ध किया जाता है । दृष्टान्त का ग्रहण करने पर भी जो

धर्म जिसका स्वतः सम्भव नहीं होगा, वह अन्य के साधर्म्य से भी उसका धर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि उष्ण अनुभूयमान अग्नि किसी अश मे जल के साथ साधर्म्य से शीत नहीं हो सकती है। स्वप्न जाग्रत के बाध और अबाध रूप वैधर्म्य प्रदर्शित करा चुके हैं ॥ २९ ॥

### न भावोऽनुपलब्धेः ॥ ३० ॥

यदप्युक्तं—विनाप्यर्थेन ज्ञानवैचित्र्यं वासनावैचित्र्यादेवावकल्पयत— इति, तत्प्रतिवक्तव्यम्। अत्रोच्यते। न भावो वासनानामुपपद्यते त्वत्पक्षेऽनुपलब्धेर्बाह्यानामर्थानाम्। अर्थोपलब्धिर्नानिमित्ता हि प्रत्यर्थं नानारूपा वासना भवन्ति, अनुपलभ्यमानेषु किंनिमित्ता विचित्रा वासना भवेयुः, अनादित्वेऽप्यन्धपरम्परान्यायेनाप्रतिष्ठैवानवस्था व्यवहारविलोपिनी स्यान्नाभिप्रायसिद्धिः। यावप्यन्वयव्यतिरेकावर्थापलापिनोपन्यस्तौ वासनानिमित्तमेवेदं ज्ञानजातं नार्थनिमित्तमिति, तावप्येवंसति प्रत्युक्तौ द्रष्टव्यौ, विनाऽर्थोपलब्ध्या वासनानुत्पत्तेः। अपि च विनापि वासनानिमित्तोपलब्ध्युपगमाद्विना त्वर्थोपलब्ध्या वासनोत्पत्त्यनभ्युपगमादर्थसद्भावेवान्वयव्यतिरेकावपि प्रतिष्ठापयतः। अपि च वासना नाम संस्कारविशेषः, संस्काराश्च नाश्रयमन्तरेणावकल्पन्ते, एवं लोके दृष्टत्वात्, न च तव वासनान्नाश्रयः कश्चिदस्ति प्रमाणतोऽनुपलब्धेः ॥३०॥

और जो यह भी कहा है कि अर्थ के बिना भी वासना की विचित्रता से ही ज्ञान मे विचित्रता की सिद्धि हो सकती है, उसका प्रत्युत्तर कहना चाहिए, इससे यहाँ कहा जाता है कि तेरे पक्ष मे बाह्य अर्थ की अनुपलब्धि से वासनाओ का भाव नहीं उपपन्न ( सिद्ध ) हो सकता है। जिससे अर्थ की उपलब्धि निमित्तक ही प्रत्येक अनुभूत अर्थ विषयक नानारूप वाली वासनाये होती हैं, अर्थों के अनुपलभ्यमान ( अज्ञात ) रहते किस निमित्त से विचित्र वासनाये होगी। यदि बाह्य अर्थ की उपलब्धि के बिना भी बीजाकुर के समान वासना और ज्ञान की विचित्रता का अनादि प्रवाह माना जाय, तो वासना के और प्रवाह के अनादि होने पर भी अन्धपरम्परान्याय से व्यवहार लोप करने वाली निर्मूल सीमारहित अनवस्था ही होगी, और अभिप्राय नहीं सिद्ध होगा। अर्थात् बीज से अकुर को उत्पत्ति देखी जाती है, इससे अदृष्ट बीजाङ्कुर मे भी कार्य कारण भाव की कल्पना होती है, यहाँ तो उपलब्धि के बिना अर्थ ज्ञान रहित को वासना की उत्पत्ति नहीं देखी गई है, इससे उपलब्धि निरपेक्ष वासना सर्वथा कल्पित है, उससे ज्ञानगत विचित्रता नहीं सिद्ध हो सकती है, बाह्य अर्थ का अपलाप करने वाले ने जो स्वप्न के दृष्टान्त के अन्वय और व्यतिरेक का उपन्यास ( कथन ) किया है कि स्वप्न के समान वासना निमित्तक यह ज्ञान समूह होता है, वासना के नहीं रहने पर अर्थ निमित्तक ज्ञान नहीं होता है। सो अन्वय व्यतिरेक भी वासना के बाह्यार्थानुभव-जन्यत्व सिद्ध होने पर प्रत्याख्यात ( खण्डित ) हो गया ऐसा समझना चाहिये क्योंकि

अर्थोपलब्धि के बिना वासना की उत्पत्ति नहीं होती है । प्रथम अनुपलब्ध नवीन अपूर्व अर्थ का वासनाओ के बिना भी ज्ञान प्राप्त होने से और अर्थ की उपलब्धि के बिना वासना की उत्पत्ति की अप्राप्ति से अन्वय व्यतिरेक भी अर्थ की सत्ता को ही स्थिर करते हैं । और संस्कार विशेष रूप वासना प्रसिद्ध हैं, और आश्रय के बिना वेगादि रूप संस्कार सिद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही लोक में देखा जाता है । तेरे मत में प्रमाण से अनुपलब्धि के कारण कोई आश्रय नहीं है ॥ ३० ॥

### क्षणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥

यदप्यालयविज्ञानं नाम वासनाश्रयत्वेन परिकल्पितं तदपि क्षणिकत्वाभ्युपगमादनवस्थितस्वरूपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानवन्न वासनानामधिकरणं भवितुमर्हति । न हि कालत्रयसंबन्धिन्येकस्मिन्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा सर्वार्थदर्शिनि देशकालनिमित्तापेक्षवासानाधानस्मृतिप्रतिसन्धानादिव्यवहारः संभवति । स्थिरस्वरूपत्वे त्वालयविज्ञानस्य सिद्धान्तहानिः । अपि च विज्ञानवादेऽपि क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समानत्वाद्यानि बाह्यार्थवादे क्षणिकत्वनिबन्धनानि दूषणान्युद्भावितानि 'उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्' इत्येवमादीनि तानीहाप्यनुसन्धानाद्यानि । एवमेतौ द्वावपि वैनाशिकपक्षौ निराकृतौ बाह्यार्थवादिपक्षो विज्ञानवादिपक्षश्च । शून्यवादिपक्षस्तु सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते । न ह्ययं सर्वप्रमाणसिद्धो लोकव्यवहारोऽन्यत्त्वमनधिगम्य शक्यतेऽपह्नोतुमपवादाभावे उत्सर्गप्रसिद्धेः ॥ ३१ ॥

और अहम् इस आकार वाला आत्मा रूप जो आलय विज्ञान नामक भी वासनाओ के आश्रय रूप से परिकल्पित है, सो भी क्षणिकत्व के स्वीकार से अनवस्थित स्वरूप होता हुआ प्रवृत्ति विज्ञान ( घट पटादि का ज्ञान ) के समान वासनाओ का अधिकरण होने योग्य नहीं है । क्योंकि तीनों काल के साथ सम्बन्ध वाला एक अन्वयी सर्वार्थदर्शी कूटस्थ वा स्थायी के नहीं रहने पर, देश, काल और निमित्त की अपेक्षा पूर्वक वासना का आधान ( स्थापन ) और वासनामूलक स्मृति तथा प्रतिसन्धान ( प्रत्यभिज्ञा ) और तन्मूलक व्यवहार नहीं हो सकते हैं । विज्ञान का सतान भी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें वासना आदि रह सके । आलय विज्ञान के स्थिरस्वभावत्व को स्वीकार करने पर सिद्धान्त की हानि होगी । विज्ञानवाद में भी क्षणिकत्वाभ्युपगम ( स्वीकृति ) की तुल्यता से क्षणिक बाह्यार्थवाद में जो क्षणिकत्वनिमित्तक दूषण उद्भावित ( प्रकटित ) किये गये हैं, सिद्ध हो चुके हैं कि ( उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात् ) इत्यादि । उनका यहाँ भी अनुसंधान कर्तव्य है । वे सब दूषण यहाँ लागू होते हैं । इस प्रकार बाह्यार्थवादी का पक्ष और विज्ञानवादी का पक्ष रूप ये दोनों ही वैनाशिक निराकृत किये गये । शून्यवादी का पक्ष तो सब प्रमाणों से विरुद्ध है, इससे उसके निराकरण के लिये आदर ( यत्न ) नहीं किया जाता है । ( सूत्रान्तर का आरम्भ नहीं किया जाता



है ) किन्तु इन सूत्रों से ही उसका भी प्रत्याख्यान समझना । क्योंकि सब प्रमाणों से प्रसिद्ध यह लोक व्यवहार अन्य तत्त्व का अधिगम ( प्राप्ति स्वीकार ) किए बिना अपह्नव-अपलाप के योग्य नहीं है, इससे इसका अपलाप नहीं किया जा सकता है, अपवाद के अभाव की दशा में उत्सर्ग की प्रसिद्धि से शून्य का अभाव होने पर प्रमाण से प्रतीति के अनुसार लोक व्यवहार सिद्ध होता है ॥ ३१ ॥

### सर्वथानुपपत्तेश्च ॥ ३२ ॥

किं बहुना सर्वप्रकारेण यथा यथाऽयं वैनाशिकसमय उपपत्तिमत्त्वाय परीक्ष्यते तथा तथा सिकताकूपवद्विदीर्यते एव, न कांचिदप्यत्रोपपत्तिं पश्यामः, अतश्चानुपपन्नो वैनाशिकतन्त्रव्यवहारः । अपि च बाह्यार्थ-विज्ञान-शून्यवादत्रय-मितरेतरविरुद्धमुपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनोऽसंबद्धप्रलापित्वं, प्रद्वेषो वा प्रजासु विरुद्धार्थप्रतिपत्त्या विमुह्येयुरिमाः प्रजा इति । सर्वथाप्यनादरणी-योऽयं सुगतसमयः श्रेयस्कामैरित्यभिप्रायः ॥ ३२ ॥

बहुत कथन का यहाँ कोई फल नहीं है, जितना कहा गया है वही बहुत है, क्योंकि जिस जिस प्रकार ( ज्यो ज्यो ) यह वैनाशिक सिद्धान्त उपपत्तिमत्ता ( युक्तता ) के लिए परीक्षित ( विचारित ) होता है, त्यो त्यो सिकता ( बालू ) में खोदे गये कूप के समान विदीर्ण ही होता है । इसमें कोई उपपत्ति नहीं देखते हैं । इससे वैनाशिक तत्र ( दर्शन ) का व्यवहार अयुक्त है । दूसरी बात है कि बाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद रूप परस्पर विरुद्ध तीन वादों का उपदेश करते हुए सुगत ने अपने असम्बद्ध प्रलापित्व को प्रकट किया है । अथवा विरुद्ध अर्थ के ज्ञान से यह प्रजा विमोहित हो, इस प्रकार के प्रजाविषयक विद्वेष को प्रकट किया है । इससे श्रेयोर्ज्या से यह सुगत का सिद्धान्त सर्वथा ही अनादरणीय है यह अभिप्राय है ॥ ३२ ॥

### एकस्मिन्नसंभवाधिकरण ॥ ६ ॥

सिद्धिः सप्तपदार्थानां सप्तभङ्गीभयान्न वा । साधकन्यायसद्भावात्तेषां सिद्धौ किमद्भुतम् ॥ एकस्मिन्नसदसत्त्वादिविरुद्धप्रतिपादनात् । अपन्यायः सप्तभङ्गी नृच जीवस्य सांशता ॥ २ ॥

जैन मत में सब पदार्थ के सात-सात भङ्ग ( अवस्था ) सदा माने जाते हैं । अर्थात् ( स्यादस्ति । स्यान्नास्ति । स्यादस्ति च नास्ति च । स्यादवक्तव्यम् । स्यादस्ति चावक्तव्यञ्च । स्यान्नास्ति चावक्तव्यञ्च । स्यादस्ति च स्यान्नास्ति चावक्तव्यञ्च ) इस प्रकार के सात माने जाते हैं । यहाँ स्यात् अभ्यय है, उसका कथञ्चित् अर्थ है, इससे तात्पर्यार्थ है कि घट कथञ्चित् किसी प्रकार से है, अर्थात् घटत्वरूप से वर्तमानत्वरूप से वर्तमान काल में है । वर्तमान काल में पटत्वरूप से भूतत्वादि रूप से नहीं रहने से कथञ्चित् नहीं भी है, यह घट की दूसरी अवस्था प्रथमावस्था के साथ ही है । घट में क्रम से घटत्व पटत्व उभय रूपता की वा वर्तमानत्व भूतत्व उभयरूपता की विवक्षा करने पर कहा जाता है कि कथञ्चित् अस्ति घटत्व वर्तमानत्व रूप से है । कथञ्चित् नास्ति पटत्व भूतत्व रूप से नहीं

है, यह घट की तृतीयावस्था भी पूर्व की दोनो अवस्थाओं के साथ घट में वर्तमान है। क्रम के बिना एक काल में घट में घटत्व पटत्व वर्तमानत्व भूतत्व की विवक्षा में कथञ्चित् अवक्तव्य, अवस्था घट की होती है, वह पूर्ववर्ती तीनों के साथ रहती है। घटत्व रूप की विवक्षा तथा युगपद उभय ( घटत्व पटत्व ) की विवक्षा करने पर ( कथञ्चित् है और कथञ्चित् अवक्तव्य है ) यह भी पूर्व की चारों अवस्थाओं के साथ घट में रहता है। घट में घटत्व के अभाव की और घटत्व पटत्व उभय रूपता की युगपद विवक्षा करने पर ( कथञ्चित् नास्ति घटत्वाभाव वाला घट नहीं है। कथञ्चित् अवक्तव्य है ) घटत्व पटत्व उभय रूप से कहने के अयोग्य है। यह षष्ठी अवस्था है। क्रम से घटत्व पटत्व की विवक्षा और युगपद उभय विवक्षा में सप्तम भग होता है। यहाँ कहा जाता है कि किसी एक वस्तु में ये विरुद्ध सात अवस्थाएँ समकाल में रह नहीं सकती हैं, घट में घटत्व का अभाव है, पटत्व रूप से घट का अभाव नहीं है, क्योंकि पटत्व रूप वाला कभी घट होता नहीं है। प्रतियोगी की प्रसिद्धि के बिना अभाव की प्रतीति नहीं हो सकती, इससे यह सप्तमङ्ग की कल्पना निर्मूल है, सत्यात्मा है, सो सर्वथा सदा वर्तमान है। उसका तो किसी प्रकार किसी रूप से कभी अभाव हो ही नहीं सकता इत्यादि। विशेष अन्यत्र द्रष्टव्य है। संशय है कि सात भग के समूह रूप सप्तभंगी न्याय से जैनों के मान्य सात पदार्थों की सिद्धि हो सकती है। अथवा नहीं हो सकती है, अर्थात् सप्त सख्या में भी स्यान्नास्ति कथञ्चित् नहीं है, इस भग की प्राप्ति होने से सात पदार्थ कैसे सिद्ध हो सकते हैं। पूर्वपक्ष है कि सप्तमङ्गी न्याय के रहते भी उससे भिन्न सात पदार्थ को सिद्ध करने वाले साधक न्यायों के सद्भाव से पदार्थ की सिद्धि में आश्चर्य क्या है। अन्य प्रमाणों से पदार्थ की सिद्धि होती है। सिद्धान्त है कि एक अर्थ में सत्त्वासत्त्वादि विरुद्ध धर्म का प्रतिपादन करने से यह सप्तभग का समूह अपन्याय ( दृष्टन्याय ) है, इससे प्रमाणान्तर से सिद्ध में भी संशय जनन द्वार सात पदार्थ को भी निश्चित रूप से नहीं सिद्ध होने देगा। और जीव की साक्षता युक्त भी नहीं है, और सप्तभंगी से भी वह निश्चित रूप से नहीं सिद्ध हो सकती है ॥ १-२ ॥

### नैकस्मिन्नसंभवात् ॥ ३३ ॥

निरस्तः सुगतसमयः, विवसनसमय इदानीं निरस्यते। सप्त चैषां पदार्थाः संमता जीवाजीवास्रवसंवरनिर्जरबन्धमोक्षा नाम। संचेपतस्तु द्वावेव पदार्थौ जीवाजीवाख्यौ। यथायोगं तयोरेवेतरान्तर्भावादिति मन्यन्ते। तयोरिममपरं प्रपञ्चमाचक्षते, पञ्चास्तिकाया नाम—जीवास्तिकायः पुद्गलास्तिकायो धर्मास्तिकायोऽधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायश्चेति। सर्वेषामप्येषामवान्तरप्रभेदान् बहुविधान् स्वसमयपरिकल्पितान् वर्णयन्ति। सर्वत्र चेत् सप्तमङ्गीनयं नाम न्याय-मन्वतारयन्ति। स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः,

स्य दस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति । एवमेवैकत्वनित्यत्वादिष्वपीमं सप्तभङ्गीनयं योजयन्ति ।

सुगत ( बुद्ध ) का सिद्धान्त निराकृत हो चुका, विवसन ( दिग्म्बर ) जैनसिद्धान्त का इस समय निराकरण किया जाता है । इन जैनो के, जीव ( भोक्ता ) अजीव ( भोग्य ) आस्रव ( इन्द्रिय की विषयाभिमुखप्रवृत्ति ) सवर ( उस प्रवृत्ति का निरोधक यमनियमादि ) निर्जर ( सम्यक् प्रवृत्ति तप आदि ) बन्ध ( बन्धन हेतु कर्म ) मोक्ष ( कर्मनिवृत्ति ) ये सात पदार्थ सम्मत हैं । और संक्षेप से तो जीव अजीव नामक दो ही पदार्थ सम्मत ( स्वीकृत ) है । उन जीव जड दोनो मे ही यथा योग्य अन्य सब का अन्तर्भाव है इस प्रकार मानते हैं । उश जीव जड का ही यह अन्य विस्तार कहते है कि पाच अस्तिकाय ( पदार्थ ) प्रसिद्ध हैं । उनमे बद्ध मुक्तादि अनेक प्रकार का एक जीवरूप अतिकाय ( पदार्थ ) है । दूसरा पूर्ण नष्ट होनेवाला पुद्गल ( शरीर ) रूप अस्तिकाय है । तीसरा धर्म है, चौथा अधर्म है, पञ्चम आकाशरूप अस्तिकाय ( पदार्थ ) है । इन सब के भी अपने सिद्धान्त मे परिकल्पित बहुत प्रकार के अवान्तर (अन्तरगत) भेदो का वर्णन करते है । सब पदार्थो मे इस वक्ष्यमाण सप्तभङ्गीनय नामक न्याय का अवतरण ( योजना ) करते हैं कि सब पदार्थ स्यात् ( कथञ्चित् ) है, कथञ्चित् नास्ति ( नही ) है । क्रम से अस्तित्व नास्तित्व की विवक्षा मे कथञ्चित् है कथञ्चित् नही है । अस्तित्व नास्तित्व की समकाल मे विवक्षा होने पर कथञ्चित् अवक्तव्य है, क्योंकि दोनो बातें एक समय कही नही जा सकती हैं । आद्य और चतुर्थ भंग की सह विवक्षा में पञ्चम भंग है । द्वितीय चतुर्थ की सह विवक्षा मे षष्ठभंग है । तृतीय चतुर्थ की विवक्षा में सप्तम है । इसी प्रकार एकत्व नित्यत्वादि में भी सप्तभगी नय की योजना करते हैं कि स्यादेकः, स्यादनेकः, स्यदेकोऽनेकश्च, इत्यादि, तथा स्यान्नित्यः स्यादनित्यः ! इत्यादि, अर्थात् सब पदार्थ किसी प्रकार एक अनेकादि स्वरूप हैं, नित्य अनित्यादि स्वरूप है, जैसे दो अस्ति नास्ति से सप्तभंग की कल्पना होती है । वैसे एकत्व अनेकत्व से और नित्यत्व अनित्यत्व दो-दो कोटि से ही सात-सात भंगो की कल्पना होती है । और कहते हैं कि पदार्थ के अनेक रूप होने से ही व्यवहार होता है, एक रूप होने पर व्यवहार नही हो सकता ।

अत्राचक्ष्महे । नायमभ्युपगमो युक्त इति । कुतः ? एकस्मिन्नसंभवात् । न ह्येकस्मिन्धर्मिणि युगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धधर्मसमावेशः संभवति शीतोष्णवत् । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवरूपाश्चेति ते तथैव वा स्युर्नैव वा तथा स्युः । इतरथा हि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिर्धारितरूपं ज्ञानं संशयज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात् । नन्वनेकात्मकं वस्त्विति निर्धारितरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यमानं संशयज्ञानवन्नाप्रमाणं भवितुमर्हति । नेति ब्रूमः । निरङ्कुशं ह्यनेकान्तत्वं सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्वाविशेषात्स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्मकतैव स्यात् । एवं निर्धार-

यितुर्निर्धारणफलस्य च स्यात्पक्षेऽस्तित्ता स्याच्च पक्षे नास्तित्तेति । एवंसति कथं प्रमाणभूतः संस्तीर्थकरः प्रमाणप्रमेयप्रमातृप्रमितिष्वनिर्धारितासूपदेष्टुं शक्नुयात् । कथं वा तदभिप्रायानुसारिणस्तदुपदिष्टेऽर्थेऽनिर्धारितरूपे प्रवर्तन् । ऐकान्तिकफलत्वनिर्धारणे हि सति तत्साधनानुष्ठानाय सर्वो लोकोऽनाकुलः प्रवर्तते नान्यथा, अतश्चानिर्धारितार्थं शास्त्रं प्रणयन्मत्तोन्मत्तवदनुपादेयवचनः स्यात् । तथा पञ्चानामस्तिकायानां पञ्चत्वसंख्यास्तित् वा नास्तित् वेति विकल्प्यमाना स्यात्तावदेकस्मिन्पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्यादित्यतो न्यूनसंख्यात्वम् अधिकसंख्यात्वं वा प्राप्नुयात् । न चैषां पदार्थानामवक्तव्यत्व संभवति, अवक्तव्याश्चेन्नोच्येरन्, उच्यन्ते चावक्तव्याश्चेति विप्रतिषिद्धम् । उच्यमानाश्च तथैवावधार्यन्ते नावधार्यन्ते इति च, तथा तद्वधारणफलं सम्यग्दर्शनमस्तित् वा नास्तित् वा, एवं तद्विपरीतमसम्यग्दर्शनमप्यस्तित् वा नास्तित् वेति प्रलपन्मत्तोन्मत्तपक्षस्यैव स्यान्न प्रत्ययितव्यस्य पक्षस्य । स्वर्गापवर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे चाभावस्तथा पक्षे नित्यता पक्षे चानित्यतेत्यनवधारणार्थाः प्रवृत्त्यनुपपत्तिः । अनादिसिद्धजीवप्रभृतीनां च म्वशास्त्रावधृतस्वभावानामयथावधृतस्वभावत्वप्रसङ्गः । एवं जीवादिषु पदार्थेष्वेकस्मिन्धर्मिणि सत्त्वासत्त्वयोर्विरुद्धयोर्धर्मयोरसंभवात्सत्त्वे चैकस्मिन्धर्मेऽसत्त्वस्य धर्मान्तरस्यासम्भवाद्सत्त्वे चैव सत्त्वस्यासंभवादसंगतमिदमार्हतं मतम् । एतेनैकानेकनित्यानित्यव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ताद्यनेकान्ताभ्युपगमा निराकृता मन्तव्याः । यत् पुद्गलसंज्ञकेभ्योऽणुभ्यः संघाताः संभवन्तीति कल्पयन्ति, तत्पूर्वैर्णैवाणुवादनिराकरणेन निराकृतं भवतीत्यतो न पृथक्त्रिराकरणाय प्रयत्यते ॥ ३३ ॥

ऐसा प्रात होने पर कहते हैं कि यहाँ हम कहते हैं कि यह अभ्युपगम युक्त नहीं है, क्योंकि एक में सात सात रूपता का असम्भव है, जिससे एक धर्म में विरुद्ध सदसत्वादि रूपता का एक काल में सन्निवेश शीतोष्णादि के समान सम्भव नहीं है । इससे जो सत्यात्मा है, वह सदा सर्वथा सर्वत्र है ही, जो शशशृङ्गादि असत् है सो सदा सर्वथा असत्य ही हैं । और संसार सदसद् से विलक्षण होने पर भी एक व्यावहारिक स्वरूप वाला है । अनेकान्त स्वरूप नहीं है । जो ये सात पदार्थ निर्धारित हुए हैं, वे पदार्थ इतना इसी प्रकार के स्वरूप वाले और उसी प्रकार वाले होंगे, वा उस प्रकार वाले नहीं होंगे, इस प्रकार एक ही पक्ष सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इतरथा ( इससे अन्यथा ) होने पर या तो जैसे कहे गये हैं वैसे होंगे, अथवा अन्य प्रकार के होंगे इस प्रकार अनिर्धारित स्वरूप वाले संशय ज्ञान के समान अप्रमाण ही ज्ञान होगा । यदि कहो कि वस्तु अनेकात्मक ( सत्यासत्यादि अनेक स्वरूप ) है, इस प्रकार निर्धारित ( निश्चित ) स्वरूप वाला ही उत्पद्यमान ज्ञान संशय ज्ञान के समान अप्रमाण होने योग्य नहीं है । तो कहा जाता है कि ऐसा नहीं

हो सकता है, संशयरूपता की प्राप्ति होनी ही है। जिससे निरकुश (स्वतन्त्र-सर्वगत) अनेकान्तरव (अनेकात्मकत्व) को मानने वाले सब वस्तु में निरंकुश अनेकात्मता की प्रतिज्ञा करने वाले के निर्धारण को भी वस्तुत्व की अविशेषता तुल्यता से उस निर्धारण में भी कथञ्चित् है, कथञ्चित् नहीं है इत्यादि विकल्पो का उपनिपात (प्राप्ति सम्बन्ध) होगा, इससे निर्धारण को अनिर्धारणरूपता ही होगी। इसी प्रकार निर्धारण कर्ता और निर्धारण के फल की एक पक्ष में अस्तित्ता (सत्ता) और अन्य पक्ष में नास्तित्ता होगी। ऐसा होने पर प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति इन सबके अनिर्धारित होने पर तीर्थकर भी प्रमाणभूत (प्रामाणिक) होता हुआ उपदेश के लिये कैसे समर्थ होगा। अथवा उस गुरु के अभिप्राय के अनुसार प्रवृत्त होने वाले शिष्य उस गुरु से उपदिष्ट अनिर्धारित स्वरूप वाले अर्थ में प्रवृत्त कैसे होंगे। ऐकान्तिक (निश्चित) फलवत्त्व के निर्धारण होने ही पर, उम फल के साधनों का अनुष्ठान (आचारण) के लिये सब लोक अनाकुल (अव्याकुल) होकर प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं। इससे अनिर्धारित अर्थ वाला, शास्त्र की रचना करने वाला मत्त उन्मत्त के समान अनुपादेय (अग्राह्य) वचन वाला होगा। इसी प्रकार पञ्च अस्तिकायो (पदार्थों) की पञ्चत्व संख्या क्या तो है या नहीं है, इस प्रकार विकल्प का विषय होने पर, एक पक्ष में पञ्चत्व संख्या होगी, पक्षान्तर में पञ्चत्व संख्या नहीं होगी। इससे न्यून संख्यात्व या अधिक संख्यात्व की प्राप्ति होगी। और इन पदार्थों को अवक्तव्यत्व का सभव नहीं है, अर्थात् प्रामाणिक अभ्रान्त पुरुष को सत् में असत्त्व की विवक्षा, असत् में सत्त्व की विवक्षा और एक वस्तु में क्रम से सत्त्वासत्त्व की विवक्षा नहीं हो सकती। किन्तु अनुभव के अनुसार एक ही निश्चित विवक्षा हो सकती है। इससे कथञ्चित् यह कथन सर्वथा अयुक्त है। इन तीन मूलरूप भगो के नहीं हो सकने पर अवक्तव्य भंग का सर्वथा असभव है, जो ही ही नहीं सकता, उसकी विवक्षा ही क्यों होगी। इससे इन पदार्थों को अवक्तव्यत्व नहीं है। यदि ये पदार्थ अवक्तव्य होते तो कहे नहीं जाते। और कहे जाते हैं, और अवक्तव्य हैं, यह विरुद्ध कथन है। कहे गये ये पदार्थ जिस प्रकार कहे गये हैं वैसे ही अवधारित होते हैं, और नहीं अवधारित होते हैं, यह कथन भी विरुद्ध है। इसी प्रकार उस अवधारण का फल रूप सम्यक दर्शन क्या तो है, अथवा नहीं है। इसी प्रकार उससे विपरीत असम्यक दर्शन भी क्या तो है (कथञ्चित् है) अथवा नहीं है। इस प्रकार प्रलाप करता हुआ पुरुष मत्त-उन्मत्त पक्ष का ही सम्बन्धी होगा, अनाप्त होगा। अनाप्त के अन्तर्गत होगा। विश्वास का पात्र आप्त पक्ष का नहीं होगा। स्वर्ग तथा मोक्ष का भी पक्ष में भाव होगा, और पक्ष में अभाव होगा। इसी प्रकार स्वर्गादि को पक्ष में नित्यता, और पक्ष में अनित्यता होगी, इस प्रकार अनवधारण होने पर प्रवृत्ति की अनुपपत्ति होगी। अपने शास्त्र द्वारा अवधृत (निश्चित) स्वभाव वाले अनादि सिद्ध जीवादि को भी वे वैसे अवधृत स्वभाव वाले नहीं हैं। ऐसा प्रसंग पक्ष में प्राप्त

होगा । इस प्रकार जीवादि पदार्थगत एक एक धर्मों में सत्त्व असत्त्वरूप विरुद्ध धर्मों के असम्भव से और सत्त्वारूप एक धर्म के रहते असत्त्वारूप धर्मान्तर के असम्भव से । इसी प्रकार असत्ता के रहते सत्ता के असम्भव से, इन्हें सहवृत्तता कहने वाला यह आर्हत दर्शन असंग है । इस सत्त्व असत्त्व की एकत्र वृत्तता के निषेध से ही एक अनेक, नित्य-अनित्य, व्यतिरिक्त-अव्यतिरिक्त, आदि अनेकान्त अभ्युपगम भी निराकृत समझना चाहिये । और पुद्गलसंज्ञक अणुओं से संघात होते हैं, ऐसी जो कल्पना करते हैं, सो पूर्वर्षिणत अणुवाद के निराकरण से ही निराकृत होता है, इससे उसका निराकरण के लिए पृथक् प्रयत्न नहीं किया जाता है ॥ ३३ ॥

### एवं चात्माऽकात्स्न्यम् ॥ ३४ ॥

यथैकस्मिन्धर्मिणि विरुद्धधर्मासंभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्त एवमात्म-  
नोऽपि जीवस्याकात्स्न्यमपरो दोषः प्रसज्येत । कथम् ? शरीरपरिमाणो हि  
जीव इत्यार्हता मन्यन्ते । शरीरपरिमाणतायां च सत्यामकृत्स्नोऽसर्वगतः  
परिच्छिन्न आत्मेत्यतो घटादिवदनित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । शरीराणां चानव-  
स्थितपरिमाणत्वान्मनुष्यजीवो मनुष्यशरीरपरिमाणो भूत्वा पुनः केनचित्क-  
र्मविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्नुवन्न कृत्स्नं हस्तिशरीरं व्याप्नुयात्, पुत्तिकाजन्म  
च प्राप्नुवन्न कृत्स्नं पुत्तिकाशरीरे संमीयेत । समान एष एकस्मिन्नपि जन्मनि  
कौमारयौवनस्थाविरेषु दोषः । स्यादेतत्, अनन्तावयवो जीवस्तस्य त एवाव-  
यवा अल्पे शरीरे संकुचेयुर्महति च विकसेयुरिति । तेषां पुनरनन्तानां जीवाव-  
यवानां समानदेशत्वं प्रतिहन्यते वा न वेति वक्तव्यम् । प्रतिघाते तावन्नानन्ता-  
वयवाः परिच्छिन्ने देशे संमीयेरन् । अप्रतिघातेऽप्येकावयवदेशत्वोपपत्तेः सर्वेषा-  
मवयवानां प्रथिमानुपपत्तेर्जीवस्याणुमात्रत्वप्रसङ्गः स्यात् । अपि च शरीरमात्र-  
परिच्छिन्नानां जीवावयवानामानन्त्यं नोत्प्रेक्षितुमपि शक्यम् ॥ ३४ ॥

जैसे एकधर्मों में विरुद्ध धर्मों का असम्भव दोष स्याद्वाद में प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार आत्मारूप जीव का भी अकात्स्न्यं ( मध्यम परिमाणत्व ) रूप दूसरा दोष प्राप्त होता है, कि जिससे अनित्यता की प्राप्ति होगी । क्योंकि आर्हत ( अर्हन्देव के उपासक ) जैन लोग, जीव शरीर तुल्य परिमाण वाला है ऐसा मानते हैं । शरीर तुल्य परिमाणता के होने पर तो अकृत्स्न याने असर्वगत परिच्छिन्न आत्मा है, यह सिद्ध होता है । इससे घटादि के समान आत्मा को अनित्यत्व भी प्राप्त होगा । शरीरों के अनवस्थित ( अनियत और विनश्वर ) परिमाणत्व से मनुष्य शरीरगत जीव मनुष्य शरीर के तुल्य परिमाण वाला होकर फिर किसी कर्म के विपाक ( अभिव्यक्ति ) से हस्तीजन्म को प्राप्त होता हुआ सम्पूर्ण हस्ती शरीर में व्याप्त नहीं होगा, इससे अकृत्स्नता होगी, हस्ती शरीर का कुछ भाग निर्जीव सिद्ध होगा । और पुत्तिका ( पतङ्गिका ) जन्म को प्राप्त करने पर सम्पूर्ण जीव पुत्तिका शरीर में नहीं समायेगा,

देह से बाहर भी जीव रह जायगा । एक शरीर में भी बाल्य, यौवन, वृद्धत्व अवस्था में यह दोष समान ( तुल्य ) है । यदि कहे कि यह जीव को देह परिमाणत्व हो सकता है, क्योंकि अनन्त अवयव वाला जीव है, उसके वे ही अवयव अल्प ( छोटे ) शरीर में दीपप्रभा के समान सकुचित हो जायेंगे और महान् बड़े शरीर में प्रभातुल्य ही विकसित होंगे । यहाँ कहा जाता है कि दीप की प्रभा विनश्वर है, अल्प देश में दीप के जाने से महान् देश की प्रभा नष्ट हो जाती है, इससे यह कहना चाहिये कि अनन्त उन जीव के अवयवों का समान देशत्व प्रतिहत ( प्रतिघातयुक्त-विरुद्ध ) होता है अथवा नहीं होता है । प्रथम पक्ष प्रतिघात के होने पर अनन्त अवयव परिच्छिन्न अल्पदेश में नहीं समा सकेंगे, और अप्रतिघात होने पर भी सब अवयवों को एकदेश वृत्तित्व परमाणुदेश मात्र स्थिरता की सिद्धि से और प्रथिमा ( पृथुत्व ) की अनुपपत्ति से जीव को अणुमात्रत्व का प्रसंग होगा । शरीरमात्र से परिच्छिन्न परिमित जीव के अवयवों के परिमित होने ही से उनकी अनन्ता की उत्प्रेक्षा ( ऊहा-कल्पना ) भी नहीं की जा सकती है ॥ ३४ ॥

अथ पर्यायेण बृहच्छरीरप्रतिपत्तौ केचिज्जीवावयवा उपगच्छन्ति तनुशरीरप्रतिपत्तौ च केचिदपगच्छन्तीत्युच्येन, तत्राप्युच्यते—

**न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥**

न च पर्यायेणाप्यवयवोपगमापगमाभ्यामेतद्देहपरिमाणत्वं जीवस्याविरोधेनोपपादयितुं शक्यते । कुत ? विकारादिदोषप्रसङ्गात् । अवयवोपगमापगमाभ्यां ह्यनिशामापूर्वमाणस्यापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रियावत्त्वं तावदपरिहार्यम्, विक्रियावत्त्वे च चर्मादिवदनित्यत्वं प्रसज्येत, ततश्च बन्धमोक्षाभ्युपगमो बाधयेत, कर्माष्टकपरिवेष्टितस्य जीवस्यालातुवत्संसारसागरे निमग्नस्य बन्धनोच्छेदादूर्ध्वगामित्वं भवतीति । किञ्चान्यत् आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामापगमापायधर्मवत्त्वादेवानात्मत्वं शरीरादिवत् । ततश्चावस्थितः कश्चिदवयव आत्मेति स्यात्, न च स निरूपयितुं शक्यतेऽयमसाविति । किञ्चान्यत् आगच्छन्तश्चैते जीवावयवाः कुतः प्रादुर्भवन्त्यपगच्छन्तश्च क्व वा लीयन्त इति वक्तव्यम् । न हि भूतेभ्यः प्रादुर्भवैयुर्भूतेषु न निलीयेरन्, अभौतिकत्वाज्जीवस्य । नापि कश्चिद्व्ययः साधारणोऽसाधारणो वा जीवानामवयवाधारो निरूप्यते प्रमाणाभावात् । किञ्चान्यत्, अनवधृतस्वरूपश्चवंसत्यात्मा स्यात्, आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामनियतपरिमाणत्वात्, अत एवमादिदोषप्रसङ्गान्न पर्यायेणाप्यवयवोपगमापगमात्मान आश्रयितुं शक्येते ।

यदि कहे कि क्रम से बड़े शरीर की प्राप्ति कालमें कोई जीव के अवयव पास में प्राप्त होते हैं, और तनु ( अल्प छोटे ) शरीर की प्राप्ति होने पर कोई अवयव दूर चले जाते हैं । यहाँ भी कहा जाता है कि—

क्रम से अवयवों का उपगम ( आगमन ) और अपगम ( निवृत्ति ) द्वारा भी यह जीव का देहपरिमाणत्व अविरोधपूर्वक उपपादन ( सिद्ध ) नहीं किया जा सकता है । क्योंकि विकारादि दोषों का प्रसङ्ग होता है जिससे अनिश ( सदा ) अवयवों के उपगम और अपगम से आपूर्ण और अपक्षीण ( वृद्धिह्लासयुक्त ) होते हुए जीव को विकारवत्त्व अपरिहार्य ( अवश्य ) होगा और विकार वाला होने पर चर्मादि के समान अनित्यत्व की प्राप्ति होगी । इससे बन्ध और मोक्ष का अभ्युपगम बाधित होगा । वह बन्ध मोक्ष का अभ्युपगम इस प्रकार है कि, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, और अन्तराय नाम वाले ज्ञानादि का आवरण करने वाले और चतुर्थ विबन्धरूप ये चार प्रकार के घाती कर्म कहाते हैं । वेदनीय, नामिक, गोत्रिक, आयुष्क, नाम वाले, ज्ञान, नाम, गोत्र, विषयक अभिमानरूप तथा शरीर की स्थिति के लिये कर्मरूप ये चार प्रकार के अघाती कर्म कहाते हैं । इन कर्माष्टक से वेष्टित ससार सागर में निमग्न जीव के उन कर्मरूप बन्धनों के उच्छेदन-नाश से ऊर्ध्वगमन होता है वही मोक्ष है । जैसे तुम्बा में पत्थर बाँध कर पानी में देने से वह दृढता है, परन्तु बन्ध के ऋतने पर वह ऊर्ध्वगमन करता है, वैसे ही आठ प्रकार के कर्म से जीव ससारी होता है । कर्म रहित होने से मुक्त होता है । यह सिद्धान्त जीव के अनित्य होने पर बाधित होगा । अन्य दूषण है कि आने-जाने वाले अवयवों के आगमन और अपाय ( अपगमन ) रूप धर्म वाले होने से ही शरीरादि के समान अनात्मत्व उनमें सिद्ध होता है, इससे दुर्ज्ञेय कोई स्थिर अवयव आत्मा है, ऐसा मानना होगा । उसका निरूपण नहीं किया जा सकता है कि वह यह है । दूसरी बात है कि आने वाले ये जीव के अवयव कहाँ से प्रकट होते हैं । अपगत होने पर किसमें लीन होते हैं, यह कहना होगा । जीव के अभौतिक होने से भूतों से इसके अवयव नहीं प्रकट हो सकते हैं, न भूतों में लीन हो सकते हैं । अन्य भी कोई सब जीवों के लिए साधारण या प्रत्येक जीव के लिए असाधारण जीव के अवयवों को आधार प्रमाण के अभाव से निरूपित सिद्ध नहीं हो सकता है । अन्य दूषण है कि इस प्रकार आगमापायी अवयव वाला होने पर अनवधृत ( अनिश्रित ) स्वरूप वाला आत्मा होगा, क्योंकि आने-जाने वाले अवयवों को अनियत परिमाणत्व है । इससे इस प्रकार के दोषों के प्रसंग से क्रम से भी आत्मा के अवयवों के उपगम और अपगम का आश्रयण नहीं कर सकते हैं ।

अथवा पूर्वोक्त सूत्रेण शरीरपरिमाणस्यात्मन उपचितापचितशरीरान्तरप्र-  
तिपत्तावकात्स्न्यप्रसञ्जनद्वारेणानित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण परिमाणान-  
वस्थानेऽपि स्रोतःसन्ताननित्यतान्यायेनात्मनो नित्यता स्यात्, यथा रक्तप-  
टादीनां विज्ञानानवस्थानेऽपि तत्सन्ताननित्यता तद्वद्विसिचामपीत्याशङ्क्या-  
नेन सूत्रेणोत्तरमुच्यते । सन्तानस्य तावदवस्तुत्वे नैरात्म्यवादप्रसङ्गः, वस्तुत्वेऽ-  
प्यात्मनो विकारादिदोषसङ्गादस्य पक्षस्यानुपपत्तिरिति ॥ ३५ ॥



अथवा पूर्व सूत्र से शरीर प्रमाण वाले आत्मा को उपचितापचित ( स्थूल सूक्ष्म ) शरीरान्तर की प्राप्ति होने पर, अकृन्सन्ता की प्राप्ति द्वारा अनित्यता की शका होने पर फिर पर्याय से शरीर व्यक्ति भेद से परिमाण के अनवस्थिर होने पर भी स्रोत ( प्रवाह ) रूप आत्म व्यक्ति सतान की नित्यतारूप न्याय से आत्मा को नित्यता होगी, जैसे कि रक्तपटादि बौद्धो के मत में विज्ञान के अनवस्थित रहते भी विज्ञान सतान की नित्यता मानी जाती है, वैसे ही बल्लरहित दिगम्बरो के मत में सन्तान की नित्यता होगी । इस प्रकार आद्यका करके इस सूत्र से उत्तर कहा जाता है कि पर्याय ( व्यक्तिगत सतान ) से भी आत्मनित्यत्व का अविरोध नहीं है, क्योंकि विकारादि से सन्तान को भी अनित्यत्व होगा, यदि सन्तान वस्तु है, तो उसके भी विकारादि होंगे । सन्तान के अवस्तु होने पर निरात्मवाद की प्राप्ति होगी । सन्तानी से अतिरिक्त वस्तु संतान को मानने पर कूटस्थ आत्मवाद की प्राप्ति होगी, सन्तानी से अभिन्न सन्तान को मानने पर जन्मादि दोष की प्राप्ति होगी इससे इस पक्ष की अनुपपत्ति है ॥ ३५ ॥

### अन्त्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वादविशेषः ॥ ३६ ॥

अपि चान्त्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वमिष्यते जैनैः, तद्वत् पूर्वयोरप्याद्यमध्यमयोर्जीवपरिमाणयोर्नित्यत्वप्रसङ्गाद्विशेषप्रसङ्गः स्यात्, एकशरीरपरिमाणतैव स्यान्नोपचितापचितशरीरान्तरप्राप्तिः । अथ वान्त्यस्य जीवपरिमाणस्यावस्थितत्वात्पूर्वयोरप्यवस्थयोरवस्थितपरिमाण एव जीवः स्यात्, ततश्चाविशेषेण सर्वदैवाणुर्महान्वा जीवोऽभ्युपगन्तव्यो न शरीरपरिमाणः, अतश्च सौगतवदार्हतमपि मतमसंगतमित्युपेक्षितव्यम् ॥ ३६ ॥

और दूसरी बात है कि मोक्ष अवस्था में रहने वाले जीव के अन्तिम परिमाण का नित्यत्व जैनो को इष्ट है । उसी के समान पूर्वकाल में होने वाले आद्य और मध्यकालिक जीव के परिमाणो को नित्यत्व की प्राप्ति से सर्वदा अविशेषता की ( नित्यता की ) प्राप्ति होती है । शरीरतुल्य अनित्य परिमाणता कभी नहीं हो सकती है । इससे एक शरीर के परिमाण वाला ही आत्मा होगा, स्थूल, सूक्ष्म शरीरान्तर को नहीं प्राप्त कर सकेगा । अथवा जीव के अन्तिम परिमाण की अवस्थिरता से पूर्वावस्थाओ में भी जीव अवस्थित परिमाण वाला ही होगा । इससे सदा ही भेदरहित तुल्यस्वरूप वाला अणु वा महान् विभु जीव को मानना चाहिये, शरीर परिमाण वाला नहीं और इस शरीर परिमाणता के स्वीकार से सौगत मत के समान आर्हत मत भी असंगत है । इससे यह उपेक्षा ( त्याग ) के योग्य है ॥ ३६ ॥

### पत्यधिकरण ॥ ७ ॥

तदस्थेश्वरवाद्दो यः स युक्तोऽथ न युज्यते । युक्तः कुलालघ्नान्ताग्निमन्तृत्वस्य सम्भवात् ॥१॥  
न युक्तो विषमस्वादिदोषाद्वैदिक ईश्वरे । अभ्युपेते तदस्थत्वं त्याज्यं श्रुतिविरोधतः ॥२॥

प्रथम निमित्तोपादान उभय स्वरूप ईश्वर को माना गया है । सर्वात्मा होने से जल

के समान साधारण कारण कहा गया है, विशेष कारण जीवों के अदृष्टादिक बीज के समान हैं। जगत् की रचना आदिक माया लीलामात्र जीवकर्म सापेक्ष अनादि बीजाकुर न्याय से है। इससे ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्यादि दोष नहीं है। यदि ईश्वर कुलालादि के समान तटस्थ कारण होगा तो कुलालादि के समान विशेष ही कारण होगा, काल-देवादि के भेद से भिन्न-भिन्न स्वरूप विशेष वाला होकर विशेष कार्यों को करेगा। इससे उसमें रागद्वेषादि की प्राप्ति से ईश्वरता में असमञ्जस (अयुक्तता) होगा, इससे तटस्थेश्वर-वाद ठीक नहीं है, उपासना के लिए कल्पितमात्र है। संशय है कि जो तटस्थेश्वरवाद है, सो युक्त अथवा नहीं है। पूर्वपक्ष है कि कुलाल के दृष्टान्त से और नियन्त्रिता के सम्भव से युक्त है। सिद्धान्त है कि तटस्थता के होने पर विषमत्वादि दोष से तटस्थेश्वर-वाद युक्त नहीं है। इससे वैदिक ईश्वर के स्वीकृत होने पर श्रुति विरोध से तटस्थता त्याग के योग्य है ॥ १-२ ॥

### पत्युरसामञ्जस्यात् ॥ ३७ ॥

इदानीं केवलाधिष्ठात्रीश्वरकारणवादः प्रतिषिध्यते। तत्कथमवगम्यते ? 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्' 'अभिध्योपदेशाच्च' ( ब्र० १।।२३, २४ ) इत्यत्र प्रकृतिभावेनाधिष्ठातृभावेन चोभयस्वभावस्येश्वरस्य स्वयमेवाचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात्। यदि पुनरविशेषेश्वरकारणवादमात्रमिह प्रतिषिध्येत पूर्वोत्तरविरोधाद्वाहताभिव्याहारः सूत्रकार इत्येतदापद्येत। तस्मात्प्रकृतिरधिष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीश्वर इत्येष पक्षो वेदान्तविहितब्रह्मैकत्वप्रातिपक्षत्वाद्यत्नेनात्र प्रतिषिध्यते। सा चेयं वेदबाह्येश्वरकल्पनानेकप्रकारा। केचित्तावस्तांख्ययोगव्यपाश्रयाः कल्पयन्ति-प्रधानपुरुषयोरधिष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीश्वर इतरेतरविलक्षणाः प्रधानपुरुषेश्वरा-इति। माहेश्वरास्तु मन्यन्ते कार्यकारणयोगविधिदुःखान्ताः पञ्च पदार्थाः पशुपतिनेश्वरेण पशुपार्शावमोक्षणा-योपदिष्टाः, पशुपतिरीश्वरो निमित्तकारणमिति वर्णयन्ति। तथा वैशेषिकादयोऽपि केचित्कथंचित्स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्तकारणमीश्वर इति वर्णयन्ति।

इस समय केवल अधिष्ठाता ईश्वर कारणवाद का प्रतिषेध किया जाता है, यदि कहे कि सामान्य ईश्वर कारणवाद का निषेध नहीं है, तटस्थवाद का निषेध है, यह कैसे समझा जाता है, तो कहा जाता है कि (प्रकृतिश्च) इत्यादि, तथा (अभिध्योपदेशाच्च) इस सूत्र में प्रकृतिरूप से तथा अधिष्ठाता रूप से उभय (दोनों) स्वभाव वाले ईश्वर का आचार्य ने स्वयं प्रतिपादन किया है इससे उक्तार्थ समझा जाता है। यदि फिर अविशेष (सामान्य) रूप से ईश्वर कारणवाद मात्र का यहाँ निषेध किया जाय तो पूर्वोत्तर में विरोध से व्याहृत (विरुद्ध) व्यवहार (वचन) वाले सूत्रकार हैं, यह ऐसा दोष प्राप्त होगा। इससे अप्रकृति स्वरूप केवल अधिष्ठाता निमित्त कारण ईश्वर हैं। इस प्रकार का यह पक्ष, वेदान्त में विहित ब्रह्म की एकता का प्रतिपक्षी (विरोधी) है, इससे यहाँ यत्न-

पूर्वक उस पक्ष का प्रतिषेध किया जाता है। वह वेदान्त विरोधी है अतएव वेदबाह्य यह ईश्वर की कल्पना अनेक प्रकार वाली है। कोई सेश्वर सांख्ययोग का आश्रयण करने वाले कल्पना करते हैं कि प्रधान और पुरुष का अधिष्ठाता केवल निमित्तकारण ईश्वर है। प्रधान, पुरुष और ईश्वर ये तीनों परस्पर विलक्षण है, इस सिद्धान्त की कल्पना करने वाले हिरण्यगर्भ पतञ्जलि आदि हैं। महेश्वर से कथित आगम के अनुगामी माहेश्वर कहे जाते हैं। वे माहेश्वर लोग मानते हैं कि (१) महत्त्वादिरूप कार्य, (२) ईश्वर प्रधान-रूप कारण, (३) धारणा-ध्यान-समाधिरूप योग, (४) धर्मार्थक व्यापाररूप विधि, और (५) मोक्षरूप दुःखान्त, ये पाँच पदार्थ हैं सो पशुपतिरूप ईश्वर से जीवरूप पशु के बन्धनरूप पाशों के विमोक्षण ( नाश ) के लिये उपदिष्ट (कथित) हैं और पशुपतिरूप ईश्वर निमित्त कारण हैं। इस प्रकार वे लोग वर्णन करते हैं। इस सिद्धान्त को मानने वाले, (१) शैव, (२) पाशुपत, (३) कारुणिक सिद्धान्ती और (४) कापालिक—ये चार हैं। इसी प्रकार कोई वैशेषिक नैयायिकादि भी किसी प्रकार अपनी-अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार निमित्त कारण ईश्वर है। इस प्रकार वर्णन करते हैं कि ईश्वर कुम्भकार के समान निमित्त कारण ही है, कर्म फलदाता है।

अत उत्तरमुच्यते—‘पत्युरसामञ्जस्यान्’ इति । पत्युरीश्वरस्य प्रधानपुरुष-योरधिष्ठानृत्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते, कस्मात् ? असामञ्जस्यान् । किं पुनरसामञ्जस्यम् ? हीनमध्यमोत्तमभावेन हि प्राणिभेदान्विदधत् ईश्वरस्य राग-द्वेषादिदोषप्रमत्तेरस्मदादिवदनीश्वरत्वं प्रसज्येत । प्राणिर्मापेक्षितत्वाददोष इति चेत् । न । कर्मेश्वरयोः प्रवर्त्यप्रवर्तयित्त्वे इतरेतराश्रयदोषप्रसङ्गात् । नानादित्वादिति चेत् । न । वर्तमानकालवदतीतेष्वपि कालेष्वितरेतराश्रयदोषाविशेषादन्ध-परम्परान्यायापत्तेः । अपि च ‘प्रवर्तनालक्षणा दोषाः’ (न्यायसूत्र १।१।१८) इति न्यायवित्समयः । नहि कश्चिद्दोषप्रयुक्तं स्वार्थं परार्थं वा प्रवर्तमानो दृश्यते । स्वार्थं प्रयुक्त एव च सर्वो जनः परार्थेऽपि प्रवर्तत इत्येवमप्यसामञ्जस्यं, स्वार्थ-वत्त्वादीश्वरस्यानीश्वरत्वप्रसङ्गान् । पुरुषविशेषत्वाभ्युपगमाच्चेश्वरस्य पुरुषस्य चौदासीन्याभ्युपगमादसामञ्जस्यम् ॥ ३७ ॥

इससे उत्तर कहा जाता है कि ( पत्युरसामञ्जस्यात् ) पतिरूप ईश्वर को प्रधान और पुरुष के अधिष्ठातारूप से जगत् का कारणत्व उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कारण होने में असामञ्जस्य ( अयुक्तता ) है। यदि कहो कि वह असामञ्जस्य क्या है, तो कहा जाता है कि विशेष कारण होते हीनादि रचना के दोषगुणादि के ज्ञाता होते, हीन, मध्यम और उत्तमरूप से प्राणी के भेदों का विधान ( सिद्धि ) करते हुए ईश्वर को रागद्वेषादि दोषों की प्राप्ति से हम लोभों के समान अनीश्वरता की प्राप्ति होगी। यदि कहो कि प्राणियों के कर्मों की अपेक्षापूर्वक प्राणि कर्म से प्रेरित होकर विषम कर्म फलों को सिद्ध करता है। तो ऐसा कहना नहीं बन सकता है, क्योंकि कर्म जब हैं, ईश्वर

के प्रेरक नहीं हो सकते हैं । यदि कहो कि ईश्वर से प्रेरित कर्म ईश्वर की प्रेरणा करता है तो कर्म और ईश्वर को परस्पर प्रवर्त्य और प्रवर्तयिता होने से अन्योन्याश्रय की प्राप्ति होगी । यदि कहो कि अतीत कर्म ईश्वर की प्रेरणा करता है, उससे प्रेरित होकर ईश्वर वर्तमान कर्म के लिए प्रेरणा करता है क्योंकि मंसार कर्मप्रवाह को अनादिता है, इससे अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वर्तमान कर्म के समान अतीत कर्मों में भी जड़ता के कारण वे ईश्वर के प्रेरक नहीं हो सकते हैं, इससे ईश्वर से प्रेरित होकर ईश्वर की प्रेरणा करेगे तो वर्तमानकाल के समान अतीत कालों में भी अन्योन्याश्रय के तुल्य होने से कर्मकृत प्रेरणा के मानने पर अन्ध परम्परा न्याय की ही प्राप्ति होगी । दूसरी बात है कि ( प्रवर्तना प्रवृत्ति जनकत्वरूप लक्षण वाले रागद्वेष मोहरूप दोष होते हैं ) इससे प्रवर्तकत्व दोष का हेतु है लिङ्ग है । यह न्यायवेत्ता का सिद्धान्त है । इससे न्यायमत के अनुसार प्रवर्तक ईश्वर में रागादि दोषों की प्राप्ति होती है । दोष से असम्बद्ध अप्रेरित कोई भी स्वार्थ वा परार्थ में प्रवृत्त होता हुआ नहीं देखा जाता है, किन्तु स्वार्थप्रयुक्त ( स्वार्थ से संयोजित ) ही सब जन परार्थ में भी प्रवृत्त होता है । इस प्रकार भी असामञ्जस्य है, क्योंकि इस प्रकार ईश्वर को स्वार्थ वाला होने से अनीश्वरता की प्राप्ति होती है । साख्य योग में ईश्वर को पुरुष मानने से और पुरुष को उदासीन मानने से प्रवर्तकत्व में असामञ्जस्य है । तटस्थ कारणता निमित्तक विशेष कारणता से ये सब दोष हैं, अभिन्न निमित्तोपादानता पक्ष में सामान्य कारणता से, श्रुति बल से और ( स्वभावस्तु प्रवर्तते ) इस शास्त्रोक्त माया आदि रूप-स्वभाव-बल से कोई दोष नहीं प्राप्त होते हैं । यह भाव है ॥ ३७ ॥

### सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥ ३८ ॥

पुनरप्यसामञ्जस्यमेव, नहि प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त ईश्वरोऽन्तरेण संबन्धं प्रधानपुरुषयोरीशिता । न तावत्संयोगलक्षणः संबन्धः संभवति, प्रधानपुरुषेश्वराणां सर्वगतत्वान्निरवयवत्वाच्च । नापि समवायलक्षणः संबन्धः, आश्रयाश्रयिभावानिरूपणात् । नाप्यन्यः कश्चित्कार्यगम्यः संबन्धः शक्यते कल्पयितुं, कार्यकारणभावस्यैवाद्याप्यसिद्धत्वात् । ब्रह्मवादिनः कथमिति चेत् । न । तस्य तादात्म्यलक्षणसंबन्धोपपत्तेः । अपि चागमबलेन ब्रह्मवादी कारणादिस्वरूपं निरूपयतीति नावश्यं तस्य यथादृष्टमेव सर्वमभ्युपगन्तव्यमिति नियमोऽस्ति, परस्य तु दृष्टान्तबलेन कारणादिस्वरूपं निरूपयतो यथादृष्टमेव सर्वमभ्युपगन्तव्यमित्ययमस्त्यतिशयः । परस्यापि सर्वज्ञप्रणीतागमसद्भावात्समानमागमबलमिदं चेत् । न । इतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गादागमप्रत्ययात्सर्वज्ञत्वसिद्धिः सर्वज्ञप्रत्ययाच्चागमसिद्धिरिति । तस्मादनुपपन्ना साख्ययोगवादिनामीश्वरकल्पना । एवमन्यास्वपि वेदबाह्यास्वीश्वरकल्पनासु यथासंभवमसामञ्जस्यं योजयित्तव्यम् ॥ ३८ ॥

फिर भी अन्य असामञ्जस्य कहा जाता है कि प्रधान और पुरुष से भिन्न ईश्वर सम्बन्ध के बिना प्रधान और पुरुष का नियन्ता नहीं हो सकता है। संयोगरूप संबन्ध का सम्भव नहीं है। क्योंकि परिच्छिन्न सावयव वस्तु का संयोग होता है। प्रधान, पुरुष तथा ईश्वर इन तीनों को सर्वगतत्व और निरवयवत्व है। गुण-गुणी आदि के समान इनमें आश्रयआश्रयिभाव के अनिरूपण ( असिद्धि ) से समवायरूप सम्बन्ध नहीं हो सकता है। कार्यकारणभाव से गम्य ( अनुमेय ) अन्य भी कोई सम्बन्ध कल्पना के योग्य नहीं है कि जिसकी कल्पना हो सके। क्योंकि अभी कार्यकारणभाव ही असिद्ध है। अर्थात् प्रधान के साथ सम्बन्ध की सिद्धि के बिना ईश्वर से प्रेरित प्रधान का महत्त्वादि जगत् कार्य है, इस प्रकार कार्यकारणभाव असिद्ध है। यदि कहो कि ब्रह्मवादी के मत में भी माया और ब्रह्म के विभु और निरवयव होने से संयोग नहीं हो सकता है, समवाय माना नहीं जाता है, कार्यकारणभाव असिद्ध है, इससे कार्यगम्य योग्यतारूप सम्बन्ध के अभाव से ब्रह्म और माया को अधिष्ठान-अधिष्ठेयभाव कैसे होगा, तो कहा जाता है कि यहाँ यह दोष नहीं है, उस ब्रह्म को माया के साथ अनिर्वाच्य तादात्म्य सम्बन्ध की सिद्धि ( देवात्मशक्तिम् ) इत्यादि श्रुति से होती है। दूसरी बात है कि ब्रह्मवादी आगम के बल से कारण आदि के स्वरूप का निरूपण करता है, इससे उसको दृष्ट के अनुसार ही अवश्य सब मानना चाहिए यह नियम नहीं है। दृष्टान्त के बल से कारणादि के स्वरूप का निरूपण करने वाले अन्य लोगों को दृष्ट के अनुसार ही सब मानना चाहिए यह अतिशय ( अत्यन्त भेद ) है। यदि कहो कि अन्य को भी सर्वज्ञरचित आगम के रहने से आगम बलतुल्य ही है, तो सो कहना ठीक नहीं है क्योंकि आगमरूप हेतु से उसमें विश्वास से सर्वज्ञत्व की सिद्धि होती है, और सर्वज्ञत्वरूप हेतु से सर्वज्ञता में विश्वास से आगम में प्रमाणता की सिद्धि होती है, इससे अन्योन्याश्रय की प्राप्ति होती है। वेदान्त में तो आगम ईश्वर के अनादि होने से अन्योन्याश्रयता नहीं है। इससे साख्ययोगवादी की ईश्वर कल्पना अनुपपन्न है। इसी प्रकार अन्य भी वेद-बाह्य ईश्वर कल्पनाओं में यथासम्भव असामञ्जस्य की योजना कर्तव्य है ॥ ३८ ॥

### अधिष्ठानानुपपत्तेश्च ॥ ३९ ॥

इतश्चानुपपत्तिस्तार्किकपरिकल्पितस्येश्वरस्य । स हि परिकल्प्यमानः कुम्भकार इव मृदादीनि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रवर्तयेत् । न चैवमुपपद्यते । न ह्यप्रत्यक्षं रूपादिहीनं च प्रधानमीश्वरस्याधिष्ठेयं सम्भवति, मृदादिवैलक्षण्यात् ॥ ३९ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी तार्किको से परिकल्पित ईश्वर की असिद्धि है। जिससे परिकल्पित वह ईश्वर, जैसे कुम्भकार मृत्तिकादि को अधिष्ठाय ( ग्रहण करके ) घटादि

कार्य के लिये प्रवृत्त होता है, वैसे ही प्रधानादि को ग्रहण करके उसे कार्यरूप से प्रवृत्त करेगा, परन्तु यह सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूपादि से रहित प्रधान ईश्वर का भी अधिष्ठेय (वशवर्ती) नहीं हो सकता है जिससे उस प्रधान में मृत्तिकादि से विलक्षणता है। मृत्तिकादि कुम्भकारादि दृष्टान्त से ही तार्किक ईश्वर को सिद्ध करते हैं, इससे दृष्टान्त से विषमता के कारण मृत्तिकादि के समान प्रधान ईश्वर से ग्राह्य-प्रेर्य अधिष्ठेय नहीं हो सकता है ॥ ३९ ॥

### करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥

स्यादेतत्, यथा कारणग्रामं चक्षुरादिकमप्रत्यक्षं रूपादिहीनं च पुरुषोऽधिष्ठित्येवं प्रधानमपीश्वरोऽधिष्ठास्यतीति । तथापि नोपपद्यते । भोगादिदर्शनाद्धि करणग्रामस्याधिष्ठितत्वं गम्यते । न चात्र भोगादयो दृश्यन्ते । करणग्रामसाम्ये बाभ्युपगम्यमाने संसारिणामिवेश्वरस्यापि भोगादयः प्रसज्येरन् ।

पूर्वोक्त अर्थ में शंका होती है कि यह प्रधान अप्रत्यक्ष-रूप रहित होते भी ईश्वर से अधिष्ठेय हो सकता है, जैसे करण समूह नेत्रादि अप्रत्यक्ष और रूपादिरहित होते भी पुरुष से अधिष्ठेय होते हैं, पुरुष उनका अधिष्ठाता होता है, इसी प्रकार ईश्वर भी प्रधान का अधिष्ठाता होगा। तो कहा जाता है कि इस प्रकार इन्द्रियो के समान भी ईश्वर प्रधान का अधिष्ठाता नहीं सिद्ध हो सकता है, जिससे इन्द्रियो द्वारा पुरुष के भोगादि को देखने से अनुमान द्वारा कारण समूह को पुरुष से अधिष्ठितत्व समझा जाता है। इस ईश्वर में प्रधान द्वारा भोगादि नहीं दीखते हैं। न इन्द्रियो द्वारा भोगादि दीखते हैं, कि जिसमें प्रधानादि के अधिष्ठातृत्व का अनुमान किया जाय। इन्द्रिय समूह के तुल्य प्रधान को मानकर पुरुष के समान ईश्वर प्रधान का अधिष्ठाता है, ऐसा मानो, तो प्रधान को करण समूह के तुल्य होने पर ईश्वर को भी ससारी के समान भोगादि की प्राप्ति होगी। क्योंकि अतीन्द्रिय करणों के अधिष्ठाता में भोगादि देखे जाते हैं, इससे इन्द्रिय तुल्य प्रधान के अधिष्ठाता ईश्वर में भी भोगादि का अनुमान होगा। जिससे अनीश्वरत्व की प्राप्ति होगी। अनीश्वर ही रूपादिरहित, अप्रत्यक्ष, स्वभोगहेतु इन्द्रियो का अधिष्ठाता देखा गया है ॥

अन्यथा वा सूत्रद्वयं व्याख्यायते । 'अधिष्ठानानुपपत्तेश्च' । इतश्चानुपपत्ति-स्ताकिंकपरिकल्पित्येश्वरस्य । साधिष्ठानो हि लोके सशरीरो राजा राष्ट्रस्येश्वरो दृश्यते न निरधिष्ठानः, अतश्च तद्दृष्टान्तवशेनादृष्टमीश्वरं कल्पयितुमिच्छत ईश्वरस्यापि किञ्चिच्छरीरं करणायतनं वर्णयितव्यं स्यात्, न च तद्वर्णयितुं शक्यते । सृष्ट्युत्तरकालभावित्वाच्छरीरस्य प्राक्सृष्टेस्तदनुपपत्तेः । निरधिष्ठानत्वे चेश्वरस्य प्रवर्तकत्वानुपपत्तिः एवं लोके दृष्टत्वात् । 'करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः' [ अथ लोकदर्शनानुसारेणेश्वरस्यापि किञ्चित्करणानामायतनं शरीरं

कामेन कल्पयेत्, एवमपि नोपपद्यते । सशरीरत्वे हि सति संसारिवद्भोगादिप्रसङ्गादीश्वरस्याप्यनीश्वरत्व प्रसज्येत ॥ ४० ॥

अथवा इन दोनो सूत्रो का अन्यप्रकार से व्याख्यान किया जाता है कि अधिष्ठान ( आश्रय-शरीर ) की अनुपपत्ति से कुलालनुल्य तटस्थ कर्ता नहीं हो सकता है । इस हेतु से भी तार्किक से कल्पित ईश्वर की अनुपपत्ति है कि जिससे लोक मे साधिष्ठान अर्थात् शरीर सहित राजा ईश्वर ( नियन्ता ) दीखता है । निरधिष्ठान ( शरीररहित ) नियन्ता नहीं दीखता है । इससे उस राजा के दृष्टान्त वश से अदृष्ट ईश्वर की कल्पना की इच्छा वाले को ईश्वर के भी इन्द्रियो के आश्रयरूप कोई शरीर का वर्णन करना होगा । उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है । क्योंकि सृष्टि के उत्तर काल मे शरीर के होने से, सृष्टि से पूर्वकाल मे शरीर की अनुपपत्ति है । निरधिष्ठानत्व, शरीर रहितत्व रहते ईश्वर को प्रवर्तकत्व की अनुपपत्ति है, क्योंकि ऐसा ही लोक मे देखा गया है । इसीसे यदि ईश्वर का भी करणवत् ( करण का आश्रय शरीर ) मानो तो भोगादि की प्रसक्ति से अनीश्वरता की प्राप्ति होती है । अर्थात् लोकदृष्टि के अनुसार से यदि ईश्वर का भी कोई करणो का आश्रयरूप शरीर काम से कल्पित सिद्ध करो, कि ईश्वर इच्छा से शरीर रच लेता है, तो ऐसी कल्पना करने पर भी ईश्वरत्व नहीं उपपन्न होता है, जिससे शरीर सहित होने पर ससारी के समान भोगादि की प्राप्ति से ईश्वर को भी अनीश्वरत्व की प्राप्ति होगी ॥ ४० ॥

### अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा ॥ ४१ ॥

इतश्चानुपपत्तिस्तार्किकपरिकल्पितस्येश्वरस्य । स हि सर्वज्ञसत्तैरभ्युपगम्यतेऽनन्तश्च, अनन्तं च प्रधानमनन्ताश्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते । तत्र सर्वज्ञेश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्चेयत्ता परिच्छिद्येत वा न वा परिच्छिद्येत, उभयथापि दोषोऽनुषक्त एव । कथम् ? पूर्वस्मिन्स्तावद्विकल्पे इयत्तापरिच्छिन्नत्वात्प्रधानपुरुषेश्वराणामन्तवत्त्वमवश्यं भाव्येवं लोके दृष्टत्वात् । यद्वि लोके इयत्तापरिच्छिन्नं वस्तु घटादि तदन्तवद्दृष्टं तथा प्रधानपुरुषेश्वरत्रयमपीयत्तापरिच्छिन्नत्वाद्दन्तवत्स्थात् । संख्यापरिमाणं तावत्प्रधानपुरुषेश्वरत्रयरूपेण परिच्छिन्नम्, स्वरूपपरिमाणमपि तद्गतमीश्वरेण परिच्छिद्येतेति । पुरुषगता च महासङ्ख्या । ततश्चेयत्तापरिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसारान्मुच्यन्ते तेषां ससारोऽन्तवान्संसारित्वं च तेषामन्तवत्, एवमितरेष्वपि क्रमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां चान्तवत्त्वं स्यात् । प्रधानं च सविकारपुरुषार्थमीश्वरस्याधिष्ठेयं संसारित्वेनाभिमतं तच्छून्यतायामीश्वरः किमधितिष्ठेत्, किविषये वा सर्वज्ञेश्वरते स्याताम् । प्रधानपुरुषेश्वराणां चैवमन्तवत्त्वे सत्यादिमन्तवत्प्रसङ्गः, आद्यन्तवत्त्वे च शून्यवादप्रसङ्गः । अथ मा भूदेष दोष इत्युत्तरो विकल्पोऽभ्युपगम्येत-न प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्चेयत्तेश्वरेण परि-

च्छिद्यत-इति, तत ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वाभ्युपगमहानिरपरो दोषः प्रसज्येत । तस्मादप्यसङ्गतस्तात्किंकपरिगृहीत ईश्वरकारणवादः ॥ ४१ ॥

इम वक्ष्यमाण हेतु से भी तात्किंक से परिकल्पित ईश्वर की अनुपपत्ति है । जिससे उन तात्किंको से वह ईश्वर सर्वज्ञ और अनन्त माना जाता है । अनन्त ही प्रधान माना जाता है, तथा अनन्त पुरुष माने जाते हैं । ये सब परस्पर भिन्न माने जाते हैं । यहाँ देशकाल वस्तुकृत अन्तरहित होने वाला अनन्त एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकता है । वास्तविक विभुत्वारूप अनन्तता त्रिविध परिच्छेद रहितता ही है, जो एक वस्तु दूसरी वस्तु के अन्दर सर्वथा प्रविष्ट है, वह रज्जु सर्प के समान मिथ्या है । वही अन्तवाली है, प्रधान पुरुष यदि ईश्वर के स्वरूप में प्रविष्ट है, तो अन्त वाले मिथ्या है । ईश्वर भी यदि इनके स्वरूप में सर्वथा प्रविष्ट है, इनसे भिन्न देशकाल वाला नहीं है, तो वह भी अन्त वाला मिथ्या है, अत एव असर्वज्ञ अनीश्वर है । दूसरी बात है कि ईश्वर प्रधान और पुरुष के अनन्त होने पर सर्वज्ञ ईश्वर से प्रधान की, पुरुष की और अपनी इयत्ता ( सख्या और परिमाण ) परिच्छिन्न ( अनुभूत ) होती हो अथवा नहीं होती हो । दोनों प्रकार से भी दोष की प्राप्ति होती ही है । क्योंकि प्रथम विकल्प ( पक्ष ) में इयत्ता परिच्छिन्न ( सख्या परिमाणायुक्त ) होने से प्रधान पुरुष और ईश्वर को अन्तवत्त्व अवश्य होगा, क्योंकि ऐसा ही लोक में देखा जाता है । जैसे लोक में जो इयत्ता से परिच्छिन्न वस्तु घटादि हैं, सो अन्तवाले देखे गये हैं, वैसे ही प्रधान पुरुष और ईश्वर इन तीनों को भी इयत्ता से परिच्छिन्न होने से ये तीनों अन्त वाले होंगे । प्रथम सख्यापरिमाण ( सख्यास्वरूप ) प्रधान, पुरुष और ईश्वर इन तीन रूपों से परिच्छिन्न है । उन प्रधानादिगत स्वरूप परिमाण भी ईश्वर से परिच्छिन्न होगा । पुरुषगत महासंख्या भी ईश्वर से परिच्छिन्न होगी । इससे इयत्ता से परिच्छिन्न के मध्य में वर्तमान जो संसारी संसार से मुक्त होंगे, उनका संसार अन्तवाला होगा, और उनका संसारित्व अन्तवाला होगा । इसी प्रकार अन्य के भी क्रम से मुक्त होने पर संसार और संसारित्व को अन्तवत्त्व होगा । विकारसहित प्रधान पुरुष का प्रयोजन के लिये ईश्वर के अधिष्ठेय ( वशवर्ती ) संसारीरूप से अभिमत है । उस संसारी से शून्यता की प्राप्ति होने पर ईश्वर किसका अधिष्ठान ( नियमन ) करेगा । वा किस विषयक उस ईश्वर की ईश्वरता और सर्वज्ञता होगी । इस प्रकार प्रधान पुरुष और ईश्वर के अन्तवाले होने पर आदिमत्ता की भी प्राप्ति होगी । इन सब के आदि अन्त वाले होने पर शून्यवाद का प्रसङ्ग होगा । यह दोष नहीं प्राप्त हो इसलिये यदि उत्तर विकल्प का स्वीकार करे कि प्रधान पुरुष और ईश्वर को इयत्ता ईश्वर से परिच्छिन्न नहीं होती है, तो ईश्वर की सर्वज्ञता के अभ्युपगम की हानिरूप दूसरा दोष प्राप्त होगा, यदि इयत्ता नहीं होती तब तो उस के अज्ञान निमित्तक असर्वज्ञता भी नहीं होती, परन्तु भेदरूप विशेषवत्ता से अन्य द्रव्य के समान इयत्ता अवश्य है ही । इससे भी तात्किंक से परिगृहीत ईश्वर कारणवाद असङ्गत है ॥ ४१ ॥



## उत्पत्त्यसंभवाधिकरण ॥ ८ ॥

जीवोत्पत्त्यादिकं पाञ्चरात्रोक्तं युज्यते न वा । युक्तं नारायणव्यूहतस्समाराधनादिवत् ॥ १ ॥  
युज्यतामविरुद्धो जीवोत्पत्तिर्न युज्यते । उत्पन्नस्य विनाशित्वे कृतनाशादिदोषतः ॥ २ ॥

पञ्चरात्र मत मे जीव की उत्पत्ति ईश्वर से मानी जाती है । परन्तु बीजाङ्कुर न्याय से अनादि शरीर कर्म प्रवाह का आश्रय ईश्वराभिन्न कल्पित भेदवाले जीव की उत्पत्ति के असंभव से यह मत भी अयुक्त है । यहाँ सशय है कि पञ्चरात्र मे कहे गये जीव के उत्पत्ति आदि युक्त है । अथवा अयुक्त हैं । पूर्वपक्ष है 'क नारायण का व्यूह ( अनेक रूप से स्थिति ) समूह, और नारायण के सम्यक् आराधना आदि के कथन समान जीवोत्पत्ति का कथन भी युक्त है । सिद्धान्त है कि श्रुति से अविरुद्ध अशरूप व्यूहादि युक्त हो सकते हैं । परन्तु जीव की उत्पत्ति युक्त नहीं है । क्योंकि उत्पन्न जीव के विनाशित्व भी होने से कृत कर्म का नाश होगा, और नवीन उत्पन्न जीव को अकृत कर्मफल की प्राप्तिरूप दोष प्राप्त होगा ॥ १-२ ॥

## उत्पत्त्यसंभवात् ॥ ४२ ॥

येषामप्रकृतिरधिष्ठाता केवलनिमित्तकारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यातः, येषां पुनः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चोभयात्मक कारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यायते । ननु श्रुतिसमाश्रयणेनाप्येवंरूप एवेश्वरः प्राङ्निर्धारितः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चेति, श्रुत्यनुसारिणी च स्मृतिः प्रमाणमिति स्थितिः, तत्कस्य हेतोरेष पक्षः प्रत्याचिख्यासित इति । उच्यते । यद्यप्येवजातीयकौऽशः समानत्वान्न विसंवादगोचरो भवत्यस्ति त्वंशान्तरं विसंवादस्थानमित्यतस्तत्प्रत्याख्यानायारम्भः । तत्र भागवता मन्यन्ते—भगवानेवैको वासुदेवो निरञ्जनज्ञानस्वरूपः परमार्थतत्त्वं, स चतुर्धाऽऽत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेवव्यूहरूपेण सकर्षणव्यूहरूपेण प्रद्युम्नव्यूहरूपेणानिरुद्धव्यूहरूपेण च । वासुदेवो नाम परमात्मोच्यते । संकर्षणो नाम जीवः । प्रद्युम्नो नाम मनः । अनिरुद्धो नामाहंकारः । तेषां वासुदेवः परा प्रकृतिरितरे संकर्षणादयः कार्यम् । तमित्थंभूतं परमेश्वरं भगवन्तमभिगमनोपादानेज्यास्वाध्याययोगैर्वर्षशतमिष्ट्वा क्षीणक्लेशो भगवन्तमेव प्रतिपद्यत—इति ।

जिनको अप्रकृति स्वरूप अधिष्ठाता केवल निमित्त कारण स्वरूप ईश्वर अभिमत है, उनके पक्ष का प्रत्याख्यान हो चुका । जिनको प्रकृति और अधिष्ठाता दोनो कारणरूप ईश्वर अभिमत है, उनके पक्ष का अब प्रत्याख्यान किया जाता है । यदि कहा जाय कि श्रुति का आश्रयण करके भी इस प्रकार के स्वरूप वाला ही ईश्वर पूर्व निर्धारित हुआ है कि ईश्वर प्रकृति और अधिष्ठाता उभय स्वरूप है । श्रुति के अनुसारिणी ( अविरुद्ध ) स्मृति प्रमाण होती है, ऐसी स्थिति ( मर्यादा ) है । तो फिर किस हेतु से यह पक्ष

प्रत्याख्यान की इच्छा का विषय होता है। तो कहा जाता है कि यद्यपि इस प्रकार का अश ( स्मृतिभाग ) समान होने से विसवाद का विषय नहीं है ( विरोध प्रत्याख्यान के योग्य नहीं है ) किन्तु अन्य अश विसवाद विवाद का स्थान है, इससे उसका प्रत्याख्यान के लिए आरम्भ किया जाता है। उस ईश्वर के विषय में भगवत् ( भगवदुपासक ) मानने हैं कि वासुदेव निरञ्जन ज्ञानस्वरूप एक भगवान् ही परमार्थतत्त्व है, सो अपने आत्मा को चार रूप से प्रविभक्त करके, वासुदेव मूर्तिरूप से, संकर्षण मूर्तिरूप से, प्रद्युम्न मूर्तिरूप से और अनिरुद्ध मूर्तिरूप से प्रतिष्ठित हैं। वहाँ वासुदेव इस नाम से परमात्मा कहा जाता है। संकर्षण नाम से जीव कहा जाता है। प्रद्युम्न नाम वाला मन है और अनिरुद्ध नाम वाला अहंकार है। इनमें वासुदेव परा प्रकृतिरूप हैं। उनसे भिन्न संकर्षणादि कार्य है। इस प्रकार के परमेश्वर उम भगवान् को उनके मन्दिर में अभिगमन, पूजा के हेतु द्रव्य का उपाजर्जरूप उपादान, इड्या ( पूजा ) मन्त्रपाठ, और योग ( ध्यान ) द्वारा सौ वर्ष पूजकर क्षीण क्लेशवाला अविद्यादिरहित होकर जीव उस भगवान् को ही प्राप्त होता है।

तत्र यत्तावदुच्यते-योऽसौ नारायणः परोऽव्यक्तात्प्रसिद्धः परमात्मा सर्वात्मा स आत्मनाऽऽत्मानमनेकधा व्यूह्यावस्थित-इति, तन्न निराक्रियते, 'स एकधा भवति त्रिधा भवति' ( ब्र० ७।२६।२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः परमात्मनोऽनेकधा भावस्याधिगतत्वात् । यदपि तस्य भगवतोऽभिगमनादिलक्षणमाराधनमजस्रमनन्यचित्ततयाभिप्रेयते, तदपि न प्रतिषिध्यते, श्रुतिस्मृत्योरीश्वरप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात् । यत्पुनरिदमुच्यते-वासुदेवात्संकर्षण उत्पद्यते संकर्षणाश्च प्रद्युम्नः प्रद्युम्नाश्चानिरुद्ध-इति । अत्र ब्रूमः । न वासुदेवसंज्ञकात्परमात्मनः संकर्षणसंज्ञकस्य जीवस्योत्पत्तिः संभवति, अनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गात् । उत्पत्तिमत्त्वे हि जीवस्यानित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन्, ततश्च नैवास्य भगवत्प्राप्तिर्मोक्षः स्यात्, कारणप्राप्तौ कार्यस्य प्रविलयप्रसङ्गात् । प्रतिषेधिष्यति चाचार्यो जीवस्योत्पत्तिम्- 'नात्माऽश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः' ( ब्र० सू० २।३।१७ ) इति । तस्मादसंज्ञतैषा कल्पना ॥ ४२ ॥

वहाँ जो यह कहा जाता है कि जो वह नारायण अव्यक्त से पर प्रसिद्ध सर्वात्मा परमात्मा है, सो अपने से अपने को अनेक प्रकार से रचकर अवस्थित है, इसका निराकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ( वह एकधा होता है, त्रिधा होता है ) इत्यादि श्रुति वाक्यों से परमात्मा के भी अनेक प्रकार के भाव ( सत्ता स्वभाव ) अधिगत ( ज्ञात ) होता है। जो भी उस भगवान् को अनन्यचित्तरूप से सदा अभिगमनादिरूप आराधन अभिप्रेत मन्तव्य है, उसका भी प्रतिषेध नहीं किया जाता है। क्योंकि श्रुति स्मृति में ईश्वर के प्रणिधान ( भक्ति ध्यानादि ) की प्रसिद्धि है। परन्तु जो यह कहा जाता है कि वासुदेव से संकर्षण उत्पन्न होता है। संकर्षण से प्रद्युम्न,

तथा प्रद्युम्न से अनिरुद्ध उत्पन्न होता है। यहाँ कहते हैं कि वासुदेव सञ्जक परमात्मा से सकर्षण सञ्जक जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्पत्ति होने पर जीव में अनित्यत्व कृत हानि अकृत प्राप्ति आदि दोषों की प्राप्ति होगी। और उत्पत्ति वाला होने से जब अनित्यत्वादि दोष जीव को प्राप्त होंगे, तो उसीसे इस जीव को भगवान् की प्राप्ति रूप मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि कार्य को कारण में प्राप्ति होने पर प्रविलय ( नाश ) का प्रसङ्ग होता है। सूत्रकार आचार्य जीवकी उत्पत्ति का प्रतिषेध करेगे कि ( नात्माऽश्रुते-नित्यत्वाच्च ताभ्यः ) उत्पत्ति प्रकरण में उत्पत्ति की अश्रुति से और अजत्वादि के बोधक श्रुतियों से आत्मा को नित्यत्व है। नित्यत्व से आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। इससे यह उत्पत्ति की कल्पना असङ्गत है ॥ ४२ ॥

### न च कर्तुः करणम् ॥ ४३ ॥

इतश्चासंगतैषा कल्पना, यस्मान्न हि लाके कर्तुर्देवदत्तादेः करणं परश्चाद्यु-त्पद्यमानं दृश्यते। वर्णयन्ति च भागवताः-कर्तुर्जीवात्संकर्षणसंज्ञकात्करणं मनः प्रद्युम्नसंज्ञकमुत्पद्यते कर्तुर्जाच्च तस्मादनिरुद्धसञ्जकोऽहंकार उत्पद्यत-इति। न चैतद्दृष्टान्तमन्तरेणाध्यवसातुं शक्नुमः, न चैवंभूता श्रुतिमुपलभामहे ॥४३॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी यह कल्पना असंगत है कि जिससे करण के प्रयोगकाल में लोक में कर्ता देवदत्तादि से परशु आदि करण उत्पन्न होता हुआ नहीं देखा जाता है, जीव सदा मन का प्रयोक्ता है सब कार्य में उसका करण मन है, करणान्तर के बिना मन को कैसे उत्पन्न करेगा, और यदि बिना करण के मन को उत्पन्न करेगा तो सब कार्य मन के बिना भी कर सकेगा, मन की उत्पत्ति व्यर्थ होगी। ऐसा होते भी भागवत लोग वर्णन करते हैं कि सकर्षण संज्ञक कर्ता जीवसे प्रद्युम्न सञ्जक करणरूप मन उत्पन्न होता है। और कर्ता से जन्य उस मन से अनिरुद्ध संज्ञक अहंकार उत्पन्न होता है। यह दृष्टान्त के बिना निश्चय नहीं कर सकते हैं, न इस प्रकार की श्रुति को देखते हैं ॥ ४३ ॥

### विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४ ॥

अथापि स्यान्न चैते संकर्षणादयो जीवादिभावेनाभिप्रेयन्ते, किं तर्हि ? ईश्वरा एवैते सर्वे ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिरैश्वरैर्धर्मैरन्विता अभ्युपगम्यन्ते वासुदेवा एवैते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निरवद्याश्चेति, तस्मान्नायं यथावणित उत्पत्त्यसंभवो दोषः प्राप्नोतीति। अत्रोच्यते। एवमपि तदप्रतिषेध उत्पत्त्यसंभ-स्याप्रतिषेधः प्राप्नोत्येव। अयमुत्पत्त्यसंभवो दोषः प्रकारान्तरेणेत्यभिप्रायः। कथम् ? यदि तावद्यमभिप्रायः परस्परभिन्ना एवैते वासुदेवादयश्चत्वार ईश्वरा-स्तुल्यधर्माणो नैषामेकात्मकत्वमस्तीति, ततोऽनेकेश्वरकल्पनानर्थक्यम्, एक-नैवेश्वरेणेश्वरकार्यसिद्धेः। सिद्धान्तहानिश्च, भगवानेवैको वासुदेवः परमार्थतत्त्व-मित्यभ्युपगमात्। अथायमभिप्रायः-एकस्यैव भगवत एते चत्वारो व्यूहास्तु-

ल्यधर्माणः—इति, तथापि तद्वस्थ एवोत्पत्त्यसंभवः । न हि वासुदेवात्मकर्षणस्योत्पत्तिः संभवति संकर्षणाच्च प्रद्युम्नस्य प्रद्युम्नाच्चानिरुद्धस्य, अतिशयाभावात् । भवितव्यं हि कार्यकारणयोरतिशयेन यथा मृद्घटयोः । न ह्यसत्यतिशये कार्य कारणमित्यवकल्पते । न च पञ्चरात्रसिद्धान्तिभिर्वासुदेवादिष्वेकैकस्मिन्सर्वेषु वा ज्ञानैश्वर्यादितारतम्यकृतः कश्चिद्भेदोऽभ्युपगम्यते वासुदेवा एव हि सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते । न चैते भगवद्ब्यूहाश्चतुःसंख्यायामेवावतिष्ठन्, ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य समस्तस्यैव जगतो भगवद्ब्यूहत्वावगमात् ॥४४॥

और यदि ऐसा अभ्युपगम हो कि, सकर्षणादि जीवादिभाव से अभिप्रेत नहीं है, वासुदेवादि से सकर्षणादि उत्पन्न नहीं होते हैं । तो ये क्या है कि ये सब ईश्वर ही है । इससे ज्ञान और ऐश्वर्य की आन्तरशक्ति, शरीर सम्बन्धी बल, शौर्यरूप वीर्य, प्रागल्भ्य रूप तेज स्वरूप ईश्वरीय धर्मों से युक्त ये माने जाते हैं, ये सब वासुदेव ही हैं । इससे रागादि दोषों से शून्य, उपादानरूप अधिष्ठान रहित और निरवद्य ( अनित्यत्वादि दोष शून्य ) हैं । इससे यह पूर्व वर्णित उत्पत्ति का असम्भव रूप दोष नहीं प्राप्त होता है । यहाँ कहा जाता है कि ऐसा मानने पर भी उस दोष का अप्रतिषेध है । अर्थात् उत्पत्ति के असम्भव का अप्रतिषेध प्राप्त होता ही है, परन्तु यह उत्पत्ति का असम्भव अब अन्य प्रकार से प्राप्त होता है, यह अभिप्राय है । यदि कही कि कैसे प्राप्त होता है, वहाँ कहा जाता है कि ये सब ईश्वर ही हैं । इस कथन का यदि यह अभिप्राय हो कि ये वासुदेवादि चारों परस्पर भिन्न ही तुल्य धर्मवाले ईश्वर है, इन को एकात्मता नहीं है । तब तो अनेक ईश्वर की कल्पना में अनर्थकता है । क्योंकि एक ईश्वर से ही ईश्वर का कार्य सिद्ध होता है । और सिद्धान्त की भी हानि होगी । क्योंकि एक भगवान् वासुदेव ही परमार्थ तत्त्व है, यह आप का अभ्युपगम ( सिद्धान्त ) है । यदि यह अभिप्राय हो कि ये चारों तुल्य धर्मवाले एक भगवान् के ही व्यूह ( मूर्तिविकार ) हैं, तो उत्पत्ति असम्भव रूप दोष पूर्व के समान है । क्योंकि तुल्य धर्मवाले होने से अतिशय के अभाव रहते, वासुदेव से सकर्षण की उत्पत्ति का सम्भव नहीं है । न सकर्षण से प्रद्युम्न की न प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति का सम्भव है । कार्य और कारण में अवश्य अतिशय ( भेद औत्कर्ष ) होना चाहिए । जैसे मृत्तिका और घट में अतिशय होता है । अतिशय के नहीं रहते यह कार्य है, यह कारण है ऐसा पृथक व्यवहार नहीं हो सकता है, पञ्चरात्र के सिद्धान्त को मानने वाले वासुदेवादिकों में से एक में वा सब में ज्ञान और ऐश्वर्य आदि को तारतम्य ( न्यूनाधिक्य ) से जन्य किसी भेद को नहीं मानते हैं । क्योंकि ये सब व्यूहनिर्विशेष वासुदेव ही हैं ऐसा इनका मन्तव्य है । परन्तु ये भगवान् के व्यूह चार संख्या में ही स्थिर रहनेवाले नहीं हैं । क्योंकि ब्रह्मा से स्तम्बपर्यन्त समस्त ही जगत् को भगवान् के व्यूहत्व ( मूर्तिव्य ) का अवगम ( स्वीकार ) है ॥ ४४ ॥

## विप्रतिषेधाच्च ॥ ४५ ॥

विप्रतिषेधश्चास्मिञ्छास्त्रे बहुविध उपलभ्यते गुणगुणित्वकल्पनादिलक्षणः । ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजांसि गुणाः, आत्मान एवैते भगवन्तो वासुदेवा इत्यादिदर्शनात् । वेदविप्रतिषेधश्च भवति, चतुर्षु वेदेषु परं श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमधिगतवानित्यादिवेदनिन्दादर्शनात् । तस्मादसङ्गतैषा कल्पनेति सिद्धम् ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादकृतौ शारीरक-  
मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ २ ॥



और पञ्चरात्रशास्त्र में बहुत प्रकार का विरोध उपलब्ध होता है, सो विरोध गुणगुणित्व के कल्पनादि स्वरूप है । क्योंकि, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज वे भगवान् के गुण हैं । ज्ञानादि ये सब आत्मा ही हैं, भगवान् वासुदेव स्वरूप ही हैं, इत्यादि देखने से विरोध सिद्ध होता है । इसी प्रकार प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को भगवान् से भिन्न मानकर भगवान् स्वरूप मानना विरुद्ध है । यद्यपि वेदान्त में जैसे सत्तारूप से सब ब्रह्म स्वरूप है, और औपाधिक मायिरूप से भिन्न भी है, क्योंकि श्रुति ही कहती है कि यह सब ब्रह्म स्वरूप है, इन्द्र माया से बहुरूप होता है इत्यादि, तथापि इस भागवत मत में एक सत्ता और माया मानी नहीं गई है, इससे उक्त दोष है । एक सत्ता माया को मानने पर सिद्धान्त की हानि होगी । वेद से विरोध भी इस शास्त्र में है कि चार वेदों में परश्वेय को नहीं लाभ ( प्राप्त ) करके शाण्डिल्य ने इस शास्त्र को प्राप्त किया, इत्यादि वेद की निन्दा देखने से वेद से विरोध सिद्ध होता है, इससे यह कल्पना असङ्गत है । यह सिद्ध हुआ ॥ ४५ ॥

स्वतन्त्रान्न प्रधानाद्वा न चाणोर्वै जगज्जनिः ।

नाभावात् तद्वस्थाद्वा महेश्वराद्धि जायते ॥ १ ॥

तस्मात् सर्वात्मकादीणाञ्जगज्जन्मादिकल्पना ।

जल्पनामात्ररूपैव न जीवस्यास्ति सापि हि ॥ २ ॥

अनन्तं सच्चिदानन्द ब्रह्म जीवात्मना स्थितम् ।

अज्ञानात् सोऽस्ति संसारी ज्ञानात् कैवल्यमश्नुते ॥ ३ ॥

यदात्मना जगन्नित्यं यं विहाय न किञ्चन ।

तं वन्दे परमानन्द सर्वतः सर्वदा स्थितम् ॥ ४ ॥

अनन्ताय विमुक्ताय निर्गुणाय निजात्मने ।

नमोऽस्तु परमानन्दरूपाय परमात्मने ॥ ५ ॥

इति द्वितीयाध्यायस्य सांख्यादिमतानां दुष्टत्वप्रदर्शनं नाम द्वितीयः पादः ।



## द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः

[ अत्र पादे पञ्चमहाभूतजीवादिश्रुतीनां विरोधपरिहारः ]

त्रियदधिकरण ॥ १ ॥

व्योम नित्यं जायते वा हेतुत्रयविवर्जनात् । गतिश्रुतेश्च गौणस्वाच्चित्यं व्योम न जायते ॥१॥  
एकज्ञानात्सर्वबुद्धेर्विभक्तवाज्जनिश्रुतेः । विवर्ते कारणैकत्वाद् ब्रह्मणो व्योम जायते ॥ २ ॥  
पूर्वपाद के अन्त में जीव की उत्पत्ति का विचार हुआ है । उसके प्रसंग से इस पाद के आदि में आकाश की उत्पत्ति का विचार किया जाता है । यहाँ प्रथम एक देशी मूल पूर्वपक्ष से अधिकरण का आरम्भ है कि छान्दोग्य श्रुति में आकाश की उत्पत्ति के अश्रवण से आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ॥ यह सूत्रार्थ है ॥ संशय है कि आकाश नित्य है, अथवा उत्पन्न होता है । पूर्वपक्ष है कि कार्य की उत्पत्ति में समवायी, असमवायी और निमित्त ये तीन हेतु होते हैं । यहाँ ससग सावयव द्रव्य के अवयव समवायी कारण होते हैं उनका संयोग असमवायी कारण होता है । उन दोनों से भिन्न निमित्त कारण होता है । असगता से आत्मा के समान निरवयवता के अनुमान होने पर तीनों कारण का अभाव सिद्ध होता है, इससे आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है । इससे तैत्तिरीयश्रुति में जो आकाश की उत्पत्तिश्रुति है सो गौण है, गुण की उत्पत्ति से आकाश की उत्पत्ति कही गई है । सिद्धान्त है कि एक ब्रह्म के ज्ञान से सब के ज्ञान की श्रुति से, तथा आकाश को अन्य भूतादि से विभक्त होने, ब्रह्मात्मा के समान सर्वात्मा नहीं होने से और उत्पत्ति की श्रुति से आकाश के भी अवयव अनुमित हो सकते हैं । अति सूक्ष्मता से असङ्गता भी हो सकती है । दूसरी बात है कि विवर्तरूप कार्य में कारण की एकता रहती है । इससे एक ब्रह्म से आकाश उत्पन्न होता है ॥ १-२ ॥

न वियदश्रुतेः ॥ १ ॥

वेदान्तेषु तत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्रुतय उपलभ्यन्ते । केचिदाकाश-  
स्योत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न । तथा केचिद्वायोरुत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न ।  
एवं जीवस्य प्राणानां च । एवमेव क्रमादिद्वारकोऽपि विप्रतिषेधः श्रुत्यन्तरेषू-  
पलक्ष्यते । विप्रतिषेधाच्च परपक्षाणामनपेक्षितत्वं स्थापितं तद्वत्स्वपक्षस्यापि  
विप्रतिषेधादेवानपेक्षितत्वमाशङ्क्येतेत्यतः सर्ववेदान्तगतसृष्टिश्रुत्यर्थनिर्मलत्वाय  
परः पप्रञ्च आरभ्यते । तदर्थनिर्मलत्वे च फलं यथोक्ताशङ्कानिवृत्तिरेव । तत्र  
प्रथमं तावदाकाशमाश्रित्य चिन्त्यते किमस्याकाशस्योत्पत्तिरस्त्युत नास्तीति ।  
तत्र तावत्प्रतिपाद्यते—‘न वियदश्रुतेः’ इति । न खल्वाकाशमुत्पद्यते । कस्मात् ?  
अश्रुतेः, न ह्यस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति । छान्दोग्ये हि ‘सदेव सोम्येदमप्र  
आसीदेकमेवाद्वितीयम्’ ( ६।२।१ ) इति सच्छब्दवाच्यं ब्रह्म प्रकृत्य ‘तदैक्षत’

‘तत्तेजोऽसृजत’ ( छां० ६।२।३ ) इति च पञ्चानां महाभूतानां मध्यमं तेज आदि कृत्वा त्रयाणां तेजोबन्धानामुत्पत्तिः श्राव्यते । श्रुतिश्च नः प्रमाणमतीन्द्रियार्थविज्ञानोत्पत्तौ, न चात्र श्रुतिरस्त्याकाशस्योत्पत्तिप्रतिपादिनी, तस्मान्नास्योत्पत्तिरिति ॥ १ ॥

वेदान्त मे तत्तत् स्थानो श्रुतियो मे भिन्न-भिन्न गति रीति वाली उत्पत्ति विषयक श्रुतियाँ सुनी जाती हैं उपलब्ध होती हैं । कोई श्रुतियाँ आकाश की उत्पत्ति का कथन करती हैं, कोई उत्पत्ति का कथन नहीं करती हैं । इसी प्रकार कोई श्रुति वायु की उत्पत्ति कहती हैं, कोई नहीं कहती हैं । इसी प्रकार ( सर्व एत आत्मनो व्युच्चरन्ति । एतस्माज्जायते प्राणः ) इत्यादि श्रुतियाँ जीव और प्राणो की भी उत्पत्ति कहती हैं । इसी प्रकार क्रम आदि द्वारा विरोध भी अन्य श्रुतियो में देखा जाता है । अर्थात् कही आकाशपूर्वक सृष्टि कही जाती है, कही तेजपूर्वक कही जाती है । कही क्रम बिना ही सृष्टि कही जाती है । विरोध से परपक्षो ( अन्यसिद्धान्तो ) को अनपेक्षितत्व स्थापित किया है कि परस्पर विरुद्ध होने से तथा पूर्वापर विरुद्ध होने से ये उपेक्ष्य ( त्याज्य ) हैं । इसी प्रकार स्वपक्ष को भी विरोध से ही अनपेक्षितत्व ( त्याज्यत्व ) की शंका की जा सकती है । इस कारण से सब वेदान्त मे गत ( प्राप्त ) सृष्टि विषयक श्रुतियो के अर्थ की निर्मलता ( अविरोधिता ) के लिए आगे का प्रपञ्च विस्तार ( दो पाद ) आरम्भ किए जाते हैं । श्रुत्यर्थ के निर्मलत्व का फल उक्त शंका की निवृत्ति ही है । उस निर्मलता के लिये प्रथम आदि मे आकाश को आश्रयण ( विचार का विषय ) करके चिन्ता ( विचार ) की जाती है कि इस आकाश की उत्पत्ति होती है, या नहीं होती है, वहाँ अविरोध के ही लिए सिद्धान्त के एकदेशी से प्रथम प्रतिपादन किया जाता है कि ( न वियदश्रुते ) निश्चय है कि आकाश नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि उत्पत्ति प्रकरण मे इस आकाश के अध्वण से उसकी अनुत्पत्ति का निश्चय होता है । उत्पत्ति प्रकरण मे आकाश का श्रवण नहीं है । जिससे छान्दोग्य श्रुति मे ( हे सोम्य ! यह जगत् सृष्टि से प्रथम सन्मात्र ही था, एक अद्वितीय ही था ) इस प्रकार सत्त शब्द का वाच्यार्थ ब्रह्म निरूपण का आरम्भ कर के लिखा है कि ( उस ब्रह्म ने ईक्षण विचार किया ) फिर ( उसने तेज को उत्पन्न किया ) इस प्रकार पाँचो भूतो के मध्यम ( मध्यदेशगत ) तेज को आदि स्थान मे करके तेज, जल और अन्न ( भूमि ) इन तीनों की उत्पत्ति सुनाई जाती है । अतीन्द्रिय परोक्ष भूत भावी आदि अर्थों के विज्ञान की उत्पत्ति के लिए श्रुति ही हमे प्रमाण है । इस छान्दोग्य मे आकाश की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति नहीं है । इससे आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ॥ १ ॥

अस्ति तु ॥ २ ॥

तुशब्दः पक्षान्तरपरिग्रहे । मा नामाकाशस्य छान्दोग्ये भूदुत्पत्तिः, श्रुत्यन्तरे त्वस्ति । तैत्तिरीयका हि समामनन्ति ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इति प्रकृत्य

‘तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ ( तै० २।१ ) इति । ततश्च श्रुत्यो-  
र्विप्रतिषेधः क्वचित्तेजःप्रमुखा सृष्टिः क्वचिदाकाशप्रमुखेति । नन्वेकवाक्यता-  
नयोः श्रुत्योर्युक्ता । सत्यम् । सा युक्ता न तु सावगन्तुं शक्यते । कुतः ?  
‘तत्तेजोऽसृजत’ ( छां० ६।२।३ ) इति सकृच्छ्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्यद्वयेन संबन्धा-  
नुपपत्तेः ‘तत्तेजोऽसृजत’ ‘तदाकाशमसृजत’ इति । ननु सकृच्छ्रुतस्यापि कर्तुः  
कर्तव्यद्वयेन संबन्धो दृश्यते, यथा सूपं पक्त्वौदनं पचतीति, एवं तदाकाशं  
सृष्ट्वा तत्तेजोऽसृजतेति योजयिष्यामि । नैवं युज्यते, प्रथमजत्वं हि छान्दोग्ये  
तेजसोऽवगम्यते तैत्तिरीयके चाकाशस्य, न चोभयोः प्रथमजत्वं संभवति ।  
एतेनेतरश्रुत्यन्तरविरोधोऽपि व्याख्यातः । ‘तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः  
संभूतः’ ( तै० २।१ ) इत्यत्रापि ‘तस्मादाकाशः संभूतस्तस्मात्तेजः संभूतमि’ति  
सकृच्छ्रुतस्थापादानस्य संभवनस्य च वियत्तेजोभ्यां युगपत्संबन्धानुपपत्तेः ।  
‘वायोरग्निः’ ( तै० २।१ ) इति च पृथगाज्ञानात् ॥ २ ॥

तु शब्द पक्षान्तर के परिग्रह ( स्वीकार ) अर्थ मे है कि छान्दोग्य मे आकाश की  
उत्पत्ति का श्रवण न होने पर भी अन्य श्रुति मे तो आकाश की उत्पत्ति का वर्णन  
है । जिससे तैत्तिरीयक शाखावाले कहते है कि ( सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है )  
इस प्रकार आरम्भ करके कहते हैं कि ( उस मन्त्र से प्रतिपादित और इस ब्राह्मण से  
प्रतिपादित ब्रह्मात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ) इससे दोनो श्रुति का विरोध है कि  
कही तेज प्रमुखा ( तेजपूर्वक ) सृष्टि है, तो कही आकाशपूर्वक सृष्टि वर्णित है । शका  
होती है कि विरोध से अप्रमाणता की प्राप्ति होती है । इससे इन दोनो श्रुतियों की  
किसी प्रकार एकवाक्यता का अविरोध होना युक्त है । वहाँ कहा जाता है कि वह एक-  
वाक्यता युक्त है यह बात तो सत्य है । परन्तु वह एकवाक्यता समझी नहीं जा  
सकती है । क्योंकि ( उसने तेज को रचा ) इस प्रकार एक बार सुना गया स्रष्टा ( सृष्टि  
कर्ता ) का स्रष्टव्य ( कार्य ) दो के साथ सम्बन्ध की अनुपपत्ति है । अर्थात् उसने तेज  
को रचा, उसने आकाश को रचा, इस प्रकार का सम्बन्ध एकवाक्यता के लिए नहीं  
हो सकता है । शका होती है कि एक बार मुने गये हुए कर्ता का भी दो कर्तव्य  
कार्य के साथ क्रम से सम्बन्ध देखा जाता है, जैसे कि सूप ( दाल ) पकाकर ओदन  
( भात ) पकाता है । इसी प्रकार ( उसने आकाश को रचकर तेज को रचा ) ऐसी योजना  
( एकवाक्यता ) करेगे । वहाँ कहा जाता है कि ऐसी योजना हो नहीं सकती है ।  
क्योंकि छान्दोग्य मे तेज का प्रथमजत्व ( ज्येष्ठत्व ) अवगत होता है कि उत्पन्न होने  
वाले सब पदार्थों से प्रथम तेज उत्पन्न हुआ । तैत्तिरीयक मे आकाश का प्रथमजत्व  
अवगत होता है । दोनो के प्रथमजत्व का सम्भव नहीं है । इस छान्दोग्य का तैत्तिरीय  
के साथ विरोध-प्रदर्शन से ही, तैत्तिरीय का छान्दोग्य के साथ अन्य श्रुत्यन्तर-विरोध  
भी व्याख्यात हो गया कि ( उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ) यहाँ भी ( उस



से आकाश उत्पन्न हुआ, उससे तेज उत्पन्न हुआ) इस प्रकार एक बार सुना गया उपादान कारण का और सम्भव (उत्पत्तिक्रिया) का एक काल में आकाश और तेज के साथ सम्बन्ध की अनुपपत्ति से एकवाक्यता नहीं हो सकती। छान्दोग्य में तेज का उपादान सत्यात्मा सुना जाता है। तैत्तिरीय में आत्मा से पृथक् वायु का तेज के उपादान रूप से कथन है कि वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, इससे भी एकवाक्यता नहीं हो सकती है ॥ २ ॥

अस्मिन्विप्रतिषेधे कश्चिदाह—

### गौण्यसंभवात् ॥ ३ ॥

नास्ति वियत उत्पन्निरश्रुतेरेव । या त्वितरा वियदुत्पत्तिवादिनी श्रुतिरुदाहृता सा गौणी भवितुमर्हति । कस्मात् ? असंभवात् । न ह्याकाशस्योत्पत्तिः संभावयितुं शक्या श्रीमत्कणभुगभिप्रायानुसारिषु जीवत्सु । ते हि कारणसामग्र्यसंभवादाकाशस्योत्पत्तिं वारयन्ति । समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणोभ्यो हि किल सर्वमुत्पद्यमानं समुत्पद्यते । द्रव्यस्य चैकजातीयकमनेकं च द्रव्यं समवायिकारणं भवति । न चाकाशस्यैकजातीयकमनेकं च द्रव्यमारम्भकमस्ति, यस्मिन्समवायिकारणे सत्यसमवायिकारणे च तत्संयोगे आकाश उत्पद्यते । तदभावात् तदनुग्रहप्रवृत्तं निमित्तकारणं दूरापेतमेवाकाशस्य भवति । उत्पत्तिमतां च तेजःप्रभृतीनां पूर्वोत्तरकालयोर्विशेषः संभाव्यते प्रागुत्पत्तेः प्रकाशादिकार्यं न बभूव पश्चाच्च भवतीति । आकाशस्य पुनर्न पूर्वोत्तरकालयोर्विशेषः संभावयितुं शक्यते । किं हि प्रागुत्पत्तेरनवकाशमसुषिरमच्छिद्रं बभूवेति शक्यतेऽध्यवसातुम् । पृथिव्यादिवैद्यम्याञ्च विभुत्वादिलक्षणादाकाशस्याजत्वसिद्धिः । तस्माद्यथा लोक आकाशं कुरु आकाशो जात इत्येवंजातीयको गौणः प्रयोगो भवति, यथा च घटाकाशः करकाकाशो गृहाकाश इत्येकस्याप्याकाशस्यैवंजातीयको भेदव्यपदेशो गौणो भवति, वेदेऽपि 'आरण्यानाकाशेष्वालभेरन्' इति, एवमुत्पत्तिश्रुतिरपि गौणी द्रष्टव्या ॥ ३ ॥

इस प्रकार विरोध के निश्चित होने पर प्रथम सूत्र-वर्णित कोई एकदेशी कहता है कि—

छान्दोग्य में उत्पत्ति के अश्रवण से ही आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। और जो अन्य आकाश की उत्पत्ति को कहने वाली श्रुति उदाहृत हुई है—कही गई है। वह गौणी उत्पत्तिपरक होने योग्य है क्योंकि आकाश की मुख्य उत्पत्ति का असम्भव है। जिससे श्रीमान् कणादजी के अभिप्रायानुसारियों के जीवित रहते आकाश की उत्पत्ति की संभावना भी नहीं की जा सकती है। जिससे वे लोग कारणसामग्री के असम्भव से आकाश की उत्पत्ति का वारण (निषेध) करते हैं। उनका निश्चय है कि उत्पन्न होने वाले सब पदार्थ समवायी असमवायी और निमित्त इन तीन कारणों से ही उत्पन्न होते हैं। एकद्रव्य के एकजाति वाले

अनेक द्रव्य समवायी कारण होते हैं । आकाश के एकजाति वाले अनेक द्रव्य आरम्भक कारण नहीं हैं कि जिस समवायी कारण के रहने पर और उनके सयोग रूप असमवायी कारण के रहने पर आकाश उत्पन्न हो । और उन समवायी आदि के अभाव से ही उनके अनुग्रह के लिए प्रवृत्त आकाश के निमित्त कारण दूरापेत ( दूरसे त्यक्त ) ही होता है । जो तेज आदि उत्पत्ति वाले हैं, उनके पूर्व और उत्तरकाल में विशेष की सम्भावना रहती है कि तेज आदि की उत्पत्ति से प्रथम महाप्रलय में प्रकाशादि कार्य नहीं होते रहे, जैसे कि अभी तेज आदि के बिना प्रकाशादि कार्य नहीं होते हैं । सृष्टि के बाद उनसे प्रकाशादि कार्य होते हैं । और आकाश के पूर्वोत्तर काल में विशेष (भेद अनुभव अर्थक्रिया में विलक्षणता) की सम्भावना नहीं की जा सकती है । क्या आकाश की उत्पत्ति से प्रथम अनवकाश ( स्थूलाश्रयरहित ) असुषिर ( अणु आश्रय रहित ) अचिद्ध (सूक्ष्माश्रयरहित) था, ऐसा अव्यवसाय ( निश्चय ) किया जा सकता है । पृथिवी आदि से विरोधी धर्म विभुत्वादि स्वरूप वाला होने से आकाश को अजत्व ( जन्मरहितत्व ) की सिद्धि होती है । इससे जैसे लोक में छिद्रादि करने अर्थ में कहा जाता है कि आकाश करो, छिद्र होने पर कहा जाता है कि आकाश उत्पन्न हुआ, इस प्रकार के गौण प्रयोग होते हैं । जैसे घटाकाश, करकाकाश, गुहाकाश, इस प्रकार एक आकाश के भी गौण भेद का व्यवहार होता है, तथा वेद में भी ( आकाशो मे आरग्य पशुओ का आलम्भ करे ) यहाँ एक आकाश में गौण बहुत्व का प्रयोग होता है । इसी प्रकार उत्पत्ति श्रुति को भी गौणी समझना चाहिये ॥ ३ ॥

### शब्दाच्च ॥ ४ ॥

शब्दः खल्वाकाशस्याजत्वं ख्यापयति । यत आह—‘वायुश्चान्तरिक्षं चैतद्-मृतम्’ ( बृ० २।३।३ ) इति न ह्यमृतस्योत्पत्तिरुपपद्यते । ‘आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः’ इति चाकाशेन ब्रह्म सर्वगतत्वनित्यत्वाभ्यां धर्माभ्यामुपभिमान आकाशस्यापि तौ धर्मौ सूचयति । न च तादृशस्योत्पत्तिरुपपद्यते । ‘स यथानन्तोऽयमाकाश एवमनन्त आत्मा वेदितव्यः’ इति चोदाहरणम्, ‘आकाशशरीरं ब्रह्म’ ( तै० १।६।२ ), ‘आकाश आत्मा’ ( तै० १।७।१ ) इति च । न ह्याकाशस्योत्पत्तिमत्त्वे ब्रह्मणस्तेन विशेषणं संभवति नीलेनेवोत्पत्तस्य । तस्मान्नित्यमेवाकाशेन साधारणं ब्रह्मेति गम्यते ॥ ४ ॥

केवल तर्क से ही आकाश को अजत्व नहीं है किन्तु शब्द ( श्रुति ) भी आकाश की अजता का कथन करती है । इससे गौणी उत्पत्ति नहीं मानने पर श्रुति से विरोध होगा जिससे श्रुति कहती है कि ( वायु और अन्तरिक्ष अमृत हैं ), अमृत की उत्पत्ति नहीं सिद्ध हो सकती है । ( ब्रह्मात्मा आकाश के समान सर्वगत तथा नित्य है ) इत्यादि सर्वगतत्व नित्यत्व धर्मों द्वारा ब्रह्म को आकाश की उपमा देती हुई श्रुति आकाश के भी वे दोनों धर्म हैं यह सूचित करती है । तादृश ( नित्य सर्वगत ) की उत्पत्ति नहीं सिद्ध हो सकती

है । ( जैसे यह आकाश अनन्त है, वैसे वह आत्मा अनन्त जानने योग्य है ) यह शब्द ( श्रुति ) भी यहाँ उदाहरण है । ( आकाशरूप शरीर वाला ब्रह्म है । आकाशरूप आत्मा है ) ये भी उदाहरण हैं । आकाश के उत्पत्ति वाला होने पर नील से कमल के समान उस आकाश में ब्रह्म का विशेषण सम्भव नहीं हो सकता है । इससे नित्य ही आकाश के तुल्य ब्रह्म है । ऐसी प्रतीति होती है ॥ ४ ॥

### स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत् ॥ ५ ॥

इदं पदोत्तरं सूत्रम् । स्यादेतत् । कथं पुनरेकस्य संभूतशब्दस्य 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' ( तै० २।१ ) इत्यस्मिन्नधिकारे परेषु तेजःप्रभृतिष्वनुवर्तमानस्य मुख्यत्वं संभवत्याकाशे च गौणत्वमिति । अत उत्तरमुच्यते— स्याच्चैकस्यापि संभूतशब्दस्य विषयविशेषवशाद्गौणो मुख्यश्च प्रयोगो ब्रह्मशब्दवत् । यथैकस्यापि ब्रह्मशब्दस्य 'तपसा ब्रह्मविजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म' ( तै० ३।२ ) इत्यस्मिन्नधिकारेऽन्नादिषु गौणः प्रयोग आनन्दे च मुख्यः । यथा च तपसि ब्रह्मविज्ञानसाधने ब्रह्मशब्दो भक्त्या प्रयुज्यतेऽञ्जसा तु विज्ञेये ब्रह्मणि तद्वत् । कथं पुनरनुत्पत्तौ नभसः 'एकमेवाद्वितीयम्' ( छां० ६।२।१ ) इतीयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते । ननु नभसा द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्राप्नोति कथं च ब्रह्मणि विदिते सर्वे स्यादिति । तदुच्यते । एकमेवेति तावत्स्वकार्यपेक्षयोपपद्यते । यथा लोके कश्चित्कुम्भकारकुले पूर्वेषु मृदुदण्डचक्रादीनि चोपलभ्यापरेषु च नानाविधान्यमत्राणि प्रसारितान्युपलभ्य ब्रूयान्मृदेवैकाकिनी पूर्वेषु रासीदिति । स च तथावधारणया मृत्कायजातमेव पूर्वेषु रासीदित्यभिप्रेत्यान्न दण्डचक्रादि तद्वत् । अद्वितीयश्रुतिरधिष्ठात्रन्तरं वारयति यथा मृदोऽमत्रप्रकृतेः कुम्भकारोऽधिष्ठाता दृश्यते नैवं ब्रह्मणो जगत्प्रकृतेरन्योऽधिष्ठातास्तीति ।

यह सूत्र पदोत्तर ( पद विषयक शंका का उत्तर ) रूप है, यहाँ प्रथम शंका है कि, शब्द से आकाश को नित्यत्व होने पर भी श्रुति में पठित ( उस इस आत्मा से आकाश संभूत—उत्पन्न—हुआ ) इस एक अधिकार ( प्रकरण ) में एक संभूत, शब्द को आगे के तेज आदि के उत्पत्ति-विधायक वाक्यों में अनुवृत्ति होने पर कैसे मुख्यत्व का संभव होता है । आकाश में कैसे गौणत्व होता है । इससे उत्तर कहा जाता है कि ब्रह्म शब्द के समान एक ही संभूत शब्द का विषय विशेष ( भेद ) के वश से गौण और मुख्य प्रयोग हो सकता है । जैसे एक ही ब्रह्म शब्द को ( तप से ब्रह्म की जिज्ञासा—जानने की इच्छा करो, तप ब्रह्म है ) इस एक प्रकरण में ( अन्नं ब्रह्म ) इत्यादि वाक्यों में अन्नादि अर्थ में ब्रह्म शब्द का गौण प्रयोग है, और ( आनन्दो ब्रह्म ) यहाँ आनन्द अर्थ में मुख्य प्रयोग है । जैसे ब्रह्म विज्ञान के साधनरूप तप में भाक्त ( अभेदोपचार रूप गौण ) ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है । तप से विज्ञेय ब्रह्म में तो अञ्जसा ( मुख्य तत्त्वतः ) प्रयोग किया जाता है । वैसे ही संभूत शब्द के प्रयोग को भी

समझना चाहिये । यहाँ मुख्य सिद्धान्ती शका करते हैं कि इस प्रकार आकाश की गौणी उत्पत्ति और वस्तुतः अनुत्पत्ति मानने पर ( एक अद्वितीय ब्रह्म था ) यह प्रतिज्ञा कैसे समर्थित ( सार्थक ) होगी । क्योंकि आकाशरूप दूसरी वस्तु से द्वैत सहित ब्रह्म प्राप्त होता है । आकाश नित्य हो तो, एक ब्रह्म के विदित ( ज्ञात ) होने से सब विदित कैसे हो सकता है । क्योंकि कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञात होता है, अन्य नहीं । यहाँ उत्तर कहा जाता है कि एक ही था यह प्रतिज्ञा तो अपने कार्यों की अपेक्षा से सिद्ध होती है कि जैसे लोक में कुम्भकार के कुल ( घर ) में पूर्व के दिन में मृत्तिका, दण्ड चक्रादि को देख कर फिर दूसरे दिन में नाना प्रकार अमात्र ( पात्र ) को फैलाये हुए देखकर कोई कहे कि अकेली ( केवल ) मृत्तिका ही पूर्व के दिन में थी । तो वह उस अवधारणा ( निश्चय ) से मृत्तिका के कार्यसमूहविषयक ही अभिप्राय वाला होगा कि पूर्व के दिन में मृत्तिका का कार्यसमूह नहीं था । ऐसा उसका अभिप्राय नहीं हो सकता है कि पहले दिन दण्ड-चक्रादि भी नहीं थे । इसी प्रकार अवधारण एकत्व के निश्चय से सृष्टि से पूर्वकाल में कार्य रूप तेज आदि का निषेध किया जाता है । नित्य आकाशादि का नहीं । अद्वितीय श्रुति अन्य अधिष्ठाता का वारण ( निषेध ) करती है कि जैसे घटादि पात्रों की प्रकृति रूप मृत्तिका का कुम्भकार अधिष्ठाता होता है, यह देखा जाता है । जगत की प्रकृति रूप ब्रह्म का इस प्रकार का कोई अधिष्ठाता नहीं है ।

न च नभसापि द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्रसज्यते । लक्षणान्यत्वनिमित्तं हि नानात्वम्, न च प्रागुत्पत्तेर्ब्रह्मनभसोर्लक्षणान्यत्वमस्ति, क्षीरोदकयोरिव संसृष्टयोर्व्यापित्वामूर्तत्वादिधर्मसामान्यात् । सर्गकाले तु ब्रह्म जगदुत्पादयितुं यतते स्तिमितमितरत्तिष्ठति, तेनान्यत्वमवसीयते । तथा च 'आकाशशरीरं ब्रह्म' ( तै० १।६।६२ ) इत्यादिश्रुतिभ्योऽपि ब्रह्माकाशयोरभेदोपचारसिद्धिः । अत एव च ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानसिद्धिः । अपि च सर्वं कार्यमुत्पद्यमानमाकाशेनाव्यतिरिक्तदेशकालमेवोत्पद्यते, ब्रह्मणा चाव्यतिरिक्तदेशकालमेवाकाशं भवतीति, अतो ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विज्ञातमेवाकाशं भवति । यथा क्षीरपूर्णे घटे कतिचिदम्बिन्दवः प्रक्षिप्ताः सन्तः क्षीरग्रहणेनैव गृहीता भवन्ति, नहि क्षीरग्रहणादम्बिन्दुग्रहणं परिशिष्यते । एवं ब्रह्मणा तत्कार्यैश्चाव्यतिरिक्तदेशकालत्वाद् गृहीतमेव ब्रह्मग्रहणेन नभो भवति । तस्माद्वाक्तं नभसः सम्भवश्रवणमिति ॥ ५ ॥

दूसरी बात है कि द्वितीय आकाश से भी ब्रह्म द्वैतसहित नहीं प्राप्त होता है । क्योंकि लक्षण के अन्यत्व ( भेद ) निमित्तक नानात्व ( द्वैत ) होता है । ससार की उत्पत्ति से प्रथम ब्रह्म और आकाश में लक्षण का भेद नहीं रहता है, क्योंकि दूध और जल के समान संसृष्ट ( मिलित ) ब्रह्म और आकाश की सृष्टि से प्रथम व्यापित्व ( व्यापकत्व )

और अमूर्तत्वादि तुल्य ही धर्म रहते हैं। फिर सृष्टिकाल में जगत् के उत्पादन के लिए ब्रह्म यत्न करता है। इतर (आकाश) स्तिमित (यत्न व्यापार रहित) निश्चल रहता है, उससे भेद का निश्चय किया जाता है। इसी प्रकार (आकाश शरीर जिसका है वह ब्रह्म है) इत्यादि श्रुतियों से भी ब्रह्म और आकाश में भेद रहते भी अभेद के उपचार (गौण व्यवहार) की सिद्धि होती है। इस अभेद के उपचार से ही ब्रह्म के विज्ञान से सब के विज्ञान की सिद्धि होती है। दूसरी बात है कि उत्पन्न होते हुए सब कार्य आकाश के साथ अभिन्न देशकाल वाले ही उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म के साथ अभिन्न देश-काल वाला ही आकाश रहता है, इससे विज्ञान ब्रह्म और उसके कार्य के साथ आकाश विज्ञान ही होता है। जैसे कि दूध से पूर्ण, भरे हुए, घट में कुछ जल के बिन्दु डाले गये हो तो दूध के ग्रहण से ही वे जलबिन्दु भी गृहीत होते हैं। दूध के ग्रहण से जलबिन्दुओं का ग्रहण बाकी नहीं रह जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म और उसके कार्यों के साथ अभिन्न देश-काल वाला होने से ब्रह्म के ग्रहण से आकाश गृहीत (ज्ञात) ही होता है, उससे आकाश के जन्म का श्रवण भाक्त (गौण) है ॥ ५ ॥

एव प्राप्त इदमाह—

**प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥**

‘येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्’ (छां० ६।१।१) इति, ‘आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम्’ (बृ० ४।५।६) इति, ‘कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’ (मुण्ड० १।१।३) इति, ‘न काचन मद्बहिर्धा विद्यास्ति’ इति चैवंरूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञा विज्ञायते। तस्याः प्रतिज्ञाया एवमहानिरनुपरोधः स्यात्, यद्यव्यतिरेकः कृत्स्नस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयाद् ब्रह्मणः स्यात्। व्यतिरेके हि सत्येकविज्ञानेन सर्वं विज्ञायत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत। स चाव्यतिरेक एवमुपपद्यते यदि कृत्स्नं वस्तुजातमेकस्माद् ब्रह्मण उत्पद्येत। शब्देभ्यश्च प्रकृतिविकाराव्यतिरेकन्यायेनैव प्रतिज्ञासिद्धिरवगम्यते। तथाहि—‘येनाश्रुतं श्रुतं भवति’ इति प्रतिज्ञाय मृदादिदृष्टान्तैः कार्यकारणाभेदप्रतिपादनपरैः प्रतिज्ञैषा समर्थयते, तत्साधनायैव चोत्तरे शब्दाः ‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्’ (छां० ६।२।१), ‘तदैक्षत’ ‘तत्तेजोऽसृजत’ (छां० ६।२।३) इति, एवं कार्यजातं ब्रह्मणः प्रदर्श्याव्यतिरेकं प्रदर्शयन्ति—‘येतदात्म्यमिदं सर्वम्’ (छां० ६।२।७) इत्यारभ्याप्रपाठकपरिसमाप्तेः, तद्यथाकाशं न ब्रह्मकार्यं स्यान्न ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशं विज्ञायेत, ततश्च प्रतिज्ञाहानिः स्यात्।

इस पूर्वर्णागत रीति से आकाश की उत्पत्ति नहीं होने पर भी एकदेशी मत से श्रुतियों का अविरोध प्राप्त होने पर, अब मुख्य सिद्धान्ती यह कहते हैं कि—

(जिस ब्रह्म के श्रवणादि से अश्रुत भी श्रुत होता है) और (अमत भी मत, तथा

अविज्ञात भी विज्ञात होता है ), ( अरे मैत्रेयि ! आत्मा ही के दृष्ट, श्रुत, मत और विज्ञात होने से यह सब अनात्म वस्तु विदित होती है ) ( हे भगवन् किसके विज्ञात होने से यह सब विज्ञात होता है ) ( मुझ से बहिर्धः बाह्य स्थितिवाली कोई विद्या वस्तु नहीं है ) इस प्रकार के स्वरूप वाली सब वेदसम्बन्धी प्रत्येक वेदान्त में प्रतिज्ञा विज्ञात होती है, उस प्रतिज्ञा की इस प्रकार अहानि ( अबाध ) होगी कि यदि विज्ञेय ब्रह्म से सम्पूर्ण वस्तुसमूह को अव्यतिरेक ( अभेद ) होगा, जिससे व्यतिरेक ( भेद ) रहने पर एक के विज्ञान से सब विज्ञात होता है, यह प्रतिज्ञा नष्ट होगी । वह अभेद इस प्रकार सिद्ध हो सकता है कि यदि सम्पूर्ण वस्तुसमूह एक ब्रह्म से उत्पन्न हो । यद्यपि ब्रह्मस्वरूप जीव और ब्रह्म की शक्तिरूप माया को उत्पत्ति के बिना भी ब्रह्म से अभेद है, तथापि उन से अन्य का प्रकृति-विकार न्याय से ही प्रतिज्ञा की सिद्धि शब्दों से भी अवगत ( ज्ञात ) होती है । जिससे वैसी ही श्रुति है कि ( जिससे अश्रुत भी श्रुत होता है ) इस प्रकार प्रतिज्ञा करके कार्य-कारण के अभेदप्रतिपादनपरक मृतिका आदि रूप दृष्टान्तों के द्वारा यह प्रतिज्ञा समर्थित ( सिद्ध ) की जाती है । उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने ही के लिए आगे के शब्द है कि ( हे सोम्य ! यह जगत् प्रथम सत ही था एक अद्वितीय ही था । उसने विचारा । उसने तेज को रचा ) इस प्रकार कार्यसमूह को ब्रह्म से उत्पन्न दिखाकर, ब्रह्म से अभेद को ( इसी स्वरूप वाला यह सब जगत है ) यहाँ से आरम्भ करके षष्ठप्रपाठक ( अध्याय ) की समाप्ति पर्यन्त, शब्द दिखाते हैं, इससे यदि आकाश ब्रह्म का कार्य नहीं होगा तो ब्रह्म के विज्ञात होने पर आकाश विज्ञात भी नहीं होगा । और इससे प्रतिज्ञा की हानि होगी, उससे वेद में अपभारता होगी ।

न च प्रतिज्ञाहान्या वेदस्याप्रामाण्यं युक्तं कर्तुम् तथाहि—प्रतिवेदान्तं ते ते शब्दास्तेन तेन दृष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञां स्थापयन्ति 'इदं सर्वं यद्य-मात्मा' ( बृ० २।४।६ ), 'ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्' ( मुण्ड० २।२।११ ) इत्येव-मादयः । तस्माज्ज्वलनादिवदेव गगनमप्युत्पद्यते । यदुक्तम्—अश्रुतेर्न वियदुत्प-द्यत—इति, तदयुक्तं, वियदुत्पत्तिविषयश्रुत्यन्तरस्य दर्शितत्वात् 'तस्माद्वा एत-स्मादात्मन आकाशः संभूतः' ( तै० २।१ ) इति । सत्यं दर्शितम्, विरुद्धं तु 'तत्तेजोऽसृजत' इत्यनेन श्रुत्यन्तरेण, न एकवाक्यत्वात्सर्वश्रुतीनाम् । भवत्वे-कवाक्यत्वमविरुद्धानाम्, इह तु विरोध उक्तः, सकृच्छ्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्यद्वय-संबन्धासंभवाद् द्वयोश्च प्रथमजत्वासंभवाद्विकल्पासंभवाच्चेति । नैष दोषः । तेजःसर्गस्य तैत्तिरीयके तृतीयत्वश्रवणात् 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः' ( तै० २।१ ) इति । अशक्या हीयं श्रुतिरन्यथा परिणेतुम्, शक्या तु परिणेतुं छान्दोग्यश्रुतिः 'तदाकाशं वायु च सृष्ट्वा तत्ते-जोऽसृजत' इति । न हीयं श्रुतिस्तेजोजनिप्रधाना सती श्रुत्यन्तरप्रसिद्धामा-काशस्योत्पत्तिं वारयितुं शक्नोति । एकस्य वाक्यस्य व्यापारद्वयासंभवात् ।

स्रष्टा त्वेकोऽपि क्रमेणानेकं स्रष्टव्यं सृजेत्, इत्येकवाक्यत्वकल्पनायां संभवन्त्यां न विरुद्धार्थत्वेन श्रुतिर्हातव्या । न चास्माभिः सकृच्छ्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्यद्वय-सम्बन्धोऽभिप्रेयते श्रुत्यन्तरवशेन स्रष्टव्यान्तरोपसंग्रहात् । यथा च 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्' ( छां० ३।१।१ ) इत्यत्र साक्षादेव सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न प्रदेशान्तरविहितं तेजःप्रमुखमुत्पत्तिक्रमं वारयति, एवं तेजसोऽपि ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न श्रुत्यन्तरविहितं नभःप्रमुखमुत्पत्तिक्रमं वारयितुमर्हति ।

प्रतिज्ञा की हानि द्वारा वेद की अप्रमाणता करना युक्त नहीं है । जिससे उसी प्रकार प्रत्येक वेदान्त में वे-वे शब्द उस उस दुन्दुभी आदि दृष्टान्तों द्वारा उसी प्रतिज्ञा की स्थापना करते हैं कि ( यह आत्मा ही सब इस जगत् स्वरूप है ) यह अमृत ब्रह्म ही पूर्वदृष्ट वस्तु स्वरूप है ) इत्यादि वे शब्द हैं । इससे अग्नि आदि के समान ही आकाश उत्पन्न होता है । जो यह कहा था कि छान्दोग्य में आकाश की उत्पत्ति के अश्रवण से आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है । यह कहना अयुक्त है । क्योंकि आकाश की उत्पत्तिविषयक अन्य श्रुति का प्रदर्शन कराया गया है कि ( उस इस ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ ) । यदि कोई यहाँ कहे कि श्रुति प्रदर्शित कराई गई है, यह बात सत्य है, परन्तु वह ( उसने तेज को रचा ) इस अर्थ वाली दूसरी श्रुति से विरुद्ध है । इससे स्वार्थ में अप्रमाण है, तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सब श्रुतियों की एकवाक्यता है । यदि कहो कि अवरुद्ध श्रुतियों की एकवाक्यता हो, परन्तु यहाँ तो विरोध कहा जा चुका है कि एक बार सुना हुआ स्रष्टा का दो स्रष्टव्य ( कार्य ) के साथ सम्बन्ध के असम्भव से और दोनों को प्रथमजत्व के असम्भव से और वस्तु में बिकल्प के अभाव से एकवाक्यता नहीं हो सकती है । यहाँ मुख्य सिद्धान्ती कहते हैं कि यह दोष नहीं है, क्योंकि तैत्तिरीय श्रुति में तेज की सृष्टि को तृतीयत्व सुनने से कि ( इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु और वायु से अग्नि उत्पन्न हुई ) प्रकृति अर्थ में पञ्चमी विभक्ति क्रमादि के सुनने से यह श्रुति बलवती है । इससे ही यह श्रुति अन्य प्रकार से परिणत करने के अशक्य है ! क्रमादि के श्रवण से रहित छान्दोग्य श्रुति अन्यथा परिणत की जा सकती है कि ( उस ब्रह्म ने आकाश और वायु को रचकर तेज को रचा ) इससे दोनों श्रुति की एकवाक्यता होती है । यह छान्दोग्य श्रुति तेज की उत्पत्तिरूप प्रधान अर्थ वाली होती हुई अन्य श्रुति से प्रसिद्ध आकाश की उत्पत्ति का वारण नहीं कर सकती है, क्योंकि वाक्यभेद के प्रसंग से एक वाक्य के दो व्यापार ( तेज का उत्पत्ति-विधान और आकाशोत्पत्ति का निषेध ) का असम्भव है । यदि कहो कि एक वाक्य अनेक अर्थ को नहीं बोध कर सकता तो एक स्रष्टा अनेक स्रष्टव्य के साथ कैसे सम्बद्ध हो सकता है तो कहा जाता है कि स्रष्टा तो एक भी क्रम से अनेक स्रष्टव्य को उत्पन्न कर सकता है । अर्थात् एक

कर्ता विराम लेकर क्रम से अनेक कार्य करता है, वाक्य विराम लेकर अनेक अर्थ का बोध नहीं करता है। इससे एकवाक्यता की कल्पना के सम्भव रहते विरुद्धार्थत्व के द्वारा श्रुति त्याग के योग्य नहीं है। यदि कहो कि आवृत्ति रूप वाक्यभेद के बिना एक शब्द यदि अनेक अर्थ का बोध नहीं कराता है, तो ( तत्तेजोऽसृजत ) इस छान्दोग्य गत ( असृजत ) पद की आकाश वायु के साथ सम्बन्ध के लिए आवृत्ति करनी पड़ेगी यह एकवाक्यता पक्ष में दोष है, तो कहा जाता है कि हम लोग एक बार श्रुत स्रष्टा का दो स्रष्टव्य के साथ सम्बन्ध नहीं मानते हैं कि जिससे उसने आकाश लुजा इस प्रकार आवृत्ति करनी पड़े। किन्तु दूसरी श्रुति के बल से स्रष्टव्यान्तर आकाशादि का उपसंग्रह करते हैं। इससे श्रुत्यन्तर के अनुसार वाक्यान्तर की कल्पना होती है कि उसने आकाश को उत्पन्न किया इत्यादि। जैसे ( यह सब निश्चित ब्रह्मस्वरूप है, उसी में उत्पत्ति लय चेष्टा वाला है ) यहाँ सब वस्तुसमूह को साक्षात् ब्रह्म जन्मत्व सुना गया भी दूसरे स्थान में विहित तेज पूर्वक उत्पत्ति क्रम का वारण नहीं करता है। इसी प्रकार तेज को श्रुत ब्रह्मजत्व भी श्रुत्यन्तर में विहित आकाशपूर्वक उत्पत्ति क्रम का वारण करने के योग्य नहीं है।

ननु शमविधानार्थमेतद्वाक्यम् 'तज्जलानिति शान्त उपासीत' इति श्रुतेः नैतत्सृष्टिवाक्यं, तस्मादेतन्न प्रदेशान्तरप्रसिद्धं क्रममुपरोद्धुमर्हति, 'तत्तेजोऽसृजत' इत्येतत्सृष्टिवाक्यम्, तस्मादत्र यथाश्रुति क्रमो ग्रहीतव्य इति। नेत्युच्यते। नहि तेजःप्राथम्यानुरोधेन श्रुत्यन्तरप्रसिद्धो वियत्पदार्थः परित्यक्तव्यो भवति, पदार्थधर्मत्वात्क्रमस्य। अपि च 'तत्तेजोऽसृजत' इति नात्र क्रमस्य वाचकः कश्चिच्छब्दोऽस्ति। अर्थात् क्रमोऽवगम्यते, स च 'वायोरग्निः' इत्यनेन श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेन क्रमेण निवार्यते। विकल्पसमुच्चयौ तु वियत्तेजसोः प्रथमजत्वविषयावसंभवानभ्युपगमाभ्यां निवारितौ। तस्मान्नास्ति श्रुत्योर्विप्रतिषेधः। अपि च छान्दोग्ये 'येनाश्रुतं श्रुतं भवति' इत्येतां प्रतिज्ञां वाक्योपक्रमे श्रुतां समर्थयितुमसमान्नातमपि वियदुत्पत्तावुपसंख्यातव्यं, किमङ्ग पुनस्तैत्तिरीयके समान्नातं नभो न संगृह्यते। यच्चोक्तम्—आकाशस्य सर्वेणानन्यदेशकालत्वाद् ब्रह्मणा तत्कार्यैश्च सह विदितमेव तद्भवत्यतो न प्रतिज्ञा हीयते, न च 'एकमेवाद्वितीयम्' इति श्रुतिकोपो भवति, क्षीरोदकवद् ब्रह्मन्भसोरव्यतिरेकोपपत्तेः—इति। अत्रोच्यते। न क्षीरोदकन्यायेनेदमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं नेतव्यम्। सृदादिदृष्टान्तप्रणयनाद्धि प्रकृतिविकारन्यायेनैवेदं सर्वविज्ञानं नेतव्यमिति गम्यते। क्षीरोदकन्यायेन च सर्वविज्ञानं कल्प्यमानं न सम्यग् विज्ञानं स्यात्। न हि क्षीरज्ञानगृहीतस्योदकस्य सम्यग्विज्ञानगृहीतत्वमस्ति। न च वेदस्य पुरुषाणामिव मायालीकवञ्चनादिभिरर्थावधारणमुपपद्यते। सावधारणा चैवम् 'एकमेवाद्वितीयम्' इति श्रुतिः क्षीरोदकन्यायेन नीयमाना पीड्येत। न च स्वकार्यापेक्षयेदं वस्त्वेकदेशविषयं सर्वविज्ञानमेकमेवाद्वितीयतावधारणं चेति न्याय्यं,



मृदादिष्वपि हि तत्संभवान्न तदपूर्ववदुपन्यसितव्यं भवति 'श्वेतकेतो यन्तु सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राप्त्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवति' ( छां० ६।१।१ ) इत्यादिना । तस्माद्शेषवस्तुविषयमेवेदं सर्वविज्ञानं सर्वस्य ब्रह्मकार्यतापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम् ॥ ६ ॥

यदि कहो कि ( तज्जलानिति शान्त उपासीत ) इस प्रकार सुनने से यह वाक्य राम की विधि के लिये है । इससे यह सृष्टिविधायक वाक्य नहीं है, जिससे यह वाक्य दूसरे स्थान में प्रसिद्ध क्रम का उपरोध ( निवारण ) नहीं कर सकता है । ( तत्तेजोऽसृजत ) यह सृष्टि का विधायक वाक्य है जिससे यहाँ श्रुति के अनुसार क्रम ग्रहण के योग्य है । तो कहा जाता है कि यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि तेज की प्रथमता के अनुरोध से दूसरी श्रुति में प्रसिद्ध आकाशरूप पदार्थ परित्याग योग्य नहीं हो सकता है क्योंकि क्रम पदार्थ का धर्म है । धर्म से धर्मी पदार्थ प्रधान होता है, इससे धर्म-धर्मी के विरोध में धर्म के अनुसार किया जाता है । दूसरी बात है कि ( तत्तेजोऽसृजत ) इस छान्दोग्य श्रुति में क्रम का वाचक कोई शब्द नहीं है, किन्तु अर्थ से क्रम समझा जाता है । और वह क्रम ( वायु से अग्नि उत्पन्न हुई ) इस दूसरी श्रुति में प्रसिद्ध क्रम से निवारित होता है । आकाश तेज के प्रथमजन्यत्व-विषयक विकल्प और समुच्चय तो असम्भव और अनस्युपगम से निवारित ( अप्राप्त ) है । क्योंकि वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता है । ( वायोऽग्निः ) इस श्रुति से तेज के प्रथमजत्व के बाधित होने से प्रथमजन्यत्वो का समुच्चय भी नहीं होता है । इससे श्रुतियों का विरोध नहीं है । दूसरी बात है कि छान्दोग्य में वाक्य के आरम्भ में ( जिसके सुनने से अश्रुत भी श्रुत होता है ) इस सुनी हुई प्रतिज्ञा को समर्थन ( सिद्ध ) करने के लिये उत्पत्ति प्रकरण में अपठित भी आकाश उपसंख्या ( उपसग्रह ) के योग्य है तो हे अङ्ग ! ( प्यारे ) फिर तैत्तिरीयक में पठित आकाश क्यों नहीं सगृहीत किया जायगा । और जो यह कहा है कि आकाश को सबके साथ अभिन्न देश-काल वाला होने से ब्रह्म और उसके कार्यों के साथ में आकाश भी विदित ( ज्ञात ) ही हो जाता है । इससे आकाश की उत्पत्ति नहीं होने पर भी प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती है । ( एकमेवाद्वितीयम् ) इस श्रुति का भी कोप ( विरोध ) नहीं होता है क्योंकि दूध जल के समान ब्रह्म और आकाश के अभेद की सिद्धि होती है । यहाँ कहा जाता है कि क्षीरोदक न्याय ( दूध-जलतुल्यता ) से यह एक के विज्ञान से सबका विज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है, जिससे मृत्तिकादि दृष्टान्तों की रचना से प्रकृति-विकार न्याय ( प्रकृति से विकृति की अभेद दृष्टि ) से ही यह सबका विज्ञान प्राप्त करने योग्य है, ऐसी प्रतीति होती है । क्षीरोदक न्याय से कल्पित यह सर्वविज्ञान, सम्यग् विज्ञान नहीं होगा क्योंकि क्षीरविज्ञान ( बुद्धि ) से गृहीत जल को सम्यग् विज्ञान से गृहीतत्व ( ज्ञातत्व ) नहीं है क्योंकि वह ज्ञान भ्रान्ति रूप है । और वेदको भ्रान्तादि पुरुषों के समान भ्रान्तिरूप मायाजन्य मिथ्या भाषण रूप अलीक द्वारा वंचना आदिपूर्वक अर्थ का अवधारण सिद्ध नहीं हो सकता है अर्थात् भ्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा आदि से पुरुष के समान वेद मिथ्या-भ्रम ज्ञान का हेतु

नहीं है । ( एक अद्वितीय है ) यह अवधारणयुक्त श्रुति का कथन है, क्षीरोदक न्याय से नीयमान ( प्राप्त ) गौरण होने पर श्रुति पीडित ( बाधित ) होगी । अर्थात् सर्वद्वैत-निषेधपरक श्रुति का सर्वद्वैतनिषेध के बिना बाध होगा । जो यह कहा था कि अपने कार्यों की अपेक्षा से अद्वैतादि का कथन है यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि अपने कार्यों की अपेक्षा से वस्तु के एकदेशविषयक सर्वविज्ञान और एक अद्वितीयता का अवधारण ( निश्चय ) यह न्याययुक्त नहीं है । जिससे मृत्तिका आदि में भी उस स्वकार्यापेक्षा से अद्वैत सर्वविज्ञान के सम्भव से, वह अपूर्व के समान कथन के योग्य नहीं हो सकता है कि ( हे श्वेतकेतो हे सोम्य । ) जो तुम यह महामना अनुचानमानी ( अपने को साङ्ग वेदाध्यायी विनीतमानी ) और स्तब्ध ( अनम्र ) हो, क्या उस उपदेश को भी तुमने गुरु से पूछा है कि जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है । इत्यादि वचनों से अपूर्व के समान कथन किया गया है, जिससे सबको ब्रह्म कार्यत्व की अपेक्षा ( दृष्टि ) से अशेष वस्तु-विषयक ही यह सर्वविज्ञान कहा जाता है ऐसा समझना चाहिये ॥ ६ ॥

यत्पुनरेतदुक्तमसंभवाद्गौणी गगनस्योत्पत्तिश्रुतिरिति, तत्र ब्रूमः—

**यावद्विकारं तु विभागो लोकवत् ॥ ७ ॥**

तुशब्दोऽसम्भवाशङ्काव्यावृत्त्यर्थः । न खल्वाकाशोत्पत्तावसम्भवाशङ्का कर्तव्या, यतो यावत्किञ्चिद्विकारजातं दृश्यते घटघटिकोदञ्चनादि वा कटककेयूर-कुण्डलादि वा सूचीनाराचनिखिशादि वा तावानेव विभागो लोके लक्ष्यते, न त्वविकृतं किञ्चित्कुतश्चिद्विभक्तमुपलभ्यते । विभागश्चाकाशास्य पृथिव्यादि-भ्योऽवगम्यते, तस्मात्सोऽपि विकारो भवितुमर्हति । एतेन दिक्कालमनःपरमा-ण्वादीनां कार्यत्वं व्याख्यातम् । नन्वात्माप्याकाशादिभ्यो विभक्त इति तस्यापि कार्यत्वं घटादिवत्प्राप्नोति । न । 'आत्मन आकाशः सम्भूतः' ( तै० २१ ) इति श्रुतेः । यदि ह्यात्मापि विकारः स्यात्तस्मात्परमन्यन्न श्रुतमित्याकाशादि सर्वं कार्यं निरात्मकमात्मनः कार्यत्वे स्यात् । तथाच शून्यवादः प्रसज्येत । आत्म-त्वाच्चात्मनो निराकरणशङ्कानुपपत्तिः । न ह्यात्मागन्तुकः कस्यचित्, स्वयंसि-द्धत्वात् । न ह्यात्मात्मनः प्रमाणमपेक्ष्य सिध्यति । तस्य हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रमेयसिद्धय उपादीयन्ते । न ह्याकाशादयः पदार्थाः प्रमाणनिर-पेक्षाः स्वयंसिद्धाः केनचिदभ्युपगम्यन्ते । आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयत्वात् प्रागेव प्रमाणादिव्यवहारात्सिध्यति । न चेदृशस्य निराकरणं सम्भवति । आगन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते न स्वरूपम् । य एव हि निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम् । न ह्यग्नेरौष्ण्यमग्निना निराक्रियते, तथाह-मेवेदानीं जानामि वर्तमानं वस्त्वहमेवातीतमतीततरं चाज्ञासिषमहमेवानागतमनागततरं च ज्ञास्यामीत्यती-तानागतवर्तमानभावेनाऽन्यथा भवत्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातुरन्यथाभावोऽस्ति, सर्वदा वर्तमानस्वभावत्वात् । तथा भस्मीभवत्यपि देहे नात्मन उच्छेदो

वर्तमानस्वभावादन्यथास्वभावत्वं वा न सम्भावयितुं शक्यम् । एवमप्रत्याख्ये-  
यस्वभावत्वादेवाकार्यत्वमात्मनः कार्यत्वं चाकाशस्य ।

जो यह कहा है कि आकाश की उत्पत्ति के असम्भव से आकाश की उत्पत्ति-  
विषयक श्रुति गौणी है, वहाँ कहते हैं कि—

लोक के समान विकार का व्याप्य अवयव स्वरूपादि का विभाग है । इससे जहाँ  
विभाग है, वहाँ विकारत्व ( कार्यत्व ) अवश्य है । इसलिए आकाश की उत्पत्ति के  
असम्भव की आशंका की व्यावृत्ति के लिए सूत्र में तु शब्द पढा गया है, कि यहाँ  
असम्भव की आशंका भी नहीं हो सकती, निश्चय तो दूर रहा । इसीसे आकाश की उत्पत्ति  
में असम्भव की आशंका भी नहीं करना चाहिये । जिससे घट, घटिका, उदञ्चन आदि  
वा कटक, केयूर, कुण्डल आदि, वा सुई, बाण, तरवार आदि जो कुछ मृत्तिका, सुवर्ण,  
लोहे आदि के विकार जितने दीखते हैं, उतना ही विभाग लोक में देखा जाता है ।  
विकाररहित कुछ भी किसी से विभक्त ( विभाग वाला ) नहीं उपलब्ध होता है ।  
अर्थात् घट कारण रूप से मृत्तिका में रहते भी जब तक विकाररूपता को नहीं प्राप्त होता  
है, तब तक मृत्तिका से विभक्त रूप से नहीं प्रतीत होता है । आकाश को पृथिवी आदि  
से विभाग अद्वय ( ज्ञात ) होता है । सत्य आत्मा के समान आकाश सर्वरूप नहीं  
भासता है । तथा भूमि में यह आकाश का प्रदेश है, इत्यादि रूप से आकाश के प्रदेश  
अवयव भासते हैं, जिससे वह आकाश भी भूमि घटादि के समान विकार होने के योग्य  
है । इस विभक्तरूपता से ही दिशा, काल, मन, परमाणु आदि के कार्यत्व भी व्याख्यात  
( कथित ) हो गये । यद्यपि आत्मा के निरवयव, निर्गुण, निष्क्रिय, सर्वात्मा, सत्तारूप से  
सर्वस्वरूप होने से उसको वस्तुतः आकाशादि से विभक्तत्व नहीं है, तथापि सामान्य दृष्टि  
से शंका होती है कि आत्मत्व रूप से आत्मा भी आकाशादि से विभक्त है, इससे उसको  
भी घटादि के समान कार्यत्व प्राप्त होता है । वहाँ आत्मा से अन्यत्व होते विभक्तत्व ही  
कार्यत्व का बोधक होता है इस आशय से कहा जाता है कि ( आत्मा से आकाश उत्पन्न  
हुआ ) इस श्रुति से आत्मा को कार्यत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है । धर्मिसमसत्ताक  
विभाग से कार्यत्व की सिद्धि होती है । आत्मा में कल्पित विभाग है । और वस्तुतः  
यह विभाग रूप हेतु आत्मभिन्न द्रव्यों के कार्यत्व का अनुमापक है । इससे अज्ञान और  
उसके सम्बन्धादि में भी कार्यत्व की प्राप्ति नहीं होती है । यदि आत्मा भी विकार होगा  
तो उससे पर ( श्रेष्ठ कारण ) अन्य श्रुति में सुना नहीं गया है, इससे आत्मा के कार्यत्व  
होने पर आकाशादि सब कार्य निरात्मक ( निरूपादान ) होंगे । ऐसा होनेसे श्रुति से निषिद्ध  
शून्यवाद की प्राप्ति होगी । आत्मत्व से ही आत्मा के निराकरण की आशंका की अनुप-  
पत्ति है, अग्नि अपने को आप नहीं जलाती है । वैसे ही अपने से अपना निराकरण नहीं  
हो सकता है । आत्मा किसी कारण का आगन्तुक ( कार्यस्वरूप ) नहीं है कि जिससे  
कारण में विलय अप्रकाशादि रूप निराकरण हो सके क्योंकि आत्मा स्वयसिद्ध ( अनादि

स्वय प्रकाश स्वरूप ) है । इसीसे प्रमाणों की अपेक्षापूर्वक प्रमाणाधीन आत्मा की सिद्धि नहीं होती है, जिससे प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति इन सबकी सिद्धि होती है उस की सिद्धि के लिये प्रमाण की अपेक्षा नहीं हो सकती । इससे श्रुति से भी आत्मा स्वय प्रकाशादि कहा जाता है । तो भी आत्मसम्बन्धी प्रत्यक्षादि प्रमाण अप्रसिद्ध प्रमेयों की सिद्धि ( ज्ञान ) के लिये गृहीत होते हैं । क्योंकि आकाशादि रूप अनात्म पदार्थ प्रमाणों की अपेक्षा के बिना स्वयसिद्ध किसी से नहीं माने जाते हैं, इससे प्रमाणों की भी सफलता है । आत्मा की सिद्धि प्रमाणाधीन इसलिए नहीं है कि जिससे प्रमाणादि व्यवहारों के आश्रयरूप होने से प्रमाणादि के व्यवहारों से पूर्व ही सर्वसाक्षी रूप आत्मा सिद्ध प्रकाश स्वरूप वर्तमान रहता है । इस प्रकार निराकरण का भी प्रकाशादि स्वरूप ऐसे आत्मा के निराकरण का सम्भव नहीं है । जिससे आगन्तुक कार्य रूप जडवस्तु का निराकरण किया जाता है । साक्षी स्वरूप का नहीं । जिससे जो ही निराकरण करने वाला है, वह जिस आत्मा का निराकरण कर्ता है वह उसका स्वरूप है । इससे वह अपना निराकरण आप कर नहीं सकता है । जैसे कि अग्नि की उष्णता अग्नि से नहीं निराकृत होती है । इसी प्रकार मैं ही इस समय वर्तमान वस्तु को जानता हूँ । मैं ने ही अतीत ( भूत ) और अति अतीत को समझा था । मैं ही भावी और अतिभावी को समझूंगा । इस प्रकार भूत-भावी-वर्तमान रूप से ज्ञातव्य अनात्म वस्तु के अन्यथा भाव ( भेद ) होने पर भी ज्ञाता आत्मा का अन्यथा भाव नहीं होता है । सर्वदा वर्तमान स्वभावत्व से अन्यथाभाव से रहित आत्मा रहता है । इसी प्रकार देह के भस्मीभूत ( नष्ट ) होने पर भी आत्मा के वर्तमान स्वभावत्व से उसके उच्छेद ( नाश ) वा अन्यथा भाव ( मिथ्यात्व ) की सम्भावना नहीं की जा सकती है । इस पूर्व कही रीति से आत्मा के प्रत्याख्यान के अयोग्य स्वभाव वाला होने से उसको अकार्यत्व है । मायाशक्ति सहित आत्मा ही आकाश की उत्पत्ति की हेतु-सामग्री रूप है, इससे आकाश को कार्यत्व है ।

यत्तुक्तं—समानजातीयमनेकं कारणद्रव्यं व्योम्नो नास्ति—इति, तत्प्रत्युच्यते । न तावत्समानजातीयमेवारभते न भिन्नजातीयमिति नियमोऽस्ति । नहि तन्तूनां तत्संयोगानां च समानजातीयत्वमस्ति, द्रव्यगुणत्वाभ्युपगमात् । न च निमित्तकारणानामपि तुरीवेमादीनां समानजातीयत्वनियमोऽस्ति । स्यादेतत् । समवायिकारणविषय एव समानजातीयत्वानभ्युपगमो न कारणान्तरविषय इति । तदप्यनैकान्तिकम् । सूत्रगोवालैङ्घनेकजातीयैरेका रब्जुः सृज्यमाना दृश्यते । तथा सूत्रैरूर्णादिभिश्च विचित्रान्कम्बलान्वितन्वते । सत्त्वद्रव्यत्वाद्यपेक्षया वा समानजातीयत्वे कल्प्यमाने नियमानर्थक्यं, सर्वस्य सर्वेण समानजातीयकत्वात् । नाप्यनेकमेवारभते नैकमिति नियमोऽस्ति, अणुमनसोराद्यकर्मारम्भाभ्युपगमात् । एकैको हि परमाणुर्मवश्चाद्यं स्वकर्मारभते न द्रव्यान्तरैः संहत्येत्यभ्युपगम्यते । द्रव्यारम्भे एवानेकारम्भकत्वनियम इति ।

चेत् । न । परिणामाभ्युपगमात् । भवेदेष नियमो यदि संयोगसचिवं द्रव्यं द्रव्यान्तरस्यारम्भकमभ्युपगम्यते । तदेव तु द्रव्यं विशेषवदवस्थान्तरमापद्यमानं कार्यं नामाभ्युपगम्यते । तच्च क्वचिदनेकं परिणमते मृद्धीजाद्यङ्कुरादिभावेन, क्वचिदेकं परिणमते क्षीरादि दध्यादिभावेन । नेश्वरशासनमस्त्यनेकमेव कारणं कार्यं जनयतीति । अतः श्रुतिप्रामाण्यादेकस्माद् ब्रह्मण आकाशादिमहाभूतोत्पत्तिक्रमेण जगज्जातमिति निश्चीयते । तथा चोक्तम्—“उपसंहारदर्शनाच्चेति चेन्न क्षीरवद्धि” ( ब्र० सू० २।१।२४ ) इति ।

जो यह कहा था कि द्रव्य की उत्पत्ति में समानजातीय अनेक द्रव्य कारण होता है, वह आकाश के कारण रूप सजातीय अनेक द्रव्य नहीं हैं, उसके प्रति कहा जाता है कि समान ( एक ) जाति वाला कारण ही आरम्भ करता है, भिन्न जाति वाला आरम्भ नहीं करता है, यह नियम नहीं है, क्योंकि तन्तु और उसके संयोग में द्रव्यत्व और गुणत्व के स्वीकार से उनमें समानजातीयत्व नहीं है । संयोगसहित तन्तु पट का आरम्भ करते हैं । और पट के निमित्त कारण तुरी-वेमादि को भी समान जातीयत्व नहीं है । यदि कहो कि असमवायी और निमित्त कारण में यह सजातीयता का अभाव हो सकता है, क्योंकि समवायिकारणविषयक ही सजातीयत्व का अभ्युपगम (स्वीकार) है । अन्य कारणविषयक नहीं । तो कहा जाता है कि वह समवायि कारण में भी सजातीयत्व अनैकान्तिक है, सर्वत्र नहीं है, क्योंकि अनेक जाति वाले सूत्र ( तन्तु ) और गो-बालो के द्वारा बनाई गई एक रज्जु देखी जाती है । इसी प्रकार सूत्र और ऊन आदि के द्वारा विभिन्न कम्बलो की रचना करते हैं । सत्त्व-द्रव्यत्वादि की दृष्टि से समानजातीयत्व की कल्पना करने पर नियम की अनर्थकता होती है, क्योंकि सत्त्वादि रूपसे सब द्रव्य को सब के साथ समानजातीयत्व है । और यह भी नियम नहीं है कि अनेक ही समवायि कारण आरम्भ करता है, एक कारण कार्य का आरम्भ नहीं करता है । क्योंकि परमाणु और मन के आद्य कर्म का आरम्भ माना गया है और माना जाता है कि अन्य द्रव्यों के साथ मिले बिना ही एक एक परमाणु और मन अपने आद्य कर्म का आरम्भ करते हैं । यदि कहो कि द्रव्य के आरम्भ में ही अनेक के आरम्भकत्व का नियम है, तो कहा जाता है कि परिणाम के स्वीकार से यह नियम नहीं हो सकता है । यह नियम होता, यदि संयोगसहित द्रव्य को द्रव्य का आरम्भक माना जाता, परन्तु ऐसा नहीं माना जाता है, अतः यह नियम नहीं है । किन्तु वही कारण रूप द्रव्य विशेष वाला अवस्थान्तर को प्राप्त होने पर कार्य नाम स्वीकार किया जाता है, वे कहीं अनेक द्रव्य मृत्तिका और बीजादि अङ्कुर आदि रूप से परिणत होते हैं । कहीं एक क्षीरादि दधि आदि रूप से परिणत होता है । ईश्वर का शासन नहीं है कि अनेक ही कारण कार्य को उत्पन्न करते हैं । इससे एक ब्रह्म से आकाशादि महाभूतो की उत्पत्ति के क्रम से जगत् उत्पन्न हुआ इस प्रकार श्रुति की प्रामाण्यता से

निश्चय किया जाता है। इसी प्रकार सूत्रकार ने कहा है कि ( कार्य की उत्पत्ति में अनेक साधन का उपसंहार संग्रह देखा गया है, इससे साधन संग्रह रहित ब्रह्म से जगत् नहीं हो सकता यदि ऐसा कही, तो वह ठीक नहीं क्षीर के समान सहाय रहित ब्रह्म जगत् का कारण है।

यच्चोक्तम्—आकाशस्योत्पत्तौ न पूर्वोत्तरकालयोर्विशेषः संभावयितुं शक्यत—इति । तदयुक्तम् । येनैव हि विशेषेण पृथिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्यमानं नभः स्वरूपवदिदानीमध्यवसीयते स एव विशेषः प्रागुत्पत्तेर्नासीदिति गम्यते । यथा च ब्रह्म न स्थूलादिभिः पृथिव्यादिस्वभावैः स्वभाववत्, 'अस्थूलमनणु' ( बृ० ३।८।८ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः, एवमाकाशस्वभावेनापि न स्वभाववदनाकाशमिति श्रुतेरवगम्यते । तस्मात्प्रागुत्पत्तेर्नाकाशमिति स्थितम् । यदप्युक्तं—पृथिव्यादिवैधर्म्यादाकाशस्याजत्वम्—इति । तदप्यसत् । श्रुतिविरोधे सत्युत्पत्त्यसंभवानुमानस्याभासत्वोपपत्तेः, उत्पत्त्यनुमानस्य च दर्शितत्वात्, अनित्यमाकाशमनित्यगुणाश्रयत्वाद्वादादिवदित्यादिप्रयोगसंभवाच्च । आत्मन्यनैकान्तिकमिति चेत् । न । तस्यौपनिषदं प्रत्यनित्यगुणाश्रयत्वासिद्धेः । विभुत्वादीनां चाकाशस्योत्पत्तिवादिनं प्रत्यसिद्धत्वात् । यच्चोक्तमेतच्छब्दाच्चेति, तत्रामृतत्वश्रुतिस्तावद्वियत्यमृतादिवौकस इतिवद् द्रष्टव्या । उत्पत्तिप्रलययोरुपपादितत्वात् 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इत्यपि प्रसिद्धमहत्त्वेनाकाशेनोपमानं क्रियते निरतिशयमहत्त्वाय नाकाशसमत्वाय, यथेषुरिव सविता धावतीति क्षिप्रगतित्वायोच्यते नेषुतुल्यगतित्वाय तद्वत् । एतेनानन्तत्वोपमानश्रुतिर्व्याख्याता । 'ज्यायानाकाशात्' इत्यादिश्रुतिभ्यश्च ब्रह्मण आकाशस्योपरिमाणत्वसिद्धिः । 'न तस्य प्रतिमास्ति' ( श्वे० ४।१६ ) इति च ब्रह्मणोऽनुपमानत्वं दर्शयति, 'अतोऽन्यदार्तम्' ( बृ० ३।४।२ ) इति च ब्रह्मणोऽन्येषामाकाशादीनामार्तत्वं दर्शयति । तपसि ब्रह्मशब्दवदाकाशस्य जन्मश्रुतेर्गौणत्वमित्येतदाकाशसंभवश्रुत्यनुमानाभ्यां परिहृतम् । तस्माद् ब्रह्मकार्यं वियदिति सिद्धम् ॥७॥

जो यह कहा है कि आकाश की उत्पत्ति में पूर्व और उत्तरकाल में विशेष की सम्भावना नहीं की जा सकती है, वह भी कहना अयुक्त है, क्योंकि जिस शब्दाश्रयत्व रूप विशेष से पृथिवी आदि से व्यतिरिच्यमान (व्यतिरिक्त भिन्न) आकाश स्वरूप वाला इस समय निश्चित होता है, वही विशेष उत्पत्ति से प्रथम नहीं था, यह समझा जाता है । ( अस्थूलमनणु ) इत्यादि श्रुतियों से जैसे स्थूलादि पृथिवी आदि के स्वभावों से युक्त स्वभाव वाला ब्रह्म नहीं है । इसी प्रकार ( अनाकाशम् ) इस श्रुति से आकाश के स्वभाव से युक्त स्वभाव वाला भी ब्रह्म नहीं है । ऐसा समझा जाता है । ( आकाशशरीर ब्रह्म ) इस श्रुति का असंगता आदि रूप आकाशसदृशता में तात्पर्य है । इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि ( आकाशशरीरं ब्रह्म ) इस श्रुति से आकाश स्वभाव

वाला ब्रह्म है, इससे आकाश भी ब्रह्म के समान नित्य ही है, इत्यादि । इससे आकाश की उत्पत्ति से पूर्वकाल में अनाकाश ( आकाशरहित ) ब्रह्म था, यह स्थित ( निश्चित ) हुआ । इसीसे, जो यह भी कहा था कि पृथिवी आदि से विरोधी धर्म विभुत्वादि वाला आकाश के होने से अजत्व है, वह भी कथन अयुक्त है । श्रुति से विरोध रहते आकाश की उत्पत्ति के असम्भव के अनुमान को आभासत्व ( मिथ्यात्व ) सिद्ध होता है । आकाश की उत्पत्ति का अनुमान प्रदर्शित कराया गया है कि विभक्त होने से आकाश पृथिवी आदि के समान कार्य है । अनित्य गुण का आश्रय होने से घटादि के समान आकाश अनित्य है । इत्यादि प्रयोग ( अनुमान ) का भी संभव होने से आकाश की उत्पत्ति सिद्ध होती है, क्योंकि धर्मों में विकार के बिना गुण का नाश नहीं हो सकता है । वस्तुतः गुणवान् सब अनित्य हैं, निर्गुण आत्मा ही नित्य है । इससे यदि कहो कि आत्मा में यह अनित्य गुणवत्त्व वा गुणवत्त्व हेतु अनैकान्तिक ( व्यभिचारी ) है, अनित्यता के बिना कामादि अनित्य गुण वाला आत्मा है । तो वह कहना वेदान्तवादी के प्रति नहीं बन सकता है, क्योंकि उस आत्मा को उपनिषद्वादी के प्रति अनित्यगुणादि के आश्रयत्व की असिद्धि है । आकाश की उत्पत्तिवादी के प्रति आकाश के विभुत्वादि की असिद्धि से आकाश का नित्यत्व नहीं सिद्ध हो सकता है । वेदान्त में सर्वस्वरूपत्व ही विभुत्व है, वह आत्मा से अन्य में नहीं रह सकता है । जो यह कहा है कि ( एतदमृतम् ) इस शब्द से आकाश नित्य है । वहाँ आकाश विषयक अमृतत्व की श्रुति को स्वर्गवासी देव अमृत हैं इसके समान चिरस्थायिता के तात्पर्य से समझना चाहिये, क्योंकि आकाश के उत्पत्ति और प्रलय का उपपादन ( प्रतिपादन ) किया गया है । आकाश के समान आत्मा सर्वगत नित्य है, यह श्रुतिकथन भी प्रसिद्ध महत्त्व वाला आकाश द्वारा आत्मा में निरतिशय महत्त्व समझाने के लिये उपमान किया जाता है, आकाश की तुल्यता समझाने के लिये नहीं, जिससे आत्मा और आकाश के विभुत्वादि तुल्य नहीं है ( ज्यायानाकाशात् ) आकाश से अत्यन्त बड़ा आत्मा है, यह श्रुति का कथन है । इससे जैसे बाण के समान सूर्य दौड़ता है, यह कथन, शीघ्रगामिता को समझाने के लिए होता है, बाणतुल्यगतित्व समझाने के लिए नहीं, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए । और इस आकाश के कार्यत्व अनित्यत्व के व्याख्यान से ही ( स यथाऽनन्तोऽयमाकाश एवमनन्त आत्मा ) जैसे यह प्रसिद्ध आकाश अनन्त है, इसी प्रकार आत्मा अनन्त है । यह अनन्तत्व-विषयक उपमान श्रुति भी व्याख्यात हो गई, अर्थात् यह श्रुति प्रसिद्ध अनन्तता द्वारा मुख्य निरतिशय अनन्तता का आत्मा में बोध कराती है, तुल्य अनन्तता में तात्पर्य नहीं है । जिससे ( ज्यायानाकाशात् ) इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म से आकाश के न्यून-परिमाणत्व की सिद्धि होती है । और (उस ब्रह्म के प्रतिमा-उपमा नहीं है) यह वचन ब्रह्म को उपमानरहितत्व दिखाता है । ( अतोऽन्यदातम् ) यह वचन ब्रह्म से अन्य आकाशादि को आर्तत्व ( अनित्यत्व ) दिखाता है । और तप में ब्रह्म शब्द के समान आकाश के

जन्म श्रुति को गौणत्व है, इसका आकाश की उत्पत्ति श्रुति और अनुमान से परिहार ( खण्डन ) किया गया है। इससे ब्रह्म का कार्य आकाश है। यह सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

### मातरिश्वाधिकरण ॥ २ ॥

वायुर्नित्यो जायते वा छान्दोग्येऽजन्मकीर्तनात् । सैषानस्तमिता देवतेत्युक्तेर्न च जायते ॥१॥  
श्रुत्यन्तरोपसंहाराद्गौण्यनस्तमयश्रुतिः । वियद्वजायते वायुः स्वरूपं ब्रह्म कारणम् ॥ २ ॥

मातरिश्वा वायु को कहते हैं, वह नित्य है, या उत्पन्न होता है, यह संशय है। पूर्वपक्ष है कि छान्दोग्य श्रुति में वायु के जन्म के अकथन से, और बृहदारण्यक में तो यह वायु अनस्तमित ( अविनाशी ) देवता है, इस कथन से वायु नहीं उत्पन्न होता है। सिद्धान्त है कि छान्दोग्य में वायु के जन्म का अश्रवण होते भी तैत्तिरीयक श्रुति में श्रुत जन्म का छान्दोग्य में भी उपसंहार ( ग्रहण ) करने से वायु की अविनाश-श्रुति चिरस्थायित्व दृष्टि से गौणी है, इससे आकाश के समान वायु भी उत्पन्न होता है। और सर्वात्मा ब्रह्म आकाश स्वरूप से वायु का कारण है ॥ १-२ ॥

### एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥

अतिदेशोऽयम् । एतेन वियद्व्याख्यानेन मातरिश्वापि वियदाश्रयो वायु-  
र्व्याख्यातः । तत्राप्येते यथायोगं पक्षा रचयितव्याः । न वायुरुत्पद्यते छान्दो-  
गानामुत्पत्तिप्रकरणेऽनाम्नानादित्येकः पक्षः । अस्ति तु तैत्तिरीयानामुत्पत्तिप्र-  
करणे आम्रानम् 'आकाशाद्वायुः' ( तै० २।१ ) इति पक्षान्तरम् । ततश्च श्रुत्यो-  
र्विप्रतिषेधे सति गौणी वायोरुत्पत्तिश्रुतिरसंभवादित्यपरोऽभिप्रायः । असंभ-  
वश्च 'सैषानस्तमिता देवता यद्वायुः' ( बृ० १।५।२२ ) इत्यस्तमयप्रतिषेधात्,  
अमृतत्वादिश्रवणाच्च । प्रतिज्ञानुपरोधाद्यावद्विकारं च विभागाभ्युपगमादुत्पद्यते  
वायुरिति सिद्धान्तः । अस्तमयप्रतिषेधोऽपरविद्याविषय आपेक्षिकः, अग्न्यादी-  
नामिव वायोरस्तमयाभावात् । कृतप्रतिविधानं चामृतत्वादिश्रवणम् । ननु  
वायोराकाशस्य च तुल्ययोरुत्पत्तिप्रकरणे श्रवणाश्रवणयोरेकमेवाधिकरणमुभय-  
विषयमस्तु किमतिदेशोनासति विशेष इति । उच्यते । सत्यमेवमेतत् । तथापि  
मन्दधियां शब्दमात्रकृताशङ्कानिवृत्त्यर्थोऽयमतिदेशः क्रियते । संवर्गविद्यादिषु  
ह्युपास्यतया वायोर्महाभागत्वश्रवणात्, अस्तमयप्रतिषेधादिभ्यश्च भवति  
नित्यत्वाशङ्का कस्यचिदिति ॥ ८ ॥

यह सूत्र अतिदेश रूप है, पूर्व के सादृश्य का बोधक है, कि इस पूर्वोक्त आकाश के व्याख्यान से मातरिश्वा भी—आकाशाश्रय वाला वायु भी व्याख्यात ही हो गया। इससे वह वायुविषयक भी ये वक्ष्यमाण पक्ष यथायोग्य रचना के योग्य हैं। यहाँ छान्दोग्य शास्त्र वालों के उत्पत्ति-प्रकरण में वायु के अकथन से वायु की उत्पत्ति नहीं होती है, यह



एक पक्ष है। और तैत्तिरीयो के उत्पत्ति प्रकरण में (आकाश से वायु होता है) इस प्रकार उत्पत्ति का कथन है, यह दूसरा पक्ष है। दो प्रकार के कथन से श्रुतियों का विरोध होने पर और वायु की उत्पत्ति के असम्भव से अर्थात् अस्तमय के प्रतिषेध से उत्पत्ति के अभाव से वायु की उत्पत्तिविषयक श्रुति गौणी है। यह अन्य अभिप्राय (तीसरा पक्ष) है। (जो यह वायु है वह अनस्तमित देवता है) इस प्रकार नाश के प्रतिषेध से तथा अमृतत्वादि के श्रवण से उत्पत्ति का असम्भव है। और गौणी उत्पत्ति से श्रुतियों का अविरोध है। और वायु की उत्पत्ति से ही एक के ज्ञान से सबके ज्ञानविषयक प्रतिज्ञा के अनुपरोध (अबाध) से तथा विकारमात्र में विभाग के स्वीकार से वायु उत्पन्न होता है, यह सिद्धान्त है। और वायु के विनाश का जो प्रतिषेध है, वह अपरविद्यः (उपासना) विषयक अर्थवाद (स्तुति) रूप और आपेक्षिक है, जिससे अग्नि आदि के समान वायु का शीघ्र विनाश नहीं होता है। अमृतत्वादि श्रुतियों का समाधान प्रथम किया जा चुका है। यहाँ शंका होती है कि वायु और आकाश के उत्पत्ति-प्रकरण में श्रवण और अश्रवण के तुल्य रहते दोनों विषयक एक ही अधिकरण होना चाहिए। विशेष (भेद) के नहीं रहने पर अतिदेश से क्या फल है। यहाँ उत्तर कहा जाता है कि यह तुल्यता सत्य ही है, तो भी मन्द बुद्धि वालों की अर्थ को समझे बिना शब्दमात्र से जन्य शकाओं की निवृत्ति के लिए अतिदेश किया गया है। जिससे संवर्गादि विद्याओं में उपास्य रूप से वायु के महाभाग्यत्व के श्रवण से, तथा विनाश के प्रतिषेधादि से वायु के नित्यत्व की आशंका किसी को होती है। इत्यादि ॥ ८ ॥

### असम्भवाधिकरण ॥ ३ ॥

सद्ब्रह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते । यत्कारणं जायते तद्विद्यद्वाय्वादयो यथा ॥ १ ॥  
असतोऽकारणत्वेन खादीनां सत् उद्भवात् । न्यासेरजादिवाक्येन बाधात्सन्नैव जायते ॥ २ ॥

अनुपपत्ति से सत् की उत्पत्ति का असम्भव है, अर्थात् अनवस्था आदि दोष से और सत् शब्दार्थत्व की अनुपपत्ति विकारत्व की अनुपपत्ति से सत् का असम्भव जन्माभाव है। तो भी सामान्य दृष्टि संशय होता है कि (नित्यो नित्यानाम् । सत् सत्यम्) इत्यादि में कथित जैसे अन्य नित्य सत्यशब्द के अर्थ उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सत्य शब्द का अर्थरूप ब्रह्म उत्पन्न होता है कि नहीं उत्पन्न होता है। पूर्वपक्ष है कि जो-जो आकाशादि कारण है, वह सब जैसे उत्पन्न होते हैं, वैसे ब्रह्म भी कारण है। इससे ब्रह्म उत्पन्न होता है, अर्थात् कारण रूप से आकाशादि सब सत्य ब्रह्मस्वरूप ही हैं, इनका आरम्भ नहीं होता है, यह सिद्धान्त है। यहाँ सत्स्वरूप आकाशादि की अवस्थान्तर की प्राप्ति रूप जैसे उत्पत्ति होती है, वैसे ही ब्रह्म को भी अवस्थान्तर की प्राप्ति होती है। सिद्धान्त है कि अवस्थान्तर की प्राप्ति जो अन्य कारण के द्वारा होती है, वह उत्पत्ति कहलाती है। और ब्रह्म की अवस्थान्तर की प्राप्ति में असत् कारण नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुति कहती है कि (कथमसत्तः सञ्जायेत)

असत् से सत् कैसे उत्पन्न होगा । और आकाशादि की सत् से उत्पत्ति होती है । ये उस सत् की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकते, और ( स वा एष महानज आत्मा ) इत्यादि वाक्यों से कारणत्वगत जन्यत्व की व्याप्ति के बाध से सत् ब्रह्म नहीं उत्पन्न होता है, अन्य कारणाधीन अवस्थान्तर को नहीं प्राप्त होता है इत्यादि ॥ १-२ ॥

### असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ ९ ॥

वियत्पवनयोरसम्भाव्यमानजन्मनोरप्युत्पत्तिमुपश्रुत्य ब्रह्मणोऽपि भवेत्कुत-  
श्चिदुत्पत्तिरिति स्यात्कस्यचिन्मतिः । तथा विकारेभ्य एवाकाशादिभ्य उत्तरेषां  
विकाराणामुत्पत्तिमुपश्रुत्याकाशस्यापि विकारादेव ब्रह्मण उत्पत्तिरिति कश्चिन्म-  
न्येत, तामाशङ्कामपनेतुमिदं सूत्रम्—‘असम्भवस्तु’ इति । न खलु ब्रह्मणः  
सदात्मकस्य कुतश्चिदन्यतः सम्भव उत्पत्तिराशङ्कितव्या, कस्मात् ? अनुप-  
पत्तेः । सन्मात्रं हि ब्रह्म, न तस्य सन्मात्रादेवोत्पत्तिः सम्भवति, असत्यतिशये  
प्रकृतिविकारभावानुपपत्तेः । नापि सद्विशेषाद्, दृष्टविपर्ययात् । सामान्याद्धि  
विशेषा उत्पद्यमाना दृश्यन्ते मृदादेर्घटादयो, न तु विशेषेभ्यः सामान्यम् ।  
नाप्यसतो निरात्मकत्वात्, ‘कथमसतः सज्जायेत’ ( छां० ८।११ ) इति चाक्षे-  
पश्रवणात् । ‘स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः’  
( श्वे० ६।६ ) इति च ब्रह्मणो जनयितारं वारयति । वियत्पवनयोः पुनरुत्पत्तिः  
प्रदर्शिता न तु ब्रह्मणः सास्तीति वैषम्यम् । न च विकारेभ्यो विकारान्तरोत्प-  
त्तिदर्शनाद् ब्रह्मणोऽपि विकारत्वं भवितुमर्हतीति, मूलप्रकृत्यनभ्युपगमेऽनव-  
स्थाप्रसङ्गात् । या मूलप्रकृतिरभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रह्मेत्यविरोधः ॥ ६ ॥

अमृतत्वादि के सुनने से महत्त्व विभुत्वादि की प्रसिद्धि से जिनकी उत्पत्ति असम्भा-  
व्यमान ( असम्भवस्वरूप ) है । उन आकाश और वायु की उत्पत्ति को सुनकर, असम्भव  
जन्म वाला ब्रह्म का भी किसी से उत्पत्ति सिद्ध होगी, ऐसी किसी की बुद्धि हो सकती  
है । इसी प्रकार पूर्व-पूर्व विकार रूप ही आकाशादि से उत्तर-उत्तर विकारो की  
उत्पत्ति को सुनकर आकाश की उत्पत्ति भी विकार रूप ब्रह्म से ही होती है, ऐसा भी  
कोई समझेगा । अर्थात् बीजाङ्कुर न्याय से सबमे कार्यत्व की शका से युक्त होमा । इस  
शका की निवृत्ति के लिए यह सूत्र है कि ( असम्भवस्तु ) इत्यादि । सत् स्वरूप ब्रह्म  
का किसी अन्य से सम्भव ( उत्पत्ति ) की आशंका करने योग्य नहीं है । क्योंकि  
अनुपपत्ति से ब्रह्म का सम्भव ( जन्म ) नहीं होता है । जिससे सत्मात्र ब्रह्म है, जिस  
सत्मात्र सत्सामान्य का सत्मात्र से ही उत्पत्ति नहीं हो सकती है । क्योंकि अतिशय  
( भेद ) बिना प्रकृति विकारभाव की असिद्धि होती है । दृष्ट विपर्यय रूप दोष से किसी  
सत् विशेष से भी सत् सामान्य रूप ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जिससे सामान्य  
स्वरूप मृत्तिकादि से विशेष रूप घटादि उत्पन्न होते देखे जाते हैं । और विशेषों

से उत्पन्न होता हुआ सामान्य नहीं देखा जाता है । और निरात्म होने से तथा असत् से सत् कैसे उत्पन्न होगा, इस प्रकार श्रुति में आक्षेप सुनने से असत् से भी सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । और (वह कारण है, तथा इन्द्रियों के स्वामीरूप जीवों का भी स्वामी है, और उसके कोई जनयिता पिता वा स्वामी नहीं है ) यह श्रुति ब्रह्म के जनयिता का वारण करती है । और आकाश तथा वायु की उत्पत्ति प्रदर्शित कराई गई है, और ब्रह्म की वह उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इससे कारणत्व होने पर भी यह विषमता है । इस प्रकार की विषमता से ही विकारों से विकारान्तर की उत्पत्ति देखने मात्र से ब्रह्म को भी विकारत्व नहीं होने के योग्य है । क्योंकि ब्रह्म को विकाररहित मूल प्रकृति नहीं मानने पर अनवस्था की प्राप्ति होगी, इससे ब्रह्म को विकार मानने पर भी अनवस्था का निवारण के लिए जो मूल प्रकृति मानी जायगी, वही हमारा मन्तव्य ब्रह्म है । इससे विरोध नहीं है । भाव है कि सत्यकार्य कारणभाव हो तो बीजाङ्कुर न्याय से अनवस्थायुक्त होने पर भी दृष्ट नहीं हो सकता है, परन्तु कल्पित कार्यकारण भाव सत् अधिष्ठान के बिना असम्भव है । इससे सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है वह सत्य उत्पत्तिरहित है । सतः सत्त्वान्न वै जन्म नासतोऽपि ह्यसत्त्वत । जनिमत्त्वं तु जन्यस्य साधिकत्वसमर्पकम् ॥१॥ नाधिष्ठानं विहायात्र माया क्वापि प्रदृश्यते । अनिर्वाच्या ततो माया नित्त्व ब्रह्माश्रिता स्थिता ॥२॥ मायया प्रकृतिर्ब्रह्म तयाऽवस्थान्तरं व्रजेत् । स्वयं नान्यवर्धं गत्वा स्वरूपेणातिनिर्मलम् ॥३॥

### तेजोऽधिकरण ॥ ४ ॥

ब्रह्मणो जायते वह्निर्वाथोर्वा ब्रह्मसंयुतात् । तत्तेजोऽसृजतेत्युक्तेर्ब्रह्मणो जायतेऽनलः ॥ १ ॥  
वायोरग्निरिति श्रुत्या पूर्वश्रुत्येकवाक्यतः । ब्रह्मणो वायुरूपत्वमापन्नादग्निसंभवः ॥ २ ॥

तेज इस वायु से उत्पन्न होता है, ( वायोरग्नि ) यह श्रुति इसी प्रकार कहती है । यहाँ संशय है कि ब्रह्म से अग्नि उत्पन्न होती है कि ब्रह्मसंयुक्त वायु से उत्पन्न होती है । यहाँ पूर्वपक्ष है कि वह तेज को रचा इस छान्दोग्य श्रुति के कथनानुसार केवल ब्रह्म से अग्नि उत्पन्न होती है ॥ सिद्धान्त है कि ( वायोरग्निः ) वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, इस श्रुति के साथ ( तत्तेजोऽसृजत ) इस पूर्वोक्त श्रुति की एकवाक्यता से सिद्ध होता है कि वायुरूपता को प्राप्त ब्रह्म से अग्नि का सम्भव ( जन्म ) होता है ॥ १-२ ॥

### तेजोऽस्तथाह्याह ॥ १० ॥

छान्दोग्ये सन्मूलत्वं तेजसः श्रावितं, तैत्तिरीयके तु वायुमूलत्वं, तत्र तेजो-  
योनिं प्रति श्रुतिविप्रतिपत्तौ सत्यां प्राप्तं तावद् ब्रह्मयोनिकं तेज इति । कुतः ?  
'सदेव' इत्युपक्रम्य 'तत्तेजोऽसृजत' इत्युपदेशात्, सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाश्च ब्रह्म-  
प्रभवत्वे सर्वस्य सम्भवात्, 'तज्जलान्' ( छां० ८।७।१ ) इति चाविशेषश्रुतेः,  
'एतस्माज्जायते प्राणः' ( मुण्ड० २।१।३ ) इति चोपक्रम्य श्रुत्यन्तरे सर्वस्यावि-  
शेषेण ब्रह्मजत्वोपदेशात् । तैत्तिरीयके च 'स तपस्तप्त्वा, इदं सर्वमसृजत,

यदिदं किञ्च' (तै० २।६।१) इत्यविशेषश्रवणात् । तस्मात् 'वायोरग्निः' इति क्रमोपदेशो द्रष्टव्यो वायोरनन्तरमग्निः सम्भूत इति ।

छान्दोग्य मे तेज को सम्मूलत्व ( सदब्रह्ममूलकत्व ) सुनाया गया है । और तैत्तिरीय मे वायुमूलकत्व सुनाया गया है । वहाँ तेज की योनि ( कारण ) के प्रति दोनो श्रुतियो को विरोध की प्राप्ति होने पर अप्रमाणाता की शङ्कापूर्वक, प्रथम ब्रह्म योनि वाला तेज प्राप्त होता है । क्योंकि ( सदेव ) इस प्रकार सदब्रह्म का उपक्रम ( प्रस्ताव ) करके ( वह ब्रह्म तेज को रचा ) यह उपदेश है, सबको ब्रह्मजन्यत्व ही होने पर ब्रह्म के ज्ञान से सबके ज्ञान की प्रतिज्ञा का सम्भव है । ( तज्जलान् ) इस श्रुति मे भी सामान्य रूप से सबके जन्म लय चेष्टाको ब्रह्मजन्यत्व सुना जाता है । और इस ब्रह्म से प्राण उत्पन्न होता है, इस प्रकार अन्य श्रुति मे उपक्रम करके सबके ब्रह्मजन्यत्व का अविशेष (तुल्य) रूप से उपदेश है । तैत्तिरीयक मे ( वह तप ज्ञान करके सबको रचा कि जो कुछ यह जगत् है ) इस प्रकार अविशेष ( तुल्य सामान्य ) सुना जाता है इससे तेज की उत्पत्ति तो ब्रह्म ही से होती है । परन्तु ( वायोरग्निः ) यह क्रममात्र का उपदेश है ऐसा समझना चाहिए कि वायु के अनन्तर ( अव्यवहित उत्तरकाल मे ) ब्रह्म से अग्नि उत्पन्न हुई ।

एवं प्राप्ते उच्यते । तेजोऽतो मातरिश्वनो जायत इति । कस्मात् ? तथा-  
ह्याह—'वायोरग्निः' इति । अव्यवहिते हि तेजसो ब्रह्मजत्वे सत्यसति वायुजत्वे  
वायोरग्निरितीय श्रुतिः कदर्थिता स्यात् । ननु क्रमाथेषा भविष्यतीत्युक्तम्,  
नेति ब्रूमः । 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' ( तै० २।१।१ ) इति  
पुरस्तात्सम्भवत्यपादानस्यात्मनः पञ्चमीनिर्देशात्, तस्यैव च सम्भवतेरिहा-  
धिकारात्, परस्तादपि च तदधिकारे 'पृथिव्या ओषधयः' ( तै० २।१।१ ) इत्य-  
पादानपञ्चमीदर्शनाद्वायोरग्निरित्यपादानपञ्चम्येवैषेति गम्यते । अपि च वायो-  
रूर्ध्वमग्निः सम्भूत इति कल्प्य उपपदार्थयोगः, क्लृप्तस्तु कारकार्थयोगो वायो-  
रग्निः सम्भूत इति । तस्माद्देशा श्रुतिर्वायुयोनित्वं तेजसोऽवगमयति । नन्वित-  
रापि श्रुतिर्ब्रह्मयोनित्वं तेजसोऽवगमयति 'तत्तेजोऽस्तृजत' इति । न । तस्याः  
पारम्पर्यजत्वेऽप्यविरोधात् । यदापि ह्याकाशं वायुं च सृष्ट्वा वायुभावापन्नं ब्रह्म  
तेजोऽस्तृजतेति कल्प्यते, तदापि ब्रह्मजत्वं तेजसो न विरुध्यते । यथा 'तस्याः  
श्रुतं दधि तस्या आमिक्षे'त्यादि । दर्शयति च ब्रह्मणो विकारात्मनावस्थानं  
'तदात्मानं स्वयमकुरुत' ( तै० २।७।१ ) इति । तथा चेश्वरस्मरणं भवति—  
'बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः' ( भ० गी० १०।४ ) इत्याद्यनुक्रम्य 'भवन्ति भावा भूतानां  
मत्त एव पृथग्विधाः' ( भ० गी० १०।५ ) इति । यद्यपि बुद्ध्यादयः स्वकार-  
णोभ्यः प्रत्यक्षं भवन्तो दृश्यन्ते, तथापि सर्वस्य भावजातस्य साक्षात्प्राणाड्यां  
वेश्वरवंश्यत्वात् । एतेनाक्रमवत्सृष्टिवादिन्यः श्रुतयो व्याख्याताः, तासां सर्वथो-  
पपत्तेः । क्रमवत्सृष्टिवादिनीनां त्वन्यथानुपपत्तेः प्रतिज्ञापि सद्दृश्यत्वमात्रमपेक्षते  
नान्यवहितजन्यत्वमित्यविरोधः ॥ १० ॥

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहा जाता है कि तेज इस मातरिश्वा से उत्पन्न होता है, क्योंकि (वायोरग्नि) यह श्रुति इसी प्रकार कहती है। और तेज को अव्यवहित (साक्षात्) ब्रह्मजन्यत्व होने पर और वायुजन्यत्व नहीं होने पर (वायोरग्नि) यह श्रुति कदर्थित (बाधितार्थक) होगी। यदि कहा जाय कि यह श्रुति क्रमार्थक होगी यह कहा जा चुका है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिससे (इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ) इस पूर्व वाक्य में सम्भवति (उत्पत्ति) क्रिया का अपादान कारक रूप आत्मा का पञ्चमी विभक्ति से कथन है। उस सम्भव रूप सम्भूति का ही (वायोरग्निः) इस वाक्य में भी अधिकार (सम्बन्ध) है। और आगे भी उसी सम्भवति के अधिकार में (पृथिवी से ओषधिया उत्पन्न हुई) इस प्रकार अपादान पञ्चमी के देखने से (वायोरग्निः) यथा अपादान अर्थ में ही पञ्चमी है ऐसी प्रतीति होती है। दूसरी बात है कि (वायोरग्निः) इसको क्रमविधायक मानने पर, ऊर्ध्व वा अनन्तरम्, इत्यादि किसी पद की कल्पना के बिना पञ्चमी विभक्तिमात्र से क्रम की प्रतीति नहीं होती है, इससे (वायु के ऊर्ध्वकाल में अग्नि उत्पन्न हुई) इस प्रकार उपपद का अर्थ कल्पना से सिद्ध कर्तव्य है कि जिसके साथ सम्बन्ध से उपपद विभक्ति होगी, इससे उपपदार्थ का योग भी कल्पना से ही साध्य है, साक्षात् श्रुति नहीं है। और वायु से अग्नि हुई, इस प्रकार अपादान कारक को क्रिया के साथ सम्बन्ध क्लृप्त (सिद्ध) है, साध्य से सिद्ध बली होता है, तथा उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होनी है, यह वैयाकरण का सिद्धान्त है, इससे यह श्रुति तेज के वायुयोनित्व का बोध करानी है। यद्यपि (तत्तेजोऽसृजत) यह अन्य श्रुति तेज के ब्रह्मयोनित्व का बोध करती है, तथापि परम्परा से ब्रह्मजन्यत्व होने पर भी उसका अविरोध है, दोनों श्रुति की एकवाक्यता है। इससे दोष नहीं है, क्योंकि जब ऐसी भी कल्पना करते हैं कि आकाश और वायु की सृष्टि करके वायुरूपता को प्राप्त ब्रह्म ने तेज की सृष्टि की, तब भी तेज के ब्रह्मजन्यत्व विरुद्ध (बाधित) नहीं होता है। जैसे कि (उस धेनु के कार्य श्रुति (तप्त) क्षीर है उसी के कार्य दधि है। और तप्त क्षीर में दधि के देने से सिद्ध आभिक्षा भी उस धेनु का कार्य है वहाँ क्षीर साक्षात् कार्य है, दधि आदि परम्परा से कार्य है इत्यादि। और ब्रह्म की विकार रूप से स्थिति को श्रुति दिखाती है कि (वह ब्रह्म स्वयं अपने को विकार रूप किया) और इसी प्रकार की ईश्वरस्मृति (भगवद्गीता) है कि (बुद्धि, बोधसामर्थ्य, ज्ञान-बोध और असंमोह विवेकपूर्वक प्रवृत्ति) हमसे होते हैं, इस प्रकार आरम्भ करके (भूतो के नाना प्रकार के भाव-कार्यविशेष मुझसे ही होते हैं) यहाँ यद्यपि बुद्धि आदि अपने कारण अन्त करणादि से होते हुए प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तो भी सब भाव समूह को साक्षात् वा प्रणाली (परम्परा) से ईश्वरवंश्यत्व (ईश्वरजन्यत्व) है। इसीसे कहा गया है कि सब मुझसे ही होते हैं। इसीसे क्रम के बिना सृष्टि को कहने वाली श्रुतियाँ भी व्याख्यात हो गईं। जिससे साक्षात् वा परम्परा ब्रह्मजन्यत्वमात्र से उन श्रुतियों की भी उपपत्ति (युक्तता) होती है। और क्रम वाली सृष्टि को कहने वाली श्रुतियों की अन्यथा (परम्परा के बिना) अनुपपत्ति से तेज की

परम्परा ब्रह्मजन्यता से ही उसकी उपपत्ति हो सकती है। एक ब्रह्म के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा भी सद्ब्रह्मवश्यत्व ( जन्मत्व ) मात्र की अपेक्षा करती है, अव्यवहित ब्रह्मजन्यत्व की अपेक्षा नहीं करती है, इससे उसको क्रम श्रुति के साथ विरोध नहीं है ॥ १० ॥

### अधिकरण ॥ ५ ॥

ब्रह्मणोऽपां जन्म किंवा वह्नेर्नाग्नेर्जलोद्भवः । विरुद्धत्वाच्चीरजन्म ब्रह्मणः सर्वकारणात् ॥ १ ॥  
अग्नेराप इति श्रुत्या ब्रह्मणो वह्न्युपाधिकात् । अपां जनिर्विरोधस्तु सूक्ष्मयोर्नाग्निनीरयोः ॥

जल का जन्म इस तेज से होता है, जिससे ( अग्नेरापः ) यह श्रुति इसी प्रकार कहती है। यह सूत्रार्थ है। सशय है कि साक्षात् ब्रह्म से जल का जन्म होता है, अथवा अग्नि से होता है। पूर्वपक्ष है कि विरुद्ध स्वभाव होने से नाश-नाशकता से अग्नि से जल का जन्म नहीं होता है, किन्तु सबके कारणरूप ब्रह्म से जल का जन्म होता है। सिद्धान्त है कि अग्नेराप, इस श्रुति के अनुसार अग्निरूप उपाधि वाला ब्रह्म से जल की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म अग्नि तथा जल का विरोध नहीं है, इससे अपञ्चीकृत अग्नि से अपञ्चीकृत जल उत्पन्न होता है, फिर पञ्चीकरण होने पर विरोध होता है ॥ १-२ ॥

### आपः ॥ ११ ॥

‘अतस्तथाह्याह’ इत्यनुवर्तते । आपोऽतस्तेजसो जायन्ते, कस्मात् ?  
तथाह्याह—‘तदपोऽसृजत’ इति ‘अग्नेरापः’ इति च । सति वचने नास्ति संशयः । तेजसस्तु सृष्टि व्याख्याय पृथिव्या व्याख्यास्यन्नपोऽन्तरयामीत्याप इति सूत्रयाम्बभूव ॥ ११ ॥

पूर्व सूत्र से (अतस्तथा ह्याह) इस भाग की इस सूत्र में अनुवृत्ति होती है। इससे अर्थ है कि आप इस तेज से उत्पन्न होते हैं क्योंकि इसी प्रकार श्रुति कहती है कि (उसने जल को रचा) और (अग्नि से जल हुआ) वचन के रहने से ही सूक्ष्म तेज जल में विरोध का संशय नहीं है, तथा परम्परा ब्रह्मजन्यत्व से श्रुतियों में विरोध का संशय नहीं है। इस प्रकार संशय विरोध के नहीं रहते भी इस सूत्र का आरम्भ इसलिए किया गया है कि तेज की सृष्टि का व्याख्यान करके पृथिवी का व्याख्यान करना है, यहाँ व्याख्यान के बिना जल का अन्तराय (व्यवधान) को प्राप्त होऊँगा। महाभूतों के व्याख्यान में जल का अतिक्रमण हो जायगा, वह अतिक्रमण नहीं हो। (आप एवाग्र आसु) इत्यादि वचनों से जल की प्रथम सत्ता सुनने से (अग्नेरापः) यह गौणी सृष्टिविधायक है, इस मन्दमति की शका की निवृत्ति लिए भी यह सूत्र रचा गया है ॥ ११ ॥

### पृथिव्यधिकाराधिकरण ॥ ६ ॥

ता अन्नमसृजन्तेति श्रुतमन्नं यवादिकम् । पृथिवी वा यवाद्येव लोकेऽन्नत्वप्रसिद्धितः ॥ १ ॥  
भूताधिकारात् कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि । तथाऽद्भ्यः पृथिवीस्युक्तेरन्नं पृथ्व्यन्नहेतुतः ॥२॥

भूतो की उत्पत्ति का अधिकार ( प्रकरण ) और कृष्ण रूप का श्रवण तथा अन्य श्रुति से ( ता अन्नमसृजन्त ) इस छान्दोग्य श्रुति में अन्न शब्द पृथिवी का बोधक होता है। यहा सशय है कि यह श्रुति अन्न यवादि है। अथवा पृथिवी है। पूर्वपक्ष है कि लोक में अन्नत्व प्रसिद्धि से यवादि ही अन्न शब्द का अर्थ है। सिद्धान्त है कि भूतो के प्रकरण से कृष्ण रूप के श्रवण से और ( अद्भ्यः पृथिवी ) इस उक्ति से भी अन्न का हेतु होने से पृथिवी अन्न शब्द से कही गई है ॥ १-२ ॥

### पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥

‘ता आप ऐक्षन्त बह्व्यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त’ ( छां० ६।२।४ ) इति श्रूयते । तत्र संशयः—किमनेनान्नशब्देन व्रीहियवाद्यभ्यवहार्यं वौदनाद्युच्यते किं वा पृथिवीति । तत्र प्राप्तं तावद् व्रीहियवाद्योदनादि वा परिग्रहीतव्यमिति, तत्र ह्यन्नशब्दः प्रसिद्धो लोके, वाक्यशेषोऽप्येतमर्थमुपोद्बलयति ‘तस्माद्यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवतीति’ । व्रीहियवाद्येव हि सति वर्षणे बहु भवति न पृथिवीति ।

( वे आप-जल-सोचने लगे कि हम बहुत होयँ और बहुत होने के लिये बहुत रूप से उत्पन्न होयँ, फिर वे अन्न को उत्पन्न किये ) यह सुना जाता है। यहाँ सशय होता है कि क्या इस अन्न शब्द से व्रीहि यवादि कहे जाते हैं, अथवा अभ्यवहार्य ( भक्ष्य ) ओदनादि कहे जाते हैं। यद्वा पृथिवी कही जाती है। वहाँ प्रथम प्राप्त व्रीहि-यवादि वा ओदनादि ग्रहण के योग्य है। जिससे उन अर्थों में अन्न शब्द लोक में प्रसिद्ध है। और वाक्यशेष भी इसी अर्थ को व्यक्त दृढ करता है कि (इससे जहाँ कही वृष्टि होती है, तदेव वहाँ ही अधिक अन्न होता है ) जिससे वृष्टि होने पर यवादि ही बहुत होते हैं, पृथिवी नहीं, इससे यह वाक्यशेष अन्न यवाद्यर्थकता को दृढ करता है।

एवं प्राप्ते ब्रूमः । पृथिव्येवेयमन्नशब्देनाद्भ्यो जायमाना विवक्ष्यत इति । कस्मात् ? अधिकाराद्रूपाच्छब्दान्तराच्च । अधिकारस्तावत् ‘तत्तेजोऽसृजत्’ ‘तदपोऽसृजत्’ इति महाभूतविषयो वर्तते । तत्र क्रमप्राप्तं पृथिवीं महाभूतं विलङ्घ्य नाकस्माद् व्रीह्यादिपरिग्रहो न्याय्यः । तथा रूपमपि वाक्यशेषे पृथिव्यनुगुणं दृश्यते ‘यत्कृष्ण तदन्नस्य’ इति, न ह्योदनादेरभ्यवहार्यस्य कृष्णत्वनियमोऽस्ति, नापि व्रीह्यादीनाम् । ननु पृथिव्या अपि नैव कृष्णत्वनियमोऽस्ति, पयःपाण्डुरस्याङ्गाररोहितस्य च क्षेत्रस्य दर्शनात् । नयं दोषः । बाहुल्यापेक्षत्वात् । भूयिष्ठं हि पृथिव्याः कृष्ण रूपं न तथा श्वेतरोहिते । पौराणिका अपि पृथिवीच्छायां शर्वरीमुपदिशन्ति, सा च कृष्णाभासेत्यतः कृष्णं रूपं पृथिव्या इति श्लिष्यते । श्रुत्यन्तरमपि समानाधिकारमद्भ्यः पृथिवीति भवति, ‘तद्यद्वां शर आसीत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्’

( बृ० १।२।२ ) इति च । पृथिव्यास्तु व्रीह्यादेरुत्पत्तिं दर्शयति—‘पृथिव्या ओषधय ओषधीभ्योऽन्नम्’ इति च । एवमधिकारादिषु पृथिव्याः प्रतिपादकेषु सत्सु कुतो व्रीह्यादिप्रतिपत्तिः । प्रसिद्धिरण्यधिकारादिभिरेव बाध्यते । वाक्य-शेषोऽपि पार्थिवत्वाद्वाच्यस्य तद्द्वारेण पृथिव्या एवाद्भ्यः प्रभवत्वं सूचयतीति द्रष्टव्यम् । तस्मात्पृथिवीयमन्नशब्देति ॥ १२ ॥

ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि जल से जायमान ( उत्पन्न होनेवाली ) यह पृथिवी ही अन्न शब्द से विवक्षित ( अभिप्रेत ) है । क्योंकि अधिकार, रूप और शब्दान्तर से यह विवक्षा अभिप्राय प्रतीत होता है । प्रथम महाभूतविषयक अधिकार ( प्रकरण ) है कि ( उसने तेज को रचा । उसने जल को रचा ) वहाँ क्रम से प्राप्त पृथिवी रूप महाभूत का उल्लेखन ( त्याग ) करके अकस्मात् व्रीहि आदि का परिग्रह न्याययुक्त नहीं है । इसी प्रकार वाक्यशेष में पृथिवी के अनुकूल ही रूप का वर्णन भी दिखाई पड़ता है कि ( जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है ) जिससे भक्ष्य ओदनादि के कृष्णत्व का नियम नहीं है, न व्रीहि आदि के ही कृष्णत्व का नियम है । इससे कृष्ण रूप पृथिवी का है । यदि कहा जाय कि पृथिवी के भी कृष्णत्व का नियम नहीं है, जिससे दूध के समान पाण्डुर ( श्वेत ) और अङ्गार के समान रोहित ( रक्त ) क्षेत्र ( खेत ) का भी दर्शन ( ज्ञान ) होता है । तो कहा जाता है कि बहुलता की अपेक्षा से यह दोष नहीं है जिससे पृथिवी का बहुत अधिक कृष्ण रूप रहता है । इस प्रकार के श्वेत और रक्त नहीं रहते हैं । और पौराणिक भी पृथिवी की छाया रूप रात्रि को कहते हैं, उपदेश करते हैं । वह रात्रि कृष्ण आभास ( प्रतीति ) का विषय है । इससे पृथिवी का कृष्ण रूप है । यह मानना युक्त है । महाभूत की सृष्टिविषयक तुल्य अधिकार ( प्रकरण ) वाली दूसरी श्रुति भी है कि ( अद्भ्यः पृथिवी ) जल से पृथिवी उत्पन्न हुई । ( ततः उस सृष्टिकाल में जो जल का शर दधि का पूर्वरूप तुल्य था, वह संगठित कठिन हुआ, वह पृथिवी हुई ) यह भी श्रुत्यन्तर का कथन है । और पृथिवी से व्रीहि आदि की उत्पत्ति को श्रुति दिखाती है कि ( पृथिवी से ओषधियाँ, और ओषधियों से अन्न उत्पन्न होते हैं ) इस प्रकार प्रकरण, लिङ्ग और स्थान रूप तीनों पृथिवी के बोधक हैं, यहाँ पृथिवी के प्रतिपादक प्रकरणादि के रहते व्रीहि आदि की प्रतिपत्ति ( अनुभूति ) किस प्रकार से हो सकती है । लौकिक प्रसिद्धि भी अधिकारादि से ही बाधित हो जाता है । शर्का होती है कि वृष्टिजन्यत्व लिङ्गसहित वाक्यशेष रूप अन्न-श्रुति का प्रकरणादि से बाध नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या इन सब में सबसे श्रुति बलवती होती है । इसमें भी लिङ्गसहित होने से अन्न श्रुति अतिबलवती है, यहाँ कहा जाता है कि वाक्यशेषसहित अन्न-श्रुति का बाध नहीं होता है । किन्तु वाक्यशेष भी प्रकरणादि बहुत के अनुरोध से तथा ( तद्यदा शरः ) इत्यादि श्रुति के अनुरोध से, और व्रीहि आदि अन्नो के तथा आद्य ( भक्ष्य ) ओदनादि के पार्थिवत्व



( पृथिवीजन्यत्व ) होने के कारण, उस अन्न के कथन द्वारा पृथिवी को ही जल से जन्यत्व का सूचन करता है, यह समझना चाहिये, इससे यह अन्न शब्द से कही गई पृथिवी है ॥ १२ ॥

### तदभिध्यानाधिकरण ॥ ७ ॥

न्योमाद्याः कार्यकर्तारो ब्रह्म वा तदुपाधिकम् । न्योन्नो वायुर्वायुतोऽग्निरित्युक्ते. खादिकर्तृता ॥  
ईश्वरोन्तर्यमयतीत्युक्तेऽन्योमाद्युपाधिकम् । ब्रह्म वायवादिहेतु. स्यात्तेजआदीक्षणादपि ॥ २ ॥

केवल आकाशादि से वा आकाशादि के अभिमानी देव से सृष्टि नहीं होती है, अर्थात् ( आकाशाद्वायुः ) इत्यादि श्रुति से आकाशादि मात्र से सृष्टि नहीं कही जाती है, किन्तु उस ईश्वर के अभिध्यान से ही सृष्टि समझाई जानी है कि आकाशादि उपाधि वाला ब्रह्म से वायु आदि उत्पन्न होते हैं । इससे वह कर्ता है, वह अन्तर्यामी श्रुतिगत लिंगो से समझा जाता है । सशय है कि आकाशादि कार्यकर्ता है, अथवा आकाशादि उपाधि वाला ब्रह्म कारण है । पूर्वपक्ष है कि आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि हुई इत्यादि कथन से आकाशादिकर्तृता है । अर्थात् जड से रचना की अनुपपत्ति होते भी आकाशादि के अभिमानी देव विशेष सृष्टि के निमित्त कारण हैं । सिद्धान्त है कि ईश्वर देवादि सब का अन्तर्यामी है, इस कथन से आकाशादि रूप उपाधि वाला ब्रह्म वायु आदि का हेतु है । और तेज आदि के ईक्षण से भी ईश्वर कारण है ॥ १-२ ॥

### तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः ॥ १३ ॥

किमिमानी वियदादीनि भूतानि स्वयमेवं स्वविकारान्स्त्वजन्त्याहोस्वित्प-  
रमेश्वर एव तेन तेनात्मनावतिष्ठमानोऽभिध्यायंस्तं तं विकारं सृजतीति सन्देहे  
सति प्राप्तं तावत्स्वयमेव सृजन्तीति । कुतः ? 'आकाशाद्वायुर्वायोरग्निः' इत्यादि-  
स्वातन्त्र्यश्रवणात् । नन्वचेतनानां स्वतन्त्राणां प्रवृत्तिः प्रतिषिद्धा । नैष दोषः ।  
'तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त' ( छां० ६।२।४ ) इति च भूतानामपि चेतनत्व-  
श्रवणादिति ।

क्या ये आकाशादिरूप भूत स्वय ही अपने विकारो को रचते हैं, अथवा परमेश्वर ही उस उस रूप से स्थिर होकर अभिध्यान-चिन्तन करता हुआ तत्तद् विकारो को रचता है, इस प्रकार सन्देह होने पर, प्राप्त हुआ कि आकाशादि स्वयम् ही रचते हैं, क्योंकि ( आकाश से वायु और वायु से अग्नि हुई ) इत्यादि स्वतन्त्रता के श्रवण से आकाशादि में कारणत्व सिद्ध होता है । यहाँ शका होती है कि रचना की अनुपपत्ति से स्वतन्त्र अचेतनो की प्रवृत्ति प्रतिषिद्ध हो चुकी है । इससे देव भले हो सकते हैं, भूतमात्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । इस शका का पूर्वपक्षी उत्तर देता है कि यह रचना की अनुपपत्ति और प्रवृत्ति असम्भव रूप दोष नहीं है । क्योंकि ( उस तेज ने

विचार किया, उस जल ने विचार किया ) इस रीति से भूताभिमानो देवो के भी चेतनत्व के श्रवण से तत्तत् देव तत्तत् कार्य के कर्ता हो सकते हैं ।

एवं प्राप्तेऽभिधीयते । स एव परमेश्वरस्तेन तेनात्मनावतिष्ठमानोऽभिध्या-  
यंस्त तं विकारं सृजतीति । कुतः ? तल्लिङ्गात् । तथाहि शास्त्रम्—‘यः पृथिव्यां  
तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो  
यमयति’ ( बृ० ३।७।३ ) इत्येवंजातीयकं साध्यक्षणाणामेव भूतानां प्रवृत्तिं  
दर्शयति । तथा ‘सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ इति प्रस्तुत्य ‘सच्च त्यच्चा-  
भवत्, तदात्मानं स्वयमकुरुत’ ( तै० २।६।१ ) इति च तस्यैव च सर्वात्मभावं  
दर्शयति । यन्वीक्षणश्रवणमप्रेजसोस्तत्परमेश्वरावेशवशादेव द्रष्टव्यम् ‘नान्योऽ-  
तोऽस्ति द्रष्टा’ ( बृ० ३।७।२३ ) इतीक्षित्रन्तरप्रतिषेधात्, प्रकृतत्वाच्च सत ईक्षितुः  
‘तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय’ इत्यत्र ॥ १३ ॥

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहा जाता है कि वह परमेश्वर तत्तत् स्वरूपो से स्थिर  
होता हुआ और तत्तत् कार्यों का अभिध्यान करता हुआ तत्तत् विकारो को रचता है ।  
अर्थात् कोई देव भी किसी कार्य का स्वतन्त्र कर्ता नहीं है, सर्वत्र स्वतन्त्रता ईश्वर को  
ही कर्माद्यपेक्ष है । कर्मादि के कर्ता भी देवादि ईश्वराधीन ही कर सकते हैं । क्योंकि  
वह ईश्वर के स्वतन्त्रकर्तृत्व सर्वनियन्तृत्व रूप लिङ्ग से अवगत होता है । इसी प्रकार  
प्रकरणगत शास्त्र कहता है कि ( जो पृथिवी में स्थिर होता हुआ, पृथिवी के अन्तरात्मा  
स्वरूप है । इससे जिसको पृथिवी नहीं जानती है, जिसका पृथिवी शरीर है । और जो  
पृथिवी का अन्तरात्मा होता हुआ पृथिवी का नियन्त्रण करता है ) इस प्रकार के  
शास्त्र अद्यक्षसहित ही भूतो की प्रवृत्ति को दिखता है । स्वतन्त्र नहीं है । इसी प्रकार  
( वह इच्छा किया कि बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊँ ) ऐसा आरम्भ करके ( वह सत्-मूर्त, और  
त्यत्-अमूर्त हुआ । कार्य कारण, प्रत्यक्ष परोक्ष हुआ । वह स्वयं अपने आपको उत्पन्न  
किया ) यह शास्त्र भी उस परमात्मा का ही सर्वात्मभाव दिखाता है । इससे जो जल  
और तेज का ईक्षण सुना जाता है, वह भी परमेश्वर के अन्तर्यामी रूप से आवेश  
( सम्बन्ध ) वश से ही समझना चाहिये जिससे ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) इस श्रुति  
से अन्य ईक्षिता का निषेध है । और ( उसने सोचा कि बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊँ ) यह सत्  
ईक्षित के प्रकृतत्व है, प्रकरण है । इससे जलादि का ईक्षण ईश्वर के आवेशनिमित्तक  
ही सिद्ध होता है ॥ १३ ॥

### विपर्ययाधिकरण ॥ ८ ॥

सृष्टिक्रमो लये ज्ञेयो विपरीतक्रमोऽथवा । क्लृप्तं कल्प्याद्द्वरं तेन लये सृष्टिक्रमो भवेत् ॥ १ ॥  
हेतावसति कार्यस्य न सत्त्वं युज्यते ततः । पृथिव्यप्स्विति चोक्तत्वाद्द्विपरीतक्रमो लये ॥२॥

इस सृष्टिक्रम से उल्टा प्रलय का क्रम होता है, क्योंकि वैसा ही उपपन्न ( सिद्ध )  
हो सकता है और लोक-पुराणादि में प्रसिद्ध है । यहाँ सामान्य दृष्टि से संशय है कि

सृष्टि का क्रम लय मे संसृजना चाहिये, अथवा उससे विपरीत क्रम समझना चाहिये । पूर्वपक्ष है कि क्लृप्त ( सिद्ध-निर्णीत ) कल्पनीय से श्रेष्ठ होता है, इससे सृष्टि के लिये क्लृप्त क्रम प्रलय मे होगा । सृष्टिक्रम से प्रलय मानने पर मूल कारण के नाश-पूर्वक कार्य का नाश होगा यह असम्भव है । हेतु के नष्ट होने पर निराश्रय कार्य की सत्ता नहीं रह सकती, इससे प्रलय में उत्पत्ति क्रम का असम्भव है । पुराण मे पृथिवी का जल में लय कहा है, इससे लय मे विपरीत क्रम है ॥ १-२ ॥

### विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ १४ ॥

भूतानामुत्पत्तिक्रमश्चिन्तितः, अथेदानीमप्ययक्रमश्चिन्त्यते, किमनियतेन क्रमेणाप्यय उतोत्पत्तिक्रमेणाथवा तद्विपरीतेनेति । त्रयोऽपि चोत्पत्तिस्थिति-प्रलया भूतानां ब्रह्मायत्ताः श्रूयन्ते—‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति’ ( तै० ३।१।१ ) इति । तत्रानिय-मोऽविशेषादिति प्राप्तम् । अथवोत्पत्तेः क्रमस्य श्रुतत्वात्प्रलयस्यापि क्रमाका-ङ्क्षिणः स एव क्रमः स्यादिति ।

भूतो की उत्पत्ति का क्रम चिन्तित ( विचारित ) हो चुका । अब इस समय पसंग से प्रलय के क्रम का विचार किया जाता है कि क्या अनियत क्रम से प्रलय होता है या उत्पत्ति क्रम से होता है । अथवा उत्पत्ति की अपेक्षा विपरीत क्रम से प्रलय होता है । यदि कोई कहे कि भूतो का प्रलय ही नहीं होता है, इससे उसके क्रम की चिन्ता निरर्थक है, तो कहा जाता है कि भूतो के ब्रह्माधीन उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ही श्रुति मे सुने जाते हैं, लय का क्रम श्रुति मे नहीं सुना गया है । इससे क्रम की चिन्ता सार्थक है । उत्पत्ति आदिविषयक श्रुति है कि ( जिससे ये सब भूत जन्मते हैं, जन्म लेकर जिससे जीते हैं, और प्रलय के समय जिसमे लीन होते हैं वह ब्रह्म है ) यहाँ क्रम की अविशेषता से विशेष विधि के अभाव से अनियम है यह प्राप्त होता है । अथवा उत्पत्ति का क्रम श्रुत है, और प्रलय भी क्रम की आकाक्षा वाला है, उसका वही उत्पत्ति-क्रम ही हो सकता है ।

एवं प्राप्तं ततो ब्रूमः—विपर्ययेण तु प्रलयक्रमोऽत उत्पत्तिक्रमाद्भवितुम-र्हति । तथाहि—लोके दृश्यते येन क्रमेण सोपानमारूढस्ततो विपरीतेन क्रमेणावरोहतीति, अपि च दृश्यते मृदो जातं घटशरावाद्यप्ययकाले मृद्भावम-प्येत्यद्भ्यश्च जातं हिमकराकाद्यन्भावमप्येतीति । अतश्चोपपद्यत एतत् यत्पृथि-व्यद्भ्यो जाता सती स्थितिकालव्यतिक्रान्तावपोऽपीयादापश्च तेजसो जाताः सत्यस्तेजोऽपीयुः, एवं क्रमेण सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं चानन्तरमनन्तरतरं कारणम-पीत्य सर्वं कार्यजातं परमकारणं परमसूक्ष्मं च ब्रह्माप्येतीति वेदितव्यम् । न हि

स्वकारणव्यतिक्रमेण कारणकारणे कार्योप्ययो न्याय्यः । स्मृतावप्युत्पत्तिक्रम-  
विपर्ययेणैवाप्ययक्रमस्तत्र तत्र दर्शितः—

जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे । पृथिव्यप्सु प्रलीयते ।

ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते ॥ इत्यवमादौ ।

उत्पत्तिक्रमस्तूपत्तावेव श्रुतत्वान्नाप्यये भवितुमर्हति, न चासावयोग्यत्वा-  
दप्ययेनाकाङ्क्ष्यते, न हि कार्यं ध्रियमाणे कारणस्याप्ययो युक्तः कारणाप्यये  
कार्यस्यावस्थानानुपपत्तेः । कार्योप्यये तु कारणस्यावस्थानं युक्तं मृदाविध्वेवं  
दृष्टत्वात् ॥ १४ ॥

इस प्रकार प्राप्त होता है । तब कहते हैं कि इस वर्णित उत्पत्ति-क्रम से विपरीत  
स्वरूप वाला प्रलय का क्रम होने के योग्य है, जिससे वैसा ही लोक में देखा जाता है,  
कि मनुष्य जिस क्रम से सोपान ( आरोहण-सीढी ) पर चढता है, ऊपर प्राप्त होता है,  
उससे विपरीत क्रम से उतरता है, नीचे आता है । देखा जाता है कि मृत्तिका से  
उत्पन्न घट-शराव आदि प्रलय-नाश काल में मृत्तिकारूपता को प्राप्त होते हैं । जल से  
उत्पन्न बर्फ करका ( करक-वर्षोपल ) आदि अपने विलयकाल में जलरूपता को प्राप्त  
होते हैं । इससे यह भी उपपन्न ( सिद्ध ) होता है कि जल से उत्पन्न होकर स्थितिकाल में  
वर्तमान पृथिवी स्थिति-काल के व्यतिक्रान्त (अन्त) होने पर जलरूपता को प्राप्त होती है,  
जल में लीन हो जाती है । और तेज से उत्पन्न होकर वर्तमान जल अन्त में तेज रूप होता  
है । इसी प्रकार क्रम से, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर (अतिसूक्ष्म) जो अनन्तर और अनन्तरतर  
( अतिअनन्तर ) कारण हैं, उनकी रूपता को प्राप्त होकर, उनमें लीन होकर, सब कार्य-  
समूह, परम कारण और परम सूक्ष्म ब्रह्म में लीन होते हैं ऐसा समझना चाहिये ।  
यद्यपि ब्रह्म सर्व जगत् का कारण है, तथापि सबका साक्षात् कारण नहीं है, इससे  
अपने कारण में विलय के बिना उसका व्यतिक्रमण-उल्लंघन करके सब कारणों के  
कारण ब्रह्म में कार्य का विलय न्याययुक्त नहीं है । अन्यथा घट के नाश होने पर  
मृत्तिका की उपलब्धि नहीं होगी, अर्थात् घट-पटादि भी ब्रह्म में ही विलीन होंगे  
और ऐसा होता नहीं है । इससे उक्त क्रम से विलय न्याय्य है । स्मृति में भी  
उत्पत्ति क्रम से विपरीत रूप से ही प्रलय का क्रम तत्त्व स्थानों में दर्शित कराया गया  
है कि ( हे देव ऋषि । नारद । जगत्—सब प्राणी का आश्रय भूमि जल में प्रलीन होती  
है, जल तेज में लीन होता है, तेज वायु में प्रलीन होता है, वायु आकाश में लीन होता  
है । और वह आकाश अव्यक्त (कारण ब्रह्म) में लीन होता है इत्यादि । और उत्पत्तिक्रम  
तो उत्पत्ति में ही श्रुत है, वह क्रम प्रलय में होने योग्य नहीं है । अयोग्यता से ही वह  
उत्पत्ति क्रम प्रलय से आकाङ्क्षित नहीं होता है । कारण के नष्ट होने पर आश्रय के बिना  
कार्य की स्थिति की अनुपपत्ति से कार्य के ध्रियमाण ( वर्तमान ) रहते कारण का  
प्रलय युक्त नहीं है । कार्य के लय होने पर तो कारण की स्थिति युक्त है, जिससे मृत्तिका  
आदि में ऐसा देखा जाता है ॥ १४ ॥

## अन्तराविज्ञानाधिकरण ॥ ९ ॥

किमुक्तक्रमभङ्गोऽस्ति प्राणाद्यैर्नास्ति वास्ति हि । प्राणाक्षमनसां ब्रह्मवियतोर्मध्य ईरणात् ॥  
प्राणाद्या भौतिका भूतेष्वन्तर्भूताः पृथक् क्रमम् । नेच्छन्त्यतो न भङ्गोऽस्ति प्राणादौ न क्रमः श्रुतः ॥

( एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी  
विश्वस्य धारिणी ) इस आत्मा से प्राणादि और आकाशादि उत्पन्न होते हैं । इस श्रुति  
के अनुसार संशय होता है कि ( विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानम् ) जिससे पदार्थ को समझा  
जाय उसको विज्ञान कहें । ऐसे ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि हैं । वहाँ इस श्रुति के अनुसार ये  
विज्ञान और मन तथा प्राण आकाशादि की उत्पत्ति से प्रथम आत्मा से उत्पन्न होते हैं ।  
इससे आत्मा और आकाशादि के अन्तरा ( मध्य ) में उत्पन्न होते हैं, इसी से उक्त  
उत्पत्ति क्रम का प्राणादि से भङ्ग होता है । अथवा नहीं होता है । पूर्वपक्ष है कि  
प्राणादि का मध्य में कथन से भंग होता है और उस भंग की सिद्धि इन्द्रियों की सिद्धि  
उक्त श्रुति और ( बुद्धि तु सारथि विद्धि ) इत्यादि श्रुति रूप लिङ्गों से होती है । सिद्धान्त  
है कि प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और मन ये सब भौतिक हैं इससे भूतो से अविशेष (अभिन्न)  
होने से भूतो के अन्तर्भूत है । इसी से भूतो के क्रम में ही इनका क्रम सिद्ध है, ये पृथक्  
क्रम नहीं चाहते हैं और उक्त श्रुति में पञ्चमी विभक्ति आदि द्वारा प्राणादि में क्रम नहीं  
सुना गया है, किन्तु केवल उत्पत्ति सुनी गई है, इससे पूर्वोक्त भूतोत्पत्ति क्रम का बाध  
नहीं होता । सूत्रार्थ भी इसी से गतार्थ है ॥ १-२ ॥

## अन्तरा विज्ञानमनसो क्रमेण तल्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषात् ॥ १५ ॥

भूतानामुत्पत्तिप्रलयावनुलोमप्रतिलोमक्रमाभ्यां भवत इत्युक्तम् , आत्मादि-  
रुत्पत्तिः प्रलयश्चात्मान्त इत्यप्युक्तम् , सेन्द्रियस्य तु मनसो बुद्धेश्च सद्भावः  
प्रसिद्धः श्रुतिस्मृत्योः, 'बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च । इन्द्रियाणि  
हयानाहुः' ( कठ० ३।३ ) इत्यादिलिङ्गेभ्यः । तयोरपि कस्मिंश्चिदन्तराले क्रमेणो-  
त्पत्तिप्रलयावुपसंभ्रान्तौ, सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मत्वाभ्युपगमात् । अपि  
चाथर्वणे उत्पत्तिप्रकरणे भूतानामात्मनश्चान्तराले करणान्यनुक्रम्यन्ते—

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ (मुण्ड० २।१।३) इति ।

तस्मात्पूर्वोक्तोत्पत्तिप्रलयक्रमभङ्गप्रसङ्गो भूतानामिति चेत् ।

न । अविशेषात् । यदि तावद्भौतिकानि करणानि ततो भूतोत्पत्तिप्रलयाभ्या-  
मेवैषामुत्पत्तिप्रलयौ भवत इति नैतयोः क्रमान्तरं मृग्यम् । भवति च भौतिकत्वे  
लिङ्गं करणानाम् 'अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्' (छां०  
६।१।४) इत्येवंजातीयकम् । व्यपदेशोऽपि क्वचिद्भूतानां करणानां च ब्राह्मण-  
परिव्राजकन्यायेन नेतव्यः । अथ त्वभौतिकानि करणानि तथापि भूतोत्पत्ति-  
क्रमो न करणैर्विशेष्यते प्रथमं करणान्युत्पद्यन्ते चरमं भूतानि प्रथमं वा भूता-

न्युत्पद्यन्ते चरमं वा करणानीति । आथर्वणे तु समान्नायक्रममात्रं करणानां भूतानां च न तत्रोत्पत्तिक्रम उच्यते । तथान्यत्रापि पृथगेव भूतक्रमात्करणक्रम आन्नायते—‘प्रजापतिर्वा इदमत्र आसीत्स आत्मानमैक्षत स मनोऽसृजत तन्मन एवासीत्तदात्मानमैक्षत तद्वाचमसृजत’ इत्यादिना । तस्मान्नास्ति भूतोत्पत्तिक्रमस्य भङ्गः ॥ १५ ॥

अनुलोम और प्रतिलोम क्रम द्वारा भूतो की उत्पत्ति और प्रलय होते हैं यह कहा गया है । यह भी कहा गया है कि आत्मस्वरूप आदि बाली उत्पत्ति है । अर्थात् आत्मा से उत्पत्ति का आरम्भ होता है, आत्मस्वरूप अन्त बाला प्रलय है । आत्मा मे प्रलय की समाप्ति होती है । और ( बुद्धि को सारथि जानो, मन को लगाम समझो, इन्द्रियो को अश्व कहते हैं ) इत्यादि लिङ्गो से इन्द्रिय सहित मन और बुद्धि श्रुति स्मृति मे प्रसिद्ध हैं । इन्द्रियादि की सत्ता श्रुति स्मृति मे प्रसिद्ध है । यहाँ अन्यार्थपरक शब्दो को लिङ्ग कहा गया है । यहाँ ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले इन्द्रिय सहित मन और बुद्धि इन दोनो के भी किसी अन्तराल ( मध्य ) मे उत्पत्ति और प्रलय का उपसंग्रह ( ग्रहण ) करने के योग्य है । क्योंकि सब वस्तु समूह की ब्रह्म से ही उत्पत्ति मानी गयी है । यदि आकाशा हो कि किस अन्तराल मे इनके उत्पत्ति और प्रलय गृहीत हो, तो आथर्वण ( मुण्डक ) उत्पत्ति क्रम मे भूत और आत्मा के अन्तराल ( मध्य ) मे इन्द्रियो का अनुक्रम ( ग्रहण ) किया गया है कि ( इस आत्मा से प्राण, मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, ज्योति, जल और सब प्राणियो को धारण करनेवाली पृथिवी, ये सब उत्पन्न होते हैं ) जिससे भूतो के पूर्वोक्त उत्पत्ति और प्रलय के क्रमो के भङ्ग ( अभाव ) की प्राप्ति होती है । इससे तैत्तिरीय और मुण्डक श्रुति को विरोध भी प्राप्त होता है । यदि कोई ऐसा कहे तो कहते हैं कि यह क्रमका भङ्ग और विरोधादि नहीं है । जिससे इन्द्रियो को भूतो से अविशेष है ( भेद नहीं है ) जिससे यदि इन्द्रिय भौतिक ( भूतों के कार्य ) हैं तो भूतो के उत्पत्ति प्रलय से ही इनके भी उत्पत्ति प्रलय होते हैं, इनके क्रमान्तर अन्वेषणीय नहीं हैं । इन्द्रियो के भौतिकत्व में लिङ्ग भी है कि ( हे सोम्य ! अन्नमय मन है, जलमय प्राण है, तेजोमयी वाक् है ) अर्थात् अन्नादि के विकार रूप मन आदि हैं । इस प्रकार के वचन करणो के भौतिकत्व मे प्रमाण हैं । ऐसा होने पर भी जो मुण्डक आदि मे कही भूतो और करणो के पृथक् जन्म का व्यपदेश-कथन है, वह ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से नेतव्य (स्वीकार के योग्य) है । और यदि करण भौतिक नहीं हैं, तो भी भूतोत्पत्ति का क्रम करणोसे विशिष्ट-भीन्न—नष्ट नहीं होता है । जिससे प्रथम करण उत्पन्न होते हैं, अन्त मे भूत उत्पन्न होते हैं, अथवा प्रथम भूत उत्पन्न होते हैं, अन्त मे करण उत्पन्न होते हैं । मुण्डक में करणो का और भूतो का पाठक्रम मात्र है, उसमें उत्पत्ति का क्रम नहीं कहा जाता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी भूतक्रम से पृथक् ही करण क्रम पढा जाता है कि ( यह स्थूल भूत उत्पत्ति से पूर्वकाल मे सूक्ष्म भूतात्मक प्रजापति स्वरूप ही था । सूत्रात्मा स्वरूप था । उसने सूक्ष्म भूतात्मक अपने को समझा, फिर मन को रचा, फिर वह मन रूप ही था और उसने

अपने को मन रूप समझा फिर उस मन ने वाक् को रचा ) इत्यादि से सूक्ष्म भूत स्वरूप प्रजापति की सृष्टि प्रथम भासती है, उससे मन आदि की सृष्टि भासती है, इससे यह क्रम है, जिससे भूतोत्पत्तिक्रम का भङ्ग नहीं है ॥ १५ ॥

### चराचरव्यपाश्रयाधिकरण ॥ १० ॥

जीवस्य जन्ममरणे वपुषो वात्मनो हि ते । जातो मे पुत्र इत्युक्तेर्जातकर्मादितस्तथा ॥ १ ॥ मुख्ये ते वपुषो भाक्ते जीवस्यैते अपेक्ष्य हि । जातकर्म च लोकोक्तिर्जीवापेतेति शास्त्रतः ॥२॥

लौकिक उस जीव के जन्म मरण का व्यपदेश ( व्यवहार ) चराचर देहाश्रय तो मुख्य होता है और जीव में भाक्त ( गौण ) व्यवहार होता है, क्योंकि उस देह के होने ही से जीव में व्यवहार होता है । संशय है कि जीव के जन्म मरण होते हैं, वा देह के होते हैं । पूर्वपक्ष है कि मेरा पुत्र जन्मा है इस लौकिक व्यवहार से तथा शास्त्र में जातकर्मादि के विधान से जीवात्मा के ही वे जन्म मरण होते हैं ॥ सिद्धान्त है कि शरीर के वे जन्म मरण मुख्य हैं और जीव के ये जन्म मरण भाक्त हैं । देह गत जन्म मरण का देह के साथ सम्बन्ध होने से जीव में गौण व्यवहार होता है और उस भाक्त की अपेक्षा करके ही लोकोक्ति होती है, जात कर्म होता है । जिससे ( जीवापेत वाव किलेदं म्रियते ) इस शास्त्र से जीव के जन्मादि का अभाव सुना जाता है ॥ १-२ ॥

### चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्वापदेशो भाक्तस्तद्भावभावित्वात् ॥

स्तो जीवस्याप्युत्पत्तिग्रलयौ, जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इत्येवंजातीयकाल्लौकिकव्यपदेशात् जातकर्मादिसंस्कारविधानाच्चेति स्यात्कस्यचिद्भ्रान्तिस्तामपनुदामः । न जीवस्योत्पत्तिग्रलयौ स्तः, शास्त्रफलसंबन्धोपपत्तेः । शरीरानुविनाशानि हि जीवे शरीरान्तरगतेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारार्थौ विधिप्रतिषेधावनर्थकौ स्याताम् । श्रूयते च—जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियते' ( छां० ६।१।३ ) इति । ननु लौकिको जन्ममरणव्यपदेशो जीवस्य दर्शितः । सत्यं दर्शितः । भाक्तस्त्वेष जीवस्य जन्ममरणव्यपदेशः । किमाश्रयः पुनरयं मुख्यो यदपेक्षया भाक्त इति । उच्यते । चराचरव्यपाश्रयः । स्थावरजङ्गमशरीरविषयौ जन्ममरणशब्दौ । स्थावरजङ्गमानि हि भूतानि जायन्ते च म्रियन्ते चातस्तद्विषयौ जन्ममरणशब्दौ मुख्यौ सन्तौ तत्स्ये जीवात्मन्युपचर्येते, तद्भावभावित्वात् । शरीरप्रादुर्भावतिरोभावयोर्हि सतोर्जन्ममरणशब्दौ भवतो नासतोः । नहि शरीरसंबन्धादन्यत्र जीवो जातो मृतो वा केनचिल्लक्ष्यते । 'स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः स उत्क्रामन् म्रियमाणः' ( बृ० ४।३।८ ) इति च शरीरसंयोगवियोगनिमित्तावेव जन्ममरणशब्दौ दर्शयति । जातकर्मादिविधानमपि देहप्रादुर्भावापेक्षमेव द्रष्टव्यम् । अभावाज्जीवप्रादुर्भावस्य । जीवस्य परस्मादात्मन उत्पत्तिर्वियदा-

दीनाभिवास्ति नास्ति वेत्येतदुत्तरेण सूत्रेण वक्ष्यति । देहाश्रयौ तावज्जीवस्य स्थूलावुत्पत्तिप्रलयौ न स्त इत्येतदनेन सूत्रेणावोचत् ॥ १६ ॥

देवदत्त जन्मे, देवदत्त मर गये, इस प्रकार के लौकिक व्यवहार से, और जात कर्मादि संस्कार के विधान से किसी को भ्रान्ति हो सकती है कि जीव के जन्म मरण होते हैं, अर्थात् उत्पत्ति प्रलय होते हैं । उस भ्रम का निवारण करते हैं कि जीव के उत्पत्ति प्रलय नहीं होते हैं, जिससे उत्पत्ति प्रलय के नहीं होने पर ही शास्त्र से विहित कर्म आदि के फलो की जन्मान्तर मे उपपत्ति हो सकती है । अन्यथा संस्कारादि विधि भी निरर्थक होगे । जिससे शरीर के अनुसार विनाश के स्वभाव वाला जीव के होने पर शरीरान्तर गत इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति और निवृत्ति के लिये किये गये विधि और निषेध दोनों अनर्थक हो जायेंगे । सुना जाता है कि ( जीव को छोड़ कर यह शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है ) । यदि कहा जाय कि जीव के जन्म मरण का लौकिक व्यवहार दर्शित कराया गया है, तो कहा जाता है कि दर्शित कराया गया है, सो सत्य है, परन्तु वह जीव के जन्म मरण का व्यवहार भाक्त है । यदि कहा जाय कि कहीं मुख्य के बिना गौण व्यवहार नहीं होता है, यह व्यवहार मुख्य किसमे है, कि जिसकी अपेक्षा से जीव मे गौण है, तो कहा जाता है कि चराचर देहाश्रित मुख्य व्यवहार है । स्थावर जंगम शरीर विषयक जन्म मरण शब्द मुख्य हैं । जिससे स्थावर जंगम भूत ( शरीर ) जन्मते हैं, मरते हैं । इससे तद्विषयक जन्म मरण शब्द मुख्य होते हुए, उस देह मे स्थित आत्मा मे उपचरित होते हैं । जिससे शरीर के जन्म मरण के भाव से ही जन्म मरण शब्द भाव वाले ( सत्तायुक्त ) होते हैं, शरीर के प्रादुर्भाव और तिरोभाव ( प्रकट गुप्त ) होने पर जन्म मरण शब्द होते हैं, शरीर के प्रकट गुप्त हुए बिना नहीं होते हैं । शरीर सम्बन्ध से रहित किसी अन्य स्थान मे जीव उत्पन्न हुआ, मर गया इस प्रकार किसी से नहीं समझा जाता है । ( वही यह पुरुष शरीर को प्राप्त होने पर जायमान कहा जाता है । शरीर से उत्क्रमण करने पर त्रियमाण कहा जाता है ) यह श्रुति शरीर के सयोग और वियोग निमित्तक ही जन्म मरण शब्द को दिखाती है । जातकर्मादि के विधान को भी देह के प्रादुर्भाव की अपेक्षा वाला ही समझना चाहिये, जीव के प्रादुर्भाव के अभाव से देह के प्रादुर्भाव निमित्तक समझना ही उचित है । आकाशादि के समान जीवात्मा की उत्पत्ति परमात्मा से होती है, वा नहीं, यह आगे के सूत्र से कहेंगे । प्रथम देहाश्रित स्थूल प्रकट जन्म मरण रूप उत्पत्ति प्रलय जीव के नहीं हैं, इस अर्थ को सूत्रकार ने इस सूत्र से कहा है ॥ १६ ॥

### आत्माधिकरण ॥ ११ ॥

कल्पदादौ ब्रह्मणो जीवो वियद्ब्रज्जायते न वा । सृष्टेः प्रागद्वयत्वोक्तेर्जायते विस्फुलिङ्गवत् ॥ १ ॥  
ब्रह्माद्वयं जातबुद्धौ जीवत्वेन विशेष्वयम् । औपाधिकं जीवजन्म नित्यत्वं वस्तुतः श्रुतम् ॥ २ ॥

उत्पत्तिप्रकरण मे जीवात्मा की उत्पत्ति के अश्रवण से जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता।



है और नित्यत्व के बोधक उन श्रुतियो से जीवात्मा की नित्यता से भी वह नहीं उत्पन्न होता है। सशय है कि कल्प के आदि मे आकाश के समान जीव भी उत्पन्न होता है वा नहीं उत्पन्न होता है। पूर्वपक्ष है कि सृष्टि के पूर्वकाल मे अद्वयता की श्रुति से विस्फुलिङ्ग के समान जीव उत्पन्न होता है। सिद्धान्त है कि सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न बुद्धि मे जीव रूप से स्वयं अद्वय ब्रह्म प्रवेश करता है, जिससे उपाधिनिमित्तक कल्पित जीव का जन्म है। और वस्तुतः नित्यत्व सुना गया है ॥ १-२ ॥

### नात्माऽश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ १७ ॥

अस्त्यात्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपञ्जराध्यक्षः कर्मफलसंबन्धी । स किं व्योमादिवदुत्पद्यते ब्रह्मण आहोस्वित् ब्रह्मवदेव नोत्पद्यत इति श्रुतिविप्रतिपत्तेर्विषयः। कासुचिच्छ्रुतिष्वग्निविस्फुलिङ्गादिनिदर्शनैर्जीवात्मनः परस्माद् ब्रह्मण उत्पत्तिरान्नायते, कासुचित्त्वविकृतस्यैव परस्य ब्रह्मणः कार्यप्रवेशेन जीवभावो विज्ञायते न चोत्पत्तिरान्नायत इति । तत्र प्राप्तं तावदुत्पद्यते जीव इति । कुतः ? प्रतिज्ञानुपरोधादेव । 'एकस्मिन्विदिते सर्वमिदं विदितम्' इतीयं प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रभवत्वे सति नोपरुध्येत, तत्त्वान्तरत्वे तु जीवस्य प्रतिज्ञेयमुपरुध्येत । न चाविकृतः परमात्मैव जीव इति शक्यते विज्ञानुं, लक्षणभेदात् । अपहतपाप्मत्वादिधर्मको हि परमात्मा, तद्विपरीतो हि जीवः, विभागाच्चास्य विकारत्वसिद्धिः । यावान्धाकाशादिः प्रविभक्तः स सर्वो विकारस्तस्य चाकाशादेरुत्पत्तिः समधिगता, जीवात्मापि पुण्यापुण्यकर्मा सुखदुःखयुक्प्रतिशरीरं प्रविभक्त इति तस्यापि प्रपञ्चोत्पत्त्यवसर उत्पत्तिर्भवितुं मर्हति । अपि च 'यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः' ( बृ० २।१।२० ) इति प्राणादेर्भोग्यजातस्य सृष्टिं शिष्ट्वा 'सर्व एव आत्मानो व्युच्चरन्ति' इति भोक्तृणामात्मनां पृथक्सृष्टिं शास्ति । 'यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति' ( मुण्ड० २।१।१ ) इति च जीवात्मनामुत्पत्तिप्रलयावुच्येते । सरूपवचनात् । जीवात्मानो हि परमात्मना सरूपा भवन्ति चैतन्ययोगात् । न च क्वचिदश्रवणमन्यत्र श्रुत वारयितुमर्हति । श्रुत्यन्तरगतस्याप्यविरुद्धस्याधिकस्यार्थस्य सर्वत्रोपसंहर्तव्यत्वात् । प्रवेशश्रुतिरप्येवं सति विकारभावापत्त्यैव व्याख्यातव्या, 'तदात्मानं स्वयमकुरुत' इत्यादिवत् । तस्मादुत्पद्यते जीव इति ।

शरीर इन्द्रिय रूप पञ्जर ( पिञ्जर ) का अध्यक्ष कर्मफल का सम्बन्धी ( भोक्ता ) जीवनाम वाला आत्मा है। वह जीवात्मा क्या आकाश आदि के समान ब्रह्म से उत्पन्न होता है। अथवा ब्रह्म के समान ही नहीं उत्पन्न होता है। इस प्रकार श्रुतियो के विरोध से विषय ( सशय ) होता है। कितनी श्रुतियो मे अग्नि के विस्फुलिङ्गादि

दृष्टान्तो द्वारा जीवात्मा की परब्रह्म से उत्पत्ति कही जाती है। कितनी श्रुतियों में अविकृत परब्रह्म का ही कार्य में प्रवेश द्वारा जीवभाव विज्ञात होता है और उत्पत्ति नहीं कही जाती है। वहाँ प्रथम प्राप्त होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि प्रतिज्ञा के अनुपरोध से ही ऐसा सिद्ध होता है ( एक के विदित होने से यह सब जगत् विदित होता है ) यह प्रतिज्ञा सब वस्तु समूह के ब्रह्मजन्यत्व होने पर उपरुद्ध ( बाधित ) नहीं होती है। जीव के तत्त्वान्तर होने पर तो यह प्रतिज्ञा बाधित होगी। लक्षण के भेद से अविकृत परमात्मा ही जीव है, यह भी नहीं समझ सकते हैं कि जिस समझ से प्रतिज्ञा का बाध नहीं प्रतीत हो। अपहृतपाप्मत्वादि धर्म वाला परमात्मा है, और उससे विपरीत जीव है, यह लक्षण का भेद है। विभाग से भी इस जीव के विकारत्व की सिद्धि होती है। जितने आकाशादि प्रविभक्त है, वे सब विकार हैं, उस आकाशादि की उत्पत्ति समधिगत हुई है, समझी गयी है। पुरण अपुण्य कर्मवाला सुख दुःख युक्त जीवात्मा भी प्रत्येक शरीर में प्रविभक्त है, इससे प्रपञ्च की उत्पत्ति के समय उस जीवात्मा की भी उत्पत्ति होने योग्य है। दूसरी बात है कि ( जैसे अग्नि से तुच्छ त्रिस्फुलिङ्ग उत्पन्न होते फैलते हैं इसी प्रकार इस आत्मा से सब प्राण उत्पन्न होते हैं ) इस प्रकार प्राणादि भोग्य समूह की सृष्टि का उपदेश करके ( सभी आत्मायै व्युच्चरित ( व्यक्त उत्पन्न ) होती हैं ) इस प्रकार भोक्ता आत्मा की पृथक् सृष्टि का शासन ( उपदेश ) श्रुति करती है और ( हे सोम्य ! जैसे सुदीप्त अग्नि से हजारों त्रिस्फुलिङ्ग समान रूप वाले उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से अनेक प्रकार के भाव ( जीव ) उत्पन्न होते हैं, और उसी में लीन होते हैं ) यह श्रुति भी दृष्टान्तगत स्वरूप वचन से जीवात्मा के ही उत्पत्ति प्रलय को कहती है, जिससे चेतनता के योग्य ( सम्बन्ध ) से जीवात्मा ही परमात्मा के समान ( तुल्य ) रूप वाले होते हैं, यद्यपि तैत्तिरीयक श्रुति के उत्पत्ति प्रकरण में जीव का अश्रवण है, तथापि कही उत्पत्ति का अश्रवण अन्यत्र श्रुत उत्पत्ति वचन का वारण नहीं कर सकता है। जिससे अन्य श्रुतिगत भी अविरुद्ध अधिक अर्थ सब श्रुति में उपसंहार ( ग्रहण ) के योग्य होता है। इस प्रकार जीवात्मा के विकार ( कार्य ) रूप होने पर जीव भाव से परमात्मा के कार्य में प्रवेश बोधक श्रुति भी ( उसने विकार प्रपञ्च रूप से अपने आत्मा को स्वयं किया ) इत्यादि के अनुसार विकार भाव की प्राप्ति रूप से ही व्याख्यान के योग्य है कि विकारात्मक जीव रूप से प्रवेश किया। उससे जीव उत्पन्न होता है। जीव के अजत्व बोधक श्रुति कल्प के मध्य में जन्माभाव विषयक है ( तत्त्वमसि ) इत्यादि भी मृद्घटः, इत्यादि के समान कार्यकारण में अभेद दृष्टि से है ॥

एवं प्राप्ते ब्रूमः—नात्मा जीव उत्पद्यत इति। कस्मात् ? अश्रुतेः। न ह्यस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति भूयःसु प्रदेशेषु। ननु क्वचिदश्रवणमन्यत्र श्रुतं न वारयतीत्युक्तम्। सत्यमुक्तम्। उत्पत्तिरेव त्वस्य न संभवतीति

वदामः । कस्मात् ? नित्यत्वाच्च ताभ्यः । चशब्दादजत्वादिभ्यश्च । नित्यत्वं ह्यस्य श्रुतिभ्योऽवगम्यते, तथाजत्वमविकारित्वमविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवात्मनावस्थानं ब्रह्मात्मना चेति । न चैवंरूपस्योत्पत्तिरुपपद्यते । ताः काः श्रुतयः ? 'न जीवो म्रियते' ( छां० ६।१।१३ ), 'स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म' ( बृ० ४।४।२२ ), 'न जायते म्रियते वा विपश्चित्' ( कठ० २।१८ ), 'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः' ( कठ० २।१८ ), तत्सु-  
 द्धा तदेवानुप्राविशत्' ( तै० २।६।१ ), 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम-  
 रूपे व्याकरवाणि' ( छां० ६।३।२ ), 'स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्नेभ्यः' ( बृ० १।४।७ ), 'तत्त्वमसि' ( छां० ६।५।७ ), 'अहं ब्रह्मास्मि' ( बृ० १।४।१० ), 'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः' ( बृ० २।५।१६ ) इत्येवमाद्या नित्य-  
 त्वयादिन्य मृत्यो जीवस्योत्पत्तिं प्रतिबध्नन्ति । ननु प्रविभक्तत्वाद्विकारो विकारत्वाच्चोत्पद्यत इत्युक्तम् । अत्रोच्यते । नास्य प्रविभागः स्वतोऽस्ति, 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' ( श्वे० ६।११ ) इति श्रुतेः । बुद्ध्याद्युपाधिनिमित्तं त्वस्य प्रविभागप्रतिभानमाकाशस्यैव घटा-  
 दिमंबन्धनिमित्तम् । तथाच शास्त्रम्—'स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः' ( बृ० ४।४।५ ) इत्येवमादि ब्रह्मण एवाविकृतस्य सतोऽस्यैकस्यानेकबुद्ध्यादिमयत्वं दर्शयति । तन्मयत्वं चास्य तद्विभक्तस्वरूपानभिव्यक्त्या तदुपरक्तस्वरूपत्व स्त्रीमयो जाल्म इत्यादिवद् द्रष्टव्यम् । यदपि क्वचिदस्योत्पत्तिप्रलयश्रवणं तदप्यत एवोपाधिसंबन्धान्ने-  
 तव्यम् । उपाध्युत्पत्त्यास्योत्पत्तिस्तत्प्रलयेन च प्रलय इति । तथा च दर्शयति—'प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति' ( बृ० ४।५।१३ ) इति । तथोपाधिप्रलय एवायं नात्मविलय इत्येतदप्यत्रैव 'मा भगवान्मोहान्तमापीपदन्न वा अहमिमं विजानामि न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति' इति प्रश्नपूर्वकं प्रतिपादयति—'न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्य-  
 विनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा मात्राऽसंसर्गस्त्वस्य भवति' ( बृ० ४।५।१४ ) इति । 'प्रतिज्ञानुपरोधोऽप्यविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवभावाभ्यु-  
 पगमात् । लक्षणभेदोऽप्यनयोरुपाधिनिमित्त एव । 'अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहि' ( बृ० ४।३।१५ ) इति च प्रकृतस्यैव विज्ञानमयस्यात्मनः सर्वसंसार-  
 धर्मप्रत्याख्यानेन परमात्मभावप्रतिपादनात् । तस्मान्नेवात्मोत्पद्यते प्रविलीयते चेति ॥ १७ ॥

ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि जीवात्मा नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि उत्पात्त प्रकरण मे जीवात्मा की उत्पत्ति का अश्रवण है । बहुत प्रदेशो मे उत्पत्ति प्रकरण मे इस जीव का धवण नहीं है । यदि कही कि कही का अश्रवण अन्यत्र श्रुत का वारण नहीं करता है, यह कहा जा चुका है, तो कहा जाता है कि कहा सत्य गया है, परन्तु

इस जीवात्मा की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है यह हम कहते हैं, क्योंकि उन श्रुतियों से जीवात्मा के नित्यत्व का बोध होता है। सूत्र गत च शब्द अजत्ववादि का बोधक होता है कि अजत्व अमरत्व अभयत्वादि श्रुति से भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। इस जीवात्मा का नित्यत्व श्रुतियों से अवगत होता है, इसी प्रकार अजत्व अविकारित्व अविकृत ब्रह्म का ही जीवात्मा रूप से और ब्रह्मात्मा रूप से अवस्थान (स्थिति) अवगत होता है, और इस प्रकार के स्वरूप वाले की उत्पत्ति उपपन्न नहीं हो सकती है। वे कौन श्रुतियाँ हैं कि जिनसे नित्यत्वादि अवगत होते हैं। ऐसी आकाशा हो तो सुनो (जीव नहीं मरता है)। प्रथम कथित विज्ञान मय यह आत्मा महान्, अज, अजर, अमर, अमृत, अभय और ब्रह्म है। विपश्चित मेधावी विद्वान् न जन्मता है न मरता है। यह आत्मा अज नित्य शाश्वत (सनातन अपक्षय रहित) पुराण (एक रस) है। वह ब्रह्म ही कार्य को रचकर जीव रूप से फिर प्रविष्ट हुआ। उस ब्रह्म ने विचार किया कि इस जीवात्मा रूप से प्रवेश करके नाम और रूप का व्याकरण विभाग करूँ। और इस शरीर में नखाग्र पर्यन्त प्रविष्ट हुआ। वह सत्य ब्रह्म स्वरूप तुम हो। मैं ब्रह्म हूँ। यह आत्मा ब्रह्म है सबका अनुभव कर्ता है) नित्यत्वादि को कहने वाली होती हुई इस प्रकार की श्रुतियाँ जीव की उत्पत्ति का प्रतिबन्ध निवारण करती हैं। यदि कही कि प्रविभक्त होने से जीवात्मा विकार रूप है, और विकार होने से उत्पन्न होता है, यह प्रथम कहा गया है, तो यहाँ उत्तर कहा जाता है कि इस जीवात्मा का स्वतः स्वरूप से विभाग नहीं है। इससे विकार बोधक हेतु का अभाव है, क्योंकि (एक देव सब भूतों में गूढ—छिपा है, सर्वव्यापी, सब भूत का अन्तरात्मा है) इस श्रुति से वस्तुतः अविभाग सुना जाता है। इससे घटादि उपाधिनिमित्तक आकाश के प्रविभाग के समान बुद्धि आदि उपाधिनिमित्तक इसके प्रविभाग का प्रतिभान (प्रतीति) होता है। ऐसा ही शास्त्र है कि (वह यह आत्म ब्रह्म है, और विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय है) इत्यादि शास्त्र अविकृत एक सत् ब्रह्म को ही अनेक बुद्धि आदि मयत्व (बुद्धि आदि रूपत्व) दिखाता है। इस ब्रह्म का बुद्धि आदि मयत्व यह है कि बुद्धि आदि से विविकृत भिन्न स्वरूप की अनभिव्यक्ति से बुद्धि आदि से उपरक्त (ग्रस्त) रजित स्वरूपत्व है। जैसे जालम (असमीक्ष्यकारी) कामी स्त्रीमय है, इत्यादि व्यवहार होता है, वैसे ही इन बुद्धिमय आदि वचनों को समझना चाहिये, अर्थात् यहाँ विकार अर्थ में मयट् प्रत्यय नहीं है कि जिससे ब्रह्म विकारत्व नहीं मानने पर भी बुद्धि आदि के विकारत्व जीव को प्राप्त हो। किन्तु प्रचुरार्थ में मयट् है, उसका तदधीनत्व अर्थ है। जो कही इस जीव के उत्पत्ति प्रलय का श्रवण होता है, वह भी इस उपाधि सम्बन्ध से ही नेतव्य (गौण ज्ञातव्य) है कि उपाधि की उत्पत्ति से इसकी उत्पत्ति कही जाती है, और उपाधि के प्रलय से इसका प्रलय समझा जाता है। वैसे ही श्रुति दिखाती है कि (विज्ञान धन ही आत्मा इन भूत रूप देहों से समुत्थित (जन्मवान्) होकर उन देहों के विनाश के अनुसार विनष्ट भासता है, इससे मरण के

बाद सज्ञा नहीं रहती है ) इसी प्रकार यह प्रलय भी उपाधि का ही होता है, आत्मा का विलय नहीं होता है, इस तत्त्व को भी यहाँ ही प्रश्नपूर्वक शास्त्र प्रतिपादन करता है कि ( मुझे आप भगवान ने मोह के मध्य ( आन्ति ) में डाला है, मरने पर सज्ञा नहीं रहती है, इस अर्थ को मैं नहीं जानती हूँ ) यह मैत्रेयी का प्रश्न है कि इस अज्ञात अर्थ को कहिये । उत्तर है कि ( अरे मैत्रेयि ! मैं मोहजनक वाक्य नहीं कहता हूँ, यह आत्मा अनुच्छिन्नचित्तधर्मा अपरिणामी है, परन्तु शरीर रहित अवस्था में मात्रा ( विषय ) से इसका सम्बन्ध नहीं होता है, इससे प्रेत्य संज्ञा नहीं है । ऐसा कहा जाता है, उस समय विशेष ज्ञान का अभाव रहता है ) और अविकृत ब्रह्म के ही जीवभाव के स्वीकार से प्रतिज्ञा का भी बाध नहीं होता है, इसलिये जीव के जन्म मानने की जरूरत नहीं है, और जीव ब्रह्म के लक्षण भेद भी उपाधि निमित्तक ही हैं, ( इसके बाद विमोक्ष ही के लिये कहे ) इत्यादि प्रश्न और उत्तर द्वारा प्रकृत विज्ञानमय आत्मा के सब सप्तास धर्म का प्रत्याख्यान करके परमात्मरूपता के प्रतिपादन से औपाधिक लक्षण का भेद सिद्ध होता है, अतः वस्तुतः जीवात्मा नहीं उत्पन्न होता है, न प्रलीन नष्ट होता है ॥ १७ ॥

### ज्ञाधिकरण ॥ १२ ॥

अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपो जीवोचिद्रूप इष्यते । चेद्भावात्सुषुप्त्यादौ जाग्रच्चिन्मनसाकृता ॥१॥  
ब्रह्मत्वादेव चिद्रूपश्चिसुषुप्तौ न लभ्यते । द्वैतादधिद्वैतलोपाग्रहि द्रष्टुरिति श्रुतेः ॥२॥

इस उक्त उत्पत्ति आदि रहित ब्रह्मरूपता से ही जीव ज्ञाता नित्य चेतन स्वरूप है । वहाँ वादियों की विप्रतिपत्ति से संशय होता है कि जीव अचेतन रूप है अथवा चेतन स्वरूप है । न्यायादि मत के अनुसार पूर्वपक्ष है कि आत्मा अचेतन स्वरूप माना जाता है, परन्तु ज्ञानशक्ति वाला है, अचित्स्वरूप होने से सुषुप्ति मूर्च्छा आदि में ज्ञान का अभाव रहता है और ज्ञानशक्ति के रहने से मन के साथ सयोग से जाग्रत् में ज्ञान कृत ( जन्य ) होता है । सिद्धान्त है कि पूर्वोक्त रीति से जीवात्मा के नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही होने से जीवात्मा नित्य चित् स्वरूप है, सुषुप्ति में चित्स्वरूप नहीं लुप्त होता है, अन्यथा जागने पर सुषुप्ति के सुख का स्मरण नहीं होना चाहिए कि मैं सुखपूर्वक सोया था इत्यादि । यदि कहे कि ज्ञान रूप रहते उस समय द्वैत का ज्ञान क्यों नहीं होता है, तो कहा जाता है कि द्वैत का लोप अभाव से उस समय द्वैत का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात् उतनी देर के लिए बाह्य भोगप्रद कर्मों के उपरत हो जाने से इन्द्रियादि का अपने कारणों में विलय हो जाता है, मन, बुद्धि की स्फुरणा शक्ति तमोगुण से आच्छादित हो जाती है, इन्द्रियजन्य विशेष वृत्ति रूप ज्ञान नहीं होते हैं और साक्षी स्वरूप वृत्ति सहित अविद्या का प्रकाशक आत्मा उस समय भी चिद्रूप ही रहता है, वह ( नहि द्रष्टु-  
दृष्टेः परिलोपो भवति ) इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है ॥ १-२ ॥

## ज्ञोऽत एव ॥ १८ ॥

स किं कणभुजानामिवागन्तुकचैतन्यः स्वतोऽचेतन आहोस्वित्सांख्याना-  
मिव नित्यचैतन्यस्वरूप एवेति वादिविप्रतिपत्तेः संशयः । किं तावत्प्राप्तम् ।  
आगन्तुकमात्मनश्चैतन्यमात्ममनःसंयोगजमग्निघटसंयोगजरोहितादिगुणवदिति  
प्राप्तम् । नित्यचैतन्यत्वे हि सुप्तमूर्च्छितग्रहाविष्टानामपि चैतन्य स्यात् । ते प्रष्टाः  
सन्तो न किञ्चिद्व्यमचेतयामहीति जल्पन्ति स्वस्थाश्च चेतयमाना दृश्यन्ते ।  
अतः कादाचित्कचैतन्यत्वादागन्तुकचैतन्य आत्मेति ।

वह जीवात्मा कणादमतवादियो की मति के अनुसार आगन्तुक अनित्य कार्य रूप  
चैतन्य ( ज्ञान ) वाला और स्वतः स्वरूप से अचेतन है, अथवा साख्यो की मति के  
अनुसार नित्य चैतन्य स्वरूप ही है । वादियो की विप्रतिपत्ति से यह संशय होता है, वहाँ  
क्या प्राप्त है ऐसी जिज्ञासा होने पर पूर्वपक्ष है कि अग्नि और घट के संयोग से जन्म घट  
के रक्त रूपादि गुण के समान आत्मा और मन के संयोग से जन्म आगन्तुक आत्मा के  
चैतन्य ( ज्ञान ) गुण है, यह प्राप्त होता है । जिससे नित्य चैतन्यत्व होने पर, सुप्त,  
मूर्च्छित, ग्रहाविष्टो को भी चैतन्य होगा । उन्हें चेतनता होती नहीं है, जागने पर तथा  
मूर्च्छा रहित स्वस्थ होने पर पूछने से वे लोग कहते हैं, हम उस समय की बातें कुछ भी  
नहीं समझते थे न स्मरण करते हैं । स्वस्थ होकर वर्तमानकाल में चेतयमान ज्ञाता  
दीखते हैं । इसमें कादाचित्क ( किसी काल में साधन से होने वाली ) चेतनता वाला  
होने से आगन्तुक चेतनता वाला आत्मा है ॥

एवं प्राप्तेऽभिधीयते । ज्ञो नित्यचैतन्योऽयमात्मात एव यस्मादेव  
नोत्पद्यते परमेव ब्रह्माविकृतमुपाधिसंपर्काजीवभावेनावतिष्ठते । परस्य हि  
ब्रह्मणश्चैतन्यस्वरूपत्वमात्रातम्—‘विज्ञानमानन्द ब्रह्म’ ( बृ० ३।१।२८ ),  
‘सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तै० २।१।१- ), ‘अनन्तरोऽबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान-  
घन एव’ ( बृ० ४।५।१३ ), इत्यादिषु श्रुतिषु । तदेव चेत्परं ब्रह्म जीव-  
स्तस्माज्जीवस्यापि नित्यचैतन्यस्वरूपत्वमग्न्यौष्ण्यप्रकाशवदिति गम्यते ।  
विज्ञानमयप्रक्रियायां च श्रुतयो भवन्ति—‘असुप्तः सुप्तानभिचाकशीति’  
( बृ० ४।३।११ । ) ‘अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति’ ( बृ० ४।३।६ ) ‘नहि  
विज्ञानुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते’ ( बृ० ४।३।३० ) इत्येवंरूपाः । ‘अथ यो  
वेदेदं जिघ्राणी’ति ‘स आत्मा’ ( छां० ८।१।२।४ ) इति च सर्वैः करणद्वारैरिदं  
वेदेदं वेदेति विज्ञानेनानुसंधानात्तद्रूपत्वसिद्धिः । नित्यस्वरूपचैतन्यत्वे  
घ्राणाद्यानर्थक्यमिति चेन्न । गन्धादिविषयविशेषपरिच्छेदार्थत्वात्, तथाहि  
दर्शयति—‘गन्धाय घ्राणम्’ इत्यादि । यत्तु सुप्तादयो न चेतयन्त इति तस्य  
श्रुत्यैव परिहारोऽभिहितः । सुषुप्तं प्रकृत्य ‘यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति,  
नहि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्य-

द्विभक्तं यत्प्रश्येत्' ( बृ० ४।३।२३ ) इत्यादिना । एतदुक्तं भवति । विषया-  
भावादियमचेतयमानता न चैतन्याभावादिति । यथा वियदाश्रयस्वप्रकाशस्य  
प्रकाश्याभावादनभिव्यक्तिर्न स्वरूपाभावात्तद्वत् । वैशेषिकादितर्कश्च श्रुतिविरोधे  
आभासीभवति । तस्मान्नित्यचैतन्यस्वरूप एवात्मेति निश्चिनुमः ॥ १८ ॥

ऐसा प्राप्त होने पर कहा जाता है । अतएव इस पूर्वोक्त हेतु से ही यह आत्मा 'ज्ञ'  
नित्य चैतन्य स्वरूप है अर्थात् जिससे उत्पन्न नहीं होता है, अविकृत पर ब्रह्म ही उपाधि  
सम्बन्ध से जीव रूप से स्थिर होता है । इससे नित्य चैतन्य स्वरूप है । (विज्ञान आनन्द  
स्वरूप ब्रह्म है । सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है । अन्तर बाह्य भेद रहित पूर्ण ज्ञान  
घन ही है ) इत्यादि श्रुतियो मे परब्रह्म को ही चैतन्य स्वरूपत्व कहा है । वही परब्रह्म  
ही जिससे जीव है उसमे जीव को भी अग्नि की उष्णता और प्रकाश के समान नित्य  
चैतन्य स्वरूपत्व है यह प्रतीत होता है, समझा जाता है । और ( योग्य विज्ञानमय ) इस  
विज्ञानमय के प्रकरण मे श्रुतियाँ है कि (स्वयं असुप्त होता हुआ सुप्तो को प्रकाशित करता  
है ) यहाँ स्वप्न मे यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है । विज्ञाता के विज्ञान का अभाव—नाश  
नहीं होता है । इत्यादि इनसे साक्षात् चिद्रूपता सिद्ध होती है । और जो जानता है कि  
इस वस्तु को सूँघता हूँ वह आत्मा है । इस प्रकार सब करणों द्वारा इसको जानता है,  
इसको जानता है, इस विज्ञान द्वारा अनुसंधान से उस विज्ञान रूपत्व की सिद्धि होती  
है । नित्य विज्ञान रूप के बिना अनित्य विज्ञानो का अनुसंधान नहीं हो सकता है । यदि  
कोई कहे कि नित्य चैतन्य स्वरूपत्व के होने पर घ्राणादि रूप ज्ञान के हेतु इन्द्रियो की  
अनर्थकता होगी तो यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि गन्धादि रूप विषय विशेष के पृथक्-  
पृथक् वृत्ति ज्ञान रूप परिच्छेदाथक घ्राणादि हैं । जिससे इसी प्रकार श्रुति दिखाती है  
कि (गन्ध विषय ज्ञान के लिए घ्राण है) इत्यादि । सुप्त मूर्च्छितादि नहीं जानते हैं, चैतन्य  
होने पर कहते हैं कि कुछ नहीं जाना इत्यादि । इससे जो आत्मा की अचेतनता का  
संशय होता है, उसका परिहार ( निवारणोपाय ) श्रुति से ही कहा गया है, जैसे कि  
सुषुप्त का आरम्भ करके ( जो वह सुषुप्ति मे नहीं देखता है वह स्वरूप चैतन्य से देखता  
हुआ ही अन्तःकरण के लीन हो जाने से अन्तःकरण की वृत्ति द्वारा नहीं देखता है,  
अविनाशी होने से द्रष्टा की दृष्टि—ज्ञान का परिलोप नहीं होता है, परन्तु वहाँ उससे अन्य  
विभक्त द्वितीय वस्तु नहीं है कि जिसको वह देखे जाने ) इत्यादि से परिहार किया गया  
है । इससे यह उक्त होता है कि विषय के अभाव से यह अज्ञातृता है, चेतनता के अभाव  
से नहीं । जैसे आकाश के आश्रित प्रकाश की प्रकाश करने योग्य वस्तु के अभाव से  
अभिव्यक्ति नहीं होती है, स्वरूप के अभाव से नहीं जिससे रात्रि के समय प्रकाश योग्य  
चन्द्रमा को प्राप्त होकर प्रकाश अभिव्यक्त होता है, अन्यथा नहीं, इसी प्रकार यहाँ चिद्  
अभिव्यक्ति में समझना चाहिए । श्रुति के विरोध होने पर वैशेषिकादि के तर्क आभास  
( मिथ्या ) हो जाते हैं, इससे नित्य चैतन्य स्वरूप ही आत्मा है, यह निश्चित करते हैं ॥

### उत्क्रान्तिगत्यधिकरण ॥ १३ ॥

जीवोऽणुः सर्वगो वा स्यादेषोऽणुरिति वाक्यतः । उत्क्रान्तिगत्यागमनश्रवणाच्चाणुरेव सः ॥ साभासबुद्ध्याणुत्वेन तदुपाधित्वतोऽणुता । जीवस्य सर्वगत्वं तु स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रुतम् ॥

जीव के मध्यम परिमाण का प्रथम निषेध किया गया है, तो भी सशय है कि मध्यम परिमाण नहीं होने पर भी जीव अणु होगा अथवा सर्वगत होगा, पूर्वपक्ष है कि श्रुति में मरणकालिक उत्क्रमण ( शरीर का त्याग ) फिर लोकान्तर में गमन और लोकान्तर से आगमन के श्रवण से, तथा ( एषोऽणुरात्मा ) इस श्रवण से जीव अणु ही है ॥ सिद्धान्त है कि आभास सहित बुद्धि के अणु होने से और उपाधि वाला व्यावहारिक जीव के होने से उस व्यावहारिक जीव को उस उपाधिवाला होने ही से अणुता ( सूक्ष्मता ) है, और स्वतः स्वरूप से तो जीव को ब्रह्मत्वतः ( ब्रह्मरूपता ) से विभुत्व श्रुत है ॥१-२॥

### उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् ॥ १९ ॥

इदानीं तु किंपरिमाणो जीव इति चिन्त्यते, किमणुपरिमाण उत मध्यमपरिमाण आहोस्विन्महापरिमाण इति । ननु नात्मोत्पद्यते नित्यचैतन्यश्चायमित्युक्तम्, अतश्च पर एवात्मा जीव इत्यापत्ति परस्य चात्मनोऽनन्तत्वमात्रात्, तत्र कुतो जीवस्य परिमाणचिन्तावतार इति । उच्यते । सत्यमेतत् । उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रवणानि तु जीवस्य परिच्छेदं प्रापयन्ति । स्वशब्देन चास्य क्वचिदणुपरिमाणत्वमात्रायते । तस्य सर्वस्यानाकुलत्वोपपादनायायमारम्भः । तत्र प्राप्तं तावदुत्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रवणात्परिच्छन्नोऽणुपरिमाणो जीव इति । उत्क्रान्तिस्तावत्—‘स यदास्माच्छरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति’ ( कौषीत० ३।३ ) इति । गतिरपि ‘ये वै के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति’ ( कौषीत० १।२ ) इति । आगतिरपि ‘तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे’ ( बृ० ४।४।६ ) इति । आसामुत्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रवणात्परिच्छन्नस्तावज्जीव इति प्राप्नोति । न हि विभोश्चलनमवकल्पत इति । सति च परिच्छेदे शरीरपरिमाणत्वस्यार्हतपरीक्षायां निरस्तत्वादणुरात्मेति गम्यते ॥ १६ ॥

अब इस समय विचार किया जाता है कि जीव किस परिमाण वाला है, क्या अणु परिमाण वाला है, अथवा मध्यम परिमाण वाला है । या महापरिमाण वाला विभु है । परन्तु यहाँ शका होती है कि ( नात्माऽश्रुते ) इत्यादि सूत्रों से कहा जा चुका है कि आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, और यह आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है । इसीसे परमात्मा ही जीव है, यह प्राप्त—सिद्ध होता है । परमात्मा को अनन्तत्व आप्राप्त ( वेद प्रतिपादित ) है, वहाँ जीव के परिमाण की चिन्ता का अवसर कहाँ से आया । इस शका का उत्तर कहा जाता है कि पारमार्थिक जीव को अनन्त ब्रह्मरूपता है,



यह बात सत्य है, परन्तु व्यावहारिक जीव के उत्क्रान्ति गति आगति के श्रवण जीव के परिच्छेद ( परमात्मा से भेद, परिच्छिन्नता ) को प्राप्त ( बोध ) कराते हैं। कहीं स्वशब्द से भी श्रुति इस जीव के अणुत्व को कहती है, अणु वाचक शब्द से साक्षात् अणुत्व का वर्णन करती है। उन सबके अनाकुलत्व ( अव्यस्तता-अविरुद्धता ) उपपादन ( साधन ) के लिये यह आरम्भ है, उस आरम्भ में प्रथम प्राप्त होता है कि उत्क्रमण, गति और आगति के श्रवण से परिच्छिन्न अणुपरिमाण वाला जीव है। प्रथम उत्क्रान्ति का श्रवण है कि ( वह जीव जिस काल में इस शरीर से उत्क्रमण करता है, इससे निकलता है, इसे त्यागता है, उस समय इन इन्द्रिय बुद्धि आदि के साथ निकलता है ) गति की भी श्रुति है कि ( जो कोई इस लोक से प्रयाण - यात्रा करते हैं, वे सब चन्द्रमा को प्राप्त करते हैं—चन्द्रलोक में जाते हैं ) आगति भी सुनी जाती है कि ( उस चन्द्रलोक से फिर इस लोक के प्रति कर्मानुष्ठान के लिये आते हैं ) इन उत्क्रान्ति गति आगतियों के श्रवण से जीव परिच्छिन्न है, यह पक्ष प्रथम प्राप्त होता है, जिससे विभु का चलन नहीं सिद्ध हो सकता है। और परिच्छेद के सिद्ध होने पर शरीर तुल्य मध्यम परिमाणता के आर्हत ( जैन ) परीक्षा में निरस्त होने से आत्मा अणु है, ऐसा सिद्ध होता है ॥१९॥

### स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥

उत्क्रान्तिः कदाचिदचलतोऽपि ग्रामस्वाम्यनिवृत्तिवद्देहस्वाम्यनिवृत्त्या कर्मक्षयेणावकल्पते। उत्तरे तु गत्यागती नाचलतः संभवतः। स्वात्मना हि तयोः संबन्धो भवति, गमेः कर्तृस्थक्रियात्वात्। अमध्यमपरिमाणस्य च गत्यागती अणुत्व एव संभवतः। सत्योश्च गत्यागत्योरुत्क्रान्तिरप्यपसृप्तिरेव देहादिति प्रतीयते, न ह्यनपसृप्तस्य देहाद्गत्यागती स्याताम्, देहप्रदेशानां चोत्क्रान्तावपादानत्ववचनात् 'चक्षुषो वा मूर्ध्नी वा वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः' ( बृ० ४।४।२ ) इति। 'स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति' ( बृ० ४।४।१ ), 'शुक्रमादाय पुनरैति स्थानम्' ( बृ० ४।३।११ ) इति चान्तरेऽपि शरीरे शरीरस्य गत्यागती भवतः। तस्मादप्यस्याणुत्वसिद्धिः ॥ २० ॥

उत्क्रान्ति मरण—शरीर के त्याग को कहते हैं। वह मरण शरीर का त्याग तो कभी नहीं चलने वाले का भी ग्राम की स्वामिता की निवृत्ति के समान कर्मक्षय के द्वारा देह की स्वामिता की निवृत्ति से मन मात्र के गमन से अभिमान के नष्ट होने से सिद्ध हो सकता है। परन्तु उत्क्रान्ति के उत्तर—बाद में होने वाली गति और आगति अचल आत्मा के असम्भव हैं, चलने के बिना गति आगति की सिद्धि नहीं हो सकती है, जिससे गति और आगति को स्वात्मा कर्ता के साथ सम्बन्ध होता है, क्योंकि गमन को कर्तृस्थ क्रियात्व है। इससे गमनादि वाले आत्मा को अणुत्व है। और मध्यम परिमाण-रहित आत्मा के अणुत्व होने ही पर गमनागमन हो सकते हैं। और गमनागमन के होने पर उत्क्रान्ति भी देह से निर्गमन रूप ही होती है ऐसी प्रतीति है। क्योंकि देह से

निर्गमन रहित के गमनागमन नहीं हो सकते हैं, स्थूल देह सहित चन्द्र लोक में जाना, वहाँ से आना नहीं हो सकता है। देह के प्रदेशों ( अवयवों ) की उत्क्रान्ति में अपादानत्व के कथन से भी निर्गमन की सिद्धि होती है। प्रदेश का कथन है कि ( नेत्र से वा मूर्धा-सिर से वा अन्य मुखादि शरीर के प्रदेशों से यह आत्मा उत्क्रमण करता है )। वह आत्मा इन इन्द्रिय रूप तेजों मात्रा-तेज के अवयवों का ग्रहण करता हुआ हृदय में ही अनुगमन करता है। और इन्द्रियरूप तेजोमय शुक्र प्रकाश को लेकर फिर जागरित स्थान में आता है। इस प्रकार देह के अन्तर में भी जीव के गमनागमन होते हैं। इससे भी अणुत्व की सिद्धि होती है ॥ २० ॥

### नाणुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात् ॥ २१ ॥

अथापि स्यान्नाणुरयमात्मा । कस्मात् ? अतच्छ्रुतेः । अणुत्वविपरीतपरिमाणश्रवणादित्यर्थः । 'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बृ० ४।४।१२ ), 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः', 'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म' ( तै० २।१।१ ) इत्येवंजातीयका हि श्रुतिरात्मनोऽणुत्वे विप्रतिपिध्यतेति चेत् ।

नैष दोषः । कस्मात् ? इतराधिकारात् । परस्य ह्यात्मनः प्रक्रियायामेपा परिमाणान्तरश्रुतिः, परस्यैवात्मनः प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात् । विरजः पर आकाशादित्येवंविधाच्च परस्यैवात्मनस्तत्र तत्र विशेषाधिकारात् । ननु 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बृ० ४।४।२२ ) इति शारीर एव महत्त्वसंबन्धित्वेन प्रतिनिर्दिश्यते । शास्त्रदृष्ट्या त्वेप निर्देशो वामदेववद्दृष्टव्यः । तस्मात्प्राज्ञविषयत्वात्परिमाणान्तरश्रवणस्य न जीवस्याणुत्वं विरुध्यते ॥ २१ ॥

उक्त हेतुओं से आत्मा की अणुता की सिद्धि होने पर भी यदि शंका होती हो कि यह आत्मा अणु नहीं है, क्योंकि अतत् श्रुति से अर्थात् अणुत्व से विपरीत परिमाण के श्रवण से शंका होती है कि ( जो यह प्राणों में विज्ञानमय आत्मा है, वह यह निश्चित आत्मा महान् और अज है । आकाश के समान सर्वगत और नित्य है । सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म है ) इस प्रकार की श्रुतियाँ आत्मा के अणुत्व होने पर बाधित हो जायँगी । तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ जीव से अन्य का अधिकार ( प्रकरण ) है । परमात्मा के प्रकरण में यह अणु परिमाण से भिन्न परिमाण की श्रुति है, वेदान्तों में प्रधान रूप से परमात्मा को ही वेदितव्य ( ज्ञेय ) रूप से प्रकृतत्व ( प्रकरण ) है । और (आकाश से पर विरज—निर्दोष है) इस प्रकार के परमात्मा ही के तत्त्व स्थानों में अधिकार है, इससे दोष नहीं है । यदि कहो कि (प्राणों में यह विज्ञानमय आत्मा है) यह विज्ञानमय श्रुति से जीव ही महत्त्व के सम्बन्धी रूप से प्रतिनिर्दिष्ट ( कथित ) होता है, कहा जाता है । तो अणु जीवात्मा के ब्रह्म के साथ भेदाभेद के स्वीकार से शास्त्र-दृष्टि द्वारा वामदेव के समान इस निर्देश को ब्रह्माभेद अंश से समझना

चाहिए । जिससे परिमाणान्तर श्रवण के प्राज्ञ ( ईश्वर ) विषयक होने से जीव के अणुत्व विरुद्ध नहीं होता है ॥ २१ ॥

### स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २१ ॥

इतरश्चाणुरात्मा यतः साक्षादेवास्याणुत्ववाची शब्दः श्रूयते—‘एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश’ ( मुण्ड० ३।१।६ ) इति । प्र णसंबन्धाच्च जीव एवायमणुरभिहित इति गम्यते । तथोन्मानमपि जीवस्या-  
णिमानं गमयति—‘वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः’ ( श्वे० ८।८ ) इति । ‘आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः’ ( श्वे० १।८ ) इति चोन्मानान्तरम् ॥ २२ ॥

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी आत्मा अणु है कि जिससे साक्षात् ही इस आत्मा के अणुत्व का वाचक शब्द सुना जाता है कि (यह आत्मा अणु है), चित्त से जानने योग्य है कि जिसमें पाच प्रकार के प्राण सविष्ट—प्रविष्ट हैं ) और प्राण के सम्बन्ध से यह जीव ही अणु अभिहित ( उक्त ) हुआ है, यह प्रतीत होता है । इसी प्रकार उन्मान ( उद्धरण पूर्वक उपमा रूप मान ) अत्यन्त अपकृष्ट परिमाण भी जीव की अणुता का बोध कराते हैं । और ( बाल (केश) के अग्रभाग के सौ भाग करके उसके एक भाग के फिर सौ भाग करने पर जो अत्यन्त सूक्ष्म कल्पित भाग होता है, उसके समान अत्यन्त सूक्ष्म वह जीव जानने योग्य है । अवर जीव भी आरा के अग्र मात्र ही दृष्ट है ) ये दो प्रकार के उन्मान हैं ॥ २२ ॥

नन्वणुत्वे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिर्विरुद्ध्यते, दृश्यते च जाह्न-  
वीह्वदनिमग्नानां सर्वाङ्गशैत्योपलब्धिर्निदाघसमये च सकलशरीरपरितापोपल-  
ब्धिरिति, अत उत्तरं पठति—

थका होती है कि जीव के अणुत्व होने पर एकदेश में स्थिर जीव को सम्पूर्ण देहगत शीत उष्णादि की उपलब्धि विरुद्ध होती है । गङ्गा के हृद ( अगाध जल ) में निमग्नो ( गोता लगाने वालो ) को सर्वाङ्ग में शीतता की उपलब्धि देखी जाती है । और निदाघ—उष्ण ग्रीष्म काल में सम्पूर्ण शरीर में ताप की उपलब्धि देखी जाती है । इससे उत्तर रूप सूत्र पढ़ते हैं कि—

### अविरोधश्चन्दनवत् ॥ २३ ॥

यथाहि हरिचन्दनबिन्दुः शरीरैकदेशसम्बद्धोऽपि सन्सकलदेहव्यापिन-  
माह्लादं करोत्येवमात्मापि देहैकदेशस्थः सकलदेहव्यापिनीमुपलब्धिं करिष्यति ।  
त्वक्सम्बन्धाच्चास्य सकलशरीरगता वेदना न विरुद्ध्यते, त्वगात्मनोर्हि सम्बन्धः  
कृत्स्नायां त्वचि वर्तते, त्वक्च कृत्स्नशरीरव्यापिनीति ॥ २३ ॥

जैसे शरीर के एकदेश में सम्बन्ध वाला होता हुआ भी हरिचन्दन का बिन्दु सम्पूर्ण

देह मे व्यापक आनन्द को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार देह के एक देश मे स्थिर आत्मा भी सम्पूर्ण देह मे व्यापक उपलब्धि को उत्पन्न करेगा। आत्मा के एक देश मे रहते भी आत्मा का त्वक् के साथ सम्बन्ध होता है, और आत्मा के सम्बन्ध युक्त त्वक् सम्पूर्ण देह मे व्यापी है, इससे त्वक् सम्बन्ध से इसको सम्पूर्ण देहगत ज्ञान विरुद्ध नहीं होता है। क्योंकि त्वक् और आत्मा का सम्बन्ध सम्पूर्ण त्वक् मे व्यापक रहता है। और त्वक् सम्पूर्ण देह मे व्यापक रहता है, क्योंकि आत्मा के सयोग युक्त अवयवी रूप त्वक् एक होता है ॥ २३ ॥

**अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्दृदि हि ॥ २४ ॥**

अत्राह—यदुक्तमविरोधश्चन्दनवत्—इति, तदयुक्तं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर-तुल्यत्वात्। सिद्धे ह्यात्मनो देहैकदेशस्थत्वे चन्दनदृष्टान्तो भवति, प्रत्यक्षं तु चन्दनस्यावस्थितिवैशेष्यमेकदेशस्थत्वं सकलदेहाह्लादनं च, आत्मनः पुनः सकलदेहोपलब्धिमात्रं प्रत्यक्षं नैकदेशवर्तित्वम्। अनुमेयं तु तदिति यदप्यु-च्येत। न चात्रानुमानं सम्भवति। किमात्मनः सकलशरीरगता वेदना त्वगि-न्द्रियस्येव सकलदेहव्यापिनः सतः किवा विभोर्नभस इवाहोस्विच्चन्दनविन्दोरि-वाणोरेकदेशस्थस्येति संशयानतिवृत्तेरिति।

अत्रोच्यते नायं दोषः। कस्मात् ? अभ्युपगमात्। अभ्युपगम्यते ह्यात्म-नोऽपि चन्दनस्येव देहैकदेशवृत्तित्वमवस्थितिवैशेष्यम्। कथमित्युच्यते। हृदि ह्येष आत्मा पठ्यते वेदान्तेषु—‘हृदि ह्येष आत्मा’ ( प्रश्न० ३६ ), ‘स वा एष आत्मा हृदि’ ( छा० ८।३।३ ), ‘कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तज्योतिः पुरुषः’ ( बृ० ४।३।७ ) इत्याद्युपदेशेभ्यः। तस्माद्दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरवैषम्याद्युक्तमेवैतदविरोधश्चन्दनवदिति ॥ २४ ॥

यहाँ कहते हैं कि चन्दन के समान जो अविरोध कहा गया है, वह दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक की अतुल्यता से अयुक्त है। जिससे आत्मा के देह के एक देश में स्थिरत्व के सिद्ध होने पर चन्दन दृष्टान्त हो सकता है, वह आत्मा के देह के एकदेशस्थत्व सिद्ध नहीं है, और चन्दन की तो अवस्थिति की विशेषता एकदेशस्थत्व और सम्पूर्ण देह मे आह्लादन आनन्द प्रत्यक्ष है। आत्मा की सम्पूर्ण देह में उपलब्धि मात्र प्रत्यक्ष है, एकदेशवर्तित्व प्रत्यक्ष नहीं है, इससे कार्य रूप उपलब्धि की शरीर में व्यापकता से शरीर मे व्यापक ही आत्मा सिद्ध होता है, इसीसे यदि ऐसा भी कहें कि वह आत्मा के देह के एकदेशस्थत्व अनुमेय ( अनुमान से ज्ञेय ) है। तो यहाँ अनुमान का सम्भव नहीं है, जिससे यह आत्मा की सकल शरीरगत वेदना ( ज्ञान ) त्वक् इन्द्रिय के समान सम्पूर्ण देह मे व्यापक होने से है। अथवा आकाश के समान विभु होने से है, या चन्दन विन्दु के समान अणु एकदेशस्थ का है इस संशय की अनतिवृत्ति अनिवृत्ति से अनुमान का असम्भव है। यहाँ कहा जाता है कि यह दोष नहीं है,

क्योकि अभ्युपगम से देह के एक देश हृदय मे आत्मा की स्थिति सिद्ध है। जिससे चन्दन के समान आत्मा के देह के एक देश मे वृत्तित्व रूप अवस्थिति विशेष माना जाता है, श्रुति से सिद्ध है, कैसे माना जाता है, सो कहा जाता है कि वेदान्तो मे यह आत्मा हृदय मे पढा जाता है, जैसे कि ( हृदय मे यह आत्मा रहता है, सो यह आत्मा निश्चय हृदय मे रहता है। कौन आत्मा है ऐसा पूछने पर उत्तर है कि जो यह विज्ञानमय प्राणो मे है सो हृदय के अन्तर मे ज्योति स्वरूप पुरुष आत्मा है ) इत्यादि उपदेशो से ही हृदय वृत्ति आत्मा सिद्ध होता है, जिससे दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक को अविषमता से अविरोधचन्दनवत् यह युक्त ही है ॥ २४ ॥

### गुणाद्वा लोकवत् ॥ २५ ॥

चैतन्यगुणव्याप्तेर्वाऽणोरपि सतो जीवस्य सकलदेहव्यापि कार्यं न विरु-  
ध्यते। यथा लोके मणिप्रदीपप्रभृतीनामपवरकैकदेशवर्तिनामपि प्रभाऽपवरक-  
व्यापिनी सती कृत्स्नेऽपवरके कार्यं करोति तद्वत्। स्यात्कदाचिच्चन्दनस्य  
सावयवत्वात्सूक्ष्मावयवविसर्पणेनापि सकलदेहे आह्लादयितृत्वं न त्वणोर्जीवस्या-  
वयवाः सन्ति यैरयं सकलदेहं विप्रसर्पेदित्याशङ्क्य गुणाद्वा लोकवदित्युक्तम् ॥

अत्रा जीव के अणु होते भी चैतन्य गुण की सम्पूर्ण देह मे व्याप्ति से देहमात्र मे व्यापक उपलब्धि रूप कार्य विरुद्ध नहीं होता है। जैसे लोक मे अपवरक ( अपवारक-  
आच्छादक ) गृहादि के एकदेश मे वर्तमान भी दीप, मणि आदि की प्रभा अपवरक मे व्यापक होकर सम्पूर्णा अपवरक मे कार्य करती है, जैसे ही एकदेशस्थ आत्मा के सम्पूर्णा देह में व्यापक चैतन्य गुण कार्य करेगा। चन्दन के सावयव होने से सूक्ष्म अवयवों की गति द्वारा फैलने से कभी सम्पूर्ण शरीर मे अह्लाद जनकत्व चन्दन बिन्दु को हो सकता है, और अणु जीव को तो अवयव नहीं है कि जिनके द्वारा यह जीव सम्पूर्ण देह में फैल सकेगा, ऐसी शंका करके गुणाद्वा लोकवत् यह कहा गया है ॥ २५ ॥

कथं पुनर्गुणो गुणिव्यतिरेकेणान्यत्र वर्तेत, नहि पटस्य शुद्धो गुणः  
पटव्यतिरेकेणान्यत्र वर्तमानो दृश्यते। प्रदीपप्रभावद्भवेदिति चेत्। न। तस्या  
अपि द्रव्यत्वाभ्युपगमात्। निबिडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीपः, प्रविरलावयवं तु  
तेजोद्रव्यमेव प्रभेति। अत उत्तरं पठति—

यहाँ शंका होती है कि फिर भी यह दोष है कि गुणी आत्मा के बिना गुण रूप चैतन्य अन्य देश मे कैसे रह सकता है। प्रभा तो द्रव्य है वह फैल सकता है। परन्तु पट के शुक्लगुण पट के बिना अन्यत्र वर्तमान नहीं देखा जाता है। यदि प्रदीप की प्रभा के समान अन्यत्र वृत्तित्ता कहाँ, तो उसको द्रव्य मानने से कहना नहीं बन सकता है। जिससे निबिड ( घनीभूत ) अवयव वाला तेज रूप द्रव्य प्रदीप होता है और प्रविरल अवयव वाला तेज रूप द्रव्य ही प्रभा कहा जाता है, ऐसी शंका होने पर फिर उत्तर पढ़ते हैं कि—

## व्यतिरेको गन्धवत् ॥ २६ ॥

यथा गुणस्यापि सतो गन्धस्य गन्धवद्द्रव्यतिरेकेण वृत्तिर्भवति । अप्रा-  
प्लेष्वपि कुसुमादिषु गन्धवत्सु कुसुमगन्धोपलब्धेः, एवमणोरपि सतो जीवस्य  
चैतन्यगुणव्यतिरेको भविष्यति, अतश्चानैकान्तिकमेतद्गुणत्वाद्द्रापाविवदाश्रय-  
विश्लेषानुपपत्तिरिति, गुणस्यैव सतो गन्धस्याश्रयविल्लेषदर्शनात् । गन्धस्यापि  
सहैवाश्रयेण विश्लेष इति चेत् । न । यस्मान्मूलद्रव्याद्विश्लेषस्तस्य क्षयप्रस-  
ङ्गात् । अक्षीयमाणमपि तत्पूर्वावस्थातो गम्यते, अन्यथा तत्पूर्वावस्थैर्गुरुत्वादि-  
भिर्हीयते । स्यादेतत् । गन्धाश्रयाणां विश्लिष्टानामवयवानामल्पत्वात्मन्नापि  
विशेषो नोपलक्ष्यते, सूक्ष्मा हि गन्धपरमाणवः सर्वतो विप्रसृता गन्धबुद्धिसु-  
त्पादयन्ति नासिकापुटमनुप्रविशन्त इति चेत् । न । अतीन्द्रियत्वात्परमाणूनां,  
स्फुटगन्धोपलब्धेश्च नागकेसरादिषु । न च लोके प्रतीतिर्गन्धवद्द्रव्यमात्रात-  
मिति, गन्ध एवात्रात इति तु लौकिकाः प्रतियन्ति । रूपादिष्वशाश्रयव्यतिरेका-  
नुपलब्धेर्गन्धस्याप्ययुक्त आश्रयव्यतिरेक इति चेत् । न । प्रत्यक्षत्वाद्नुमानाप्र-  
वृत्तेः । तस्माद्यद्यथा लोके दृष्टं तत्तथैवानुभन्तव्यं निरूपकैर्नान्यथा । नहि रमो  
गुणो जिह्वयोपलभ्यत इत्यतो रूपादयोऽपि गुणा जिह्वयैवोपलभ्येरन्निति नियन्तुं  
शक्यते ॥ २६ ॥

जैसे गुण होते भी गन्धवाले द्रव्य के बिना गन्ध की वृत्ति ( स्थिति ) होती है,  
और गन्धवाले पुष्पादि द्रव्यो के अप्राप्त रहते भी पुष्पादि के गन्ध की उपलब्धि में द्रव्य  
के बिना गन्ध की वृत्ति है यह समझी जाती है । इसी प्रकार जीव के अणु होंत भी  
उसके चैतन्य गुण का व्यतिरेक होगा, आत्मा के बिना भी चैतन्य गुण रहेगा । इससे  
यह अनैकान्तिक ( व्यभिचारी ) हेतु है कि रूपादि के समान गुण होने से चैतन्य गुण  
को आश्रय आत्मा से विश्लेष वियोग की अनुपपत्ति है । जिससे गुण होते भी गन्ध को  
आश्रय से वियोग विभाग देखा जाता है, इससे गुण का आश्रय से अवियोग का नियम  
नहीं है । यदि गन्ध का भी आश्रय सहित ही विश्लेष विभाग माना जाय तब ठीक  
नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस मूल द्रव्य से विश्लेष विभाग होगा, उसका क्षय ( नाश )  
की प्राप्ति होगी । गन्ध के निरन्तर विभाग होने पर भी वह मूल द्रव्य पूर्वावस्था से  
अक्षीयमाण ( अक्षीण ) ही प्रतीत होता है, अन्यथा क्षीण होने पर तो उस पूर्वावस्था  
वाले गुस्त्वादि से हीन हो जाता । यहाँ शंका होती है कि अवयव के विश्लेष होने पर  
भी यह अक्षीणता हो सकती है, जिससे गन्ध के आश्रय विश्लिष्ट ( वियुक्त ) अवयवों के  
अल्प होने से तथा अवयववान्तर के प्रवेश से होता हुआ भी विश्लेष ( विभाग )  
उपलक्षित ( ज्ञात ) नहीं होता है, सूक्ष्म ही गन्धयुक्त परमाणु सबंध फैलकर नासिका  
पुट में प्रवेश करते हुए गन्धबुद्धि को उत्पन्न कराते हैं । यदि ऐसी शंका हो तो युक्त नहीं  
है, क्योंकि परमाणु अदीन्द्रिय हैं, और नागकेसरादि में स्फुट गन्ध की उपलब्धि होती

है। और लोक में ऐसी प्रतीति नहीं होती है कि गन्ध वाले द्रव्य को सूंघा है, किन्तु गन्ध को ही हमने सूंघा है इस प्रकार लौकिक जन समझते हैं। यदि कहा जाय कि रूपादि में आश्रय से व्यतिरेक ( विभाग ) की अनुपलब्धि से गन्ध को भी आश्रय से व्यतिरेक अयुक्त है, तो सो कहना भी नहीं बन सकता है, क्योंकि व्यतिरेक की प्रत्यक्षता से अनुमान की प्रत्यक्ष में बाधित अर्थ में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इससे जो वस्तु लोक में जैसा दृष्ट है, परीक्षको से वह उसी प्रकार मन्तव्य है। अन्यथा नहीं। जिससे रस गुण जिह्वा से उपलब्ध होता है, समझा जाता है। इससे रूपादि गुण भी जिह्वा से ही उपलब्ध होना चाहिये। ऐसा नियम नहीं कर सकते हैं ॥ २६ ॥

**तथा च दर्शयति ॥ २७ ॥**

हृदयायतनत्वमणुपरिमाणत्वं चात्मनोऽभिधाय तस्यैव 'आ लोमभ्य आ नखाग्रभ्यः' ( छा० ८।८।१ ) इति चैतन्येन गुणेन समस्तशरीरव्यापित्वं दर्शयति ॥ २७ ॥

आत्मा को हृदय रूप आयतन ( आश्रय-स्थान ) वाला और अणु परिमाण वाला कह कह कर, ( उसी आत्मा के चैतन्य गुण द्वारा समस्त शरीर में व्यापित्व (व्यापकत्व) को श्रुति दर्शाती है कि ( लोम पर्यन्त और नखाग्र पर्यन्त आत्मा है ) ॥ २७ ॥

**पृथगुपदेशात् ॥ २८ ॥**

'प्रज्ञया शरीरं समारूढ्य' ( कोषी० ३।६ ) इति चात्मप्रज्ञयोः कर्तृकरणभावेन पृथगुपदेशाच्चैतन्यगुणो नैवास्य शरीरव्यापिता गम्यते। 'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' ( बृ० २।१।१७ ) इति च कर्तुः शारीरात्पृथग्विज्ञानस्योपदेश एतमेवाभिप्रायमुपोद्ब्रूयति तस्मादणुरात्मेति ॥ २८ ॥

( प्रज्ञा से शरीर में समारूढ ( स्थिर ) हो कर शरीर से सुख दुःख को प्राप्त करता है ) इस प्रकार आत्मा और प्रज्ञा का कर्ता और करण रूप से पृथक् उपदेश से चैतन्य गुण द्वारा ही इस आत्माके शरीर में व्यापित्व प्रतीत होता है। और (उस सुषुप्ति काल में यह आत्मा चैतन्य गुण रूप विज्ञान द्वारा इन्द्रियो के विज्ञान शक्ति का ग्रहण करके सोता है ) इस प्रकार कर्ता जीव से पृथक् विज्ञान का उपदेश भी इस चैतन्य गुण की व्याप्ति विषयक अभिप्राय को ही व्यक्त करता है, इससे आत्मा अणु है ॥ २८ ॥

एवं प्राप्ते ब्रूमः—

**तद्गुणसारत्वान्तं तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् ॥ २९ ॥**

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति। नैतदस्त्यणुरात्मेति। उत्पत्त्यश्रवणाद्धि परस्यैव तु ब्रह्मणः प्रवेशश्रवणात्तादात्म्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम्। परमेव चेद्ब्रह्म जीवस्तस्माद्यावत्परं ब्रह्म तावानेव जीवो भवितुमर्हति, परस्य च ब्रह्मणो विभुत्वमात्रात्, तस्माद्विभुर्जीवः। तथाच 'स वा एष महानज

आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बृ० ४।४।२२ ) इत्येवंजातीयका जीव-  
विषया विभुत्ववादाः श्रौताः स्मार्ताश्च समर्थिता भवन्ति । न चाणोर्जीवस्य  
सकलशरीरगता वेदनोपपद्यते । त्वक्सम्बन्धात्स्यादिति चेत् । न । त्वक्कण्ट-  
कतोदनेऽपि सकलशरीरगतैव वेदना प्रसज्येत, त्वक्कण्टकयोर्हि संयोगः  
कृत्स्नायां त्वचि वर्तते त्वक्च कृत्स्नशरीरव्यापिनीति । पादतल एव तु कण्टक-  
तुन्ना वेदनां प्रतिलभन्ते । न चाणोर्गुणव्याप्तिरूपपद्यते, गुणस्य गुणिदेशत्वात् ।  
गुणत्वमेव हि गुणिनमनाश्रित्य गुणस्य हीयेत । प्रदीपप्रभायाश्च द्रव्यान्तरत्वं  
व्याख्यातम् । गन्धोऽपि गुणत्वाभ्युपगमात्साश्रय एव सञ्चरितुमर्हति, अन्यथा  
गुणत्वहानिप्रसङ्गात् । तथाचोक्तं द्वैपायनेन—

उपलभ्याप्सु चेद्गन्धं केचिद्ब्रूयुरनैपुणाः ।

पृथिव्यामेव त विद्यादपो वायुं च संश्रितम् ॥ इति ॥

इस पूर्व कही रीति से आत्मा के अणुत्व और विभुत्व विषयक श्रुतियों के विरोध  
भासने पर जीव के अणुत्व और ईश्वर के विभुत्व प्रतिपादक एकदेशी मत के प्राप्त होने  
पर कहते हैं कि—

परमात्मा के अणुत्वादि के समान जीव के भी उक्त अणुत्वादि का व्यपदेश कथन,  
उस अणु बुद्धि के गुणो के सारत्व ( प्रधानत्व ) दृष्टि से है स्वरूप दृष्टि से नहीं । सूत्र-  
गत तु शब्द पूर्वपक्ष का व्यावृत्ति निवारण करता है कि आत्मा अणु है यह समझ  
ठीक नहीं है । जिससे उत्पत्ति के अश्रवण से, और परब्रह्म ही का जीवरूप से प्रवेश  
श्रवण से, और अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, इत्यादि तादात्म्य उपदेश ( कार्य  
कारणभाव के बिना अभेदोपदेश ) में परब्रह्म ही जीव है, यह कहा जा चुका है ।  
जिससे परब्रह्म ही जीव है इससे जिस परिमाण वाला परब्रह्म है, उस परिमाण  
वाला ही जीव होने योग्य है । परब्रह्म का विभुत्व वेद में कथित है जिससे जीव विभु  
है । इस प्रकार ( सो यह आत्मा महान् और अजन्मा है, जो यह प्राणो में विज्ञानमय  
है । इस प्रकार के जीवविषयक श्रौत और स्मार्त ( श्रुति स्मृति में श्रुत ) विभुत्ववाद  
( विभुत्व का कथन ) समर्थित ( सगत सिद्ध ) होते हैं । अणु जीव को सम्पूर्ण शरीर-  
गत वेदना ( सुख दुःख और उनका अनुभव ) उपपन्न नहीं हो सकता है । यदि कहो  
कि अणु आत्मा के त्वक के साथ सम्बन्ध से सम्पूर्ण शरीरगत वेदना होगी, तो सो  
कहना अयुक्त है, ऐसा मानने पर त्वक को कण्टक से एक देश में वेधन होने पर  
भी सम्पूर्ण शरीरगत ही वेदना प्राप्त होगी । क्योंकि त्वक् और कण्टक का संयोग  
सम्पूर्ण त्वक् में रहता है, और त्वक् सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है । कण्टक से पादतल  
( अधोभाग ) में वेधनव्यथा वाले लोग पादतल में वेदना का अनुभव करते हैं । इससे  
अल्प और महान् का संयोग महद् में व्यापी नहीं होता है, यह सिद्ध होता है । इससे  
अणु जीव सम्पूर्ण शरीर में सुखादि का अनुभव नहीं कर सकता है । अणुरूप जीव  
के ज्ञानगुण की व्याप्ति भी नहीं उत्पन्न हो सकती है । जिससे गुण को गुणरूप देव-



वत्त्व होता है, अर्थात् गुण गुणी में ही रहता है। गुणी के आश्रयण के बिना स्थिति से तो गुण का गुणत्व ही नष्ट हो जायगा। स्वतन्त्र वृत्तित्ता से वह द्रव्य कहलायगा। इसीसे दीप प्रभा को द्रव्यान्तरत्व प्रथम व्याख्यात हो चुका है। गुणत्व के अभ्युपगम से गन्ध भी आश्रय सहित ही संचार गमन कर सकता है। अन्यथा गुणत्व की हानि प्राप्त होगी। इसा प्रकार सहर्षि द्वैपायन ने कहा है कि—

जो कोई जल मे गन्ध का अनुभव होने से जल मे गन्ध कहते हैं सो अनिपुण (अविवेकी) हैं। जल और वायु मे सञ्चित उस गन्ध को भी पृथिवी मे ही समझना चाहिये। इसीसे प्रत्यक्ष से आश्रय के आनुमान का बाध कहा था सो अनुचित है क्योंकि जल आदि मे गन्ध के प्रत्यक्ष होने पर भी निराश्रयत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है किन्तु भ्रम मे जन वायु आदि के आश्रित प्रत्यक्ष हाता है, परन्तु वहाँ भी श्रुति स्मृति के अनुसार सूक्ष्म भूमि मे ही गन्ध रहता है।

यदि च चैतन्यं जीवस्य समस्तं शरीरं व्याप्नुयान्नाणुर्जीवः स्यात् । चैतन्यमेव ह्यस्य स्वरूपमग्नेरिवौष्ण्यप्रकाशौ, नात्र गुणगुणिविभागो विद्यत इति । शरीरपरिमाणत्वं च प्रत्याख्यातम् । परिशेषाद्विभुर्जीवः कथं तर्ह्यणुत्वादिव्यपदेश इत्यत आह-तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः—इति । तस्या बुद्धेर्गुणास्तद्गुणा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखमित्येवमादयस्तद्गुणाः सारः प्रधानं यस्यात्मनः संसारित्वे सम्भवति स तद्गुणसारस्तस्य भावस्तद्गुणसारत्वम् । नहि बुद्धेर्गुणैर्विना केवलस्यात्मनः संसारित्वमस्ति, बुद्ध्युपाधिधर्माध्यासनिमित्तं हि कर्तृत्वभोक्तृत्वादिलक्षणं संसारित्वमकर्तुरभोक्तुश्चासंसारिणो नित्यमुक्तस्य सत आत्मनः, तस्मात्तद्गुणसारत्वाद्बुद्धिपरिमाणेनास्य परिमाणव्यपदेशः । तदुत्क्रान्त्यादिभिश्चास्योत्क्रान्त्यादिव्यपदेशो न स्वतः ।

इमसे याद जीव का चैतन्य समस्त शरीर मे व्याप्त होता तो जीव अणु नहीं होगा ; जिससे वस्तुतः अग्नि के उष्णता और प्रकाश स्वरूप के समान इस जीव के चैतन्य ही स्वरूप है। इस जीव और चैतन्य मे गुण गुणी विभाग नहीं है। जीव के शरीर परिमाणत्व प्रत्याख्यात हो चुका है, परिशेष से विभु पारमार्थिक जीव का स्वरूप है, जिज्ञासा हुई कि विभु होते भी अणुत्वादि का व्यपदेश (व्यवहार) कैसे होता है। इससे कहने हैं कि (उस बुद्धि गुण की सारता से वह अणुत्वादि व्यपदेश होता है) उस बुद्धि के गुण को तद्गुण कहते हैं। सो बुद्धि के गुण इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख इत्यादि हैं। जिस आत्मा का संसारित्व अवस्था मे तद्गुण ही सार प्रधान होता है, सो आत्मा तद्गुणसार कहाता है, उस आत्मा के भाव तद्गुणसारत्व है। जिससे बुद्धि के गुणों के बिना केवल आत्मा को संसारित्व नहीं है। सत्य आत्मा के अकर्ता, अभोक्ता, असंसारि और नित्यमुक्त होते भी बुद्धिरूप उपाधि के धर्मों के आत्मा मे अध्यास निमित्तक ही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि स्वरूप संसारित्व आत्मा को है। इस तद्गुण सारत्व से बुद्धि के

परिमाण द्वारा इस आत्मा के परिमाण का भी व्यपदेश होता है। उस बुद्धि के उत्क्रान्ति आदि से इस आत्मा के उत्क्रान्ति आदि का व्यपदेश होता है, स्वतः नहीं।

तथाच—

वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ।

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ( श्वे० ५।६ )

इत्यणुत्वं जीवस्योक्त्वा तस्यैव पुनरानन्त्यमाह । तच्चैवमेव समञ्जसं स्याद्यद्यौपचारिकमणुत्वं जीवस्य भवेत्पारमार्थिकं चानन्त्यम् । नह्युभयं मुख्य-मवकल्पेत । न चानन्त्यमौपचारिकमिति शक्यं विज्ञातुं, सर्वोपनिपत्सु ब्रह्मात्मभावस्य प्रतिपादादयिषितत्वात् । तथेतरस्मिन्नप्युन्माने 'बुद्धेर्गुणैनात्मगुणैर्न चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः' ( श्वे० ६।८ ) इति च बुद्धिगुणसम्बन्धेनैवाराग्रमात्रतां शास्ति न स्वेनैवात्मना । 'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः' ( मुण्ड० ३।१।६ ) इत्यत्रापि न जीवस्याणुपरिमाणत्वं शिष्यते, परस्यैवात्मनश्चक्षुराद्यनवग्राह्यत्वेन ज्ञानप्रसादगम्यत्वेन च प्रकृतत्वात् । जीवस्यापि च मुख्याणुपरिमाणत्वानुपपत्तेः । तस्माद्दुर्ज्ञानत्वाभिप्रायमिदमणुत्ववचनमुपाध्यभिप्रायं वा द्रष्टव्यम् । तथा 'प्रज्ञया शरीरं समारूढ' ( कौषी० ३।६ ) इत्येवंजातीयकेष्वपि भेदोपदेशेषु बुद्धयैवोपाधिभूतया जीवः शरीरं समारूढत्येवंयोजयितव्यम् । व्यपदेशमात्रं वा, शिलापुत्रकस्य शरीरमित्यादिवत् । नह्यत्र गुणगुणविभागोऽपि विद्यत इत्युक्तम् । हृदयायतनत्ववचनमपि बुद्धेरैव तदायतनत्वात् । तथोत्क्रान्त्यादीनामप्युपाध्यायत्ततां दर्शयति—'कस्मिन्ननुत्क्रान्तोत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति' ( प्रश्न० ६।३ ) 'स प्राणमसृजत' ( प्र० ६।४ ) इति । उत्क्रान्त्यभावे हि गत्यागत्योरप्यभावो विज्ञायते, नह्यनपसृप्तस्य देहाद्गत्यागती स्याताम् । एवमुपाधिगुणसारत्वाजीवस्याणुत्वादिव्यपदेशः प्राज्ञवत्, यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः सगुणोपपागनेषु पाधिगुणसारत्वादणीयत्वादिव्यपदेशः—'अणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा' ( छा० ३।१।१४।२ ) 'मनोमयः प्राणशरीरः सर्वगन्धः सर्वरसः सत्यकामः सत्यसंकल्पः' ( छा० ३।१४।२ ) इत्येवंप्रकारस्तद्वत् ॥ २६ ॥

इसी प्रकार ( बाल के अग्रभाग के सौ भाग में से एक भाग के कल्पित सौ भाग में से एक भाग के तुल्य जीव जानने योग्य है। सो अनन्तता के लिये समर्थ होता है। यहाँ जीव के अणुत्व को कह कर, फिर उसी जीव की अनन्तता को श्रुति कहती है। सो इसी प्रकार समञ्जस ( युक्त ) होगा, कि यदि जीव के अणुत्व गौण होगा, और अनन्तता पारमार्थिक होगा, जिससे दोनों मुख्य नहीं सिद्ध हो सकते हैं। सब उपनिषदों में जीवात्मा के ब्रह्मात्म भाव का प्रतिपादन अभिलषित है, इससे अनन्तता औपचारिक है, अणुता मुख्य है, ऐसा नहीं समझ सकते हैं। इसी प्रकार अन्य उनमान

मे भी ( बुद्धि के गुणनिमित्तक आत्मा मे कल्पित गुण से ही आराग्रमात्र और अवर ( हीन ) जीवात्मा समझा जाता है । इस कथन से भी बुद्धि के गुणों के सम्बन्ध द्वारा ही आराग्रमात्रता का उपदेश श्रुति करती है, निजात्म स्वरूप से ही नहीं । ( यह अणु आत्मा चित्त से जानने योग्य है ) यहाँ भी जीव के अणु परिमाणत्व का उपदेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि ( न चक्षुषा गृह्यते ) इत्यादि वचनो से चक्षु आदि द्वारा अनवग्रहाख्यरूप से तथा ज्ञान की स्वच्छता द्वारा गम्य प्राप्य रूप से परमात्मा ही प्रकृत है । जीव को भी उपाधि के बिना मुख्य अणु परिमाणत्व की अनुपपत्ति है, इस स्वरूप से अणु नहीं है । इससे इम अणुत्व वचन का दुर्ज्ञानत्वामिप्राय वाला वा उपाधिविषयक अभिप्राय वाला समझना चाहिये । इसी प्रकार ( प्राज्ञा से शरीर मे प्राप्त होकर शरीर से सुखादि का अनुभव करता है ) इत्यादि भेदोपदेशो मे भी बुद्धि रूप उपाधि द्वारा ही शरीर मे प्राप्त होकर सुखादि का अनुभव करता है । इस प्रकार वाक्य की योजना करना चाहिये । अथवा शिलामूर्ति का शरीर है इत्यादि के समान व्यपदेश ( विकल्प ) मात्र है, क्योंकि यहाँ गुण गुणी विभाग भी नहीं है, यह कहा जा चुका है । बुद्धि का ही हृदय आयतन ( आश्रय ) है, इससे बुद्धि उपाधि वाला जीव को भी हृदय आयतनवत्त्व है । इसी प्रकार उत्क्रान्ति आदि को उपाधि अधीनता श्रुति दर्शाती है कि ( किसके उत्क्रान्त होने से निकलने से, मैं शरीर से उत्क्रान्त होऊँगा, निकलूँगा वा किसके प्रतिष्ठित स्थिर रहने से प्रतिष्ठित रहूँगा । इस प्रकार विचार करके ( वह आत्मा उत्क्रान्ति आदि के साधन प्राण को रचा ) और वास्तविक उत्क्रान्ति के अभाव होने पर गति आगति का भी अभाव समझा जाता है, क्योंकि देह से अनिर्गत के गमनागमन नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार उपाधिसारत्व से प्राज्ञ के समान जीव के अणुत्वादि का व्यपदेश है । जैसे प्राज्ञ परमात्मा के सगुण उपासनाओं मे उपाधि गुण सारत्व से अति अणुत्वादि का व्यपदेश है कि ( व्रीहि से वा यव से वा अणुीयन हैं । मनोमय, प्राण शरीर वाला ) सब गन्ध और सब रसवाला, सत्यकाम और मत्यसंकल्प वाला है । इत्यादि रीति से प्राज्ञ का निर्देश है । वैसा ही जीव का औपाधिक निर्देश है ॥ २९ ॥

स्यादेतद्यदि बुद्धिगुणसारत्वादात्मनः संसारित्वं कल्पयेत्, ततो बुद्ध्यात्म-  
नोर्भिन्नयोः संयोगावसानमवश्यंभावीत्यतो बुद्धिवियोगे सत्यात्मनो विभक्त-  
स्यानालदयत्वाद्सत्त्वमसंसारित्वं वा प्रसज्येतेति अत उत्तरं पठति-

**यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात् ॥ ३० ॥**

नेयमनन्तरनिर्दिष्टदोषप्राप्तिराशङ्कनीया । कस्मात् ? यावदात्मभावि त्वा-  
द्बुद्धिसंयोगस्य । यावदयमात्मा संसारी भवति, यावदस्य सम्यग्दर्शनेन  
संसारित्वं न निवर्तते, तावदस्य बुद्ध्या संयोगो न शाम्यति । यावदेव चायं  
बुद्ध्युपाधिसंबन्धस्तावज्जीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च । परमार्थतस्तु न जीवो

नाम बुद्ध्युपाधिसंबन्धपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेणास्ति । नहि नित्यमुक्तस्वरूपात्सर्वज्ञादीश्वरादन्यश्चेतनो धातुर्द्वितीयो वेदान्तार्थनिरूपणायामुपलभ्यते 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता' ( बृ० ३।७।२३ ), 'नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ श्रोतृ मन्तृ विज्ञातृ' ( छा० ६।१।७ ), 'तत्त्वमसि' ( छा० ६।१।६ ), 'अहं ब्रह्मास्मि' ( बृ० १।४।७ ) इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः । कथं पुनरवगम्यते—यावदात्मभावी बुद्धिसंयोग—इति । तदर्शनादित्याह । तथाहि शास्त्रं दर्शयति—'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव' ( बृ० ४।३।४ ) इत्यादि । तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय इत्येतदुक्तं भवति । प्रदेशान्तरे 'विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः' इति विज्ञानमयस्य मनआदिभिः सह पाठान् । बुद्धिमयत्वं च तद्गुणसारत्वमेवाभिप्रेयते, यथा लोके स्त्रीमयो देवदत्त इति स्त्रीरागादिप्रधानोऽभिधीयते तद्वत् । 'स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति' इति च लोकान्तरगमनेऽप्यवियोगं बुद्ध्या दर्शयति, केन समानस्त्वयैव बुध्येति गम्यते संनिधानात् । तच्च दर्शयति—'ध्यायतीव लेलायतीव' ( बृ० ४।३।७ ) इति । एतदुक्तं भवति—नायं स्वतो ध्यायति, नापि चलति, ध्यायन्त्यां बुद्धौ ध्यायतीव चलन्त्यां बुद्धौ चलतीवेति । अपि च मिथ्याज्ञानपुरःसरोऽयमात्मनो बुद्ध्युपाधिसंबन्धः । न च मिथ्याज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानादन्यत्र निवृत्तिरस्तीत्यतो यावद्ब्रह्मात्मतानवबोधस्तावदयं बुद्ध्युपाधिसम्बन्धो न शाम्यति । दर्शयति च—'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्नान् । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' ( श्वेता० ३।८ ) इति ॥ ३० ॥

यहाँ शंका होती है कि यह परमात्मा के मनोमयत्वादि हो सकते हैं । परन्तु यदि बुद्धिसारत्व से जीवात्मा के ससारित्व कल्पित सिद्ध होगा तो बुद्धि और आत्मा के परस्पर भिन्न होने से इनके संयोग का अवसान ( अन्त ) अवश्य होने वाला होगा, इससे बुद्धि के वियोग होने पर विभक्त आत्मा के अनालक्ष्य ( अज्ञेय ) होने से उमका असत्त्व वा अससारित्व की प्राप्ति होगी । इसमें उत्तर पढ़ते हैं कि—

यह अनन्तरनिर्दिष्ट दोष की प्राप्ति आशंका योग्य नहीं है, क्योंकि बुद्धि का संयोग यावदात्मभावी है । संयोग को यावदात्मभावित्व है । अर्थात् जब तक यह आत्मा संसारी रहता है । जब तक सम्यक् दर्शन में इसके ससारित्व नहीं निवृत्त होता है, तब तक इसकी बुद्धि के साथ का संयोग शान्त नहीं होता है । जब तक यह बुद्धिरूप उपाधि के साथ सम्बन्ध है, तब तक जीव का जीवत्व और संसारित्व है । परमार्थ स्वरूप से तो बुद्धिरूप उपाधि के सम्बन्ध से परिकल्पित स्वरूप से भिन्न जीव नामक वस्तु नहीं है । जिससे वेदान्तार्थ के निरूपण ( विचारादि ) करने पर नित्यमुक्त स्वरूप सर्वज्ञ ईश्वर से अन्य दूसरा चेतन पदार्थ नहीं उपलब्ध होता है । ( इस परमात्मा से अन्य द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नहीं है । इससे अन्य द्रष्टृ आदि नहीं है । उस

सत्य ब्रह्म स्वरूप तुम हो । मैं ब्रह्म हूँ ) इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से दूसरा चेतन पदार्थ का अभाव सिद्ध होता है । फिर भी यदि कहो कि यावदात्मभावी बुद्धि का संयोग रहता है, यह कैसे समझा जाता है, तो कहते हैं कि शास्त्र में उसके दर्शन से समझा जाता है । जिससे इसी प्रकार शास्त्र दर्शन कराता समझाता है कि ( जो यह प्राणो में विज्ञानमय हृदय के अन्तवर्ती ज्योतिरूप पुरुष है, सो बुद्धि के समान होता हुआ दोनों लोक में गमन करता है । कभी मानो ध्यान करता है, कभी मानो दीप्त चञ्चल होता है ) इत्यादि, यहाँ विज्ञानमय इस पद से बुद्धिमय यह वस्तु उक्त ( कथित ) है, यदि कहो कि विज्ञानरूप ब्रह्म है । ब्रह्ममय ब्रह्म का विकाररूप अणु जीव है, तो सो कहना नहीं बन सकता है । जिससे प्रदेशान्तर ( अन्य स्थान ) में ( विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय ) इस प्रकार विज्ञानमय का मन आदि के साथ पाठ से बुद्धिमय ही अर्थ हो सकता है । बुद्धिमयत्व तद्गुणसारत्व रूप ही अभिप्रेत होता है । जैसे लोक में स्त्रीमय देवदत्त है, ऐसे कहने से स्त्रीविषयक रागादि प्रधानता वाला कहा जाता है, स्त्री का विकार नहीं कहा जाता है । वैसा ही बुद्धिमय में समझना चाहिये । ( वह समान हो कर दोनों लोक में गमन करता है ) यह श्रुति लोकान्तर के गमन में भी बुद्धि के साथ आत्मा के अवियोग को दर्शाती है । किसके साथ समान ( नून्य ) होकर गमन करता है, ऐसी आकाक्षा होने पर, सनिधान से समझा जाता है कि उस बुद्धि के साथ समान होकर गमन करता है । उसी बुद्धि के सदृशता को ( व्ययतीव लैलायतीव ) यह श्रुति दर्शाती है कि बुद्धि के ध्यानादि आत्मा में भासते हैं । इस श्रुति से यह तत्त्व उक्त होता है कि यह आत्मा स्वतः ध्यान नहीं करता है । न स्वतः चलता है, किन्तु बुद्धि के ध्यानावस्था में ध्यानस्थ के समान और उसकी चञ्चलतावस्था में चञ्चल के समान आत्मा भासता है । दूसरी बात है कि मिथ्याज्ञानपूर्वक अज्ञानमूलक यह आत्मा का बुद्धि आदि रूप उपाधियों के साथ सम्बन्ध है । सम्यक् ज्ञान के बिना मिथ्याज्ञान अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है । इससे जब तक आत्मा का अनवबोध अज्ञान है तब तक यह बुद्धिरूप उपाधि का सम्बन्ध शान्त निवृत्त नहीं होता है । सो श्रुति दर्शाती है कि ( स्वयं प्रकाश तम से असम्बद्ध महान् इस पुरुष को मैं जानता हूँ । उसी को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण करता है मोक्ष के लिए अन्य मार्ग नहीं है ) ॥ ३० ॥

ननु सुषुप्तप्रलययोर्न शक्यते बुद्धिसम्बन्ध आत्मनोऽभ्युपगन्तुम् 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति' ( छा० ६।८।१ ) इति वचनात्, कृत्स्नविकारप्रलयाभ्युपगमाच्च । तत्कथं यावदात्मभावित्वं बुद्धिसंबन्धस्येत्यत्रोच्यते—

**पुंस्त्वादिवत्तस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात् ॥ ३१ ॥**

यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येव बाल्यादिष्वनुपलभ्यमानान्यविद्यमानवदभिप्रेयमाणानि यौवनादिष्वविर्भवन्ति, नाविद्यमानान्यु-

त्पद्यन्ते षण्ठादीनामपि तदुत्पत्तिप्रसङ्गात्, एवमयमपि बुद्धिसंबन्धः शक्त्यात्मना विद्यमान एव सुषुप्तप्रलययोः पुनः प्रबोधप्रसवयोरविर्भवति । एवं ह्येतद्युज्यते, नह्याकस्मिकी कस्यचिदुत्पत्तिः संभवति, अतिप्रसङ्गात् । दर्शयति च सुषुप्तादुत्थानमविद्यात्मकबीजसद्भावकारितम्—‘सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह’ इति, ‘त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा’ ( ब्र० ६।१।३ ) इत्यादिना । तस्मात्सिद्धमेतद्यावदात्मभावी बुद्ध्याद्युपाधिसंबन्ध इति ॥३१॥

उक्त यावदात्मभावित्व की असिद्धि की शका होती है कि सुषुप्ति और प्रलयकाल में आत्मा का बुद्धि के साथ सम्बन्ध को अम्युपगम ( स्वीकार ) नहीं कर सकते हैं । क्योंकि ( हे सोम्य ! उस सुषुप्ति में सत शब्दार्थ देव के साथ पुरुष सम्पन्न ( सद्रत-एक ) हो जाता है । स्व सत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ) इस वचन से, और प्रलय में सब विकार का प्रलय के स्वीकार से आत्मा और बुद्धि का सम्बन्ध नहीं रह सकता है, जिससे बुद्धि के रहते सत की प्राप्ति और प्रलय का असम्भव है । तो फिर बुद्धि सम्बन्ध को यावदात्मभावित्व कैसे है । ऐसी शका होने पर कहा जाता है कि—

जैसे लोक में पुस्त्व ( प्रजोत्पादनशक्ति ) आदि बीजरूप से विद्यमान हो रहते बाल्यादि अवस्थाओं में अनुपलभ्यमान ( अप्रत्यक्ष ) होने से अविद्यमान के तुल्य अभिप्रेत भी यौवनादि अवस्था में आविर्भूत ( प्रकट ) होते हैं, प्रथम सर्वथा अविद्यमान रहते पीछे नहीं उत्पन्न होते हैं । अन्यथा बराठ ( नपुंसक ) आदि को भी उनकी उत्पत्ति प्राप्त होगी । इसी प्रकार यह बुद्धि सम्बन्ध भी सुषुप्ति और प्रलय में शक्तिरूप से विद्यमान ही रहना हुआ जायत् और सृष्टि काल में आविर्भूत प्रकट होता है । इस प्रकार ही यह युक्त हो सकता है । किसी उत्पत्ति आकस्मिकी ( निर्हेतुक ) सम्भव नहीं है, अन्यथा अतिप्रसङ्ग होगा, सर्वत्र सबकी उत्पत्ति प्राप्त होगी । सुषुप्ति से उत्थान को अविद्यात्मक बीज के सद्भाव से कारित ( उत्पादित ) श्रुति दर्शाती है कि ( सुषुप्ति में सत से एक हो कर भी नहीं जानते हैं कि हम सत के साथ एकत्व को प्राप्त हैं । इससे इस लोक में जो बाध-सह रहते हैं वही फिर वे होते हैं ) इत्यादि ने अविद्या निमित्तक उत्थान दर्शाया गया है । इससे यह सिद्ध हुआ कि यावदात्मभावी बुद्धि आदि रूप उपाधि का सम्बन्ध है ॥ ३१ ॥

**नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा ॥३२॥**

तच्चात्मन उपाधिभूतमन्तःकरणं मनो बुद्धिर्विज्ञानं चित्तमिति चानेकधा तत्र तत्राभिलष्यते । क्वचिच्च वृत्तिविभागेन संशयादिवृत्तिकं मन इत्युच्यते, निश्चयादिवृत्तिकं बुद्धिरिति । तच्चैवंभूतमन्तःकरणमवश्यमस्तीत्यभ्युपगन्तव्यम् । अन्यथा ह्यनभ्युपगम्यमाने तस्मिन्नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गः स्यात्, आत्मेन्द्रियविषयाणामुपलब्धिसाधनानां संनिधाने सति नित्यमेवोपलब्धिः प्रसज्येत । अथ सत्यपि हेतुसमवधाने फलाभावस्ततो नित्यमेवानुपलब्धिः

प्रसज्येत, नचैवं दृश्यते । अथवान्यतरस्यात्मन इन्द्रियस्य वा शक्तिप्रतिबन्धो-  
ऽभ्युपगन्तव्यः । नचात्मनः शक्तिप्रतिबन्धः संभवति, अतिक्रियत्वात् ।  
नापीन्द्रियस्य, नहि तस्य पूर्वोत्तरयोः क्षणयोरप्रतिबद्धशक्तिकस्य सतो-  
ऽकस्माच्छक्तिः प्रतिबध्येत, तस्माद्यस्यावधानानवधानाभ्यामुपलब्ध्यनुपलब्धी  
भवतस्तन्मनः । तथाच श्रुतिः—‘अन्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं  
नाश्रौपम्’ ( बृ० १।१।३ ) इति, ‘मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति’  
( बृ० १।१।३ ) इति । कामाद्यश्चास्य वृत्तय इति दर्शयति ‘कामः संकल्पो  
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरघृतिर्हीर्षीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव’ ( बृ० १।१।३ )  
इति । तस्माद्युक्तमेतत् ‘तद्गुणस्मारत्वात्तद्व्यपदेशः’ इति ॥ ३२ ॥

वह आत्मा का उपाधिरूप अन्तःकरण. तत्तत् स्थानीय श्रुतियो मे मन, बुद्धि,  
विज्ञान और चित्त इत्यादि अनेक प्रकार मे कहा जाता है । कहीं वृत्ति ( परिणाम )  
के विभाग द्वारा संशय संकल्प विकल्पादि वृत्ति वाला अन्तःकरण मन इस शब्द से  
कहा जाता है । निश्चयादि प्रमाणजन्य वृत्ति वाला अन्तःकरण बुद्धि कहा जाता है ।  
सो इस प्रकार का अन्तःकरण अवश्य है । ऐसा मानना चाहिये, अन्यथा, उस अन्तःकरण  
को नही मानने पर नित्य उपलब्धि अथवा नित्य अनुपलब्धि का प्रसङ्ग होगा । वहाँ  
आत्मा, इन्द्रिय और विषय इन तीनों अनेक विषयों की उपलब्धि के साधनों के सन्निधान  
रहने पर नित्य ही अनेक विषयों की उपलब्धि की प्राप्ति होगी । अर्थात् अनेक  
ज्ञानेन्द्रिय से अनेक विषय के सम्बन्ध रहते सम्बन्ध काल मे सब विषय का सदा  
ज्ञान प्राप्त होगा । यदि आत्मा, इन्द्रिय और विषय के सम्बन्धरूप हेतु के समवधान  
( स्थिति ) रहते भी फलाभाव होगा, तो नित्य ही अनुपलब्धि प्राप्त होगी । ऐसा देखा  
नही जाता है । इससे कदाचित्क ( कभी होने वाली ) उपलब्धि का नियामक हेतु रूप  
अन्तःकरण मन मानने योग्य है । अथवा प्रतिबन्धक मरिगमन्त्रादि से जैसे अग्नि की  
शक्ति का प्रतिबन्ध होता है वैसे ही आत्मा और इन्द्रिय दोनों मे से किसी एक की  
शक्ति का प्रतिबन्ध मानने योग्य है । परन्तु अविकारी होने से आत्मा की शक्ति का  
प्रतिबन्ध नही हो सकता है । प्रतिबन्धक के अभाव से इन्द्रियो की शक्ति का प्रतिबन्ध  
नहीं हो सकता है । एक काल मे अनेक विषयों के ज्ञान नही होने पर भी पूर्वोत्तर  
काल में इन्द्रिय द्वारा अनेक विषयों के क्रम से ज्ञान होने से पूर्वोत्तर क्षण मे अप्रतिबद्ध  
शक्ति वाली इन्द्रिय के होते मध्य मे अकस्मात् उसकीशक्ति प्रतिबद्ध नही होती है ।  
इसमे जिसके अवधान ( बोधेच्छा सम्बन्ध सावधानता ) और अनवधानता से उपलब्धि  
और अनुपलब्धि समग्रविशेष मे होती है, वह मन है । इसी प्रकार श्रुति है कि ( अन्यत्र  
मन वाला मैं था, इससे नही सुना अन्यत्र मनवाला था नही देखा, अन्यत्र मनवाला  
था नही सुना ) और ( मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है ) । ( काम,  
संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, ज्ञान, भय, ये सब मन ही है ) ।  
इस प्रकार कामादि को मन की वृत्ति ( परिणाम ) रूप श्रुति दर्शाती है, इससे कामादि

के आश्रय रूप से भी मन सिद्ध होता है । इससे ( तद्गुणसारत्वात्तद्व्यपदेश' ) यह युक्त है ॥ ३२ ॥

### कर्त्रधिकरण ॥ १४ ॥

जीवोऽकर्ताऽथवा कर्ता धियः कर्तृत्वसम्भवात् । जीवकर्तृतया किं स्यादित्याहुः सांख्यभानिनः ॥  
करणत्वाच्च धीःकर्त्री यागाश्रवणलौकिकाः । व्यापारा न विना कर्त्रा तस्माज्जीवस्य कर्तृता ॥

शास्त्र की अर्थवत्ता से व्यावहारिक जीवात्मा कर्ता है । यहाँ मतभेद से सशय होता है कि जीव अकर्ता अथवा कर्ता है । सांख्य मत के अनुसार पूर्वपक्ष है कि आत्मा असंग और उदासीन है इससे सर्वथा अकर्ता है, और बुद्धि परिणाम और मंगवाली है इससे बुद्धि के कर्तृत्व के सम्भव होने से जीवात्मा की कर्तृता से क्या फल होना है इस प्रकार सांख्यवादी कहते हैं । परन्तु कारण होने से बुद्धि कर्त्री नहीं हो सकती है, और कर्ता के बिना पूर्वकारण वेदविहित याग, वेदविहित श्रवणादि और लोक सिद्ध कृषि आदि व्यापार नहीं सिद्ध हो सकते हैं इससे जीव को कर्तृता है ॥ १-२ ॥

### कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात् ॥ ३३ ॥

तद्गुणसारत्वाधिकारेणैवापरोऽपि जीवधर्मः प्रपञ्च्यते । कर्ता चायं जीवः  
स्यात् । कस्मात् ? शास्त्रार्थवत्त्वात् । एवञ्च 'यजेत' 'जुहुयात्' 'दद्यात्' इत्ये-  
वंविधं विधिशान्त्रमर्थवद्भवति । अन्यथा तदनर्थकं स्यात् । तद्धि कर्तुः सतः  
कर्तव्यविशेषमुपदिशति । नचाऽसति कर्तृत्वे तदुपपद्यते । तथेदमपि शास्त्रमर्थ-  
वद्भवति 'एष हि द्रष्टा श्रोता मन्ता बौद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः' ( प्र० ५।६ )  
इति ॥ ३३ ॥

तद्गुणसारत्व के प्रसङ्ग से ही अन्य भी जीव के धर्म विस्तार से कहे जाते हैं कि यह जीव कर्ता होगा । अर्थात् पूर्वोक्त मन के करणरूप से सिद्ध होने पर कर्ता की आकाक्षा होती है, वहाँ आकाक्षा का विषय कर्तृ जीव सिद्ध होना है, क्योंकि कर्ता की सिद्धि शास्त्र के अर्थवत्ता से भी होती है, और इस प्रकार जीव के कर्ता होने ही से ( याग करे, हवन करे, दान दे ) इस प्रकार के विधिशान्त्र सार्थक होता है, अन्यथा कर्ता के बिना वह शास्त्र अनर्थक होगा । जिससे वह शास्त्र कर्ता के रहते कर्तव्य विशेष का उपदेश देता है । कर्ता के नहीं रहने पर वह उपदेश उपपन्न नहीं हो सकता है । इसी प्रकार कर्ता के रहने पर यह शास्त्र भी अर्थवत् ( सार्थक ) होता है कि ( यह विज्ञानात्मा पुरुष द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बौद्धा और कर्ता है ) इत्यादि ॥ ३३ ॥

### विहारोपदेशात् ॥ ३४ ॥

इतश्च जीवस्य कर्तृत्वं, यज्जीवप्रक्रियायां संभ्ये स्थाने विहारमुपदिशति—  
'स ईयतेऽमृतो यत्र कामम्' ( बृ० ४।३।१२ ) इति, 'स्वे शरीरं यथाकामं परि-  
वर्तते' ( बृ० २।१।१६ ) इति च ॥ ३४ ॥



इस वक्ष्यमाण हेतु से भी इस जीव को कर्तृत्व है जिससे जीव के प्रकरण मे सध्यस्थान ( स्वप्न ) मे जीव के विहार ( सचार-क्रिया ) का श्रुति उपदेश करती है कि ( सो अमृत स्वरूप आत्मा जिम विषयक इच्छा होती है, वहाँ जाता है । अपने शरीर मे यथेष्ट इच्छा के अनुसार सर्वथा वर्तमान रहता है । इत्यादि ॥ ३४ ॥

### उपादानात् ॥ ३५ ॥

इतश्चास्य कर्तृत्वं, यज्जीवप्रक्रियायामेव करणानामुपादानं संकीर्तयति—  
'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' ( बृ० २१।१।१७ ) इति, 'प्राणान्गृहीत्वा' ( बृ० २।१।१८ ) इति च ॥ ३५ ॥

इस हेतु मे भी जीव को कर्तृत्व है कि जिससे जीव के प्राण मे ही करणो के उपादान ( ग्रहण ) का श्रुति सकीर्तन करती है कि ( उस सुषुप्ति काल मे यह जीवात्मा अन्त करणगत विज्ञान मे इन्द्रियरूप प्राणो के विज्ञान शक्ति का ग्रहण करके सोता है ) और ( प्राणो का ग्रहण करके वासनादि के अनुसार यथेष्ट अनुभव करता है ) इत्यादि वहाँ कर्तृता के बिना ग्रहणादि नही हो सकते हैं, इससे जीव कर्ता है ॥ ३५ ॥

### व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपर्ययः ॥ ३६ ॥

इतश्च जीवस्य कर्तृत्वं, यदस्य लौकिकीषु वैदिकीषु च क्रियासु कर्तृत्वं व्यपदिशति शास्त्रम्—'विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च' ( तै० २।५।१ ) इति । ननु विज्ञानशब्दो बुद्धौ समधिगतः कथमनेन जीवस्य कर्तृत्वं सूच्यत इति । नेत्युच्यते । जीवस्यैवैष निर्देशो न बुद्धेः । न चेज्जीवस्य स्यान्निर्देश-विपर्ययः स्यात्, विज्ञानेनेत्येवं निरदेद्यत् । तथा ह्यन्यत्र बुद्धिविवक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनिर्देशो दृश्यते 'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' ( बृ० २।१।१७ ) इति । इह तु 'विज्ञानं यज्ञं तनुते' ( तै० २।५।१ ) इति कर्तृसामानाधिकरण्यनिर्देशाद्बुद्धिव्यतिरिक्तस्यैवात्मनः कर्तृत्वं सूच्यत इत्यनेपः ॥ ३६ ॥

इस हेतु से भी जीव को कर्तृत्व है कि जिससे लौकिक और वैदिक क्रियाओ में इस जीव के कर्तृत्व का शास्त्र व्यपदेश ( कथन ) करता है कि ( विज्ञानात्मा जीव यज्ञ का विस्तार करता है, और कर्मों का भी विस्तार करता है ) यदि कोई कहे कि विज्ञान शब्द बुद्धि अर्थ मे अन्यत्र समधिगत ( निश्चित ) है, यहाँ इस विज्ञान शब्द से जीव के कर्तृत्व कैसे सूचित ( ज्ञात ) होता है । तो कहा जाता है कि यहाँ विज्ञान शब्द से बुद्धि का निर्देश नही है किन्तु जीव का ही निर्देश है जिससे बुद्धि का निर्देश यहाँ बन नही सकता है । इससे यहाँ यदि जीव का निर्देश नही होगा, तो बुद्धि का निर्देश के लिये निर्देश का विपर्यय होगा । अर्थात् प्रथमाविभक्ति का निर्देश से विपर्यय

रूप तृतीया विभक्ति द्वारा ( विज्ञानेन ), विज्ञान द्वारा, ऐसा निर्देश किया गया होता । जिससे अन्य स्थान में बुद्धि की विवक्षा रहने पर इसी प्रकार विज्ञान शब्द सम्बन्धी करण विभक्ति का निर्देश देखा जाता है, अर्थात् करण विभक्ति द्वारा विज्ञान शब्द का निर्देश देखा जाता है कि ( उस सुषुप्ति में इन्द्रियो के विज्ञान शक्ति को बुद्धि से ग्रहण करके सोता है ) और यहाँ तो ( विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है ) इस प्रकार कर्ता के वाचक तिङ विभक्ति के साथ विज्ञान पद के समाधिकरणता ( अभेद ) के निर्देश से बुद्धि से भिन्न जीवात्मा के ही कर्तृत्व सूचित होता है इससे कोई दोष नहीं है ॥ ३६ ॥

अत्राह—यदि बुद्धिर्व्यतिरिक्तो जीवः कर्ता स्यात्स स्वतन्त्रः सन्प्रियं हितं चैवात्मनो नियमेन सम्पादयेन्न विपरीतम् । विपरीतमपि तु संपादयन्नुपलभ्यते । न च स्वतन्त्रस्यात्मन ईदृशी प्रवृत्तिरनियमेनोपपद्यत इति । अत उत्तरं पठति—

यहाँ कोई कहता है कि बुद्धि से भिन्न जीव यदि कर्ता हो, तो ( स्वतन्त्रः कर्ता ) इस सूत्र के अनुसार स्वतन्त्रता के बिना कर्ता नहीं हो सकता, इससे वह स्वतन्त्र होता हुआ अपना प्रिय और हित का ही नियम से सम्पादन ( सिद्ध ) करे, और विपरीत ( अप्रिय, अहित ) नहीं करे । परन्तु विपरीत का भी सम्पादन करता हुआ उपलब्ध होता है देखा जाता है, और स्वतन्त्र आत्मा की ऐसी अनियम से प्रवृत्तियुक्त नहीं सिद्ध हो सकती है । इस हेतु से उत्तर पढ़ते हैं कि—

### उपलब्धिवदनियमः ॥ ३७ ॥

यथायमात्मोपलब्धि प्रति स्वतन्त्रोऽप्यनियमेनेष्टमनिष्टं चोपलभत एवमनियमेनैवेष्टमनिष्टं च संपादयिष्यति । उपलब्धावप्यस्वातन्त्र्यमुपलब्धिहेतूपादानोपलम्भादिति चेत् । न । विषयप्रकल्पनामात्रप्रयोजनत्वादुपलब्धिहेतूनाम् । उपलब्धौ त्वनन्यापेक्षत्वमात्मनश्चैतन्ययोगात् । अपि चार्थक्रियायामपि नात्यन्तमात्मनः स्वातन्त्र्यमस्ति देशकालनिमित्तविशेषापेक्षत्वात् । न च सहायापेक्षस्य कर्तुः कर्तृत्वं निवर्तते । भवति ह्येवोदकाद्यपेक्षस्यापि पक्तुः पक्त्वन्वम् । सहकारिवैचित्र्याच्चेष्टानिष्टार्थक्रियायामनियमेन प्रवृत्तिरात्मनो न विरुध्यते ॥

जैसे यह उपलब्धि के प्रति स्वतन्त्र होता हुआ भी अनियम से इष्ट और अनिष्ट को जानता है प्राप्त करता है, इसी प्रकार अनियम से इष्ट और अनिष्ट का सम्पादन करेगा । यदि कहो कि उपलब्धि के हेतु इन्द्रियो के उपादान ( ग्रहण ) के उपलम्भ ( ज्ञान ) से सिद्ध होता है कि यह जीव उपलब्धि में भी स्वतन्त्र नहीं है, तो सौ कहना ठीक नहीं है । क्योंकि उपलब्धि के हेतु रूप इन्द्रियो का विषयो की कल्पना ( जीवात्मा के साथ सम्बन्ध ) मात्र प्रयोजन ( फल ) होने से चेतन आत्मा को उपलब्धि में स्वतन्त्रता ही है । चेतनता के सम्बन्ध से उपलब्धि में आत्मा को अन्य की अपेक्षा

नहीं है। यदि कहो कि आत्मा को विषय के साथ सबन्ध के लिये भी इन्द्रिय की अपेक्षा होने पर उपलब्धि में स्वतन्त्रता नहीं है, तब यह बात कही जाती है कि अर्थसाधक क्रिया में कर्तारूप भी आत्मा को अत्यन्त स्वतन्त्रता नहीं है, क्योंकि विशेष देशविशेष काल और विशेष निमित्त की सब क्रिया में अपेक्षा होती है। इससे सहाय की अपेक्षा वाला कर्ता के कर्तृत्व (स्वातन्त्र्य) नहीं निवृत्त होता है, अन्यथा कर्मसापेक्ष जगत् कर्ता ईश्वर में भी नहीं स्वतन्त्रता सिद्ध होगी फिर अन्य की तो कथा ही दूर रह जायगी। लकड़ी, जल आदि सापेक्ष पाचक में भी पाक कर्तृत्व होता है, इससे स्वात्मा से अन्य की अनपेक्षारूप स्वतन्त्रता कर्तृता का अर्थ नहीं है, किन्तु स्वान्य कारक का प्रेरक होता हुआ, कारकान्तर से अप्रेरित होना ही स्वतन्त्रता है। इससे स्वतन्त्र (कर्ता) आत्मा को भी सहकारो की विचित्रता से इष्ट-अनिष्ट क्रिया में अनियम से प्रवृत्ति विरुद्ध नहीं होती है, अज्ञान, भ्रम, प्रमाद, अशक्ति आदि वश विपरीत प्रवृत्ति स्वतन्त्र की भी होनी है इत्यादि ॥ ३७ ॥

### शक्तिविपर्ययात् ॥ ३८ ॥

इतश्च विज्ञानव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता भवितुमर्हति । यदि पुनर्विज्ञानशब्द-वाच्या बुद्धिरेव कर्त्री स्यात्ततः शक्तिविपर्ययः स्यात् । करणशक्तिर्बुद्धेर्हीयत कर्तृशक्तिश्चापद्येत । सत्यां च बुद्धेः कर्तृशक्तौ तस्या एवाहंप्रत्ययविषयत्वमभ्युपगन्तव्यम् । अहङ्कारपूर्विकाया एव प्रवृत्तेः सर्वत्र दर्शनात्, अहं गच्छाम्यहमागच्छाम्यहं भुञ्जेऽहं पिबामीति च । तस्याश्च कर्तृशक्तियुक्तायाः सर्वार्थकारि करणमन्यत्कल्पयितव्यम्, शक्तोऽपि हि सन्कर्ता करणमुपादाय क्रियासु प्रवर्तमानो दृश्यत इति । ततश्च संज्ञामात्रे विवादः स्यान्न वस्तुभेदः कश्चित्, करणव्यतिरिक्तस्य कर्तृत्वाभ्युपगमात् ॥ ३८ ॥

इस हेतु से भी विज्ञान ( बुद्धि ) से भिन्न जीव कर्ता होने योग्य है। कि यदि विज्ञान शब्द का वाच्यार्थ बुद्धि ही कर्त्री होगी, तो शक्ति का विपर्यय होगा। बुद्धि की कारण शक्ति निवृत्त हो जायगी, उसमें कर्तृशक्ति प्राप्त होगी, और बुद्धि की कर्तृशक्ति होने पर, उस बुद्धि को ही अहंप्रत्यय ( ज्ञान ) विषयत्व मानना होगा, जिससे, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं भोजन करता हूँ और मैं पानी पीता हूँ। इस प्रकार अहंपूर्वक ही सर्वत्र प्रवृत्ति का, ज्ञान होता है, इससे इस प्रवृत्ति वाली बुद्धि आत्मा सिद्ध होगी, परन्तु उस बुद्धि के कर्ता सिद्ध होने पर कर्तृशक्तियुक्त उस बुद्धि के सब अर्थ को करने वाला अन्य करण की कल्पना करनी पड़ेगी। जिससे समर्थ होता हुआ भी कर्ता करण का ग्रहण करके ही क्रियाओं में प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है। ऐसा होने पर संज्ञामात्र में विवाद रहेगा, कोई वस्तु का भेद नहीं होगा, कारण से व्यतिरिक्त कर्तृत्व के अभ्युपगम से ऐसा ही होगा ॥ ३८ ॥

### समाध्यभावाच्च ॥ ३९ ॥

योऽप्ययमौपनिषदात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनः समाधिरुपदिष्टो वेदान्तेषु—  
‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्याक्षितव्यः सोऽन्वेष्टव्यः स  
विजिज्ञासितव्यः’ ( बृ० २।४।५ ), ‘ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्’ ( सुण्ड०  
२।२।६ ) इत्येवंलक्षणः, सोऽप्यसत्यात्मनः कर्तृत्वे नोपपद्येत, तस्मादप्यस्य  
कर्तृत्वसिद्धिः ॥ ३९ ॥

और वेदान्तो मे उपनिषद् से ज्ञातव्य आत्मा की प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) रूप प्रयोजन  
( फल ) वाले समाधि आदि ज्ञान के साधन उपदिष्ट है कि ( अरे मैंनेयि । आत्मा  
दर्शन के योग्य है, और दर्शन के लिये श्रवण मनन और निदिध्यासन कर्तव्य है ।  
श्रवणादि द्वारा वह अन्वेषण के योग्य है, जिज्ञासा के योग्य है ) ( उस आत्मा को  
ओकार द्वारा ध्यान चिन्तन करो ) इस प्रकार के समाधि आदि उपदिष्ट है । सो आत्मा  
के अकर्ता होने पर ( उपपन्न नहीं होंगे । अर्थात् शास्त्र से विहित कर्मादि का फल  
कर्ता को मिलता है, यह शास्त्र का अटल सिद्धान्त है, इसमें बुद्धि कर्त्री हो, और  
पुरुष फल भोक्ता हो, ऐसा नहीं हो सकता है । और बुद्धि के जड होने से उसको फल  
भोक्तृत्व का असम्भव है । इससे चेतनात्मा फल भोक्ता है जिससे कर्ता भी वही है,  
इस प्रकार मुक्ति फल का भोक्ता इस जीवात्मा को कर्तृत्व की सिद्धि होती है ॥ ३९ ॥

### तक्षाधिकरण ॥ १५ ॥

कर्तृत्वं वास्तवं किं वा कल्पितं वास्तवं भवेत् । यजेतेत्यादिशास्त्रेण सिद्धस्यावाधितत्वनः ॥  
असङ्गो हीति तद्वाधात्स्फटिके रक्ततेव तत् । अध्यस्तं धीचक्षुरादिकरणोपाधिसंविधेः ॥

वैसे तक्षा ( बड़ही ) तक्षणा क्रिया के साधनों से युक्त रहने पर तक्षणा क्रिया  
का कर्ता होता है, साधन रहित होने पर कर्ता नहीं होता है । वैसे ही जीवात्मा भी  
अज्ञान दशा में बुद्धि आदि साधन सहित रहने पर कर्ता होता है, मोक्षदशा में अकर्ता  
होता है, इससे इसका औपाधिक कर्तृत्व है । सशय है कि जीव के कर्तृत्व वास्तविक  
है अथवा कल्पित है । पूर्व पक्ष है कि, यजेत, यज्ञ करे, इत्यादि शास्त्र से सिद्ध यज्ञादि  
कर्तृत्व को अवाधित होने से कर्तृत्व वास्तविक है । सिद्धान्त है कि ( असङ्गो ह्ययं  
पुरुष. ) इत्यादि श्रुति से वास्तविक कर्तृत्व के बाधित होने से स्फटिक में रक्तता के  
समान बुद्धि आदि की समीपता से वह अव्यस्त कर्तृत्व है ॥ १-२ ॥

### यथा च तक्षोभयथा ॥ ४० ॥

एवं तावच्छास्त्रार्थवत्त्वादिभिर्हेतुभिः कर्तृत्वं शारीरस्य प्रदर्शितं, तत्पुनः  
स्वाभाविकं वा स्यादुपाधिनिमित्तं वेति चिन्त्यते । तत्रैतैरेव शास्त्रार्थवत्त्वादि-  
भिर्हेतुभिः स्वाभाविकं कर्तृत्वमपवादहेत्वभावादिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः । न

स्वाभाविकं कर्तृत्वमात्मनः संभवति, अनिमोक्षप्रसङ्गात् । कर्तृत्वस्वभावत्वे ह्यात्मनो न कर्तृत्वान्निर्मोक्षः संभवति, अग्नेरिवौघ्न्यात् । न च कर्तृत्वादिनिर्मुक्तस्यास्ति पुरुषार्थसिद्धिः, कर्तृत्वस्य दुःखरूपत्वात् । ननु स्थितायामपि कर्तृत्वशक्तौ कर्तृत्वकार्यपरिहारान्पुरुषार्थः सेत्स्यति, तत्परिहारश्च निमित्तपरिहारात्, यथाग्नेर्दहनशक्तियुक्तस्यापि काष्ठवियोगाद्दहनकार्याभावस्तद्वत् । न निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन सम्बन्धेन सम्बद्धानामत्यन्तपरिहारासम्भवात् । ननु मोक्षसाधनविधानान्मोक्षः सेत्स्यति । न । साधनायत्तस्यानित्यत्वात् । अपि च नित्यशुद्धबुद्धमुक्तात्मप्रतिपादनान्मोक्षसिद्धिरभिमतता । तादृगात्मप्रतिपादनं च न स्वाभाविके कर्तृत्वेऽवकल्पेत, तस्मादुपाधिधर्माध्यासेनैवात्मनः कर्तृत्वं न स्वाभाविकम् । तथा च श्रुतिः—‘ध्यायतीव लेलायतीव’ ( बृ० ४।३।७ ) इति । ‘आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः’ ( कण्ठ० ३।४ ) इति चोपाधिसंप्रुक्तस्यैवात्मनो भोक्तृत्वादि विशेषलाभं दर्शयति । नहि विवेकिनां परस्मादन्यो जीवो नाम कर्ता भोक्ता वा विद्यते । ‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ ( बृ० ४।३।२३ ) इत्यादिश्रवणात् । पर एव तर्हि संसारी कर्ता भोक्ता च प्रसज्येत, परस्मादन्यश्चेत्तित्तिमाञ्जीवः कर्ता बुद्ध्यादिसङ्गतव्यतिरिक्तो न स्यात् । न । अविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः ।

इस पूर्व वर्णित रीति से प्रथम शास्त्र के अर्थवत्त्वादिरूप हेतुओं द्वारा जीव के कर्तृत्व को प्रदर्शित कराया गया है । जिससे साध्य के बुद्धिकर्तृत्ववाद का निषेध सिद्ध हुआ है । अब आत्मा के असंगता आदि के बोधक श्रुतियों को स्तावकमात्र मान कर आत्मा के वास्तव कर्तृत्ववाद का निरास के लिए चिन्तन किया जाता है कि वह प्रदर्शित कर्तृत्व स्वाभाविक हो सकता है अथवा उपाधि निमित्तक है । यहाँ पूर्वपक्ष है कि पूर्वोक्त उस शास्त्र के अर्थवत्त्वादिरूप हेतुओं से ही और अपवाद के हेतु के अभाव से स्वाभाविक कर्तृत्व है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि अनिमोक्ष की प्राप्ति से आत्मा के स्वाभाविक कर्तृत्व का सम्भव नहीं है । जिससे आत्मा के कर्तृत्व स्वभाव होने पर, उच्छ्रिता से अग्नि के समान आत्मा को कर्तृता से निर्मोक्ष का सम्भव नहीं है । यही स्वाभाविक कर्तृता का बाधक है, और कर्तृत्व से अनिर्मुक्त को कर्तृत्व की दुःखरूपता से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं है । यदि कहा जाय कि कर्तृत्व शक्ति ( क्रिया शक्ति ) के रहते भी कर्तृशक्ति के कार्य की निवृत्ति से पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकेगी, उसकी निवृत्ति अज्ञानजन्य धर्माधर्मादि के त्याग और निवृत्ति से होगी । जैसे दहनशक्तियुक्त अग्नि के भी काष्ठ के वियोग से दहनरूप का कार्य का अभाव होता है, उसी के समान समझना चाहिए । यह कहना ठीक नहीं, शक्ति के रहने पर शक्तिरूप सम्बन्ध से सम्बन्ध वाले निमित्तों की अत्यन्त निवृत्ति असम्भव है । शक्तिरूप सम्बन्ध से निमित्त के रहने पर अन्य कार्य भी अनिवार्य हैं । यदि कहो कि कर्तृत्व शक्ति रहते भी मोक्ष के साधनों के विधान से मोक्ष की सिद्धि होगी, जैसे देवत्वादि की सिद्धि मनुष्य को होती है । तो साधनाधीन

सिद्ध वस्तु की अनित्यता से नित्य मोक्ष की इस प्रकार भी सिद्धि नहीं हो सकती है। दूसरी बात है कि नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त आत्मा के प्रतिपादन ( प्रबोधन-प्रतिपत्ति ) से मोक्ष की सिद्धि अभिमत है। ऐसे मोक्ष के प्रतिपादक अनेको श्रुतियाँ स्तावक नहीं हो सकती हैं। उस नित्यशुद्धत्वादि स्वरूप वाला आत्मा का प्रतिपादन कर्तृत्व के स्वाभाविक रहने पर नहीं सिद्ध हो सकता है। उससे उपाधि के धर्म के अध्यास द्वारा ही आत्मा को कर्तृत्व है, स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं है। ( मानो ध्यान करता है, या क्रियायुक्त दीप्त-सा होता है ) यह श्रुति इसी प्रकार औपाधिक कर्तृत्व को कहती है। ( शरीर, इन्द्रिय और मन से युक्त को विद्वान् लोग भोक्ता इस शब्द से कहते हैं ) यह भी उपाधिसंयुक्त ही आत्मा के भोक्तृत्वादि विशेष लाभ को दर्शाती है। अर्थात् दोनों श्रुति आत्मा के संसारित्व को औपाधिक कहती हैं। और विवेकियों की दृष्टि में परमात्मा से अन्य कर्ता-भोक्ता प्रसिद्ध जीव नहीं है, क्योंकि ( इस परमात्मा से अन्य द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि सुना जाता है। यहाँ शङ्का होती है कि बुद्धि आदि संधान से भिन्न परमात्मा से अन्य चेतना वाला कर्ता जीव यदि नहीं होगा तो परमात्मा ही ससारी और कर्ता-भोक्ता प्राप्त सिद्ध होगा। यहाँ उत्तर कहा जाता है कि ऐसा दोष नहीं है। कर्तृत्व-भोक्तृत्व के अविद्या से जन्य होने से अविद्यारहित शुद्ध परमात्मा में कर्तृत्व-भोक्तृत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किन्तु अविद्यादि उपाधि में प्रतिबिम्बित बुद्धि आदि सघात से भिन्न परमात्मा से अभिन्न होत भी भिन्न जीवभाव के प्राप्त को ही बन्ध-मोक्षादि होते हैं।

तथा च शास्त्रम्—‘यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’ ( बृ० २।४।१४ ) इत्यविद्यावस्थायां कर्तृत्वभोक्तृत्वे दर्शयित्वा विद्यावस्थायां ते एव कर्तृत्वभोक्तृत्वे निवारयति—‘यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्’ ( बृ० २।४।१४ ) इति। तथा स्वप्नजागरितयोरात्मन उपाधि सम्पर्ककृतं श्रमं श्येन-स्येवाकाशे विपरिपततः श्रावयित्वा तदभावं सुषुप्तौ प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तस्य श्रावयति—‘तद्वा अस्यैतदाप्तकाममात्मकाममकाम रूपं शोकान्तरम्’ ( बृ० ४।३।२१ ) इत्यारभ्य ‘एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एपोऽस्य परम आनन्दः’ ( बृ० ४।३।३२ ) इत्युपसंहारात्। तदेतदाहाचार्यः—यथा च तक्षोभयथा—इति। त्वर्थे चायं चः पठितः। नैव मन्तव्यं—स्वाभाविकमेवात्मनः कर्तृत्वमग्रेरिवौष्ण्यम्—इति। यथा तु तक्षा लोके वास्यादिकरणहस्तः कर्ता दुःखी भवति स एव स्वगृहं प्राप्नो वियुक्तवास्यादिकरणः स्वस्थो निर्वृतो निर्व्यापारः सुखी भवत्येवमविद्याप्रत्युपस्थापितद्वैतसंपृक्त आत्मा स्वप्नजागरितावस्थयोः कर्ता दुःखी भवति, स तच्छ्रमापनुत्तये स्वमात्मानं परं ब्रह्म प्रविश्य विमुक्तकार्यकरणसङ्घातोऽकर्ता सुखी भवति सम्प्रसादावस्थायाम्। तथा मुक्त्यवस्थायामप्यविद्याध्वान्तं विद्याप्रदीपेन विधूयात्मैव केवलो निर्वृतः सुखी भवति। तक्षदृष्टान्तश्चैतावतांशेन द्रष्टव्यः। तक्षा हि विशिष्टेषु तक्षणादिव्यापारेष्वपेक्ष्यैव प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता

भवति, स्वशरीरेण त्वकर्तैव । एवमयमात्मा सर्वव्यापारेष्वपेक्ष्यैव मनआदीनि करणानि कर्ता भवति, स्वात्मना त्वकर्तैवेति, न त्वात्मनस्तद्वृत्त इवावयवाः सन्ति यैर्हस्तादिभिरिव वास्यादीनि तक्षा मनआदीनि करणान्यात्मोपादृष्टान्यस्येद्वा ।

इसी प्रकार शास्त्र कहता है कि ( जिस काल में द्वैत के समान जिससे होता है, उससे उस काल में इतर-इतर को देखता है ) इस प्रकार अविद्या अवस्था में कर्तृत्व-भोक्तृत्व को दिखाकर, विद्या अवस्था में उसी कर्तृत्व-भोक्तृत्व का शास्त्रनिवारण करता है कि ( जिस काल में इस ज्ञानी के सब आत्मा हो गया उस काल में किससे किसको देखे ), इसी प्रकार आकाश में उड़ने वाला श्येन पक्षी के श्रम के समान स्वप्न और जागरित काल में उपाधि के सम्बन्ध से कृतं ( जन्य ) आत्मा के श्रम को सुना कर सुषुप्ति में प्राज्ञात्मा के साथ सम्पृक्त सम्बद्ध के उस श्रम के अभाव को श्रुति दिखाती है कि ( उस ज्योतिस्वरूप का यह आत्मकाम आत्मकाम अतएव अकाम शोकशून्य स्वरूप है ) ऐसा आरम्भ करके ( यह परम अद्वैत है इसकी परम गति है, यह इसकी परम सम्पत्ति है, यही इसका परम लोक है और यही इसका परम आनन्द है ) इस उपसंहार से उक्त श्रमाभाव को ही श्रुति दिखाती है । उस औपाधिक श्रम, ससार और उपाधि के बिना श्रम के अभाव को यह आचार्य कहते हैं कि ( यथा च तक्षोभयथा ) इति । यह सूत्रगत च शब्द तु शब्द के अर्थ में पठित है । अर्थ है कि—अग्नि की उष्णता के समान आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक ही है ऐसा नहीं मानना चाहिये, किन्तु लोक में जैसे बढई बसुला आदि साधनयुक्त हाथ वाला होने पर वह क्रिया का कर्ता और श्रान्त दुःखी होता है और वही अपने गृह में प्राप्त होकर, बसुला आदि साधनों से वियुक्त होकर, स्वस्थ निर्व्यापार सुखी सिद्ध होता है । इसी प्रकार अविद्या से प्रत्युपस्थापित ( प्रकटित ) द्वैत से अविद्वित्त आत्मा स्वप्न और जागरित अवस्था में कर्ता दुःखी होता है, वही सुषुप्ति अवस्था में उस श्रम की निवृत्ति के लिये स्वात्मारूप परब्रह्म में प्रवेश करके कार्य-करण रूप संघात से रहित होकर अकर्ता सुखी होता है । इसी प्रकार विद्यारूप प्रदीप से अविद्यारूप अन्धकार को निवृत्त करके मोक्ष अवस्था में केवल आत्मा ही सुखी सिद्ध होता है । यद्यपि तक्षा ( बढई ) को हस्तादि करण साधन रहता है, और आत्मा को कोई करण नहीं माना जाता है इससे दृष्टान्त विषम है तथापि तक्षा का दृष्टान्त इतना ही अंश में समझना चाहिये कि तक्षा विशिष्ट ( भिन्न ) तक्षण ( छिलना ) आदि रूप व्यापारों में प्रतिनियत बसुला आदि साधनों की अपेक्षा ( ग्रहण ) करके ही कर्ता होता है, अपने शरीरमात्र से तो उस कर्म का अकर्ता ही रहता है । इसी प्रकार यह आत्मा भी सब व्यापारों में मन आदि करणों की अपेक्षा करके ही कर्ता होता है, स्वरूप से तो अकर्ता ही रहता है, आत्मा के तक्षा के समान अवयव नहीं है कि जिनके द्वारा वह मन आदि करणों का ग्रहण करेगा वा त्याग करेगा, जैसे कि बढई हाथ आदि के द्वारा बसुला आदि का ग्रहण करता है । इससे इस अंश में दृष्टान्त नहीं है ।

यत्तुक्तं—शास्त्रार्थवत्त्वादिभिर्हेतुभिः स्वाभाविकमात्मनः कर्तृत्वम्—इति । तन्न । विधिशास्त्रं तावद्यथाप्राप्तं कर्तृत्वमुपादाय कर्तव्यविशेषमुपदिशति न कर्तृत्वमात्मनः प्रतिपादयति । न च स्वाभाविकमस्य कर्तृत्वमस्ति ब्रह्मात्मत्वोपदेशादित्यवोचाम । तस्मादविद्याकृतं कर्तृत्वमुपादाय विधिशास्त्रं प्रवर्तिष्यते । 'कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष' इत्येवंजातीयकमपि शास्त्रमनुवादरूपत्वाद्यथाप्राप्तमेवाविद्याकृतं कर्तृत्वमनुवदिष्यति । एतेन विहारोपादाने परिहृते, तयोरप्यनुवादरूपत्वात् । ननु संध्ये स्थाने प्रसुप्तेषु करणेषु स्वै शरीरे यथाकामं परिवर्तते इति विहार उपदिश्यमानः केवलस्यात्मनः कर्तृत्वमावहति । तथोपादानेऽपि 'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' इति करणेषु कर्मकरणविभक्ती श्रूयमाणे केवलस्यात्मनः कर्तृत्वं गमयत इति । अत्रोच्यते । न तावत्संध्ये स्थानेऽत्यन्तमात्मनः करणविरमणमस्ति, 'सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति' ( बृ० ४।३।७ ) इति तत्रापि धीसम्बन्धश्रवणात् ।

जो यह कहा था कि शास्त्रार्थवत्त्वादि हेतुओ से आत्मा का स्वाभाविक कर्तृत्व है, वह ठीक नहीं है जिससे विधिशास्त्र लोक-व्यवहारादि द्वारा जैसा कर्तृत्व प्राप्त रहता है । उसी कर्तृत्व का ग्रहण करके कर्तव्यविशेषमात्र का उपदेश करता है, आत्मा के कर्तृत्व का प्रतिपादन नहीं करता है । इस आत्मा को स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं है । ब्रह्मरूपता के उपदेश से स्वाभाविक कर्तृत्व का अभाव है, वह कहा जा चुका है । इससे अविद्याकृत कर्तृत्व का ग्रहण करके विधिशास्त्र प्रवृत्त होगा, इससे विधिशास्त्र से स्वाभाविक कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है । ( विज्ञानात्मा पुरुष कर्ता है ) इस प्रकार का शास्त्र भी अनुवादरूप होने से यथाप्राप्त अविद्याकृत कर्तृत्व का ही अनुवाद करेगा । इसी से स्वाभाविक विहार और उपादान भी परिहृत-निवारित हो गये, जिससे उन दोनों को भी अनुवादरूपत्व है । यहा शङ्का होती है कि स्वप्न मे करणो के प्रसुप्त-लीन होने पर अपने शरीर मे यथेष्ट परितः वर्तमान रहता है । इस प्रकार उपदिश्यमान उपदिष्ट विहार केवल आत्मा के कर्तृत्व को सिद्ध करता है । इसी प्रकार उपादान मे भी ( वह इन्द्रियो के विज्ञान शक्ति का बुद्धि से ग्रहण करके सोता है ) इस प्रकार करणो मे सुनी गई कर्म और करण विभक्ति केवल आत्मा के कर्तृत्व का बोध कराते हैं कि बुद्धि आदि से भिन्न आत्मा बुद्धि द्वारा इन्द्रियो की ज्ञानशक्ति का ग्रहण करता है । यहा उत्तर कहा जाता है कि प्रथम स्वप्न मे तो आत्मा के करणों का विराम-विलय अत्यन्त नहीं होता है, जिससे ( बुद्धिसहित स्वप्न होकर इस लोक का अतिक्रमण करता है ) इस प्रकार उस स्वप्न में भी बुद्धि का सम्बन्ध सुना जाता है ।

तथा च स्मरन्ति—

इन्द्रियाणामुपरमे मनोऽनुपरते यदि ।

सेवते विषयानेव तद्विद्यात्स्वप्नदर्शनम् ॥ इति ।



‘कामादयश्च मनसो वृत्तयः’ इति श्रुतिः, ताश्च स्वप्ने दृश्यन्ते, तस्मात्स-  
मना एव स्वप्ने विहरति । विहारोऽपि च तत्रत्यो वासनामय एव न तु  
पारमार्थिकोऽस्ति । तथा च श्रुतिरिवाकारानुबद्धमेव स्वप्नव्यापारं वर्णयति—  
‘उत्तेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्’ ( बृ० ४।३।१३ )  
इति । लौकिका अपि तथैव स्वप्नं कथयन्ति—आरुरुक्षमिव गिरिशृङ्गमद्राक्ष-  
मिव वनराजिम्—इति । तथोपादानेऽपि यद्यपि करणेषु कर्मकरणविभक्ति-  
निर्देशस्तथापि तत्संपृक्तस्यैवात्मनः कर्तृत्वं द्रष्टव्यम्, केवले कर्तृत्वासम्भवस्य  
दर्शितत्वात् । भवति च लोकेऽनेकप्रकारा विवक्षा—योधा युध्यन्ते योधै राजा  
युध्यन्ते—इति । अपि चास्मिन्नुपादाने करणव्यापारोपरममात्रं विवक्ष्यते न स्वा-  
तन्त्र्यं कस्यचिद्बुद्धिपूर्वकस्यापि स्वापे करणव्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात् ।  
यस्त्वयं व्यपदेशो दर्शितः ‘विज्ञानं यज्ञं तनुते’ इति, स बुद्धेरेव कर्तृत्वं प्रापयति,  
विज्ञानशब्दस्य तत्र प्रसिद्धत्वात् मनोऽनन्तरं पाठाच्च । ‘तस्य श्रद्धैव शिरः’  
( तै० २।४ ) इति च विज्ञानमयस्यात्मनः श्रद्धाद्यवयवत्वसङ्कीर्तनात्, श्रद्धा-  
दीनां च बुद्धिधर्मत्वप्रसिद्धेः, विज्ञानं देवाःसर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते’ ( तै० २।५।१ )  
इति च वाक्यशेषात् ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमजत्वस्य बुद्धौ प्रसिद्धत्वात् । ‘स एष  
वाचश्चिन्नस्योत्तरोत्तरक्रमो यज्ञज्ञः’ इति च श्रुत्यन्तरे यज्ञस्य वाग्बुद्धिसाध्यत्वा-  
वधारणात् । न च बुद्धेः शक्तिविपर्ययः करणानां कर्तृत्वाभ्युपगमे भवति ।  
सर्वकारकाणामिव स्वस्वव्यापारेषु कर्तृत्वस्यावश्यंभावित्वात् । उपलब्ध्यपेक्षं त्वेषां  
करणानां करणत्वं, सा चात्मनः । न च तस्यामप्यस्य कर्तृत्वमस्ति, नित्यो-  
पलब्धिस्वरूपत्वात् । अहङ्कारपूर्वकमपि कर्तृत्वं नोपलब्धुर्भविष्यति, अहङ्कार-  
स्याप्युपलब्ध्यमानत्वात् । नचैवं सति करणान्तरकल्पनाप्रसङ्गः, बुद्धेः करणत्वाभ्यु-  
पगमात् । समाध्यभावस्तु शास्त्रार्थवत्त्वेनैव परिहृतः, यथाप्राप्तमेव कर्तृत्वमुपा-  
दाय समाधिविधानात् । तस्मात्कर्तृत्वमप्यात्मन उपाधिनिमित्तमेवेति स्थितम् ॥

इसी प्रकार स्मृतिकर्ता भी कहते हैं कि ( इन्द्रियो के उपरत होने पर भी यदि मन  
उपरत-निवृत्त न हो, और मन द्वारा विषयो का ही सेवन करे तो उसको स्वप्नदर्शन  
समझना चाहिये ) और ( कामादि मन की वृत्तियाँ हैं ) इस प्रकार श्रुति कहती है । वह  
कामादि स्वप्न में देखते हैं, जिससे मनसहित ही स्वप्न में विहार करता है, केवल  
नहीं । स्वप्न में होने वाला विहार भी वासनामय ही होता है । पारमार्थिक ( सत्य ) तो  
वह है नहीं । इसी प्रकार इनकार ( सादृश्य ) से अनुबद्ध ( युक्त ) ही स्वप्न के व्यापार  
को श्रुति वर्णन करती है कि ( स्त्रियों के साथ भी रमण-आनन्द करता हुआ के समान,  
मित्रों के साथ हँसता के समान, भयों को देखता हुआ के समान रूप को करता है )  
लौकिक मनुष्य भी स्वप्न को इसी प्रकार कहते हैं । ( मैं गिरिशिखर पर मानो चढा  
था, वनपत्ति को मानो देखता था ) । इसी प्रकार उपादान में भी यद्यपि करणों में  
कर्म और करण विभक्ति का निर्देश है, तथापि उन करणों से युक्त आत्मा के ही कर्तृत्व

को समझना चाहिये, जिससे केवल आत्मा मे कर्तृत्व के असम्भव को दर्शित कराया जा चुका है। यदि कही कि करणसहित ही आत्मा मे यदि कर्तृत्व होता है, तो करणो मे भी कर्तृत्व होना चाहिये, तो कहा जाता है कि विवक्षा लोक मे अनेक प्रकार की होती है। योधा युद्ध करते हैं। योधाओ द्वारा राजा युद्ध करता है, इत्यादि; इससे कही करणो मे भी कर्तृत्व होता ही है। और दूसरी बात है कि इस उपादान मे करण के व्यापारो का उपरम (निवृत्ति) मात्र विवक्षित होता है, किसी की स्वतन्त्रता नहीं विवक्षित होती है। क्योंकि स्वप्न मे अबुद्धिपूर्वक ( ज्ञान इच्छा के बिना ) भी करण ( इन्द्रिय ) के व्यापारो का उपरम ( निवृत्ति ) देखा जाता है। ज्ञानादि के बिना भी स्वप्न-निद्रादि होते है। जो यह व्यपदेश (व्यवहार) दिखाया था कि ( विज्ञान यज्ञ का विस्तार करना है ) इससे आत्मा कर्ता है इत्यादि, यहाँ भी वह निर्देश बुद्धि के ही कर्तृत्व का ज्ञापन ( बोध ) कराता है। अर्थात् उससे बुद्धि उपाधि वाला व्यावहारिक जीव मे कर्तृत्व का बोध होता है, शुद्धात्मा का नहीं। क्योंकि विज्ञान शब्द का बुद्धि अर्थ मे प्रतिबुद्धि है। यहाँ इस वचन का मन के अनन्तर पाठ है तथा ( उस विज्ञानमय का श्रद्धा ही शिर है ) विज्ञानमय रूप आत्मा के श्रद्धा आदि रूप अवयवो के संकीर्तन से, और श्रद्धादिको मे बुद्धि के धर्मत्व की प्रसिद्धि से और ( देव सब विज्ञान की ज्येष्ठब्रह्म रूप से उपासना करते हैं ) इस वाक्य शेष से और ज्येष्ठत्व प्रथमजन्म की बुद्धि मे प्रसिद्धि से— अर्थात् ( महद् यक्षं प्रथमजम् ) इस श्रुति मे महापूज्य हिरण्यगर्भ की बुद्धि है, वह इन्द्रियरूप देवो से उपास्य है। इत्यादि हेतुओ से विज्ञान-शब्दार्थ बुद्धि ही है। ( वाक् तथा चित्त बुद्धि का जो उत्तर-उत्तर उपक्रम गति है वही यह यज्ञ है ) अर्थात् चित्त से ध्यान करके वाक् से मन्त्रोच्चारण द्वारा यज्ञ सिद्ध होता है। इससे चित्त और वाक् का पूर्वोत्तरभाव-रूप यज्ञ है। इस प्रकार अन्य श्रुति मे यज्ञ को वाक् और बुद्धि-साध्यत्व के अवधारण से भी ( विज्ञान यज्ञं तनुते ) इस श्रुति मे यज्ञकर्तारूप बुद्धि ही सिद्ध होती है। करणों के कर्तृत्व का स्वीकार करने से बुद्धि की करण शक्ति का विपर्यय नहीं होता है। क्योंकि सभी करणो को अपने-अपने व्यापारो मे कर्तृत्व अवश्यभावी है। जिससे काष्ठ ज्वलित होता है। इत्यादि प्रयोग देखा जाता है। इस प्रकार बुद्धि और इन्द्रियों को भी अपने-अपने व्यापारो मे कर्ता होते भी विषयो की उपलब्धि की अपेक्षा से इन बुद्धि इन्द्रिय-रूप करणो को करणत्व है, जैसे कि काष्ठो को अपने व्यापार में कर्ता होते भी पाक मे करणत्व है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये। जिस उपलब्धि के बुद्धि और इन्द्रिय करण हैं, वह उपलब्धि जीवात्मा का व्यापार है। उस उपलब्धि मे भी इस शुद्धात्मा को कर्तृत्व नहीं है, अर्थात् उपलब्धि का भी स्वाभाविक कर्तृत्व आत्मा को नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा नित्य उपलब्धि ( ज्ञान ) स्वरूप है। इससे व्यावहारिक जीवात्मा चित्तप्रतिभासित वृत्ति-रूप उपलब्धि का कर्ता है। इसी प्रकार अहंकारपूर्वक कर्तृत्व भी व्यावहारिक आत्मा को ही है। शुद्ध उपलब्धा ( आत्मा ) को अहंकारपूर्वक कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि अहंकार भी उपलभ्यमान ( दृश्य ) है। उसको स्वयंप्रकाश साक्षी स्वरूपत्व नहीं हो सकता है।

ऐसा होने पर, अर्थात् बुद्धि को विज्ञान-शब्दार्थ कर्तारूप होने पर करणान्तर की कल्पना रूप दोष का प्रसङ्ग भी नहीं है, क्योंकि अहबुद्धि का विषय बुद्धिविशिष्ट व्यावहारिकात्मा विज्ञान-शब्दार्थरूप कर्ता है। उसमें विशेषणरूप बुद्धिमात्र को करण मानने से करणान्तर की कल्पना का प्रसङ्ग नहीं होता है केवल बुद्धि के साख्य रीति से कर्त्री मानने पर करणान्तर का प्रसङ्ग अवश्य होगा। समाधि के अभाव तो शास्त्र के अर्थवत्त्व से ही परिहृत हो चुका है। यथाप्राप्त ( लोकसिद्ध ) कर्तृत्व का ग्रहण करके समाधि के विधान से दोष परिहृत होता है। इससे आत्मा का कर्तृत्व धर्म भी उपाधि-निमित्तक ही है। यह स्थित ( निश्चित ) हुआ ॥ ४० ॥

### परायत्ताधिकरण ॥ १६ ॥

प्रवर्तकोऽस्य रागादिरीशो वा रागतः कृषौ । दृष्टा प्रवृत्तिर्वैषम्यमीशस्य प्रेरणे भवेत् ॥ १ ॥  
सस्येषु वृष्टिवृत्तीवेऽवीशस्याविषयत्वनतः । रागोन्तयाम्यधीनोऽत ईश्वरोऽस्य प्रवर्तकः ॥ २ ॥

वह जीवकर्तृत्व श्रुति से परमात्मनिमित्तक है, स्वतन्त्र नहीं है। वहाँ संशय है कि इम जीव का प्रवर्तक रागादि है वा ईश्वर है। पूर्वपक्ष है कि कृषि में राग से प्रवृत्ति देखी गई है, इससे राग ही प्रवर्तक है, ईश्वर को प्रेरणा होने पर ईश्वर में विषमता की प्राप्ति होगी। सिद्धान्त है कि सस्यो में वृष्टि जैसे साधारण कारण होता है, वह विषमता का हेतु नहीं होता है किन्तु बीजादि विषमता के हेतु हैं, वैसे ही जीवो में ईश्वर को अविषमता है, कर्म वासनादि के अनुसार विषमफल होते हैं, और ईश्वर साधारण कारण है। रागादि भी अन्तर्यामी ईश्वर के अधीन प्रवर्तक होते हैं। इससे ईश्वर इस व्यावहारिक जीव का प्रवर्तक है ॥ १-२ ॥

### परात्तु तच्छ्रुतेः ॥ ४१ ॥

यदिदमविद्यावस्थायामुपाधिनिबन्धनं कर्तृत्वं जीवस्याभिहितं, तत्किम-  
नपेक्ष्येश्वरं भवत्याहोस्विदीश्वरापेक्षमिति भवति विचारणा । तत्र प्राप्तं तावन्ने-  
श्वरमपेक्षते जीवः कर्तृत्व इति । कस्मात् ? अपेक्षाप्रयोजनाभावात् । अयं हि  
जीवः स्वयमेव रागद्वेषादिदोषप्रयुक्तः कारकान्तरसामग्रीसम्पन्नः कर्तृत्वमनुभवितुं  
शक्नोति । तस्य किमीश्वरः करिष्यति । न च लोके प्रसिद्धिरस्ति कृष्यादि-  
कासु क्रियास्वनडुहादिवदीश्वरोऽपेक्षितव्य इति । क्लेशात्मकेन च कर्तृत्वेन  
जन्तून्संसृजत ईश्वरस्य नैर्घृण्यं प्रसज्येत । विषमफलं चैषां कर्तृत्वं विदधतो  
वैषम्यम् । ननु 'वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्' ( ब्र० १।४।१७ ) इत्युक्तम् ।  
सत्यमुक्तं सति त्वीश्वरस्य सापेक्षत्वसम्भवे । सापेक्षत्वं चेश्वरस्य सम्भवति  
सतोर्जन्तूनां धर्माधर्मयोः, तयोश्च सद्भावः सति जीवस्य कर्तृत्वे । तदेव चेत्कर्तृ-  
त्वमीश्वरापेक्षं स्यात्किंविषयमीश्वरस्य सापेक्षत्वमुच्येत । अकृताभ्यागमश्चैवं  
जीवस्य प्रसज्येत । तस्मात्स्वत एवास्य कर्तृत्वमिति । एतां प्राप्तिं तुशब्देन

व्यावर्त्य प्रतिजानीते—‘परात्’ इति । अविद्यावस्थायां कार्यकरणसङ्घाताधिभेक-  
दर्शिनो जीवस्याविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः कर्माध्यक्षात्सर्वभूता-  
धिवासात्साक्षिणश्चेत्यतुरीश्वरात्तदनुज्ञया कर्तृत्वभोक्तृत्वलक्षणस्य संसारस्य  
सिद्धिः, तदनुग्रहहेतुकेनैव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिर्भवितुमर्हति । कुतः ?  
तच्छ्रुतेः । यद्यपि रागादि दोषप्रयुक्तः सामग्रीसपन्नश्च जीवः, यद्यपि च लोके  
कृष्यादिषु कर्मसु नेश्वरकारणत्वं प्रसिद्ध, तथापि सर्वास्वेव प्रवृत्तिष्वीश्वरो  
हेतुर्कर्तेति श्रुतेरवसीयते । तथाहि श्रुतिर्भवति—‘एष ह्येव साधु कर्म कारयति  
तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नित्नीषते, एष ह्येवासाधु कर्म कारयति तं यमघो निनी-  
षते’ ( कौषी० ३।८ ) इति, ‘य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति’ इति  
चैवंजातीयका ॥ ४१ ॥

अविद्यावस्था मे जो यह उपाधिनिमित्तक जीव के कर्तृत्व का कथन किया गया  
है, वह कर्तृत्व क्या ईश्वर की अपेक्षा के बिना होता है । अथवा ईश्वर की अपेक्षा-  
पूर्वक होता है । यह विचारणा ( चर्चा ) जिज्ञासामूलक होती है । वहाँ प्रथम प्राप्त  
होता है, कि जीव अपने कर्तृत्व में ईश्वर की अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर की  
अपेक्षा के प्रयोजन का अभाव है । जिससे यह जीव स्वयं ही राग-द्वेषादि दोषों से  
प्रेरित होकर और कारकान्तररूप सामग्री से सम्पन्न होता हुआ कर्तृत्व का अनुभव कर  
सकता है । फिर ईश्वर उसका क्या करेगा । लोक में कृषि आदि क्रियाओं में बैल आदि  
के समान ईश्वर भी अपेक्षितव्य ( प्राप्तव्य ) है, ऐसी प्रसिद्धि नहीं है । यदि ईश्वर कर्तृत्व  
का हेतु होगा भी तो क्लेशात्मक कर्तृत्व के साथ जन्तुओं-प्राणियों के ससर्ग ( सम्बन्ध )  
को रचने वाले ईश्वर को निर्घृणता ( क्रूरता ) की प्राप्ति होगी । इन जन्तुओं के विषम  
फल वाले कर्तृत्व को सिद्ध करने वाले ईश्वर को विषमता की प्राप्ति होगी । यद्यपि जीव  
के धर्माधर्म-सापेक्ष ईश्वर कर्ता है, इससे विषमता निर्घृणता ईश्वर में नहीं है, यह  
प्रथम कहा गया है, वह सत्य ही कहा गया है, कि यदि ईश्वर को सापेक्षत्व सिद्ध हो ।  
वह सापेक्षत्व ही नहीं सिद्ध होता है, यहाँ यह तात्पर्य है, क्योंकि प्राणियों के धर्माधर्म  
रहने पर ईश्वर को सापेक्षत्व सिद्ध होगा । उस धर्माधर्म का सद्भाव जीव के कर्तृत्व  
रहने पर होगा । वह कर्तृत्व ही यदि ईश्वराधीन होगा, तो किस विषयक ईश्वर का  
सापेक्षत्व कहा जायगा । अर्थात् ईश्वराधीन कर्तृत्व की सिद्धि से धर्माधर्म की सिद्धि  
होगी, धर्माधर्म के सिद्ध होने पर धर्माधम-सापेक्ष ईश्वर के प्रवर्तकत्व की सिद्धि होगी,  
फिर प्रवर्तकत्व से कर्तृत्व की सिद्धि होगी तो इस प्रकार चक्रक दोष से एक भी नहीं  
सिद्ध होगा । इस प्रकार कर्मानपेक्ष प्रवर्तक होने पर जीव को अकृताभ्यागम की प्राप्ति  
होगी, ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों के बिना भी जीवों के सुख-दुःख का हेतु  
होगा । इससे इस जीव को स्वतः कर्तृत्व है । इस तरह प्राप्त पूर्वपक्ष का तु शब्द से निवारण  
करके सूत्रकार प्रतिज्ञा करते हैं कि ( परात् ) इति, अविद्यावस्था में कार्य-करण के

सघात से अपने को अभिन्न-अपृथक् समझने वाला अविद्यारूप अन्धकार से अन्ध होता हुआ जीव के कर्तृत्व-भोक्तृत्व रूप ससार की सिद्धि कर्माध्यक्ष ( कर्मद्रष्टा ) सर्वभूतो का अधिष्ठान सर्वनिवासी अन्तर्यामी चेतयिता सर्वज्ञ साक्षी ईश्वररूप परमात्मा से और उसकी अनुज्ञ ( अनुमति ) से होती है । उस परमात्मा के अनुग्रहरूप हेतु से जन्म विज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होने के योग्य है, क्योंकि वैसा ही श्रुति से सिद्ध होता है । यद्यपि रागादि दोषो से प्रेरित और सामग्रियो से सम्पन्न जीव है, और यद्यपि लोक मे कृषि आदि कर्मों मे ईश्वर की कारणता प्रसिद्ध नहीं है । तथापि सभी प्रवृत्तियो मे ईश्वर हेतु-प्रयोजक स्वरूप कर्ता है, यह श्रुति से निश्चय किया जाता है । जिससे इसी प्रकार की श्रुति है कि ( वह परमात्मा ही उससे पुण्य कर्म करवाता है कि जिसको इन नीचे के लोको से ऊपर उत्तम लोक मे ले जाना चाहता है । वही उसमे पाप करवाता है कि जिसको इन लोको से नीचे ले जाना चाहता है ) ( जो आत्मा मे रहकर अन्तरात्मारूप से आत्मा का नियन्त्रण करता है ) इस प्रकार की श्रुति सब क्रिया को ईश्वराधीन दिखाती है । इससे श्रुति बल से जीव का कर्तृत्व ईश्वराधीन सिद्ध होता है ॥ ४१ ॥

नन्वेवमीश्वरस्य कारयितृत्वे सति वैषम्यनैर्घृण्ये स्यातामकृताभ्यागमश्च जीवस्येति, नेत्युच्यते—

यहाँ शंका होती है कि ईश्वर के कारयिता ( प्रेरक ) होने पर विषमता निर्घृणता होगी । जीव को अकृताभ्यागम होगा । तो कहा जाता है कि ये सब दोष नहीं हैं, तथाहि—

**कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः ॥ ४२ ॥**

तुशब्दश्चोदितदोषव्यावर्तनार्थः । कृतो यः प्रयत्नो जीवस्य धर्माधर्मलक्षण-स्तदपेक्ष एवैनमीश्वरः कारयति । ततश्चैते चोदिता दोषा न प्रसज्यन्ते । जीव-कृतधर्माधर्मवैषम्यापेक्ष एव तत्तत्फलानि विषमं विभजते पर्जन्यवदीश्वरो निमित्तत्वमात्रेण । यथा लोके नानाविधानां गुच्छगुल्मादीनां व्रीहियवादीनां चासाधारणोभ्यः स्वस्वबीजेभ्यो जायमानाना साधारण निमित्तं भवति पर्जन्यः, न ह्यसति पर्जन्ये रसपुष्पपलाशादिवैषम्य तेषा जायते, नाप्यसत्सु स्वस्वबी-जेषु, एवं जीवकृतप्रयत्नापेक्ष ईश्वरस्तेपां शुभाशुभ विद्ध्यवादिति शिलष्यते । ननु कृतप्रयत्नापेक्षत्वमेव जीवस्य परायत्ते कर्तृत्वे नोपपद्यते । नैप दोषः । परा-यत्तेऽपि हि कर्तृत्वे करोत्येव जीवः, कुर्वन्तं हि तमीश्वरः कारयति । अपि च पूर्वप्रयत्नमपेक्ष्येदानीं कारयति पूर्वतरं च प्रयत्नमपेक्ष्य पूर्वमकारयदित्यनादित्वा-त्संसारस्येत्यनवद्यम् । कथं पुनरवगम्यते कृतप्रयत्नापेक्ष ईश्वर इति ? विहित-प्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्य इत्याह । एवं हि 'स्वर्गकामो यजेत' ब्राह्मणो न

हन्तव्यः' इत्येवंजातीयकस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्य चावैयर्थ्यं भवति, अन्यथा तदनर्थकं स्यात्, ईश्वर एव विधिप्रतिषेधयोर्नियुज्येत, अत्यन्तपरतन्त्रत्वाज्जीवस्य । तथा विहितकारिणमप्यनर्थेन संसृजेत्प्रतिषिद्धकारिणमप्यर्थेन, ततश्च प्रामाण्यं वेदस्यास्तमियात् । ईश्वरस्य चात्यन्तानपेक्षत्वे लौकिकस्यापि पुरुषकारस्य वैयर्थ्यं, तथा देशकालनिमित्तानां, पूर्वोक्तदोषप्रसङ्गश्चेत्येवजातीयकं दोषजातमादिग्रहणेन दर्शयति ॥ ४२ ॥

तु शब्द आशंकित उक्त दोषो की व्यावृत्ति के लिये है । कि जीव का जो धर्माधर्म स्वरूप यज्ञ किया हुआ रहता है, उसकी अपेक्षापूर्वक हो ईश्वर इस जीव को करवाता है, प्रेरणा करता है इत्यादि । इससे ये शक्ति उक्त दोष नहीं प्राप्त होते हैं । जीव के कृत ( पूर्वोपाजित ) धर्म और अधर्म की अपेक्षा वाला ही ईश्वर निमित्तत्व मात्र रूप से पर्जन्य के समान तत्त्व फलो का विषम विभाग करता है । अर्थात् जैसे बीजादि विशेष कारण के रहते भी सामान्य कारण पर्जन्य की अपेक्षा होती है । इसी प्रकार राग-द्वेषादि के रहते भी कर्तृत्वादि में सामान्य कारणरूप ईश्वर की अपेक्षा होती है । इससे जैसे लोक में असाधारण ( विशेष ) अपने-अपने बीजो से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के गुच्छ-गुल्मादिको का और ब्रीहि-यवादिको का साधारण निमित्त कारण पर्जन्य होता है । जिससे पर्जन्य ( वृष्टि ) के नहीं होने पर उन गुच्छादि ब्रीहि आदि के रस पुष्प-पत्तो के वैषम्य नहीं होते हैं, न अपने-अपने बीजो की असत्ता में होते हैं । इससे पर्जन्य और बीज दोनों कारण हैं । इसी प्रकार पर्जन्य के समान ईश्वर जीवकृत प्रयत्न की अपेक्षापूर्वक उन जीवो के शुभाशुभ का विधान सपादन करेगा यह युक्त होता है । यदि कही कि जीव के पराधीन कर्तृत्व होने पर ईश्वर को कृतप्रयत्नापेक्षत्व ही नहीं सिद्ध होता है । तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है । जिससे पराधीन कर्तृत्व के होने पर भी जीव करता ही है, और करते हुए ही जीव को ईश्वर करवाता है, प्रेरणा करता है । दूसरी बात है कि पूर्व के प्रयत्न की अपेक्षा करके इस समय करवाता है, और उससे पूर्वकृत पूर्वतर प्रयत्न की अपेक्षा करके पूर्वकाल में करवाया था । इस प्रकार संसार की अनादिता से जीव के कर्तृत्व और ईश्वर के प्रेरकत्व बीजाङ्कर न्याय से अनवद्य ( निर्दाष ) है । यदि कही कि कैसे समझा जाता है कि ईश्वरकृत प्रयत्नापेक्ष कारक होता है, कहा जाता है, कि ( विहित प्रतिषिद्ध के अव्यर्थता आदि से समझा जाता है ) जिससे इस प्रकार ईश्वर के सापेक्ष होने ही से ( स्वर्ग की इच्छा वाला यज्ञ से स्वर्ग को प्राप्त करे ) ब्राह्मण हन्तव्य नहीं है, इससे ब्राह्मण का हनन नहीं करे ) इस प्रकार के विहित और प्रतिषिद्ध की अव्यर्थता होती है । अन्यथा ईश्वर के निरपेक्ष होने पर कर्म अनर्थक होगा । और विधि-प्रतिषेध ( पुण्य-पाप ) के स्थान में ईश्वर ही नियुक्त होगा । जीव के अत्यन्त परतन्त्रता से पुण्य-पाप कार्य को ईश्वर ही करेगा । ऐसा होने से निरपेक्ष ईश्वर के अधीन जीव के होने से शास्त्र अनर्थक होगा ।

अनर्थकता ही नहीं किन्तु विपरीतता की प्राप्ति होगी कि विहित करने वाले को भी अनर्थ के साथ सम्बन्ध करावेगा, और प्रतिषिद्ध करने वाले को भी अर्थ के साथ सम्बन्ध करावेगा। इससे वेद की प्रमाणाता अस्त नष्ट हो जायगी। ईश्वर के अत्यन्त अनपेक्ष होने पर लौकिक व्यापार पुरुषकार ( प्रयत्न ) भी अनर्थक होगा, इसी प्रकार देश, काल और निमित्तों की अनर्थकता होगी। और पूर्वोक्त अकृताभ्यागम दोष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के दोषसमूह को सूत्र में आदिग्रहण से सूत्रकार दिखाते हैं ॥ ४२ ॥

### अंशाधिकरण ॥ १७ ॥

किं जीवेश्वरसांकर्यं व्यवस्था वा श्रुतिद्वयात् । अभेदभेदविषयात्सांकर्यं न निवार्यते ॥ १ ॥  
अंशोऽवच्छिन्न आभास इत्यौपाधिककल्पनैः । जीवेशयोर्व्यवस्था स्याज्जीवानां च परस्परम् ॥

श्रुति में कही जीव का ईश्वर से नाना ( भेद ) का व्यपदेश से और कही दासकिल-वादिरूपता का भी ब्रह्म अध्ययन करते हैं। इससे एक के मत से अन्यथा ( ईश्वर से अभिन्न भी जीव है, वहाँ भेदाभेद के विरुद्ध होने से वास्तव में अभेद और कल्पित भेद वाला अशतुल्य जीव सिद्ध होता है। वहाँ सशय है कि अभेद और भेद विषयक दो श्रुति के सुनने से जीव और ईश्वर का सांकर्य है। अव्यवस्थित स्वरूप है वा कोई व्यवस्था है। पूर्वपक्ष है कि दो प्रकार की श्रुति से जो सांकर्य है, वह निवारण नहीं किया जा सकता है। सिद्धान्त है कि औपाधिक कल्पनाओं से अश अवच्छिन्न आभास इत्यादि भेद का कथन होता है। स्वरूप से एक कहा जाता है इससे जीव और ईश्वर की व्यवस्था है। तथा जीवों की परस्पर व्यवस्था असांकर्य है, औपाधिकरूप से सब जीव भिन्न-भिन्न हैं, पारमाधिक स्वरूप से एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है ॥ १-२ ॥

### अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकित- वादित्वमधीयत एके ॥ ४३ ॥

जीवेश्वरयोरुपकार्योपकारकभाव उक्तः । स च सम्बद्धयोरेव लोके दृष्टो यथा स्वामिभृत्ययोर्यथा वाग्निर्विस्फुलिङ्गयोः ततश्च जीवेश्वरयोरप्युपकार्योपकार-कभावाभ्युपगमात्किं स्वामिभृत्यवत्सम्बन्ध आहोस्विद्वाग्निर्विस्फुलिङ्गवदित्यस्यां विचिकित्सायामनियमो वा प्राप्नोति । अथवा स्वामिभृत्यप्रकारेऽप्येवेशित्रीशित-व्यभावस्य प्रसिद्धत्वान्तद्विध एव सम्बन्ध इति प्राप्नोति । अतो ब्रवीत्यंश इति । जीव ईश्वरस्यांशो भवितुमर्हति, यथाग्नेर्विस्फुलिङ्गः । अंश इवांशो नहि निरवयवस्य मुख्योऽंशः सम्भवति । कस्मात्पुनर्निरवयवत्वात्स, एव न भवति ? नानाव्यपदेशात् । सोऽन्वेष्टव्यः विजिज्ञासितव्यः' ( छ० पा० १ ) 'मृतमेव विदित्वा मुनिर्भवति' 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति' इति चैवं-जातीयको भेदनिर्देशो नासति भेदे युज्यते । ननु चायं नानाव्यपदेशः सुतरां स्वामिभृत्यसारूप्ये युज्यत इत्यत आह—अन्यथा चापीति । न च नाना-

व्यपदेशादेव केवलादंशत्वप्रतिपत्तिः । किं तर्ह्यन्यथा चापि व्यपदेशो भवत्य-  
नानात्वस्य प्रतिपादकः । तथाहि एके शाखिनो दाशकितवादिभावं ब्रह्मण  
आमनन्त्याथर्वणिका ब्रह्मसूक्ते—‘ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मैवेमे कितवाः’ इत्या-  
दिना । दाशा य एते कैवर्ताः प्रसिद्धाः, ये चामी दासाः स्वामिध्वात्मानमुपक्षि-  
पन्ति, ये चान्ये कितवा द्यूतकृतस्ते सर्वे ब्रह्मैवेति हीनजन्तूदाहरणेन सर्वेषामेव  
नामरूपकृतकार्यकरणसङ्घातप्रविष्टानां जीवानां ब्रह्मत्वमाह । तथाऽन्यत्रापि  
ब्रह्मप्रक्रियायामेवायमर्थः प्रपञ्च्यते—

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥

( श्वे० ४।३ ) इति ।

सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते । इति च ।  
‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ ( बृ० ३।७।२३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्चास्यार्थस्य सिद्धिः ।  
चैतन्यं चाविशिष्टं जीवेश्वरयोर्थाऽग्निविस्फुलिङ्गयोरौघ्यम् । अतो भेदाभेदा-  
वगमाभ्यामंशत्वावगमः ॥ ४३ ॥

जीव और ईश्वर का परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव प्रथम कहा गया है कि जीव  
उपकार का पात्र है । ईश्वर उसका पर्जन्य के समान उपकारक है । वह उपकार्य-उप-  
कारक भाव लोक में सम्बन्ध वालो में ही देखा गया है । जैसे कि स्वामी और सेवक  
का उपकार्य-उपकारक भाव देखा गया है या जैसे अग्नि और स्फुलिगो ( चिनगियो ) का  
देखा गया है, इससे जीव और ईश्वर का भी उपकार्य-उपकारक भाव के स्वीकार से संशय  
होता है कि इनको स्वामी-सेवक के समान सम्बन्ध है । अथवा अग्निविस्फुलिङ्ग के  
समान है । इस संशय के होने पर या तो अनियम प्राप्त होता है, अनेक प्रकार की श्रुति  
से कोई निश्चय नहीं होता है अथवा स्वामी और सेवक सदृशो में ही ईशिता-ईशितव्य  
( नियन्ता-नियम्य ) भाव के प्रसिद्ध होने से स्वामी-भृत्य के समान ही सम्बन्ध  
प्राप्त होता है । इससे कहते हैं कि ( अश इत्यादि ) जैसे अग्नि का विस्फुलिङ्ग  
अश है वैसे ईश्वर का अश जीव होने योग्य है । परन्तु वह भी अश के समान  
होने से अश कहा जाता है । जिससे निरवयव ईश्वर के मुख्य अवयव का सम्भव  
नहीं है । यदि कहा जाय कि निरवयव होने से यदि ईश्वर मुख्य अवयव अंश जीव  
नहीं हो सकता है, तो वह ईश्वर ही जीव क्यों नहीं होता है अर्थात् निरवयव होने से  
अभेदबोधक श्रुति के अनुसार ईश्वररूप ही जीव को क्यों नहीं माना जाता है । अंश  
तुल्य क्यों कहते हैं । तब कहा जाता है कि नाना ( भेद ) का भी निर्देश से  
ईश्वर स्वरूप ही नहीं कह कर अंशतुल्य कहते हैं । ( वह अन्वेषण करने योग्य है,  
जिज्ञासा करने योग्य है । इसीको जानकर मुनि होता है । जो आत्मा में रहता हुआ  
अन्तरात्सारूप होकर आत्मा का नियन्त्रण करता है ) इस प्रकार का भेदनिर्देश  
भेद के नहीं रहने पर नहीं युक्त हो सकता है । शका होती है कि यदि भेद के



व्यपदेश से अश माना जाता है। तो यह नाना व्यपदेश स्वामी-भुत्यरूपता मे अत्यन्त युक्त होगा, अधिक उचित होगा। इससे कहते है कि ( अन्यथा चापि ) इत्यादि। केवल नाना व्यपदेश से ही अशत्व की प्रतीति नहीं होती है। किन्तु अनानात्व ( अभेद ) का प्रतिपादक अन्यथा भी व्यपदेश ( कथन ) होता है, जिससे एक अथर्वण शाखा वाले ब्रह्म के दाशकितव आदि भाव को भी ब्रह्मसूक्त मे पढते हैं, कि ( ब्रह्म ही दाश है, ब्रह्म ही दास है, और ब्रह्म ही ये कितव है ) इत्यादि वचनो से अन्यथा व्यपदेश है। जो ये प्रसिद्ध कैवर्त हैं वह दाश कहाते हैं। जो ये अपनी आत्मा ( शरीर ) का स्वामी की सेवा मे अर्पण करते हैं, वह दास है। जो ये उनमे अन्य द्यूतकृत ( जुआरी ) हैं, वे सभी ब्रह्म ही हैं। इस प्रकार हीन प्राणियो के उदाहरण द्वारा, नाम और रूप से किये गये कार्य ( शरीर ) और करणो ( इन्द्रियो ) के संबानो मे प्रविष्ट सभी जीवो के ब्रह्मत्व को कहते हैं कि सब ब्रह्म हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी ब्रह्म के प्रकरण मे ही इस अर्थ का विस्तार से वर्णन किया जाता है कि ( तुम आनन्दात्मा ब्रह्म ही स्त्री और पुरुष बुद्धि का विषय होते हो। तुम ही कुमार अथवा कुमारी होते हो। वृद्ध होकर तुम ही दण्ड के सहारा लेकर गमन करते हो। जात-उत्पन्न होकर सब तरफ मुख वाला होते हो ) ( सब रूपो-कार्या को रच कर, नामो को सिद्ध करके उनका कथन करता हुआ जो वर्तमान है, उसको जानने वाला धीर ( विद्वान् ) अमृत होता है ) इत्यादि धृतियो से भी इस अभेदरूप अर्थ की सिद्धि होती है। जैसे अग्नि और स्फुलिङ्ग मे उष्णता तुल्य है, वैसे ही जीव और ईश्वर मे चेतनतातुल्य है, इससे औपाधिक भेद और स्वरूप से अभेद के ज्ञान से अशत्व का अवगम ( ज्ञान ) होता है ॥ ४३ ॥

कुतश्चांशत्वावगमः—

मन्त्रवर्णाच्च ॥ ४४ ॥

मन्त्रवर्णाच्चैतमर्थमवगमयति 'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' ( छान्० ३।१२।६ ) इति। अत्र भूतशब्देन जीवप्रधानानि स्थावरजङ्गमानि निर्दिशति 'अहिंसन् सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः' इति प्रयोगात्। अंशः पादो भाग इत्यनर्थान्तरम्। तस्मादप्यंशत्वावगमः ॥ ४४ ॥

कुतश्चांशत्वावगमः—

किस हेतु से जीव में अशत्व का अवगम होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि—

मन्त्रवर्णां भी इस अर्थ का अवगम कराता है कि ( इस सहस्र शिर वाले पुरुष की तावान्—प्रपञ्चमात्र महिमा विभूति है, पुरुष उस प्रपञ्च से बहुत बडा है। सब प्राणी उसका एक पाद भाग स्वरूप हैं, इसके अमृत तीन पाद स्वयंप्रकाश स्वरूप मे

वर्तमान हैं ) यहाँ भूत शब्द से जीव जिसमें प्रधान हैं, ऐसे स्थावर जगमो का श्रुति निर्देश करती है । ( तीर्थों से अन्यत्र सब भूतो की हिंसा नहीं करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है ) इस प्रयोग से भूत शब्द से प्राणी का ग्रहण होता है क्योंकि प्राणी की ही हिंसा का सम्भव है कि जिस का निषेध हो सकता है, पृथिवी आदि की हिंसा का सम्भव नहीं है । अश, पाद, भाग, ये शब्द एकार्थक हैं । इससे भी अंशत्व का अवगम होता है ॥ ४४ ॥

और किस हेतु से अशत्व का अवगम होता है, कि—

### अपि च स्मर्यते ॥ ४५ ॥

ईश्वरगीतास्वपि चेश्वरांशत्वं जीवस्य स्मर्यते—‘ममैवांशो जीवल्लोके जीव-भूतः सनातनः’ ( १५।७ ) इति । तस्मादप्यंशत्वावगमः । यत्तुक्तं—स्वामिभृत्यादिष्वेवेशित्रीशितव्यभावो लोके प्रसिद्ध—इति, यद्यप्येपा लोके प्रसिद्धिस्तथापि शास्त्रान्वत्रांशांशित्वमीशित्रीशितव्यभावश्च निश्चीयते । निरतिशयोपाधिसम्पन्नश्चेश्वरो निहीनोपाधिसम्पन्नाञ्जीवान्प्रशास्तीति न किञ्चिद्विप्रतिपिध्यते ॥ ४५ ॥

ईश्वर-गीता ( भगवद्गीता ) में भी जीव के ईश्वराशत्व का स्मरण किया जाता है कि ( जीवलोक-संसार में सनातन जीव स्वरूप मेरा ही अंश है ) इससे भी अंशत्व का अवगम होता है । जो यह कहा है कि स्वामी-भृत्य आदि में ईशिता-ईशितव्य भाव लोक में प्रसिद्ध है, वहाँ कहा जाता है कि यद्यपि लोक में यह प्रसिद्धि है, तथापि शास्त्र से तो अश-अशित्व और ईशिता-ईशितव्य भाव निश्चय किया जाता है । निरतिशय ( सर्वोत्तम ) उपाधि से सम्पन्न-युक्त ईश्वर, निहीन ( अत्यन्त हीन ) शरीरादि उपाधि वाले जीवों का प्रशासन करता है इससे कुछ विरुद्ध नहीं होता है ॥ ४५ ॥

अत्राह—ननु जीवस्वेश्वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन संसारदुःखोपभोगेनांशान ईश्वरस्यापि दुःखित्वं स्यात्, यथा लोके हस्तपादाद्यन्यतमाङ्गगतेन दुःखेनाङ्गिनो देवदत्तस्य दुःखित्वं तद्वत्, ततश्च तत्प्राप्तानां महत्तरं दुःखं प्राप्नुयात्, अतो वरं पूर्वावस्थः संसार एवास्त्विति सम्यग्दर्शनानर्थक्यप्रसङ्गः स्यादिति । अत्रोच्यते—

यहाँ कोई कहता है कि जीव और ईश्वर के अश-अशीभाव के स्वीकार करने पर, जैसे लोक में हाथ, पैर आदि किसी एक अंशगत दुःख से अङ्गवाले देवदत्त को दुःखित्व होता है । वैसे उस अंशरूप जीव के संसार-सम्बन्धी दुःख के उपभोग से अशीरूप ईश्वर को भी दुःखित्व होगा, और इससे उसको ज्ञान, भक्ति आदि द्वारा प्राप्त प्राणियों को अतिमहान् दुःख प्राप्त होगा, इससे पूर्वावस्था वाला संसार ही श्रेष्ठ है वही रहे, इस प्रकार सम्यग् दर्शन की अनर्थकता का प्रसंग होगा, यह किसी का कथन है, यहाँ कहा जाता है कि—

## प्रकाशादिवन्नवं परः ॥ ४६ ॥

यथा जीवः संसारदुःखमनुभवति नैव पर ईश्वरोऽनुभवतीति प्रतिजानीमहे । जीवो ह्यविद्यावेशवशाद्देहाद्यात्मभावमिव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन दुःख्यहमित्यविद्याया कृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते, नैवं परमेश्वरस्य देहाद्यात्मभावो दुःखाभिमानो वास्ति । जीवस्याप्यविद्याकृतनामरूपनिर्वृत्तदेहेन्द्रियाद्युपाध्यविवेकभ्रमनिमित्त एव दुःखाभिमानो न तु पारमार्थिकोऽस्ति । यथा च स्वदेहगतदाहच्छेदादिनिमित्तं दुःखं तदभिमानभ्रान्त्यैवानुभवति तथा पुत्रमित्रादिगोचरमपि दुःखं तदभिमानभ्रान्त्यैवानुभवत्यहमेव पुत्रोऽहमेव मित्रमित्येवं स्नेहवशेन पुत्रमित्रादिष्वभिनिविशमानः । ततश्च निश्चितमेतदवगम्यते—मिथ्याभिमानभ्रमनिमित्त एव दुःखानुभवइति । व्यतिरेकदर्शनाच्चैवमवगम्यते । तथाहि—पुत्रमित्रादिमत्सु बहुपूपविष्टेषु तत्सम्बन्धाभिमानिष्वितरेषु च पुत्रो मृतो मित्रं मृतमित्येवमाद्युद्धोषिते येषामेव पुत्रमित्रादिमत्त्वाभिमानस्तेषामेव तन्निमित्तं दुःखमुत्पद्यते नाभिमानहीनानां परित्राजकादीनाम् । अतश्च लौकिकस्यापि पुंसः सम्यग्दर्शनार्थवत्त्वं दृष्टं, किमुत विषयशून्यादात्मनोऽन्यद्वस्त्वन्तरमपश्यतो नित्यचैतन्यमात्रस्वरूपस्येति । तस्मान्नास्ति सम्यग्दर्शनार्थक्यप्रसङ्गः । प्रकाशादिवदिति निदर्शनोपन्यासः । यथा प्रकाशः सौरश्चान्द्रमसो वा वियद्व्याप्यावतिप्रमानोऽङ्गुल्याद्युपाधिसम्बन्धात्तेष्वृजुवक्रादिभावं प्रतिपद्यमानेषु तत्तद्भावमिव प्रतिपद्यमानोऽपि न परमार्थतस्तद्भावं प्रतिपद्यते । यथा चाकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानोऽपि न परमार्थतो गच्छति, यथा चोदारावादिक्म्पनात्तद्गते सूर्यप्रतिबिम्बे कम्पमानेषु न तद्धान्सूर्यः कम्पते, एवमविद्याप्रत्युपस्थापिते बुद्ध्याद्युपहिते जीवाख्येऽशो दुःखायमानेऽपि न तद्वानीश्वरो दुःखायते । जीवस्यापि तु दुःखप्राप्तिरविद्यानिमित्तैवेत्युक्तम् । तथा चाविद्यानिमित्तजीवभावव्युदासेन ब्रह्मभावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः 'तत्त्वमसि' इत्येवमादयः, तस्मान्नास्ति जैवेन दुःखेन परमात्मनो दुःखित्वप्रसङ्गः ॥ ४६ ॥

जैसे जीव संसार दुःख का अनुभव करता है, इस प्रकार पर-ईश्वर नहीं अनुभव करता है । यह प्रतिज्ञा करते हैं । जिससे अविद्या के आवेश के वश से देहादि में आत्मभाव के समान प्राप्त होकर, अविद्या कर्मादिवश देहादि में आत्मता के अभिमान, मोह, ममतादि करके, उस देहकृत दुःख से मैं दुःखी हूँ ऐसा अभिमान करके अविद्या से कृत दुःख के उपभोग को जीव मानता है—समझता है । ईश्वर को इस प्रकार देहादि में आत्मभाव वा दुःख का अभिमान नहीं है । जीव को भी अविद्याकृत नामरूप से निर्वृत्त ( सिद्ध ) देह इन्द्रिय आदि रूप उपाधि के अविवेकजन्य-भ्रमनिमित्तक ही दुःखाभिमान है, पारमार्थिक नहीं है, और जैसे स्वदेहगत दाह-छेदनादिनिमित्तक

दुःख का उस देह में अभिमानरूप भ्रान्ति से ही अनुभव करता है, इसी प्रकार पुत्र-मित्रादिगत दुःख को भी उनमें अभिमानरूप भ्रान्ति से ही अनुभव करता है, कि मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही मित्र हूँ इस प्रकार स्नेहवश से पुत्र-मित्र में अभिनिवेश ( अभिमान ) करता हुआ दुःख का अनुभव करता है, उनके दुःखों से स्वयं भी दुःखी होता है । इससे यह निश्चित समझा जाता है कि मिथ्याअभिमान भ्रमनिमित्तक ही दुःखानुभव होता है । अभिमान भ्रान्ति के व्यतिरेक ( अभाव ) रहते दुःख के व्यतिरेक ( अभाव ) देखने से भी ऐसा समझा जाता है कि अभिमान भ्रममूलक दुःख है । जिससे जहाँ बहुत पुत्र-मित्रादि वाले बैठे हों, कि जिनमें उन पुत्र-मित्रादि के सम्बन्ध के अभिमानी भी हों । उनसे इतर अभिमानशून्य लोग भी बैठे हों, वहाँ यदि कोई उद्घोषणा करे— कहे कि पुत्र मर गया, मित्र मर गया, तो ऐसी उद्घोषणा होने पर, जिनको पुत्र-मित्रादिमत्त्व का अभिमान रहता है, उनको ही उस मरण-श्रवणनिमित्तक, दुःख होता है, अभिमानरहित संन्यासी आदि को दुःख नहीं होता है । इससे लौकिक ( तन्वज्ज्ञान शून्य ) पुरुष के भी सम्यग्दर्शन ( विवेकज्ञान ) की अर्थवत्ता देखी गई है, फिर विषयशून्य ( अविषयस्वरूप ) आत्मा से अन्य वस्त्वन्तर को नहीं देखते हुए नित्य चैतन्यमात्र स्वरूप के सम्यग्दर्शन की अर्थवत्ता में तो वक्तव्य ही क्या है । इससे सम्यग्दर्शन में अनर्थकता की प्राप्ति नहीं है । प्रकाशादिबत्, यह सूत्र में निदर्शन ( दृष्टान्त ) का कथन है । कि जैसे सूर्य वा चन्द्रमा का प्रकाश आकाश को ध्यात करके स्थिर होता हुआ भी अङ्गुली आदि उपाधियों के सम्बन्ध से उनके ऋजु-वक्रादि भाव के प्राप्त होने पर, वह प्रकाश भी तत्त्व भाव को प्राप्त होता हुआ के समान होने पर भी परमार्थ से तत्त्व ऋजु-वक्रादि भाव को नहीं प्राप्त होता है । जैसे घटादि के चलने पर तद्गत आकाश भी चलता हुआ के समान प्रतीत होने पर भी परमार्थ से नहीं चलता है । जैसे उदकयुक्त शरावादि के काँपने से तद्गत सूर्य के प्रतिबिम्ब के काँपने पर भी उस प्रतिबिम्ब वाला सूर्य नहीं काँपता है । इसी प्रकार अविद्या से प्रत्युपस्थापित ( प्राप्त ) बुद्धि आदि उपाधि वाला जीवनामक अंश के दुःखी होने पर भी उस अंशवाला ईश्वर दुःखी नहीं होता है । अर्थात् जीव में स्वदुःख का अनुभव होने पर भी ईश्वर अपने दुःख का अनुभव नहीं करता है । वस्तुतः जीव को भी दुःख की प्राप्ति अविद्या-निमित्तक ही है, यह कहा जा चुका है, ऐसा होने ही से ( तत्त्वमसि ) इत्यादि वेदान्त अविद्यानिमित्तक जीव भाव के व्युदास ( निषेध ) द्वारा जीव के ब्रह्मभावका ही प्रतिपादन करते हैं । इससे जीवसम्बन्धी दुःख से परमात्मा को दुःखित्व प्रसंग नहीं है ॥ ४६ ॥

### स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥

स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जैवेन दुःखेन न परमात्मा दुःखायत इति ।  
 तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः ।  
 न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाग्भसा ॥

कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धैः स युज्यते ।  
स समदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः ॥ इति ।

चशब्दात्समामनन्ति चेति वाक्यशेषः । 'तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' ( श्वे० ४।६ ) इति । 'एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः' ( कठ० ५।११ ) इति च ।

जिस प्रकार जीव के दुःख से परमात्मा निजदुःख का अनुभव नहीं करता है, वह व्यासादि स्मरण करते हैं कि ( उस जीव और परमात्मा में जो परमात्मा है, वह नित्य निर्गुण कहा गया है । वह कर्मफलो से लिप्त नहीं होता है, जैसे कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता है । उससे अन्य जो वह कर्मात्मा कर्माश्रय जीव है, वह मोक्ष और बन्धनो से युक्त होता है । वही एकादश इन्द्रिय पाँच प्राण, मन और बुद्धि रूप सप्तदश के राशि ( समूह ) से भी युक्त होता है । सूत्र में च शब्द से ( समामनन्ति ) श्रुतियाँ कहती हैं । ऐसा वाक्य शेष समझना चाहिये । जीव ईश्वर दोनों में से अन्य एक जीव स्वादु कर्मफल को भोगता है । एक ईश्वर भोगे बिना प्रकाश करता है । जैसे मूर्य प्रकाश्य दोषो से लिप्त नहीं होता है । इसी प्रकार सब भूत का एक अन्तरात्मा लोको के दुःखो से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह सबसे बाह्य असंग है ।

अत्राह—यदि तर्ह्येक एव सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा स्यात्कथमनुज्ञापरिहारो स्यानां लौकिकौ वैदिकौ चेति । ननु चांशो जीव ईश्वरस्येत्युक्तम्, तद्भेदाच्चानुज्ञापरिहारौ तदाश्रयावव्यतिकीर्णानुपपद्येते किमत्र चोद्यत इति । उच्यते—नैतदेवम् । अनंशत्वमपि हि जीवस्याभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति—'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' ( तै० २।६।१ ), 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' ( बृ० ३।७।२३ ), 'मृत्याः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' ( बृ० ४।४।१६ ), 'तत्त्वमसि' ( छ० ६।।७ ) 'अहं ब्रह्मास्मि' ( बृ० १।४।१० ) इत्येवंजातीयकाः । ननु भेदाभेदावगमाभ्यामंशत्वं सिद्धयतीत्युक्तम् । स्यादेतदेवं यद्युभावपि भेदाभेदौ प्रतिपिपादयिषितौ स्याताम्, अभेद एव त्वत्र प्रतिपिपादयिषितो ब्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तौ पुरुषार्थसिद्धेः । स्वभावप्राप्तस्तु भेदोऽनूद्यते । न च निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्यांशा जीवः संभवतीत्युक्तम् । तस्मात्पर एवैकः सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा जीवभावेनावस्थित इत्यतो वक्तव्याऽनुज्ञापरिहारोपपत्तिः ॥ ४७ ॥

यहाँ प्रतिवादी कहता है कि यदि सब प्राणी का अन्तरात्मा एक ही हो, तो लौकिक और वैदिक अनुज्ञा ( स्वीकृति विधि ) और परिहार ( त्याग ) कैसे हो सकते हैं । यदि कहा जाय कि जीव ईश्वर का अंश है । यह कहा जा चुका है, उस अंश के भेद से उसके आश्रित अव्यतिकीर्ण ( साकर्य रहित ) अनुज्ञा और परिहार होंगे । यहाँ संशय क्या किया जा सकता है । तो कहा जाता है कि यह इस प्रकार नहीं सिद्ध हो

सकता है। जिससे जीव और ईश्वर का अभेद को कहने वाली श्रुतियाँ ईश्वर के अनशत्व (अंशभिन्नत्व) का भी प्रतिपादन करती हैं कि (वह ब्रह्मात्मा उस जगत को रचकर उसमें प्रवेश किया। उससे अन्य द्रष्टा नहीं है। वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो इस में नाना के समान देखता है। तुम उस ब्रह्मस्वरूप हो। मैं ब्रह्म हूँ) इस प्रकार की श्रुतियाँ अनशत्व का प्रतिपादन करती हैं। यदि कहा जाय कि भेद और अभेद के अवगम से अंशत्व की सिद्धि होती है, यह कहा जा चुका है। वहाँ कहा जाता है कि यह इस प्रकार हो सकता कि यदि भेद और अभेद दोनों प्रतिपादन की इच्छा के विषय होते। परन्तु यहाँ तो ब्राह्मात्मत्व के ज्ञान होने पर पुरुषार्थ ( मोक्ष ) की सिद्धि से अभेद ही प्रतिपादन की इच्छा का विषय है, निर्गुण एकात्मा में अविद्या रूप स्वभाव से प्राप्त भेद का तो श्रुति से अनुवाद किया जाता है। निरवयव निर्गुण ब्रह्म का मुख्य अंश ही नहीं सकता है। उससे सब भूतों के अन्तरात्मा स्वरूप एक परमात्मा ही जीवरूप से अवस्थित वर्तमान है। इससे अनुज्ञा और परिहार की उपपत्ति ( सिद्धि ) वक्तव्य है ॥ ४७ ॥

तां ब्रूमः—

**अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत् ॥ ४८ ॥**

‘ऋतौ भार्यामुपेयात्’ इत्यनुज्ञा। ‘गुर्वङ्गनां नोपगच्छेत्’ इति परिहारः। तथा ‘अग्नीपोमीयं पशु संज्ञपयेत्’ इत्यनुज्ञा। ‘मा हिंस्यात्मर्वा भूतानि’ इति परिहारः। एवं लोकेऽपि ‘मित्रमुपसेवितव्यमि’त्यनुज्ञा। ‘शत्रुः परिहर्तव्य’ इति परिहारः। एवं प्रकारवानुज्ञापरिहारावेकत्वेऽप्यात्मनो देहसम्बन्धात्स्याताम्। देहैः सम्बन्धो देहसम्बन्धः। कः पुनर्देहसम्बन्धः? देहादिरयं संघातोऽहमेवेत्यात्मनि विपरीतप्रत्ययोत्पत्तिः। दृष्टा च सा सर्वप्राणिनामहं गच्छाम्यहमागच्छाम्यहमन्धोऽहमन्धोऽहं मूढोऽहममूढ इतीत्येवमात्मिका। नह्यस्याः सम्यग्दर्शनादन्यत्रिवारकमस्ति। प्राक्तु सम्यग्दर्शनात्प्रततैपा भ्रान्तिः सर्वजन्तुषु। तदेवमविद्यानिमित्तेदेहाद्युपाधिसम्बन्धकृताद्विशेषादेकात्म्याभ्युपगमेऽप्यनुज्ञापरिहारावकल्पयेत्। सम्यग्दर्शिनस्तर्ह्यनुज्ञापरिहारानर्थक्यं प्राप्तम्। न। तस्य कृतार्थत्वान्नियोज्यत्वानुपपत्तेः। हेयोपादेययोर्हि नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात्। आत्मनस्त्वतिरिक्तं हेयमुपादेयं वा वस्त्वपश्यन्कथं नियुज्येत। न चात्मात्मन्येव नियोज्यः स्यात्। शरीरव्यतिरेकदर्शिन एव नियोज्यत्वमिति चेत्। न। तत्संहतत्वाभिमानात्। सत्यं व्यतिरेकदर्शिनो नियोज्यत्वं तथापि व्योमादिवहेताद्यसंहतत्वमपश्यत एवात्मनो नियोज्यत्वाभिमानः। नहि देहाद्यसंहतत्वदर्शिनः कस्यचिदपि नियोगो दृष्टः। किमुतैकात्म्यदर्शिनः। न च नियोगाभावात्सम्यग्दर्शिनो यथेष्टचेष्टाप्रसङ्गः। सर्वत्राभिमानस्यैव प्रवर्तकत्वाद्भिमानाभावाच्च सम्यग्दर्शिनः। तस्माद्देहसम्बन्धादेवानुज्ञापरिहारौ। ज्योतिरा-

दिवत् । यथा ज्योतिष एकत्वेऽप्यग्निः क्रव्यात्परिह्रियते नेतरः । यथा च प्रकाश एकस्यापि सवितुरमेध्यदेशसम्बद्धः परिह्रियते नेतरः शुचिभूमिष्ठः । यथा भौमाः प्रदेशा वज्रवैडूर्यादय उपादीयन्ते, भौमा अपि सन्तो नरकलेवरादयः परिह्रियन्ते । यथा मूत्रपुरीषं गवां पवित्रतया परिगृह्यते, तदेव जात्यन्तरे परिवर्ज्यते तद्वत् ॥ ४८ ॥

उस उपपत्ति को कहते हैं कि—

ऋतुकाल मे स्वभार्या के प्रति गमन करे । यह अनुज्ञा है ( गुरुभार्या के प्रति गमन नहीं करे ) यह परिहार है ( अग्नि सोम देवता को पशु का सज्ञयन देवार्पण करे ) यह अनुज्ञा है । ( सब प्राणी की हिंसा को त्यागे ) यह परिहार है । इसी प्रकार लोक मे भी ( मित्र उपसेवन योग्य है ) यह अनुज्ञा है ( शत्रु त्याग योग्य है ) यह परिहार है । इस प्रकार के अनुज्ञा और परिहार आत्मा के एकत्व होते भी देह सम्बन्ध से हो सकते हैं । देहो के साथ सम्बन्ध देह सम्बन्ध है । परन्तु कूटस्थ परिणाम रहित नित्य आत्मा का देह के साथ सयोग समवायादि सम्बन्ध हो नहीं सकता । इससे प्रश्न होता है कि आत्मा को देहो के साथ सम्बन्ध क्या है । उत्तर है कि सत्य सम्बन्ध कोई नहीं है किन्तु देहादिरूप यह सघात मैं ही हूँ इस प्रकार की आत्मविषयक विपरीतज्ञान की उत्पत्ति ही सम्बन्ध है । अर्थात् इस बुद्धि का विषय कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध देहो के साथ आत्मा का है । वह प्रतीति, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं अन्ध हूँ, मैं अनन्ध हूँ, मैं मूढ हूँ, मैं अमूढ हूँ, इत्यादि रूप से सब प्राणियों की देखी गई है । अर्थात् शरीर के गमनादि का इन्द्रिय के अन्धत्वादि का बुद्धि के मूढत्वादि का आत्मा में भ्रमादि मूलक सम्बन्ध सब प्राणी मे भासते हैं । सम्यग् दर्शन से अन्य इस भ्रान्ति का निवारक कोई नहीं है, इसीसे तो यह भ्रान्ति सम्यग् दर्शन से पूर्वकाल मे सब प्राणियों में प्रतत ( संतत ) रहती है । इससे एकात्मता के स्वीकार करने पर भी इस प्रकार अविद्या-निमित्तक देहादि उपाधि के सम्बन्धकृत विशेष ( भेद ) से अनुज्ञा और परिहार सिद्ध होते हैं । शंका होती है कि अज्ञान जन्य देह सम्बन्धकृत अनुज्ञा परिहार हैं तो सम्यग्दर्शीज्ञानी के प्रति अनुज्ञापरिहार अनर्थक प्राप्त ( सिद्ध ) होते हैं । तो कहा जाता है कि यह दोष नहीं है, ज्ञानी के लिये अनुज्ञा परिहार को अनर्थक होना इष्ट ही है कृतार्थ होने से उस ज्ञानी को नियोज्यत्व ( विधिनिषेध विषयत्व ) अनुपपन्न है । जिससे हेय वा उपादेय वस्तु में ही नियोज्य ( दास-भृत्स्य ) भी नियोक्तव्य ( आज्ञा का विषय होता है ) तो आत्मा से भिन्न हेय वा उपादेय वस्तु को नहीं देखने वाला अद्वैतात्मा को देखता हुआ कैसे नियोज्य ( प्रेर्य ) होगा । आत्मा ही मे नियोज्य हो, ऐसा नहीं हो सकता है । जिससे भिन्न हेय उपादेय विषयक ही प्रवृत्ति के लिए नियोक्ता से नियोज्य प्रेरित होता है । यदि कही कि शरीर से भिन्न आत्मदर्शी विवेकी को ही पारलौकिक फलार्थक कर्मों मे नियोज्यत्व होता है । इसी प्रकार आत्मज्ञ को भी नियोज्य होना चाहिये, तो

वह कहना ठीक नहीं, क्योंकि कर्म में नियोज्य पुरुष शरीर में भिन्न आत्मा को परोक्ष रूप से जानता है, और इस देहादि सहतत्त्व का अभिमान दसीमें उसको बना रहता है, कि जिससे वर्णाश्रमादि के अभिमान पूर्वक वह कर्मों में प्रवृत्त होता है। इससे व्यतिरेक ( शरीर से आत्मा का भेद ) दर्शी को नियोज्यत्व यद्यपि सत्य है। तथापि आकाश के समान देहादि से असंहत ( असंग ) आत्मा को नहीं जानने वाला देहाभिमानी भ्रान्त को ही आत्मा के नियोज्यत्व का अभिमान होता है। क्योंकि परोक्ष व्यतिरेक ज्ञान अपरोक्ष भ्रम का निवारण नहीं करता है। देहादि असहतत्वदर्शी ( सहतत्वदर्शन रहित-भेदबुद्धिरहित सुषुप्त ) किसी का भी नियोग नहीं देखा गया है। फिर एकात्मतादर्शी के अनियोग में कहना ही क्या है ? नियोग ( विधि ) के अभाव होने से सम्यग्दर्शी को यथेष्टाचार प्राप्त होगा, ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिये, क्योंकि अभिमान के ही सर्वत्र प्रवर्तक होने से और सम्यग्दर्शी को अभिमान के अभाव में यथेष्टाचार में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, किन्तु ज्ञानार्थक अम्यस्त विरागादि से रागादि रहित ज्ञानी की प्रारब्धानुसारसंग आसक्ति रहित प्रवृत्ति होती है, आसक्ति आदि में अज्ञ का यथेष्टाचार होता है। इससे देह सम्बन्ध से ही अनुज्ञा और परिहार ज्योति आदि के समान होता है। जैति ( तेज ) के एक होते भी ऋग्याद ( मासाक्षी ) इमशानाग्नि को त्यागा जाता है। अन्य को नहीं। एक ही सूर्य का अपवित्र देश सम्बन्धी प्रकाश त्यागा जाता है। शुचिभूमि में वर्तमान अन्य नहीं। जैसे भूमि के ही अवयव हीरा वैदूर्यमणि आदि गृहीत होते हैं, भूमि के अवयव होते भी मृतमानव देहादि नहीं गृहीत होते हैं। उल्टे त्यागे जाते हैं। जैसे गौ के मूत्रपुरीष पवित्रता से परिगृहीत होने हैं, अन्य जाति में बही त्यागे जाते हैं, इसी प्रकार यहा भी समझना चाहिये ॥ ४८ ॥

### असन्ततेश्चाव्यतिकरः ॥ ४९ ॥

स्यातां नामानुज्ञापरिहारावेकस्याप्यात्मनो देहविशेषयोगात् । यस्त्वयं कर्मफलसम्बन्धः स चैकाल्म्याभ्युपगमे व्यतिकीर्येत स्वाम्येकत्वादिनि चेत् । नैतदेवम् । असन्ततः । नहि कर्तुर्भोक्तुश्चात्मनः सन्ततः सर्वैः शरीरैः सम्बन्धोऽस्ति । उपाधितन्त्रो हि जीव इत्युक्तम् । उपाध्यसन्तानाच्च नास्ति जीवसन्तानः । ततश्च कर्मव्यतिकरः फलव्यतिकरो वा न भविष्यति ॥ ४९ ॥

शका होती है कि देहविशेष के योग ( सम्बन्ध ) से, आत्मा के एक होते भी उस सम्बन्ध के भेद से ही अनुज्ञा परिहार हो सकते हैं, स्थूलदेह के धर्मों का आत्मा में अध्यास से विधि निषेध का विषय आत्मा भास सकता है। तो भी जो यह कर्मफल का सम्बन्ध रूप भोग है, वह आत्मा के एक होने पर व्यतिकीर्ण ( संकीर्ण ) हो जायगा, क्योंकि स्वामी रूप शरीर आदि से अविशिष्ट आत्मा एक है, उसीको भोग होना है। इससे भोक्ता आत्मा का भेद मानना चाहिये। ऐसी शका होने पर कहते हैं, कि सर्वथा शुद्धात्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, स्थूल से मिश्र सूक्ष्म बुद्धि आदि विशिष्ट ही आत्मा कर्ता



भोक्ता है, और उस आत्मा की असन्तति ( सब शरीर मे अव्याप्ति ) से प्रत्येक शरीर मे भिन्नता से इस प्रकार का यह भोग का साकर्य रूप दोष नहीं है । कर्ता भोक्ता आत्मा का सब शरीरो के साथ सन्तत ( नित्य-निरन्तर ) सम्बन्ध नहीं है । जिससे उपाधि के अधीन कर्ता भोक्ता जीव है, यह कहा जा चुका है । उपाधि के असन्तान ( असन्तति विच्छेद ) से सर्वत्र जीव का संतान ( सम्बन्ध ) नहीं है । उससे कर्म का व्यतिकर वा फल का व्यतिकर ( साकर्य ) नहीं होगा ॥ ४९ ॥

### आभास एव च ॥ ५० ॥

आभास एव चैव जीवः परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवत्प्रतिपत्तव्यः । न स एव साक्षात् । नापि वस्त्वन्तरम् । अतश्च यथा नैकस्मिञ्जलसूर्यके कम्पमाने जलसूर्यकान्तरं कम्पते, एवं नैकस्मिञ्जीवे कर्मफलसम्बन्धिनि जीवान्तरस्य तत्संबन्धः । एवमप्यव्यतिकर एव कर्मफलयोः । आभासस्य चाविद्याकृतत्वात्तदाश्रयस्य संसारस्याविद्याकृतत्वोपपत्तिरिति, तद्व्युदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्मभावस्योपदेशोपपत्तिः । येषां तु बहव आत्मानस्ते च सर्वे सर्वगतास्ते-पामेवैव व्यतिकरः प्राप्नोति । कथम् ? बहवो विभवश्चात्मानश्चैतन्यमात्रस्वरूपा निर्गुणा निरतिशयाश्च तदर्थं साधारणं प्रधानं तन्निमित्तेषां भोगापवर्गसिद्धिरिति सांख्याः । सति बहुत्वे विभुत्वे च घटकुड्यादिसमाना द्रव्यमात्रस्वरूपाः स्वतोऽचेतना आत्मानस्तदुपकरणानि चाणूनि मनांस्यचेतनानि । तत्रात्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां च संयोगान्नवेच्छादयो वैशेषिका आत्मगुणा उत्पद्यन्ते । ते चाव्यतिकरेण प्रत्येकमात्मसु समवयन्ति स संसारः । तेषां नवानामात्मगुणानामत्यन्तानुत्पादो मोक्ष इति काणादाः । तत्र सांख्यानां तावच्चैतन्यस्वरूपत्वात्सर्वात्मनां संनिधानाद्यविशेषाच्चैकस्य सुखदुःखसम्बन्धे सर्वेषां सुखदुःखसंबन्धः प्राप्नोति । स्यादेतत् । प्रधानप्रवृत्तेः पुरुषकैवल्यार्थत्वाद् व्यवस्था भविष्यति । अन्यथा हि स्वविभूतिख्यापनार्था प्रधानप्रवृत्तिः स्यात् । तथा चानिमोक्षः प्रसज्येतेति । नैतत्सारम् । नह्यभिलषितसिद्धिनिबन्धना व्यवस्था शक्या विज्ञातुम्, उपपत्त्या तु कयाचिद् व्यवस्थोच्येत । असत्यां पुनरुपपत्तौ कामं मा भूद्भिलषितं पुरुषकैवल्यं, प्राप्नोति तु व्यवस्थाहेत्वभावाद् व्यतिकरः । काणादानामपि यदैकेनात्मना मनः संयुज्यते तदात्मान्तरैरपि नान्तरीयकः संयोगः स्यात्संनिधानाद्यविशेषात् । ततश्च हेत्वविशेषात्फलाविशेष इत्येकस्यात्मनः सुखदुःखयोगे सर्वात्मनामपि समानं सुखदुःखित्वं प्रसज्येत ॥ ५० ॥

वस्तुतः ( रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ) इत्यादि श्रुति के अनुसार जलगत सूर्य के प्रतिबिम्बादि के समान परमात्मा का बुद्धि आदि मे आभास ( दीप्ति परमात्मा की

अभिव्यक्ति ) रूप प्रतिबिम्ब ही जीव समझने योग्य है । अनुपहित साक्षात् वह परमात्मा ही व्यावहारिक जीव नहीं है । न सर्वथा उससे भिन्न वस्त्वन्तर रूप जीव है । इससे जैसे एक जलगत सूर्य के प्रतिबिम्ब के कापने से, दूसरा जलगत सूर्य का प्रतिबिम्ब नहीं कापता है, इसी प्रकार एक जीव के कर्मफल सम्बन्धी होने से अन्य जीव को उसी फल का सम्बन्ध नहीं होता है । इस प्रकार भी कर्म और फल का अव्यतिकर ही है । आभास के अविद्याकृत ( औपाधिक ) होने से तदाश्रित संसार को भी अविद्याकृतत्व की उपपत्ति ( सिद्धि ) है । इसमें उस अविद्या के निषेध द्वारा पारमार्थिक ब्रह्मात्मभाव का उपदेश की उपपत्ति होती है । जिनके मत में बहुत आत्मा है । सब आत्मा सर्वगत है । उनके ही मत में यह कर्म और फल का व्यतिकर प्राप्त होता है । क्योंकि विभु-चैतन्यमात्र स्वरूप वाले निर्गुण निरतिशय बहुत आत्माएँ हैं । उन सब के लिए प्रधान साधारण है । उस प्रधान निमित्तक ही उन आत्मा के भोग और अपवर्ण की सिद्धि होती है । इस प्रकार साख्यवादी मानते हैं । बहुत्व विभुत्व के होते भी घट कुड्य आदि के समान ( जड ) द्रव्यमात्र स्वरूप वाले स्वनः ( स्वरूप से ) अचेतन आत्माएँ हैं । उनके उपकरण ( साधन ) अणुस्वरूप अचेतन मन हैं । वहाँ आत्मस्वरूप द्रव्यों के और मन स्वरूप द्रव्यों के संयोग से, इच्छा, बुद्धि, सुख, दुःख, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना ( संस्कार ) रूप नवसख्यक इच्छादि आत्मा के विशेष ( असाधारण ) गुण उत्पन्न होते हैं, और वे गुण अव्यतिकर ( असाकर्ष्य ) पूर्वक प्रत्येक आत्माओं में सयवाय सम्बन्ध से रहते हैं, वही संस्कार है । उन नवो आत्मगुणों की अत्यन्त अनुत्पत्ति मोक्ष है । इस प्रकार कणादऋषि के अनुयायी कहते हैं । तहाँ प्रथम सांख्यो के मत में सब आत्माओं के चैतन्य स्वरूपत्व से और सन्निधानादि के अविशेष से एक के सुख-दुःख सम्बन्ध होने पर सबको सुख-दुःख का सम्बन्ध प्राप्त होता है । साख्यवादी शंका करते हैं कि यह पुरुषों को प्रधानादि के साथ सान्निध्य आदि के अविशेष हो, तो भी प्रधान की प्रवृत्ति के पुरुष के कैवल्यार्थक होने से व्यवस्था होगी । अर्थात् प्रधान ही नियम पूर्वक तत्तत् पुरुषों को भोग देकर मुक्त करेगी इससे व्यतिकर नहीं होगा । अन्यथा ( ऐसा नियम नहीं करने पर ) अपनी विभूति के ख्यापनार्थक प्रधान की प्रवृत्ति सिद्ध होगी, और इस प्रकार अनिमोक्ष की प्राप्ति होगी । परन्तु यह सांख्यो का कथन सार ( सत्य ) नहीं है । क्योंकि जड प्रधान की अचेतनता आदि होते भी अपने अभिलषित की सिद्धि निमित्तक व्यवस्था नहीं समझी जा सकती है, किसी उपपत्ति ( युक्ति ) से तो कहना चाहिये, और कही जा सकती है । उपपत्ति के नहीं रहने पर अभिलषित पुरुष का कैवल्य यथेष्ट नहीं हो सकता है । व्यवस्था के हेतु के अभाव से व्यतिकर भी प्राप्त होता है । काणादों के मत में भी जब एक आत्मा के साथ एक मन संयुक्त होता है, तब आत्मान्तरो के साथ भी उस मन का नान्तरियक ( अवश्य ) संयोग होगा । क्योंकि सन्निधानादि सब के साथ तुल्य है । इससे मन के संयोग रूप हेतु के अविशेष होने से सुख-दुःखादि रूप फल भी सब आत्माओं को अविशेष ( तुल्य ) ही होगा । इस

प्रकार एक आत्मा के साथ सुख-दुःख के योग ( सम्बन्ध ) होने पर सब आत्माओ को भी तुल्य ही सुखित्व दुःखित्व प्राप्त होगा ॥ ५० ॥

स्यादेतत् , अदृष्टनिमित्तो नियमो भविष्यतीति, नेत्याह—

शङ्का होती है कि यह मन का संयोग सर्वात्म साधारण हो, परन्तु अदृष्ट निमित्तक सुख दुःखादि का नियम होगा । वहाँ कहते हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि—

### अदृष्टानियमात् ॥ ५१ ॥

बहुष्वात्मस्वाकाशवत्सर्वगतेषु प्रतिशरीरं बाह्याभ्यन्तराविशेषेण संनिहितेषु मनोवाक्कायैर्धर्माधर्मलक्षणमदृष्टमुपावर्ज्यते । सांख्यानां तावत्तदनात्मसमवायि-प्रधानवर्तिप्रधानसाधारण्यान्न प्रत्यात्मं सुखदुःखोपभोगस्य नियामकमुपपद्यते । काणादानामपि पूर्ववत्साधारणेनात्ममनःसंयोगेन निर्वर्तितस्यादृष्टस्याप्यस्यैवात्मन इदमदृष्टमिति नियमे हेत्वभावादेव एव दोषः ॥ ५१ ॥

आकाश के सम सर्वगत बहुत आत्माओ के प्रत्येक शरीर मे बाहर भीतर भेद के बिना तुल्य रूप से सन्निहित (सबद्ध) रहते मन वाक और शरीर द्वारा अदृष्ट (धर्माधर्म) उपाजित होता है । धर्माधर्म स्वरूप अदृष्ट सब आत्माओ की तुल्य वर्तमानता रहते ही उपाजित किया जाता है । सांख्यो के मत मे वह अदृष्ट आत्मा मे समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता है, इससे अनात्मा मे समवायि है । अर्थात् प्रधान के कार्य रूप बुद्धि मे वर्तमान होने से वह अदृष्ट प्रधानवर्ति ( प्रधान मे रहने वाला ) होता है । प्रधान की सब आत्माओ के प्रति साधारणता से प्रत्येक आत्माओ के सुख-दुःख के उपभोग का वह नियामक नहीं उपपन्न हो सकता है । काणादो के मत मे भी पूर्ववर्णित मन का संयोग के समान साधारण आत्मा और मन के संयोग से सिद्ध अदृष्ट के विषय में भी यह इसी आत्मा का अदृष्ट है इस प्रकार के नियम मे हेतु के अभाव से व्यवस्था का अभाव रूप यह दोष है ही ॥ ५१ ॥

स्यादेतत् , अहमिदं फलं प्राप्नवानीदं परिहरेणीत्थं प्रयते इत्थं करवाणी-त्येवंविधा अभिसंख्यादयः प्रत्यात्मं प्रवर्तमाना अदृष्टस्यात्मनां च स्वस्वाभि-भावं नियंस्यन्तीति, नेत्याह—

शंका होती है कि यह अदृष्ट साधारण हो, परन्तु रागद्वेषादि से नियम होगा, क्योंकि मैं इस फल को प्राप्त करूंगा ! इस अनिष्ट का परिहार त्याग नाश करूंगा । ( इत्थं प्रयते ) इस प्रकार प्रयत्न करूंगा, इस प्रकार करूंगा । इस प्रकार के जो अभि-सन्धि ( चिन्तन संकल्प ) आदि प्रत्येक आत्मा मे वर्तमान हैं, वे ही अदृष्ट आत्माओ के स्वस्वामीभाव का नियम करेंगे । वहाँ कहते हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि—

## अभिसन्ध्यादिवपि चैवम् ॥ ५२ ॥

अभिसन्ध्यादीनामपि साधारणेनैवात्ममनःसंयोगेन सर्वात्मसंनिधौ क्रिय-  
माणानां नियमहेतुत्वानुपपत्तेरुक्तदोषानुपपन्न एव ॥ ५२ ॥

साधारण आत्ममनःसंयोग मे ही सब आत्माओ के सबिधि मे किये गये अभिमन्धि  
आदि को भी नियम हेतुत्व की अनुपपत्ति से उक्त अनियम रूप दोष का अनुपपन्न  
( सम्बन्ध ) है ही ॥ ५२ ॥

## प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात् ॥ ५३ ॥

अथोच्येत—विभुत्वेऽप्यात्मनः शरीरप्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीराव-  
च्छिन्न एवात्मप्रदेशो भविष्यति, अतः प्रदेशकृता व्यवस्थाऽभिसंध्यादीनाम-  
दृश्य सुखदुःखयोश्च भविष्यतीति । तदपि नोपपद्यते । कस्मात् ? अन्तर्भावान्  
विभुत्वाविशेषाद्धि सर्व एवात्मानः सर्वशरीरेष्वन्तर्भवन्ति । तत्र न वैशेषिकैः  
शरीरावच्छिन्नोऽप्यात्मनः प्रदेशः कल्पयितुं शक्यः । कल्प्यमानोऽप्यय निष्प्रदेश-  
स्यात्मनः प्रदेशः कल्पनिकत्वादेव न पारमार्थिकं कार्यं नियन्तुं शक्नोति ।  
शरीरमपि सर्वात्मसंनिधानुत्पद्यमानमस्यैवात्मनो नेतरेपामिति न नियन्तुं  
शक्यम् । प्रदेशविशेषाभ्युपगमेऽपि च द्वयोरात्मनोः समानसुखदुःखभाजोः  
कदाचिदेकेनैव तावच्छरीरेणोपभोगसिद्धिः स्यात् । समानप्रदेशस्यापि द्वयो-  
रात्मनोरदृश्य सम्भवात् । तथाहि—देवदत्तो यस्मिन्प्रदेशे सुखःदुःखमन्वभूत्त-  
स्मात्प्रदेशादपक्रान्ते तच्छरीरे यज्ञदत्तशरीरे च तं प्रदेशमनुप्राप्ते तस्यापीतरेण  
समानः सुखदुःखानुभवो दृश्यते स न स्याद्यदि देवदत्तयज्ञदत्तयोः समान-  
प्रदेशमदृष्टं न स्यात् । स्वर्गाद्यनुपभोगप्रसङ्गश्च प्रदेशावदिनः स्यात् । ब्राह्मणा-  
दिशरीरप्रदेशेष्वदृष्टनिष्पत्तेः प्रदेशान्तरवर्तित्वाच्च स्वर्गाद्युपभोगस्य । सर्वगतत्वा-  
नुपपत्तिश्च बहूनामात्मनां, दृष्टान्ताभावात् । वद तावत्त्वं के बहवः समानप्रदेशा-  
श्चेति । रूपादय इति चेत् । न । तेषामपि धर्म्यशेनाभेदाल्लक्षणभेदाच्च । न तु  
बहूनामात्मनां लक्षणभेदोऽस्ति । अन्त्यविशेषवशाद् भेदोपपत्तिरिति चेत् ।  
न । भेदकल्पनाया अन्त्यविशेषकल्पनायाश्चेतरेतराश्रयत्वात् । आकाशादीना-  
मपि विभुत्वं ब्रह्मवादिनोऽसिद्धं कार्यत्वाभ्युपगमात् । तस्मादात्मैकत्वपक्ष एव  
सर्वदोषाभाव इति सिद्धम् ॥ ५३ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादकृतौ श्रीशारी-  
रकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥

यदि विभु अनन्त आत्मवादी कहें कि आत्मा से विभुत्व होते भी शरीर मे  
प्रतिष्ठित स्थिर मन के साथ शरीरावच्छिन्न ( शरीरमात्रवृत्ति ) आत्मप्रदेश में ही आत्मा  
का संयोग होगा । इससे प्रदेश कृत, अभिसंध्यादि की दृष्ट की और सुख दुःख की

व्यवस्था होगी। मन के संयोग युक्त तत्त्व प्रदेशो के अभिसन्धि आदि तत्त्वदात्माओ के कर्तार्योगे तो वह भी कहना उपपन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि सब आत्माओ का सब शरीरो के अन्तर ( मध्य प्रदेश ) मे भाव ( सत्ता ) है। जिससे विभुत्व की अविशेषता ( तुल्यता ) से सब आत्मा सब शरीर के अन्तर मे रहते हैं। सब आत्माओ के सब शरीरो मे एक रस रहने से जिस निष्प्रदेश ( निरवयव ) आत्मा मे वैशेषिको से शरीरा-वच्छिन्न ( शरीरपरिमित ) आत्मा के प्रदेशो की कल्पना नहीं की जा सकती है। निष्प्रदेश आत्मा के कल्प्यमान ( कल्पित ) भी प्रदेश काल्पनिकत्व से ( मिथ्यात्व से ) ही पारमार्थिक कार्य का नियम नहीं कर सकता है। सब आत्माओ के सन्निधि मे उत्पन्न होने वाला शरीर भी इस आत्मा ही का है अन्य का नहीं है, इस नियम का विषय नहीं किया जा सकता है, इससे शरीर द्वारा भी भोगादि की व्यवस्था नहीं हो सकती है। प्रदेश विशेष को मानने पर भी समान सुख दुःख के भोक्ता दो आत्मा को भी कभी एक शरीर से ही उपभोग की सिद्धि होगी। क्योंकि समान प्रदेश वाला भी दो आत्माओ के अदृष्टो का सम्भव है। जैसे कि जिस प्रदेश मे देवदत्त ने सुख और दुःख का अनुभव किया, उस प्रदेश से उसके शरीर के हट जाने पर और यज्ञदत्त के शरीर के उसी देश मे पीछे प्राप्त होने पर उस यज्ञदत्त को भी इतर ( देवदत्त ) के समान सुख दुःख का अनुभव देखा जाता है वह सुख दुःख का अनुभव नहीं होता, यदि देवदत्त और यज्ञदत्त का समान देश वाला अदृष्ट नहीं होता। इससे आत्मा के भेद से प्रदेश के भेद मानने पर भी प्रदेशो के एक देह मे अन्तर्भाव होने से साङ्ख्य की प्राप्ति है। सावयव आत्मवाद की प्राप्ति होती है। आत्मा के प्रदेशवादियो को स्वर्गादि के अनुपभोग की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्राह्मणादि शरीर सम्बन्धी प्रदेशो मे अदृष्ट की उत्पत्ति है और वह अदृष्ट उसी प्रदेश में अचल स्थिर रहता है। स्वर्गादि के उपभोग को उससे प्रदेशान्तर वर्तित्व होता है। इससे प्रदेश का भेद व्यवस्था का हेतु नहीं है। दृष्टान्त के अभाव से बहुत आत्माओ के सर्वगतत्व की अनुपपत्ति है। प्रथम तुम ही तो कहो कि कौन बहुत पदार्थ समान प्रदेश वाले हैं। यदि कहो कि अनेक रूप रस गन्धादि फलादि में समान देश वाले हैं। तो कहना असत्य है, क्योंकि वे भी समान देशवाले नहीं हैं, क्योंकि फलादि मे तेज जल भूमि आदि के अंश हैं। वहाँ उन रूपादिको को भी अपने धर्मांशो के साथ अभेद है। अर्थात् रूप तेजोमात्र स्वरूप है। रस जलमात्र है, और गन्ध भूमिमात्र स्वरूप है। तेज आदि तत्त्व स्वरूप ही फलादि हैं। रूपादि के लक्षणो का भी भेद है। जिससे उनका भेद सिद्ध होता है। बहुत आत्माओ के लक्षण का भेद नहीं है। आत्मता मात्र एक स्वरूप है। इससे आत्मा का भेद असिद्ध है। यदि कहो कि स्वयं व्यावृत्त नित्य द्रव्यमात्र वृत्ति वैशेषिको से स्वीकृत अन्य विशेष पदार्थ के वश से आत्मा के भेद की उपपत्ति होती है, इससे भेद के लिए अन्य लक्षण भेद की आवश्यकता नहीं है। विशेषरूप लक्षणभेद से ही आत्मा का भेद सिद्ध होता है। तो वह कहना भी नहीं बन सकता है; क्योंकि भेदकल्पना और विशेषकल्पना को अन्योन्याश्रय प्राप्त होता है। क्योंकि

अनात्मा से भेद ज्ञान के लिए तो अन्त्यविशेष की कल्पना नहीं हो सकती है, आत्मत्व से ही अनात्म भेद सिद्ध है, आत्माओं के परस्पर भेद ज्ञान के लिए भी उसको कल्पना नहीं हो सकती जिससे आत्मा के भेद असिद्ध है। अभी सर्वसम्मत आत्मभेद नहीं है, इससे आत्मभेद के ज्ञान होने पर आत्माओं में विशेष भेद की सिद्धि होगी। विशेष भेद की सिद्धि होने पर आत्मा में भेद का ज्ञान होगा। यह अन्योन्याश्रय है। यदि आकाश काल दिशा के दृष्टान्त से बहुत विभु आत्मा के समदेश वृत्तित्व विभुत्व कहो, तो आकाशादि के कार्यत्व के अभ्युपगम से ब्रह्मवादी के प्रति आकाशादि के भी विभुत्व असिद्ध है। इससे आत्मा के एकत्व पक्ष में ही सब दोषों का अभाव है। यह सिद्ध हुआ ॥ ५३ ॥

अद्वैतानन्दबोधाय निर्गुणाय निजात्मने ।

सत्याय सर्वरूपाय ह्यरूपाय नमोनमः ॥ १ ॥

शारीरकमीमांसाभाष्य के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद समाप्त ॥



## द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः

[ अत्र पादे लिङ्गशरीरश्रुतीनां विरोधपरिहारः ]

प्राणोत्पत्त्यधिकरण ॥ १ ॥

किमिन्द्रियाण्यनादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना । सृष्टः प्रागृषिनाम्नैषां सद्भावोक्तेरनादिता ॥  
एकब्रुद्धथा सर्वबुद्धेर्भौतिकत्वाज्जनिश्रुतेः । उत्पद्यन्तेऽथ सद्भावः प्रागवान्तरसृष्टितः ॥ २ ॥

आकाशादि के समान प्राण भी उत्पन्न होते हैं । क्योंकि ( एतस्माज्जायते प्राणः ) इस परमात्मा से प्राण भी उत्पन्न होता है । इत्यादि श्रुतियाँ साक्षाद् उत्पत्ति को कहने वाली है ॥ तो भी तैत्तिरीय श्रुति में सृष्टि से प्रथम प्राणों की सत्ता सुनने से संशय होता है कि इन्द्रियाँ अनादि हैं, अथवा परमात्मा से रची जाती है । पूर्वपक्ष है कि सृष्टि से पूर्वकाल में इन इन्द्रियों का ऋषि नाम से सद्भाव ( वर्तमानता ) कहा गया है, इससे इन्द्रियों को अनादिता है । सिद्धान्त है कि एक ब्रह्म के ज्ञान से सब के ज्ञान का श्रवण में, तथा इन्द्रियों में भौतिकत्व ( भूत कार्यत्व ) के श्रवण से, और जन्म के श्रवण से, इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । और सृष्टि से पूर्वकाल में जो इन्द्रियों के सद्भाव का श्रवण है, वह अबान्तर सृष्टि से पूर्वकालिक सद्भाव विषयक है ॥ १-२ ॥

तथा प्राणाः ॥ १ ॥

वियदादिविषयः श्रुतिविप्रतिषेधस्तृतीयेन पादेन परिहृतः । चतुर्थेनेदानीं प्राणविषयः परिह्रियते । तत्र तावत् 'तत्तेजोऽसृजत' ( छन्दो० ६।२।३ ) इति, 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' ( तैत्ति० २।१।१ ) इति चैवमादिषूत्पत्तिप्रकरणेषु प्राणानामुत्पत्तिर्नाम्नायते । कच्चिच्चानुत्पत्तिरेवैषाम्नायते 'असद्वा इदमग्र आसीत्' ( तै० २।७ ) 'तदाहुः किं तदसदासीदित्यृषयो वाव तेऽग्रेऽसदासीत्, तदाहुः के ते ऋषय इति, प्राणा वाव ऋषयः' इत्यत्र प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भावश्रवणात् । अन्यत्र तु प्राणानामप्युत्पत्तिः पठ्यते— 'यथाम्नेर्ज्वलतः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः' इति, 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' ( मुण्ड० २।१।३ ) इति, 'सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्' ( मु० २।१।८ ) इति, 'स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्नम्' ( ऋ० ६।४ ) इति चैवमादिप्रदेशेषु । तत्र तत्र श्रुतिविप्रतिषेधादन्यतरनिर्धारणकारणानिरूपणाच्च प्रतिपत्तिः प्राप्नोति । अथवा प्रागुत्पत्तेः सद्भावश्रवणाद् गौणी प्राणानामुत्पत्तिश्रुतिरिति प्राप्नोति । अत उत्तरमिदं पठति— 'तथा प्राणाः' इति ।

आकाशादिविषयक जो श्रुतियो का विरोध था, वह तृतीय पाद मे परिहृत ( निवारित ) हो चुका है । इस समय चतुर्थ पाद से प्राणविषयक श्रुति विरोध का परिहार किया जाता है । इन्द्रियो की उत्पत्ति, सख्या, स्वरूप विषयक श्रुति का जो परस्पर विरोध भासता है, उसका निवारण किया जाता है । वहाँ प्रथम श्रुति कहती है कि ( वह सत् ब्रह्म तेज को रचा ) ( उस ब्रह्मात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ) इत्यादि उत्पत्ति प्रकरणो मे प्राणो की उत्पत्ति नहीं कही गई है और कहीं प्राणो की अनुत्पत्ति ही कही जाती है कि ( यह जगत् प्रथम असत्-अव्याकृत नाम रूप वाला ) ही था । वहाँ कोई कहते हैं कि वह असत् किस स्वरूप का था ) उत्तर है कि वे ऋषि उस असत् स्वरूप थे । वहाँ कहते हैं कि ऋषि कौन है । उत्तर है कि प्राण ही ऋषि हैं । इस स्थान मे उत्पत्ति से प्रथम प्राणो के सद्भाव श्रवण से उत्पत्ति श्रुति के साथ विरोध है, क्योंकि अन्यत्र प्राणो की उत्पत्ति पढी जाती है कि ( जैमे प्रज्वलित अग्नि से तुच्छ स्फुलिंग निकलते है, इसी प्रकार इस आत्मा से सब प्राण होते है । इस आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, सब इन्द्रियाँ उत्पन्न होनी हैं । उस आत्मा से पाच ज्ञानेन्द्रिय और वाक् तथा मन रूप सात इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । वह प्राण को रचा प्राण से श्रद्धा आकाश वायु तेज जल पृथिवी इन्द्रिय मन अन्न को रचा ) इत्यादि प्रदेशो मे उत्पत्ति पढी जाती है । इस प्रकार तत्तद् स्थानो मे श्रुतियो के विरोध से, और इन मे से अन्यतर ( एक पक्ष ) के निर्धारण के कारण का अनिरूपण ( अदर्शन ) से अप्रतिपत्ति ( अनिश्चय ) प्राप्त होता है । अथवा जगत की उत्पत्ति से पूर्व काल मे प्राणो के सद्भाव के श्रवण से गौणी प्राणों की उत्पत्ति श्रुति है ऐसा प्राप्त होता है ॥ इससे यह उत्तर पढ़ते हैं कि ( तथा प्राणः ) इति ।

कथं पुनरत्र तथेत्यक्षरानुलोम्यम्, प्रकृतोपमानाभावात् । सर्वगतात्म-बहुत्ववादिदूषणमतीतानन्तरपादान्ते प्रकृतं तत्तावन्नोपमानं संभवति, सादृश्या-भावात् । सादृश्ये हि सत्युपमानं स्यात्—यथा सिंहस्तथा बलवर्मेति । अदृष्टसाम्यप्रतिपादनार्थमिति यद्युच्येत, यथाऽदृष्टस्य सर्वात्मसंनिधावुत्पद्यमानस्यानियतत्वमेवं प्राणानामपि सर्वात्मनः प्रत्यनियतत्वमिति । तदपि देहानियमेनैवोक्तत्वात्पुनरुक्तं भवेत् । न च जीवेन प्राणा उपमीयेरन्सिद्धान्त-विरोधात् । जीवस्य ह्यनुत्पत्तिराख्याता, प्राणानां तूत्पत्तिर्व्याचिख्यासिता । तस्मात्तथेत्यसंबद्धमिव प्रतिभाति । न । उदाहरणोपात्तेनाप्युपमानेन सम्बधोपपत्तेः । अत्र प्राणोत्पत्तिवादिवाक्यजातमुदाहरणम्—‘एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवास्सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति’ ( बृ० २।१।२० ) इत्येवंजातीयकम् । तत्र यथा लोकादयः परस्माद् ब्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा प्राणा अपीत्यर्थः । तथा—

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुर्व्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ( मुण्ड० २।१।३ )



इत्येवमादिष्वपि खादिवत्प्राणानामुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम् । अथवा 'पान-  
व्यापञ्च तद्वत्' ( जै० अ० ३।४।१५ ) इत्येवमादिषु व्यवहितोपमानसम्बन्धस्या-  
प्याश्रितत्वात् । यथाऽतीतानन्तरपादाद्युक्ता वियदादयः परस्य ब्रह्मणो विकाराः  
समधिगतास्तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम् ।  
कः पुनः प्राणानां विकारत्वे हेतुः ? श्रुतत्वमेव । ननु केषुचित्प्रदेशेषु न  
प्राणानामुत्पत्तिः श्रूयत इत्युक्तम् । तदयुक्तम्, प्रदेशान्तरेषु श्रवणात् । नहि  
कच्चिदश्रवणमन्यत्र श्रुतं निवारयितुमुत्सहते । तस्माच्छ्रुतत्वाविशेषादाकाशा-  
दिवत्प्राणा अप्युत्पद्यन्त इति सूक्तम् ॥ १ ॥

यहाँ शंका होती है कि सूत्रगत तथा अक्षर शब्द का आनुलोम्य ( आज्ञस्य ) उपमेय  
बोधकत्व कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई प्रकृत उपमान नहीं है कि जिसके सदृश  
उपमेय प्राण का बोध हो सके । भूत अनन्तर पूर्वपाद के अन्त में सर्वगत आत्मबहुत्ववादी  
का दूषण प्रकृत है, वह प्रथम उपमान नहीं हो सकता है, क्योंकि सदृशता का अभाव  
है । सादृश्य के रहते ही उपमान होता है कि जैसा सिंह होता है वैसा बलवर्मा है ।  
यदि अदृष्ट के साथ साम्य ( सादृश्य ) का प्रतिपादन के लिये तथा शब्द को कही कि  
जैसे सब आत्माओं के सन्निधि में उत्पन्न होने वाला अदृष्ट को अनियतत्व रहता है,  
इसी प्रकार प्राणों को भी सब आत्माओं के प्रति अनियतत्व है, तो वह प्राण का  
अनियतत्व देह के अनियम में ही उक्त होने से पुनरुक्त होगा । सिद्धान्त के विरोध से  
जीव के साथ प्राण उपमित ( सदृश ) नहीं हो सकते हैं, जिससे जीव की अनुत्पत्ति  
कही जा चुकी है और प्राणों को तो उत्पत्ति व्याख्यान की इच्छा का विषय है ।  
जिसमें तथा यह पद असम्बद्ध के समान प्रतीत होता है । उत्तर है कि असम्बद्ध नहीं  
है । उदाहरण वाक्य में उपात्त ( गुहीत ) उपमान के साथ सम्बन्ध की उपपत्ति से  
यह पद सम्बद्ध हो जाता है । प्राण की उत्पत्ति को कहने वाले वाक्य समूह यहाँ  
उदाहरण है । वह वाक्य ( इस आत्मा से सब प्राण सब लोक सब देव सब भूत प्रकट  
होते हैं ) इस प्रकार के हैं, वहाँ जैसे लोकादि परब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, वैसे प्राण  
भी उत्पन्न होता है, यह अर्थ है । इसी प्रकार ( इस आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है,  
और मन सब इन्द्रियाँ, तथा आकाश वायु तेज जल विश्व को धारण करने वाली भूमि  
सब आत्मा से उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि वाक्यों में भी आकाशादि के समान प्राणों की  
उत्पत्ति होती है, यह समझना चाहिये । द्राष्टान्तिक के पास में दृष्टान्त कहना चाहिये,  
इस नियम को स्वीकार करके उदाहरणगत दृष्टान्त कहे गये हैं । उस नियम को नहीं  
मानने पर कहते हैं कि ( पान् व्यापञ्च<sup>१</sup> तद्वत् ) इत्यादि स्थानों में व्यवहित उपमान

१. यहाँ भाव है कि ( वरुणो वा एतं गृह्णाति योज्वं प्रतिगृह्णाति, यावतोऽयान्  
प्रतिगृह्णीयात्तावतो वरुणाश्वत्तुष्कपात्रिर्वयेत् ) इस श्रुति से यद्यपि प्रतीत होता है कि  
जो अश्व का दान लेता है उसको वरुण ( जलोदर ) रोग होता है, इससे अश्व का

के साथ सम्बन्ध को भी आश्रितत्व ( स्वीकृत ) होने से, जैसे अतीत अनन्तर पाद के आदि में कहे गये आकाशादि परब्रह्म के विकार समग्रगत ( ज्ञातस्वीकृत ) है, इसी प्रकार प्राण भी ब्रह्म के विकार है। इस प्रकार सूत्र की योजना कर्तव्य है। यदि फिर भी जिज्ञासा हो कि प्राणों के विकारत्व के ज्ञान में क्या हेतु है, तो कहा जाता है कि विकार रूप से श्रुतत्व ही हेतु है। यदि कहो कि कितने प्रदेशों में प्राणों की उत्पत्ति नहीं सुनी जाती है, उन प्रदेशों के अनुसार अनुत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाय, तो सो कथन अयुक्त है, गुणोपसंहार न्याय से श्रुत के अनुसार अश्रुत का नयन होता है। प्रदेशान्तर में प्राणों की उत्पत्ति का श्रवण है। कहीं का अश्रवण अन्यत्र श्रुत का निवारण करने के लिये उत्साह नहीं कर सकता है, इससे श्रुतत्व की तुल्यता से आकाशादि के समान प्राण भी उत्पन्न होते हैं यह सुन्दर कहा गया है ॥ १ ॥

### गौण्यसम्भवात् ॥ २ ॥

यत्पुनरुक्तं—प्रागुत्पत्तेः सद्भावश्रवणाद्गौणी प्राणानामुत्पत्तिश्रुतिः—इति । तत्प्रत्याह—गौण्यसम्भवदिति । गौण्या असम्भवो गौण्यसम्भवः । नहि प्राणानामुत्पत्तिश्रुतिर्गौणी सम्भवति, प्रतिज्ञाहानिप्रसङ्गात् । 'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातं भवति' ( मुण्ड० १।१।३ ) इति ह्येकविज्ञानेन सर्व-विज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साधनायेदमाम्नायते—'एतस्माज्जायते प्राणः' ( मुण्ड० २।१।३ ) इत्यादि । सा च प्रतिज्ञा प्राणादेः समस्तस्य जगतो ब्रह्मविकारत्वे सति प्रकृतिव्यतिरेकेण विकाराभावात्सिद्धयति । गौण्यां तु प्राणानामुत्पत्ति-

प्रतिग्रह लेने पर जितने अश्व का प्रतिग्रह ले, उतने चतुष्कपाल में सिद्ध हविष का अग्नि में अर्पण करे, परन्तु वरुणदेव को उद्देश्य करके हविष का अर्पण करे। वहा पूर्वमीमासा में फिर विचार किया गया है कि यह वारुणी इष्टि ( याग ) दाता को करना चाहिये या ग्रहीता को करना चाहिये, वहां ग्रहीता को करना चाहिये यथाश्रुत वचन के अनुसार पूर्वपक्ष करके, आरम्भ में दाता के कीर्तन से दाता को करना चाहिये यह सिद्धान्त होने पर फिर विचार है कि लौकिक अश्वदान जन्य दोष की निवृत्ति के लिये यह इष्टि है, या वैदिक दानजन्य दोष की निवृत्ति के लिये है, वहाँ पूर्वपक्ष है कि लौकिक के लिये है, सिद्धान्त है कि वैदिक के लिये है। इस विचार को करके कहा गया है कि ( पानव्यापञ्चतद्वत् ) सोम पान करने पर यदि, व्यापत्, वमन हो जाय तो ( एत सौमेनश्यामकं चरु निर्वपेत् ) इस वचन से इष्टि विहित है, वहाँ भी विचार है कि लौकिक सोमपान में इष्टि कर्तव्य है या वैदिक सोमपान में कर्तव्य है। पूर्वपक्ष रूप उक्त सूत्र है कि तद्वत् अश्व प्रतिग्रह इष्टि के पूर्वपक्ष के समान लौकिक सोमपान के वमन में इष्टि कर्तव्य है। वहाँ प्रतिग्रहेष्टि के पूर्वपक्ष कैकसूत्रों से व्यवहित है, उनका जैसे तद्वत् शब्द के साथ में सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार तथा शब्द को व्यवहित विपदादि के साथ सम्बन्ध होगा, इति संक्षेपः ।

श्रुतौ प्रतिज्ञेयं हीयेत । तथां च प्रतिज्ञातार्थमुपसंहरति—‘पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्’ ( मुण्ड० २।१।१० ) इति, ‘ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्’ ( मुण्ड० २।२।११ ) इति च । तथा ‘आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्’ इत्येवंजातीयकासु श्रुतिष्वेषैव प्रतिज्ञा योजयितव्या । कथं पुनः प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भावश्रवणम् । नैतन्मूलप्रकृतिविषयम् । ‘अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः’ ( मुण्ड० २।१।२ ) इति मूलप्रकृतेः प्राणादि-समस्तविशेषरहितत्वावधारणात् । अवान्तरप्रकृतिविषयं त्वेतत्स्वविकारापेक्षं प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भावधारणमिति द्रष्टव्यम् । व्याकृतविषयाणामपि भूयसीनामवस्थानां श्रुतिस्मृत्योः प्रकृतिविकारभावप्रविद्धेः । वियदधिकरणे हि ‘गौण्यसम्भवात्’ इति पूर्वपक्षसूत्रत्वाद्गौणी जन्मश्रुतिरसम्भवादिति व्याख्यातम् । प्रतिज्ञाहान्या च तत्र सिद्धान्तोऽभिहितः । इह तु सिद्धान्तसूत्रत्वाद्गौण्या जन्म-श्रुतेरसम्भवादिति व्याख्यातम् । तदनुरोधेन त्विहापि गौणी जन्मश्रुतिरसम्भ-वादिति व्याचक्षाणैः प्रतिज्ञाहानिरुपेक्षिता स्यात् ॥ २ ॥

जो यह कहा था कि उत्पत्ति से पूर्वकाल में प्राण की सत्ता के श्रवण से प्राणों की गौणी उत्पत्ति श्रुति है, उसके प्रति कहते हैं कि ( गौणी उत्पत्ति के असम्भव से आकाशादि के समान प्राणों की मुख्य ही उत्पत्ति होती है । गौणी का असम्भव को गौण्यसम्भव कहते हैं । प्राणों की गौणी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गौणी उत्पत्ति होने पर प्रतिज्ञा की हानि का प्रसंग होगा ( हे भगवन् ! किसके विज्ञात होने से यह सब जगत् विज्ञात होता है ) । इस प्रकार एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिये यह कहा जाता है कि ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ) । वहाँ प्राणादि समस्त जगत् के ब्रह्मविकारत्व होने पर प्रकृति से भिन्नत्व रूप से विकारो के अभाव से वह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है । प्राणों की गौणी उत्पत्ति श्रुति होने पर यह प्रतिज्ञा नष्ट हो जायगी । प्रतिज्ञा के अनुसार ही श्रुति प्रतिज्ञान्त अर्थ का उपसंहार करती है कि ( पुरुष इस सब कर्म, तप, ब्रह्म और पर अमृत है । यह सब बरिष्ठ ब्रह्म ही है ) । इसी प्रकार ( अरे मैत्रेयि ! आत्मा ही के दर्शन श्रवण मनन विज्ञान से यह सब विदित होता है ) इस प्रकार की श्रुतियों में यही प्रतिज्ञा योजना के योग्य है, इससे प्रतिज्ञा विषयक गौणत्व की शंका नहीं हो सकती क्योंकि उपक्रमोपसंहारादि से प्रतिज्ञा मुख्य है, इससे प्राणोत्पत्ति भी मुख्य है । यदि कहे कि ऐसा होने पर उत्पत्ति से पूर्वकाल में प्राणों के सद्भाव का श्रवण कैसे है, तो कहा जाता है कि यह श्रवण मूलप्रकृति विषयक महाप्रलय कालिक ही है क्योंकि ( परसे भी परब्रह्मात्मा प्राण मन से रहित शुद्ध है ) इस प्रकार मूलप्रकृति को प्राणादि समस्त विशेषों से रहितत्व का अवधारण किया गया है । इससे उत्पत्ति से पूर्वकालिक इस प्राणों के सद्भाव का अवधारण को स्वविकारापेक्ष पूर्वावृत्ति विषयक और अनन्तर प्रकृति विषयक समक्षना चाहिये । अर्थात् अवान्तर प्रलयकालिक हिरण्यगर्भ नामक

अवान्तर प्रकृतिरूप प्राण के सद्भाव विषयक वह श्रुति है। जिससे व्याकृत विषय वाले भी बहुत अवस्थाओं के प्रकृतिविकारभाव की प्रसिद्धि ( हिरण्यगर्भ समवतंताग्रे । आदि कर्ता स भूतानाम् ) इत्यादि श्रुति स्मृति में वर्तमान है। इससे अवान्तर प्रकृति विषयक श्रुति हो सकती है। वियत् अधिकरण में ( गौण्यसम्भवात् ) इस प्रकार के पूर्वपक्ष रूप सूत्र होने से उसका व्याख्यान किया गया है कि मुख्य जन्म के असम्भव से आकाश की जन्मश्रुति गौणी है। प्रतिज्ञा की हानि द्वारा वहाँ सिद्धान्त कहा गया है। यहाँ तो सिद्धान्त सूत्रत्व के कारण, गौणी जन्मश्रुति के असम्भव से मुख्य जन्म है ऐसा व्याख्यान किया गया है। उसके अनुसार से यहाँ भी ( गौणा जन्म श्रुति है, असम्भव से ) इस प्रकार व्याख्यान करने वाले से प्रतिज्ञा हानि उपेक्षित होगी। अर्थात् प्रतिज्ञा हानि का निवारण नहीं किया जा सकेगा। इससे यहाँ वैसा व्याख्यान उचित नहीं है ॥ २ ॥

### तत्प्राक्श्रुतेश्च ॥ ३ ॥

इतश्चाकाशादीनामिव प्राणानामपि मुख्यैव जन्मश्रुतिः। यज्जायत इत्येकं जन्मवाचिपदं प्राणेषु प्राक्श्रुतं सदुत्तरेष्वप्याकाशादिष्वनुवर्तते। 'एतस्माज्जायते प्राणः' ( मु० २।१।३ ) इत्यत्राकाशादिषु मुख्यं जन्मेति प्रतिष्ठापितं तत्सामान्यात्प्राणेष्वपि मुख्यमेव जन्म भवितुमर्हति। नह्येकस्मिन्प्रकरणे एकस्मिन् वाक्ये एकः शब्दः सकृदुच्चरितो बहुभिः सम्बन्धमानः कचिन्मुख्यः कचिद्गौण इत्यध्यवसातुं शक्यम्। वैरूप्यप्रसङ्गात्। तथा 'स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धाम्' ( प्रश्न० ६।४ ) इत्यत्रापि प्राणेषु श्रुतः सृजतिः परेष्वप्युत्पत्तिमत्सु श्रद्धादिष्वनुषज्यते। यत्रापि पश्चाच्छ्रुत उत्पत्तिवचनः शब्दः पूर्वैः सम्बन्धयते तत्राप्येष एव न्यायः। यथा 'सर्वाणि भूताति व्युच्चरन्ति' इत्ययमन्ते पठितो व्युच्चरन्तिशब्दः पूर्वैरपि प्राणादिभिः सम्बन्धयते ॥ ३ ॥

इस बध्यमाण हेतु से भी आकाशादि के समान प्राणादि का भी मुख्य ही जन्मश्रुति है कि जिससे जायते ( उत्पन्न होता है ) यह एक ही जन्म वाचक पद प्राणादि विषयक पूर्व सुना गया हुआ, उत्तर आकाशादि में वही पद अनुवृत्त ( सम्बद्ध ) होता है। ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ) इस श्रुति में आकाशादि विषयक जन्म श्रवण को मुख्य जन्मविषयकत्व निश्चित किया जा चुका है, जिसकी स्मानता से प्राणो में भी मुख्य ही जन्म होने योग्य है। एक प्रकरण में एक वाक्य में एक बार पठित एक शब्द बहुतों के साथ सम्बन्ध वाला होता हुआ कहीं मुख्य और कहीं गौण होता है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार विरूपता ( विरुद्ध स्वरूपता ) का प्रसंग होता है। इसी प्रकार ( वह प्राण को सिरजा, प्राण से श्रद्धा को सिरजा ) यहाँ प्राणों में श्रुत सृजति पद उत्तर के भी उत्पत्ति वाले श्रद्धा आदिकों में सम्बन्ध वाला होता है। जहाँ पश्चात् श्रुत भी उत्पत्ति वाचक शब्द पूर्व पठितों के साथ सम्बद्ध होता है, वहाँ भी यही न्याय

है। जैसे ( सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति ) सब प्राणी व्यक्त होते हैं। यहाँ यह अन्त में पढ़ा हुआ व्युच्चरन्ति शब्द पूर्वपठित प्राणादि के साथ भी सम्बन्ध वाला होता है ॥३॥

### तत्पूर्वकत्वाद्वाचः ॥ ४ ॥

यद्यपि 'तत्तेजोऽसृजत' ( छा० ६।२।३ ) इत्येतस्मिन्प्रकरणे प्राणानामुत्पत्तिर्न पठ्यते, तेजोबन्नानामेव च त्रयाणां भूतानामुत्पत्तिश्रवणात् । तथापि ब्रह्मप्रकृतिकतेजोबन्नपूर्वकत्वाभिधानाद्वाक्प्राणमनसां तत्सामान्याच्च सर्वेषामेव प्राणानां ब्रह्मप्रभवत्वं सिद्धं भवति । तथाहि-अस्मिन्नेव प्रकरणे तेजोबन्नपूर्वकत्वं वाक्प्राणमनसामान्यायते- 'अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्' ( छा० ६।१।४ ) इति । तत्र यदि तावन्मुख्यमेवैषामन्नादिमयत्वं ततो वर्तत एव ब्रह्मप्रभवत्वम् । अथ भाक्तं तथापि ब्रह्मकर्तृकायां नामरूपव्याक्रियायां श्रवणात् 'येनाश्रुतं श्रुतं भवति' ( छा० ६।१।३ ) इति चोपक्रमात् 'एतदात्म्यमिदं सर्वम्' ( छा० ६।८।७ ) इति चोपसंहाराच्छ्रुत्यन्तरप्रसिद्धेश्च ब्रह्मकार्यत्वप्रपञ्चनार्थमेव मनआदीनामन्नादिमयत्ववचनमिति गम्यते । तस्मादपि प्राणानां ब्रह्मविकारत्वसिद्धिः ॥ ४ ॥

यद्यपि ( उस सत् ब्रह्म ने तेज की सृष्टि की ) इस प्रकरण में तेज, जल और अन्न इन तीन भूतों की ही उत्पत्ति के श्रवण से प्राणों की उत्पत्ति नहीं पढ़ी गई है, ऐसी प्रतीति होती है। तथापि वाक्, प्राण और मन को ब्रह्मप्रकृतिक ( ब्रह्मजन्य ) तेज, जल, अन्न-पूर्वकत्व ( तेज, जल, अन्न-जन्यत्व ) के कथन से, और अन्य इन्द्रियों में इन्द्रियत्वरूप से वाक् आदि के साथ समानता से सभी प्राणों ( इन्द्रियों ) को ब्रह्मप्रभवत्व ( ब्रह्मजन्यत्व ) सिद्ध होता है ( अर्थात् सूत्रगत वाक् शब्द प्राण और मन का भी उपलक्षणरूप से बोधक है, इससे वाक् प्राण और मन के तेज आदि जन्यत्व का कथन ही करणत्व रूप सामान्यता से सब इन्द्रियों के ब्रह्मजन्यत्व का बोधक है। जैसे कि इसी तेज आदि की सृष्टि प्रकरण में तेज, जल और अन्नपूर्वकत्व ( जन्यत्व ) वाक्, प्राण और मन का श्रुति में कहा जाता है कि ( हे सोम्य अन्नमय ही मन है, जलमय प्राण है, तेजोमयी वाक् है। वहाँ यदि ये अन्नादिमयत्व मुख्य है, अर्थात् विकारार्थक मयट् प्रत्यय यदि मुख्यार्थक है, तब तो मन आदि सब इन्द्रिय और प्राणों में ब्रह्मजन्यत्व है ही। क्योंकि तेज आदि ब्रह्मजन्य हैं, और तेज आदि से इन्द्रियजन्य है, इससे परम्परा से ब्रह्मजन्य हैं ही। यदि वायुरूप प्राण को जलविकारत्व की अयुक्तता से जल के अधीन प्राण की शरीर में स्थितिमात्र से ( आपोमयः प्राणः ) जलमय प्राण है इत्यादि भाक्त ( गौण ) पद हो, तो भी ब्रह्मकर्तृक ( ब्रह्मजन्य ) नामरूप से व्याकरण ( सृष्टि ) के प्रकरण में आपोमयादि के श्रवण से, और ( जिसके सुनने से अश्रुत भी श्रुत होता है ) इस उपक्रम से, और ( यह सब जगत् इस ब्रह्म का स्वरूप है ) इस उपसंहार से, तथा ( स प्राणमसृजत ) उसने प्राण को रचा, इस प्रकार

दूसरी श्रुति में स्पष्ट प्राणोत्पत्ति की प्रसिद्धि से, समझा जाता है कि ब्रह्म कार्य को विस्तारपूर्वक समझाने ही के लिये मन आदि के अन्नमयत्वादि का कथन है, इससे भी प्राणो के ब्रह्मविकारत्व की सिद्धि होती है ॥ ४ ॥

### सप्तगत्यधिकरण ॥ २ ॥

सप्तैकादश वाऽक्षाणि सप्त प्राणा इति श्रुतेः । सप्त स्युर्मूर्धनिष्ठेषु छिद्रेषु च विशेषणात् ।  
अशीर्षण्यस्य हस्तादेरपि वेदे समीरणात् । ज्ञेयान्वेकादशाक्षाणि तत्तत्कार्यानुसारतः ॥

( सप्त वै शीर्षण्याः ) इस प्रकार विशेषितत्व ( विशेष कथितत्व ) से सात इन्द्रियों की गति ( अवगति-ज्ञान ) होता है, इससे इन्द्रियाँ सात ही हैं, यह पूर्वपक्ष रूप सूत्र है । संशय है कि अक्ष ( इन्द्रिय ) सात हैं, वा ग्यारह हैं । पूर्वपक्ष है कि ( सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् ) उस ब्रह्म से सात प्राण होते हैं । इस श्रुति से और शिर में रहने वाले गोलकों में विशेषण ( वृत्तित्व कथन ) से सात इन्द्रियाँ होंगी । शिर में नहीं रहने वाले हाथ आदि का भी वेद मे कथन से, और ग्रहण, गमनादि तथा दर्शन, श्रवणादि तत्तत् कार्यों के अनुसार ग्यारह इन्द्रियाँ समझनी चाहिये ॥ १-२ ॥

### सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥

उत्पत्तिविषयः श्रुतिविप्रतिषेधः प्राणानां परिहृतः । संख्याविषय इदानीं परिह्रियते । तत्र मुख्यं प्राणमपरिष्टाद्भवत्यति । संप्रति तु कतीतरे प्राणा इति संप्रधारयति । श्रुतिविप्रतिपत्तेश्चात्र विशयः । क्वचित्सप्त प्राणाः सङ्कीर्त्यन्ते—  
'सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्' ( मुण्ड० २।१।८ ) इति । क्वचिच्चाष्टौ प्राणा ग्रहत्वेन गण्येन सङ्कीर्त्यन्ते—'अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः' ( बृ० ३।२।१ ) इति । क्वचिन्नव—'सप्त वै शीर्षण्याः प्राणा द्वाववाञ्चौ' ( तै० सं० ५।१।७।१ ) इति । क्वचिद्दश—'नव वै पुरुषे प्राणा नाभिर्दशमी' इति । क्वचिदेकादश—'दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः' ( बृ० ३।६।४ ) इति । क्वचिद् द्वादश—'सर्वेषां स्पर्शानां त्वगोकायनम्' ( बृ० २।४।११ ) इत्यत्र । क्वचित्त्रयोदश—'चक्षुश्च द्रष्टव्यं च' ( बृ० ४।८ ) इत्यत्र । एवं हि विप्रतिपत्ताः प्राणेषु प्रति श्रुतयः । किं तावत्प्राणम् ? सप्तैव प्राणा इति । कुतः ? गतेः । यतस्तावन्तोऽवगम्यन्ते—  
'सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्' ( मुण्ड० २।१।८ ) इत्येवंविधासु श्रुतिषु । विशेषिताश्चैते 'सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः' इत्यत्र । ननु 'प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त' ( मुण्ड० २।१।८ ) इति वीप्सा श्रूयते, सा सप्तभ्योऽतिरिक्तान्प्राणान्गमयतीति । नैष दोषः । पुरुषभेदाभिप्रायेयं वीप्सा प्रतिपुरुषं सप्त सप्त प्राणा इति, न तत्त्वभेदाभिप्राया सप्त सप्तान्येऽन्ये प्राणा इति । नन्वष्टत्वादि-  
कापि संख्या प्राणेषूदाहृता कथं सप्तैव स्युः । सत्यमुदाहृता । विरोधात्त्वन्वयतमा

संख्याध्यवसातव्या । तत्र स्तोककल्पनानुरोधात्सप्तसंख्याध्यवसानम् । वृत्ति-  
भेदापेक्षं च संख्यान्तरश्रवणमिति मन्यते ॥ ५ ॥

प्राणों की उत्पत्तिविषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार किया गया है । संख्या  
विषयक विरोध का इस समय परिहार किया जाता है । उनमें मुख्य प्राण को सूत्रकार  
आगे कहेंगे । इस समय मुख्य प्राण से अन्य प्राण ( इन्द्रियाँ ) कितने हैं, इस अर्थ  
का संप्रधारण ( निश्चय-निर्णय ) करते हैं । श्रुति के विरोध से यहाँ विषय ( संशय )  
है । कही सात प्राण कहे जाते हैं कि ( उस पुरुष से सात प्राण होते हैं ) और कहीं  
आठ प्राण ग्रहत्व ( बन्धकत्व ) गुणयुक्त कहे जाते हैं कि ( आठ इन्द्रिय ग्रह हैं, और उनके  
आठ विषय, आठ अतिग्रह हैं ) और कहीं नव कहे जाते हैं कि ( सात शिर मे रहने  
वाले प्राण हैं, और दो नीचे के हैं ) और कही दश कहे जाते हैं कि ( दो श्रोत्र, दो नेत्र,  
दो नासिका और वाक् ये सात शिर वाले और गुदा, लिङ्ग ये नव पुरुष में प्राण हैं,  
और नाभि दशमी है ) कही ग्यारह कहे जाते हैं कि ( ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय रूप ये दश  
पुरुष मे प्राण हैं और आत्मा ( मन ) ग्यारहवाँ है । कही बारह कहे जाते हैं ( सब  
म्पसों का त्वक् एक आश्रय है ) इस स्थान मे बुद्धिसहित उक्त ग्यारह को प्राण  
( इन्द्रिय ) कहे गये हैं । कही तेरह कहे गये हैं । ( चक्षुश्च द्रष्टव्यं च ) इस स्थान में अहंकार  
सहित उक्त द्वादश को इन्द्रिय कहा गया है । इस प्रकार से प्राणों की इयत्ता ( सख्या-  
कृत परिमाण ) के प्रति श्रुतिया विप्रतिपन्न ( परस्पर विरुद्ध ) हैं । यहाँ प्रथम क्या प्राप्त  
होता है, ऐसा परामर्श होने पर पूर्वपक्ष होता है कि सात ही प्राण हैं, ऐसा प्राप्त होता  
है । क्योंकि सबसे प्रथम श्रुति मे सात संख्या की गति ( अवगति ) होती है । जिससे  
( उस पुरुष मे सात प्राण होते हैं ) इस प्रकार की श्रुतियों में तावान् ( सात ) प्राण  
अवगत ( प्रतीत ) होते हैं । ( सात शीर्षण्य प्राण है ) इस श्रुति मे ये सात प्राण  
विशेषित हैं कि जो शीर्षण्य सात हैं, वही प्राण है । इससे अवगति और विशेषितत्व  
रूप हेतु से शिरवृत्ति ही सात प्राण हैं, जो शिरवृत्ति नहीं हैं, वे प्राण नहीं हैं ।  
यद्यपि ( सब प्राणों के शरीर वा हृदयरूप गुहा मे सुषुप्तिकाल में शयन करने वाले  
अपने-अपने स्थानों मे निहित ( स्थापित ) प्राण सात-सात हैं । इसी वीप्सा की श्रुति  
होती है, और वह वीप्सा सात से अतिरिक्त ( अधिक ) प्राण का बोध कराती है ।  
तथापि यह दोष नहीं है, जिससे पुरुषभेद के अभिप्राय से यह वीप्सा है कि प्रत्येक  
पुरुष ( प्राणी ) में सात-सात प्राण हैं । तत्त्व ( वस्तु ) के भेद के अभिप्राय से वीप्सा नहीं  
है कि सात-सात अन्य अन्य-अन्य प्राण हैं । शंका होती है कि प्राणवृत्ति अष्टत्व आदि  
संख्या भी उदाहृत ( कथित ) हो चुकी हैं, फिर सप्त ही संख्या कैसे निश्चित हो सकती  
है । तो उत्तर है कि अष्टत्वादि संख्या उदाहृत हुई है, यह बात सत्य है, तथापि  
परस्पर विरोध से इनमें से अन्यतम ( कोई एक ) संख्या निश्चित कर्तव्य है, यहाँ स्तोक  
( अल्प ) कल्पना के अनुसार से सात संख्या का निश्चय है । सात की ही वृत्तिभेद की

अपेक्षा से उक्त तेरह संख्या तक का श्रवण है, तथा चित्तरूप वृत्तिभेद से चौदह भी मानने योग्य है । इस प्रकार पूर्वपक्षी मानता है ॥ ५ ॥

अत्रोच्यते—

**हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम् ॥ ६ ॥**

हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः श्रूयन्ते—‘हस्तौ वै ग्रहः स कर्मणाऽतिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति’ ( बृ० ३।२।८ ) इत्येवमाद्यासु श्रुतिषु । स्थिते च सप्तत्वातिरेके सप्तत्वमन्तर्भावाच्छक्यते सम्भावयितुम् । हीनाधिकसंख्याविप्रतिपत्तौ ह्यधिका संख्या संग्राह्या भवति तस्यां हीनान्तर्भवति नतु हीनायामधिका । अतश्च नैवं मन्तव्यस्तोककल्पनानुरोधात्सप्तैव प्राणाः स्युरिति । उत्तरसंख्यानुरोधात्त्वेकादशैव ते प्राणाः स्युः । तथा चोदाहृता श्रुतिः—‘दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः’ ( बृ० ३।६।४ ) इति । आत्मशब्देन चात्रान्तःकरणं परिगृह्यते, करणाधिकारात् । नन्वेकादशत्वात्प्राणिके द्वादशत्रयोदशत्वे उदाहृते । सत्यमुदाहृते । नत्वेकादशभ्यः कार्यजातेभ्योऽधिकं कार्यजातमस्ति यदर्थमधिकं करणं कल्पयेत् । शब्दस्पर्शरूपसगन्धविषयाः पञ्च बुद्धिभेदास्तदर्थानि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः पञ्च कर्मभेदास्तदर्थानि च पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । सर्वार्थविषयं त्रैकाल्यवृत्ति मनस्त्वेकमनेकवृत्तिकम् । तदेवं वृत्तिभेदात् क्वचिद्भिन्नवद्व्यपदिश्यते—‘मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं च’ इति । तथा च श्रुतिः कामाद्या नानाविधा वृत्तीरनुक्रम्याह—‘एतत्सर्वं मन एव’ ( बृ० १।५।३ ) इति ।

यहाँ सिद्धान्त कहा जाता है कि—

हस्त ( कर ) आदिक भी सात से अन्य अतिरिक्त ( अधिक ) प्राण सुने जाते हैं कि ( हस्त ही ग्रह है, वह आदान ( ग्रहण ) रूप कर्मात्मक अतिग्रह से गृहीत है, जिससे हाथों से कर्म करता है ) इत्यादि श्रुतियों में अधिक प्राण सुने जाते हैं । सप्तत्व से अतिरेक ( अधिक ) संख्या के स्थिर होने पर, उस अधिक संख्या में अल्प के अन्तर्भाव रूप से सप्तत्व की सम्भावना कर सकते हैं । न्यून और अधिक संख्या के विरोध होने पर, अधिक संख्या ही संग्राह्या होती है, और न्यून संख्या अन्तर्गत होती है । न्यून में अधिक अन्तर्भूत नहीं हो सकती है । इसी से ऐसा नहीं मानना चाहिये कि अल्पकल्पना के अनुसार से सात ही प्राण हो सकते हैं । किन्तु उत्तर की संख्या के अनुसार ग्यारह ही वे प्राण हो सकते हैं । इसी प्रकार श्रुति उदाहृत हो चुकी है कि ( पुरुष में ये दश प्राण हैं और ग्यारहवाँ आत्मा है ) यहाँ करण के प्रकरण से आत्मशब्द से मन परिगृहीत होता है । यद्यपि एकादशत्व से भी अधिक द्वादशत्व, त्रयोदशत्व ( बारह-तेरह ) संख्या उदाहृत हुई हैं, वह सत्य ही उदाहृत हुई हैं । तथापि बुद्धि, अहंकार और चित्त एक अन्तःकरण के अवस्थाविशेष, वृत्तिविशेष रूप हैं ।



श्रवणादि ग्यारह कार्यसमूह ( इन्द्रियो के व्यापारसमूह ) से अधिक कोई कार्य समूह नहीं है कि जिनके लिए अधिक करण ( इन्द्रिय ) की कल्पना की जाय । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इनको विषय करने वाले ( प्रकाशने वाले ) पाँच प्रकार के ज्ञान होते हैं, इससे शब्दादिविषयक पाँच ज्ञान के भेद है । उनके लिये पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं । वचन ( कथन ), आदान ( ग्रहण ), विहरण ( गमन ), उत्सर्ग ( मल का त्याग ), आनन्द, ये पाँच कर्मों के भेद हैं । उनके लिये पाँच कर्मेन्द्रिय हैं । सर्वार्थविषयक ( बाह्य-भीतर सब पदार्थ को विषय करने वाला ) तथा त्रैकालिक वस्तु को अनुमानादि द्वारा विषय करने से त्रैकालिक वस्तुविषयक वृत्ति वाला और अनेक वृत्ति वाला एक मन है । वह मन ही वृत्ति के भेद से कहीं भिन्न के समान कहा जाता है, जैसे कि ( मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इस चार रूप से एक ही मन कहा जाता है । इसी प्रकार श्रुति भी कामादि नाना प्रकार की वृत्तियों का अनुक्रमण ( क्रम से कथन ) करके कहती है कि ये कामादि सब मन स्वरूप ही हैं ।

अपिच सप्तैव शीर्षण्यान्प्राणानभिमन्यमानस्य चत्वार एव प्राणा अभि-  
मताः स्युः । स्थानभेदाद्धचेते चत्वारः सन्तः सप्त गण्यन्ते 'द्वे श्रोत्रे द्वे चक्षुषी द्वे  
नासिके एका वाक्' इति । नच तावतामेव वृत्तिभेदा इतरे प्राणा इति शक्यते  
वक्तुम्, हस्तादिवृत्तीनामत्यन्तविजातीयत्वात् । तथा 'नव वै पुरुषे प्राणा  
नाभिर्दशमी' इत्यत्रापि देहच्छिद्रभेदाभिप्रायेणैव दश प्राणा उच्यन्ते न  
प्राणतत्त्वभेदाभिप्रायेण । नाभिर्दशमीति वचनात् । नहि नाभिर्नाम कश्चि-  
त्प्राणः प्रसिद्धोऽस्ति । मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभिरप्येकं विशेषा-  
यतनमित्यतो नाभिर्दशमीत्युच्यते । क्वचिदुपासनार्थं कतिचित्प्राणा गण्य-  
न्ते क्वचित्प्रदर्शनार्थम् । तदेवं विचित्रे प्राणेषुत्तान्माने सति क्व कि परमा-  
म्नानमिति विवेकव्ययम् । कार्यजातवशात्त्वेकादशत्वाम्नान प्राणविषयं प्रमाण-  
मिति स्थितम् ।

इयमपरा सूत्रद्वययोजना । सप्तैव प्राणाः स्युर्यतः सप्तानामेव गतिः श्रूयते—  
'तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्त सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति'  
( बृ० ४।४।२ ) । इत्यत्र ननु सर्वशब्दोऽप्यत्र पठ्यते, तत्कथं सप्तानामेव  
गतिः प्रतिज्ञायत इति । विशेषितत्वादित्याह । सप्तैव हि प्राणाश्चक्षुरादय-  
स्त्वक्पर्यन्ता विशेषिता इह प्रकृताः 'स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्पर्यावर्तते-  
ऽथारूपज्ञो भवति' ( बृ० ४।४।१ ) 'एकीभवति न पश्यतीत्याहुः' ( बृ० ४।४।२ )  
इत्येवमादिनानुक्रमणेन । प्रकृतगामी च सर्वशब्दो भवति यथा सर्वे ब्राह्मणा  
भोजयितव्या इति ये निमन्त्रिताः प्रकृता ब्राह्मणास्त एव सर्वशब्देनोच्यन्ते  
नान्ये । एवमिहापि ये प्रकृताः सप्त प्राणास्त एव सर्वशब्देनोच्यन्ते नान्य  
इति । नन्वत्र विज्ञानमष्टमनुक्रान्तं, कथं सप्तानामेवानुक्रमणम् । नैष

दोषः । मनोविज्ञानयोस्तत्त्वाभेदाद् वृत्तिभेदेऽपि सप्तत्वोपपत्तेः । तस्मात्सप्तैव प्राणा इति ।

दूसरी बात है कि शिरवृत्ति सात प्राण को ही मानने वालो के चार ही प्राण अभिमत (स्वीकृत) होंगे । स्थान के भेद से ये चार ही प्राण सात-सात गिने जाते हैं कि ( दो श्रोत्र है, दो नेत्र हैं, दो नासिका है, एक वाक् है ) कान, नेत्र, नासिका दो-दो गोलको मे इन्द्रिय एक-एक ही हैं, इसका विचार विशेषरूप से न्यायसूत्र और भाष्य आदि मे देखने योग्य है, यहाँ इतना ही समझना चाहिये कि विषयादि के भेद से इन्द्रियो के भेद की सिद्धि होती है तथा श्रुति से होती है । यहाँ विषय शब्द एक है, उसके ज्ञान के लिये श्रोत्र इन्द्रिय भी एक है, सावयव है, दोनो स्थान मे रहता है । इसी प्रकार नेत्र, नासिका को भी समझना चाहिये । तावत् सात शिरवृत्ति प्राणो के ही वृत्तिभेद रूप अन्य सब प्राण हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हस्तादि की वृत्तियाँ ( ( व्यापार ) अत्यन्त विजातीय हैं, साजात्य मे वृत्ति-वृत्तिमद्भाव होता है । इसी प्रकार ( पुरुष मे नव ही प्राण हैं, नाभि दशमी है ) यहाँ भी देह के छिद्रभेद के अभिप्राय से ही दश प्राण कहे गये हैं प्राणवस्तु के भेद के अभिप्राय से नहीं कहे गये हैं, वह नाभि दशमी इस वचन से समझना चाहिये, जिससे नाभिनामक कोई प्राण प्रसिद्ध नहीं है । मुख्य प्राण का तो नाभि भी एक विशेष स्थान है, इससे नाभि दशमी इस प्रकार कही जाती है । कही उपासना के लिये कितने प्राण गिने जाते हैं, और कही प्रदर्शनार्थक गिनते हैं ( सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् ) यहाँ उपासना के लिए गणना है । ( अष्टौ ग्रहाः ) यहाँ प्रदर्शनार्थ ( उपलक्षणार्थक ) आठ का ग्रहण है । पूर्व कही रीति से इस प्रकार प्राण की इयत्ताविषयक श्रुति के विचित्र होने से कहाँ किस अर्थपरक श्रुति है, यह विवेक करने योग्य है । कार्यसमूह के वश से तो प्राण विषयक एकादशत्व की श्रुति प्रमाण है यह स्थित हुआ ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः प्रतीयन्ते—‘हस्तो वै ग्रहः’ ( बृ० ३।२।८ ) इत्यादिश्रुतिषु । ग्रहत्वं च बन्धनभावो गृह्यते, बध्यते क्षेत्रज्ञोऽनेन ग्रहसंज्ञकेन बन्धनेनेति । स च क्षेत्रज्ञो नैकस्मिन्नेव शरीरे बध्यते, शरीरान्तरेष्वपि तुल्यत्वाद्बन्धनस्य । तस्माच्छरीरान्तरसंचारीदं ग्रहसंज्ञकं बन्धनमित्यर्थादुक्तं भवति । तथा च स्मृतिः—

पुर्यष्टकेन लिङ्गेन प्राणाद्येन स युज्यते ।

तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च ॥

इति प्राङ्मोक्षाद् ग्रहसंज्ञकेनानेन बन्धनेनावियोगं दर्शयति । आथर्वण्ये च विषयेन्द्रियानुक्रमणे ‘चक्षुश्च द्रष्टव्यं च’ इत्यत्र तुल्यवद्वस्तादीनीन्द्रियाणि सविषयाण्यनुक्रमति—‘हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च’ ( प्र० ४।८ ) इति । पायुश्च विसर्जयितव्यं च तथा ‘दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति’ ( बृ०

३।६।४ ) इत्येकादशानां प्राणानामुत्क्रान्तिं दर्शयति । सर्वशब्दोऽपि च प्राण-  
शब्देन सम्बन्धमानोऽशेषान्प्राणानभिदधानो न प्रकरणवशेन सप्तस्वेवावस्था-  
पयितुं शक्यते, प्रकरणाच्छब्दस्य बलीयस्त्वात् । सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या  
इत्यत्रापि सर्वेषामेवावनिवर्तिनां ब्राह्मणानां ग्रहणं न्याय्यं, सर्वशब्दसामर्थ्यात् ।  
सर्वभोजनासम्भवात्तु तत्र निमन्त्रितमात्रविषया सर्वशब्दस्य वृत्तिराश्रिता ।  
इह तु न किञ्चि सर्वशब्दार्थसंकोचने कारणमस्ति । तस्मात्सर्वशब्देनात्रा-  
शेषाणां ब्राह्मणानां परिग्रहः । प्रदर्शनार्थं च सप्तानामनुक्रममित्यनवद्यम् ।  
तस्मादेकादशैव प्राणाः शब्दतः कार्यतश्चेति सिद्धम् ॥ ६ ॥

प्रथम के व्याख्यान मे यह अरुचि है कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और वाक्-मन मे सत्त्व  
की अवगति है, और शिरवृत्ति चार को ही विशेषितत्व है, इसमे हेतु मे व्यधिकरणता  
है । शिरवृत्ति प्राण की सात सख्या मे दोष है, क्योंकि वहाँ सात सख्या है नही ।  
इससे भाष्यकार कहते हैं कि उक्त दोनो सूत्रो की यह अन्य योजना ( पदान्वय-व्या-  
ख्यान ) है कि सात ही प्राण सिद्ध होंगे, जिससे मरणकाल मे जीव के साथ, चक्षु,  
नासिका, रसना, वाक्, श्रोत्र, मन और त्वक्—इन सात की ही गति ( उत्क्रान्ति )  
सुनी जाती है कि ( उस जीव के उत्क्रमण करते समय पीछे प्राण भी उत्क्रमण करता  
है, और प्राण के उत्क्रमण, ऊर्ध्वगमन करने पर सब प्राण, इन्द्रियाँ, ऊर्ध्वगमन करते  
हैं ) यहाँ उन चक्षु आदि सातो की गति सुनी जाती है । यदि कहा जाय कि सर्व शब्द  
भी यहाँ पढ़ा जाता है, तो सात की ही गति की प्रतिज्ञा कैसे की जा सकती है । तो  
कहते हैं कि विशेषितत्व से सात की गति की प्रतिज्ञा होती है । जिससे सात ही चक्षु  
आदि और त्वक् प्राण यहाँ विशेषित ( विशेषतायुक्त ) प्रकृत हैं कि ( वह यह चक्षु  
मे रहने वाला सूर्य का अक्षरूप पुरुष जिस काल मे बाहर देश से निवृत्त होता है,  
तब यह जीव ज्ञान से रहित हो जाता है ) देवास के देव से प्रविष्ट होने पर लिंग-  
शरीर के अक्षरूप चक्षु हृदय मे मन के साथ एक हो जाता है । उस समय पास के  
लोग कहते हैं कि अब यह नही देखता है ) इत्यादि अनुक्रमण ( अनुकथन रीति ) से  
सात ही विशेषित हैं । सर्व शब्द प्रकृतगामी ( बोधक ) होता है । जैसे कि सब ब्राह्मण  
भोजयितव्य ( भोजन कराने योग्य ) हैं, ऐसा कहने पर जो निमन्त्रित प्रकृत ब्राह्मण  
रहते हैं, वे ही सर्व शब्द से कहे जाते हैं, अन्य नही । इसी प्रकार यहाँ भी जो प्रकृत  
सात प्राण हैं वे ही सर्व शब्द से कहे जाते हैं अन्य नही । शका होती है कि अष्टम  
विज्ञान ( बुद्धि ) भी यहा समनुक्रान्त ( सहगामी रूप से पठित ) है । फिर सात ही का  
अनुक्रमण ( अनुगमन ) कैसे है । उत्तर है कि मन और विज्ञान में तत्त्व ( वस्तु )  
के अभेद होने से यह दोष नही है । एक अन्तःकरण के मन-बुद्धिरूप वृत्ति के भेद  
रहते भी वस्तुदृष्टि से ससत्त्व की उपपत्ति होती है । इससे सात ही प्राण हैं ।

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि हाथ आदिक भी सात से अधिक अन्य

प्राण ( हस्तो वै ग्रह ) हाथ निश्चित बन्धन का हेतु है। इत्यादि श्रुतियो मे प्रतीत होते हैं उनमे ग्रहत्व, बन्धनत्व रूप समझा जाता है। क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) इस ग्रह नामक बन्धन से बाँधा जाता है, इससे यह ग्रह है। वह क्षेत्रज्ञ एक ही शरीर मे नहीं बाँधा जाता है, जिससे दूसरे शरीरो मे भी बन्धन की तुल्यता है। इससे सर्वत्र बाँधा जाता है। इससे उक्त सात चक्षु आदि के समान हाथ आदि भी जीव के साथ शरीरान्तर मे संचारी ( गमनशील ) ये ग्रहसंज्ञक बन्धन हैं, यह अर्थात् उक्त होता है। इसी प्रकार स्मृति कहती है कि ( वह जीवात्मा प्राणादिस्वरूप पुर्यष्टक नामक लिङ्ग सूक्ष्म शरीर से युक्त होता है। उस लिंग से बद्ध को संसार बन्धन है, उससे मुक्त को संसार से मुक्ति है ) यह स्मृति मोक्ष से पूर्व काल मे ग्रह नामक इस बन्धन से अवियोग दर्शाती है। आथर्वण्य वचन मे विषय और इन्द्रियो के अनुक्रमण ( अनुगमन ) प्रकरण मे ( चक्षु और द्रष्टव्य स्वापकाल मे आत्मा मे गमन करते हैं ) इस स्थान मे चक्षु आदि के साथ तुल्यता वाले विषय सहित हस्तादि इन्द्रियों का अनुक्रमण ( अनुकथन ) श्रुति करती है कि ( हाथ और आदातव्य वस्तु ) उपस्थ और आनन्दयितव्य वस्तु, पायु ( गुदा ) विसर्जयितव्य वस्तु, पाद और गन्तव्य सब स्वापकाल मे आत्मगत हो जाते हैं )। इसी प्रकार ( पुरुष मे ये दश प्राण हैं आत्मा एकादश है। वे जब इस मर्त्य शरीर से उत्क्रमण करते हैं, तब इसके सम्बन्धियों को रूलाते हैं, इससे रुद्र कहाते हैं ) यह श्रुति ग्यारहो प्राणो की उत्क्रान्ति दर्शाती है। प्राण शब्द के साथ सम्बन्धमान ( सम्बन्धयुक्त ) सर्व शब्द भी अशेष ( सम्पूर्ण ) प्राण को कहता हुआ, प्रकरणवश से सात मे ही अवस्थापन ( स्थिर ) नहीं किया जा सकता है। जिससे प्रकरण से शब्द ( श्रुति ) को अतिबलवत्त्व होता है ( सब ब्राह्मण भोजयितव्य हैं ) इस वाक्य मे भी भूमिवर्ती सब ब्राह्मणों का ग्रहण ही सर्वशब्द के सामर्थ्य से न्याययुक्त है। किन्तु सबके भोजन के असम्भव से वहाँ निमन्त्रित मात्र विषयक सर्व शब्द की वृत्ति आश्रित होती है, मानी जाती है। यहाँ तो सर्व शब्दार्थ के संकोचन मे कोई कोई कारण नहीं है। इससे सर्व शब्द से यहाँ अशेष प्राणो का परिग्रह होता है। प्रदर्शन के लिये सात का अनुक्रमण है इससे निर्दोष है। इससे शब्द द्वारा और कार्य द्वारा ग्यारह प्राण हैं, यह सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥

### प्राणाणुत्वाधिकरण ॥ ३, ॥

ध्यापीन्यणूनि वाऽक्षाणि सांख्या व्यापित्वमूचिरे । वृत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे कर्मवशाद्भवेत् ।  
देहस्थवृत्तिमद्भागोऽभेवाहत्वं समाप्यताम् । उत्क्रान्त्यादिश्रुतेस्तामि ह्यणूनि स्युरदर्शनात् ॥

उक्त इन्द्रियाँ अणु ( सूक्ष्म-परिच्छिन्न ) हैं। यहाँ मतभेद से संशय है कि इन्द्रियाँ, व्यापक हैं, वा अणु हैं। पूर्वपक्ष है कि साख्यवादी अहंकार के कार्यरूप इन्द्रियों को संसार मंडल में व्यापक कहते हैं। तत्सत् देहों मे कर्मवश से परिच्छिन्न वृत्ति का लाभ

होता है। सिद्धान्त है कि देहस्थ वृत्ति वाले भागों में ही इन्द्रियत्व समाप्त होता हो तो हो, क्योंकि उत्क्रान्ति आदि के श्रवण से और उत्क्रमण काल में अदर्शन से वे इन्द्रियाँ अणु ही हैं ॥ १-२ ॥

### अणवश्च ॥ ७ ॥

अधुना प्राणानामेव स्वभावान्तरमभ्युच्चिनोति । अणवश्चैते प्रकृताः प्राणाः प्रतिपत्तव्याः । अणुत्व चैषां सौक्ष्म्यपरिच्छेदौ न परमाणुतुल्यत्वं, कृत्स्नदेहव्यापिकार्यानुपपत्तिप्रसङ्गात् । सूक्ष्मा एते प्राणाः स्थूलाश्चेत्स्युर्मरणकाले शरीरान्निर्गच्छन्तो विलादहिरिवोपलभ्येरन्म्रियमाणस्य पार्श्वस्थैः । परिच्छिन्नाश्चैते प्राणाः सर्वगताश्चेत्स्युरुत्क्रान्तिगत्यागतिश्रुतिव्याकोपः स्यात् । तद्गुणसारत्वं च जीवस्य न सिध्येत् । सर्वगतानामपि वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेत् । न वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्तेः । यदेव ह्युपलब्धिसाधनं वृत्तिरन्यद्वा तस्यैव नः करणत्वं संज्ञामात्रे विवाद इति करणानां व्यापित्वकल्पना निरर्थिका । तस्मात्सूक्ष्माः परिच्छिन्नाश्च प्राणा इत्यध्यवस्यामः ॥ ७ ॥

अब इस समय प्राणों के अन्य स्वभाव का प्रासङ्गिक कथन सूत्रकार करते हैं । कि ये प्रकृत इन्द्रियरूप प्राण अणु समक्षने योग्य हैं । इनके अणुत्व, सूक्ष्मत्व ( उद्भूतरूप स्पर्शरहित्व ) और परिच्छेद ( अल्पत्व ) स्वरूप है, परमाणुतुल्यत्व रूप अणुत्व नहीं है । परमाणुतुल्यता होने पर त्वक् इन्द्रिय से सम्पूर्ण देहव्यापि कार्य की अनुपपत्ति का प्रसंग होगा । इससे इन्द्रियाँ परमाणुतुल्य नहीं हैं । ये प्राण सूक्ष्म हैं । यदि स्थूल होते तो मरणकाल में बिल से निकलते हुये सर्पों के समान शरीर से निकलते हुए मरते हुए के पार्श्ववर्ती से उपलब्ध होते, देखे जाते । ये परिच्छिन्न हैं । यदि सर्वगत हो तो उत्क्रान्ति गति और आगति श्रुति का विरोध बाध होगा । जीव के तद्गुणसारत्व ( बुद्धि आदि उपाधिकृत अल्पत्वादि ) की सिद्धि नहीं होगी । यदि ( प्राणाः सर्वेऽनन्ताः ) इस वचन के बल से प्राणों को सर्वगत मानकर कहा जाय कि सर्वगत भी इन प्राणों का वृत्तिलाभ शरीर देश में होगा, जिससे तद्गुणसारत्व आदि की सिद्धि होगी, तो वृत्तिमात्र के करणत्व की उपपत्ति से वह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि वृत्ति वा वृत्ति से अन्य जो ही ज्ञानादि का साधन है, उसी का करणत्व हमें इष्ट है । संज्ञामात्र में विवाद है । इससे करण की व्यापित्व कल्पना निरर्थक है । इससे सूक्ष्म और परिच्छिन्न प्राण हैं, ऐसा अध्यवसाय करते हैं । अनन्तता की श्रुति उपासनार्थक है, इससे उत्क्रान्ति आदि श्रुति के साथ विरोध नहीं है । यह सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

### प्राणश्रैष्ठ्याधिकरण ॥ ४ ॥

सूक्ष्मः प्राणः स्यादनादिर्जायते वा न जायते । आनीदिति प्राणचेष्टा प्राक्सृष्टेः श्रूयते यतः । आनीदिति ब्रह्मतत्त्वं प्रोक्तं वातनिषेधनात् । प्लुतस्माज्जायते प्राण इत्युक्तेरेष जायते ॥

श्रेष्ठ ( मुख्य ) प्राण भी अन्य प्राणों के ही समान उत्पन्न होते हैं, और अणु हैं । यहाँ सहाय होता है कि मुख्य प्राण अनादि हैं, अथवा उत्पन्न होते हैं । पूर्वपक्ष है ऋग्वेद में सृष्टि से पूर्वकाल में ( एकं ब्रह्म आनीत् ) ( एक ब्रह्म प्राणयुक्त था ) इस कथन से जिससे प्राण की चेष्टा 'व्यापार' सुनी जाती है उससे प्राण नहीं उत्पन्न होता है । क्योंकि 'आनीत्' यह 'अन् प्राणने' इस घातु का रूप है । सिद्धान्त है कि, आनीत् के साथ ही 'अवातं' पढा हुआ है, इससे आनीत् इसका प्राण क्रिया युक्त अर्थ नहीं है किन्तु आनीत् का आसीत् अर्थ है, इससे आनीद् यह ब्रह्मतत्त्व कहा गया है । वायु के निषेध से तथा ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ), इस उक्ति से सिद्ध होता है कि यह प्राण उत्पन्न होता है ॥ १-२ ॥

### श्रेष्ठश्च ॥ ८ ॥

मुख्यश्च प्राण इतरप्राणवद्ब्रह्मविकार इत्यतिदिशति । तच्चाविशेषेणैव सर्वप्राणानां ब्रह्मविकारत्वमाख्यातम् । 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' ( मुण्ड० २।१।३ ) इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्योत्पत्तिश्रवणात् । 'स प्राणमसृजत' ( प्र० ६।४ ) इत्यादिश्रवणेभ्यश्च । किमर्थः पुनरतिदेशः ? अधिकाशङ्कापाकरणार्थः । नासदासीये हि ब्रह्मप्रधाने सूक्ते मन्त्रवर्णो भवति 'न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेतः । आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्ब्रह्मन्वन्न परः किञ्चनास' ( ऋ० सं० ८।७।१७ ) इति । आनीदिति प्राणकर्मोपादानात्प्राणोत्पत्तेः सन्तमिव प्राणं सूचयति । तस्मादजः प्राण इति जायते कस्यचिन्मतिः । तामतिदेशेनापनुदति । आनीच्छब्दोऽपि न प्राणोत्पत्तेः प्राणसद्भावं सूचयति । अवातमिति विशेषणात् । 'अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः' इति च मूलप्रकृतेः प्राणादिसमस्तविशेषरहितत्वस्य दर्शितत्वात् । तस्मात्कारणसद्भावप्रशानार्थं एवायमानीच्छब्द इति । श्रेष्ठ इति च मुख्यं प्राणमभिदधाति—'प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च' ( छा० १।१।१ ) इति श्रुतिनिर्देशात् । ज्येष्ठश्च प्राणः शुक्रनिषेककालादारभ्य तस्य वृत्तिलाभात् । न चेत्तस्य तदानीं वृत्तिलाभः स्याद्योनौ निपिक्तं शुक्रं पूयेत न सम्भवेद्वा । श्रोत्रादीनां तु कर्णशङ्कुत्यादिस्थानविभागनिष्पत्तौ वृत्तिलाभात् ज्येष्ठत्वम् । श्रेष्ठश्च प्राणो गुणाधिक्यात्, 'न वै शक्त्यामस्त्वदते जीवितुम्' ( बृ० ६।१।१३ ) इति श्रुतेः ॥ ८ ॥

मुख्य प्राण भी अन्य प्राण के समान ब्रह्म का विकार है, इस प्रकार अतिदेश करते हैं । वह ब्रह्मविकारत्व सब गौण-मुख्य प्राणों का अविशेष रूप से ही श्रुति से आख्यात ( कथित ) है, कि ( इस ब्रह्म से प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है और इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं ) इस प्रकार मन सहित इन्द्रियों से भिन्न प्राण की उत्पत्ति

सुनने से अन्य के तुल्य ही प्राण की उत्पत्ति सिद्ध होती है । ( उसने प्राण को सिरजा ) इत्यादि श्रवण से भी प्राण की उत्पत्ति सिद्ध होती है । शका होती है कि इन्द्रियो के साथ तुल्य उत्पत्ति के श्रवणादि से प्राण की उत्पत्ति के निश्चित होते फिर अतिदेश किस प्रयोजन के लिये है । उत्तर है कि अधिक शका के निवारण के लिये अतिदेश है । वह शंका यह है कि ( नासदासीन्न सदासीत् ) न कार्य था, न कारण था । इस प्रकार आरम्भ करके पठित ब्रह्मप्रधान सूक्त से मन्त्रवर्ण है कि ( न मृत्यु था, न देवताओं का भोग्य अमृत था, न उस समय रात्रि और दिन के प्रकेत (चिह्न) स्वरूप चन्द्र-सूर्य ही थे, किन्तु माया रूप स्वधासहित वायुरहित वह एक ब्रह्म था, उससे अन्य पर कुछ नहीं था ) इस मन्त्र मे आनीत् इस पद से प्राण के कर्म के ग्रहण से जगत् की उत्पत्ति से पूर्व काल मे प्राण को विद्यमान के समान मन्त्र सूचित करता है । इससे प्राण अज है, ऐसी किसी की बुद्धि होती है, उस बुद्धि को अतिदेश से निवारण करते हैं कि आनीत् शब्द भी उत्पत्ति से पूर्वकाल मे प्राण के सद्भाव की सूचना नहीं करता है । क्योंकि 'अवातम्' इस ब्रह्म के विशेषण से और ( ब्रह्मात्मा मन और प्राण से रहित शुभ्र है ) इस श्रुति से मूलप्रकृति की प्राणादि समस्त विकार से रहितता के प्रदर्शित होने से प्राणसत्ता की सूचना नहीं हो सकती है । इससे कारण की सत्ता का प्रदर्शनार्थक ही यह आनीत् शब्द है । श्रेष्ठ यह शब्द मुख्य प्राण को कहता है । जिससे ( प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ) इस प्रकार श्रुति मे निर्देश है । शुक्र ( वीर्य ) का निषेक ( गर्भाधान ) काल से ही इस प्राण की वृत्ति के लाभ ( प्राप्ति ) से प्राण ज्येष्ठ है । यदि उस समय प्राण का वृत्तिलाभ नहीं हो, तो योनि ( गर्भाशय ) मे निषिक्त ( प्राप्त ) भी वीर्य विनष्ट दूषित हो जाय या गर्भ का सम्भव न हो सकता है । श्रोत्रादि का तो कर्णशष्कुली ( कर्णगोलक ) आदि स्थान विभागों की सिद्धि होने पर वृत्तिलाभ होने से, उन्हें ज्येष्ठत्व नहीं है । ( तेरे बिना जीवित नहीं रह सकते हैं ) इस श्रुति से प्राण मे गुण की अधिकता की सिद्धि से प्राण श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥

### वायुक्रियाधिकरण ॥ ५ ॥

वायुर्वाङ्मक्रिया वान्यो वा प्राणः श्रुतितोऽनिलः । सामान्येन्द्रियवृत्तिर्वा सांख्यैरेवसुदीरणात् । भाति प्राणो वायुनेति भेदोक्तेरेकताश्रुतिः । वायुजत्वेन सामान्यवृत्तिर्नाभेत्वतोऽन्यता ॥

मुख्य प्राण चलनादि क्रिया वाला वायु के समान और वायु के कार्य होते भी भूतात्मक वायु रूप ही नहीं है, न अन्य प्राणों के व्यापार रूप है, जिससे वायु और व्यापारों से पृथक् प्राण का उपदेश है । इससे प्राण उनसे भिन्न है । यहाँ सशय होता है कि ( यः प्राणः स वायुः ) इस श्रुति के अनुसार, प्राण वायु स्वरूप है । वा ( सामान्या करणवृत्तिः ) इत्यादि साध्यकारिका के अनुसार इन्द्रियो की क्रियारूप प्राण है । अथवा इन दोनों से अन्य है । पूर्वपक्ष है कि श्रुति से वायुरूप प्राण है ।

अथवा सामान्य इन्द्रियों की वृत्ति जीवन रूप ही प्राण है। सिद्धान्त है कि वायु से प्राण भासता है, इस प्रकार भेद के कथन से और इन्द्रियों में सामान्य वृत्ति के अभाव से, प्राण में अन्यता है, और प्राण के वायुजन्य होने से वायु के साथ प्राण की एकता की श्रुति है ॥ १-२ ॥

### न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् ॥ ९ ॥

स पुनर्मुख्यः प्राणः किंस्वरूप इतीदानीं जिज्ञास्यते। तत्र प्राप्त तावच्छ्रुतेर्वायुः प्राण इति। एवं हि श्रूयते—‘यः प्राणः स वायुः स एष वायुः पञ्चविधः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः’ इति। अथवा तन्त्रान्तरीयाभिप्रायात्समस्तकरणवृत्तिः प्राण इति प्राप्तम्। एवं हि तन्त्रान्तरीया आचक्षते—‘सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्चे’ति।

अत्रोच्यते—न वायुः प्राणो नापि करणव्यापारः। कुतः? पृथगुपदेशात्। वायोस्तावत्प्राणस्य पृथगुपदेशो भवति—‘प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च’ (छान्दो० ३।१८।४) इति। नहि वायुरेव सन् वायोः पृथगुपदिश्यते। तथा करणवृत्तेरपि पृथगुपदेशो भवति, वागादीनि करणान्यनुक्रम्य तत्र तत्र पृथक्प्राणस्यानुक्रमणात्। वृत्तिवृत्तिमतोश्चाभेदात्। नहि करणव्यापार एव सन् करणेभ्यः पृथगुपदिश्यते। तथा ‘एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुः’ (मु० २।१।३) इत्येवमादयोऽपि वायोः करणेभ्यश्च प्राणस्य पृथगुपदेशः अनुसर्तव्याः। नच समस्तानां करणानामेका वृत्तिः सभवति, प्रत्येकमेकैकवृत्तित्वात्समुदायस्य चाकारकत्वात्।

वह मुख्य प्राण किस स्वरूप वाला है, यह जिज्ञासा फिर की जाती है। यहाँ श्रुति से प्रथम पूर्वपक्ष प्राप्त होता है कि वायु स्वरूप प्राण है। जिससे ऐसा सुना जाता है कि ( जो प्राण है वह वायु है, और वह प्राणरूप वह वायु पाँच प्रकार का है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये पाँच प्रकार हैं ) अथवा शास्त्रान्तर के अभिप्राय से समस्तकरण की वृत्ति रूप प्राण है, ऐसा प्राप्त होता है। जिससे शास्त्रान्तर के अध्ययन वाले ऐसा कहते हैं कि ( प्राण आदि पाचों वायु करणों की सामान्य वृत्ति ( व्यापार ) रूप हैं )।

यहाँ कहा जाता है कि प्राण न वायु है, न करणों का व्यापार रूप है। क्योंकि प्राण का पृथक् उपदेश है। प्रथम वायु प्राण का पृथक् उपदेश है कि ( वाक्, चक्षु, श्रोत्र की अपेक्षा मनरूप ब्रह्म के प्राण चतुर्थपाद है। वह वायुरूप ज्योति अधिदैव से भासता है, व्यक्त होता है, और व्यक्त होकर तपता है कार्य के लिए समर्थ होता है ) यदि प्राण वायु होता तो वायुरूप ही होता हुवा वायु से पृथक् उपदेश का विषय नहीं होता। इसी प्रकार करणों की वृत्ति से भी प्राण की पृथक् उपदेश होता है,



वाक् आदि इन्द्रियों का अनुक्रमण ( क्रम से कथन ) करके तत्तत् स्थानो मे प्राण का पृथक् अनुक्रमण हो वृत्ति से भिन्न प्राण का उपदेश सिद्ध होता है । क्योंकि वृत्ति और वृत्तिमान् मे अभेद से वृत्तिमान् के उपदेश से ही वृत्ति का उपदेश सिद्ध हो जाता है । इससे करणो का व्यापार ही होता हुआ प्राण करणो से पृथक् नही उपदिष्ट हो सकता है । इसी प्रकार ( इस पुरुष से प्राप्त मन सब इन्द्रिय और आकाश वायु सब उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि भी वायु और करणो से प्राण के पृथक् उपदेश अनुसर्तव्य ( स्वीकार्य ) हैं । समस्त करणो की एक वृत्ति का सम्भव नही है । क्योंकि प्रत्येक करणो को एक-एक वृत्तिमत्त्व है । समुदाय को करणरूप कारकत्व भी नही है कि जिससे व्यापार हो ॥

ननु पञ्जरचालनन्यायेनैतद्भविष्यति, यथैकपञ्जरवर्तिन एकादशपक्षिणः प्रत्येकं प्रतिनियतव्यापाराः सन्तः संभूयैकं पञ्जरं चालयन्ति, एवमेकशरीर-वर्तिन एकादश प्राणाः प्रत्येकं प्रतिनियतवृत्तयः सन्तः संभूयैकां प्राणाख्यां वृत्तिं प्रतिलिप्सन्ति इति । नेत्युच्यते । युक्तं तत्र प्रत्येकवृत्तिभिरवान्तरव्यापारैः पञ्जरचालनानुरूपैरेवोपेताः पक्षिणः संभूयैकं पञ्जरं चालयेयुरिति, तथा दृष्टत्वात् । इह तु श्रवणाद्यवान्तरव्यापारोपेताः प्राणा न संभूय प्राण्युरिति युक्तम्, प्रमाणाभावात् । अत्यन्तविजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्यः प्राणनस्य । तथा प्राणस्य श्रेष्ठत्वाद्युद्धेपणं गुणभावोपगमश्च तं प्रति वागादीनां, न करणवृत्तिमात्रे प्राणेष्वकल्पते, तस्मादन्यो वायुक्रियाभ्यां प्राणः । कथं तर्हीयं श्रुतिः 'यः प्राणः स वायुः' इति । उच्यते—त्रायुरेवायमध्यात्ममापन्नः पञ्चव्यूहो विशेषात्मनावतिष्ठमानः प्राणो नाम भण्यते न तत्त्वान्तरं नापि वायुमात्रम्, अतश्चोभे अपि भेदाभेदश्रुती न विरुध्येते ॥ ६ ॥

शंका होती है कि पञ्जर-चालन न्याय से प्रत्येक वृत्तिवृन्त भी यह समुदायवृत्ति भी हो सकती है । जैसे कि एक पिंजड़ा मे रहने वाले ग्यारह पक्षी हों तो प्रत्येक प्रतिनियत भिन्न-भिन्न व्यापार वाले होते हुए भी साथ होकर एक पिंजडे को चलाते, हिलाते हैं । इसी प्रकार एक शरीर मे रहने वाले ग्यारह इन्द्रियाँ प्रत्येक दर्शन-श्रवणादि रूप प्रतिनियत-वृत्तिवालो होती हुई भी साथ होकर एक प्राणनामक वृत्ति का प्रतिलाभ करेगीं । उत्तर कहा जाता है कि ऐसा हो नही सकता है । उस दृष्टान्त में तो युक्त है कि प्रत्येक पक्षिवृत्ति पञ्जरचालनानुकूल-अवान्तर व्यापारो से युक्त पक्षी सब मिल कर एक पिंजड़ा को चलावे, क्योंकि वैसा देखा जाता है, और प्रत्यक्षदृष्टत्व से युक्त है । यहाँ दार्ष्टान्तिक में तो श्रवणादिरूप अवान्तर व्यापारो से युक्त इन्द्रियाँ मिल कर प्राणन ( जीवन ) व्यापार करें, यह युक्त नही है । जिससे इस मे प्रमाण का अभाव है । श्रवणादिरूप इन्द्रियों का व्यापार अपरिस्पन्द ( अलचन ) रूप हैं । प्राण का व्यापार परिस्पन्दरूप है । इससे श्रवणादि से प्राणन को अत्यन्त विजातीयत्व है,

इससे भी इन्द्रियो का प्राणन व्यापार नहीं हो सकता है। इसी प्रकार प्राण के श्रेष्ठत्वादि का कथन और वागादिरूप प्राणो का उस मुख्य प्राण के प्रति गुणभाव (अधीनत्व) का स्वीकार, करणो के वृत्तिमात्ररूप प्राण में नहीं सिद्ध हो सकता है। इससे वायु और क्रिया (करण वृत्ति) से प्राण अन्य है। यदि कहे कि (जो प्राण है वह वायु है) यह श्रुति कैसे युक्त होगी। तो कहा जाता है कि यह वायु ही अध्यात्म (सूक्ष्म शरीरगत) होकर फिर स्थूल देह को प्राप्त होकर, पाँच अकार वाला होकर विशेष स्वरूप से स्थिर होता हुआ प्राण नाम से कहा जा सकता है। इससे न तत्वातर है, न वायुमात्र प्राण है, इससे वायु से प्राण का भेद और अभेद विषयक श्रुतिविरुद्ध नहीं है ॥ ९ ॥

स्यादेतत् । प्राणोऽपि तर्हि जीववदस्मिन्शरीरे स्वातन्त्र्यं प्राप्नोति, श्रेष्ठत्वाद् गुणभावोपगमाच्च तं प्रति वागादीनामिन्द्रियाणाम् । तथाह्यनेकविधा विभूतिः प्राणस्य श्राव्यते—‘सुप्तेषु वागादिषु प्राण एको हि जागर्ति प्राण एको मृत्युनाऽनाप्तः प्राणः संवर्गो वागादीन्संबृंक्ते प्राण इतरान्प्राणान् रक्षति मातेव पुत्रान्’ इति । तस्मात्प्राणस्यापि जीववत्स्वातन्त्र्यप्रसंगः । तं परिहरति—

यहाँ शंका होती है कि प्राण करणो की वृत्तिरूप नहीं हो, परन्तु ऐसा होने पर तो प्राण भी इस शरीर में जीव के समान स्वतन्त्रता को प्राप्त होता है। श्रेष्ठत्व से तथा वागादि इन्द्रियों का उसके प्रति गुणभाव (दासत्व-अंगत्व) के स्वीकार से भी प्राण की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की प्राण की विभूति सुनाई जाती है कि (वागादि से सुप्त होने पर भी शरीर में एक प्राण जागता रहता है। एक प्राण ही मृत्यु से प्राप्त नहीं किया जाता है। प्राण संवर्गसंहरणकर्ता है, इससे वागादि का सवरण संहरण करता है) माता जैसे पुत्रो की रक्षा करती है, वैसे प्राण अन्य प्राणों की रक्षा करता है) इससे जीव के समान प्राण की स्वतन्त्रता का प्रसंग है। इस प्रसंग का परिहार (निवारण) सूत्रकार करते हैं कि—

**चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्यादिभ्यः ॥ १० ॥**

तुशब्दः प्राणस्य जीववत्स्वातन्त्र्यं व्यावर्तयति । यथा चक्षुरादीनि राजप्रकृतिवज्जीवस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च प्रत्युपकरणानि न स्वतन्त्राणि, तथा मुख्योऽपि प्राणो राजमन्त्रिवज्जीवस्य सर्वार्थकरत्वेनोपकरणभूतो न स्वतन्त्रः । कुतः ? तत्सहशिष्यादिभ्यः । तैश्चक्षुरादिभिः सहैव प्राणः शिष्यते प्राणसंवादादिषु, समानधर्माणां च सह शासनं युक्तं बृहद्रथन्तरादिवत् । आदिशब्देन संहतत्वाच्चेतनत्वादीन्प्राणस्य स्वातन्त्र्यनिराकरणहेतून्दर्शयति ॥ १० ॥

सूत्रगत तु शब्द जीवतुल्य प्राण की स्वतन्त्रता की व्यावृत्ति करता है कि जैसे चक्षु आदि राजा की प्रकृति ( प्रजा, पुरवासी, सेवक ) के समान जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व के प्रति उपकरण ( साधन ) रूप हैं । स्वतन्त्र नहीं हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी राजमन्त्री के समान जीव के सर्वार्थ के कारक ( साधक ) रूप से उपकरण स्वरूप है, स्वतन्त्र नहीं है । ऐसा क्यों है कि उन नेत्रादिको के साथ उपदेशादि से प्राण उपकरण ही है । उन प्राणादिको के साथ ही प्राण सवादादि में प्राण उपदिष्ट होता है । समान धर्म वाले का साथ शासन ( उपदेश ) युक्त होता है । जैसे कि बृहद्, साम और रथन्तर साम, सामवेद के भागविशेष हैं । वे सामत्वादि से तुल्य धर्म वाले होने से सर्वत्र साथ पढे जाते हैं, वैसे यहाँ समझना चाहिये । सूत्रगत आदि शब्द से संहतत्व अचेतनत्वादि रूप प्राण की स्वतन्त्रता के निराकरण के हेतुओं को दर्शति है ॥ १० ॥

स्यादेतत् । यदि चक्षुरादिवत्प्राणस्य जीवं प्रति करणभावोऽभ्युपगम्येत, विषयान्तरं रूपादिवत्प्रसज्येत, रूपाद्यालोचनादिभिवृत्तिभिर्विषयास्वं चक्षुरादीनां जीवं प्रति करणभावो भवति । अपि चैकादशैव कार्यजातानि रूपालोचनादीनि परिगणितानि यदर्थमेकादश प्राणाः संगृहीताः नतु द्वादशमपि कार्यजातमधिगम्यते यदर्थमयं द्वादशः प्राणः प्रतिज्ञायतेति अत उत्तरं पठति—

फिर शंका होती है कि यह जीव के प्रति प्राण को उपकरणत्व रहे, परन्तु यदि चक्षु आदि के समान जीव के प्रति प्राण को करणत्व माना जाता है, तो चक्षु आदि के रूपादि विषय के तुल्य प्राण का भी विषयान्तर प्राप्त होता है, कि जिसके द्वारा प्राण जीव का उपकार कर सकेगा । जैसे कि रूपादि के प्रदर्शन द्वारा नेत्रादि जीव का उपकार करते हैं । इससे रूपादि के आलोचन ( दर्शन ) आदि वृत्ति द्वारा ही चक्षु आदि को जीव के प्रति ( यथास्व ) अपने-अपने विषयो के अनुसार करणभाव होता है । दूसरी बात है कि रूपादि के आलोचन आदि रूप ग्यारह ही कार्यसमूह परिगणित हैं, कि जिनके लिए ग्यारह प्राण संगृहीत ( स्वीकृत ) हैं । बारहवाँ अन्य कार्यसमूह नहीं अधिगत ( अनुभूत ) होते हैं कि जिनके लिए यह बारहवाँ प्राण प्रतिज्ञात ( स्वीकृत ) हो । अतः उत्तर पढते हैं कि—

**अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दर्शयति ॥ ११ ॥**

न तावद्विषयान्तरप्रसङ्गो दोषः, अकरणत्वात्प्राणस्य । नहि चक्षुरादिवत्प्राणस्य विषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपगम्यते । न चास्यैतावता कार्याभाव एव । कस्मान् ? तथाहि श्रुतिः प्राणान्तरेष्वसंभाव्यमानं मुख्यप्राणस्य वैशेषिकं कार्यं दर्शयति प्राणसंवादादिषु—‘अथ ह प्राणा अहंश्रेयसि व्यूदिरे’ इत्युपक्रम्य ‘यस्मिन्न उक्रान्त इदं शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते स वः श्रेष्ठः’ ( छा०

५।१६,७) इति चोपन्यस्य प्रत्येकं वागाद्युत्क्रमणेन तद्वृत्तिमात्रहीनं यथापूर्वं जोषनं दर्शयित्वा प्राणोच्चिक्रमिषायां वागादिशैथिल्यापत्तिं शरीरपातप्रसङ्गं च दर्शयन्ती श्रुतिः प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रियस्थितिं दर्शयति—‘तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि’ इति च । तमेवार्थं श्रुतिराह—‘प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम्’ (बृ० ४।३।१२) इति च सुमेषु चक्षुरादिषु प्राणनिमित्तां शरीररक्षां दर्शयति । ‘यस्मात्कस्माच्चाङ्गात्प्राण उत्क्रामति तदैव तच्छुष्यति’ (बृ० १।३।१६) । ‘तेन यदरुनाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति’ इति च प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रियपुष्टिं दर्शयति । ‘कस्मिन्वहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि’ इति, ‘स प्राणमसृजत’ इति च प्राणनिमित्ते जीवस्योत्क्रान्तिप्रतिष्ठे दर्शयति ॥ ११ ॥

प्राण का विषयान्तर की प्राप्ति रूप दोष तो, प्राण की अकरणता से नहीं है । जिससे विषयों के परिच्छेद ( व्यावृत्ति . दर्शनादि ग्रहणादि ) से चक्षु आदि को करण ( व्यापार वाला असाधारण कारण ) मानते हैं । वैसे विषय के परिच्छेद से प्राण के करणत्व नहीं माना जाता है । परन्तु ऐसा कर्णत्वाभाव होने से इस प्राण के कार्य का ही अभाव नहीं है । क्योंकि इसी प्रकार प्राण के संवादादि में अन्य प्राणों में असम्भव मुख्य प्राण के विशेषतायुक्त श्रेष्ठ कार्य को श्रुति दर्शाती है कि ( गुणयुक्त होने पर प्राण सब अपनी श्रेष्ठता के लिये विवाद करने लगे ) इस प्रकार उपक्रम करके ( तुम सब में जिसके उत्क्रान्त होने से यह शरीर अत्यन्त पापरूप के समान दीख पड़े वह तुम में श्रेष्ठ है ) इस प्रकार कह कर, प्रत्येक वाक् आदि के उत्क्रमण से तत्तत् वृत्तिमात्र से रहित सूक्ष्म आदि रूप से पूर्व के समान जीवन को दर्शा कर, प्राण के उत्क्रमण की इच्छामात्र से वाक् आदि की शिथिलता की प्राप्ति और शरीरपात के प्रसंग को दर्शाती हुई श्रुति, प्राण, निमित्तक शरीर और इन्द्रियों की स्थिति को दर्शाती है कि ( उन वाक् आदिको के प्रति वरिष्ठ अत्यन्त उरु-बड़ा ) प्राण ने कहा कि मोह को नहीं प्राप्त हो, मैं ही इस आत्मा को पाँच रूप से प्रविभक्त करके इस कार्य-कारणत्मक शरीर को पकड़ कर धारण करता हूँ ) और इसी अर्थ को श्रुति कहती है कि ( यह जीव प्राण द्वारा इस अवर नीच निकृष्ट कुलाय देह नामक गृह का रक्षा करता हुआ सोता है ) इस प्रकार चक्षु आदि के सुप्त लीन होने पर भी प्राणनिमित्तक शरीर की रक्षा को श्रुति दर्शाती है । ( जब जिस किसी अंग से प्राण उत्क्रमण करता है, तभी वह अंग सूख जाता है ) और ( उस प्राण द्वारा जो जीव खाता है, जो पीता है उससे इतर प्राणों की रक्षा करता है ) इस प्रकार भी प्राणनिमित्तक शरीर और इन्द्रियों की पुष्टि को श्रुति दर्शाती है । ( किसके उत्क्रान्त होने से मैं उत्क्रान्त होऊँगा या किसके शरीर में प्रतिष्ठित रहने से प्रतिष्ठित रहूँगा, ऐसा सोच कर उस जीवात्मा ने प्राण को रचा ) यह श्रुति भी प्राणनिमित्तक जीव की उत्क्रान्ति और स्थिति को दर्शाती है ॥ ११ ॥

## पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते ॥ १२ ॥

इतश्चास्ति मुख्यस्य प्राणस्य वैशेषिकं कार्यं, यत्कारणं पञ्चवृत्तिरयं व्यप-  
दिश्यते श्रुतिषु 'प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः' ( बृ० १।५।३ ) इति ।  
वृत्तिभेदश्चायं कार्यभेदापेक्षः । प्राणः प्राग्वृत्तिरुच्छ्वासादिकर्मा । अपानोऽर्वा-  
ग्वृत्तिर्निश्वासादिकर्मा । व्यानस्तयोः संधौ वर्तमानो वीर्यवत्कर्महेतुः । उदान  
ऊर्ध्ववृत्तिरुत्क्रान्त्यादिहेतुः । समानः समं सर्वेष्वङ्गेषु योऽन्नरसान्नयतीति ।  
एवं पञ्चवृत्तिः प्राणो मनोवत्, यथा मनसः पञ्चवृत्तय एव प्राणस्यापीत्यर्थः ।  
श्रोत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविषया मनसः पञ्च वृत्तयः प्रसिद्धाः, नतु कामः  
संकल्प इत्याद्याः परिपठिताः परिगृह्येरन्, पञ्चसंख्यातिरेकात् । नन्वत्रापि  
श्रोत्रादिनिरपेक्षा भूतभविष्यदादिविषयाऽपरा मनसो वृत्तिरस्तीति समानः  
पञ्चसंख्यातिरेकः । एवं तर्हि 'परमतमप्रतिषिद्धमनुमतं भवति' इति न्यायादि-  
हापि योगशास्त्रप्रसिद्धा मनसः पञ्चवृत्तयः परिगृह्यन्ते 'प्रमाणविपर्ययविकल्प-  
निद्रास्मृतयः' ( पात० योग० सू० १।१।६ ) नाम । बहुवृत्तित्वाभावेण वा मनः  
प्राणस्य निदर्शनमिति द्रष्टव्यम् । जीवोपकरणत्वमपि प्राणस्य पञ्चवृत्तित्वा-  
न्मनोवदिति योजयितव्यम् ॥ १२ ॥

इमं वक्ष्यमाणं हेतुं से भी मुख्य प्राण का विशेषतायुक्त कार्य है, कि जिस  
कारण से पाँच वृत्ति वाला यह प्राण श्रुतियों में कहा जाता है, कि ( प्राण, अपान,  
व्यान, उदान, समान ) ये सब प्राण के व्यापार रूप और प्राण ही हैं । ये वृत्तियों  
के भेद कार्य भेद की अपेक्षा से हैं । नासिकादि द्वारा आगे की तरफ वृत्ति वाला ऊर्ध्व  
श्वासादि क्रिया वाला प्राण है । नीचे की तरफ वृत्ति वाला निश्वासादि क्रिया वाला  
अपान है । उन दोनों की सन्धि ( सन्धान मध्य ) में वर्तमान सामर्थ्य वाला कर्म का  
हेतु व्यान है । ऊर्ध्ववृत्ति वाला उत्क्रान्ति आदि का हेतु उदान है । जो सब अङ्गों में  
समतापूर्वक अन्न के रसों को यथायोग्य प्राप्त करता है सो समान है । इस प्रकार मन  
के समान पाँच वृत्ति ( अवस्था ) वाला प्राण है । इससे जैसे मन की पाँच वृत्तियाँ हैं,  
इसी प्रकार प्राण की भी हैं यह अर्थ है । श्रोत्रादि निमित्तक शब्दादि विषयक मन की  
पाँच वृत्तियाँ प्रसिद्ध हैं । पाँच संख्या से अधिक होने से ( कामः संकल्प. ) इत्यादि श्रुति  
में परिपठित कामादिक पाँच वृत्तियाँ शब्द से नहीं गृहीत हो सकती हैं । यहाँ शंका होती  
है कि कामादि रूप श्रुति प्रसिद्ध मनोवृत्ति को नहीं मानने पर भी लोक में प्रसिद्ध भी  
वर्तमान काल मात्र ग्राही श्रोत्रादिजन्य ज्ञान रूप पाँच ही वृत्तियाँ नहीं हैं, किन्तु लोक में  
भी प्रसिद्ध ज्ञान श्रोत्रादि निरपेक्ष अतएव भूत भविष्यदादि विषयक अनुमानादिजन्य  
अपर ( पाँच से अन्य ) भी मन की वृत्ति रूप है । इससे ज्ञान में भी पाँच से अतिरेक  
( अधिकता ) तुल्य है । ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि यदि ऐसा है तो ( अप्रतिषिद्ध  
परमत भी अनुमत स्वीकृत होता है । इस न्याय से इस सूत्र में भी योगशास्त्र में प्रसिद्ध

मन की पाँच वृत्तियाँ परिगृहीत होगी, जो ( प्रमाण ( प्रमिति ) विपर्यय ( भ्रम ) विकल्प ( असत् की कल्पना ) तामसी वृत्तिरूप निद्रा और स्मृति नाम वाली वृत्तियाँ हैं ) अथवा बहुत वृत्ति वाला होने मात्र से मन प्राण का दृष्टान्त है, मन की पाँच वृत्ति का नियम नहीं है ऐसा समझना चाहिये । मन के समान पाँच वृत्ति वाला होने से प्राण को जीव के प्रति उपकरणात्त्व भी है, इस प्रकार सूत्र योजना के योग्य है ॥ १२ ॥

### श्रेष्ठाणुवाधिकरण ॥ ६ ॥

प्राणोयं विभुरल्पो वा विभुः स्यात्प्लुष्युपक्रमे । हिरण्यगर्भपर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तिः ॥१॥  
समष्टिव्यष्टिरूपेण विभुरेवाधिदैविकः । आध्यात्मिकोऽल्पः प्राणः स्याददृश्यश्च यथेन्द्रियम् ॥२॥

मुख्य प्राण भी अणु ( परिच्छिन्न ) और सूक्ष्म है । यहाँ संशय है कि यह प्रसिद्ध प्राण विभु है अथवा अल्प ( परिच्छिन्न ) है । पूर्वपक्ष है कि प्लुषी ( पुत्तिका पतंगा ) से लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त सब देहों में ( समप्लुषिणा ) इस श्रुति में सम प्राण के कथन से प्राण विभु होगा । सिद्धान्त है कि समष्टि व्यष्टि रूप से वर्तमान आधिदैविक श्रुति कथित प्राण ही विभु है । आध्यात्मिक प्राण अल्प होगा और इन्द्रिय के समान अदृश्य होगा, और है ॥ १-२ ॥

### अणुश्च ॥ १३ ॥

अणुश्चायं मुख्यः प्राणः प्रत्येतव्य इतरप्राणवत् । अणुत्वं चेन्नपि सौक्ष्म्य-  
परिच्छेदौ न परमाणुतुल्यत्वम् । पञ्चभिवृत्तिभिः कृत्स्नशरीरव्यापित्वात् ।  
सूक्ष्मः प्राण उत्क्रान्तौ पार्श्वस्थेनानुपलभ्यमानत्वात् , परिच्छिन्नश्चोत्क्रान्ति-  
गत्यागतिश्रुतिभ्यः । ननु विभुत्वमपि प्राणस्य समान्नायते—‘समः प्लुषिणा  
समो मशकंन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिल्लोकैः समोऽनेन सर्वेण’ ( बृ०  
१।३।२२ ) इत्येवमादिप्रदेशेषु । तदुच्यते—आधिदैविकेन समष्टिव्यष्टिरूपेण  
हिरण्यगर्भेण प्राणात्मनैवैतद्विभुत्वमान्नायते नाध्यात्मिकेन । अपिच समः  
प्लुषियोत्यादिना साम्यवचनेन प्रतिप्राणिवर्तिनः प्राणस्य परिच्छेद एव  
प्रदर्शयते तस्माददोषः ॥ १३ ॥

यह मुख्य प्राण अन्य प्राणों के समान अणु समझने योग्य है । यहाँ भी सूक्ष्मता और परिच्छेद रूप ही अणुत्व है । परमाणुतुल्यत्व रूप अणुत्व नहीं है, जिससे पाँच वृत्तियों द्वारा सम्पूर्ण शरीर में व्यापित्व होने से अणु तुल्यत्व का सम्भव नहीं है । मरण काल में शरीर से उत्क्रान्त प्राण पार्श्वस्थ से अनुपलभ्यमान होने से सूक्ष्म है । उत्क्रान्त गति आगति की श्रुति से परिच्छिन्न भी है । शका होती है कि ( प्राण प्लुषि के सम है, मशक के सम है, हाथी के सम है, इस तीन लोक के सम है, इस सबके साथ सम तुल्य है ) इत्यादि प्रदेशों में प्राण की विभुता भी श्रुति में कही जाती है, फिर अणुता का निश्चय कैसे हो सकता है, उसका उत्तर कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ सम्बन्धी आधिदैविक समष्टि रूप प्राण स्वरूप से यह विभुत्व कहा जाता है, आध्यात्मिक रूप से

विभुत्व नहीं कहा जाता है। दूसरी बात है कि 'प्लुषि के समान है' इत्यादि समता के वचन से प्रत्येक प्राणी में रहने वाला प्राण का परिच्छेद ही प्रदर्शित होता है। तीन लोक की तुल्यता विराट् दृष्टि से कही गई है, इस सबसे तुल्यता हिरण्यगर्भ दृष्टि से है जिससे दोष नहीं है ॥ १३ ॥

### ज्योतिराद्यधिकरण ॥ ७ ॥

स्वतन्त्रा देवतन्त्रा वा वागाद्याः स्युः स्वतन्त्रता ।  
 नोचेद्वागादिजो भोगो देवानां स्यान्न चात्मनः ॥ १ ॥  
 श्रुतमग्न्यादितन्त्रत्वं भोगोऽग्न्यादेस्तु नोचितः ।  
 देवदेहेषु सिद्धत्वाज्जीवो भुक्ते स्वकर्मणा ॥ २ ॥

वाक् आदि इन्द्रियो में अग्नि आदि देव के अश भी अधिष्ठान ( अधिष्ठाता ) रूप से वर्तमान रहते हैं। जिससे ( अग्निर्वाग् भूत्वा मुख प्राविशत् ) इत्यादि श्रुति देवरूप अधिष्ठान का आमनन करती है कथन करती है, इससे अधिष्ठातृ देव सिद्ध होता है। संशय है कि वाक् आदि अपने कार्य के लिए स्वतन्त्र हैं। अथवा देव के अधीन कार्य के लिए समर्थ हो सकते हैं। यहाँ पूर्वपक्ष है कि स्वतन्त्र हैं क्योंकि (वाचा हि नामान्य-भिवदति ) इत्यादि श्रुति से वाक् आदि मात्र में तत्तत् क्रियाओं का करणत्व सुना जाता है। ( अग्नि वाक् होकर मुख में पैठा ) यह कथन जब अग्नि में वाक् की उपादानता दृष्टि से है। चेतन जीव के अधिष्ठाता रहते अन्य अधिष्ठाता का कोई फल भी नहीं है। यदि ऐसा नहीं होगा तो वाक् आदि जन्य भोग देवों को होगा, जीवत्मा को नहीं होगा इत्यादि। सिद्धान्त है कि दूरस्थ सूर्य मण्डलादि नेत्रादि के उपादान नहीं हो सकते हैं, इससे मुखादि में प्रवेश श्रुति अधिष्ठातृ दृष्टि से ही है। जीव अनिष्ट का भी दर्शनादि कर्ता है इससे यह अधिष्ठाता नहीं है किन्तु अग्नि के अधीनत्व सुना गया है यही उचित है। अधिष्ठेय वागादि से देव को भोग होना उचित नहीं है, उनके देव देहों में भोग के साधन वागादि स्वयं पृथक् हैं, जिनसे देव देह में उत्तम भोग के सिद्ध होने से तुच्छ भोगों की अपेक्षा नहीं है। साधारण जीव अपने कर्मों द्वारा तुच्छ भोगों को भोगता है ॥ १-२ ॥

### ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात् ॥ १४ ॥

ते पुनः प्रकृताः प्राणाः किं स्वमहिम्नैव स्वस्मै स्वस्मै कार्याय प्रभवन्त्याहोस्विदैवताधिष्ठिताः प्रभवन्तीति विचार्यते । तत्र प्राप्तं तावद्यथास्वं कार्य-शक्तियोगात्स्वमहिम्नैव प्राणाः प्रवर्तेरन्निति । अपि च देवताधिष्ठितानां प्राणानां प्रवृत्तावभ्युपगम्यमानायां तासामेवाधिष्ठात्रीणां देवतानां भोक्तृत्व-प्रसङ्गाच्छारीरस्य भोक्तृत्वं प्रलीयेत्, अतः स्वमहिम्नैवैषां प्रवृत्तिरिति ।

फिर विचार किया जाता है कि वे प्रकृत गौण मुख्य प्राण क्या अपनी-अपनी महिमा सामर्थ्य मात्र से अपने-अपने कार्यों के लिए प्रभु ( समर्थ ) होते हैं अथवा अधिदेव के आश्रित होकर कार्यों के लिए समर्थ होते हैं। यहाँ प्रथम पूर्वपक्ष प्राप्त होता

है कि अपने-अपने विषयो कार्यों के अनुसार कार्य शक्ति के सम्बन्ध से अपनी अपनी महिमाओ से ही प्राण सब प्रवृत्त होगे । दूसरी बात है कि देवताओ से अधिष्ठित प्राणों की प्रवृत्ति मानने पर, उन अधिष्ठातृ देवों को ही भोक्तृत्व की प्राप्ति से, शारीर ( जीवात्मा ) का भोक्तृत्व प्रलीन हो जायगा ( नहीं रहेगा ) अतः स्वमहिमा से ही इन प्राणों की प्रवृत्ति होती है ।

एवं प्राप्त इदमुच्यते—ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु इति । तुशब्देन पूर्वपक्षी व्यावर्त्यते । ज्योतिरादिभिरग्न्याद्यभिमानिनीभिर्देवताभिरधिष्ठितं वागादिकरण-जातं स्वकार्येषु प्रवर्तत इति प्रतिजानीते । हेतुं व्याचष्टे—तदामननादिति । तथा ह्यामनन्ति—‘अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्’ ( ऐत० २।४ ) इत्यादि । अग्नेश्चायं वाग्भावो मुखप्रवेशश्च देवतात्मनाधिष्ठातृत्वमङ्गीकृत्योच्यते । नहि देवतामम्बन्धं प्रत्याख्यायाग्नेर्वाचि मुखे वा कश्चिद्विशेषसम्बन्धो दृश्यते । तथा ‘वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्’ ( ऐत० २।४ ) इत्येवमाद्यपि योजयितव्यम् । तथान्यत्रापि ‘वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च’ ( छ्दा० ३।१८।३ ) इत्येवमादिना वागादीनामग्न्यादिज्योतिष्टवचनेनैतमेवार्थं दृढयति । ‘स वै वाचमेव प्रथमामत्यपहत्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोऽग्निरभवत्’ ( बृ० १।३।१२ ) इति चैवमादिना वागादीनामग्न्यादिभावापत्तिवचनेनैतमेवार्थं द्योतयति । सर्वत्र चाध्यात्माधिदैवतविभागेन वागाद्यग्न्याद्यनुक्रमण-मन्यैव प्रत्यासत्त्या भवति ।

ऐसा प्राप्त होने पर यह कहा जाता है कि ( ज्योतिराद्यधिष्ठान तु ) इति । तु शब्द से पूर्वपक्ष व्यावृत्त किया जाता है । ज्योति आदि रूप अग्नि आदि के अभिमानी देवताओ से अधिष्ठित वाक् आदि करण समूह अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं । यह प्रतिज्ञा करते हैं । हेतु का व्याख्यान ( कथन ) करते हैं कि—( तदामननात् ) इति । जिससे श्रुतियाँ इसी प्रकार कहती हैं कि ( अग्नि वाक् होकर मुख में पैठ गई ) इत्यादि । अग्नि का यह वाग्भाव ( वाक् रूपत्व ) और मुख में प्रवेश, देवतारूप से अधिष्ठातृत्व का अङ्गीकार करके ही कहा जाता है जिससे देवताभाव से सम्बन्ध को त्याग कर अग्नि का वाक् में वा मुख में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं दीखता है । इसी प्रकार ( वायु प्राण होकर नासिकाओ में पैठा ) इत्यादि वचन भी योजना के योग्य हैं । इसी प्रकार अन्य स्थान में भी ( वाक् ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है, सो अग्निरूप ज्योति से दीप्त होता भासता है, तपता है, स्वकार्य करता है ) इत्यादि वाक् आदि के अग्निज्योतिष्टव ( अग्नि से प्रकाश्यत्व ) आदि वचन से भी इस अधिष्ठातृत्व अर्थ को ही श्रुति दृढ करती है । ( वह प्राण उद्दीय रूप कर्म में प्रथमा-प्रधान-वाक् को अनृतादि मृत्यु से मुक्त करके दूर ले गया । वाक् जब मृत्यु से मुक्त हुई तब वह अग्नि स्वरूप हो गई ) इत्यादि श्रुति भी वाक् आदि की अग्निरूपता की प्राप्ति के कथन द्वारा इस अर्थ का ही



द्योतन प्रकाशन करती है। ( मृतस्याग्नि वागप्येति, वातं प्राणः, चक्षुरादित्यम् )। मृत प्राणी की वाक् अग्नि मे लीन होती है। प्राण वायु मे लीन होता है, नेत्र सूर्य मे लीन होता है ) इत्यादि सभी स्थानो में अध्यात्म और अधिदैवत के विभाग द्वारा वाक् आदि का और अग्नि आदि का अनुक्रमण ( क्रमपूर्वक कथन ) इसी अधिष्ठातृ-अधिष्ठेयभावरूप प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) से होता है।

स्मृतावपि— वाग्ध्यात्ममिति प्राहुर्ब्राह्मणास्तत्त्वदर्शिनः।

वक्तव्यमधिभूतं तु वह्निस्तत्राधिदैवतम् ॥

इत्यादिना वागादीनामग्न्यादिदेवताधिष्ठितत्वं सप्रपञ्चं दर्शितम्। यदुक्तं स्वकार्यशक्तियोगात् स्वमहिम्नैव प्राणाः प्रवर्तेरन्निति। तदयुक्तम्। शक्तानामपि शकटादीनामनडुहाद्यधिष्ठितानां प्रवृत्तिदर्शनात्। उभयथोपपत्तौ चागमाद्देवताधिष्ठितत्वमेव निश्चीयते ॥ १४ ॥

स्मृति मे भी ( तत्त्वदर्शी ब्राह्मण वाक् को अध्यात्म इस शब्द से कहते है, और वक्तव्य वस्तु को अधिभूत कहते हैं, और वहाँ अग्नि अधिदैवत है ) इत्यादि वचनो द्वारा वाक् आदि को अग्नि आदि देवताओ से अधिष्ठितत्व को विस्तारपूर्वक दर्शन कराया गया है। जो यह कहा है कि इन्द्रियो को स्वकार्य मे शक्ति के योग से इन्द्रियां अपनी महिमा से ही प्रवृत्त होगी, यह कथन अयुक्त है, क्योंकि शक्तियुक्त भी शकट ( गाडी ) आदि की बैल आदि से अधिष्ठित होने पर प्रवृत्ति देखी जाती है। यद्यपि शकटादि को प्रवृत्ति अधिष्ठित होने पर होती है, क्षीरादि को दधि आदि रूप से प्रवृत्ति अधिष्ठाता के बिना भी देखी जाती है, इससे वाक् आदि की प्रवृत्ति की उभयथा उपपत्ति हो सकती है। तथापि आगम से देवता से अधिष्ठितत्व ही का निश्चय किया जाना है ॥ १४ ॥

यदप्युक्तं देवतानामेवाधिष्ठात्रीणां भोक्तृत्वप्रसङ्गे न शारीरस्येति तत्परि-  
ह्रियते—

प्राणवता शब्दात् ॥ १५ ॥

सतीष्वपि प्राणानामधिष्ठात्रीषु देवतासु प्राणवता कार्यकरणसंघातस्वामिना शारीरेणैवैषां प्राणानां संबन्धः श्रुतेरवगम्यते। तथाहि श्रुतिः—‘अथ यत्रैतद्वाकाशमनु विपण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्’ ( ब्रा० ८।१२।१४ ) इत्येवंजातीयका शारीरेणैव प्राणानां सम्बन्धं श्रावयति। अपि चानेकत्वात्प्रतिकरणमधिष्ठात्रीणां देवतानां न भोक्तृत्वमस्मिन्शरीरेऽवकल्पते। एको ह्येवमस्मिन्शरीरे शारीरो भोक्ता प्रतिसंधानादिसंभवादवगम्यते ॥ १५ ॥

जो यह कहा था कि अधिष्ठात्री देवताओं को ही भोग की प्राप्ति होगी शारीर ( जीवात्मा ) को भोग नहीं होगा, उसका परिहार किया जाता है कि—

प्राणो के अधिष्ठात्री देवताओ के रहते भी प्राणवाला कार्यकरणरूप संघात का स्वामी शारीर ( जीव ) के साथ ही इन प्राणो का स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध श्रुति से अवगत होता है । जिससे इस प्रकार की श्रुति है कि ( देह मे प्राण के प्रवेश के बाद में जिस गोलक में यह आकाश छिद्र मध्यभाग मे है, उसमे अनुविषरण ( प्रविष्ट ) चक्षु इन्द्रिय होता है । उस चक्षु मे वह चाक्षुष पुरुष आत्मा रहता है, और उसी के रूप के ज्ञान के लिये चक्षु है । जो यह समझता है कि यह सूक्ष्मता हूं वह आत्मा है, गन्ध के ज्ञान के लिये नासिका है । इस प्रकार की श्रुतियाँ शारीर के साथ ही प्राणो के सम्बन्ध का श्रवण कराती हैं । दूसरी बात है कि प्रत्येक करण मे अधिष्ठातृदेव के भिन्न होने के कारण अधिष्ठात्री देवताओं की अनेकता से उन अधिष्ठात्री देवताओं को इस अधिष्ठेय शरीर में भोक्तृत्व नहीं सिद्ध हो सकता है । जो मैंने रूप को देखा था, वह अब मैं शब्द सुनता हूँ इत्यादि प्रतिसंधानादि के सम्भव से इस शरीर मे एक ही शारीर भोक्ता अवगत होता है ॥ १५ ॥

### तस्य च नित्यत्वात् ॥ १६ ॥

तस्य च शारीरस्यास्मिन्शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वं पुण्यपापोपलेपसंभवात्सुखदुःखोपभोगसंभवाच्च न देवतानाम् । ता हि परस्मिन्नैश्वर्ये पदेऽवतिष्ठमाना न हीनेऽस्मिन्शरीरे भोक्तृत्वं प्रतिलब्धुमर्हन्ति श्रुतिश्च भवति—‘पुण्यमेवामुं गच्छति न ह वै देवान्पापं गच्छति’ ( बृ० १।५।३ ) इति । शारीरैणैव च नित्यः प्राणानां संबन्धः, उत्क्रान्त्यादिषु तदनुवृत्तिदर्शानात् । ‘तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति’ ( बृ० ४।४।२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तस्मात्सतीष्वपि करणानां नियन्त्रीषु देवतासु न शारीरस्य भोक्तृत्वमपगच्छति । करणपक्षस्यैव हि देवता न भोक्तृपक्षस्येति ॥ १६ ॥

देवताओ के शरीर मे रहते भी उन्हे इस अधिष्ठेय शरीर से कभी भोक्तृत्व नहीं होता है, जिससे पुण्यपाप के उपलेप ( सम्बन्ध ) के सम्भव से, और इसी कारण से सुखदुःखो के उपभोग के सम्भव से उस प्राणवाले शारीर को ही इस शरीर मे भोक्तृरूप से प्रारब्ध भोग पर्यन्त नित्यत्व ( भोक्तृरूप से सदा वर्तमानत्व ) रहता है, देवताओ की ऐसी वर्तमानता नहीं रहती है । देवता जिससे उत्तम ऐश्वर्य पद मे रहने वाली हैं । इससे हीन इस शरीर मे भोक्तृत्व को प्राप्त करने योग्य नहीं है । श्रुति भी है कि ( प्राजापत्य पद मे वर्तमान इस उपासक को पुण्य शुभ ही प्राप्त होता है, देवो को पाप का फल नहीं प्राप्त होता है ) और उत्क्रान्ति आदि मे शारीर आत्मा के साथ प्राणो की अनुवृत्ति ( अनुगमन ) देखने से प्राणों का शारीर के साथ ही नित्य सम्बन्ध है । वह ( उस जीव के उत्क्रमण करते ही प्राण पीछे उत्क्रमण करता है । प्राण के उत्क्रमण करते ही फिर सब प्राण ( इन्द्रियाँ ) उत्क्रमण करते हैं । इत्यादि श्रुतियो से सिद्ध होता है । इससे कारणो के नियन्त्री देवताओ के रहते भी शारीर का भोक्तृत्व

अवगत ( निवृत्त ) नहीं होता है । इससे प्रदीपादि के समान करणों के उपकारक होने से करण पक्ष के ही देव है, भोक्तृपक्ष के नहीं हैं ॥ १६ ॥

### इन्द्रियाधिकरण ॥ ८ ॥

प्राणस्य वृत्तयोऽज्ञाणि प्राणात्तत्त्वान्तराणि वा । तद्रूपत्वश्रुतेः प्राणनाम्नोक्तत्वाच्च वृत्तयः ॥१॥  
श्रमाश्रमादिभेदोक्तेर्गौणे तद्रूपनामनी । आलोचकत्वेनान्यानि प्राणो नेताऽच्चदेहयोः ॥२॥

श्रेष्ठ प्राण से अन्य वे वागादि प्राण से भिन्न और इन्द्रिय है, श्रेष्ठ प्राण के वृत्तिमात्र नहीं है, क्योंकि श्रुति में इस इन्द्रिय नाम से व्यवहार है । यहाँ सशय है कि मुख्य प्राण की वृत्ति ( अवस्था ) रूप अन्य इन्द्रियाँ है वा प्राण से तत्त्वान्तर हैं । पूर्वपक्ष है कि ( हन्तास्यैव सर्वे रूपमसाम ) इस श्रुति से अन्य प्राणों की मुख्य प्राण-रूपता के श्रवण से, तथा प्राण नाम द्वारा सब के व्यवहार से मुख्य प्राण की वृत्तिरूप ही वागादि हैं । सिद्धान्त है कि श्रुति में श्रम और श्रम के अभावादि के कथन से, अर्थात् मुख्य प्राण में श्रमादि के अभावादि के अन्य में श्रमादि के भावादि के कथन से भेद का कथन है, इससे तद्रूपता और प्राण नाम गौण हैं । विषयों को आलोचकत्व ( प्रदर्शकत्व ) रूप से इन्द्रियाँ अन्य हैं । देह और इन्द्रियों का नेता प्राण है ॥ १-२ ॥

### त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् ॥ १७ ॥

मुख्यश्चैक इतरे चैकादश प्राणा अनुक्रान्ताः । तत्रेदमपरं संदिह्यते किं मुख्यस्यैव प्राणस्य वृत्तिभेदा इतरे प्राणा आहोस्वित्तत्त्वान्तराणीति । किं तावन्प्राणं, मुख्यस्यैवेतरं वृत्तिभेदा इति । कुतः ? श्रुतेः । तथाहि श्रुतिर्मुख्यमितरांश्च प्राणान्संनिधाप्य मुख्यात्मतामितरेषां ख्यापयति—‘हन्तास्यैव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभवन्’ ( बृ० १।१।२१ ) इति । प्राणैकशब्दत्वाच्चैकत्वाध्यवसायः । इतरथा ह्यन्यायमनेकार्थत्वं प्राणशब्दस्य प्रसज्येत । एकत्र वा मुख्यत्वमितरत्र वा लाक्षणिकत्वमापद्येत । तस्माद्यथैकस्यैव प्राणस्य प्राणाद्याः पञ्च वृत्तय एवं वागाद्या अप्येकादशेति ।

एक मुख्य प्राण और ग्यारह अन्य प्राण अनुक्रान्त ( अनुक्रम से पठित ) हैं । वहाँ यह अन्य कुछ सशय का विषय होता है कि मुख्य ही प्राण के वृत्तिभेद ( अवस्था-भेद ) रूप अन्य प्राण हैं, अथवा तत्त्वान्तर हैं । विमर्श होता है कि प्रथम प्राण क्या होता है, पूर्वपक्ष है कि मुख्य प्राण के ही वृत्तिभेद रूप अन्य प्राण हैं । क्योंकि श्रुति से ऐसा ही सिद्ध होता है । जिससे मुख्य प्राण और इतर प्राणों को सन्निधि ( पास ) में स्थिर करके इतर प्राणों की मुख्य प्राणरूपता का श्रुति इस प्रकार ख्यापन ( कथन ) करती है कि—( वागादि कहते हैं कि हन्त इस समय हम इस मुख्य प्राण के स्वरूप हो जायें, और ऐसा सकल्प करके वे सब इस प्राण के स्वरूप हो गये ) और एक प्राण शब्दवाली सब इन्द्रियों के होने से, अर्थात् प्राणशब्द का वाच्यत्व होने से भी

सब मे एक प्राणरूपत्व का अव्यवसाय ( निश्चय ) होता है । अन्यथा ऐसा नहीं मानने पर अन्याय्यरूप अनेकार्थत्व प्राणशब्द को प्राप्त होगा । अथवा एक मे मुख्यत्व, और अन्य अर्थों मे लाक्षणिकत्व को प्राणशब्द प्राप्त होगा । उससे जैसे एक प्राण की प्राण अपान आदि पाँच वृत्तियाँ है । इसी प्रकार वाक् आदि भी ग्यारह वृत्तियाँ हैं ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—तत्त्वान्तराण्येव प्राणाद्वागदीनीति । कुतः ? व्यपदेश-भेदात् । कोऽयं व्यपदेशभेदः ? ते प्रकृताः प्राणाः श्रेष्ठं वर्जयित्वावशिष्टा एकादशेन्द्रियाणीत्युच्यन्ते श्रुतावेवं व्यपदेशदर्शनात् । 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' ( मु० २।१।३ ) इति ह्येवंजातीयकेषु प्रदेशेषु पृथक्प्राणो व्यपदिश्यते पृथक्चेन्द्रियाणि ननु मनसोऽप्येवंसति वर्जनमिन्द्रियत्वेन प्राणवत्स्यात्, मनः सर्वेन्द्रियाणि च' इति पृथग्व्यपदेशदर्शनात् । सत्यमेतत् । स्मृतौ त्वेकादशेन्द्रियाणीति मनोऽपीन्द्रियत्वेन श्रोत्रादिवत्संगृह्यते, प्राणस्य त्विन्द्रियत्वं न श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धमस्ति । व्यपदेशभेदश्चायं तत्त्वभेदपक्ष उपपद्यते तत्त्वैकत्वे तु 'स एवैकः सन्प्राण इन्द्रियव्यपदेशं लभते न लभते चे'ति विप्रति-पिद्धम् । तस्मात्तत्त्वान्तरभूता मुख्यादितरे ॥ १७ ॥

ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्राण से तत्त्वान्तर रूप ही वागादि हैं, क्योंकि व्यपदेशभेद से ऐसा ही सिद्ध होता है । यह व्यपदेशभेद क्या है, ऐसा प्रश्न का उत्तर है कि श्रेष्ठ के बिना उसे छोड़कर जो वे प्रकृत अवशिष्ट प्राण हैं वे एकादश इन्द्रिय इस शब्द से कहे जाते हैं । यही व्यपदेशभेद है । श्रुति मे ऐसा व्यपदेश देखने से अन्यत्र भी व्यपदेश होता है । ( इस पुरुष से प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है और सब इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं ) इस प्रकार के प्रदेशो मे पृथक् प्राण व्यपदिष्ट होता है और पृथक् इन्द्रियाँ व्यपदिष्ट होती हैं । शंका होती है कि इन्द्रियो से पृथक् प्राण के समान मन भी इन्द्रियो से पृथक् निदिष्ट है, इससे ऐसा होने पर प्राण के समान मन को भी इन्द्रियत्व धर्म से वर्जन ( रहित होना ) होगा । मन को भी इन्द्रियो से भेद होगा जिससे ( मनः सर्वेन्द्रियाणि च ) यह पृथक् निर्देश का दर्शन है । उत्तर है कि यह इन्द्रिय मे मन का भेद निर्देशादि सत्य ही है, तो भी स्मृति मे ( एकादशेन्द्रियाणि ) इस वचन मे मन भी श्रोत्रादि के समान इन्द्रिय रूप से संगृहीत किया जाता है । प्राण का इन्द्रियत्व तो श्रुति वा स्मृति मे प्रसिद्ध नहीं है । तत्त्वभेद पक्ष मे यह व्यपदेश का भेद उपपन्न होता है । और तत्त्व के एकत्व होने पर वही एक प्राण अनेक अवस्था वाला हाता हुआ वाक् आदि अवस्था मे इन्द्रिय व्यपदेश का लाभ करता है, प्राण, अपान आदि अवस्था में इन्द्रिय व्यपदेश का नहीं लाभ करता है यह विरुद्ध होगा, जिससे मुख्य प्राण से अन्य प्राण तत्त्वान्तर स्वरूप हैं । तथा ( एतस्माज्जायते प्राणः ) इत्यादि रूप एक वाक्य में एक प्राण पक्ष मे वही प्राण शब्द से कहा जाय, वही प्राण शब्द से नहीं कहा जाय किन्तु इन्द्रिय से कहा जाय यह विरुद्ध है इत्यादि जिससे तत्त्वभेद है ॥ १७ ॥

कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः मुख्यादितरे—

और किस हेतु से मुख्य से अन्य तत्त्वान्तर स्वरूप हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि—

**भेदश्रुतेः ॥ १८ ॥**

भेदेन वागादिभ्यः प्राणः सर्वत्र श्रूयते—‘ते ह वाचमूचुः’ ( बृ० १।३।२ ) इत्युपक्रम्य वागादीनसुरपाप्मविध्वस्तानुपन्यस्योपसंहृत्य वागादिप्रकरणम् ‘अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः’ इत्यसुरविध्वंसिनो मुख्यस्य प्राणस्य पृथगुपक्रमणात् । तथा ‘मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुरुत’ इत्येवमाद्या अपि भेदश्रुतय उदाहर्तव्याः । तस्मादपि तत्त्वान्तरभूता मुख्यादितरे ॥ १८ ॥

वाक् आदि से भेदयुक्त सर्वत्र प्राण सुना जाता है ( उन देवो ने वाक् से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गान करो ) इस प्रकार आरम्भ करके । असुर रूप पापो से विध्वस्त वाक् आदि का उपन्यास करके वाक् आदि के प्रकरण का उपसंहार ( समाप्ति ) करके ( उसके अनन्तर काल में आस्य मुझ में रहने वाले प्राण को सब देवो ने कहा ) इस प्रकार असुरो का विध्वंस करने वाला प्राण के पृथक उपक्रमण से मुख्य से तत्त्वान्तर स्वरूप इन्द्रियों है । इसी प्रकार ( मन, वाक् और प्राण उन तीनों को प्रजापति ने अपने लिए किया ) इत्यादि भेद श्रुति भी उदाहरण के योग्य हैं । जिससे भी मुख्य से अन्य तत्त्वान्तर स्वरूप हैं ॥ १८ ॥

कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः मुख्यादितरे—

और किस हेतु से अन्य प्राण तत्त्वान्तर स्वरूप है—

**वैलक्षण्याच्च ॥ १९ ॥**

वैलक्षण्यं च भवति मुख्यस्येतरेषां च । सुषुप्तेषु वागादिषु मुख्य एको जागर्ति स एव चैको मृत्युनाऽनाम आप्रास्त्वितरे । तस्यैव च स्थित्युत्क्रान्तिभ्यां देहधारणपतनहेतुत्वं नेन्द्रियाणाम् , विषयालोचनहेतुत्वं चेन्द्रियाणां न प्राणस्येत्येवंजातीयको भूयांल्लक्षणभेदः प्राणेन्द्रियाणाम् । तस्मादप्येषां तत्त्वान्तरभावसिद्धिः । यदुक्तम्—‘त एतस्यैव सर्वे रूपमभवन्’ ( बृ० १।१५।२१ ) इति श्रुतेः प्राण एवेन्द्रियाणि—इति, तदयुक्तम् । तत्रापि पौर्वापर्यालोचनाद्भेदप्रतीतेः । तथाहि—‘वद्विद्याम्येवाहमिति वाग्दध्रे’ ( बृ० १।१५।२१ ) इति वागादीनीन्द्रियाण्यनुक्रम्य ‘तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तस्माच्छ्राम्यत्येव वाक्’ इति च श्रमरूपेण मृत्युना अस्तत्वं वागादीनामभिधाय ‘अथेममेव नाप्नोद्योऽयं मध्यमः प्राणः’ ( बृ० १।१५।२१ ) इति पृथक्प्राणं मृत्युनानभिभूतं तमनुक्रामति । ‘अयं वै नः श्रेष्ठः’ ( बृ० १।१५।२१ ) इति च श्रेष्ठतामस्यावधारयति । तस्मात्तदविरोधेन वागादिषु परिस्पन्दलाभस्य प्राणायत्तत्वं तद्रूपभवनं वागादीनामिति मन्तव्यं न तादात्म्यम् । अत एव च प्राणशब्दस्येन्द्रियेषु लाक्षणिकत्वसिद्धिः ।

तथा च श्रुतिः—त एतस्यैव सर्वे रूपसंभवन्, तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणाः? ( बृ० २।१२।१ ) इति मुख्यप्राणविषयस्यैव प्राणशब्दस्येन्द्रियेषु लाक्षणिकीं वृत्तिं दर्शयति । तस्मात्तत्त्वान्तराणि प्राणादीन्द्रियाणीति ॥ १६ ॥

मुख्य प्राण और इतर प्राण को परस्पर विलक्षणता है । वाक् आदि के सोने पर एक मुख्य प्राण जागता है । वही एक मुख्य प्राण मृत्यु से अगृहीत है, अन्य गृहीत हैं । उसी को स्थिति और उत्क्रान्ति द्वारा देह के धारण और पतन का हेतुत्व है । इन्द्रियों को देह धारणादि का हेतुत्व नहीं है । और विषयो के आलोचन ( ज्ञान ) का हेतुत्व इन्द्रियों को है, प्राण को नहीं है, इस प्रकार का प्राण और इन्द्रियों के लक्षण का भेद बहुत है । उससे भी इन इन्द्रियों के तत्त्वान्तरभाव ( भेद ) की सिद्धि होती है । जो यह कहा था कि ( वे सब इन्द्रियाँ इस मुख्य प्राण के स्वरूप हो गयी ) इस श्रुति से प्राण ही रूप इन्द्रियाँ हैं यह कथन अयुक्त है क्योंकि वहाँ भी पूर्वापर के आलोचन ( विचार दर्शन ) से भेद की प्रतीति होती है, वह इस प्रकार है कि ( वाक् ने व्रत का निश्चय किया कि मैं बोलूंगी ही, मैं अपने व्यापार से उपरत नहीं हो सकती ) इस प्रकार वाक् आदि इन्द्रियों का अनुक्रमण करके ( उनको मृत्यु श्रम रूप होकर ग्रहण किया जिससे वाक् श्रान्त होती ही है ) इस प्रकार श्रम रूप से मृत्यु द्वारा वाक् आदि के ग्रस्तत्व का कथन करके ( फिर इसी को मृत्यु नहीं प्राप्त हुआ कि जो यह मध्यम प्राण है ) इस प्रकार मृत्यु से अनभिभूत पृथक् उस प्राण का अनुक्रमण श्रुति करती है कि ( यह हम सब में श्रेष्ठ है ) और इससे श्रेष्ठता का अवधारण कराती है जिससे उस श्रेष्ठता के साथ अविरोधपूर्वक वाक् आदि में परिस्पन्द लाभ को प्राणाधीनत्व वाक् आदि का उस प्राणरूप होना है, ऐसा मानना चाहिए, तादात्म्य ( अभेद ) नहीं मानना चाहिये । इस प्राणाधीनता से ही प्राण शब्द को इन्द्रियों में लाक्षणिकत्व की सिद्धि होती है और इसी प्रकार श्रुति कहती है कि ( वे वाक् आदि सब इस मुख्य प्राण के रूप हो गये जिससे ये वाक् आदि इस प्राण के वाचक शब्द से कहे जाते हैं ) इस प्रकार यह श्रुति मुख्य प्राणविषयक ही प्राण शब्द की वाक् आदि में लाक्षणिकी वृत्ति को दर्शाती है, जिससे प्राण से इन्द्रियाँ तत्त्वान्तर हैं ॥ १९ ॥

### संज्ञामूर्तिबलरूपत्यधिकरण ॥ ९ ॥

नामरूपव्याकरणो जीवः कर्ताथ वेश्वरः । अनेन जीवेनेत्युक्तेर्व्याकर्ता जीव इत्येते ॥ १ ॥  
जीवान्वयः प्रवेशेन सन्निधेः सर्वसर्जने । जीवोऽशक्तः शक्त ईश उत्तमोक्तिस्तथेच्छितुः ॥ २ ॥

उत्पत्ति और उत्पादना दो प्रकार का व्यापार होता है । उत्पत्ति रूप व्यापार कार्य में रहता है । उत्पादना कर्ता में रहता है, इसी को मीमांसक आर्याभावना कहते हैं । वहाँ जगत् की उत्पत्ति विषयक श्रुति के विरोध का परिहार अतीत दो पाद से किया गया है । इस समय उत्पादनाविषयक श्रुति विरोध का परिहार करते हैं । वहाँ भी सूक्ष्म भूतो की उत्पादना ईश्वर के व्यापार रूप श्रुतियों में अति प्रसिद्ध है । स्थूल भूतो की

उत्पादना में विरोध है जिसके निवारण के लिए सूत्रकार कहते हैं कि यद्यपि ( जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ) इसमें प्रतीत होना है कि स्थूल नामरूप का व्याकर विस्तारकर्ता जीव है, परन्तु वहाँ भी ( अहं करवाणि ) मैं कहूँगा इस कथन से, तथा अन्य उपदेश से त्रिवृत कर्ता ईश्वर का नाम और रूप की क्लृप्ति ( उत्पादना ) रूप व्यापार है, जीव का नहीं है। संशय है कि नाम और रूप के व्याकरण में जीव कर्ता है, अथवा ईश्वर कर्ता है। पूर्वपक्ष है कि ( अनेन जीवेन ) इस कथन से नाम रूप का विस्तारकर्ता जीव इष्ट है। सिद्धान्त है कि जीव का अन्वय ( सम्बन्ध ) केवल प्रवेश क्रिया के साथ समीपता से है, व्याकरण क्रिया के साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ उत्तम पुरुष की उक्ति है कि मैं कहूँगा। दूसरी बात है कि सबके सर्जन ( उत्पादना ) में जीव असमर्थ है, ईश्वर ही समर्थ है ॥ १-२ ॥

### संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् ॥ २० ॥

सत्प्रक्रियायां तेजोवन्नानां सृष्टिमभिधायोपदिश्यते—‘सेयं देवतैक्षत हन्ता-हमिमास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति, तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति’ ( छा० ६।३।२ )। तत्र संशयः—किं जीवकर्तृकमिदं नामरूपव्याकरणमाहोस्वित्परमेश्वरकर्तृकमिति। तत्र प्राप्तं तावज्जीवकर्तृकमेवेदं नामरूपव्याकरणमिति। कुतः? ‘अनेन जीवेनात्मना’ इति विशेषणान्। यथा लोके चारणाहं परसैन्यमनुप्रविश्य संकलयानीत्येवं-जातीयके प्रयोगे चारकर्तृकमेव सत्सैन्यसंकलनं हेतुकर्तृत्वाद्वाजात्मन्यध्यारोपयति संकलयानीत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण, एवं जीवकर्तृकमेव संज्ञामरूपव्याकरणं हेतुकर्तृत्वाद्देवतात्मन्यध्यारोपयति व्याकरवाणीत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण। अपि च द्वित्थद्वित्थादिषु नामसु घटशरावादिषु च रूपेषु जीवस्यैव व्याकर्तृत्वं दृष्टम्। तस्माज्जीवकर्तृकमेवेदं नामरूपव्याकरणम्।

सन् ब्रह्म के निरूपण की प्रक्रिया ( प्रकरण ) में तेज, जल और अन्न ( भूमि ) की सृष्टि का कथन करके उपदेश दिया गया है कि ( सो यह सदात्मा रूप देव ने आलोचन विचार किया कि अब इस समय मैं इन तीन देवताओं में इस जीवात्मा रूप से प्रवेश करके नाम रूप का विस्तार कहूँगा। उन तीनों देवों में से एक एक को विभागपूर्वक समिश्रण द्वारा तीन तीन रूपों से युक्त कहूँगा ) वहाँ संशय है कि यह नाम रूप का व्याकरण जीवकर्तृक है, अर्थात् नाम रूप व्याकरण का जीव कर्ता है, अथवा यह व्याकरण ईश्वर कर्तृक है, अर्थात् ईश्वर इसका कर्ता है। वहाँ प्रथम प्राप्त होता है कि यह नाम और रूप का व्याकरण जीवकर्तृक ( जीवकृत ) है। क्योंकि ( इस जीवात्मा द्वारा नाम रूप का व्याकरण कहूँगा ) ऐसा सम्बन्ध होने से जीवात्मत्व कर्ता का विशेषण रूप है। इससे जैसे लोक में कोई राजा कहता है कि चार ( गूढ पुरुष ) द्वारा

मैं पर ( शत्रु ) की सेना संघ में प्रवेश करके शत्रु की सेना संघ का संकलन ( परिगणन ) करूँगा । वहाँ इस प्रकार के प्रयोग में चार कर्तृक ही परसेनासमूह का संकलन होता हुआ भी हेतु ( प्रयोजक ) रूप कर्ता होने से राजा अपने आत्मा में कर्तृत्व का अध्यारोप करता है, उत्तम पुरुष के प्रयोग से कहता है कि मैं संकलन करूँगा, यह अध्यारोप है । इसी प्रकार नाम रूप व्याकरण के जीवकर्तृक ही होते भी, हेतु रूप कर्ता होने से व्याकरण करूँगा इस प्रकार उत्तम पुरुष के प्रयोग द्वारा सत्यात्मा रूप देवता अपने आत्मा में कर्तृत्व का अध्यारोप करता है । इत्थि डवित्य आधुनिक नामों में और घट, शराव आदि रूपों में जीव का ही कर्तृत्व दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) है । इन नाम रूपों को कर्ता हुआ जीव प्रत्यक्ष देखा जाता है, जिससे नाम रूप का यह स्पष्ट विस्तार जीव ही का किया हुआ है ।

इत्येवं प्राप्तेऽभिधत्ते—‘संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु’ इति । तुशब्देन पक्षं व्यावर्तयति । संज्ञामूर्तिक्लृप्तिरिति नामरूपव्याक्रियेत्येतत् त्रिवृत्कुर्वत इति परमेश्वरं लक्षयति, त्रिवृत्करणे तस्य निरपवादकर्तृत्वनिर्देशात् । येयं संज्ञाक्लृप्तिर्मूर्तिक्लृप्तिश्चाभिरादित्यश्चन्द्रमा विद्युदिति तथा कुशकाशपलाशादिषु पशुमृगमनुष्यादिषु च प्रत्याकृति प्रतिव्यक्ति चानेकप्रकारा, सा खलु परमेश्वरस्यैव तेजोवन्नानां निर्मातुः कृतिर्भवितुमर्हति । कुतः ? उपदेशात् । तथाहि—‘सेयं देवतैक्षत’ इत्युपक्रम्य ‘व्याकरवाणि’ इत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण परस्यैव ब्रह्मणो व्याकर्तृत्वमिहोपदिश्यते ।

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं कि ( संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु ) इति । वहाँ तु शब्द से पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करते हैं । संज्ञामूर्तिक्लृप्ति शब्द का नामरूप का व्याकरण अर्थ है । त्रिवृत् कुर्वतः, यह शब्द परमेश्वर का लक्ष ( बोध ) कराता है, क्योंकि त्रिवृत् करने में उस परमेश्वर के ही निरपवाद ( बाधरहित ) कर्तृत्व का श्रुति में निर्देश है । इससे अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा, विद्युत्, इस प्रकार की, तथा कुश, काश, पलाश आदि में और पशु, मृग, मनुष्य आदि में जो प्रत्येक आकृति ( जाति ) में और प्रत्येक व्यक्ति में नाना प्रकार की संज्ञा की क्लृप्ति ( अभिव्यक्ति सिद्धि ) है । मूर्ति की क्लृप्ति है । इसलिए सब क्लृप्ति तेज जल और अन्न का निर्माता परमेश्वर ही की कीर्ति होने योग्य है । क्योंकि उपदेश से ऐसा ही सिद्ध होता है । इसी प्रकार का उपदेश है कि ( उस देवता ने विचार किया ) इस प्रकार उपक्रम करके ( व्याकरण करूँगा ) इस प्रकार उत्तम पुरुष के प्रयोग से परब्रह्म का ही यहाँ व्याकरण का कर्तारूप से उपदेश दिया जाता है ।

ननु जीवेनेति विशेषणाज्जीवकर्तृकत्वं व्याकरणस्याध्यवसितम् । नैतदेवम्, जीवेनेत्येतदनुप्रविश्येत्येनेन संबध्यते आनन्तर्यात्, न व्याकरवाणीत्यनेन,



तेन हि संबन्धे व्याकरवाणीत्ययं देवताविषय उत्तमपुरुष औपचारिकः कल्पयेत्, नच गिरिनदीसमुद्रादिषु नानाविधेषु नानारूपेष्वनीश्वरस्य जीवस्य व्याकरण-सामर्थ्यं मस्ति, येष्वपि चास्ति सामर्थ्यं तेष्वपि परमेश्वरायत्तमेव तत् । न च जीवो नाम परमेश्वरादत्यन्तभिन्नश्चर इव राज्ञः, आत्मनेति विशेषणात्, उपाधिमात्रनिबन्धनत्वाच्च जीवभावस्य । तेन तत्कृतमपि नामरूपव्याकरणं परमेश्वरकृतमेव भवति, परमेश्वर एव च नामरूपयोर्व्याकर्तृति सर्वोपनिषत्सिद्धान्तः 'आकाशो ह वै नाम नामरूपयानिर्वहिता' ( छा० ८।१।४।१ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तस्मात्परमेश्वरस्यैव त्रिवृत्कृतः कर्म नामरूपयोर्व्याकरणम्, त्रिवृत्करणपूर्वकमेवेदमिह नामरूपव्याकरणं विवक्ष्यते, प्रत्येकं नामरूपव्याकरणस्य तेजोबन्धो-त्पत्तिवचनेनैवोक्तत्वात् ।

शंका होती है कि जीवेन, इस विशेषण से व्याकरण की कर्तृता जीव को निश्चित हुई है । यहाँ उत्तर है कि यह कर्तृत्व इस प्रकार जीव को नहीं है । अनन्तरता से जीवेन यह पद अनुप्रविश्य इसी क्रिया के साथ सम्बद्ध होता है, व्याकरवाणि, इसके साथ नहीं सम्बद्ध होता है, क्योंकि जीवेन इसको व्याकरवाणि इसके साथ सम्बन्ध होने पर, देवता विषयक उपकरवाणि यह इस प्रकार उत्तम पुरुष का प्रयोग गौण कल्पित ( सिद्ध ) होगा । देवता गौणकर्ता हो, जीव ही मुख्य कर्ता हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि गिरि ( पर्वत ) नदी, समुद्रादि नाना प्रकार के नामरूपों के व्याकरण में अनीश्वर जीव को व्याकरणक्रिया की शक्ति नहीं है । जिसमें शक्ति है भी उसमें भी वह सामर्थ्य ईश्वराधीन ही है । शंका होती है कि ( अनुप्रविश्य करवाणि ) पैठकर करता हूँ । इस प्रकार एक कर्ता के रहते पूर्वकालिक क्रिया अर्थ में क्त्वा प्रत्यय होता है, यदि प्रवेश का कर्ता जीव है, व्याकरण का कर्ता देव है, तो क्त्वा नहीं होना चाहिये । इससे उत्तर है कि जैसे राजा से चार अत्यन्त भिन्न होता है, वैसे परमेश्वर से अत्यन्तभिन्न जीव नामवाला नहीं है, इसलिए आत्मना इस विशेषण से सिद्ध होता है । उपाधि मात्र निमित्तक परमेश्वर में ही जीवभाव के होने से भी जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं है । इससे उस जीव से किया गया भी नाम रूप का व्याकरण परमेश्वर कृत ही होता है । परमेश्वर ही नाम और रूप का व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) कर्ता है, यह सब उपनिषदों का सिद्धान्त है । अतः ( आकाश—विभ्रु ब्रह्मात्मा ही नाम और रूप का निर्वाहता—निर्वाहसिद्धि कर्ता है ) इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है । इससे त्रिवृत् करने वाले परमेश्वर के ही नाम और रूप का व्याकरण रूप कर्म ( व्यापार ) है । परमेश्वर से अभिन्न होते भी औपाधिक भेदवाले जीव का यह कर्म नहीं हो सकता है । तेज, जल, अन्न की उत्पत्ति के कथन से ही प्रत्येक नाम रूप के उक्त होने से, सूक्ष्म महाभूत सृष्टि के कथित होने से, यहाँ इस व्याकरण वाक्य में त्रिवृत्करणपूर्वक यह भौतिक ही नाम और रूप का व्याकरण विवक्षित होता है ।

तच्च त्रिवृत्करणमग्न्यादित्यचन्द्रविद्युत्सु श्रुतिर्दर्शयति—‘यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य’ ( छा० ६।१।१ ) इत्यादिना । तत्राग्निरितीदं रूपं व्याक्रियते । सति च रूपव्याकरणे विषयप्रतिलम्भादग्निरितीदं नाम व्याक्रियते । एवमेवादित्यचन्द्रविद्युत्स्वपि द्रष्टव्यम् । अनेन चाग्न्याद्युदाहरणेन भौमाम्भसतैजसेषु त्रिष्वपि द्रव्येष्वविशेषेण त्रिवृत्करणमुक्तं भवति, उपक्रमोपसंहारयोः साधारणत्वात् । तथाह्यविशेषेणैवोपक्रमः—‘इमास्तिस्त्रो देवतास्त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति’ ( छा० ६।३।४ ) इति । अविशेषेणैव चोपसंहारः—‘यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपम्’ इत्येवमादिः, ‘यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानां समास इति’ ( छा० ६।१।६।७ ) एवमन्तः ॥ २० ॥

उस त्रिवृत् करण को अग्नि, आदित्य, चन्द्र और विद्युत् मे, श्रुति दर्शाती है कि ( जो अग्नि का रोहित—रक्त रूप है, वह रूप तेज का भाग स्वरूप है, जो अग्नि का शुक्ल रूप है, वह जल का है । जो कृष्ण रूप है वह अन्न ( भूमि का है ) इत्यादि वचनों से श्रुति दर्शाती है । वहाँ अग्नि इस प्रकार यह अग्नि रूप वस्तुव्याकृत किया जाता है । फिर रूप व्याकरण के होने पर विषय के प्रतिलाभ ( प्राप्ति ) से अग्नि इस प्रकार नाम व्याकृत किया जाता है । इसी प्रकार आदित्यचन्द्र और विद्युत् मे भी नाम और रूप का व्याकरण समझना चाहिये । इस अग्नि आदि उदाहरण से ही पाथिव, जलीय और तैजस तीनों द्रव्यों मे अविशेष ( तुल्य ) रूप से त्रिवृत्करण उक्त होता है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार मे साधारणता है, तीनों के त्रिवृत्करण की चर्चा उपक्रम और उपसंहार मे है । इस प्रकार अविशेष रूप से उपक्रम है कि ( इन तीनों देवताओं मे एक एक त्रिवृत्-त्रिवृत् होती हैं । अविशेष रूप से ही उपसंहार है कि ( विशेष रूप से अगृहीत होने से जो रोहित के समान हुआ ( विद्वानो को रक्त सा प्रतीत हुआ । वह तेज का रूप है ) इत्यादि । ( जो सर्वथा अविज्ञात अदृष्ट के समान हुआ वह भी इन तीन देवताओ का ही समास ( समूह ) रूप है । यहाँ तक अविशेष रूप से उपसंहार है ।

तासां तिस्रूपां देवतानां वहिस्त्रिवृत्कृतानां सतीनामध्यात्ममपरं त्रिवृत्करणमुक्तम्—‘इमास्तिस्त्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति’ ( छा० ६।१।७ ) इति । तदिदानीमाचार्यो यथाश्रुत्येवोपदर्शयत्याशङ्कितं कञ्चिद्दोष परिहरिष्यन्—

बाहर त्रिवृत्कृत रूप से वर्तमान उन तीनों देवताओ का शरीर सम्बन्धी अन्य त्रिवृत्करण कहा हुआ है कि [ ये तीनों देवता पुरुष ( शरीर ) को प्राप्त होकर एक-एक त्रिवृत्-त्रिवृत् होती हैं ] आशङ्कित किसी दोष का आगे परिहार करने वाले आचार्य उस शरीर सम्बन्धी त्रिवृत्करण को श्रुति के अनुसार ही उपदर्शाते हैं कि—

## मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥

भूमेस्त्रिवृत्कृतायाः पुरुषेणोपभुज्यमानाया मांसादिकार्यं यथाशब्दं निष्पद्यते । तथाहि श्रुतिः—‘अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः’ ( छा० ६।१।१ ) इति । त्रिवृत्कृता भूमिरेवैषा त्रीहियवाद्यन्नरूपेणाद्यत इत्यभिप्रायः । तस्याश्च स्थविष्ठं रूपं पुरीषभावेन बहिर्निर्गच्छति । मध्यममध्यात्मं मांसं वर्धयति । अणिष्ठं तु मनः । एवमितरयोरप्रेजसोर्यथाशब्दं कार्यमवगन्तव्यम् । एवं मूत्रं लोहितं प्राणश्चापां कार्यम् । अस्थि मज्जा वाक्तेजस इति ॥ २१ ॥

पुरुष ( शरीरी ) से उपभुज्यमान उपभुक्त अन्न आदि रूप त्रिवृत्कृत भूमि के मांसादि रूप कार्य शास्त्र के अनुसार सिद्ध होते हैं जिससे इसी प्रकार श्रुति कहती है कि ( उपभुक्त अन्न तीन प्रकार से विभक्त होता है, उसका जो अत्यन्त स्थूल भाग होता है वह पुरीष-मल, होता है, मध्यम भाग होता है वह मांस होता है, जो अत्यन्त अणु सूक्ष्म धानु ( भाग पदार्थ ) होता है, वह मन होता है । अभिप्राय है कि त्रिवृत्कृत यह भूमि ही त्रीहियवादि अन्न रूप से सिद्ध होने पर खाई जाती है, और उसका अति स्थूल रूप विष्टा रूप से बाहर निकलता है । मध्यम रूप शरीर के मांस को बढ़ाता है । सूक्ष्म रूप मन को बढ़ाता है । इसी प्रकार भूमि से अन्य जल और तेज का भी शब्द ( श्रुति ) के अनुसार कार्यं समझना चाहिये कि इसी प्रकार मूत्र, रक्त—रुधिर और प्राण जल के कार्य हैं । हाड, मज्जा, और वाक् तेज के कार्य हैं ॥ २१ ॥

अत्राह—यदि सर्वमेव त्रिवृत्कृतं भूतभौतिकमविशेषश्रुतेः ‘तासां त्रिवृत् त्रिवृत्मेकैकामकरोत्’ इति, किंकृतस्तर्ह्ययं विशेषव्यपदेशः ‘इदं तेज इमा आप इदमन्नम्’ इति । तथा ‘अध्यात्ममिदमन्नस्याशितस्य कार्यं मांसादि इदमपां पीतानां कार्यं लोहितादि इदं तेजसोऽशितस्य कार्यमस्थ्यादि’ इति अत्रोच्यते—

यहाँ कोई कहते हैं ( उन देवताओ मे से एक-एक को त्रिवृत्-त्रिवृत् किया ) इस अविशेष ( सामान्य ) श्रुति से यदि सभी भूत भौतिक वस्तु त्रिवृत्कृत हैं । तो यह तेज है यह जल है, यह अन्न है । यह विशेष भेद का व्यपदेश ( व्यवहार ) किस हेतु से होता है । इसी प्रकार शरीर सम्बन्धी ये मांसादि भुक्त अन्न के कार्य हैं । ये लोहितादि पीये गये जल के कार्य हैं । ये हाड आदि भुक्त घृतादि रूप तेज के कार्य हैं, यह भी विशेष व्यपदेश किंकृत ( किस हेतुजन्य ) होता है । यहाँ उत्तर कहा जाता है कि—

## वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॥ २३ ॥

तु शब्देन चोदितं दोषमपनुदति । विशेषस्य भावो वैशेष्यम्, भूयस्त्वमिति यावत् । सत्यपि त्रिवृत्करणे क्वचित्कस्यचिद्भूतधातोर्भूयस्त्वमुपलभ्यते

‘अग्नेस्तेजोभूयस्त्वमुदकस्याब्भूयस्त्वं पृथिव्या अन्नभूयस्त्वम्’ इति । व्यवहार-  
प्रसिद्धार्थं चेदं त्रिवृत्करणम् । व्यवहारश्च त्रिवृत्कृतरज्जुवेदकत्वापत्तौ सत्यां न  
भेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्य प्रसिद्धचेत् । तस्मात्सत्यापि त्रिवृत्करणे वैशेष्या-  
देव तेजोबन्नाविशेषवादे भूतभौतिकविषय उपपद्यते । तद्वादस्तद्वाद इति पदा-  
भ्यासोऽध्यायपरिसमाप्तिं द्योतयति ॥ २२ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृतौ  
शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥

इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्येऽविरोधाख्यो द्वितीयोऽध्यायः ॥



तु शब्द से शक्ति दोष का निवारण करते हैं । विशेष के भाव को वैशेष्य कहते  
हैं । अर्थात् भूयस्त्व ( आधिक्य ) रूप विशेष भाव और वैशेष्य है । त्रिवृत् करण के  
होने पर भी कहीं किसी भूतरूप धातु ( पदार्थ ) का भूयस्त्व ( आधिक्य ) उपलब्ध होता  
है । जैसे कि अग्नि का तेज आधिक्य, उदक का अवाधिक्य, पृथिवी का अन्नाधिक्य उप-  
लब्ध होता है । त्रिवृत्करणे पर भी स्वस्वभाग की विशेषता की गई है, वह इसलिये  
की गई है कि व्यवहार की प्रसिद्धि के लिये यह त्रिवृत्करण होता है । त्रिवृत्कृत् रज्जु  
( रस्सी डोरी ) के समान तीनों भूतों के एकत्व की प्राप्ति होने पर तीन भूतविषयक  
भेदपूर्वक लोक का व्यवहार नहीं सिद्ध होगा । इससे त्रिवृत्करण के होने पर भी वैशेष्य  
से ही तेज, जल और अन्न यह विशेषवाद ( भेदव्यवहार ) भूतभौतिक पदार्थ विषयक  
उपपन्न ( सिद्ध ) होता है ( तद्वादः ) इस पद का अभ्यास दो बार पाठ अध्याय  
की परिसमाप्ति का द्योतन करता है ॥ २२ ॥

नमामि सच्चिदानन्दं सर्वात्मानमखण्डितम् । कुर्वाण स्वप्रवद्विधमसङ्गं सर्वदा स्थितम् ॥१॥  
सामान्येन विशेषेण समन्वयो यथाविधि । आद्याध्याये ह्यशेषेण वेदान्तानां निरूपितः ॥२॥  
द्वितीयाध्याय उक्ता ये पूर्वपक्षास्तथैव च । एकदेशिमत्तं तद्धि सर्वमन्वयबाधकम् ॥३॥  
सिद्धान्तस्तु पुनस्तत्र समन्वयस्य साधकः । इति संक्षेपतश्चात्र सङ्गतिर्बुधसम्मता ॥४॥

इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्येऽविरोधाख्यो द्वितीयोऽध्यायः ।